



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 60]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सं. 20-08/2016 -के.पं. (कर्नाटक).—जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो कर्नाटक राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 (3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में कर्नाटक राज्य रजिस्टर में 01 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2013 तक क्रम संख्या 203280 आयुर्वेद एवं 29600 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 208073 आयुर्वेद एवं 29902 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है।

प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./424/16]

**टिप्पणी:**—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2013 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (कर्नाटक) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को 30 दिन के अन्दर सूचित किया जाए।

**भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका****कर्नाटक****भाग-1 आयुर्वेद**

के. पं. संख्या	नाम एवं पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/पंजीयन तिथि	पता
203280	ए.सी. किरणदीप यादव ए.सी. चित्रालींगास्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28903 20.04.12	अगलाकोट, गोल्लनहाटी, मंगल तालुक, रामनगर

203281	आमीना नूरायेनी दस्तागीर बासा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24810 05.06.09	1013, द्वितीय मेन द्वितीय क्रॉस, एस. नीलानीगप्पा लेआउट दावनगेरे
203282	आरती बासवाराज पाटने	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29246 15.05.12	नं. 28/461, सत्ताईसवां खंड, बास्वाकल्याण, बीदर
203283	आरती साहेब गौड़	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27170 18.03.11	नियर संगम बार, बासवा नगर, बीजापुर रोड़, सीन्दानुर तालुक, बीजापुर
203284	असानेकर अमोल मारुति असानेकर एम. सखाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24139 22.04.09	मृत्युजंय नगर, बलीहोंगली, तालुक, बेलगांव
203285	अब्दुल आसीफ यू. ईब्राहिम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28801 11.04.12	13/66, अलेकाला, उल्लाई पोस्ट, मंगलोर तालुक, डी. के.
203286	अब्दुल हफीज़ तमीजुदीन शैख तमीजुदीन एम. शैख	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30377 21.05.13	सी.इस. नं. 237, मदीना मोहल्ला, जाकिर हुसैन रोड़, पोस्ट एवं शीरपुर
203287	अब्दुल रहमान बी. बाशा एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29825 18.10.12	सी. 22, प्रथम क्रॉस, तृतीय मेन, सामने ए.आर.एस. इंकलेव, होसपेट तालुक बैल्लारी
203288	अब्दुल राशिद अब्दुल सुभान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29236 15.05.12	डेक्कन मेडिकल स्टोर, मेन रोड़, ओनासागी पोस्ट, सुरपुर तालुक, यादगीर
203289	अभीजित भगत शिवाजी आर. भगत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26746 02.07.10	811, नजदीक पोस्ट आफिस, हुपली, ग्राम व पत्रालय, बेलगांव
203290	अभीजित जी. सी. एम. गंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29985 06.04.13	एडवोकेट, टी. बी. रोड़, क्रॉस काडूर
203291	अभीलाषा कोन्डरू मधू सूदन राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27658 02.04.11	बस डीपो के पीछे, राजाजीनगर, होसपेट, तालुक बैल्लारी
203292	अभीलेखा दोवलप्पा डी दुम्मल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30125 19.04.13	बासावेश्वारा गली, नजदीक पुराना पोस्ट आफिस, रेचुर देवदुर्गा
203293	अभीशा ए. गडेनावर अनन्त ए. गडेनावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30361 20.05.13	सी. आर. एस. नं. -106/ए, एम. जी. रोड़, तिलकवाडी, बेलगांव
203294	अभीषंक अशोक मनी अशोक पी मनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27521 28.03.11	विद्यानगर, मुदेनगर, पोस्ट एवु तालुक, बीजापुर
203295	अभीशेक शर्मा अमर कान्त शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26173 22.03.10	नजदीक पोस्ट आफिस, बैंकपुर, शीगुन तालुक हवेरी
203296	अभीषेक रमन्ना गौरा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27158 18.03.11	ए नं. गनेकल, देवादुर्गा, तालुक, रायचुर

203297	अभिषेक वाई शेदटी यथीश शेदटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25947 17.03.10	मकान संख्या 1-32, कार स्ट्रीट उप्पीननगड्डी, दक्षिणा कन्नड़
203298	अभिषेखर छत्ररप्पा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27159 18.03.11	टी-21-22, मधुल्लेग निवास, टीचन कालोनी, बस्वाकल्याण, बीदर
203299	अचला राव ए. अमरनाथ. एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24215 28.04.09	204, राजेशवरी अपार्टमेन्ट, केशवपुर, हूबली तालुक, धारवाड़
203300	अवधेश होलेयाचे बासवानप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24396 05.05.09	35, विद्यानगर, हिदंला पोस्ट, बेलगांव
203301	अडेप रमेश राजा राजा गंगाराम अडेप	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24576 14.05.09	139/एन, कुकुसाव बिल्डिंग, महानाथ नगर, चौथा क्रॉस, केलगेरी रोड, धारवाड़
203302	आदित्या. के. के. अन्नतपद्मनाम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23875 09.04.09	26, प्रथम क्रॉस, नेहरू कालोनी, बेल्लारी
203303	आदिति पुरुषोत्तम सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28877 18.08.12	गांव सधरियान, तक्रवारी पोस्ट, बोरान्ज तालुक, हमीरपुर
203304	आदित्य भट्ट मंजुनाथ भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23983 18.04.09	गोविंद मक्की, नवीलगांव पोस्ट, हन्नावर तालुक, उत्तर कन्नड़
203305	आदित्य गौडा आई. एस. एच. चन्द्र शेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28529 25-08-11	4, इन्दुवालु मंडया
203306	आदित्या पटेल रुद्रेगोड़ा पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29788 12.10.12	मुटीगी (बी), नीचापुरा (पी), हरपनहाली, तालुक, दावनगेरे
203307	अदिवेश अराकेरी शंकर शंकर अधिवेप्पा अराकारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28409 20.06.11	प्लाट संख्या, संघामहेश निलाया, अशोक, बेलगाम
203308	अडवानी मूलचंद सुन्दरदास सुन्दरदास अडवानी	बी.ए.एम.एस मराठवाड़ा वि.वि. औरंगाबाद	29872 26.11.12	अडवानी अस्पताल, मेन रोड, आनन्द पोस्ट, गुलबर्गा
203309	अपफान के. अशरफ अली के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30426 29.05.13	डी. नं. 10-27, अफान मंजील, पोस्ट हुदे, उदुप्पि
203310	आफरीन मुल्ला दस्तागिरसाब मुल्ला	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29350 21.05.12	सी.टी.एस. नं. 7737 सेक्टर-12, प्लाट नं. 24/ए, खुशरो नगर, महन्तेश नगर, बेलगांव
203311	अगम निखिल निवरुत्ति निवरुत्ति आनन्दराव अगम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29577 12.06.12	बगेवाडी पोस्ट, अकलुज, मलश्रीरास, तालुक, सोलापुर
203312	अघाओ महादेव नामदेव अघाओ ए नं. सखाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25995 18.03.10	मकान संख्या 16-400/12, कैलाश नगर, नजदीक एस. एस. मठ, बीदर

203313	अग्रहाकर प्रीती प्रभाकर अग्रहाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24298 29.04.09	19-6-140/1, शिवनगर (उत्तर), बीदर तालुक
203314	अग्रवाल आकाश अजय कुमार अग्रवाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25088 04.08.09	मकान संख्या 17-1-234, संघमेश्वर निलाय, टीचर्स कालीनी, रोड, बीदर
203315	अहिराराव प्रदीप सुधनवा ए. सुधनवा हुमधीराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23959 13.04.09	श्रीनगर, चतुर्थ क्रॉस, रोम तालुक, गडग
203316	अहीराराव कुपाल शामकान्त पाटिल एस. शामकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24757 04.06.09	ए. पी. एम. सी रोड, प्रथम क्रॉस, तुलाजी बिल्डिंग सदाशिवनगर, बेलगांव
203317	आयशा सिद्दकी. एस. अब्दुल माजीद. एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23896 09.04.09	12/11, कर्मिंग रोड, बैल्लारी रोड, पोस्ट बैल्लारी
203318	आयशा हल्ली शमशुद्दीन हल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29682 29.06.12	यासिन मंजिल, नजदीक वाटर टैंक, मुड्डोविहाल, तालुक, बीजापुर
203319	ऐशवर्या वती देवी वीरन्ना बी. इन्दारगी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24713 03.06.09	2 हलीयाल रोड, धारवाड
203320	अयन्ना पी.पी. पूनाया पी. बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28515 08.08.11	5688, 2 बी क्रॉस, , द्वितीयए विजयनगर, मैसूर
203321	अजय भट्ट यू उमेश भट्ट. एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25964 18.03.10	श्री रामचन्द्र आर्युवेद, कार स्ट्रीट मंजेश्वर, कसार गौड
203322	अजय कृष्ण सरकार बंकिम चन्द्र सरकार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29176 11.05.12	गांव-झोली नं. 2, पोस्ट चिकल पट्टी, तालुक चोपना, बेतुल
203323	अजय कुमार नरिन्दर कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29688 03.07.12	82/3, धरमपुर कालोनी, बटाला पोस्ट पंजाब स्टेट, गुरदासपुर
203324	अजय. जी. एस. संथाराम. के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28460 04.07.11	34, निक्केलाडी उप्पीननगड्डी, तालुक पुतुर, दक्षिण कन्नड
203325	अजीज खान अमीरा खान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29803 12.10.12	9, द्वितीय क्रॉस, नवा अयोध्या नगर, नवा क्रॉस, पुराना हुबली, धारवाड
203326	अजीम अहमद मोकाशी हाजीलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29680 29.06.12	2017 एवं 18, कल्याण नगर, सिन्दगी, ग्राम व पत्रालय बीजापुर
203327	अजित पवार धरमु	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28853 18.04.12	नं. 01, बमन्नाजोई, ग्राम व पत्रालय सिंदगी, तालुक बीजापुर
203328	अजिथ कामथ. एम. राधाकृष्णा कामथ. एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27169 18.03.11	श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कम्पाउंड, बस्वागुदी मंगलोर, तालुक दक्षिण कन्नड

203329	आकाश किट्टुर मनोहर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23766 03.04.09	सी.टी.एस. 4183, गुरुवर पेंठ, गोकक पोस्ट, बेलगांव
203330	अखिला के. नारायण भट्ट के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29373 21.05.12	अनरघ्या हाउस नं. 50 (4158), पंजीकल्लु ग्राम व पत्रालय, कसारगोड
203331	अक्षता कोजलगी ईश्वरचन्द्र. वार्ड. कोजलगी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26066 19.03.10	परमज्योति, नजदीक एस. बी. आई मुद्देविहाल, बीजापुर
203332	अक्षता नारा शिवप्पा के. नारा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28925 26.04.12	प्लाट संख्या 5, 21वीं क्रस, विजयनगर, विद्यागिरि, बागलकोट तालुक
203333	अक्षता एम. गोपाल प्रभु एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24497 11.05.09	अजिबेतु विद्यालय, रोड गोकुलम हाउस, बी. सी. रोड, तालुक बंतवल दक्षिण कन्नड
203334	अक्षता पी. शेट्टी प्रताप पी. शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28213 04.05.11	नं. 2558, 14 क्रस, 24 मेन रोड, एच. एस. आर. लेआउट, सेक्टर-1, बंगलुरु
203335	अक्षता चक्केरा ए नं. कृष्णा चक्केरा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25548 05.03.10	237, पांचवा क्रस, के. जी. नगर, बंगलुरु
203336	अक्षता शिनोय पी. नितिन पाई देव जी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29596 13.06.12	वंसथ विनाया हाउस, नेलिस्थला, कोटेकर, मंगलोर, तालुक दक्षिण कन्नड
203337	अक्षता. बी. एस. श्यामसुन्दर बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24591 15.05.09	14. 3-मेन, श्रीशक्ति निलाय, हवनुर एक्सटेंशन नगासांझा पोस्ट, बंगलुरु
203338	अक्षता के. के. मारी भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25803 12.03.10	3-365/27, लोहित नगर, द्वितीय, मेन अशोक नगर, मंगलोर, दक्षिण कन्नड
203339	अक्षता के. पी. के. पी. राधाकृष्णा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25878 12.03.10	नजदीक मैदान, मिशन कम्पाउण्ड, उदुप्पी
203340	अक्षता एस. बी. एस. बसंत कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24274 29.04.09	1468, अशोक नगर, द्वितीय क्रस, मण्डया
203341	अक्षता टी. एस. सोमशकरा टी.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27426 25.03.11	भारती नगर, अमरावती, होसपैठ, बेल्लारी
203342	अक्षय शेट्टी रमेश शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26138 20.03.10	प्रभु नगर, बालहांगल तालुक, बेलगाम
203343	अल्ला सुजीत प्रकाश ए0 प्रसाद रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28779 11.04.12	क्यू 11, बंगलोर, जवाहर नवोदया विद्यालय, बगालोर
203344	अलीशे सचीन बाबूराव बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25695 12.03.10	महावार जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, गजेन्द्रगढ़, रॉन तालुक, गडग

203345	अलमास तरन्नुम आमा खलील	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29235 15.05.12	66 अल अफाक नं. 4-81/19 (1), महात्मा नगर लेआउट, कावूर मंगलोर
203346	अलमास यालीगर इस्माईल साहेब यालीगर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29265 16.05.12	नं. 842 प्रथम वार्ड, टीचर्स कालोनी, होसपैठ, रोड हरपन्नहल्ली, दावनगेरे
203347	अलोका कुलकर्णी मलतेश लिंगो कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27936 13.04.11	नं. 47/ए, छटा क्रास, भाग्य नगर, बेलगांव
203348	अल्लफकरी साबू हुसैनसाहब करीसाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27242 22.03.11	1/81 से 466, होसपैठ, अरलगीद गली, नसालपुर, तालुक बेलगांव
203349	अलुरे मृणाल मणिक राव मणिकराव शिवप्पा अलुरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28737 02.04.12	शिंंगड सोसाईटी, कनहेरी रोड, लाटूर पोस्ट
203350	अल्वा अक्षता उमेश उमेश ए नं. अल्वा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28342 27.05.11	नं. 3-78 ईश देव्यासा करे, बेलमन पोस्ट करकाला तालुक उदुप्पी
203351	अमर जोडाती रुद्रप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30492 13.06.13	ग्राम व पत्रालय बोरगल, तालुक हुक्केरी, बेलगांव
203352	अमरेश गनगनगौडार चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24197 24.04.09	नलतवर पोस्ट, तहसील मुद्देभीहल, बीजापुर
203353	अमरेश मीनजोई सुभाष	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29684 29.06.12	लक्ष्मी नगर, बसवाना बगेवाडी, तालुक बीजापुर
203354	अमरी निशा बागेवादी महबूब बागेवादी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29639 14.06.12	526, मुरगोद ग्राम व पत्रालय सवादत्ती, बेलगाम
203355	अम्बालक्ष्मी पी. ए नं. प्रभाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24630 18.05.09	1168/4 18वां सी. मेन, पांचवा खण्ड, राजाजी नगर, बंगलौर
203356	अम्बरीशा सुभाष राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28530 25.08.11	मकान संख्या 23-43, के. एच. बी कालोनी, कोलू रोड, हुमनाबाद, बीदर
203357	अम्बिका शरणप्पा सरनूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29335 18.05.12	प्लाट नं. 96, ओवर हेड वाटर टैंक, साई नगर, सेदम रोड, गुलबर्गा
203358	अम्बिका चौहान मारुथि बोरुले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27772 07.04.11	18-2-413, चिदडी रोड, रामनगर कालोनी, बीदर
203359	अम्बिका एम. एम. अमरेगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29717 04.08.12	नजदीक एस. बी. मंदिर करतगी, पोस्ट गंगावती, कोप्पल
203360	अम्बिका आर. पाटिल आर. बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	27023 15.02.11	तेरहवां क्रास, 60 फिट रोड., विनोवा नगर प्रथम स्टेज, शिमोगा

203361	अम्बिका. ए. कृष्णैया जोगी. ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24803 05.06.09	464, तीसरी स्टेज, प्रथम खण्ड, डबलू सी. रोड़, बाशवेश्वर नगर, बंगलौर
203362	अम्बिका. एम. महादेवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28547 07.09.11	सप्तगिरि सप्लायर्स, पुराना एल.आई सी. कोम्प्लैक्स, मानवी रोड़, तालुक रायचुर
203363	अम्बिका. पी. बी. मधुसूदन नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28422 20.06.11	नं. 63, नजदीक रंगानाथ मंदिर, जलहल्ली देवदुर्गा, रायचुर
203364	अम्बिका. पी. नायक प्रभाकर ए नं. नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25682 12.03.10	7-2-4, वदीराजा रोड़, उदुप्पी
203365	अम्बिकादास सी. के. देवदास	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25784 12.03.10	87, तृतीय क्रॉस, विश्वेश्वरैया, विजयश्री पुरम, मैसूर
203366	अम्बिलपुरे शीतल सुभाष सुभाष एल. अम्बिलपुरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29918 24.01.13	18-द्वितीय तल, धम्मल ईलम, 1-मेन रोड़, द्वितीय क्रॉस, विगन नगर, बंगलौर
203367	अम्बुजा बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30297 08.05.13	पोस्ट-हुगारानल, तालुक सिन्धानूर, रायचुर, हुगारानल
203368	अम्बुजा हुलागेरी देवेन्द्रप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2003	29552 12.06.12	239, विजापुर रोड़, पोस्ट कवद, तहसील-अठनी, बेलगांव
203369	अम्बुपे अमोल सम्भा अम्बुपे एस. अपन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24192 24.04.09	प्लॉट नं. 1295, सैक्टर नं. 07, शिवकृपा बिल्डिंग, वन्तमुरी कालोनी, मलामारुति एक्सटेंशन, बेलगांव
203370	अमित अली राकासगी युसुफअली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25875 12.03.10	सप्तगिरि बडवाने, गगनकेरी क्रॉस, बागलकोट
203371	अमित बिरादर शशिकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28472 04.07.11	ए./10 जी.ए नं. बिरादर एस. हान्ती निकेतन कालोनी, विजापुर
203372	अमित कुमार सोनी अशोक कुमार सोनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	28677 06.02.12	442, कमरा नं. 06 बीसवां बयन्ना लेआउट, पांचवा क्रॉस, हेब्ल, बंगलौर
203373	अमित राणा करम सिंह राणा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25345 31.12.09	चालुक्य नगर, 7 वां क्रॉस, तालुक बदामी, बागलकोट
203374	अमित रमेश के.एम. रमेश बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30443 01.06.13	नं. 666, पांचवा मेन, के.एच.बी. मेन रोड़, आर. टी. नगर पोस्ट, बंगलौर
203375	अमितकुमार ए नं. एम. मंजप्पा ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23928 09.04.09	कोलश्वर मंदिर, ससवहाली पोस्ट, तालुक होनाली, दावनगेरे
203376	अम्माजी पी. पी. राजा राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24209 24.04.09	111/1, चौथा क्रॉस, 4-मेन, थ्यागराजा नगर, बासवनगुड़ी, बंगलौर

203377	आमरीन नाद फवद अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28399 09.06.11	के.एच.बी. कोलोनी, विपरीत रूरल पुलिस स्टेशन, उटी रोड नन्जनगुड, मैसूर
203378	अमिल लाल यादव हीरा लाल यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	28567 19.10.11	73, पांचवा क्रस, राजेन्द्र नगर, नजदीक मोहल्ला, मैसूर
203379	अमृता आचार्य गुरुराजा. एच. आचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25720 12.03.10	1-1-12, पाडञ्जुसागिरि कुंजीबेट्ट, उदुप्पी
203380	अमरुथा मुदलुर श्रीपति राव एच. मुदलुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26121 20.03.10	43, खासबग, बेलगांव
203381	अमरुथा रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24650 21.05.09	5-191-1, येल्बा हाउस, नरेकोम्बु पोस्ट, बंतवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़
203382	अमरुथा एस. कृष्णा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28999 27.04.12	नं. 26/ए., द्वितीय तल, तृतीय मेन, नया तिपासन्द्रा पोस्ट, माइकल पाल्या, बंगलौर
203383	अमरुथा के. के. गणपति राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27525 28.03.11	कानियाठी द्वितीय, धर्मस्थल, बेलथंगडी तालुक, दक्षिण कन्नड़
203384	अमरुथा एम. जे. मंजूनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28148 26.04.11	4997, द्वितीय फेस, चतुर्थ स्टेज, विजय नगर, मैसूर
203385	आंघा अनीगोल श्रीपद अनीगोल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23681 01.04.09	मकान नं. 43, मंजूनाथ नगर, दरगाह रोड, बीजापुर
203386	आंघा भट्ट बी. बी. थीरुमालेश्वर भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24237 28.04.09	1898, चतुर्थ ए. मेन, शहकर नगर लेआउट, बंगलौर
203387	आंघा डी. ए नं. नरसिम्हा भट्ट डी. एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23929 09.04.09	287, ईक्कीसवां मेन, 19-मेन रोड, द्वितीय स्टेज, जे. पी. नगर, मैसूर
203388	आनन्द शंकरा गौड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26737 28.06.10	अंगडगेरी तेलगी, ग्राम एवं पत्रालय, बी. बगेवादी तालुक, बीजापुर
203389	आनन्द शिवानन्द राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26918 27.09.10	बी-2, एम. जी. रोड, पुलिस हेड क्वार्टर्स, नयी बिल्डिंग, नजदीक हनुमान मंदिर, बीजापुर
203390	आनन्द हुक्केरी एल. एस. हुक्केरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26809 19.08.10	ससालट्टी ए/पी, जमखण्डी तालुक, बागलकोट
203391	आनन्द हुक्केरी डुन्डप्पा आर. हुक्केरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27393 25.03.11	तुकान्थी पोस्ट, गोकाक तालुक, बेलगांव
203392	आनन्द यादव थावरु यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25136 25.09.09	16-1-40331, आनन्द निलाय, महाली रोड, आलमप्रभु नगर, घुम्मा, बीदर



203393	आनन्द खन्नीनईकर बीसनायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25414 25.02.10	19, नया पुलिस क्वार्टर्स, भारत नगर, बेलगांव
203394	आनन्द कोप्पल अमायप्पा डी कोप्पल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26554 13.04.10	वार्ड नं. 4, तातागर ओनी, गुलेगुद, बदामी तालुक, बागलकोट
203395	आनन्द कुमार बुधीहलमथ मल्लिकार्जुन बुधीहलमथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30495 14.06.13	2938 जमखण्डी, मकान नं. 3374 जमखण्डी, बागलकोट
203396	आनन्द कुमार जी. के. करीसिद्धप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27555 29.03.11	337/17, प्रथम मेन, प्रथम क्रॉस, गणेश लेआउट, दावनगेरे
203397	आनन्द कुमथल्ली अन्नासाहेब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30437 31.05.13	राघेवन्द्र कालोनी, तालुक-जमखण्डी, ग्राम व पत्रालय जमखण्डी, बागलकोट
203398	आनन्द मुच्चन्दी रविन्द्रा जी. मुच्चन्दी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29346 21.05.12	एम-2/57, आश्रम रोड, आदर्श नगर, विजय कालेज पोस्ट, बीजापुर
203399	आनन्द रामचन्द्र रामचन्द्र पुजारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28900 20.04.12	प्लाट संख्या-16, मुनेश्वर नगर, सिंदगी रोड, बीजापुर
203400	आनन्द उपाध्याय चिंतामनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25029 30.06.09	महेशवादगी पोस्ट, अथनी तालुक, बेलगांव
203401	आनन्द बी. नागूरकर बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28310 25.05.11	थाना ए./पी., खुसनूर तालुक ओराड, बीदर
203402	आनन्द कुमार संगम गजुल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25448 02.03.10	एल. आई. जी.-21, प्रथम फेस, आदर्श नगर, गुलबर्गा
203403	आनन्द कुमार यालीगीर चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27007 27.12.10	ग्राम व पत्रालय ईतागी, तालुक रौन, बीजापुर
203404	अनन्त मदीवलप्पा कलादुर्गी मदीवलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25194 08.10.09	पास्ट-चरचन, तालुक इन्दी, बीजापुर
203405	अनन्तमती बमागोल नेमप्पा बी. बमागोल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29279 16.05.12	गुरुवाड पेंठ, किट्टुर पोस्ट, तालुक बेलहांगल, बेलगांव
203406	अनन्था वी. शानभोगे वसन्था कुमार एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27304 23.03.11	3-44, अश्वथापुर, मंगलोर, दक्षिण कन्नड़
203407	अनन्थमैय्या. एम. एस. श्रीनिवासा मैय्या.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24907 09.06.09	बालागोडु, अरलासुराली, तीथोहल्ली तालुक, शिमोगा
203408	अनन्था आचारापरडी बाबू गौडा ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30307 09.05.13	देवाचल्लास गांव, नेल्लूर केमराजे पोस्ट, सुलिया तालुक, दक्षिण कन्नड़

203409	अनन्या शेटी के सुधाकर शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28954 26.04.12	अम्मा, गांव कूदी, कोटमबेल, कोकाराने, उदुप्पी
203410	अंधालकर शरवारी नरेन्द्र अंधालकर नरेन्द्र डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24804 05.06.09	प्लाट संख्या-7, ई.एल. बीथेल रामनगर, पोस्ट नेपाली, तालुक चिकौडी, बेलगांव
203411	अन्दुरकर धनश्री योगेश्वर बी. देशपाण्डेय	बी.ए.एम.एस पूना वि.वि. पुणे 1998	28642 23.11.11	10-26, श्री एस. बी. कालेज रोड, आनन्द नगर, गुलबर्गा
203412	अनील राठौर तुकाराम राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26972 18.11.10	सोलापुर मेन रोड, होरती लिमिटेड नं. 01, होरती पोस्ट, तालुक ईन्दी, बीजापुर
203413	अनीसुर रहमान मदनी महबुवरहमान मदनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25932 17.03.10	हुसैन कोबे, शान्ति नगर, हकीम चौक, जे.एम. रोड, बीजापुर
203414	अंगदी सिदप्पा ए. ईशप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25916 15.03.10	दूपाडाहल्ली, तालुक कोलीजी, बेल्लारी
203415	अनीकेथना. एस. के. टी. शिवामय गोडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24481 11.05.09	7-205, चतुर्थ क्रस, बुद्धा मार्ग, विद्यानगर, हासन
203416	अनिल कुमार सुरेश कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25026 29.06.09	शक्ति कालोनी, राधाकृष्णा नगर, धारवाड
203417	अनिल कुमार बिरादर शंकर बिरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24879 08.06.09	95, बैंकर कालोनी, बीदर
203418	अनिल कुमार गौतम घनश्याम बी. गौतम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25040 06.07.09	गौली गली, गजेन्द्रगढ़ पोस्ट, रौन तालुक, गडग
203419	अनिल कुमार सज्जन बासवाराज सज्जन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25445 02.03.10	यनकंची पोस्ट, सिंदगी तालुक, बीजापुर
203420	अनिल कुमार शेक्टर संगप्पा पी. शेक्टर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24812 05.06.09	बेल्लुर पोस्ट, बदामी तालुक, बागलकोट
203421	अनिल कुमार एच. के. कृष्णमूर्ति एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23863 09.04.09	396/1, 17 क्रस, बसम्मा मिलाय, बन्नी महाकाली मंदिर रोड के.टी.जे. नगर, दावनगेरे
203422	अनिल मूंगावाडी मनोहर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29270 16.05.12	बसवा बेलागु, शिववासवा नगर, सोदंती पोस्ट, बेलगांव
203423	अनिल पाटिल वसंत अमृत पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29512 26.05.12	शिवाजी नगर, मुतागे पोस्ट, बेलगांव
203424	अनिल पाटिल बासनगौडा निगनगौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24938 10.06.09	पंथ नगर, पंथ बाले कुन्द्री, विपरीत के.ए.बी., प्लाट संख्या-141 बेलगांव

203425	अनिल एम. एच. एम. बी. हितलमनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24881 08.06.09	प्रथम मेन, ए नं. जी. रोड, बासवेश्वरा इक्सटेंशन
203426	अनिल आर. राजा राव ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27575 29.03.11	157/1, प्रथम क्रॉस, मुनेश्वर नगर, कोल्लार
203427	अनिल कुमार पी. आनन्द कुमार पी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30558 17.07.13	मकान संख्या. 3-86/4, कोर्ट कालोनी, नजदीक सरकारी आई.टी.आई. मेडिकल, रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश
203428	अनिमेश कुमार बिस्वास अनिल कुमार बिस्वास	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25241 20.10.09	विश्वास क्लिनिक, काजीमोहल्ला, भदरावथी तालुक, शिमोगा
203429	अनिश वी.एम. जेनुदिन वी.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28362 31.05.11	संख्या 111-21, मोलवी मंजिल, मुकवे, नरीमगोदु, पुत्तुर तालुक, डी. के.
203430	अनिता सूर्यकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28009 18.04.11	राघवेन्द्र कालोनी, नारायण रोड, बासवा कल्याण तालुक, बीदर
203431	अनिता बनापुर चिदानन्दप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30537 02.07.13	दत्तात्रेय रोड, रंगावड ओनी, गडग
203432	अनिता बिरादर मलेशी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30292 07.05.13	मकान संख्या.141, बी.एल.डी.ई. टीचर्स कालोनी, विपरीत मल्लिकार्जुन आश्रम रोड, बीजापुर
203433	अनिता जी. दलवाई गिरिमलप्पा आई. दलवाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30364 21.05.13	1045, सदगुरु निलय, सी.टी.एस. संख्या.4726, रामतीर्थ नगर, बेलगांव
203434	अनिता मोकाशी श्रीशैल मोकाशी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29576 12.06.12	एल. आई. जी.-196, हुडको कालोनी, गडग
203435	अनिता तमन्ना मेती तमन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28433 20.06.11	हूलागेरी, बदामी तालुक, बागलकोट
203436	अनिता यादव तेज राम यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24238 28.04.09	पी.-3/4, स्टूडेंट स्टडी सेंटर, 410, ए.एफ. स्टेशन जलहली, (उत्तर), बंगलौर
203437	अनिता एच. एस. एच. एम. शिवन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24290 29.04.09	146-3, कुदिगे पोस्ट, सोमवार पेंड तालुक, कोदागु
203438	अनिता एम. मनीचे महादेव एम. मनीचे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24462 11.05.09	107/89, जुगुल पोस्ट, अठनी तालुक, बेलगांव
203439	अनिता पी. पाटिल रायगौडा श्रीपाल पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24289 29.04.09	सदालगी पोस्ट, चिकोदी तालुक, बेलगांव
203440	अनिथा ईरादी ए. श्यामलावानम ईरादी ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25025 29.06.09	मकान संख्या 11, पुराना नं 47, चतुर्थ क्रॉस, तृतीय ब्लाक थ्यागाराजनगर, बंगलौर

203441	अनिथा के. भीमप्पा के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29181 14.05.12	नं. 185/ए., गिरिजा साधना, दुर्गा रोड़, हागरी बोमन्ना हाली, बेल्लारी
203442	अनिथा के. डी कृष्णा मूर्ध्नि	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29466 24.05.12	सुहास निलय, नियर लारनेट स्कूल, चल्लाकरे ग्राम व पत्रालय एवं तालुक चित्रादुर्गा
203443	अनिथा टी. ए नं. नागराज टी. के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29458 24.05.12	16/ए., श्री दत्ता, प्रथम मेन, विनायका नगर, टुमकुर
203444	अनिता एम. वी. एम. वासुदेवा भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25060 17.07.09	चक्काबेतु, सुरथाकल पोस्ट, मंगलोर, दक्षिण कन्नड़
203445	अनिता बी. यादव डी.एम. बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28134 26.04.11	नं. एफ/जी./692, पी. बी. रोड़ दावनगेरे
203446	अनिताश्री. बी. एस. श्रीकान्तदत्ता बी. आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25809 12.03.10	6-3-2 (डी) 1, चितपड़े, उदुप्पी
203447	अंजलि आर. के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30459 06.06.13	राजलक्ष्मी बदनीदियुर पोस्ट, थोतम
203448	अंजन के. एस. श्रीनिवास के. एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24057 21.04.09	168/सी., कालीदासा रोड़, कोप्पा तालुक, चिकमगलुर
203449	अंजना अजंथा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29745 21.09.12	1-115/10, कलानिकेतन मदूर रोड़, बीरी कोटेकर पोस्ट, मंगलोर तालुक, डी. के.
203450	अंजलि राव सुब्बा राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29877 05.12.12	119/459, दर्शन पूर्वा, कानपुर
203451	अंजू अनिता देवेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि. मुजफ्फरपुर 2008	25327 10.12.09	322, 18-जी. मेन, कोरमंगला छटा, बंगलोर
203452	अंजू ई नवनीथ के. ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29730 16.08.12	कीजाकेदथ माना (एच.), पेरुमबिलिसेरी, चेरपू पोस्ट, श्रीसुर
203453	अंजू पट्टानाड संगमेश पट्टानाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29665 19.06.12	2118, एस.बी.आई रोड़, गनेश नगर, ग्राम व पत्रालय मुद्देभाई, बीजापुर
203454	अंजू बी. उप्पिन बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27394 25.03.11	मकान संख्या 6 एम. आई. जी. फेज़ 3, आदर्श नगर कालोनी, गुलबर्गा
203455	अंजुम शाहीन सागरी मोहम्मद उमर सागरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29269 16.05.12	नं 150, विनायक कालोनी, लोकोप्यनाकल, विद्यानगर, हुबली पोस्ट, धारवाड़
203456	अंजुम बी.आर. भवीकल्ली आर. एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2000	25347 01.01.10	51, द्वितीय तल, 5 वां तल, पंचम क्रॉस, प्रथम स्टेज, बी. टी. एम. लेआउट, बंगलोर

203457	अंजुमारा लोनी चंदनबाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28614 05.11.11	46, मकान नं 46, नवनगर, बागलकोट
203458	अंजुमकौशर ईनामदार मोहम्मद हुसैन ईनामदार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28936 26.04.12	आई बी के पीछे, नूरानी नगर, सिंदगी तालुक, बीजापुर
203459	अंकिता शर्मा अजय शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27059 15.03.11	युनिवर्सिटी रोड, डी.सी कम्पाउण्ड, धारवाड़
203460	अंकिता सिंह राम पाल सिंह	बी.ए.एम.एस कुरुक्षेत्र वि.वि. कुरुक्षेत्र 2005	26831 25.08.10	200, बी.ए. नं. पी.-134, 19 वां क्रॉस, कागदासपुरा, सी.वी., रमन बंगलौर
203461	अकुरं निगम गंगा शंकर निगम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26826 25.08.10	नं. 42, चतुर्थ क्रॉस, सितप्पा लेआउट, मनोरजन पाल्या, आर. टी. नगर, बंगलौर
203462	अन्नापूर्णा एस. के. शर्मा भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29239 15.05.12	नं. 49/1, परलडका क्रॉस रोड, पुत्तुर, ग्राम व पत्रालय, दर्बे, दक्षिण कन्नड
203463	अन्नपूर्नेश्वरी. पी. बी. बी. पुत्तैय्याह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24040 20.04.09	एम.आई.जी. 85/जे, ए नं. ब्लाक, कुवेम्पू नगर, मैसूर
203464	अन्नपूर्णा दम्बाल शरणप्पा एस. दम्बाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24735 03.06.09	अनुघरा बिल्डिंग, मिचागन कम्पाउण्ड, सप्तापुर, धारवाड़
203465	अन्नपूर्णा पाटिल संगनगौडा आर. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24801 05.06.09	लक्ष्मी नगर, रामदुर्ग, बेलगांव
203466	अनेते सहाना सोन्स स्टेनले जार्ज सोन्स	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25970 18.03.10	2-71/1, ए नं. एच. 17 उछला पोस्ट, उदुप्पि
203467	अन्नु शमशेर सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30289 07.05.13	सिरसा खेरी, पोस्ट-नंदगढ़, तालंका जुलाना, जीन्द
203468	अनूप कुमार वालसन पी.पी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26754 16.07.10	नं. 101, ए., उलाल रेलवे स्टेशन के पीछे, सोमेश्वर कोटेकर पोस्ट, मंगलोर, डी. के.
203469	अनूषा जी. एस. जी. श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29229 15.05.12	नं. 538, दसवां क्रॉस, 8 मेन नारायण नगर, तृतीय ब्लाक, डोडाकलासान्द्रा, बंगलौर
203470	अनूषा अब्बी शंकरेप्पा बी. अब्बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25418 25.02.10	पोस्ट सतागती, तालुक सदागत, बेलगांव
203471	अन्नू चेरुवोडेईमर विट्टील सुबिन सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28650 13.12.11	एल.2-21, वी.वी. नगर, तोरनगल्लु, बेल्लारी
203472	अनूजा प्रकाश रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29607 14.06.12	26-292, विजय नगर कालोनी, हूलसुर, बस्वा कल्याण पोस्ट, बीदर

203473	अनुजा सिंह बी. वंसत जी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30135 22.04.13	2206, चतुर्थ एच. ब्लाक, छठा स्टेज, कनकापुरा मेन रोड., बंगलौर
203474	अनुलेखा. के. अनन्था कृष्णा के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25811 12.03.10	1-85 बी, केलारकलाबैटू पोस्ट, उदुप्पी
203475	अनूप टी. अंजनेया टी. एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	29924 05.02.13	डवरालू, एलसगरा पोस्ट, सिरा तालुका, टुमकुर
203476	अनुपमा शिवा कुमार गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28032 19.04.11	जनेकल ए./पी., मानवी तालुक, रायचुर
203477	अनुपमा बी. बाली बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29418 23.05.12	बाली कोम्प्लेक्स, हूसन पोस्ट, शोरापुर तालुक, यदागिरी
203478	अनुपमा बल्लारी बासवा बल्लारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24005 18.04.09	हतारगेरी उनी, हूरादी हाउस के सामने, हवेरी
203479	अनुपमा चिप्पलाकट्टी धर्मन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23825 06.04.09	बासवा नगर, नजदीक राणा सक्रिल, मुधोल पोस्ट, बागलकोट
203480	अनुपमा जनाकीराम जी.एस. जनाकीराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30448 03.06.13	172, श्री रामाद्याम, छठा मेन, नोबो नगर, द्वितीय सेक्टर बनेरघटा रोड, बंगलौर
203481	अनुपमा नाईक सी. राम नाईक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26181 22.03.10	कालेश्वर बदवाने, होसादुर्गा टाउन, चित्रादुर्गा
203482	अनुपमा पाटिल गुरन्नागौडा आर. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28964 26.04.12	गोदर गली, सोमलेश्वर चौक, सिंदगी पोस्ट तालुक, बीजापुर
203483	अनुपमा एस. एम. एस. सदासिवन पिल्लई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30398 24.05.13	अनुगढ़, थलीयिल, पी.ओ. कल्लासेरी, कुन्नुर
203484	अनुपमा सी. एस. सथीश सी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25318 27.11.09	16-9-515/1, मिशन कम्पाउण्ड, कनकनाडी पोस्ट मंलगौर तालुक, दक्षिण कन्नड़
203485	अनुपमा जी. के. बी. गंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25017 26.06.09	कुनकनाडु पोस्ट, कुदेर तालुक, चिकमंगलूर
203486	अनुपमा के. एस. सोमप्पा गौडा के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24893 08.06.09	पी.छठा 19/2, के.पी.सी. कोलोनी, काद्रा, करवाड तालुक, उत्तर कन्नड़
203487	अनुपमा ए. भद्राचारी भद्राचारी ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24006 18.04.09	तीसरा क्रॉस, , प्रथम मेन रोड, नगर, यत्रापुर पोस्ट, हरीहर तालुक, दावनगेरे
203488	अनुप्रीता सुभाष रायशंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26481 03.04.10	1-111/सी., ऐवान-ई-शाहे कालोनी रोड, गुलबर्गा

203489	अनुराधा उलेगडी धुन्नप्पा बी. उलेगडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26122 20.03.10	मकान संख्या. 1010, रामतीर्थ नगर, खनाबागर्गी, बेलगावं
203490	अनुराधा के. सी. के. एम. चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24832 06.06.09	3-25-2117, रायरा कटेटे, नजदीक कुदी मंदिर, कनकदें, म्रगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड
203491	अनुराधा. एल. माल्या लक्ष्मीनारायण माल्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24834 06.06.09	विघ्नेश, 22-20 ए./1, टी. गार्डन, मध्य पोस्ट मगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड
203492	अनुराग कलमानी लप्पा.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27470 26.03.11	सवनूर रोड, शिगोन तालुक, हावेरी
203493	अनुरे सुजीत प्रकाश अनुरे प्रकाश रघूबा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23692 01.04.09	धनवन्तरि आयुर्वेद मेडिकल, कालेज एवं हास्टेल, सिद्धापुर, उत्तर कन्नड
203494	अनुषा गुरुराज ए नं. जी. गुरुराज ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25635 06.03.10	जंक्शन रोड, हिरियुर पोस्ट, भद्रावंती तालुक, शिमोगा
203495	अनुषा के. कृष्णा मुर्धि डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30288 07.05.13	रविन्द्र कालेज के पीछे, सुहास निलाय, टी. आर. नगर,
203496	अनुषा एम. रघुवेन्द्र नायडू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30406 28.05.13	रुक्मणि निलय, अरुरतोता, सम्पीजे नगर, उदयवाडा, उदुप्पी
203497	अनुषा ए. एस. शिवशंकर गुप्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28006 18.04.11	नं 649, विशाल प्लाजा, मेन रोड, होशदुर्गा चित्रादुर्गा
203498	अनुषा. एस. वी. वेंकटेश एस. एल.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28259 17.05.11	420, जुनियर कोलज के पीछे, चाणक्या कोप्पू सालीग्राम, के. आर. नगर, मैसूर
203499	अनुश्री एम. वी. अराध्या एम. आर. वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30473 10.06.13	83/6, 777, तेरहवां तल, प्रथम क्रॉस, 100 फिट रोड, हीली स्टेज, इन्दिरानगर, बंगलौर
203500	अनुश्री जी. बी. आर. गुरुराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27528 28.03.11	106, के.एस.आर.टी.सी. लेआउट, हनुमन्था नगर, बन्नीमनताप, मैसूर
203501	अनवर पठान काशिम पठान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25174 07.10.09	सी.आई.बी. कालोनी, नजदीक भवानी मंदिर, शक्ति नगर, गुलबर्गा
203502	अनवेश रेड्डी एस. महीपाल रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29177 14.05.12	नं. 2-96, ग्राम व पत्रालय अम्म रेड्डी पल्ली, नारायण पेट तालुक, महबूब नगर
203503	अपर दीपक विजय विजय अपर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30181 26.04.13	प्लाट नं. 20, नियर हनुमान मंदिर, बालाजीनगर, सिलोड-सिलोड, औरंगाबाद, सिलोड
203504	अपर्णा विरतैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27773 07.04.11	2-910/53/1 बी/124, वृन्दावन कालोनी, विश्वेश्वरा नगर, गुलबर्गा

203505	अपर्णा आनन्द सावंत आनन्द गोपाल सावंत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30331 16.05.13	05, चेन्नारया स्वामी मंदिर रोड़, नगरपेट क्रास, बंगलौर
203506	अपर्णा कुलकर्णी अनन्तराव. वी. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	27262 22.03.11	विपरीत बी. एल. डी. ई. एवं इंजीनियरिंग कालेज, आशाराम रोड़, बीजापुर
203507	अपर्णा नायक, नायक. टी. एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25730 12.03.10	36, अनुघरा, तृतीय क्रास, 29-मेन रोड़, नंदिनि लेआउट, बंगलौर
203508	अपर्णा राव ए. शिवाराम राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25992 18.03.10	3-3-50, प्रथम मेन, प्रशांतनगर, मंगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड़
203509	अपर्णा शिवमूर्थी सनाक्की	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29581 12.06.12	कुदाची पोस्ट, रेलवे स्टेशन के पीछे, पी.डब्ल्यू आफिस रायबाग, बेलगांव
203510	अपर्णा उपाध्याय प्रभाकर उपाध्याय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27804 08.04.11	नं. 5/102, उदयवारा पोस्ट, उदुप्पी
203511	अफाया प्रभू नारायण प्रभू एम. पी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25994 18.03.10	27, मिथिला नगर, धर्मस्थल, बेलथनगडी, दक्षिण कन्नड
203512	अपूर्वा भारद्वाज डी. ए. नं. नरसिंहमूर्थी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25501 04.03.10	13, प्रथम बी. क्रास, एल.आई.सी. हाउस कालोनी, बासवेश्वरा नगर, बंगलौर
203513	आप्टे मीनाल माधे माधव पुण्डालिक आप्टे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29915 21.01.13	419, श्रीग्रहा, 9-बी मेन, एच.आर.बी.आर. लेआउट, खण्ड आई, कल्याण नगर, बंगलौर
203514	आरती हिरेमथ महादेवैय्या एस. हिरेमथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24354 30.04.09	विनायक नगर, मुधोल तालुक, बागलकोट
203515	आरती तहसीलदार ईरप्पा तहसीलदार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24779 04.06.09	47, प्रथम क्रास, पीछे हरी मंदिर, विपरित भाग्यनगर, बेलगांव
203516	आरती. पी. पी. रविन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28440 20.06.11	प्लाट संख्या. 95, कान्ता कालोनी, हीरापुर पोस्ट, गुलबर्गा
203517	अरविन्द गेजी मुगीरप्पा एस. गेजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25723 12.03.10	गूनेवादी पोस्ट, अठनी तालुक, बेलगांव
203518	अरविन्द कुमार राठौर रामचन्द्र राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27735 06.04.11	अंकालगी, एल. टी. एस. 10-1, बीजापुर
203519	अरविन्द बी.एस. शंकरनारायणा बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23984 18.04.09	1179, 19-मेन, द्वितीय स्टेज, जे. पी. नगर, मैसूर
203520	अरविन्द एच. कपथप्पा हंचीलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23789 04.04.09	3710, नेकर ओनी, मुन्डार्गी तालुक, गडग



203521	अरविन्द पी. पवादबासप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29947 01.04.13	पोस्ट-हुविन हिपरगगी, बीजापुर, बसवन बोवादी, बीजापुर
203522	अरविन्द शिर्नॉय ए. रामानन्द शिर्नॉय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23758 03.04.09	266, डबलयू/1, गोपालकृष्णा लेन, सलमार करकला, उदुप्पी
203523	अर्चना चौगले सुरेश एस. चौगले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24666 22.05.09	79/ए., नवरासपुर कालोनी, बागलकोट, बीजापुर
203524	अर्चना हेगडे एम. थिमप्पा हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23752 03.04.09	रामनाथ निवास, नजदीक पुलिस स्टेशन, 3 क्रास, बेलद्वेगी तालुक, बेलगांव
203525	अर्चना हिरेमथ बसालिंगैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27903 11.04.11	ए. एल. ए नं. राव मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लेडिस होस्टल, कोप्पा तालुक, चिकमंगलूर
203526	अर्चना कश्यप देवेन्द्र कश्यप	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	25830 12.03.10	मारवाडी गली, ए./पी. ईलकल, हुगदं, तालुक इंचल
203527	अर्चना कोप्पारड वेकटेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30178 25.04.13	मरवादिगाली ए/पी इलकल, हुंगुद, तालु, इलकल
203528	अर्चना एम. के. मलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30535 01.07.13	उलाल रेलव स्टेशन के पीछे, पेरुबेल, पोस्ट कोटेकर, सोमेश्वर, दक्षिण कन्नड, मंगलूर
203529	अर्चना एम. के. कुमार स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29701 09.07.12	मार्ट मेन रोड कम्पली, होसपेट, बेल्लारी
203530	अर्चना एस. ए नं. नारायणप्पा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30157 24.04.13	डी./ नं. 1022, अनुरघा हेसराघट्टा रोड, चिकाबनवरा पोस्ट, बंगलौर
203531	अर्चना बी. बासवाराजु जी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27327 23.03.11	# 3, ब्लाक-15, बी.ई.एम.एल. नगर, श्रीरामपुरा, द्वितीय स्टेज, मैसूर
203532	अर्चना एम.एस. शिवकुमार एम.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25767 12.03.10	1783/ए.-3, छठा क्रास, सिदाविरप्पा लेआउट, दावनगेरे
203533	अर्चना वी. याजी. वसंत आर. याजी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26593 22.04.10	श्री माता कोर्ट रोड? तालुक सिरसी, उत्तर कन्नड
203534	अर्चना जी. जोशी गुरुराज ए नं. जोशी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25818 12.03.10	होसायाल्लापुर रोड, नीकर उनी, धारवाड
203535	अर्चना टी. ठाकुर नायर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27688 05.04.11	पी. डबलयू डी कोन्ट्रेक्टर, बेवीना हल्ली टाण्डा, भरमासागर, चित्रदुर्गा
203536	अर्चना कुमारी के. रमेश शेरेंगर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24064 21.04.09	शंकरनारायणा पोस्ट, कुनपुरा तालुक, उदुप्पी

203537	अर्चानन चिंचाकन्डी रुद्रेश एच. के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27034 01.03.11	सामने अश्विनी क्लिनिक, दून बोस्को स्कूल, धनवन्तरि ए. एम.सी, सिद्धापुर
203538	अर्दना दूबे पी.पी. दूबे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26566 16.04.10	नजदीक राघवेन्द्र मंदिर, राम्पा कोम्प्लेक्स, रायचुर
203539	अजीज जागिरदार सईद मुश्ताक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29567 12.06.12	सामने रेमण्ड होम, ग्लास ग्लोरी बिल्डिंग, बीजापुर
203540	अरहन्त कुमार ए. चन्द्रशेखर ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24033 20.04.09	अमित निलाय, नजदीक कोर्ट, बी. ए. नं. रांड, चान्नारायापटना तालुक, हासन
203541	अरिवुक्कारासु एस. वी. सिवसंगरन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29929 16.02.13	8, हुडको, द्वितीय स्टेज, बन्नी मनताप, मैसूर
203542	अपर्णा एम. धनालक्ष्मी जैन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26140 20.03.10	2-115 ए., अलीयूर, वलपडी पोस्ट, मंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़
203543	अपर्णा स्वरूप एस. एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27704 06.04.11	नं. 2306, सिद्धा सुखा, प्रथम मेन, बासवेस्वरा एक्सटेंशन, एस.एस. मठ, टुमकुर
203544	अपर्णा पी.वी. वासुदेव पी.ए. नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27613 01.04.11	नं. 271, दसवां मेन, पाइपलाईन रोड, हनुमंथानगर, बंगलोर
203545	अर्पिथा शेट्टी प्रसाद शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25904 15.03.10	305, म्युनिसिपल रोड, शुशान प्लाजा, कुन्डापुरा तालुक, उदुप्पी
203546	अर्पिथा पी. परमेश्वरप्पा के.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24206 24.04.09	कलगुन्दी पोस्ट, अर्सीकेरे तालुक, हासन
203547	अर्शिया एम. हलीमा बेगम एम. वासिथ बेग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29970 06.04.13	वार्ड नं. 15, द्वार संख्या.314, सिंदगी कम्पाउण्ड, के.सी रोड, बेल्लारी
203548	अर्शिया अली मोहम्मद अली एस.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25791 12.03.10	34-नेक्कीलादी, उप्पीनगडे, नक्कीलाडी पोस्ट, तालुक पट्टूर, दक्षिण कन्नड़
203549	अरुण वाडीगर ईरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28588 19.10.11	1131, नेसारगी पोस्ट, बेलहोगं तालुक, बेलगांव
203550	अरुण घटनट्टी श्रीशैल डी घटनट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24297 29.04.09	तेलीगाली, मोधुल तालुक, बागलकोट
203551	अरुण गिरसागर चिदंबर गिरसागर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25399 24.02.10	यादवाड पोस्ट गोकाक तालुक, बेलगांव
203552	अरुण हविनाल मलिककार्जुन बी. हविनाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27695 05.04.11	नं. 716, गनेश नगर, सम्बं पोस्ट, बेलगांव

203553	अरुण कुमार एम. अशोक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23995 18.04.09	3-215, ब्रह्मवार पोस्ट, उदुप्पि
203554	अरुण तुम्पार श्रीशैली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26598 23.04.10	खुन्दटी पोस्ट, तालुक गोकाक, बेलगांव
203555	अरुण. ए. नं. नागराज टी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28597 19.10.11	973, वोक्कालालिंगरा बेदी, हसबेद्दी, यलहन्का पुराना शहर, बंगलोर
203556	अरुणा चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25431 26.02.10	15-5-429, कुम्भारवाडा रोड, बैंक सिटी, बीदर
203557	अरुणा कुमारी एम. महादेव. एम.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26139 20.03.10	मकान संख्या 11, क्रास, ग्यारह, जयनगर, मेसूर
203558	अरुणा पिल्लई गोपाल कृष्ण पिल्लई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24214 28.04.09	रेलवे क्वार्टर्स, 138/बी., गुड्स शेंड रोड हुबली, धारवाड़
203559	अरुणा प्रभा. वी. वी. वीरा रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27796 07.04.11	नजदीक बी.वी.आर. स्कूल, मानवी रोड तालुक, रायचुर
203560	अरुणारानी निजलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24877 06.06.09	बीजापुर रोड, वेंकटगिरि कोट देवनाहल्ली, बंगलोर
203561	अरुणधति श्रीकान्त वलवाडकर एस.बी. वलवाडकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30284 07.05.13	नं. 49, प्रथम तल, सातवां क्रास, पी.आर. लेआउट, मुरुगेशपलाया, बंगलोर
203562	अरुणधति. एस. सराचन्द्र बोस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25674 12.03.10	326/4, चतुर्थ मेन, 4-क्रास, बासवानगर, बंगलोर
203563	अरुणजीथ. एस. सराचन्द्र बोस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26912 27.09.10	के.आर पुरम, विजनपुरा, बंगलोर
203564	अरुण कुमार तोगालुरे मलप्पा एस. तोगालुरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29830 30.10.12	श्री कनक फाईनेंस एवं लूसमग, तालुक अलंद, गलबर्गा
203565	अरविन्द लोकारे मारुति लोकारे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29201 14.05.12	सर्वे नं 156/14, रामनगर चिरदी रोड, बीदर
203566	असावे रविराज ए. विश्वनाथ मारुथिराव असावे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27301 23.03.11	वाच एवं गिफ्ट सेंटर, घटाप्रभा, गोकाक तालुक, बेलगांव
203567	आस्वे माधुरी वंसतराव वंसतराव मारुतिराव आस्वे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25258 27.10.09	होस्टेल सेदराम रोड गुलबर्गा
203568	आशा अलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30200 29.04.13	डी.सी. आफिस, साटा कचेरी, रायचुर

203569	आशा गुरुलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30418 28.05.13	पोस्ट बेलामेगी, तालुक—अलंड, गुलबर्गा
203570	आशा बासवाराज. आर. नाईक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27430 25.03.11	822, किर्तीनगर, नियर विघनेश्वर नगर, ए. ब्लाक, सोलवा क्रास, हावेरी
203571	आशा चिक्कामथ शिवयगोस्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26063 19.03.10	बिस्वेश्वर नगर ए. ब्लाक, सोलवां क्रास, हावेरी
203572	आशा जोशी वंसतराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28546 07.09.11	84, हेमत नगर, केशवापुर, हुबली
203573	आशा कुरुबार शिवपुत्र. के. कुरुबार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26979 25.11.10	पंचाक्षरी नगर, चतुर्थ क्रास, गडग
203574	आशा मथ्यारी उल्लास. डी. विजयन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28296 25.05.11	21वां के.एम., कनकापुरा रोड, उदयपुरा पोस्ट आफिस, बंगलौर
203575	आशा पाटिल भीमनागौड़ा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26071 19.03.10	भावीकट्टी उनी, बाबालेश्वर, बीजापुर
203576	आश एस. सी.एम. सिदलिंगा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29586 12.06.12	495, नजदीक पी.एच.सी., महादेवा पोस्ट, श्री रंगपटना तालुक, मण्डया
203577	आशा एस. एम. मंजुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28793 11.04.12	अलदम्मा कुरुपा, गुथयप्पा कालोनी, द्वितीय क्रास, शिमोंगा
203578	आशा विश्वनाथ विश्वनाथ सजिपा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29014 27.04.12	“अनुग्रह” नजदीक होगले हाउस, कोडिकल, अशोक नगर, मंगलोर, दक्षिण कन्नड़
203579	आशा एस.ए. सुनील कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23918 09.04.09	326, जी—ब्लाक, दसवां क्रास, रामाकृष्ण नगर, मेसुर
203580	आशा वाजिनाथ मजागे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25468 03.03.10	28—304, सीता कालोनी, सीता निवास, बासवाकृष्णा तालुक, बीदर
203581	आशा डी. पंचाक्षरी गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24826 05.06.09	पुलिस क्वार्टर, हरेगली पोस्ट, हुवानी हदागली तालुक, बेल्लारी
203582	आशा. लावन भाष्कर भाष्कर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27585 30.03.11	1—32, थोकाकट्टु, तालुक मंगलोर, दक्षिण कन्नड़
203583	आशा आर. मंजुनाथ के.ए. नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24631 18.05.09	732, बासवेश्वरा रोड भिरेश्वरा नगर, मीतागली पोस्ट हेब्ल, प्रथम मेसूर
203584	आशा. एस. श्रीनिवास रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25892 12.03.10	86, तृतीय क्रस, मंजुनाथ लेआउट, बी.जी. रोड, बंगलोर

203585	आशा बी.सी. सिददन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27689 05.04.11	राजाजीनगर, बागलकोट क्रॉस रोड, के.ई.बी. के पीछे, बीजापुर
203586	आशा. एच. एस. सुरेश एच.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27752 06.04.11	29, हिरकयिताना, ग्राम एवं पत्रालय हेल्ली, हुनसुर तालुक, मेसूर
203587	आशा वी. कार्की विरप्पा बी. कर्की	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25855 12.03.10	प्लॉट संख्या 86, के.सी. नगर, सेलापुर रोड, बीजापुर
203588	आशाकिरण के.एस. सोमप्पा भण्डारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25773 12.03.10	कयारथाडका हाउस एवं पोस्ट, धर्मस्थला, बेलथ्रेदी तालुक, दक्षिण कन्नड
203589	आशापार्वथी वी. वेंकटरमना भट्ट वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29010 27.04.12	फलावर कोटेज, वाया एस.एस. विहार, अलाइक पोस्ट, बंधवल तालुक, दक्षिण कन्नड
203590	आशारानी संगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28847 18.04.12	7, मंथला ग्राम व पत्रालय, बासवाकल्याण, बीदर
203591	आशारानी चौगुला रामू एच. चौगुला	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28871 18.04.12	हलयाल रोड शंकरनगर, अठनी पोस्ट व पत्रालय, बेलगांव
203592	आशारानी के. कृष्णामूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28848 18.04.12	645, 14वा क्रॉस, प्रथम रेलवे मेन, बी.एम. श्रीनगर, मेसूर
203593	आशारानी एम. महालिंगप्पा एम. एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30551 15.07.13	112/ए., वी.आर.सी. रेलवे क्वार्टर, यदवागिरी, मेसूर
203594	आशारानी ए नं. नागराज एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29740 03.09.12	कोडीहाली, अरीहाली पोस्ट, होशादुर्गा तालुक, चित्रादुर्गा
203595	अश्वथी. ए नं. नरसिम्हा आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27197 19.03.11	राधेवन्दा कालोनी, कनपुरा, रामनगर
203596	आशीष कुमार सोनी नन्द किशोर सोनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26502 07.04.10	हुडको कालानी, बीदर
203597	आशीष कुमार यादव दीना नाथ यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	30273 06.05.13	सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरी रोड, एस.आर.ए नं. भदाही, श्री रविदास नगर
203598	आशीष सूर्य नाथ सिंह सूर्य मठ एस. सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25974 18.03.10	देसाई व्यायस, होस्टेल, आर.के. नगर, जलदर्शनी, धारवाड
203599	अशिथा एस. उपाध्याय श्यामासुन्दर जे.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30276 07.05.13	पेर्नुक्कू हाउस, बदेगुन्नूर पोस्ट, पुत्तुर, दक्षिण कन्नड, बदगन्नुर
203600	अश्विनी जी.सी. ओमकारप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25837 12.03.10	वात्सल्य निलाय, विनायक नगर, तारीकेरे

203601	अश्विनी बासवाराज गुदना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28601 19.10.11	14/4, अल्सटॉम कालोनी, शहाबाद पोस्ट, चितापुर तालुक, गुलबर्गा
203602	अशोक शिवराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	28854 18.04.12	ई/13/49, जेवारगी (के.) पोस्ट व तालुक गुलबर्गा
203603	अशोक कुमार देवेन्द्र कुमार डी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27047 15.03.11	डी-16 (जी.यू.जी.), यूनिवर्सिटी केम्पस, गुलबर्गा
203604	अशोक कुमार सैनी राज सिंह सैनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25027 29.06.09	प्लाट संख्या.75, छठा मेन रोड, धारवाड़
203605	अशोक कुमार यादव सीताराम यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29849 05.11.12	कमरा संख्या.102, सी विंग शिव वैभव को-आपरेशन हाउस सोसाईटी, विजय नगर, नल्ला सुपारा ईस्ट थाने
203606	अशोक लमानी नाथु लमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	26711 10.06.10	एल.टी. संख्या-2, उत्तल अतंद पोस्ट, बीजापुर
203607	अशोक राठौर शंकर नामदेव राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29500 25.05.12	माखनपुर, एल. टी. नं. -02 पोस्ट, बीजापुर
203608	अशोक स्टिफन थॉमस चराकुन्नेल थॉमस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25337 19.12.09	एफ.-127, बाला पोस्ट, मंगलोर
203609	अशोका शिवराजा टी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27662 02.04.11	जम्बालदीनी पोस्ट, मानवी तालुक, रायचुर
203610	आशरीन जहां असद खान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29375 21.05.12	मटन मार्केट, अर्सीकेरे तालुक पोस्ट व तालुक, हासन
203611	आश्रीथ हेगडे वी. वी. राजेन्द्र हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30586 30.07.13	विनायक हाउस, गुरुपुरा, केकम्बा, किन्नीकम्बला, दक्षिण कन्नड़
203612	आशुलोष चतुर्वेदी सुरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29337 18.05.12	नं 819/2, कस्तूबा नजदीक आठवां क्रास, शंकर मठ रोड, के.आर. पुरम, हसन
203613	अश्विनी एस. एम. मुरलीसिदप्पा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29370 21.05.12	कामाथल्ली, पोस्ट विश्वेशतिर्थ नगर, दावनगेरे
203614	अश्वथ मंडाली नारायण जे. मंडाली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29675 25.06.12	411/सी., देवांगमठ गल्ली, बितागिरी गडग पोस्ट, गडग
203615	अश्वजीथा ए नं. एच. ईश्वरा भट्ट ए नं. एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29221 15.05.12	कल्याणगढ, रामदास नगर, कसारगौड, तालुक
203616	अश्विन कुमार अशोक पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26628 28.04.10	ई-9-1910, अलंद रोड, हारीनी नगर, गुलबर्गा

203617	अश्विन एम. भंडारी के.एम. भंडारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28411 20.06.11	नं-575 ए, तृतीय क्रस, महालक्ष्मी लेआउट, बंगलौर
203618	अश्विनी वी.एम. गोखले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29343 21.05.12	नं-28-443, सर्वोदया कालोनी, शिवापुरे रोड, बासवाकल्याण पोस्ट एवं तालुक बेलगांव
203619	अश्विनी चिंतामनी एम. सेनीकोप	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25655 06.03.10	ईतागी पोस्ट, खानपुर तालुक, बेलगांव
203620	अश्विनी चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27348 24.03.11	विद्याश्री कालोनी, नजदीक जे.बी.के. हाई स्कूल, बसव कल्याण, बीदर
203621	अश्विनी शिवानन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28784 11.04.12	मेमदार्गी पोस्ट व पत्रालय, अकलकोट तालुक, सोलापुर
203622	अश्विनी ए. आनन्द गनिगा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29241 15.05.12	नं 2-124 डी. 2, आनन्दा सदन, मंगलोर तालुक, दक्षिण कनड
203623	अश्विनी ए. अशोक मुशरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28981 27.04.12	नं. 80-बी 1, चतुर्थ क्रस रोड, येलाकां, नया शहर, बंगलौर
203624	अश्विनी अलुर कलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28753 02.04.12	तालुक, बीजापुर
203625	अश्विनी बी.एस. भीमाराया सोमप्पागोल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29630 14.06.12	प्लाट संख्या 88, शरदनिलाय, चामुण्डेशवरी कालोनी, जेवरागी रोड, गुलबर्गा
203626	अश्विनी बी.डी. बी.आर. डुडामनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29148 08.05.12	नं. 1-40 (ए.) अनूशा निलय, मंक कटापद, उदुप्पि
203627	अश्विनी बालेकुन्दार्गी मोहन बालेकुन्दार्गी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26136 20.03.10	मकान संख्या 944, नीलगर गल्ली, बेलहोंगल तालुक, बेलगांव
203628	अश्विनी बनाकर मल्लिकार्जुन बनाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23888 09.04.09	प्लाट संख्या 6 श्री हरी कालोनी, मोआका रोड, बेल्लारी
203629	अश्विनी चव्हाण मोतीलाल चव्हाण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30022 10.04.13	भवानी निवास, श्रुष्टि कालोनी, टी. पेरुर गुण्डुराव स्कूल, बीजापुर
203630	अश्विनी देसाई बासवाराज देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29917 24.01.13	राजपूत गली, इन्दी रोड, बीजापुर
203631	अश्विनी देशपाण्डे प्रहलाद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	27608 01.04.11	प्लाट संख्या-158, सेक्टर नं-5, श्रीनगर, बेलगांव
203632	अश्विनी हल्लाद नगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30180 26.04.13	मकान संख्या 70, वार्ड नं. 10 विनायक नगर, हुलयाल लंआउट, बागलकोट

203633	अश्विनी अवलदार चन्द्रप्पा बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23979 18.04.09	323/261, ए.पी.एम.सी, फिल्म थियेटर रांड, हगरी बोमन्ना पोस्ट व तालुक, बेल्लारी
203634	अश्विनी हीरेमठ गिरिमाल्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24361 30.04.09	चनम्मा नगर, चतुर्थ क्रॉस, बेलहोंगल तालुक, बेलगांव
203635	अश्विनी जेरानकलागी प्रकाश जेरानकलागी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28130 26.04.11	मकान संख्या, 43, तेजस्विनि, बी.बी. रोड, पुलकेश्वरी नगर, बीजापुर
203636	अश्विनी के.एस. के शिवायप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28956 26.04.12	नं. 107/ए, श्री गुरुकृपा, मरकल कम्पाउण्ड, चर्च रोड, हरीहर दावनगेरे
203637	अश्विनी के.एस. शंकरनारयण भट्ट के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30563 17.07.13	चिकाहोनेसारा, होने पोस्ट, सगरा तालुक, शिमोगा
203638	अश्विनी कल्लप्पा कलागडी कल्लप्पा कलागडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24884 08.06.09	हुलागूर पोस्ट, शिगावं तालुक, हावेरी
203639	अश्विनी कल्याणीमठ जगदीश कल्याणीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28117 25.04.11	हुबली मेन रोड, नजदीक, वारभद्रेश्वर मंदिर रॉन तालुक, गडग
203640	अश्विनी कुडारिमथ मंहलेश कुडारिमथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25711 12.03.10	मंहलेश नगर, घटप्रभा पोस्ट, गोकक तालुक, बेलगांव
203641	अश्विनी कुमारी वीरन्ना बेली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30463 06.06.13	413/2, कतारकी पोस्ट, सामने पी. एवं टी क्वार्टर्स, राजीव गांधी नगर, गडग
203642	अश्विनी कुमारी एम. बालचन्द्रा शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27526 28.03.11	अश्विनी क्लिनिक, अजियमपुरा, तारीकेरे तालुक, चिकमंगलुर
203643	अश्विनी कुमारी एस. सब रेड्डी सन्तनूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29267 16.05.12	नं-5/20, बटगेरा (बी) पोस्ट, सेडाम तालुक, गुलबर्गा
203644	अश्विनी मदगन्नावर बासप्पा मदगन्नावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30451 04.06.13	पोस्ट मुदलगी, तालुक गोकक, बेलगप्रव, मुदूलगी
203645	अश्विनी मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29077 05.05.12	मकान नं-20, पदमावति कालोनी, आश्रम कालोनी, बीजापुर
203646	अश्विनी मराठे विघ्नेशवर मराठे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30561 17.07.13	सेमुखा 18-15ए, छठा क्रॉस, लक्ष्मी नगर, गरादे, काडावोरु पोस्ट, उदुप्पि
203647	अश्विनी ए नं. ए नं. विश्वनाथ भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29430 23.05.12	नं 1-125 बरेमपाडे हाउस, रामाकुंज पोस्ट, पुत्तुर तालुक, दक्षिण कन्नड़
203648	अश्विनी निंबाल गुरुरनाथ निंबाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28767 05.04.12	34, गंगापुरम कालोनी, दरगाह जेल रोड, बीजापुर



203649	अश्विनी पाडरा परमेश्वर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30567 18.07.13	नजदीक एस.एस. पी. यू. कालिज, बलागी, बागलकोट
203650	अश्विनी परशुराम ढोगाडी परशुराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24955 10.06.09	979, सुरभी वानासिरी नगर, सतुर, एस.डी.एम. डेन्टल कालेज के पीछे, धारवाड़
203651	अश्विनी पुट्टूर गनेश कौकराडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27701 06.04.11	अश्विनी एच. वीर सावरकर रोड़, बप्पालिगे रोड़ बाईपास, पुतुर तालुक डी.के.
203652	अश्विनी एस. कमाडल सुभाष एम. कमाडल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29266 16.05.12	नं. 1132/ए, विजयनगर कालेज रोड़, मुदगली पोस्ट गोकाक तालुक, बेलगांव
203653	अश्विनी संगप्पा कोलुर संगप्पा के. कोलुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23751 03.04.09	के.डी.सी.सी. बैंक सिदापुरा, उत्तर कन्नड़
203654	अश्विनी सूर्यवंशी सुरेश सूर्यवंशी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27464 26.03.11	2169/ए., मराठा गली, गोकाक तालुक, बेलगांव
203655	अश्विनी विश्वनाथ कन्नाले विश्वनाथ ए नं. कन्नाले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	30621 29.08.13	शेट्टी, सोलापुर क्लिनिक, सरकारी अस्पताल के बराबर में, अफजलपुर, गुलबर्गा
203656	अश्विनी वाई प्रताप रेड्डी वाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29673 25.06.12	3-111/6, जया नगर कालोनी, ईशाल खान गुदा, रामपाली पोस्ट, घाटकेसर (एम.), आर.आर.
203657	अश्विनी बी. कोशेट्टी बासवाराज कोशेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26952 29.10.10	75/04, द्वितीय मेन, प्रथम क्रॉस, पी.जे. एक्सटेंशन, दावनगेरे
203658	अश्विनी बी.ए. नं. नागराज बी.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23866 09.04.09	78/04, द्वितीय मेन, प्रथम क्रॉस पी.जे. इक्सटेंशन, दावनगेरे
203659	अश्विनी एच. एच. वेनुगोपाल शिर्नाय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25716 12.03.10	प्रथम क्रॉस रोड़, अशोक नगर, मंगलोर, दक्षिण कन्नड़
203660	अश्विनी एच.एस. सोमेश्वर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24037 20.04.09	पम्प होसाहल्ली, श्रीरंगापटना, मण्डया
203661	अश्विनी एम. वी. एच. विट्टल शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25083 03.08.09	जी 1, 947, 13वीं क्रॉस, चर्तुथ ब्लाक, एच.एम.टी. लेआउट, विद्यानारायणपुरा, बंगलोर
203662	अश्विनी. एन डी नागेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28486 18.07.11	15, 18वां क्रॉस, , रंगनाथनपुरम, मल्लेश्वरम बंगलौर
203663	अश्विनी. ए नं. के के. नेदागोपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25581 05.03.10	2008/47, 20वां क्रॉस, विद्या नगर, दावनगेरे
203664	अश्विनी पी. थिरुमलेश्वरा भट्ट .पी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24769 04.06.09	आइ-163, पीजाककला हाउस, डोलपडी पोस्ट, पुट्टुर तालुक, दक्षिण कन्नड़

203665	अश्विनी एस.जी. ए.वी. गोविंदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24158 24.04.09	अन्नापोनेश्वरी निलाया, जगदम्बा स्ट्रीट विधानगर, शिमोगा
203666	अश्विनी ए.कुलकर्णी आन्नद सी. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26582 19.04.10	हाउस नं. 1-8-83 (ओल्ड), 1-8-85 (न्यू), ब्राह्मणवाडी, स्टेशन रोड, रायचूर
203667	अश्विनी.के के. बासावराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28687 27.02.12	17/14/187/1, ए नं. जी.ओ. लेआउट, विवेकानंद सिटी, बीदर
203668	आसिफ अहमद अंगदी गुलाब साब ए. अंगदी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28962 26.04.12	गनीहार गाँव व पोस्ट, सिंदगी तालुक, बीजापुर
203669	आसिफ इकबाल तलीकोटी अल्लाबक्श	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27179 18.03.11	नलवाड गार्डन, प्लॉट नं. 37, नियर बदीकमान, बीजापुर
203670	असलम पाटिल अकबर शमशुदीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29492 25.05.12	न्यू कोर्ट के सामने, नवारसपुरा कालोनी, प्लॉट नं. 73, बीजापुर
203671	असलम नदफ मोलासाब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26841 27.08.10	हजरत अबुबकर, दरगाह कालोनी जमखंडी तालुक बगलकोट
203672	आसमा ए काकटीकर अजीज के काकटीकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29551 29.05.12	अंदागी गाँव व पोस्ट, सिरसी तालुक, कारवार
203673	आसमा खानून मोहेब अली खान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28894 20.04.12	नं. 1505 ई डबल्यू 8वां क्रास, राजकुमार राड कल्याणगिरि उधोगगिरि पोस्ट मैसूर
203674	अस्मथ आरा बेगम नूर बाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24962 10.06.09	66/11के वी. प्रथम तल, एम.ई.एस रोड गोकुला एक्सटेंशन, बंगलौर
203675	अश्विनी मनोहर गौरै	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26180 22.03.10	प्लॉट नं. 95, गुरुबरगा निलाया कामटा कालोनी, हीरापुर गुलबरगा
203676	अश्विनी सजनावार लक्ष्मण बी सजनावार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29255 16.05.12	विकास नगर 2वा क्रास, 1वा मेन, रान्नेवेनूर गाँव व पोस्ट और तालुक, हावेरी
203677	अश्विनी ए.पी योगेश टी. एल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25458 02.03.10	133, एन जी ई एफ लेआउट 6वां मेन संजयनगर, बंगलौर
203678	अश्विनी एम. वी.जी मूरलीधरन नैयर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28441 20.06.11	21 किमी, कनक पुरा रोड, उदयपुरा बंगलौर
203679	अतिकुरमान मोहम्मद रफीक एच एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28773 05.04.12	मशरीफ नगर, ईविल कोर्ट के सामने ए., बीजापुर
203680	अतीकजान हमजा एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24116 22.04.09	सातवीं प्रकार, 15/1, के.पी.सी कालोनी, गणेशगुडी पोस्ट जोएदा तालुक, करवार

203681	अश्रेया वी.देवानुर वेकटेश देवानुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28543 07.09.11	576, 5 वीं क्रास, 7 मुख्य रोड़, के. ए नं. एकसटेशन यशवंतपुर, बंगलौर
203682	अतिया परवीन होकरनी बाबूसाब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29464 24.05.12	2654 / पी, बसवाना बागेवाडी तेलगी रोड़, बीजापुर
203683	अतहर जूजाहीद बाबासाहेब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23911 09.04.09	यूसीबी नगर, प्लेट 52, साई कृपा बिल्डिंग, धारवाड़
203684	अत्तर सजीदा दिलावर दिलावर मोहम्मद अत्तर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29469 24.05.12	ए-6. जी. आर. नं. 1, अतरमंजिल, अतरवाडी, कुरेश नगर, कुर्ला पूर्व, कुर्ला तालुक, महाराष्ट्र
203685	अत्तर समीरा फरदीन आसीफ अली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1996	27016 10.01.11	डोंगरगांव कोहाली पोस्ट अठनी तालुक, बेलगांव
203686	औरवाडे शुभांगी नेमीनाथ नेमीनाथ परीसा औरवाडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28052 19.04.11	बेदकीहाल गाँव व पोस्ट और चिकोडी तालुक, बेलगांव
203687	औती रोहित गोविंद गोविंद श्रीरंग औती	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23960 13.04.09	विद्यानगर, 1 क्रास, बादामी तालुक, बागलकोट
203688	अवनि शाईमा मोहीददीन ए अब्दुल खाडेर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30349 20.05.13	साना मंजिल, पीरामुल्ला, होसनागडी, मंजेशवर
203689	अवराडी सुमनगाला रामाप्पा एल आराडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29324 18.05.12	के.एच.डी कालोनी, हुलयाल, जमखंडी तालुक, बागलकोट
203690	अविनाश भानुदास पाटिल भानुदास बंदूजी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24651 22.05.09	रंगानाथ निलाया, गांधी नगर, 2वां क्रास, बदामी तालुक, बागलकोट
203691	अविनाश के एस के शंतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29908 10.01.13	2वां क्रास, 5 पहर विनोभानगर शिमोगा
203692	अविनाश एल पी पुरुषोत्तम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30259 04.05.13	153 श्री वेकटेशवरा निलाया, लक्ष्मीपुरा नगनाहाली पोस्ट मैसूर तालुक, बेलगांव
203693	अविनाश एस एम सुधाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25490 04.03.10	168, 1वा क्रास मरियाप्पाना पाल्या श्रीरामपुरम, बैंगलोर
203694	अविनाश के कटिमानी कृष्णप्पा के कटिमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28570 19.10.11	प्लाट नं. ई.1 सेक्टर नं. 8 नवानगर बैंगलोर
203695	अवारे जयदीप गजानन अवारे जी. खांडेराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24076 21.04.09	विक्रमपुर प्लाट नं. 18, अठनी तालुक, बेलगाम
203696	अवारे प्रमोद केशव अवारे केशव माधव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24131 22.04.09	नवानगर हुनगुन्ड तालुक, बागलकोट

203697	अवाति अश्विनी अरुण अवाति अरुण अप्पासो	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29883 17.12.12	प्लॉट नं. 26 (34 गाला) ताल हटका नांगले, कोल्हापुर
203698	अक्षता पूजार रमेश एस पूजार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29166 11.05.12	बनाशंकरी मंदिर चोलाचागुडडा, बादामी पोस्ट, तालुक, बागलकोट
203699	आयशा हदागली जमालुददीन हदागली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25851 12.03.10	219 ए ब्लॉक तृतीय, कुलकर्णी हक्कल, हेड पी ओ, हुबली, धारवाड़
203700	आयशा सिद्दका लियाकत अली खान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29367 21.05.12	नं. 1/14 एस आर एस कॉलेज के पीछे, एन एच-13 पिल्ले केरेनाहाल्ली चित्रगुप्ता
203701	आयशा सिद्दका रियार्जुंरहमान शरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30542 05.07.13	दरवाजा नं. 198 4वां मेन, 6वां क्रॉस, बनीमटप सी लेआउट मैसूर
203702	आयशा तब्बसुम एम.डी. शेख अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27544 28.03.11	1-4-153, गोरमितकल, यादगिर
203703	आयशानसरीन जमखंडी सेफुददीन मोहम्मद हुसैन जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29499 25.05.12	टीचर कालोनी एट पोस्ट मोदहोल तालुक, बागलकोट
203704	आयशा शमरीन अब्दुल रहमान बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23989 18.04.09	शंकरघाटा कवेमपु विश्वविद्यालय, भद्रावती तालुक शिमोगा
203705	अयव हुसैन हयातखान मोहीददीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30316 10.05.13	उगर रोड नियर नुर मोहल्ला, ए.पी कुडाची ताल-रायबाग, बेलगांव, कुडाची
203706	बी पांडुरंग सौदागर सौदागर बी बोनगाने	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25192 08.10.09	कालीदास गली, सिंदगी तालुक, बीजापुर
203707	बी.एस. प्रतिमा शिवन्ना जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30241 02.05.13	जनरल मंचेंट, जलप्पा बिल्डिंग, डी क्रॉस, , डोडाबालापुर, तालुक,
203708	वी.वी. फातिमा शरीफुददीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29798 12.10.12	873, 1वां तल, 2वां क्रॉस, , 2 मेन एस एस नगर, बान्नी मनतापा मैसूर
203709	बाबानगर सुप्रिया संगोडा बी संगोडा चन्नपा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24746 03.06.09	गर्ल छात्रावास, ममदापुर बिल्डिंग, बादामी तालुक, बागलकोट
203710	बबीता सी आर रंगास्वामी सी एन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25993 18.03.10	गायत्री एक्सटेंशन, बी जी नगर, 5 वीं क्रॉस, चन्नारायापटना तालुक, हासन
203711	बाबू कचनुर बसप्पा कचनुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29991 06.04.13	जोरापुर पेट अकाडी गली, बीजापुर
203712	बडगुजर कविता श्रीराम बडगुजर एस. यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24647 21.05.09	प्लॉट नं. 46, जया नगर, सेडम रोड, डाक्टर कालोनी, गुलबर्गा

203713	बडगुजर सरिता रमेश रमेश किशन बडगुजर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29647 14.06.12	श्रीविहारी प्लाट नं. 14, संख्या नम्बर 132/4 बिजलीनगर चिंचवाड, पुणे
203714	बडगुजर विनय पंडित बडगुजर पी. शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24437 05.05.09	मकान नं. 5-992/ 33/ ए, यदुल्ला कालोनी, रोजा नियर पानी की टंकी, गुलबर्गा
203715	बदीगर हनुमेश सुब्रयप्पा सुब्रयप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23870 09.04.09	नियर सिद्धि विनायक स्कूल, मल्लापुर, पी.जी गोकाक टी कयू, घटप्रभा, बेलगांव
203716	बहेती ज्योति रमेशचन्द्र बहेती रमेशचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28812 13.04.12	मुकुंदराज कालोनी, अबंजगई ग्राम, पत्रालय एवं तालुका बीड
203717	बहेती महेन्द्र प्रकाशचंद्र बहेती पी. वृजलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30003 08.04.13	696, पिम्पलाया चौक, अदास, तहसील-कैज, बीड
203718	बाहुबली निमन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25169 06.10.09	बसतवाड पोस्ट, हुक्केरी तालुक बेलगाम
203719	बाल्लार्ची वी यू वेकेटेशासाचार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25213 13.10.09	15, 8 वीं क्रॉस, बोवीपाल्या, महालक्ष्मीपुरम, बंगलोर
203720	बालागॉव सीदाराम तीपान्ना टीपान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28915 26.04.12	उमादी पता व पत्रालय जाथ तालुक, सनोली
203721	बालागोनी रचना मल्लेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30570 18.07.13	मुथीरेड्डी गुडेम चाडा आत्माकुर नालगोंडा अ.प्र
203722	वलप्यान्नावरा आनंद कुमार बी कलपेडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24548 13.05.09	142एच/5 हुवीन हाडागल्ली तालुक बेल्लारी
203723	बालासाहेब विघाते कृष्ण जी विघाते	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29870 20.11.12	पुराना बस स्टैंड के पीछे, पता और पोस्ट मानागोली तालुक, बी बगेवाडी
203724	वाला सुब्रमन्या के एच केशव आचार्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25797 12.03.10	1-14, श्रीदेवीकृपा पाडेबेट्टु, पदुबीदरी पोस्ट, उदुप्पी
203725	बलताई कुत्रे मनोहर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29563 12.06.12	148 रामदेव गली सवागॉव मंडोल , बेलगाम
203726	बमबागले सोनी अमरेश बम्बालो	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27545 28.03.11	मार्फट एन के जे आयु मेडिकल कालेज, सिद्धार्थ मैथ गुम्पा बीदर
203727	बामुगाडे युवराज सदाशिव सदाशिव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24946 10.06.09	वी भी गिंगीमथ, एम बी कलाल भवन, नियर वेंकटेश थियेटर, मुन्डार्गी तालुक, गडक
203728	बांदगर अभीजी आनंदराव बांदगर ए बिरु	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23956 13.04.09	नियर अर्ली ट्री, जोगीमती रोड, 4वां क्रॉस चिन्नदुर्गा

203729	बांदागर अनिलकुमार मचिन्द्रा बी मचिन्द्रा जनप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28634 21.11.11	के द्वारा राजेश्वरी करुरमठ मेमोरियल एमसी, बीजापुर
203730	बांगर अवन्तिका महेन्द्र बी महेन्द्रा सखाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24436 05.05.09	4 / 1062, सर्राफा बाजार, गुलबर्गा
203731	बांगर रेखा केलाश बांगर केलाश बिकाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24323 29.04.09	टोटड गली, बेलहोंगल तालुक, बेलगाम
203732	बंगरेवा कन्नूर बासाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27561 29.03.11	ताम्बा, इंडि तालुक, बीजापुर
203733	बन्ने सतेज टिपन्ना बन्ने हल्लप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29326 18.05.12	प्लाट नं. 143, बापूराम नगर, कालाम्बा पोस्ट, करवीर तालुक, कोल्हापुर
203734	बनशेलकीकर कपिल बनशेलकीकर एन अम्बाजीराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30028 15.04.13	गौड निवास, संत कबीर नगर, रेलवे स्टेशन के सामने, उदगीर, लातुर उदगीर
203735	बनसोड रणधीर विनायक राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26704 02.06.10	3-6-358, गांधीनगर कालोनी मेलर रोड, बीदर
203736	बापूगौडा बिरादर मलियन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26563 15.04.10	बवूर पोस्ट, मूडेबिहाल तालुक, बीजापुर
203737	बरोते आशीष रामदास बरोते रामदास एस राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26799 19.08.10	1 चरण, वी. पी नगर, जी.डी.ए. कालोनी, सेडम रोड गुलबर्गा
203738	बारसिंह अक्षय अनिल अनिल मारुति बारसिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27955 18.04.11	के द्वारा एस डी एम सी ए.एम.सी, टर्डल, जामखण्डी तालुक, बागलकोट
203739	बासानीलागौड पाटिल लिंगनागौड पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24678 28.05.09	वीरभद्राशेखर सदन, नवलकुंड तालुक, धारवाड
203740	वसानागौड रेव्वान्नावर एम एम रेव्वान्नावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29385 21.05.12	करंगागुप्पी पोस्ट, हुक्केरी तालुक, बेलगाम
203741	वसानागौड तेजीगौदरा वीरनगौड तेजीगौदरा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29629 14.06.12	हुलर पोस्ट रोड, तालुक, गडक
203742	वासानायक रूद्रानायक डोडानायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30163 25.04.13	ग्राम एवं पत्रालय मुर्कीभावी, तालुक, बेलहोंगल, बेलगाम मुर्कीभावी
203743	बसप्पा घंटी सिद्दप्पा टी घंटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2005	25378 02.02.10	हिदाकल पोस्ट रायबाग तालुक, बेलगाम
203744	बसप्पा केनगौडा फकीराप्पा एम केनगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30523 25.06.13	पोस्ट-काकोल, तालुक -रानेबेन्नूर

203745	वासवानेप्पा साधुनावर चनावासप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28423 20.06.11	नं. 357, कदरावल्ली, बेलहोंगल, तालुक, बेलगाम
203746	वसन्तप्पा मुलीमानी शिवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26906 21.09.10	मुलीमानी गली जलीकोप्पा, बाईघोंगल तालुक, बेलगाम
203747	बासवाराज शिवप्पा गुडीहिंडल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29554 12.06.12	एम गुडाडुरे, मडापुरे पोस्ट, कुस्तागी तालुक, कोप्पल
203748	बासवाराज अवाति शिवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26888 15.09.10	चालूक्या नगर, बीजापुर
203749	बासवाराज वन्नानावर नगाप्पा के. वन्नानावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27609 01.04.11	जयानगर हुक्केरी ग्राम एवं पत्रालय और तालुक
203750	बासवाराज बेली वीरन्ना बेली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28064 19.04.11	लक्ष्मी नगर, गुरमटकल ग्राम एवं पत्रालय यादगिरि तालुक
203751	बासवाराज चव्हाण पाण्डु	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23695 01.04.09	गाबासावलकी पोस्ट, सिदंगी तालुक, बीजापुर
203752	बासवाराज इलाल शरनैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25314 27.11.09	केसूर पोस्ट, दोतीहल कुशतांगी तालुक कोप्पल
203753	बासवाराज ज्योति विरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30576 24.07.13	मकान नं. 172/डी प्लाट नं. 30, लिकर रोड, विधानगर गोकक, बेलगाम
203754	बासवाराज कामाडोली शिवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24382 05.05.09	किरेसुर हेबसुर पोस्ट, हुबली तालुक, धारवाड
203755	बासवाराज कनाल्लेर शेखाप्पा के कनाल्लेर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25340 22.12.09	गुलागंजी कोप्पा, शिवाबासवानगर शिवाली प्लाट, धारवाड
203756	बासवाराज कोटागी रुद्राप्पा एस कोटागी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27826 08.04.11	नं. 210 3बी /2, 3वा क्रॉस, , विश्वेशवरैया नगर, गोकक तालुक, बेलगाम
203757	बासवाराज शरणप्पा शरणप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29834 30.10.12	नियर पुलिस स्टेशन तुरीविहाल पोस्ट सिंदानुर तालुक, रायचूर
203758	बासवाराज शिंदे नारू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24697 02.06.09	82, सांभरा रोड, बासावन कोडाची, बेलगाम
203759	बासवाराज शिरूर शंतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28771 05.04.12	के के नगर हाउस नं. 290, मंगली रोड, बीजापुर
203760	बासवाराज सुभाषचंद्र सुभाषचंद्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25685 12.03.10	हेलाबली बादामी तालुक, बालागाट

203761	बासवाराज वीरानागोडा पोलीस पाटिल वीरानागोडा डी पोलीस पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28250 12.05.11	प्लाट नं. 192, सेक्टर नं. 30, नवानगर, बागलकोट
203762	बासवाराज एम गोनाल मालप्पा एन गोनाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25842 12.03.10	दबाली ओनी, श्रीहट्टी तालुक, गडक
203763	बासवाराज.एस श्रीनिवास.जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28902 20.04.12	नं. 793, 1 मेन रोड जोडाबल्लापुर पोस्ट एवं तालुक बैंगलोर रुरल
203764	बासवाराज बानाकारा अजन्ना बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27152 18.03.11	नियर बसावा मंदिर, चपराहल्ली पोस्ट, कुडलीगी तालुक, बेलारी
203765	बासवाराज नायक बलप्पा नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26883 15.09.10	मचाखोर पोस्ट, मूधहोल तालुक, बागलकोट
203766	बासवाराजेश्वरी शरनप्पा चिमकोडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25263 02.11.09	मकान नं. 19-6-191, नियर हनुमान मंदिर, शिवानगर, बीदर
203767	बासवाराजेश्वरी सौंसीमठ वासैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26143 20.03.10	एफ-2 लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, नीलीगीन रोड, हुबली तालुक, धारावाड
203768	बासवाराजेश्वरी एम बी बासवानागोडे एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28788 11.04.12	हिताला पता एवं पोस्ट, शिकारीपुरा तालुक, शिमोगा
203769	बासवाराजेश्वरी बी बी सिद्धप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25498 04.03.10	भिरेश्वरी निलाया , 5वां वार्ड हुवीना हडागल्ली तालुक, बेल्लारी
203770	बासवाराजेश्वरी महादेवप्पा हजारे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29438 24.05.12	नं. 30-111 बासवनगर, बसवा महामाने, बसवाकल्यान तालुक, बीदर
203771	बासावा होंगल इरप्पा होंगल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30009 09.04.13	131 पिथोनिमा नाम 4 रिंड, 52/1 निसारागी बेलाहोंगल बेलागाम
203772	बासोबी अजीज साब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24307 29.04.09	राम मंदिर रोड शिरपाकोप्पा पोस्ट शिकारीपुरा तालुक शिमोंगा
203773	बासवाराज काशीनाथ काशीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28336 25.05.11	नितुर भालकी तालुक, बिदार
203774	बांटे संदीप वेंकटराव बांटे वेंकटराव दलपत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24508 12.05.09	एम बी कलाल लोज नियर वेंकटेश थियटर, मुन्दर्गी तालुक, गडग
203775	वाविष्कर राहुल विनायक वाविष्कर विनायक वामन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29831 30.10.12	प्लाट नं. 05, आदर्श नगर नियर दादाश्री नगर शाहदरा तालुक, नंदुवार
203776	बिलागी जैरुददीन मलिकसाहिब बीलागी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25124 16.09.09	महानतेश नगर, मुड्डीबिहाल तालुक, बीजापुर



203777	बेनजीर इकबाल मुल्ला इकबाल अब्दुला अजीज मुल्ला	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30465 07.06.13	शाहदरा हाउसिंग सोसायटी, प्लाट नं. 1, राजारामपुरी 10वीं लेन, एक्सटेंशन एरिया, कोल्हापुर
203778	भगत माया द्वारकानाथ द्वारकानाथ एम भगत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30132 20.04.13	मकान नं. 360, शिवसेतु भवन, नागव, तालुक, भिवंडी, थाने, डंडेकरवाडी
203779	भगत पल्लवी मधुकर भगत मधुकर विठठल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29558 12.06.12	वेलपुर पोस्ट, मलासिरस तालुक, सोलापुर
203780	भगत प्रदन्था मधुकर मधुकर विठठल भगत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25204 09.10.09	19-4-622, हमनाबाद रोड, नौबाद, बीदर
203781	भाग्यालक्ष्मी एस. आर रंगाराजू एस पी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23884 09.04.09	6वां क्रस, शिवमोकम्बिका नगर, उपरहल्ली, टुमकर
203782	भाग्यालक्ष्मी बी. आर राधाकृष्णा एन एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23988 18.04.09	5वां क्रस पी एवं टी कालोनी, विनोभानगर, शिवमोगा तालुक, शिमोगा
203783	भाग्यालक्ष्मी टी बी.टी. थिमन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24048 20.04.09	43, बासापुरा रोड, रामपुरा पोस्ट, मोलाकलमुरु तालुक, चित्रदुर्गा
203784	भाग्यालक्ष्मी सी.वी लक्ष्मनन सी.वी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28007 18.04.11	नं. 24-14-1238, 1वां क्रस, जेपुबोप्पल मैंगलौर, डी.के
203785	भाग्यश्री बाबुराव शिंदे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24638 21.05.09	नगरतन निवास, प्रीति कालोनी, नौबाद, बीदर तालुक,
203786	भाग्यश्री बिरादर अशोका कुमार एच बिरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28011 18.04.11	महंतेश नगर, नियर एम जी एम के स्कूल, मुडडेबिहाल तालुक, बीजापुर
203787	भाग्यश्री गयाड वीरप्पा गयाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24618 18.05.09	बी 18/2, 2वां क्रस हिगेरी कालोनी, हुबली तालुक, धारवाड
203788	भाग्यश्री एस आर रंगाराजू एस डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29004 27.04.12	नं. 752, 13वीं मेन 7वां क्रस, बी एस के श्रीनिवासनगर, बैंगलोर
203789	भाग्यश्री चिंचोली रमन्ना के चिंचोली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29463 24.05.12	ए 44, बावसरनगर, बीजापुर तालुक
203790	भाग्यश्री पाटिल लक्ष्मनागोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30352 20.05.13	कृष्णा बुडीहाल, श्री धनवंतरि किलीनिक, गांधी सक्रल, ए/पी तालुक, मुधोल
203791	भालेराव निलेश यशवंत वाई दत्तात्रेय भालेराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24130 22.04.09	मृतुन्जय नगर, बंसाकरी लेयआउट, रेन्नेवेन्नूर तालुक, हावेरी
203792	भामरे सूरजलाल बाबुलाल भामरे बाबुलाल राजाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25274 04.11.09	चित्रा अकेडमी, 4वां क्रस जे. एम. रोड, चित्रदुर्गा

203793	भानु गुप्ता अशोक कुमार गुप्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26718 15.06.10	276, नागवारा मेन रोड, के जी हल्ली, बंगलौर
203794	भानुमति मेलमूरी वासुदेव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28625 15.11.11	1वां क्रास बी ब्लॉक बासाकेश नगर, हावेरी
203795	भानुप्रिया एम एन एम सी नरसिम्हा मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25598 06.03.10	1951, 1वां क्रास बी ई एम एल लेआउट के विपरीत श्रीरामपुरा 3वां स्टेज, मैसूर
203796	भरामा नायक कुमारेप्पा डंडियन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28037 19.04.11	तिपानेल सुलेखल ए/पी गंगावती तालुक, कोप्पल
203797	भारत भूषण तीरथ राम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24872 06.06.09	807, बासवदान, 60 फीट रोड, विनोभनगर, शिमोगा
203798	भारत दिवाते श्रीनिवास आर दिवाते	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27405 25.03.11	4/6 11 डी नेहरू नगर, गोकुल रोड, हुबली तालुक, धारवाड
203799	भरत जाधव तनाजी के जाधव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27694 05.04.11	जलालपुर ए/पी रायबाग तालुक, बेलगाम
203800	भारत कालीदिंडी के.वी.एस.राजू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29532 28.05.12	प्लॉट नं. आरएस 212/1बी, फालस रोड गोकक पोस्ट एवं तालुक, बेलगाम
203801	भारतीश पटवारी पी गुरु राघवेंद्र राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30279 07.05.13	नं. 3.2.623, चप्पल बाजार, कचीगुडा हैदराबाद, हैदराबाद
203802	भारत भूषण रावत कृष्ण मुरारी रावत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28743 02.04.12	नियर न्यू अस्पताल, इगलास (अलीगढ़) उत्तर प्रदेश
203803	भारत कुमार एस. डी ए नं. पी देवेन्द्राप्प	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28146 26.04.11	जैन मुठ रोड, श्रवनबेलगोला चन्नारायनपटना हासन
203804	भारती उपेन्द्र आचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27716 06.04.11	श्रीनिवास नं. 19-143 बन्ताकल पोस्ट, उडुप्पी तालुक
203805	भारती मालीनाथ वी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24732 03.06.09	नियर प्राइमरी स्कूल, हुसानगी पोस्ट, शोरापुर तालुक, गुलबर्गा
203806	भारती कंगरालकर यल्लपा के कंगरालकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29233 15.05.12	नं. 970/33, परमेश्वर नगर, येलुर पोस्ट बेलगाम
203807	भारती नासी बासवराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24489 11.05.09	हलुर पोस्ट, गोकक तालुक, बेलगाम
203808	भरतकुमार ए.जी हनुमनथप्पा ए.जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24553 13.05.09	हुनाशेहल्ली कुमारगटे पोस्ट, होनाली तालुक, दावनगेरे

203809	भार्गवी कुलकर्णी गुरुराज कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24936 10.06.09	मकान नं. 11-366/63, सुशील स्मृती, ब्रमपुर गुलबर्गा
203810	भागवती एम एस पारासास्त्री एम एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30063 16.04.13	1758 4वां डी क्रॉस, 9 वां मेन हाल 3वा स्टेज, इंदिरानगर, बैंगलोर
203811	भट्ट स्वर्णा रंजिता मदिप्पु गनेश भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30494 14.06.13	180 मेलानाहली, तालुक, भद्रावती शिमोगा
203812	भट्टाले अश्विनी विश्वनाथ भट्टाले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30508 19.06.13	गंगा कुंज, साई शंकर नगर, अकोल रोड, तहसील-चिकोडी, बेलगाम, निपानी
203813	भट्टर प्रभावती भट्टर लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27679 05.04.11	नगर खान पेट, गुलेगुडडा ए/पी बादामी तालुक, बागलकोट
203814	भावना गिरिधर हंचाते	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28462 04.07.11	“सूरवोदया” कालोनी कल्याण मंताप रोड बसावा बीदर
203815	भावना रामचंद्र मटाके	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28655 14.12.11	वेकटेश निलाया, नेकर नगर, नेताजी कालोनी, हुबली तालुक, धारवाड
203816	भावना जे.एम मंजूनाथ जे.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25576 05.03.10	3228, वडडारपेट, डोडाबालापुर तालुक, बैंगलोर
203817	भावना एस शंकर गोडा सी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24058 21.04.09	90, 41 क्रॉस 8वां ब्लाक जयनगर, बैंगलोर
203818	भावना के आर राघवेंद्र के जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26673 20.05.10	1951/2, ईस्ट क्रॉस, 1, एन एस रोड, शिवरामपेट, मैसूर
203819	भावना आर रमेश पी एन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28398 09.06.11	79, 7वां क्रॉस 1 मेन, बेस्थार ब्लाक विघारनयापुरम, मैसूर
203820	भवानी हीरेमठ श्रीर कन्हैया जी हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27788 07.04.11	1230/ए, भवानी, शंकर निलाया, शंकर नगर, अठनी तालुक, बैलगाम
203821	भवानी के एस सिद्धासेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25828 12.03.10	219, विनायक 3वा मेन रोड 11वां मेन टी.के लेआउट जनानाथनगर मैसूर
203822	भावे वरुण वासुदेव वासुदेव आर. भावे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23963 13.04.09	सातवां क्रॉस, चालुक्य नगर, बदामी तालुक, बालगकोट
203823	भावा वर्मा के.एस. आनन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24865 06.06.09	100, पांचवा क्रॉस, पांचवी स्टेज, विनोभा नगर, शिमोगा
203824	भव्या भोजा नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25095 17.08.09	गनीमट्ट पोस्ट, गांधीनगर, मंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़

203825	भव्या यगानर सिम्हैय्या ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26656 11.05.10	प्रथम क्रॉस मेन, बनशंकरी, टुमकुर
203826	भव्या सी. सी. भानु मूर्थी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	30606 19.08.13	नं. 10, पुराना पुलिस स्टेशन के पीछे, नजदीक मापले बियर, कोनाकुन्ते, कर्नाटका, बंगलौर
203827	भव्या एम. एम. अम्बाडी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29431 23.05.12	महाबलदका हाउस, जनसूर पोस्ट, सुल्लिया तालुक, दक्षिण कन्नड़
203828	भव्या रानी. बी.सी.एस. चन्द्रशेखर बी.सी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24725 03.06.09	डी नं. 99/5, छठा क्रॉस, वी निलय, डी. आर. कालेज, पोस्ट जी. एस. पाल्या, बंगलौर
203829	भव्या बी.के. काशीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25862 12.03.10	16, तेरहवां क्रॉस, नवां मेन रोड, विलसन गार्डन, बंगलौर
203830	भव्या बी.एम. मधूसूदन राव एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25672 12.03.10	ए.3/35, कवलबेरसन्दा, आर.टी. नगर, बंगलौर
203831	भव्या के. भाष्कर आचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24030 20.04.09	110, बी.एस.के., प्रथम स्टेज, ग्यारहवां मेन, श्रीनगर, बंगलौर
203832	भव्या एम. डी.एम. मल्लेशैय्याह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25847 12.03.10	सी.पी.डी.ओ. (सीनियर) क्वाटर्स, हेसारगथ्था
203833	भव्या एस. जे.सी. शिवन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24629 18.05.09	422/ए., पेटे चेन्नाप्पा इण्डस्ट्रियल स्टेट, कामाक्षीपल्या, बंगलौर
203834	भव्या जी. के. कुमार जी. आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27663 02.04.11	लिंगमानाहाल्ली, के.जी. मंदिर, नगासेन्दरा पोस्ट, गुब्बी तालुक, टुमकुर
203835	भव्यश्री रामचन्द्र हेब्बर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25547 05.03.10	ऐअरबेल, सिद्धापुर पोस्ट, कुन्दापुर तालुक, उदुप्पी
203836	भीमप्पा कोली यलप्पा एस. कोली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26866 04.09.10	संगाकेरी ग्राम व पत्रालय गोकाक तालुक, बेलगांव
203837	भिगे वासवाराज भिगे अशोक रचप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27858 11.04.11	नं. 46, सिद्धी विनायक कालोनी, चालुक्य नगर, बीजापुर
203838	भियुंगाडे अजय शिवाराम शिवाराम बापु भियुंगाडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25480 03.03.10	प्लाट संख्या 48, 49 नं. 204, लक्ष्मी एक्सटेंशन, गोकाक, बेलगांव
203839	भोगाँवकर योगेश प्रमोदराव प्रमोदराव भोगाँवकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30183 26.04.13	भोगाँव डी, तहसील-जिन्तूर. परहानी, भोगाँव देवी
203840	भोईते विशाल विठ्ठल भोईते विठ्ठल सर्जेराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24701 02.06.09	मेन मानवी तालुक, रायचुर

203841	भोजकर रोहन भोजकर आर. अमागौन्डा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25687 12.03.10	अंकाली (शंकेश्वर) हुक्केरी तालुक, बेलगांव
203842	भोलोना अविनाश रामदास रामदास वमन भोलाने	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29733 29.08.12	2226, ग्राम व पत्रालय सवादा, तेलीवाडा, रवेर तालुक, जलगांव
203843	भोले भूषण चन्द्रकान्त चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24191 24.04.09	प्लाट संख्या 1295, सेक्टर नं. 07, शिवकृपा बिल्डिंग, वन्तमुरी कालोनी, मलामारुति एक्सटेंशन बेलगांव
203844	भोसले तुषार जगन्नाथ भोसले जे.शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25308 27.11.09	प्लाट संख्या 1777, सेक्टर नं. 09, अंजनेय नगर, मलामारुति एक्सटेंशन बेलगांव
203845	भुजबल रेशमा नामदेव भुजबुल नामदेव खांडु	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24324 29.04.09	तोदड़ गली, बेलहोंगल तालुक, बेलगांव
203846	भुजबल रूपाली सुरेश सुरेश बाबाजी भुजबल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24431 05.05.09	गौरी शंकर क्लिनिक, के.एम.पी. रोड़, बदामी तालुक, बागलकोट
203847	भुपेन्द्र कुमार चाडोकर मिथोड़ चाडोकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28993 27.04.12	सी., ककाड़ा अभिनव होम्स, अयोध्या नगर, भोपाल तालुक
203848	भूरे योगिता उत्तम उत्तम वी भूरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30342 20.05.13	पत्रालय ऐटावाड़े, बी. के. सांगली, तहसील वलवा
203849	भुसारी अमोल भास्कर भुसारी भास्कर नाना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23784 04.04.09	बस स्टेण्ड के पीछे, गजेन्द्रगढ़ रौन, तालुक गडग
203850	भूषण बेलावाडी मादीवलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29228 15.05.12	पी. के. बेलावादी, शंकरी निलाया, नन्देश्वर तालुक, कलासापुर रोड़, गडग
203851	भुवनेश्वरी गुरानागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27427 25.03.11	पदमा निवास, हुना सिंगी रोड़, केम्भावी, शोरापुर तालुक, यदागिरी
203852	भुवनेश्वरी हुलीयाल गंगाधर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26040 19.03.10	प्लाट संख्या. 13, पदमवती कालोनी, नजदीक आश्रम, बीजापुर
203853	भुवनेश्वरी स्वामी विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30258 03.05.13	वार्ड संख्या-1, बासवेश्वर सक्रिल, हुनागुद तालुक, बागलकोट, इलकल
203854	भुवनेश्वरी के. नागैय्या स्वामी के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24766 04.06.09	16-1-30, गुम्पा के पीछे, कैलाश नगर, मनहल्ली रोड़, बीदर
203855	बीबीअमीना यल्लापुर अब्दुल रु यल्लापुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25783 12.03.10	5/00116, तृतीय क्रॉस, प्रथम मेन, मृत्युजय नगर, बी.पी. रोड़
203856	बिन्ध्या ए नं. एल. लक्ष्मी नारायण ए नं. आर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25769 12.03.10	916/2, चतुर्थ क्रॉस, प्रथम मेन रोड़, दावनगरे

203857	बिन्ध्या आर. पटेल रमेश एम. पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29465 24.05.12	103/2, सनसिटी मार्केटिंग, प्रथम क्रास, प्रथम मेन रोड, ए नं. टी.वाई. लेआउट, बंगलौर
203858	बिन्दु कुमारी गिरधारी प्रसाद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30210 29.04.13	वी.एल.एल.सर्वान्दपुर, पोस्ट मथेला, चन्दोली, उत्तर प्रदेश
203859	बिन्दु तेलंगाना विद्वत् प्रसाद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24933 10.06.09	एम. आई जी-22, द्वितीय फेस, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नेहरू गंज, गुलबर्गा
203860	बिन्दुमाधव देसाई केशवराव देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26046 19.03.10	एम. आई जी-22, द्वितीय फेस, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नेहरू गंज, गुलबर्गा
203861	बिरादर अनुपसागर शिवशंकर शिवशंकर बिरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29113 07.05.12	हात्रीस्वामी चौक, रोकरे अनुमान रोड, ग्राम एवं पत्रालय उदगिर
203862	बिरादर, बासवाराजा, बिरादर मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2005	28749 02.04.12	9-11-267, विद्वद्या नगर कालोनी, जी.ए नं. डी.ई. कालेज रोड, बीदर
203863	बीरादर सावीत्री मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28112 25.04.11	वृंदावन खण्ड-63अ, नावानगर, बागलकोट
203864	बीरादर स्वाती रेवागौडा बी बीरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30092 18.04.13	बीजापुर रोड नियर मोदी हास्पिटल, तहसील सांगली, जथ
203865	बीरादर वैशाली शंकर बीरादर एस सिदराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25147 25.09.09	श्री सिद्धा संजीवनी हास्पिटल, इनामदार कालोनी, बीजामपुर
203866	विराजदार रंजना सूर्यकान्त वीराजदार एस मणिकराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27126 17.03.11	सी/0 एन0के0जे0, ए0एम0सी0, गुमफ्हा सिद्धान्ध मेठ वुमैन हास्टल बीदर
203867	बीस्वास चयनकुमार दीलीपकुमार दीलीपकुमार जे बीस्वास	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29663 18.06.12	एफ/49, आई यू डी पी मनमाड गाम एवं पत्रालय, तहसील-नंदगाँव, नासिक
203868	बीताले रूपाली जोतीराम जोतीराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25906 15.03.10	प्लाट नं. : 2111, एम0एम0 ऐक्शटैन्शन खण्ड न:09, वन्तमूरी, बेलगाँव
203869	बोगम स्वाती अम्बादास अम्बादास लक्ष्मण बोगम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29744 21.09.12	240, गंजपेट, श्री कुरुप्पा अपार्टमेंटस, नियर, शुक्रवार पीठ, तहसील-पुने
203870	वोन्डागे मांधुरी विनायकराव वोन्डागे वी काशीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30079 18.04.13	ग्राम एवं पत्रालय चपोली, तहसील-चाकुर, लादुर, चपोली
203871	बोरा रविकुमार विनोद विनोद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27193 19.03.11	19-04-622, एम0इ0एस0 कालोनी, नौबाद, बीदर
203872	बोरगाले श्री नाथ सुरेश सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23847 06.04.09	2199, पोगनीसबोल, नियर मराठी स्कूल रु2, महादेव गली, तहसील-निपानी चिकोडी, बेलगाँव

203873	बोराटे प्रमोद जनार्दन बोराटे जनार्दन तोलाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24363 30.04.09	बी0ए0एम0 कॉलेज बापूजी कैम्पस, टी0आर0नगर, तहसील-चल्लाकरे, चित्रदुर्ग
203874	बोरसे जितेंद्र दगदू बोरसे दगदू मगदू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30031 15.04.13	ए0पी0 वारसी, तालुक-शिंडखेडा, धूले, वारसी
203875	बोरम्मा पाटिल मालागौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25096 17.08.09	1067, बीजापुर रोड शिवायोगी नगर, तालुक-अठनी, बेलगाँव
203876	ब्रह्मानन्दा एच0आर0 राजशेखर.एस.हेब्बर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25167 06.10.09	714/अ, टी0एस0एस कालोनी, नई माक्रिट यार्ड, तालुक-सिरसी, दक्षिणी कनाडा
203877	बृजेश सिंह राजेन्द्र बी सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	24776 04.06.09	वार्ड नं. : 15, शिवपुरी कालोनी, धारवाड
203878	बुधाले विनायक शिवशरण शिवशरण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24820 05.06.09	पी-34/, द्वारा मीरा मोहन वाथरकर, कलयाण नगर, बीजापुर
203879	बुदनेसाब बल्लारी मोलासाब.बी.बल्लारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26881 15.09.10	नं. : 1107/बी, गली होराखेरी, नारगुण्डा-ऐ/पी, तालुक-गडग
203880	बुदरूर अमोल अर्जुन बुदरूर अर्जुन गणपत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24272 29.04.09	टोटाड गली, तालुक-बेलहोंगल, बेलगाँव
203881	बूगाडे गोरीशंकर चंद्रकान्त सिद्धप्पा बुगेड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24633 18.05.09	कालीदास गली, तालुक-सिन्दगी, बीजापुर
203882	बिन्दु.पी.पाटिल बी.पाराशिव मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25578 05.03.10	298, बी ब्लाक, 13 क्रॉस, जे0पी0 नगर, मैसूर
203883	बुकशेट्टी प्रवीना बुकशेट्टी मल्लप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25110 07.09.09	24, पत्रालय होलागुण्डी, वार्ड नं. : 3, तालुक-हुवीन हाडागल्ली, वेलरी
203884	कैरोलाइन थैरेसा कुटिन्हा सैलवाडोर कुटिन्हा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24616 18.05.09	नावाबेतुह हाउस, पत्रालय-मुडबीदरी, तालुक-मन्गलोर, दक्षिणी कनाडा
203885	चैतन गेज्जी बसप्पा गुरुबसव्वा गेज्जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29510 26.05.12	इनगालागाँव (एन0ए0डी0आई) ग्राम एवं पत्रालय, तालुक-अठनी, बेलगाँव
203886	चैतन्या एच सतीश चंद्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29687 03.07.12	1925, मेंन रोड-चौथा, हाल तीसरा स्टेज, पत्रालय नया थीप्पासान्द्र, बैंगलोर
203887	चेतन्या सी के. चंद्रशेखरन पिल्लई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30416 27.05.13	अग्ररहम, पोस्त आफिस-वाराविला (के जरिए), कोलम
203888	चेथन्या.एस.पूजारी पी.शेषा पूजारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24259 28.04.09	2-51ई, श्रीनगर, केलारकल बेटु, तालुक-उदुप्पी

203889	चैथरा.डी सी.दासप्पा सेठी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25567 05.03.10	79, मेन-ग्यारवाँ, जे0पी0 नगर, डी ब्लाक, मैसूर
203890	चैथरा.एच.सी चन्ननकेशव.एच.सी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24498 11.05.09	गली मोसेव, पत्रालय-हासाहोलालू, के0आर. तालुक-के0आर.पेट, मन्द्या
203891	चैथरा.के.एस. के.एस.एस.गोडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28560 20.09.11	डी. नं. : 17/236, सुभाष नगर, के.आर. नगर, मैसूर
203892	चैथरालक्ष्मी.के मुरालीकृष्ण.के	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24846 06.06.09	18, मेन रोड-तीसरा, मारुती एकस्टेंशन, मालेशवरम, बैंगलोर
203893	चैथरा चोकीमेथ शंकरीह चोकीमेथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28667 09.01.12	गली कालीपैट, पत्रालय ऐव तालुक -बादामी, बागलकोट
203894	चैतरा जी कृष्ण एस.गोपाला कृष्ण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28886 20.04.12	नं. : 91/1, योगासन्जीवा, रोड नेताजी, क्रास गली ब्लाक -1टी आर नगर, बैंगलोर
203895	चैतरा मजूमदार पदमज्जा.एस.मजूमदार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29965 06.04.13	मर्शिददेशवर निलाया कदसिद्वेशवर कालोनी, क्रास-7, जमखांडी
203896	चैतरा एन टी. नगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28835 16.04.12	ग्राम-हेलकुन्डर पत्रालय-बगूरु, तालुक-हासादुर्गा, चित्रदुर्गा
203897	चैतरा.टी केशवा.टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27586 30.03.11	3-622, थौकट्टू, तालुक-मंगलोर, दक्षिणा कनाडा
203898	चैतरेश गडा नागराज गडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29799 12.10.12	6-77, गली गोवोआ ग्राम एवं पत्रालय-हमनाबाद, बीदर
203899	चालना कुमारी चंद्रशेखर शेट्टी.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25064 22.07.09	मतनागाडे हाउस, हेंगावली, कुन्डप्पा, उदूपी
203900	चालेकर विनोड विजय चालेकर विजय निवरुती	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24083 21.04.09	विकरमपुर ए प्लाट नं. : 18, तालुक-अथानी, बेलगाँव
203901	चमन लाल बालाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25141 25.09.09	टीचरस कालोनी, प्लाट नं. : 115 एम0पी0ए, तालुक-प्रकाशनगर होसपेट, बेलरी
203902	चम्पावथि पी पदमनाभ आर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30439 31.05.13	रु7, मेन-2, क्रास-3, सुभन्ना गार्डन, विजयनगर, बैंगलोर
203903	चन्नाभसव्वा टोटाड देवेंद्रअप्पा बी टोटाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29172 11.05.12	अडारागुची ग्राम एवं पत्रालय, तालुक-हुबली, धारवाड़
203904	चंचल.एस सुरेश कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26241 23.03.10	324, ब्लाक-2, मेन-11, बी0एस0के01 हनुमाननगर, बैंगलोर



203905	चंद्रा के तेजपाल वर्धमान सी वर्धमान अनप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24071 21.04.09	कम्पलेक्स ताइकृपा, नियर धनम्मा मंदिर, रबकावी
203906	चंदना दीक्षित गुनेश कुमार. टी.सी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23910 09.04.09	पलैट नः12, ब्लाक-2, जीवन गृह, मेंन 24, जे0पी0 नगर, बैंगलौर
203907	चंदप्पा. के. पी. पार्थेश्वर. के.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24059 21.04.09	गली भारती, तालुक श्रींगेरी, चिकमगलूर
203908	चंदनकर रूकुमिनी चंदनकर दिलीप भगवान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29699 06.07.12	समाधान नगर, अलेगाँव बी0के0, तालुक-तेमभूरनी मदहा, सोलापुर
203909	चन्दीनी बी एस बी के श्रीनीवासा मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28855 18.04.12	559, साइट नं. : 32, थामस लेआउट, तालुक-नन्जनगुड, मैसूर
203910	चंद्र गोडा.एम.पाटिल मद्रासा गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27614 01.04.11	नं. : 171, निचर. कमलेशवर मंदिर, पत्रालय अन्कल, हूबली, धारवाड़
203911	चंद्र रेखा. यू यू. वीरभदरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25433 26.02.10	#8-10-183, नियर, गणेश मैदान, मेन रोड, बीदर
203912	चंद्र मौलीश्वर पंचक्षरैयया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23690 01.04.09	4657 / 13, हीरेमठ कालोनी, तालुक-बासवाकलयाण, बीदर
203913	चंद्रकला रमन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29971 06.04.13	बी0के0 कोल्लूर, तालुक-चितापुर, जिला-गुलबर्गा, कोल्लूर
203914	चंद्रकला.डी देवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27385 25.03.11	वैकटगोंडा मीनार, वार्ड-1 ए0पी0एम0सी0 रोड, तालुक-मानवी, रायचुर
203915	चंद्रकला.ए नं. के. केम्पादेवन्ना.बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25840 12.03.10	380, लक्ष्मी निवासा, मैसूर-मित्रा रोड, आरटी नगर स्तर तीसरा दत्तागली, मैसूर
203916	चन्द्रकान्त भवीकट्टी धौसप्पा भवीकट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26473 31.03.10	ग्राम एवं पत्रालय-अलमल, तालुक सिंदगी, बीजापुर
203917	चंद्रकांन एम बूडनी महादैवप्पा बी बूडनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30572 18.07.13	महंतेश नगर, सालाहल्ली, सालाहल्ली
203918	चंद्रकिशोर सुखदेव एन लोखांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28991 27.04.12	तिवाखेड ग्राम एवं पत्रालय, गुलबर्गा
203919	चंद्रमोहन कृष्णप्पा.ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28066 19.04.11	आइन-ई-शाही, गुलाबवदी ग्राम एवं पत्रालय, गुलबर्गा
203920	चंदेशेखर अशोक हीरेमठ अशोक स्वामी हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27425 25.03.11	क्रास-1, कोप्पल

203921	चंद्रशेखर भजन्तरी सवन्ना भजन्तरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28930 26.04.12	नं. : 823ख नियर जानेशवर मठ, लोकापुर ग्राम एवं पत्रालय—मूढौल, तालुक—बागलकोट
203922	चंद्रशेखर राव.एच विजय कुमार.एच	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26019 19.03.10	9-4-44, के0एम0 मार्ग, उदुप्पी
203923	चंद्रशेखर सालीमठ शिवानन्दस्वामी सालीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24398 05.05.09	नागनकल, पत्रालय—बेवीनहल, तालुक—गंगावथी, कोप्पल
203924	चंद्रशेखर छवी संगप्पा.आइ.छववी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	24559 13.05.09	634, पत्रालय कलादगी, बागलकोट
203925	चंद्रशेखर लमानी यमनप्पा लमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24753 04.06.09	दैवगन्या मीनार, क्रास-5, मृत्युंजय नगर, तालुक—रेनबेन्नूर, हावेरी
203926	चंद्रशेखर नागानूर यालप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24660 22.05.09	विध्यानगर, तालुक—ब्यादगी, हावेरी
203927	चंद्रशेखरैय्या वस्त्राओ मलैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26916 27.09.10	181 खण्ड मेन रोड क्रास-5, नगराभवी, बंगलौर
203928	चन्द्रिका उर्स.पी परमेशवरा राज उर्स.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25641 06.03.10	49, गवानाहल्ली, पत्रालय—रामपुरा, चिक्कमगालूर
203929	चंदू मेत्री आनन्द नेमन्ना मैत्री	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27691 05.04.11	ग्राम—मूटनल, पत्रालय—नन्दागाँव, तालुक—गोकाक, बैलगाँव
203930	चन्नावासप्पा निम्भाल शरणप्पा निम्भाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28308 25.05.11	बासवानगर, अलमेल—ए/पी, तालुक—सिंदगी, बीजापुर
203931	चन्नावासप्पा.एस वीरापुर मालेशप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25005 20.06.09	188 एबी, पत्रालय—गुदेहनहाली, तालुक—ब्यादगी, हावेरी
203932	चन्नावासप्पा.एस जे. नागाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28590 19.10.11	पत्रालय—कुचारा, तालुक—हारापनाहाली, दावनगीरी
203933	चन्नावासवा राजशेखर हालखेरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29952 06.04.13	646, एक्शटेंशन एरिया, गाँव—होसारीति, तालुक एवं हावेरी, होसारीति
203934	चन्नम्मा बैलूब्बी मालेप्पा बैलूब्बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28760 05.04.12	के0जी0एच0पी0 स्कूल, तेलगी रोड, पत्रालय एवं तालुक—बासावन बागेवाडी, बीजापुर
203935	चन्नम्मा उप्पीन सुरेश.बी.उप्पीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26079 19.03.10	पत्रालय—कारागगी, तालुक—अफजालपुर, गुलबर्गा
203936	चन्नपा बाराड्डी संगप्पा.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25653 06.03.10	गली गोली, पत्रालय—गजेंद्रगढ, तालुक—रोन, गडग

203937	चन्नावीरा साईबन्ना.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25888 12.03.10	171/2, ब्लाक, वीरेद्र पाटिल, गुलबर्गा
203938	चन्नावीरप्पा अन्नाराओ रावांगो काशीनाथ स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2005	28756 02.04.12	ग्राम एवं पत्रालय-नागुर, गुलबर्गा
203939	चन्नावीरास्वामी नायका र्द. गनेइया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2004	29559 12.06.12	मदाकारी नगारा, ग्राम, पत्रालय एवं तालुक-चल्लाकरे, चित्रदुर्गा
203940	चन्नैय्या हीरेमठ एस एस एम हीरेमठा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29603 13.06.12	हाउसिंग बार्ड कालोनी, मकान नं. : 12, तालुक-हगारीवामनहल्ली, बेलारी
203941	चनशेट्टी शैलजा वैजीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29123 07.05.12	नं. : 9-12-683/ मैलूर बी0वी0पी0 कालेज विध्यानगर, पत्रालय-गांधी कुज, बीदर
203942	चरिता सावानूर श्रीकान्त. सावानूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26978 25.11.10	राम जानकी निवास, होसपेट ओनी, तालुक-बागलकोट
203943	चौधरी संदीप सिंह दलबीर सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26996 16.12.10	एस0वी0पी0आर0 आयुर्वेदिक मेडिकल बाल कॉलेज, तालुक-बदामी, बागलकोट
203944	चौधरी कुणाल नथु चौधरी नथु जिपरू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25597 06.03.10	द्वारा आर0जी0ई0एस0 ए0एम0सी, तालुक-रोन, गडग
203945	चव्हाण अजय यशवंत चव्हाण यशवंत केशव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24527 12.05.09	# 10-2-310-13/अ, सिंडिकेट बैंक कालोनी, तालुक-मानवी, रायचुर
203946	चव्हाण अर्चना अरुण कुमार अरुण कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23942 13.04.09	कल्याण नगर, नियर राघावेंद्र मंदिर, तालुक-सिंदगी, बीजापुर
203947	चव्हाण भक्ति जयसिंह जयसिंह ज्योति चावन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25406 24.02.10	64, गंगा ब्लाक, पत्रालय-गंगेभवी, तालुक-शिगु, हावेरी
203948	चव्हाण भूसन दगडू चव्हाण डी शामराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23949 13.04.09	श्रीनगर, क्रास-4, तालुक-रोन, गडग
203949	चव्हाण धनाजी अर्जुन अर्जुन पी चव्हाण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24100 22.04.09	प्लाट नं. : 7, इ0एल0 बंगलों बैथल, राम नगर, निपानी, तालुक-चिकोडी
203950	चव्हाण मनीषा सुभाष राजू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26941 13.10.10	ग्राम एवं पत्रालय-माखनपुर, तालुक-बीजापुर
203951	चव्हाण पल्लवी केशव चव्हाण केशव बापू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24365 30.04.09	बी0ए0एम0 कॉलेज बापूजी कैम्पस, तहसील-चलाकरे, चित्रदुर्गा
203952	चव्हाण पूनम अप्पासाहेब चव्हाण ए केशव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24150 22.04.09	बी0ए0एम0 कॉलेज बापूजी कैम्पस, तहसील-चल्लाकरे, चित्रदुर्गा

203953	चव्हाण श्रीधर रावासाहेब सी रावासाहेब गुण्डु	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23708 02.04.09	पत्रालय—यधनवडी मजिकवड, तालुक—चिकोडी, बेलगाँव
203954	चव्हाण यागीता वावनराव बी जगननाथ चव्हाण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24425 05.05.09	गोरी शंकर क्लीनिक, के0एम0पी0 रोड, तालुक—बादामी, बागलकोट
203955	चौगुले प्रसन्ना नेमीनाथ नेमीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2004	29585 12.06.12	मकान नं. : 555/बी, गली मठ, बेलगाँव
203956	छाया हूल्लर प्रकाश बी शिवपुरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28896 20.04.12	प्लाट नं. : 99, 174/2, लास्ट क्रॉस शिवानगर, ग्राम, पत्रालय एवं तालुक—गोकाक, बेलगाँव
203957	चेन्नावासप्पा गौड हीरेगौड बसानागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24740 03.06.09	मकान नं. : 71, आकृति कालोनी, सोलापुर रोड, बीजापुर
203958	चेन्नावासावा.बी मलिकाअर्जु नं. बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25622 06.03.10	होसकेरा कम्पलैक्स, वार्ड नं. : 12, इसलामपुर, तालुक—गंगावथी, कोप्पल
203959	चेतन दात्तात्रेय कुलकर्णी दात्तात्रेय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26795 19.08.10	नूरनदेशवर नगर मोरतगी ए/पी, तालुक—सिंदगी, बीजापुर
203960	चेतन दीक्षित कमलाकर दीक्षित	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29488 25.05.12	42-45, नियर विथल मंदिर, ग्राम, पत्रालय एवं तालुक—बासवाकल्याना, बीदर
203961	चेतन निम्बालकर कमलाकर निम्बालकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24954 10.06.09	जनप्रिया हाइट्स, रु 3129, ब्लाक-3, मल्लासान्द्रा, बैंगलोर
203962	चेतन शिवासिम्पी अशोक शिवासिम्पी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26678 22.05.10	उनी, ग्राम एवं तालुक—बादामी, बागलकोट
203963	चेत नं. एस के श्रीकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25255 27.10.09	मकान नं. : एफ-1, आश्रम रोड, पी एवं टी कालोनी, बीजापुर
203964	चेतना संतोष.एस.नेरुरकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25579 05.03.10	आर्य मेडिकल कालेज सैन्टर, जी0सी0 कालेज रौड, तालुक—अनकोला, करवार
203965	चेतना हीरेमठ गुरुलिंगैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26615 24.04.10	पत्रालय—हेब्ल, तालुक—होखेरी, बैलगाँव
203966	चेतना कडाकोल बसानागौड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29262 16.05.12	क्रॉस-4, शिवबासवा नगर, तालुक—हावेरी
203967	चेतना कुलकर्णी सुरेश कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29457 24.05.12	53, आइ एवं जे निलम्बिका मीनार, क्रॉस-3, कृषि नगर, केलगेरी रोड, धारवाड
203968	चेतना एम एच हनुमनथप्पा एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28781 11.04.12	05, क्रॉस-4, ब्लाक-ए, देवराज उर्स लेआउट, दवनगेरे

203969	चेतना मन्नीकेरी गजानन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29202 14.05.12	नं. : 21, लास्ट क्रॉस, विवेकानन्दनगर, पत्रालय एवं तालुक-बेलगाँव
203970	चेतना .यू.मालीमठ उमेश.वी.मालीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25976 18.03.10	अशोक नगर क्रॉस-2, तालुक-रेन्नेबेन्नूर, हावेरी
203971	चतनासिंधु.सी.एम. सी.एम.मारुलासिदिहा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25464 02.03.10	सी एल 14, पत्रालय-छपपराधाली, तालुक-कुडलिगी
203972	चेतनकुमार.आर.कोल्ली कोल्ली.आर.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24003 18.04.09	एम आइ जी-2/62 आदर्श नगर, तालुक-बीजापुर
203973	चेथन कुमार एस शेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28726 02.04.12	शिकारीपुर, शिमोगा
203974	चेतन कुमार. ए.एम ए.ए. नं. नान्जेगौडा.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27330 23.03.11	411, क्रॉस-10, मेन-1, बी0एम0 श्रीनगर मेटागली, मैसूर
203975	चेतन कुमार ए.टी. थोप्पेस्वामी.ए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23890 09.04.09	सिद्दालिन्नोशवरा ट्रेडर, तालुक-जगलूर, दवनगेरे
203976	चेतन कुमार.एस.एन नागाराज.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25649 06.03.10	1289, क्रॉस-1ए, के.एच.बी. कालोनी, तालुक-मालावल्ली, मन्डया
203977	चेतना डी गुन्डू राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29341 21.05.12	नं. : 8, गली नोबल, रामेश्वर रोड, आयल मिल रोड, थोमस टाउन बंगलौर
203978	चेतना जी ए आनन्दे गौडा जी आर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29844 30.10.12	454, समीप एस एल वी स्कूल, विधा नगर, हासन
203979	चेतना सुधाकर पुजारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24264 28.04.09	5-23, पत्रालय-पदुबीदरी, तालुक-उदुप्पी
203980	चेतना. जी.एस. गुंरगौडा वी. सुनकाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27377 24.03.11	1968/45, क्रॉस-2, मेन-1, एस.एस. लेआउट, ब्लाक-बी, दवनगेरे
203981	चेतना.आर रामकृष्णा.आर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25591 05.03.10	383/2, एम.सी.सी. ब्लाक-बी, एच.बी. कालोनी के पीछे, दवनगेरे
203982	चिदानन्द देसाई सदानन्द देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25705 12.03.10	117/ए., बेदकीहाल पोस्ट, तालुक चिकोडी, बेलगांव
203983	चिदानन्द जम्बागी बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27693 05.04.11	अथरगा ए/पी, तालुक इन्डी, बीजापुर
203984	चिदानन्द जी.ए.नं. नगेन्द्र बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26537 12.04.10	चिकुलीकेरे (गांव) दोनेहल्ली (पोस्ट), चन्नागिरी, दावनगेरे

203985	चिकोटे अन्नपूर्णा मडोलप्पा मडोलप्पा एम. चाकोटे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25291 27.11.09	19-1-180, शिवानगर दक्षिण, बीदर
203986	चिनाईशा मोगल चिना मादर मोगल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29029 05.05.12	संख्या 10, कोटरापल्ली, पोस्ट रामपीचेला, गुनदुर
203987	चिंचोली गुरुशांत चन्द्रासा चिंचोली चन्द्रासा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24868 06.06.09	प्रथम क्रास, विद्यानगर, तालुक बदामी, बागलकोट
203988	चिंगादे अवधूत जयसिंह जयसिंह गणपति चिंगादे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27833 08.04.11	इंचल, सौनदत्ति तालुक, बागलकोट
203989	चिनमय फडके प्रभाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26074 19.03.10	105, मुधरा पाक्र, संतोष नगर, विजय नगर हुबली, धारवाड
203990	चिरंजिवी ए नं. एस. सोमाशकेरप्पा ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24609 18.05.09	33, मारुथि नगर, अर्सीकेरे, म्युनिसिपल क्वार्टर्स अर्सीकेरे तालुक, हासन
203991	चिताले प्रमोद रघुनाथ रघुनाथ आर. चिताले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24471 11.05.09	बी.वी.वी.एस., बायस होस्टेल, बागलकोट
203992	चिथाजल्लू भाष्कर राव सी. आनन्द सागर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28302 25.05.11	37, छटा क्रास, प्रथम मेन, जे.सी. नगर, महालक्ष्मीपुरम पोस्ट, बंगलोर
203993	चितमिल प्रशांत उपेन्द्र सी. उपेन्द्र मल्लया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23735 02.04.09	एस.एच. ए.एम.सी. सेडम रोड., गुलबर्गा
203994	चित्रा नारायण विजयकृष्णा एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25356 11.01.10	फ्लैट संख्या जी.एल. नं. 4, श्रीसाई एलेगास, बी.एम.टी. द्वितीय स्टेज, बंगलोर
203995	चित्र रेखा अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30190 27.04.13	ग्राम व पत्रालय सेहलांग, महेन्द्रगढ़
203996	चौबे शिवाजी विलास चौबे विलास गोविन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29450 24.05.12	सिरसव पत्रालय परान्डा तालुक, ओस्मानाबाद
203997	चुडामणि जी.बी. बासवेगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25569 05.03.10	4565, कबीने कालोनी के पीछे, नीलकंठनगर, नानोगौद तालुक, मैसूर
203998	चौपाडे अनिकेत जयकुमार चौपाडे जे. श्रीपद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24285 29.04.09	विजया निवास, पाटिल ले नं. , रीनापुर पोस्ट, अठनी तालुक, बेलगांव
203999	चौडी अक्कामहादेवी अशोक चौडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23750 03.04.09	9-10-227, मनहल्ली रोड सिद्धराधा कालोनी, गांधी गुंज, बीदर
204000	चौगुले राहुल बालकृष्णा चौगुले बी. महादेव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24510 12.05.09	एम.बी. कलाल लांज, नजदीक वेंकटेश थीएटर, तालुक मुदागी, गडग

204001	चौगुले अमोल बाजीराव चौगुले बाजीराव दादू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24128 22.04.09	मृत्युंजय नगर, बनशंकरी लेआउट, रानेबेन्नूर तालुक, हावेरी
204002	चौगुले अपर्णा अशोकराव चौगुले ए. अम्प	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24949 10.06.09	आर. एस. हीरेमठ बिल्डिंग, एम.बी. दिवाटर कालोनी, रोड. होसपेट, कोप्पल
204003	चौगुले अर्चना सुरेश सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30174 25.04.13	ग्राम एवं पत्रालय खान्देराजू, सांगली
204004	चौगुले अश्लेशा अशोक सी. आशोक ततोवा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30600 14.08.13	पोस्ट रुकारी, तालुक-हटकानांगले
204005	चौगुले अक्धूत प्रकाश चौगुले पी.गणपति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24145 22.04.09	पत्री बासव नगर, बेलहोंगल तालुक, बेलगांव
204006	चौगुले ऋषिकेश शामराव चौगुले शामराव गणपति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24840 06.06.09	1515, शाहूनगर, बेडकीहल पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204007	चौगुले कुलभूषण सुरेन्द्र चौगुले सुरेन्द्र बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24851 06.06.09	1515, शाहूनगर, बेडकीहल पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204008	चौगुले नितिन उल्हास चौगुले उल्हास शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24578 14.05.09	के.एम.पी. रोड, बदामी तालुक, बागलकोट
204009	चौगुले ऋषिकेश आनन्द आनन्द गणपति चौगुले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23684 01.04.09	इंचल, सौनदत्ति तालुक, बागलकोट
204010	चौगुले सारिका दिनकर सी. दिनकर पाण्डुरंग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24377 05.05.09	गोरी शंकर क्लीनिक, के0एम0पी0 रोड, तालुक-बादामी, बागलकोट
204011	चौगुले सुनील चन्द्रकान्त सी. चन्द्रकान्त बान्दू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24094 21.04.09	ताईकृपा काम्पलैक्स, नजदीक दनम्मा मंदिर, रबकवी
204012	चौगुले स्वपनिल सोनप्पा चौगुले एस. रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25216 13.10.09	प्रथम मेन, चतुर्थ क्रॉस, तुलाजी मिनार, सदाशिव नगर, बेलगांव
204013	चौगुले स्वाति शरद चौगुले एस. श्रीपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24555 13.05.09	नजदीक बेडकीहल सक्रिल, शांति नगर, पोस्ट शमानेवाडी, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204014	चौगुले विजय मलप्पा चौगुले एम. बालू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24286 29.04.09	विजया निवास, पाटिल ले नं. , रीनापुर पोस्ट, अठनी तालुक, बेलगांव
204015	चौगुले विशाल गोरखनाथ चौगुले जी. भगवन्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25559 05.03.10	नजदीक रंगराज हस्पताल, गजेन्द्रगढ़, तालुक रॉन, गडग
204016	चूरे अनिता बाबूरेड्डी ए नं. चूरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25292 27.11.09	9-9-143, अक्कामहादेवी कालोनी, बीदर

204017	क्राष्टा फूमा इवान फेलिक्स फेलिक्स बी. क्राष्टा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27184 18.03.11	ए 87/ए मोवादी क्रास, मुलीकात्ते, पोस्ट हसादू, कुन्दापुर तालुक, उदुप्पी
204018	डी. नन्द किशोर डी. बी. रामलू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29823 18.10.12	2-7, गांव गोमाराम, पत्रालय नरसपुर तालुक, बेलगांव
204019	दबादे तिरुपती ढोण्डीराम दबादे डी. ज्योति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24992 16.06.09	महावीर नगर, बेडकीहाल पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204020	दाभेराव हर्षवर्धन रामदास रामदास दाभेराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30179 25.04.13	प्लाट संख्या 166, हर्षवर्धन निवास, शिवाजी नगर, अम्बाड रोड, पुराना जालना
204021	दादागौडा एम. पाटिल मलाकानागौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26944 19.10.10	पोस्ट हुविनाहल्ली, सिंदगी तालुक, बीजापुर
204022	दहीफले योगिता अम्बादास अम्बादास आर. दहीफले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25537 04.03.10	डबल रोड, गजेन्द्रगढ़, रौन तालुक, गडग
204023	डकारे वी. बर्षा शिवाजी शिवाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24332 29.04.09	एम.आई.जी. 2 ए., हुडको कालोनी, अकोल रोड, निम्पानी पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204024	दक्षायिनि ई.पी. प्रभाकर पी.ई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28704 30.03.12	विनोभा नगर, 60 फीट रोड, ए.पी.एम.सी के पीछे, पिछला दरवाजा, शिमोगा
204025	दमिना शियांगशाई राम रिम्बाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27582 30.03.11	कुटापडी पोस्ट, उदुप्पी
204026	दनप्पा कुलेनूर महारुद्रप्पा कुलेनूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24976 11.06.09	पोस्ट कुरुबंगोदा, तालुक हावेरी
204027	दान्डेकर नीरज प्रकाश प्रकाश एस. दान्डेकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24404 05.05.09	दीपा बिल्डिंग, विकास नगर, नजदीक तालुक आफिस, कोम्पल
204028	दराडे शरद विठ्ठल विठ्ठल गोपीनाथ आर. दराडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28842 16.04.12	बी-54/12, सुपर इन्दिरानगर, बीबेवादी, तालुक हवेली, पुणे
204029	दर्शन बब्बू एन पी.एच. नगाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27672 02.04.11	रु 3308ध2, एम.सी.सी. ब्लाक-बी, दवानगेरे
204030	दर्शन जी.पी पदमराज.जे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27397 25.03.11	नीलानाहल्ली, पत्रालय-बी.एस.एस.के.एन, दवनगेरे
204031	दर्शन के.सी. चन्नावसप्पा.के	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29974 06.04.13	गेट नं. : 1247/4, कोटूर, तालुक-कुडलीगी, बेल्लारी
204032	दत्तत्रेय.बी.एस सुदर्शन मूर्त.बी.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25260 02.11.09	रु877-3, तालुक आफिस, अम्बेडकर सक्रिल, पुराना शहर, तालुक-भद्रावथी, शिमोगा



204033	दवाम्मा हान्जी सुभाष.ए नं. हान्जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26543 12.04.10	पत्रालय-तरडल, तालुक-जमखण्डी, बागलकोट
204034	दयानन्द.ए रामाचन्द्र.ए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28622 09.11.11	सी/0 के.पी.एस.वी.एस. ए.एम.सी, तालुक-मानवी, रायचूर
204035	दयानन्द रामलिंग सिंगारे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24880 08.06.09	पत्रालय-मुचालैम्ब, तालुक-बासवाकलयाण, बीदर
204036	देबे अनुराधा राजू राजू एस दूबे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30274 06.05.13	शांतिनगर, अलटा लैब के सामने, हनुमान मंदिर, खोपोली, तालुक-खालापूर, रायगढ
204037	दीक्षा.एम.जी. नायक एम.जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24521 12.05.09	पत्रालय एवं तालुक-अरसीकेरे, हासन
204038	दीक्षा डी अनन्त पदमनाभा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	29016 27.04.12	एस.डी.एम. मंदिर, मेनेजर धर्मशाला, तालुक-बेलगाँव
204039	दीनारेशमा आदमसाब मिश्रीकोटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24904 09.06.09	मानीकटटी, पत्रालय-होलीकटटी, तालुक-सौनदत्ती, बेलगाँव
204040	दीपा दयानन्द स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25832 12.03.10	साई कृपा मकान नं. : 8-10-79, अक्कामहादेवी कालोनी, बीदर
204041	दीपा बकाले शंकरासा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30525 26.06.13	रु20/ए, शांति नगर, केशवरपुर, धारवाड़, हुबली
204042	दीपा चित्तरागी ए नं. एम चित्तरागी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29521 26.05.12	रु 1520, गली चित्तरागी, ग्राम एवं पत्रालय-कमातगी, तालुक-हुनगुण्ड, बागलकोट
204043	दीपा गराडोलकर रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30358 20.05.13	द्वारा वार्ड. पी वोवाटी, मेडर गल्ली, हलीयाल, उत्तर कनाडा
204044	दीपा गोटयाल मल्लिकार्जु नं. आर गोटयाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29100 7.05.12	के.एस.आर.टी.सी. कालोनी, ग्यंगा बवाडी, बीजापुर
204045	दीपा गोविंद कसबेकर गोविंद मधुकर कसबेकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2006	27008 27.12.10	राजातागीरी, धारवाड़
204046	दीपा हालीकेरी शिवानन्द हालीकेरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24309 29.04.09	प्लाट नं. : 43, हलियाल रोड, बासव नगर पार्ट-2, धारवाड़
204047	दीपा हीरेमठ गडागैय्या हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29633 14.06.12	# 673/44, बेलहोंगल, बेलगाँव
204048	दीपा होलेप्पानावर बासावाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29333 18.05.12	ज्यानगर, ग्राम, पत्रालय एवं तालुक-हावेरी

204049	दीपा होसूर शिवानन्द होसूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29280 16.05.12	गली होसूर, बेलहोंगल, बेलगाँव
204050	दीपा कारीत्ती आदीवेप्पा एस कारीकट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28870 18.04.12	सी-10, फ्लोर-2, प्रभात कालोनी, ओरनामेंट कारस्टेल अपार्टमेंट, तालुक-विधाननगर हुबली, धारवाड़
204051	दीपा मालीमठ गेवीसिदैयया एस मालीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29702 10/7/12	कुटला नगर, ग्राम एवं पत्रालय-कुक्कनूर, तालुक-येलबर्गा
204052	दीपा मन्जुनाथ जन्थली मन्जुनाथ के जन्थली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25757 12.03.10	पत्रालय-सरसवथीपुर, धारवाड़
204053	दीपा नन्दी शिवारस नन्दी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27777 07.04.11	# 8/9/166, विजय नगर कालोनी, के.एस.आर.टी.सी. बस स्टैंड के पीछे, बीदर
204054	दीपा पाटिल चनागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30490 13.06.13	ग्राम एवं पत्रालय-विवेकानन्दा नगर, नियर वाटर टैंक, तालुक-हुक्केरी, बेलगाँव
204055	दीपा पाटिल जिन्नप्पागौडा आर पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25761 12.03.10	क्रास-5, नवीनया निलाया, पत्रालय-विधाननगर, तालुक-हुबली, धारवाड़
204056	दीपा रंगरेज गनापाट्टसा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29809 12.10.12	# 5/5 25, ग्राम एवं पत्रालय-गजेन्द्रगद, तालुक-रोन, गडग
204057	दीपा वी एच विरन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30568 18.07.13	डी-3/2, नियर हेली पेड, भीमारायाना गुडी, तालुक-शाहपुर, यादगीरी
204058	दीपा . एच.सी.एच.टी. चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23831 06.04.09	# 2643/ए, क्रास-2, मेंन-6, एम.सी.सी. ब्लाक-बी, दावनगेरे
204059	दीपा.एम के. मलीअप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24368 30.04.09	मेंन रोड काशीपुर, सिद्धारम्मा एक्शटेंशन, शिमोगा
204060	दीपा.ए.कोटियान अनन्दा.एम.कोटियान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24188 24.04.09	रु11-148ए, पिथरोडी, उदयावरा, उदुप्पी
204061	दीपा.एच.गमाड हालेशप्पा.वी.गमाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28273 17.05.11	पत्रालय-हालागीरी, रेनबनेयोर, हावेरी
204062	दीपा.एस.हुबली शान्तराम पी हुबली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24747 03.06.09	पत्रालय-सलपेट इकल, तालुक हुंगुन्द, बागलकोट
204063	दीपा.वी विजयगोपाल.बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28320 25.05.11	नं. : 1277, विवेक नगर, राबर्ट्सोनपेट, के.जी.एफ. बैगारापेट, कोलर
204064	दीपक बी.एस.आर. के.वी. सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28727 02.04.12	#1, सोवपरनीका, मेंन-3, क्रास-3, बसावेशवरानगर, शिमोगा

204065	दीपक सुधी प्रभाकर. के सुधी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29954 06.04.13	विद्यानगर ब्यादगी, तालुक-ब्यादगी, हावेरी, ब्यादगी
204066	दीपक. ए नं. जी एल. गुरु स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24386 05.05.09	#18, ब्लाक-29, क्रास-2, उदयागिरी, मैसूर
204067	दीपक. आर रामालिंगा शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26523 08.04.10	रुपी-74, क्रास-3, ब्लाक-नागाप्पा, एल.ए नं. पुरम. बैंगलोर
204068	दीपाश्री.एच.पी पुट्टेगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28432 20.06.11	# 3/515, मेंन-पंचम, विवेकानन्दनगर, कुवेम्पुनगर, मैसूर
204069	दीपाश्री.एम.आर. ए.एस. रवि	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27329 23.03.11	#361, क्रास-प्रथम ई, मेंन रोड-सात, एल.आई.सी. कालानी, श्रीरामपुरा, मैसूर
204070	दीपेश कुमार के. रामा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28269 17.05.11	मकान नं. : 1/71 (3), बटराकुमार पदवीननगदी, कोंचडी, मन्गलार्ड, डी.के.
204071	दीपिका कान्तिराल बाफना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25476 03.03.10	# 26, गली कार, बेल्लरी
204072	दीपिका अय्यर एच वी वैनकाटेश एच एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28980 27.04.12	नं. : 419, गली बहामीन, हरोहली, तालुक-कनकापुरा, रामनगर
204073	दीपिका जयन्त के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29501 26.05.12	नेत्रवथी स्टोर, धर्मस्थल, तालुक-बैलथनगडी, दक्षिणा कनाडा
204074	दीपिका एम.एम. मल्लादेवरु एम.सी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30512 19.06.13	रामास्वामी लेआउट, चमाराजानगरा (टी एवं डी), चमाराजानगरा
204075	दीपिका एन नागारा के.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30225 30.04.13	890-एम.आई.जी., स्टेज-द्वितीय, कुवेमपुनगर, मैसूर
204076	दीपिका रामानुजम के.के. रामानुजम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30607 19.08.13	मारकन्डेशवरा स्कूल के सामने, एम.पी. प्रकाश नगर, बेल्लेरी
204077	दीपिका एस शिवन्ना टी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30158 24.04.13	कन्डेक्टर के.एस.आर.टी.सी., कोटवल, हस्सन, रम्मानथपुरा
204078	दीपिका एच.एस एच.के सत्यनारायणा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24219 28.04.09	# एच-2, पुलिस कार्यालय क्वार्टरस, ए.पी.टी.एस. क्रास-बगालूर, थैलहेन्का, पत्रालय-आई.ए.एफ., बैंगलोर
204079	दीपिका.एम. चन्द्रशेखर.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27072 15.03.11	# 123/ए, डी. नं. : 302, एस.बी.एम.व रोड, चिक्कलासंध, बैंगलूरु
204080	दीपिका.एम.राव प्रमोद.वी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25007 20.06.09	# 2456/ए, क्रास-14, मेंन रोड-पच्चीसवॉ, एच.एस.आर लेआउट खण्ड-प्रथम, अगारा, बैंगलोर

204081	दीथि एम.एस. शिवाजी राव एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28959 26.04.12	नं. : 2953/10, मेंन-छड्वाँ, विवेकानन्दा चिकित्सिक हास्टल, दावनगेरे
204082	दीथि राव.एस सतीश राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	27891 11.04.11	नं. : 3-58/8, गीथानजली, देरबेल चर्च, अशोक नगर, तालुक-मंगलोर, डी.के.
204083	दीथि श्रीवीरूपकशा वीरन्वक्षणा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23867 09.04.09	# 3998/27, अमीन कुवेम्पु नगर बीसवाँ एवं इकीसवाँ, एम.सी.सी. ब्लाक-बी, दवनगेरे
204084	दीथि .एच नारायणा.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24356 30.04.09	बी.सी.रोड जोधमर्गा, तालुक-बन्तवल, दक्षिणा कनाडा
204085	दीथि .एम हालेज गोडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27390 25.03.11	चतरमैदान रोड, तालुक एवं पत्रालय-मुदबीदरी, चिकमंगलूर
204086	दीथि एम.एस. मनोहर शिनोए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25965 18.03.10	मन्जुश्री अपार्टमेंट्स, तालुक-पुट्टर, दक्षिण कनाडा
204087	दीथि .वाई गणेश.वाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27720 06.04.11	मकान नं. : 1-29-1, श्री कृष्णा कुन्ज, यैन्नागुडे कतापेडी, उदुप्पी
204088	दीथि देसाई मनोहर देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29165 11.05.12	नं. : 1-8-128/15 (1), सुविदा मीनार, पत्रालय-पादवुलेक कुलशेकर, मंगलोर
204089	दीपति कल्याणाशेट्टी बासावाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24067 21.04.09	#88, आश्रम रोड, आइश्वरेया नगर, बीजापुर
204090	दीपति.ए. कुरुबार अजप्पा.आर.कुरुबार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28370 31.05.11	विनायाका निवास, नेहरू नगर, पत्रालय-अलवनार, धारवाड़
204091	देगनाल रूपाली परमानन्द परमानन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24433 05.05.09	नागेलगाँव, पत्रालय-सरसम्भा, तालुके-अलन्द, गुलबर्गा
204092	डेगलूरे गणेश बीसावराज डेगलूरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29758 29.09.12	गली शापुर, ग्राम, पत्रालयब एवं तालुक-बासवाकल्याण, बीदर
204093	देयोकर सन्तोष कुमार महादेव देयोकर महादेव नारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23955 13.04.09	प्रशांत नगर, जी.जी. सुम्भुधेह भवन, चित्रदुर्ग
204094	देओमोर अमरुता रवीन्द्र रवीन्द्र अप्पासो देओमोर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29580 12.06.12	# 8/816, शांतिनगर थोराट चौक, ग्राम एवं पत्रालय-इचलकरंजी, तालुक-हतकन्नलल, कोल्हापुर
204095	देसाई अमित प्रदीप देसाई पी रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24790 04.06.09	अनन्दा नगर, अक्कोल रोड, सोमनाथ के पीछे, पत्रालय-निपानी, चिकोडी, बेलगाँव
204096	देसाई अनमोल बालकृष्ण डी बालकृष्ण अनन्दराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24135 22.04.09	गली यतातड , तालुक-बेलहोंगल, बेलगाँव

204097	देसाई अनमोल धोन्दीराम धोन्दीराम बी देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30170 25.04.13	ए/पी 2472, गली गोलगुमत, सेमूर विवेकानन्द नगर, तालुक-इचलकरनजी, हटकनगोल
204098	देसाई कोमल मुकुन्द देसाई एम राय बाबूभट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29008 27.04.12	एस.ओ. हेम बंगले, नियर स्वामी नारायण मंदिर, सिलवासा
204099	देसाई प्रीतम रावसाहेब रावसाहेब नाभीराय डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23806 04.04.09	यदनवडी, पत्रालय-मलिकवड, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204100	देसाई सचिन सुरेशराव सुरेशराव माहाजी देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25010 23.06.09	# 4-1062, सरफ बाजार, गुलबरगा
204101	देसाई सुधीर माधव महादेव एम देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24599 18.05.09	# 139/एनए आई.जी. कुबुसुड मीनार, क्रास-चतुर्थ, धारवाड
204102	देसाई स्वप्निल शिवाजीराव एस देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29086 05.05.12	नं. : 362/ए, गली मुजावर, हूमकलानी चौक, बेलगाँव
204103	देसाई इनायक सम्भाजी देसाई सम्भाजी केरबा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23811 04.04.09	यदनवाडी, पत्रालय-मलिकवड, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204104	देशींगकर योगेश शीरीशराव देशींगकर एस नागेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24693 02.06.09	रत्नतरी बी.एल.डी.जी., एस.टी. खोट कालोनी, शमनवदी, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204105	देशमुख मोहीनी शांहाजी शांहाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24669 22.05.09	श्री सिद्धा संजीवनी हास्पिटल, इनामदार कालोनी, बीजामपुर
204106	देशमुख रूपाली शशिकान्त शशिकान्त	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24487 11.05.09	इ.एल बैथल बंगलो, मकान न:7, रामनगर, निपानी, तालुक-चिक्कोडी
204107	देशमुख सुभाष दामोदर देशमुख डी ढोन्डीवा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25266 02.11.09	मन्जु नाथनगर, दर्धा जेल रोड, बीजापुर
204108	देशमुख विक्रम दिनकर दिनकर देशमुख	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30580 24.07.13	पतंगे रोड, अजय नगर, देशमुख कालोनी, तालुक-ओमेरगा, ओस्मानाबाद
204109	देशना. पी.के. दामोधरण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25679 12.03.10	जैड-5, सोमवारपेट, इंद्रप्रस्थ हाउस, सोमवारपेट, कूरग
204110	देशपांडे शरवरी सुनील सुनील.जी. देशपांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26479 01.04.10	21 किलो मीटर, श्री श्री कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स, पत्रालय-कनकपुरा उदयापुरा, बैंगलोर
204111	देशपांडे उमा श्रीपद देशपांडे एस हरीबाहू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	27076 15.03.11	नं. : 233, रामपुर, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204112	देसुरकर भरत नारायण नारायण एस देसुरकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25270 03.11.09	1834/ए, प्रियंश्रेया, जतरत वेस, वत्रालय-निपानी, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव

204113	देवादी गीता भोजा प्रकाश देवादिगा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1994	29941 18.03.13	11-231, थूरे हिथू हाउस, पत्रालय एवं गाँव-शिरवा, तालुक-उदुप्पी, सिरवा
204114	देवम्मा पाटिल संगन्ना गौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28856 18.04.12	97, चिक्कालक्कीहल, पत्रालय-हायरलक्कीहल, तालुक-लिंगसूर, रायचूर
204115	देवराज परवथाराडी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25505 04.03.10	पत्रालय-बीजसपुर, तालुक-शोरापुर, गुलबर्गा
204116	देवेन्द्र यादव राह सिंह यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28595 19.10.11	43, मैन रोड-प्रथम, हेगगेरी, पुराना हुबली, तालुक-हुबली, धारवाड़
204117	देवेद्र कुमार देलवार बी.के. दैलवार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23965 13.04.09	क्रास-सप्तम, चालुक्य नगर, तालुक-बादामी, बागलकोट
204118	देविका संगप्पा बी मानकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29984 06.04.13	यैरबाग, तालुक-बसावाकलयाणा, बीदर, येरबाग
204119	देवीकृपा शिवेय्या गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29295 17.05.12	देवस्या हाउस, पत्रालय-मुनडेज, तालुक-बैलथागडी, दक्षिणा कनाडा
204120	देवी प्रसाद डी.के. के कुशलअप्पा गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29432 23.05.12	नं. : 2-38 सी, गाँव इवाथोकलू, पत्रालय-पन्जा, तालुक-सुल्लिया, दक्षिण कनाडा
204121	देवकर किरण उत्तम देवकर उत्तम नारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23952 13.04.09	प्रशांत नगर, जी.जी. सुम्मुधेह भवन के पीछे, चित्रदुर्ग
204122	देवलेकर वर्षा सुरेश देवलेकर सुरेश नारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30579 24.07.13	बी-4, तल-प्रथम, शिवा काम्पलेक्स, कोर्ट रोड, नियर गोखले हाल, पनवेल, रायगड
204123	देवरुखाकर समीप दिवाकर देवरुखाकर डी शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25325 07.12.09	प्लाट नं. : 1295, खण्ड-7, वन्तमुरी कालोनी, एम.एम. एक्शटेशन, बेलगाँव
204124	धान्जे कन्चन नामदेव नामदेव एस धान्जे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30328 16.05.13	गणेश नगर, पत्रालय-अकलुज, तालुक-मालशीरस, सोलापुर, अकलुज
204125	धनाक्षिरर क्षुति ज्यातीर्थ जे नारायण धनाक्षिरर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25918 15.03.10	बालिका हास्टल, आर.ए.एम.सी. आटोनगर, बेलगाँव
204126	धनलक्ष्मी हीरेमठ हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29535 28.05.12	2722, शबरचोल, क्रास-प्रथम, पत्रालय एवं तालुक-रोन, गडग
204127	धनंजय कुमार सिया शरण राय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	26763 28.07.10	30, मैन रोड-पंचम, कथरीगुप्पा, बनाशंकरी, स्टेज-तृतीय, बैंगलोर
204128	धनंजय एच. हरीकृष्ण भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27081 15.03.11	न-3-254, पत्रालय-हेलिनगेडी, तालुक-मंगलोर

204129	धनंजय बाबू एम जी. मरन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27098 16.03.11	नियर श्री शारदा हाई स्कूल, जन्ता कालोनी, चल्लाकेरी, चित्रदुर्ग
204130	धनवाडे सुजाता शशिकांत डी.एस. भगवंत	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23724 02.04.09	एस.एस.आर. ए.एम.सी., इनचल, तालुक-सौनदल्ली, बेलगाँव
204131	धाने स्वप्निल संजय संजय वाई धाने	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24287 29.04.09	मकान नं. : 2034, कोरगली, तालुक-शाहपुर, बेलगाँव
204132	धनेश्वरी.ए बाबानगर अशोक.एस. बाबानगर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27603 30.03.11	265 बसावेशनगर कालोनी, थिन्डू, विदयारनयापुरा, बैंगलोर अरबन
204133	धनंजय बी.वी. गडग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28500 26.07.11	समीप मराटा समाजा, के.टी. रोड, तालुक सन्दूर, बेल्लारी
204134	धन्या एस के. ससीद्रीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30527 26.06.13	अनुगृह, 19/2, रामईया लेन, मुरुगेश पालया, बैंगलोर
204135	धन्याश्री के.आर. नारायणा स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25863 12.03.10	सन्निधी मुदेश्वरा लेयआउट, कोप्पा चिकमंगलूर
204136	धन्याश्री पी पूट्टाराजू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30251 03.05.13	कांडली हसन टीक्यू और कांडली
204137	धर्मवीर कोटि हनमन्तप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25945 17.03.10	श्री गुरुकर्पा, नियर ईरानी किल्लिक, विवेकानंद नगर, गडक
204138	धरनागर किशोर विक्रम धरनागर विक्रम धर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24586 14.05.09	जवाली प्लाट, रंगरेल अस्पताल के सामने, गजेन्द्रागढ रोड तालुक, गडक
204139	धरपाले बापू मारुति धरपाले मारुति गेनू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24078 21.04.09	विक्रमपुर प्लाट नं. 18, अठनी तालुक बेलगाम
204140	धातु दत्ता धर्मा दत्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29101 7.05.12	नं. 28/3, सुधराधा कोटे रोड, कोटे रोड पोस्ट आफिस, शिमोगा
204141	धोकरात रोहित मधुकर मधुकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28498 26.07.11	उर्दू स्कूल के पीछे, निपानी पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगाम
204142	धूलप्पा अंजूतागी बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28762 05.04.12	बेनाकानाहल्ली पता और पोस्ट इंडि तालुक, बीजापुर
204143	धूमल कमलेश कुमार धूमल कुमार शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24079 21.04.09	विक्रमपुर प्लाट नं. 18, अठनी तालुक, बेलगाम
204144	धूमल प्रियका लक्ष्मण धूमल लक्ष्मण कमल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30247 03.05.13	कलपक सोसायटी, बिल्डिंग नं. सी 7, पता एवं पोस्ट रोहा, रायगढ, रोहा

204145	धूतार्गी कल्पेक्ष तिपन्ना टी शतप्पा धूतार्गी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28732 02.04.12	प्लाट नं. 89 ए/ 155, सब प्लाट नं. ई.3, सोलापुर पोस्ट और तालुक, सोलापुर
204146	ध्यान सुरेन्द्रनाथ सुरेन्द्रनाथ के वी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30519 21.06.13	रगससुधा पिनारु (पो.) थालेस्सरी (तालुक) कन्नूर थालेस्सरी
204147	डायमण्ड प्रसाद देवागन गणपत राम देवागन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29949 01.04.13	2986 चौगान, गांव खटगी कसदोल बलोदा बाजार छतीसग्राम
204148	दीधे गणेश नामदेव श्री दीधे एन जीजाबा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24137 22.04.09	विधानगर बेलहोंगल तालुक, बेलगाम
204149	दीलिप मुल्लु सिंह सावनेरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27099 16.03.11	एस एच इ एस ए एम सी, सेदाम रोड, गुलबर्गा
204150	दिलीप कुमार एच जी गुरुचन्नावसप्पा एच जी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23892 09.04.09	होसाकरे पोस्ट, गुब्बी तालुक, टुमकर
204151	दिलीप कुमार के जी जयादेवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27386 25.03.11	14/267, 2वां क्रस, होसाला नगर, अरसीकरे तालुक, हसन
204152	दिलीप कुमार श्यामधर श्यामधर बिंद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25997 18.03.10	434, 4वां क्रस, गोविंदराजनगर कावेरीपुरा कामकक्षशिपालया, बैंगलोर
204153	दिलनवाज अहमद शाह अब्दुल वहाब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28633 21.11.11	प्लाट नं. 714, बुद्दालेयआउट रामतीरथ नगर, बेलगाम
204154	डिम्पल टी थमन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30249 03.05.13	डी. नं. 401, 11 क्रस, कुवैम्पु नगर, हासन
204155	दिनेंश कुमार जीत सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26791 19.08.10	नं. 1964, 12वां ए, क्रस 1वां मेन रोड, विजयनगर, बैंगलोर
204156	दिनेंश टी एस सोमन्ना बी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25834 12.03.10	वाल्मिकी नगर, के.आर.नगर, मैसूर
204157	दिव्या खरे खरे आर. एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23830 06.04.09	एम आई जी -6 के एच बी कालोनी, गांधी नगर, सागर तालुक, शिमोगा
204158	दिव्या कुमारी ए नं. शीथाराम शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24248 28.04.09	अनुग्रहा हिलायना पोस्ट, उडुप्पी तालुक
204159	दिव्या एम एस पी मोहनन नैयर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30608 21.08.13	नं. 13, एस वाई एन केओ.85, 8वी मेन, विनायका लेयआउट, दूधादनकुंडी एक्सटेंशन, बैंगलोर
204160	दिव्या पाटिल शेखर गौडा आई पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29486 25.05.12	बलीगर स्ट्रीट, कनकगिरि पोस्ट, गंगावती तालुक, कोप्पल



204161	दिव्या संजीव संजीव कुजातुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24926 10.06.09	88/ए, श्री सदाना, विठठल नगर इसरो लेयआउट के सामने
204162	दिव्या वी एम वी वी मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29369 21.05.12	नं. 2598, 2वां क्रस, गांधीनगर, मंडया
204163	दिव्या. बी शम्भात	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23999 18.04.09	रामाकुंजा पोस्ट, पुट्टुर तालुक, दक्षिण कन्नड
204164	दिव्या. ई टी.ईगम्बरम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25752 12.03.10	304, जेड क्रस, कमानाहली, 3वां ब्लाक एचआरबीआर लेआउट, कल्याणनगर, बैंगलोर
204165	दिव्या. के ए. परमेश्वरम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25519 04.03.10	123/1 लालबाग रोड, 4वां क्रस, डबल रोड, बैंगलोर
204166	दिव्या. एल. एम महलीगप्पा एल एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27542 28.03.11	111 टैंक रोड, नियर मोहल्ला, मैसूर
204167	दिव्या. एन अन्जुनदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25246 23.10.09	हीजागोवदांली, बदावेनी, अरसीकेरे तालुक, हासन
204168	दिव्या. एस शिवराम के एच	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25588 05.03.10	275, 10वां क्रस 6वां मेन, एमएसआर नगर, मथीकेरे, बैंगलुरु
204169	दिव्या. टी. एस शिवाना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25189 08.10.09	368/सी, श्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी कुरुपा, दुधिनारयाप्पा, दुमकुर
204170	दिव्या. बी. एस पी. शिवन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27714 06.04.11	आर्शीवाद बोबोकेरी हाउस विठठल पी ओ. बंटवाल तालुक, दक्षिणी कन्नड
204171	दिव्या. डी. राव टी. दिवाकर. राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28463 04.07.11	वासुदेवा नियर श्रीनिवासा मंदिर, चितापढी, उडुपी
204172	दिव्या. एन गोपीनाथ भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26901 21.09.10	44/2, 9वां मेन, कामाकक्षी, 1वीं स्टेज हीबल मेंटागली मैसूर
204173	दिव्यमधुरा. एम महादेवैया एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27587 30.03.11	4वां क्रस मददूर, मंडया
204174	दिव्यारानी हनमन्था राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25472 03.03.10	17-5-141 मनाहली रोड, बीदर तालुक
204175	दिव्यारानी एच पी पुत्तास्वामप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24034 20.04.09	सरकारी अस्पताल रोड, शिवप्रसाद कॉम्प्लेक्स, हलीमैसूर, एच. एन पूरा तालुक, हसन
204176	दिव्यारानी एच के कृष्णप्पा एल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24032 20.04.09	सालागामें रोड विश्वरेया एक्सटेंशन, हसन

204177	दिव्यश्री पी वी वेदामूर्ति पी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25844 12.03.10	608, एस जे रोड पेरीयापटना मैसूर
204178	दिवानी नीरज नितिन नितिन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25168 06.10.09	3135, जोशी ओनी, निपानी पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगाम
204179	डोके तृप्ति तुकाराम डोके तुकाराम फकीरा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24411 05.05.09	आर. एस हीरेमठ बिल्डिंग, एम.बी दतार कालोनी, होस्पेट रोड कोप्पल
204180	डोल नयना नारायण नारायण रामचंद्र डोल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2002	28846 18.04.12	8-1-284/ओ यू/460, ओ यू कालोनी समाकेत, गोलकुंडा हैदराबाद तालुक
204181	डोली सुषमा शिवानंद शिवानंद जी डोली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29742 10.09.12	ब्लाक नं. ए/555, रूम नं. 1110, सेक्शन -25, उल्लासनगर, ठाणें
204182	दोनागे ज्योतिका अनिल अनिल महादेव दोनागे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29473 24.05.12	936, दोनाजे गली, मिराज पोस्ट और तालुक, सांगली
204183	दोनी अब्दुल रलाक ख्वाजा हुसेन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29475 24.05.12	69, वार्ड नं. 4, टिपुनगर, तालकोटि मुदेबिहाल तालुक, बीजापुर
204184	दोशी परेशकुमार प्रवीणकुमार दोशी प्रवीणकुमार जय कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24898 09.06.09	कांतिलाल जैन मानवी मेन रोड, मानवी तालुक, रायचूर
204185	दोलासाहेब इमामसाहेब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25897 15.03.10	मुदापुर, कोलबाल पोस्ट, सिंधानुर तालुक, रायचूर
204186	दराखान राहीद शिलदर अब्दुलरजाक शिलदर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25032 02.07.09	प्लाट नं. 59, ताज नगर, हुबली तालुक, धारवाड
204187	दुबलगुंडे प्रतिक्षा चन्नाबासवा सी आर दुबलगुंडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30516 20.06.13	शिवशंकर निलाय, भवानी कालोनी, शिवनगर साउथ, बीदर
204188	डुन्डाले गणेश लक्ष्मण लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24334 29.04.09	एम आई जी -2 ए, हुडको सिटी, अकोला रोड, निपानी पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगाम
204189	दुनदप्पा पुथानी शिवप्पा पुथानी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23763 03.04.09	289, शिवबासवा नगर, धूपदल पोस्ट, गोकाक तालुक, बेलगाम
204190	धुन्ना शैलजा शंकरराव धुन्ना शंकरराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30119 19.04.13	दुकान नं. 1/बी, रोड नं. 16, किशन नगर नं. 3, वागले इस्टेट, ठाणें
204191	डुराडन्डी गुदासी गुरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23987 18.04.09	हिबल पोस्ट, हुक्केरी तालुक, बेलगाम
204192	दुर्गाप्रसाद ए वी विष्णु भट्ट ए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30394 24.05.13	आनंदवाना हाउस, पी.ओ. एस एस विहार ए लाइक, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड

204193	ईशा हुड्डा पीर मोहम्मद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28126 26.04.11	आजाद मंजिल, मल्लार गांव कोप, उदुप्पी
204194	इकल सदिका भिकाजी इकल भिकाजी दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24781 04.06.09	रोड 1वां मेन, 4वां क्रॉस, सदाशिवनगर, बेलगाम
204195	इकतपुरे अश्विनी अनिल ई अनिल भगवानराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24126 22.04.09	15-3-133, प्लाट नं. 16, 8 संभावी, रामपुरे कालोनी, बीदर
204196	इकुर्के विकास विनायकराव इकुर्के वी मारुतिराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23817 04.04.09	19-4-622, हमनाबाद रोड बीदर
204197	इम्युनवेल आर जी गुरुदास आर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26783 16.08.10	क्रिसता आशीर्वाद निवास, नियर एन एच आफिस अमरावती होस्पेट तालुक, बेल्लारी
204198	ईश्वर कंचीगीदाद शिवालिंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27740 06.04.11	गरजुर, संगोली पोस्ट, बेलहोंगल तालुक, बेलगाम
204199	ईश्वरी सी एम आर हेमन्थ कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25366 20.01.10	279, 12वां ए मेन 76वां क्रॉस, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बंगलौर
204200	फराटे जगदीश श्रीराम फराटे श्रीराम अम्बादास	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30311 10.05.13	मुसमा, तीरथपुरी पोस्ट, तालुक-धानसवांगी, जालना मुसमा
204201	फराह नुरीन एम एस बेग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29152 11.05.12	नं. 3-3-65, नुरखान तलीम, बीदर
204202	फराह तब्बसुम सादिक सादिक अहमद शरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28352 30.05.11	नं. 38/1, सुल्तानजी गुन्टा रोड, शिवाजीनगर, बंगलौर
204203	फरहाद अपफु शेख अब्दुल काययुम अब्दुल काययुम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26224 23.03.10	गवीश्री नगर, 1वां क्रॉस, आर टी ओ ऑफिस के सामने, कोपल
204204	फरहना तर्रनुम अलताफ पाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24054 21.04.09	जे एन वी येनीगदर, चिंतामणि तालुक, चिक्बल्लापुर
204205	फरहानाज महबूब पाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29436 23.05.12	नं. 1873 अशरफी मंजिल, 8वां मेन रोड 2वा स्टेज 2वां फेज, राजीवनगर, मैसूर
204206	फरहातसलीम मोहम्मद साब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27771 07.04.11	11-1220/पी एम. एस. के मिल, हाजी कम्पाउंड गुलबर्गा
204207	फरहीन बानू देशनूर इकबाल अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	27028 22.02.11	19, रामपुरा कोडोली पोस्ट कोलेगल तालुक, चमराजनगर
204208	फरहीन मास्टर इरशाद अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30146 22.04.13	मकान नं. 470, एस आर कालोनी बीजापुर

204209	फरहीन नदफ अबुतालीब ए.के नदफ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26119 20.03.10	1860—बी एम जी रोड कजुबेग कारवार फोर्ट, कारवार उत्तर कनाडा
204210	फारूख अहमद कमागल मख बुलसाब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27378 24.03.11	238, 2वां क्रास, शिवाजीनगर हावेरी
204211	फारूक दावलसाब चिन्तार्गी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28663 05.01.12	557, एस एम आई जी, बी ब्लॉक 35 क्रास, , यलांहका 5वी फेज बैंगलोर
204212	फरजाना बेगम एस खाजा मोहीददीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23707 02.04.09	161/ए, वार्ड नं. 26, काउल बाजार बैल्लारी तालुक
204213	फातिमा कोजर अब्दुल खालिया अंसारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29460 24.05.12	नियर अल—अमीन स्कूल, गपफार खान मोहल्ला श्रीनिवासपुर कोलार
204214	फतीमठ उस जोहरा सी बी बाबा ताजुद्दीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26221 23.03.10	टिंबर मर्चेट, प्रसन्ना टाकीज रोड, बहारपेट, चित्रदुर्ग
204215	फातिमा गडगकार अब्दुल कादिर गडगकार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25850 12.03.10	6, प्रकाश कालोनी, नियर नेहरू नगर, मुख्य पी.ओ. हुबली धारवाड
204216	फेगाडे सारिका शंकर फेगाडे शंकर हरि	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24996 17.06.09	एम बी कलाल बिल्डिंग नियर वेंकटेश्वरा थियेटर, मुंडारगी तालुक, गडक
204217	फिरोज खान एम कंडुर मजीद खान कंडुर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25122 15.09.09	वक्रर स्ट्रीट नियर आजम मस्जिद रेनाबेन्नूर तालुक हावेरी
204218	फिरदौस जहां बदागन मोहम्मद हुसैन आई बदागन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29451 24.05.12	863, अवति स्टीट, तालीकोट पोस्ट, मुडे बिहाल तालुक, बीजापुर
204219	फिरदौस तसनीम सैय्यद क्यामुद्दीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29896 24.12.12	मकान नं. 5-4-175 नियर अशुर खाना मनीहार, तलीम बीदर
204220	फूलन बंदुराव भौंसले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26472 31.03.10	बी एल डी ई अस्पताल के सामने, बीजापुर
204221	फोरकिशान एल सीवर अपवेल ढकार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27776 07.04.11	253 श्री रंगा 8वा मेन 3वा ब्लॉक, 4वां स्टेज , बसावेशनगर बैंगलोर
204222	फूलारी राजाश्री भीमाशंकर भीमाशंकर आर फूलारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25401 24.02.10	कृष्णारेड्डी बिल्डिंग, भवानी रोड, हेबगुड्डी, बैंगलोर
204223	जी. साईराम रेड्डी वेंकट राम रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	30497 15.06.13	फ्लैट नं. 102, विजेथा रिंदा मिडोस न्यूनागोले, डी एस एन आर हैदराबाद
204224	जी एस बद्दीनाथ गुंडु शास्त्री वेकंटेथुलु	बी.ए.एम.एस ए नं. टी.आर. यूनि ऑफ हेल्थ साईन्सेज, विजयवाड़ा 1998	26985 01.12.10	शंकरपुर टंडा , करीगनुर होस्पेट बैल्लारी

204225	गडग शरणाप्पा बसपा बसना गडग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28934 26.04.12	नं. 17 कारवाड रोड दीन अ बन्धु कालोनी, हुबली तालुक धारवाड
204226	गडचे महेश दत्तात्रेय दत्तात्रेय गडचे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24778 04.06.09	तुलजाई बिल्डिंग एपीएमसी रोड, 1वा मेन, 4 वां क्रॉस सदाशिवनगर बेलगाम
204227	गडुम रमा देवी जोनाह सान्द्रे पोगू	बी.ए.एम.एस छत्त न्दपअण्विभंसजी बपमदबमेएटपरंलूकं 1993	26871 07.09.10	फ्रासीज विला कुटपाडी उदयावारा पोस्ट, उडुपी तालुक
204228	गडेकर महेंद्राकुमार सरजेराव गडेकर सरजेराव मुक्ताजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24008 18.04.09	एफ एस 12/310, हाई स्कूल रोड, हावेरी
204229	गैबू नायकर गोपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27620 01.04.11	बिसानल ए/पी बिलागी तालुक, बागलकोट
204230	गायकवाड अंजू दिलीप गायकवाड दिलीप शाहजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26186 22.03.10	मकान नं. 12-2-72, हरूरगरी गांधी, बीदर
204231	गायकवाड धनंजय सुभाष सुभाष डी गायकवाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30594 03.08.13	संजीव राजे नगर, प्लाट नं. 3, गिरावी रोड, पलतान तालुक, सतारा
204232	गायकवाड प्रजक्ता रंगराव रंगराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23685 01.04.09	एस. जे पाटिल, इंचल अस्पताल, इंचल पोस्ट, सोनदती तालुक, बेलगाम
204233	गायकवाड रजनीकांत सम्पतराव सम्पत एस गायकवाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25033 02.07.09	मकान नं. 1295 सेक्टर नं. 7 शिवकृपा बिल्डिंग वंतामुरी कालोनी एम.एम. एक्सटेंशन, बेलगाम
204234	गायकवाड सुप्रिया कमलाकर कमलाकर पांडुरंग गायकवाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25467 03.03.10	8-10-12, अकामहादेवी कालोनी, रंगमंदिर बीदर
204235	गायकवाड सूरज हनमन्त हनमन्त बी. गायकवाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29889 18.12.12	ए.एच.पी. परगांव (नया) कोल्हापुर, तालुक हथकनगले
204236	गायकवाड वर्षारानी बालाजी हरीभव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28821 13.04.12	आर.-1/2360/2, पाओमनी निवास, वेभव नगर, ग्राम व पत्रालय लातुर
204237	गजेन्द्र शर्मा वीरेश शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25719 12.03.10	130/ए 1, सिंधापुर, पोस्ट पठनाल, मानवी तालुक, रायचुर
204238	गजानन शंकाजे शंकर शंकाजे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29444 24.05.12	खडाकलत पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204239	गजानन संकोनत्ती बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24342 29.04.09	खेमालापुर पोस्ट, रायबाग तालुक, बेलगांव
204240	गजारे दीपक नामदेव गजारे ए नं. त्रिम्बक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24614 18.05.09	एल.आई.जी.-48, अशोक नगर, बेलगांव

204241	गजेन्द्रकर मानसी जी. वाई गजानन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24172 24.04.09	32, विपरीत मानस रेजिडेंसि, श्रेया हस्पताल, बासवा नगर, बीजापुर
204242	गलतांगे विनायक गिरीश गलतांगे गिरीश कृष्णा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24501 11.05.09	प्लाट संख्या. 835, द्वितीय स्टेज, वसंत विहार कालोनी, आर.सी. नगर, बेलगांव
204243	गनपते शीतल चन्द्र जी.सी. हरीबाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25080 30.07.09	प्लाट नं. 121, रिच फिल्ड अपार्टमेन्ट्स, मराथल्ली आउटर रिंग रोड, बंगलौर
204244	गनपते हनमनथप्पा हनमनथप्पा	बी.ए.एम.एस एम.यू.एच.एस. नसिक 2005	28879 18.04.12	नं. 2/217, रिओसातोली, यकथपुर पोस्ट, तालुक बीदर
204245	गांधी सुयोग राजेन्द्र गांधी राजेन्द्र डब्ल्यू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24582 14.05.09	139/एन, खुबुसाहब बिल्डिंग, महानथ नगर, चतुर्थ क्रॉस केलगेरी रोड, धारवाड
204246	गांधीजी हुचारेड्डी अमरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27932 12.04.11	वदवादगी ए/पी, बस्वाना बागेवादी तालुक, बीजापुर
204247	गोंदुगदे प्रद्यन्या विनायक गोंदुगदे विनायक गणपति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29277 16.05.12	हमिदवाडा पोस्ट, हकल तालुक, कोल्हापुर
204248	गाने सुदर्शन राजागोंडा गाने आर बालासाहेब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24859 06.06.09	1515, शाहूनगर, बेदीअल पोस्ट, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204249	गाने त्रिशला बाबूराव गाने बाबूराव नेमू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24092 21.04.09	तायिकपुरा काम्पलेक्स नियर दनम्मा मंदिर, रबकावी
204250	गणेश मृत्युंजय चिकमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27305 23.03.11	गुतीपेट शाहपुर, ओ.टी.ओ. 277, शाहपुर, यादगीर
204251	गणेश तेजस्वी एस. एस.वी. उदयशकर भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30560 17.07.13	करोदी गार्डन्स, हाउस, पोस्ट-बदूर (वाया), खुम्बला, कसारगुद तालुक
204252	गणेश नायक के. रमेश के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24542 13.05.09	परीयालथरका, पोस्ट पुनाचा, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़
204253	गणेशा विष्णुमूर्थी भट्ट बी. विष्णुमूर्थी भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25774 12.03.10	नन्दवाना, केरगल पोस्ट, कुन्दापुर तालुक, उदुप्पी
204254	गंगाबाई एस. हिरोल शमराय	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29980 06.04.13	पत्रालय जलावरी, तालुक सिंगादी, जलवारी
204255	गंगाधर अरालेलीमठ तोतास्वामी सी. अरालेलीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26300 24.03.10	239/17, तृतीय क्रॉस, विवेकानन्दा नगर, गडग
204256	गंगाधर पाटिल बासवान गोंडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26774 16.08.10	बी.बी. नगर, शेट्टी हाउस, नियर पानी की टंकी, कुशपति नगर तालुक, कोप्पल

204257	गगन हल्ली अभिषेक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28378 09.06.11	विश्वेवरया कालोनी, आश्रम रोड़, बीजापुर
204258	गंगोत्री कलाल सुभाष कलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29977 06.04.13	नजदीक दामरोड़, ब्राहमण स्ट्रीट कोटे होसपेट, डिस्ट्रिक बेल्लारी, होसपेट
204259	गंगू बासप्पा भूते	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24050 20.04.09	मालेश्वर किरानी मर्चेन्ट्स, येलबुर्गा तालुक, कोप्पल
204260	गंताला आरती अनिल अनिल एच. गंताला	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30050 16.04.13	ओट्टा संख्या ए.38/18, अप्पर इन्दीरानगर, निजदीक पुष्पम घास गोदाम, पुणे
204261	गार्दे प्रियंका चन्द्रकान्त गार्दे चन्द्रकान्त अर्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25700 12.03.10	आर.जी.ई.एस. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रौन तालुक, गडग
204262	गौराबाई पाटिल मल्लनागौडा एस. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28392 09.06.11	कुलकर्णी गल्ली, ग्राम व पत्रालय चंदचन, तालुक इन्दी, बीजापुर
204263	गौरव राठी महीपाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26476 01.04.10	34, तृतीय मेन, बनसहंकारी, तृतीय स्टेज, होजाकेरीहल्ली, बंगलौर
204264	गोतमी देसाई श्रीपद देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29252 15.05.12	संख्या. 64/4, सामने दत्ता मंदिर, पुराना किला, हुबली पोस्ट, धारवाड़
204265	गवली सचिन लक्षमण लक्षमण गवली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25048 08.07.09	निर्मला हेल्थ सेन्टर, थडामनहाली, हेसरा गत्ता मेन रोड़, बंगलौर
204266	गावेकर नयना रंजीत रंजीत भरमती गावेकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26928 05.10.10	तृतीय क्रास, गनेश चौक हिन्दवादी, बेलगांव
204267	गवाडे मनोज दशरथ दशरथ एम. गवाडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24292 29.04.09	चतुर्थ क्रास, तालुक रॉन, गडग
204268	गवाडे हर्षद गुलाबराव गुलाबराव गवाडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23818 04.04.09	19-4-622, हुमनाबाद रोड़, बीदर
204269	गायत्री कामथ डी. मंजूनाथ कामथ डी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26020 19.03.10	1/67, दक्केराबालू पोस्ट जनसाले, तालुक कुन्दापुर, उदुप्पी
204270	गायत्री पडियार यू. आनन्द पडियार यू.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24608 18.05.09	पदियार कम्पाउण्ड, मेन रोड़, कोप्पादू पोस्ट, ग्राम व पत्रालय उदुप्पि
204271	गायत्री शिव रामप्पा के.एम. शिव रामप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27605 30.03.11	1829, 12वां क्रास, पंचम मेन, आर.पी.सी. लेआउट विजयनगर, बंगलौर
204272	गायत्री सी.के. कंचप्पा सी.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27921 12.04.11	कामागोदना हल्ली, पी.ए नं. हल्ली पोस्ट, सिरा तालुक, टुमकुर

204273	गायत्री जी. हेडगे जी.वी हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24351 30.04.09	रुद्रपुर, अग्राहा, पोस्ट कलासा, तालुक मुदिगिरी, चिकमंगलूर
204274	गायत्री देवी के.पी. विनोद के. पंडित	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30245 02.05.13	अशोक रोड सिद्धापुरा पोस्ट व तालुक उत्तर कन्नड, सिद्धापुर
204275	गायत्री धुमनसुरे सोमनाथ धुमनसुरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29121 07.05.12	संख्या 7568-910, सर्वोदया बासवाकल्याण, तालुक बीदर
204276	गायत्री गोडबोले नारायण गोडबोले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27583 30.03.11	दुर्गा ग्राम पंचायत के सामने, ग्राम व तालुक तेल्लार, उदुप्पी
204277	गायत्री कलाल सनमुखप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29445 24.05.12	कलगनिहाल रोड, एस.बी. नगर, गडग, पोस्ट बेटीगेरी, गडग
204278	गायत्री पाटिल सिद्दनागौडा एस. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29652 18.06.12	विद्यानगर, शुभाल्या नं. 05, मल्ल्या मंदिर, इन्दी बीजापुर
204279	गायत्री पत्रुत अशोक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23746 02.04.09	मकान नं. 221/1ए./1, महालिंगेश्वर नगर, गोकक तालुक, बेलगांव
204280	गायत्री सदाल्गे देवागोन्डा डी. सदाल्गे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26092 19.03.10	करदगा, चिकोडी तालुक, बेलगांव
204281	गायत्री उप्पर फकीरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30485 13.06.13	ग्राम व पत्रालय उप्पर, अप्सरा गार्डन, मकान नं. 288/1, ब्लाक संख्या 19, बेलगांव
204282	गायत्री येरादेन्ती सिदराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30486 13.06.13	को-आपरेशन हस्पताल केम्पस, घटाप्रभा, गोकक तालुक, बेलगांव
204283	गीता मेदीवलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28721 30.03.12	गिरिनिवास, नजदीक उर्दू स्कूल, जेवारगी, गुलबर्गा
204284	गीता बडाकर मारुति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25694 12.03.10	अंकाल, पोस्ट शंकरेश्वर, हुक्केरी तालुक, बेलगांव
204285	गीता भावीकत्ती तिम्मनगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24639 21.05.09	नजदीक गुरुराज प्ले होम, हुनदुद पोस्ट व तालुक, बागलकोट
204286	गीता गडाड गोविन्दप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26280 23.03.10	एल.आई.जी.-127, महंतेश नगर, बेलागावी
204287	गीता हंसानुर गिरीगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26904 21.09.10	चालुक्य नगर, पंचम क्रास, ग्राम व पत्रालय बदामी, कीर्तिनगर
204288	गीता हीरेमठ मल्लिकार्जुनैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24047 20.04.09	पोस्ट कदरामंगदालगी तालुक, हावेरी



204289	गीता जितुरी विष्णुषा जितुरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24980 11.06.09	नजदीक विठ्ठल मंदीर, दजीबनपेट, हुबली तालुक, धारवाड़ दियास्त
204290	गीता केपाली बासावनेप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30188 26.04.13	राघवेन्द्रा बडावाने, नजदीक असुन्दी क्रास, गडग
204291	गीता कारीकट्टी श्रीशाली सी. कारीकट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29759 29.09.12	प्लाट नं. 135, दसवां क्रास सब क्रास, तृतीय मेन रानी चमन्ना नगर, धारवाड़
204292	गीता केरुतागी शरपनप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30256 03.05.13	शास्त्री नगर के पीछे, प्लाट संख्या 15, बीजापुर तालुक, बीजापुर
204293	गीता मठापति तीर्थय्या सी. मठापति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29943 08.03.13	मंकान संख्या 182/2, 3 ए., प्लाट संख्या-14, विद्यानगर, गोकाक, बेलगांव
204294	गीता मुगलखोड रामासिदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28608 05.11.11	आई. बी. के पीछे, गुर्लापुर पोस्ट, गोकाक तालुक, बेलगांव
204295	गीता ए नं. गौडार निगप्पा गौडार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1992	30405 27.05.13	गीता एस. हुबली, पंचाकश्री गल्ली, टरडल, जमखण्डी
204296	गीता नाटीकर संनमुखप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23700 01.04.09	एल.आई.जी 25, बागलकोट रोड, जलालनगर, बीजापुर
204297	गीता सूदी बासप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27402 25.03.11	सनतीनगर, केलागरी रोड, धारवाड़
204298	गीता सी.बी चित्रसेन एस. बगाली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26142 20.03.10	वार्ड संख्या-1, अफजलपुर, गुलबर्गा
204299	गीता मठ इरय्या एस. मठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25282 17.11.09	प्रगति नगर, प्लाट संख्या 67, आश्रम रोड, बीजापुर
204300	गीताबाई मेस्त्री सिदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30291 07.05.13	कमन खान बाजार, उप्पर कालोनी, तालुक बीजापुर
204301	गीताजलि शेदबालकर अशोक जय कुमार शेदबालकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27462 26.03.11	ऐनापुर पोस्ट, अथानी तालुक, बेलगांव
204302	गीता गुरुसिदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27138 17.03.11	ग्राम व पत्रालय कर्दकल, लिंगेसुपुर तालुक, रायचुर
204303	गीथा कुमारी एस. सुरेश सी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24536 12.05.09	होरानन्दू रोड, कलासा पोस्ट, मुदिगिरी तालुक, चिकमगलुर
204304	गीता रानी. ए नं. नारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27369 24.03.11	सिदिनापुरा, कोलेगल तालुक, सी.एच. नगर

204305	गीता सावकर अमरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26683 26.05.10	विनायक नगर, रानेबेन्नुर ग्राम व पत्रालय व तालुक, हावेरी
204306	गीता एल लल्लन प्रसाद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24785 04.06.09	बी.एच. रोड रानीपेट, होसपैठ, बेल्लारी
204307	गीथा ए नं. आर. राजप्पा ए नं. आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25770 12.03.10	द्वितीय क्रॉस, नजदीक विवेकानन्द बी.ई.एड कालेज, तालुक अरासिकेरे, हासन
204308	गीथा एस. ए नं. निगाराजू ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24929 10.06.09	5, बी ब्लॉक, नया आफिसर्स क्वार्टर, जलपुरी, महादेवपुरा रोड उदयगिरी, मैसूर
204309	गीथा एस. शेखरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	26895 17.09.10	43, (20), द्वितीय मेन रोड, चतुर्थ क्रॉस, संजिवनि नगर मोदालपया, बंगलौर
204310	गीथाजंलि एस श्रीनिवास एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28857 18.04.12	129, सतवां क्रॉस, कुवेम्पू नगर, शंकर नगर पोस्ट आफिस, मण्डया
204311	गीथाश्री एस. एस.सी. शंकरे गौड़ा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29093 05.05.12	245, पंचम क्रॉस, विनायक टेंट रोड, होशाली मण्डया
204312	धाडगे किरण लक्ष्मण लक्ष्मण के द्यादगे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23788 04.04.09	बस स्टेण्ड के पीछे, गजेन्द्रगढ़ रॉन, तालुक गडग
204313	धानेकर शोभा रामचन्द्र जी. रामचन्द्र शिवराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24283 29.04.09	विजय निवास, पाटिल लेन, रीनापुर पोस्ट व तालुक, बेलगांव
204314	घनश्याम नन्दकुमार नन्दकुमार ए. जाधव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30466 07.06.13	ग्राम व पत्रालय अनुर, कगल तालुक, ग्राम—अनुर, कोल्हापुर
204315	घरात रानी रघुराम घरात आर. चन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24458 05.05.09	आर.एस. हीरेमथ बी.एल.डी.जी., एम. बी. दिवातर कालोनी, रोड होसपैठ, कोप्पल
204316	घराते दिनेश कुमार घराते दादाजी भातू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29807 12.10.12	52 बी., रमेश नगर, ग्राम व पत्रालय सकरी, धुले
204317	घराते सागर दिलीप दिलीप आर. घराते	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24401 05.05.09	मकान संख्या 304, शिवानन्द नगर, द्वितीय मेन रोड, नवनगर, हुबली तालुक, धारवाड़
204318	घरपाड़े सचिन सुहास घोरपाड़े एस. श्रीरंग	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23782 04.04.09	ए नं. ए नं. नव नगर, फ्रेण्ड क्लब के पीछे, गजेन्द्रगढ़, तालुक रौन, गडग
204319	घरपाड़े सन्दीप तानाजी घतागे तानाजी मारुति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25256 27.10.09	विद्यानगर, बेलहोंगली पोस्ट व पत्रालय, बेलगांव
204320	घतागे वैशाली नानासाहेब नानासाहेब	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24480 11.05.09	ई.एल. बेथल बंगला, प्लाट संख्या 07, रामनगर, निपानी, तालुक चिकोडी, बेलगांव

204321	घतागे स्वप्निल प्रतापराव प्रताप भाउसो घाटगे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25554 05.03.10	जवाले पोस्ट, गजेन्द्रनगर, रौन तालुक, गडग
204322	घायल अमोल भीमराव घायल भीमराव लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23856 06.04.09	संगमेश्वर निवास, एल.आई.जी. 24, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बीदर
204323	घोडेकर निलेश सुदम घोडेकर एस. महादू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23691 01.04.09	सिद्धापुर, उत्तर कन्नड़
204324	घोडके प्रन्दया बलवंत राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29786 12.10.12	अम्बेडकर चौक, आनन्द नगर, नजदीक दाल मिल, तालुक लातुर
204325	धागारे विनोद उत्तम उत्तम राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23935 13.04.09	कालीदास गली, तालुक-सिन्दगी, बीजापुर
204326	घोरबन्द श्रीकान्त दत्तात्रय घोरबन्द डी सम्भाजी राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25762 12.03.10	110, मोहान्दिना मंजिल, हेग्गारी एक्सटेंशन, पुराना हुबली, तालुक हुबली, धनवादा
204327	गिरसे जीतेन्द्र नारायण नारायण ए नं. गिरसे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23791 04.04.09	गौली गली, गजेन्द्रगढ़ पोस्ट, रौन तालुक, गडग
204328	गिरि प्रभाकर प्रकाश श्री प्रकाश गिरि	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29957 06.04.13	जैन इस्टेट, ग्राम रोड, पनडुप पश्चिम, महाराष्ट्र
204329	गिरधरस्वामी एम.एस. मठ अन्दैय्या एस. एम. एस. मठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27933 12.04.11	होसपैठ स्ट्रीट, नरेगल ए./पी., तालुक रौन गडग
204330	गिरिजा परशुराम पंवार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27770 07.04.11	एल.आई.जी. प्. फेस, 121, बदेपुर सिटी, सेदराम रोड, गुलबर्गा
204331	गिरिजा माले मलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29420 23.05.12	पोस्ट यबारत्ती, रायबाग रोड, गुलबर्गा तालुक, बेलगांव
204332	गिरिश गुनडप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27543 28.03.11	टेलिफोन, एक्सचेंज, शाहपुर, बासवा कल्याण, बीदर
204333	गिरिश मिर्जाकर गुन्दुराव मिर्जाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25139 25.09.09	पत्तर गली, अथानी पोस्ट व तालुक, बेलगांव
204334	गिरिश कुमार एस.वी. वेंकटेश एस.पी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27249 22.03.11	20, मंजूनाथ गल्ली, अठनी पोस्ट व तालुक, बेलगांव
204335	गिरवाल्कर नागनाथ महेन्द्र गिरवाल्कर महेन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25530 04.03.10	प्लॉट नं. : 40, यालिंगा कालोनी, नौद, बीदर
204336	गनेन्द्र कुंमारा बीएस सदाशीवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25153 26.09.09	पत्रालय सुन्दाकोपा तालुक शिकारी पुरा, शिमोगा

204337	ज्ञानेश्वर शिष्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28364 31.05.11	नियर भगत सिंह: स्कूल टीचर कालोनी तालुक, हमाबाद
204338	गोलालप्पा कन्नोली नींगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28763 05.04.12	बासवानगर, देवरही-पपर्गी, तालुक-सिंदगी बीजापुर
204339	गोन्धाली किरण दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय सखाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24918 09.06.09	के.एच.बी. नं. : 4, एम.आई.जी-प्रथम, बी-62, जामिया मस्जिद, बीजापुर
204340	गोपाल आदिनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29961 06.04.13	धर्मपीठ मन्थल, बासवा कल्याण, मन्थल
204341	गोपालकृष्णा धुलागोंड पी सिदप्पा धुलागोंड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24424 05.05.09	गली जुनजारकौप्पा, वार्ड नं. : 4, हाउस नं. : 64, तालुक-बागकोट
204342	गोडा रंग वेनी बासवन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29609 14.06.12	समरुद्धि ऐनटरप्राइजे, पाटिलस, इदी रोड, बीजापुर
204343	गौडप्पानावर बी जी फकीरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1991	29727 09.08.12	रु 421 बी/1/16/ (1), पीतरू करुपा, मृत्युंज्यानगर, तालुक-बेलहोंगल, बेलगाँव
204344	गौरव्वा पाटिल बसानागौडा बी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29691 06.07.12	रु 188/1, प्लाट नं. : 4849, ज्याति पेग बार रोड, बसानानगर तालुक-गोटक, बेलगाँव
204345	गौरी तंकसाली रामेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30379 21.05.13	सिद्धरामेश्वर कालोनी, तालुक-मुढोल
204346	गौरी हरदागली बासवाराज बासवाराज एस हदागली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29504 26.05.12	श्री कृष्णा यागाआश्रम, ग्राम एवं पत्रालय-गुलेडागुद , तालुक-बदामी, बागलकोट
204347	गोधम एस.पी पूत्तना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27748 06.04.11	#39, क्रास-प्रथम, मेंन-प्रथम सुर्या बेकरी के पीछे, मैसूर
204348	गोविंद राम श्री. वेदराम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25004 19.06.09	एस.सी.एम. कमपाउंड, ए नं. आर. पूसा रोड, डबल टैंक, ज्याति नगर, शिमोगा
204349	गोविंदराजू. पी पूजारप्पा.वी.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25486 04.03.10	पत्रालय-हनागल, तालुक-मोलाकलमुरु, चित्रदुर्ग
204350	गोविंदाराज.एस.के. कुल्लेगौडा. एस.ए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23919 09.04.09	# 987, अन्नेचौका रोड, नियर पुद्दा कान्चेट, प्रियापटना, मैसूर
204351	गोरम्मा.के कल्लप्पा.के.सी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23832 06.04.09	नियर. इसवरा मंदिर, होराकेरी, तालुक-जगालूर, दावनगेरे
204352	गौरी के के किशोर आचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29545 28.05.12	1वार्ड -305/2, श्री वृधाविषणु, ग्राम, पत्रालय एवं तालुक-करकल्ला, उदुप्पी

204353	गौरी प्रसन्ना.के चेथन प्रकाश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28363 31.05.11	नं. : 549/556, कोमबेटूर, रामचंद्र निलया बोलवार, तालुक-पुत्तूर, डी.के.
204354	गौरी शंकर आर.एन नन्जूनदप्पा आर.सी.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28977 27.04.12	नं. : 117, मेंन रोड डोडाबल्लापुर, ग्राम एवं पत्रालय-राजानुकुन्त, उत्तर बैंगलोर
204355	गौरीपाल्या रामचंद्रन पी. रामचंद्र नायर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26141 20.03.10	हाउस नं. : 214, क्रास-अप्टम, मैथीकेरे, बंगलोर
204356	गुडाले अश्विनी अरुण अरुण बाबूराव गुडाले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24284 29.04.09	महावीर नगर, ग्राम एवं जमखण्डी, बागलकोट
204357	गुडाड सुप्रिया विवेकानन्द विवेकानन्द गुडाड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29355 21.05.12	प्लाट नं. : 13, मेंन प्रथम, अनुसमा, सेमपाइज नगर, धारवाड़
204358	गुजर पल्लवी गम्भीरराव राहूल.आर.कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2005	25439 26.02.10	बृदावना, के.एस.आर.टी.सी. विभाग नं. : द्वितीय के पीछे, के.एस.आर.टी.सी. हाउसिंग कालोनी
204359	गुलाम हखानी गुलाम समदानी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25296 27.11.09	सी/0 ताज चिकित्सिक स्टोर, मेंन रोड, तालुक गुंज भक्ति, बीदर
204360	गुन्ड अमित नागनाथ नागनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28772 05.04.12	ग्राम एवं पत्रालय-अनगर, तालुक-मोहल, सोलापुर
204361	गुड पवन लक्ष्मण गुन्ड लक्ष्मण उधव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24123 22.04.09	# 15-3-133, पी.टी-16, शामभळी, रामपुर कालोनी, बीदर
204362	गुन्वंतराव शिवलिंगप्पा शिवलिंगप्पा बीरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29549 29.05.12	ग्राम एवं पत्रालय औरड (बी) तालुक, बीदर
204363	गुप्त स्वाती फूलचंद फूलचंद एस गुप्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29878 05.12.12	# 9/602, ए विंग, अरुणोदय सी.ए.एस. तिलक नगर, ग्राम एवं पत्रालय-चैमबर, मुम्बई
204364	गुप्ते आरती निरंजन गुप्ते निरंजन अम्बालाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24456 05.05.09	आर.एस. हायर मैथ बी.एल.डी.जी., एम.बी. दिवातर सिटी, होस्टल रोड, कोप्पल
204365	गौरव अमरुता सुरेश सुरेश मुरलीधर गौरव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29021 27.04.12	ब्लाक नं. : 46, राजहम्स सोसाईटी, तालुक-उन्नर सोलापुर, सोलापुर
204366	गौरव निलेश रामचंद्र गुराव आर बापू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24426 05.05.09	क्रास-चतुर्थ, चालुक्य नगर, तालुक बदामी, बागलकोट
204367	गुराव विद्या मनोहर गुराव एम शंकराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24780 04.06.09	# 1056ए, पोस्ट आफिस रोड ककटी, बेलगाँव
204368	गुरसिमरन कौर एम.एस.सोहल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26489 05.04.10	क्रास-पंचम शंतरूपी विधाननगर, तालुक-बदामी, बीजापुर

204369	गुरुबासप्पा मल्लप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27799 07.04.11	गली गोदरु ए नं. ए नं. कैम्प, पत्रालय—बालागन्नोर, तालुक—सिन्धानूर, रायचूर
204370	गुरुबेसव वीरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29812 12.10.12	# 6-93, गली कन्नाडे, ग्राम एवं पत्रालय—हुलसूर, तालुक—बासवाकल्याण, बीदर
204371	गुरुबासवाराज यादीहल्ली कोटरप्पा यादीहल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25857 12.03.10	आई बेवीनहाल्ली, आई हिगुडी, तालुक—होरापन्नाहल्ली, दावनगेरे
204372	गुरुदेव होसमानी लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29764 29.09.12	प्लाट नं. : 18, अन्नापुरनेशवरी हाउस, विजेता नगर दुर्गा जेल रोड, बीजापुर
204373	गुरुदेवी आई मोदी इरन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30221 30.04.13	प्लाट नं. : 11, इब्राहिमपुर, बीजापुर
204374	गुरुपादप्पा बूदी विश्वनाथ बूदी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27316 23.03.11	पत्रालय—अस्की, तालुक—सिंदगी, बीजापुर
204375	गुरुपादस्वामी.के. कोव्वालीमठ कोटरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24504 12.05.09	पत्रालय—गुत्तल, तालुक—हावेरी
204376	गुरुप्रसाद कुमार स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25792 12.03.10	# 3-31, यरमोई थेनका, उदयूपी
204377	गुरुप्रसाद हदापद बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	27801 07.04.11	ग्राम एवं पत्रालय—नई कदरोल्ली, तालुक बेलहोंगल, बेलगाँव
204378	गुरुप्रसाद.एस. एम.शिवन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28142 26.04.11	नं. : 453, क्रास—प्रथम, मेंन—प्रथम, गायत्रीपुरम, मैसूर
204379	गुरुराज निन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28849 18.04.12	# 37, ज्याथी नगर, सीदम रोड, तालुक—गुलबर्गा
204380	गुरुराज शांतामालप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23696 01.04.09	द्वारा देवेंद्रप्पा वीरप्पाजलादी, शाहा बाजार, गुलबर्गा
204381	गुरुराज दसार बीदादेप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28035 19.04.11	गुदीहोनत्ती ए/पी. तालुक—रेनबेनयोर, हावेरी
204382	गुरुराज गुग्गारी सुभाषचंद्र गुग्गारी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23711 02.04.09	# 509, हेब्बल्ली, तालुक—बादामी, बागलकोट
204383	गुरुराज गुल्लप्पानावर शम्बन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27444 25.03.11	रत्तीहल्ली, तालुक—हायरकेरुर, हावेरी
204384	गुरुराज हेग्गेनाडोडी काशीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24712 03.06.09	पुलिस स्टेशन, मेंन रोड, पत्रालय—कल्लाकेरी, तालुक—सिंदगी, बीजापुर

204385	गुरुराज.एस.वरनाले एस.जी. वरनाले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24687 02.06.09	# 1912/12, क्रास-चतुर्थ, स्वामी विवेकानन्द बदावेन, दावनगेरे
204386	गुरुसिदेश्वर कल्याणीमठ जगदीश.एम.कल्याणीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24421 05.05.09	मेंन रोड तालुक-रोन, गडग
204387	गुरुस्वामी सोप्पीमठ संगैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28527 25.08.11	प्लाट नं. : 54, नियर नया सरकारी हास्पिटल, तालुक-हुनगुड, ए नं. एच-13, तालुक-इलकल, बागलकोट
204388	गुटल सचिन मछिन्द्र गुटल मछिन्द्र अर्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24789 04.06.09	हाउस नं. : 7, इ.एल. बेथल, रामनगर, पत्रालय-निपानी, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204389	ज्ञानेश्वर मिश्रा रामकृष्ण मिश्रा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	25395 22.02.10	#89, शुसरुथी नगर, अंदरहल्ली मेंन रोड , पिन्नैया स्टेज-प्रथम, बैंगलोर
204390	एच दीदीप्या एच रवींद्र गौड़	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30550 11.07.13	प्लाट नं. : 20-207-47, विजय नगर कालोनी, गुनतकल, ए.पी.
204391	एच. स्वाति एच.नागामूषण	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29973 06.04.13	हाउस नं. : 9-7-679/ए नं. वार्ड-नवम, कोप्पल
204392	एच.सी.रचना चंद्रप्या एच	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30282 07.05.13	64/2, तेजानिलया, गुरुमुखप्या कम्पाउंड, जे.पी.नगर फेस-1, दक्षिणी बैंगलोर
204393	एच.सी.पदमावधि ए.एस. नागेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1991	27018 03.02.11	#23, होसाहल्ली रोड, भैरवा कालोनी, तलागटापुरा, गनीगारपलैया, बैंगलोर
204394	हबीबुल्ला के.ए के.अलीप्पू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25394 22.02.10	के.ए नं. एफ.आर. रोड, पत्रालय-कोनापुर, तालुक-अरकलगुड, हासन
204395	हादीमनी सुरेश श्रीशैल बासप्या हादीमनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27942 13.04.11	हाउस नं. : 19, सदाशिवनगर, नियर साई पाक्र, बीजापुर
204396	हदिया अमरीन मौ0 रफूददीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24681 29.05.09	#6-2-79 (पुराना), नया 100, किला रोड, शाखा ओसमन गुज, बीदर
204397	हंफिजा बानू वी.के. अब्दुल अजीज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26647 05.05.10	बदरिया मंजिल, वित्तल मुदनूर गाँव, तालुक-बन्तुराल, दक्षिण कन्नड़
204398	हाजराबेगम अहमद मोहीददीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30044 16.04.13	गली तेगिनकेरा, तालुक-कोप्पल
204399	हजारे केतनसिंह नन्दकिशोर हजारे एन गणपतसिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24430 05.05.09	क्रास-चतुर्थ, चालुक्य नगर, तालुक बदामी, बागलकोट
204400	हाके शांता दगादू हाके दगादू निव्रुती	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29686 03.07.12	ग्राम एवं पत्रालय-सौनेक, तालुक-पधापुर, सोलापुर

204401	हलगारकर महेश दीपक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29753 29.09.12	ग्राम एवं पत्रालय हलगारा, तालुक—निलंगा, लाटूर, महाराष्ट्र
204402	हलगारकर निलेश दीपक हलगारकर दीपक भाउराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	30613 26.08.13	ग्राम एवं पत्रालय—हलगारा, तालुक—निलंगना, लेटूर, महाराष्ट्र
204403	हल्ले शिवराज हल्ले अप्पाराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	25125 22.09.09	# 17-4-144, एग्रीकल्चर कालोनी, बीदर
204404	हल्लोर स्मिता सत्यबोध सत्यबोध प्रहलादराव एच	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24581 14.05.09	विनायक नगर, क्रास-13, के.आर.पुरम, बैंगलोर
204405	हमीदा बानु मैनुदीन औरंगवाले	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26246 23.03.10	# 117, कुलकरनी हक्कल, ब्लाक—तीतूय, तालुक—हुबली, धारवाड़
204406	हमीरा तम्कानाथ रूही मौ० मैनुदीन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23682 01.04.09	#4-8-286, मुलतानी कालोनी, बीदर
204407	हमीबिन्दु बी.के. पम्पन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25517 04.03.10	# 55, क्रास—द्वितीय, संगोलीरेयन्ना रोड, पत्रालय एवं तालुक—चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग
204408	हनमन्त धारेप्पानावर सदाशिव एल धारेप्पानावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27871 11.04.11	बेलागली ग्राम एवं पत्रालय, तालुक—मुढोल, बागलकोट
204409	हनमशेट्टी प्रदीप मालीनाथ एम भीमराव हनसशेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25193 08.10.09	गली कालीदास, तालुक—सिंदगी, बीजापुर
204410	हान्जे स्वेता प्रकाश प्रकाश एन हान्जे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24788 04.06.09	हाउस नं. : 7, बैथल, रामनगर, पत्रालय—निपानी, तालुक—चिकोडी, बेलगाँव
204411	हंसराज श्रीशराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	29723 09.08.12	ग्राम एवं पत्रालय—जमबागी, तालुक—औरद, बीदर
204412	हनुमेश वीरन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2004	25400 24.02.10	प्लाट नं. : 44, साइ राम कालोनी, क्रास—मैन रोड चतुर्थ, बेल्लारी
204413	हनुमेश एम डी एच डुडन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29674 25.06.12	हैदराबाद रसायन लिमिटेड , गेट प्रथम, तालुक—सिंहानूर, रायचूर
204414	हरी कृष्णा.सी के. चिन्नाराजू	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25867 12.03.10	# 387 / 1, क्रास—प्रथम, बेलावथा ग्रम्मा, पत्रालय—आर.बी. आई., मैसूर
204415	हरिकृष्णा बीएन बीएस नरसिम्हा मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29271 16.05.12	अनुगृह हाउस, थीरावल्ली गाँव, पत्रालय—वमनजू, तालुक—मंगलोर, दक्षिणा कनाडा
204416	हरिनव्क्षी एन नरसिम्हा मूर्ति एन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30435 31.05.13	#144, क्रास—तृतीय, जे.सी. लेआउट, देवासन्द्र, के.आर.. पुरम, बैंगलोर



204417	हरीश कै. वीथील राव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28335 25.05.11	विद्यानगर कालोनी, मेलूर रोड, हाउस नं. : 9-11-195, बीदर
204418	हरीश चक्र के के सुन्दर्शन गोड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29211 14.05.12	पलैट नं. : 301, राज रेजिडेंसी, सुभाषनगर, महबूबनगर
204419	हरीश देशपांडे रघोत्तम देशपांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29747 29.09.12	संगामेशवर नगर, अलमत्ती रोड नियर आई बी, ग्राम मुददेबिहाल, बीजापुर
204420	हरीश नायक.ए कै. गोविंद नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24117 22.04.09	#126/1, अरामेंनहिथलु हाउस, गाँव-कदिरुध्यावरा, तालुक-बेलथनगढी, दक्षिणा कनाडा
204421	हरीश एल पी. लखम्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23864 09.04.09	#3714/89, एम.सी.सी., ब्लाक-ए, दावनगेरे
204422	हरीश. एम एस.महालिंगहया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25873 12.03.10	पत्रालय-मेडनूर, टितुर, टुमकुर
204423	हरिशिथा गुम्मानूर आनन्द कै.आर. जी.टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29599 13.06.12	# 74, निसरगा, मेंन-दशम, राजाजी नगर, सत्तुर, धारवाड़
204424	हर्षा भूषण टी.एन नागभूषण टी.ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1997	28695 09.03.12	#95, मेंन-प्रथम, क्रास-चतुर्थ, कालदासा लेआउट, श्रीनागरा, बैंगलोर
204425	हर्षा होसमानी सिद्धप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29530 28.05.12	होसमानी रोड, होसमानी मीनार, तालुक-हावेरी
204426	हर्षा मैत्रस राजन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28272 17.05.11	अशोक नगर बासवेश्वर स्कूल रोड, तालुक-बनहल्ली जमखण्डी, बागलकोट
204427	हर्षा प्रभु पदमनम्भा प्रभु.टी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2003	25371 25.01.10	पन्वाजन्या, क्रास-प्रथम, तेल्लर रोड, करकला, उदुप्पी
204428	हर्षा कै. एस.कै. केनगटप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28458 04.07.11	#163, क्रास-12, मेंन-द्वितीय, महालक्ष्मी लेआउट, बैंगलोर
204429	हर्षा.एस.जी. श्रीधर बी.एच	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24380 05.05.09	होसाकोप्पा, पत्रालय-बैनयार, तालुक-सौरभ, शिमोगा
204430	हर्षवर्धन कन्नटप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28496 26.07.11	ग्राम एवं पत्रालय, तालुक-सुरापुर, यादगीर
204431	हर्षवर्धन मोगलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30585 26.07.13	हाउस नं. : 1-1-39, गली श्री मानिक प्रभु, तालुक-जहीराबेंद, मेदक, आन्ध्र प्रदेश
204432	हर्षवर्धन बी बी. शाम भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29292 17.05.12	42104, लक्ष्मी निलाय बनारी रोड, तालुक-मुआपुत्तर, दक्षिणा कनाडा

204433	हर्षिथा एच वी.एल.एच. केडीलया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29523 26.05.12	हरशिथा बोलवर, पत्रालय एवं तालुक-पुत्तुर, दक्षिणी कन्नड़
204434	हस्बे राहुल वेन्केटराव हस्बे वेन्केटराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24428 05.05.09	विधानगर, नियर चिम्मनकल्ली हाउस, तालुक-बदामी, बागलकोट
204435	हसीबा नैमा तुल्ला जैदी सईद जमीरुदीन हुसैनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29153 11.05.12	नं. : 5-4-51, मनीयार तलिम, बीदर
204436	हसीना के के. आलवी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27670 02.04.11	टी-एम/3, के.पी.सी. कालोनी, होसनगढी, तालुक, तालुक-कुदापुरा, उदुप्पी
204437	हवीसा. राज एम.एस. राजगोपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24956 10.06.09	# 206, मेंन रोड 11, विलसन गार्डन, बंगलोर
204438	हीना कौसर कुन्डगोल मौहम्मद घोष	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27667 02.04.11	अयौध्या नगर, क्रास कृष्णापुर, समागर ओनी, पुराना हुबली, धारवाड़
204439	हीना कौसर शोक चाबन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28834 16.04.12	#74, जाकिर हुसैन मौहाल्ला, तालुक-श्रीनिवासपुर, कोलर
204440	हेगना राहुल रावसो हेगना रावसो बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25217 13.10.09	मंन प्रथम, क्रास-चतुर्थ, तुलाजी मीनार, सदाशिवनगर, बेलगाँव
204441	हेगन्ना सुषमा विजय महादेव हेगन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30088 18.04.13	ग्राम एव पत्रालय. शिरोल, सरकारी आई.टी.आई, नियर दत्तानगर, तालुक-शिरोल, कोल्हापुर, शिरोल
204442	हेमा गणेश गणेश ए.ए. नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27522 28.03.11	#18/2173, जी. नारायणा कम्पाउंड, कौत रोड, शिमोगा
204443	हेमा इरप्पा कोडागन्नूर इरप्पा कोडागन्नूर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29866 20.11.12	#437/2बी./2बी/43, मनतप नवानगर, हनगुड, बागलकोट
204444	हेमा लक्कन्नावर गंगाधर लक्कन्नावर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23728 02.04.09	एम.जी. हाउसिंग कालोनी, तालुक-बेलहोंगल, बेलगाँव
204445	हेमाचंद्र शेट्टी माधव शेट्टी.के	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	23760 03.04.09	# 1-38-4ख दुर्गा कपा, बल्लामन्जा, पी0ओ0 मशीना, बेलथनगढी, दक्षिणा कनाडा
204446	हेमलथा डी.के. एम.जे. कृष्णगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27314 23.03.11	दाडाकोप्पल (पंचम) पत्रालय-हेलयोर, के.आर. नगर, मैसूर
204447	हेमलथा के कदुरप्पा डी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30000 08.04.13	आओ, सामान्य हासिपिटल, तालुक-चल्लाकेरी, चित्रदुर्ग
204448	हेमलथा एस शिवन्ना एल	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25652 06.03.10	पत्रालय-श्री रामपुरा, तालुक-चित्रदुर्ग

204449	हेमामालिनी.एन नागाराजू. एन	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24876 06.06.09	# 394, कोटे में रोड, पत्रालय एवं तालुक-अरकुलगुड , हासन
204450	हेमामालिनी.एन पी.एम अप्पाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24301 29.04.09	#264, त्यागराज रोड, ब्लाक-तृतीय, कुशालनगर, सोमवारपेट, कोदगु
204451	हेमेन्त कुमार सौनरे मारुती राव सौनरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27100 16.03.11	द्वारा एस.एच.इ.एस. ए.एम.सी, भवसरनगर सैडम रोड, गुलबर्गा
204452	हेमन्थ.वी वसन्त कुमार.सी.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26505 07.04.10	#15, बी.डबल्यू.एस.एस.बी. जल्लादशनी लेआउट, नियर रामायण हास्पिटल, बैंगलोर
204453	हेमाश्रुती.के के.एल. कलचर	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24031 20.04.09	प्रियादर्शनी लेआउट, प्लानाजोगीहल्ली, पत्रालय-कोदिगहल्ली, तालुक-डोडाबल्लापुर, ग्रामीण बैंगलोर
204454	हेमवन्थी.ए. नं. एस के. सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26885 15.09.10	एल.आई.जी.-5, में रोड, हाउसिंग कालोनी, नन्नाजनगुड, मैसूर
204455	हेमलता खानपूरे वी.बी.खानपूरे	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27660 02.04.11	सी-1 के.वी. क्वार्टरस, एअर फोरस स्टेशन, तालुक बीदर
204456	हेमलता कौसेर सईद शाहँ सौद कादरी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24923 10.06.09	#5-1-271 (नया) कुआदिरिया पुरा, बीदर
204457	हेन्ना नाज शब्बीन अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25933 17.03.10	# 2-606/1, फ्लोर-प्रथम, गालिब नगर, तालुक-अरसीकरी
204458	हरकल अमृता श्रीधर हरकल एस कृष्णजी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24423 05.05.09	गोरी शंकर क्लिनिक, के0एम0पी0 रोड, तालुक-बादामी, बागलकोट
204459	हिदयाथुल्ला अब्दुलसलाम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	25242 21.10.09	प्रथम टेलरस, बेल्लारी रोड, क्रास-द्वितीय, तालुक-चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग
204460	हिदयातुल्ला खान अफजल खान आई पठान	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25779 12.03.10	मोहामदिया कालोनी नियर अरकत दर्गा, जामिया मस्जिद, बीजापुर
204461	हिप्पारगे सोनाली कल्याणी हिप्पारगे कल्याणी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29604 14.06.12	ग्राम एवं पत्रालय मखनापुर, एल.टी नं. : 2, बीजापुर
204462	हीरेमठ अनुप्रिया हीरेमठ वासवराज गुरुलिंगैयया	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28818 13.04.12	पतन्ने रोड, गली महाजन, पत्रालय एवं तालुक काला मैथआमरगा, ओस्मानाबाद
204463	हीरेमठ महेशवर शिवानन्द शिवानन्द एस हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26227 23.03.10	#2738/ए/1, वार्ड नं. : 1, विध्यानगर, तालुक सिंदगी, बीजापुर
204464	हीरेमठ मुक्था सतीश एच.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28501 26.07.11	बालाजी सिनेमा के सामने, तालुक-सिरुगुप्पा, बेल्लारी

204465	हीरेमठ राश्मि शिवलिंगेयया शिवलिंगेयया ए हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26584 19.04.10	हाउस नं. : 2106 (ए), राम नगर, निपानी, चिक्कोडी, बेलगाँव
204466	हीरेमठ सपना विद्याधर ब्रह्मानन्द.के. स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2003	28690 02.03.12	#8-11-254, राघवेद्र कालोनी. के.ई.बी. रोड, बीदर
204467	होगडे राजदीप मारुती होगडे मारुती	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24335 29.04.09	एम.आई.जी-द्वितीय ए. हुडको कालानी, अकोला रोड, पत्रालय निपानी, तालुक-चिक्कोडी, बेलगाँव
204468	होन्ना नागेशवरी बाबूराव होन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29126 07.05.12	नं. : 17-4-358, सी.एम.सी.कालोनी, गांधी गंज, बीदर
204469	होन्नावड मेघा आनन्द बी.होन्नावड	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28545 07.09.11	अन्नादन निलाय, शिवापेती, क्रास-षष्ठी, तालुक-रोन, गडग
204470	होसरवानीथा कुमारी एच. चंद्रशेखर शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2008	24240 28.04.09	#100, क्रास-द्वितीय, मेंन-पंचम, मेरेनहल्ली, विजयनगर, बंगलौर
204471	होजी राधिका आनन्द एन0 खटावटे	बी.ए.एम.एस. ए नं. टी.आर.यू.नं. आफ हैल्थ साईंसिस, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश 2014	25440 26.02.10	56, साउथ एव्युनु, जे.पी. नगर, 8 क्रोस, 8 फेस गोठीगरी, बंगलौर
204472	ऋषिकेश तेजस्वी. एम.एल के. लक्ष्मन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25391 22.02.10	1123, पंचजान्य, 9 मेन तीसरी स्टेज गोकुलम मैसूर
204473	हुड्डार दिपाली हुड्डार प्रभाकर मालप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27460 26.03.11	गोडाड गल्ली, महालीगापुर, मुधोल तालुका, बागलकोट
204474	हुड्डार नितिन चंद्रकान्त हुड्डार चंद्रकान्त अप्पाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28950 26.04.12	करादगा पोस्ट, चिक्कोडी तालुक, बेलगाँव
204475	हुगरा पम्पापाथी एच0 जदीशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28282 17.05.11	होलाउ, फॉट, हुवीन हदागली, बेल्लारी
204476	हुलशुरे शिवांशंकर मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन शंकराप्पा हुलशुरे	बी.ए.एम.एस. बी.ए. मराठावाड़ा वि.वि., औरंगाबाद 1993	25132 25.09.09	कमलनगर पोस्ट, औराड (बी) बीदर
204477	हुलयालकर कावरी निन्गोडा एम. हुलयालकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29472 24.05.12	47, 48, अरवाडे पाकर, गुरु बासव, नजदीक रेलवे स्टेशन, मिराज तालुका, सांगली
204478	हुमा सरवर शाह शाउद अहमद कादरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25737 12.03.10	5-1-27 (नई), कादरीयापूरा, गालाखान, बीदर
204479	हूम्बे उदयशिन्हा मरुतराव हूम्बे मरुतराव विश्वानाथराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23816 04.04.09	म.इ.एस. कॉलोनी, हुमनबाद रोड नवबाद, बीदर
204480	हुसैनबी एम. पटेल मेहबूब नियाजी बी. पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24981 11.06.09	53, 10 क्रोस, वेनुगोपाल नगर, पीछे रोकिंग स्टूडियो, बंगलौर

204481	ईचूर अमोल शिवराम शिवराम यल्लप्पा ईचूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28647 30.11.11	भद्रावती तालुका, बादामी तालुका
204482	इफफत बानु हफीजुल्ला शरीफ तुराबी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30404 27.05.13	34, 5 मेन, विस्ल्लाह नगर, बी.जी. रोड क्रोस, बंगलौर
204483	इमामशा के. नदफ करीमशा एच. नदफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25346 31.12.09	6, जामलादीन्नी, मुददेबीहल तालुका, बीजापुर
204484	इम्तियाज खान राशिद खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27938 13.04.11	2961, मोठी नगर मोहल्ला मस्जिद रोड, रामनगरम टाउन, रामनगरम
204485	इनामिल हसनशाह शिंगोटी इमामसाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23876 09.04.09	डी/151, 2 क्रॉस, मधुरा स्टेट, हुबली तालुका, धारवाड़
204486	इन्दापूरकर अमित गजाननाराव इन्दापूरकर जी.प्रहलाद राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24885 08.06.09	रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बदामी तालुका, बागलकोट
204487	इन्दे तेजश्री सुनील इन्दे सुनील शंकराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29610 14.06.12	मखनपूर पोस्ट, एल.टी. न०.2, बीजापुर
204488	इन्द्रा पल्लवी रवि. शंकर नन्दगांव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25061 18.07.09	काबूर चाल, जमखन्डी रोड, मुधोल तालुका, बागलकोट
204489	इन्द्रावली एम.के. कथीरवेलू एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30429 29.05.13	7, श्री शक्ति शतलम 6 क्रोस, बनशंकरी लेआउट, विंगरो नगर पोस्ट, बटटारहलली, बंगलौर
204490	इन्द्रानी शिवाननजाईका एच.ए. नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30226 30.04.13	वरदराजा बदवाने, हुलाहल्ली गांव, नजोड तालुका, मैसूर
204491	इन्दुमती देवरड्डी चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26726 28.06.10	कल्याण नगर के पीछे, पुलिस स्टेशन, सिन्दगी तालुक, बीजापुर
204492	इरन्ना सज्जन महादेवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24565 14.05.09	375/बी, 2 गली, दन्दापूर, नरागोंडा तालुका, गडग
204493	इरप्पा कोलोर, बासवरजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24203 24.04.09	कमतागी पोस्ट, हुगोन्ड तालुका, बागलकोट
204494	ईरैय्या मलैय्या हीरेमठ मलैय्या हीरेमठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	29297 17.05.12	नं. 1230, कमलेश्वर नगर, सुलेभवी पोस्ट, बेलगाँव
204495	इरफान अहमद बी अहमद एस. कुडाची	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28149 26.04.11	गरीब शाह तकिया, आत्मनजील चितीगुप्पा हुमनबाद तालुका, बीदर
204496	इरफान फरहीन ताज मोहम्मद आजमतुल्लाह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26886 15.09.10	नं. 31, 2, क्रोस, प्रथम मेन रोड विवेकनगर, बंगलौर

204497	इरशाद अली सी. शैकशवाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25506 04.03.10	1248 (24 वार्ड), भुवनेश्वरी नगर होस्पेट तालुका, बेल्लारी
204498	ईशारा परवीन वाडा वाडगी हसनसाहेब बी. वाडावाडगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28937 26.04.12	एम/पी देवर हिप्पारगी पोस्ट सिंदगी तालुक बीजापुर
204499	ईश्वर पट्टेद निंगप्पा पट्टेद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24844 06.06.09	303/ए, बासवानगर, बागलकोट रोड, बीजापुर
204500	ईशमार्शल नदफ महबूबसाब आर. नदफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28154 26.04.11	नं. 338, नई पुलिस लाईन, कारवाड रोड हुबली तालुक, धारवाड
204501	ईथापे ज्योतिप्रसाद बाबनराव इथापे बाबनराव अप्पासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25558 05.03.10	समीप रंगराज हॉस्पिटल, गजेन्द्रगढ़, रॉन तालुका, गडग
204502	ईश्वर्या एच.एस. के.टी. थीम्मे गौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25594 06.03.10	1518/ए, 2, मेन, 6 मेन रोड विवेकानन्द नगर मैसूर
204503	जे. दर्शना हेमचन्द्र हेमचन्द्र वी. जीभाकाटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29681 29.06.12	वार्ड नं. 4, हावरे लेआउट, शेवाभवी नगर, सेवाग्राम पोस्ट, वर्धा तालुका
204504	जे. एम. चेतना जे. एम. गौरीश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29672 25.06.12	507, शान्तिनिलायम, 2 क्रोस, बासवनगर, मरुथहली, बंगलौर
204505	जाधव अश्वनी जगन्नाथ जाधव जे. ध्यानदेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24991 16.06.09	स्टार बिल्डिंग, वेदकिहाल पोस्ट, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
204506	जाधव अमीरश अनिल अनिल रोहीदास जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29575 12.06.12	वाडा पोस्ट (मूलबंध), देवगड तालुका, सिंधू दुर्ग
204507	जाधव अमीशा प्रकाश जाधव प्रकाश कृष्णाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23714 02.04.09	एस.एस.आर ए. एम. सी., इंचल, सौनदत्ती तालुका, बेलगाँव
204508	जाधव आशीष प्रकाश येलनाथ जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30082 18.04.13	येलनाथ निवास, कस्बा पेट, ग्राम एवं पत्रालय माधा, तालुका माधा, सोलापूर, माधा
204509	जाधव दत्तात्रेय सुदाम सुदाम जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	30449 03.06.13	पोस्ट नन्दौर घाट, तालुका -कैज, बीड
204510	जाधव दीपाली निवासराव जे. निवासराव चन्द्ररु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24109 22.04.09	प्लॉट नं. 7, ई एल बेथेल बंगला, राम नगर, नीपानी, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
204511	जाधव जयेन्द्र सदाशिव जे. सदाशिव कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24154 22.04.09	कनिका परमेश्वरी निलाया निवास, रॉन तालुका, गडग
204512	जाधव मनीषा मारुतिराव जाधव के. मारुतिराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24948 10.06.09	मकान नं. 733/9, शेमनवाडी चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव

204513	जाधव पाटिल युवराज रघूनाथ आर. बापू जाधव पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24717 03.06.09	रत्नराव बिल्डिंग, एस. टी. खोट कॉलोनी, शामनेवाडी पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204514	जाधव प्रशान्त भगवान भगवान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24797 04.06.09	पूजा क्लिनिक के. के. जी. एस. रोड, कैसरी गली, बीजापुर
204515	जाधव प्रीतेश पुण्डलिक, पुण्डलिक, अर्जुन जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23946 13.04.09	श्रीनगर, 4 क्रॉस, रॉन तालुका, गडग
204516	जाधव रचना कुमार कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24795 04.06.09	श्री सिद्धा संजीवनी हॉस्पिटल, इनामदार कॉलोनी, बीजापुर
204517	जाधव राहूल अश्रुवा जाधव अश्रुवा नामदेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27811 08.04.11	एस.वी.पी.आर. ए.एम.सी, बॉयस होस्टेल, बदामी ए/पी एण्ड तालुका, बागलकोट
204518	जाधव राहूल सुग्रीव जाधव सुग्रीव खन्डु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24550 13.05.09	10-2-310-13ए, समीप, एम.टी.एम टाकीज, मानवी तालुका, रायचुर
204519	जाधव राजश्री बाबन जाधव बाबन शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23743 02.04.09	625, श्रीनिदि, कीर्ति नगर, समीप साई बाबा मंदिर, बीजापुर
204520	जाधव रणजीत रमेश जाधव रमेश व्यनकटराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25532 04.03.10	नया आदर्श कॉलोनी, 19-1-53-3 एयरफोर्स रोड, बीदर
204521	जाधव रोहिणी निवासराव जाधव निवास राव बापूसो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24418 05.05.09	इन्द्रानगर, वेलहोंगल तालुका, बेलगाँव
204522	जाधव सचिन सम्भाजी जाधव एस. बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24477 11.05.09	4 क्रॉस, चालुक्यानगर, बदामी तालुका, बागलकोट
204523	जाधव सागर चन्द्रकान्त सी. जगन्नाथ जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29038 05.05.12	सर्व नं. 52/1, शिवादर्शन कॉलोनी विद्यानगर सैदपूर, कार्ड तालुका सतारा
204524	जाधव संजय गजानन जाधव गजानन सीताराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25034 02.07.09	मकान नं. 1295, सेक्टर नं. 7, शिवकृपा बिल्डिंग वन्तामुशी कॉलोनी एम.एम. एक्स, बेलगाँव
204525	जाधव सरिता वसंत जे0. वसंत महादेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28997 27.04.12	ए नं. सी.सी. ऑफिस, सी.एस. नं. राजाराम पाकर, गजानन महाराज नगर करवीर कोचापुर
204526	जाधव सत्यजीत रामचन्द्र जाधव रामचन्द्र दयानंद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24374 05.05.09	गौरी शंकर क्लिनिक, के.एम.पी रोड लक्ष्मी नगर, बादामी तालुका, बागलकोट
204527	जाधव शामल नारायण जाधव नारायण मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23944 13.04.09	श्रीनगर, 4 क्रॉस, रॉन तालुका, गडग
204528	जाधव शीतल राजेन्द्र विष्णु जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30080 18.04.13	विठ्ठल नगर, सतारा, पाटन

204529	जाधव शिल्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27931 12.04.11	मकान नं. 179, समीप मुन्सिपल कौंसिल, निपानी चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204530	जाधव सुमन गणपती जाधव गणपती पामू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29042 05.05.12	नं. 324, हरगरपूर कारी शंकरेश्वर पोस्ट हुक्करी तालुक, बेलगाँव
204531	जाधव उमेश सुभाष सुभाष शामराव जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25090 07.08.09	कवदीगुडडा रोड, मानवी तालुका, रायचुर
204532	जाधव वैभवी विश्वास धर्माजी जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30510 19.06.13	पोस्ट खेडाशी, पारस नगर, रूम नं. बी-67/68, तालुका -रत्नागिरी, खेडाशी,
204533	जाधव विपूल तानाजी तानाजी हरी जाधव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24700 02.06.09	बी.ए.एम. कॉलेज चल्लाकरे तालुका, चित्रदुर्ग
204534	जाधव वरुशला विश्वास जाधव विश्वास गणपत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28987 27.04.12	करान्डी पोस्ट, सितारा तालुका
204535	जगदाले राहुल हम्बीरराव हम्बीरराव बी जगदाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24716 03.06.09	रत्नात्रेय बिल्डिंग, एस.टी. खोट कॉलोनी, शम्भनवाडी पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204536	जगदाले विराज अनिल जगदाले अनिल नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23713 02.04.09	एस.एस.आर ए. एम. सी., इच्छल, सौनदत्ती तालुका, बेलगाँव
204537	जगदीश गुरुलिंगैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27919 12.04.11	संगोली ए/पी, बेहोंगल तालुका, बेलगाँव
204538	जगदीश भीमप्पा समपांगन्वी भीमप्पा टी. समपांगन्वी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29882 17.12.12	पोस्ट संगनकेरी तालुका, गोकाक, बेलगाँव
204539	जगदीश मंगन्नावर सोमराड्डी मंगन्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26735 28.06.10	806, हंचिनल पोस्ट, सवादत्ती तालुका, बेलगाँव
204540	जगदीश एम. मालैय्या एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24043 20.04.09	मल्लाहली माला, अल्लाहली, कोल्लेगल तालुका, चामराजनगर
204541	जगदीश एल. लच्छा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23862 09.04.09	1929/17, समीप बस स्टैण्ड, विद्ययानगर दावणगेरे
204542	जगदीश डी. डोडाकामैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25636 06.03.10	बराका (वी), बुक्कपटटना पोस्ट, कोरटेगिरी, टुमकुर
204543	जगदीश साई बन्ना पूजारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27029 22.02.11	4-5 -150, समीप लक्ष्मी थियेटर, कनकानगर, यादगिर तालुका
204544	जगदीश नायका एम.आर रंजन्ना एम.बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24119 22.04.09	762, 8 क्रोस, 4 मेन, तालुका लेआउट, मैसूर



204545	जगन्नाथ संगुनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30390 23.05.13	ई/39, जोगपूर (पी), गुलबर्गा जोगुर
204546	जगताप किरण रामदास रामदास बी जगताप	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24645 21.05.09	के.एच.बी. न0.4, जामिया मस्जिद के पीछे, बीजापुर
204547	जगताप मनोहर दत्तात्रेय दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25298 27.11.09	1834/ए, प्रसाशाश्रय जटरात वेस निपानी पोस्ट चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204548	जगदाले अभिजीत सर्जेराव जगदाले सर्जेराव दामाऊ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23785 04.04.09	बस स्टेण्ड के पीछे, गजेन्द्रगढ रॉन तालुका, गडग
204549	जगदाले अजीत एकनाथ एकनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23857 06.04.09	07, ई एल. बेठल बुन्गलाव, राम, नगर, निपानी चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204550	जगदले कृष्णा दत्ताराव दत्ताराव जगदाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	30619 28.08.13	वेलदर, पोस्ट -येलकी, तालुका -कलामानुषी हिंगोली, महाराष्ट्र कलामानुषी
204551	जगदाले योगिता शिवाजी शिवाजी बालाहीम जगदाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28738 02.04.12	शिवाजीनगर, माधा, माधा तालुका, सोलापुर
204552	जगदीश्वर बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28691 05.03.12	275/ए, आनन्दवाडी पोस्ट, भारतमबरा भाल्की तालुका, बीदर
204553	जगताप ज्योशना अन्नासो अन्नासो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30491 13.06.13	पोस्ट गजबरावडी, पोस्ट कन्नुर, तालुक चिक्कोडी, बेलगाँव
204554	जगताप ज्योति विजय जगताप विजय नैनासो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27905 11.04.11	टी.एस.पी.एस.एम. आयु. मेडिकल कॉलेज सिंदगी तालुका, बीजापुर
204555	जगताप कीर्ति राज दशरथ राव दशरथ राव ए. जगताप	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29757 29.09.12	सोमेश्वरनगर पोस्ट, बारमती तालुका, पुणे
204556	जगताप स्वप्नील सम्पतराव सम्पतराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24945 10.06.09	वी.बी. जिन्जीमनाथ, एम. बी. के.लाल बिल्डिंग, समीप वेन्कटेश थियेटर, मुन्डारगी तालुका, गडग
204557	जहंगीरदार प्रदन्या अशोक अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28913 26.04.12	ए2/241, मन्तरी चन्दक पाक्र, सोलापूर पोस्ट, तालुका
204558	जाहणवी नारायण भट्ट के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30533 27.06.13	आर -12, 4 कॅस, आर -12 गंगोत्री क्वार्टर्स, मैसूर
204559	जय प्रकाश राठौर बुद्ध राम राठौर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24525 12.05.09	बालनगर, आयुर्वेद कॉलेज के पीछे, मानवी तालुका, रायचूर
204560	जयगौडार यल्लारलिंग महादेवप्पा महादेवप्पा जयगौडार यल्लारलिंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27180 18.03.11	इण्डी रोड नन्दगौडा अडडे, समीप तेली काम्पलेक्स बीजापुर

204561	जैन राहुल सुरेश सुरेश तिलोकचन्द्र जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25536 04.03.10	नवनगर, गजेन्द्रगढ़, रॉन तालुका, गडग
204562	जयपाल रेड्डी पी. सत्यानारायण रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29178 14.05.12	सरकारी हॉस्पिटल, अजिया पूर, मडवार पोस्ट, मकतल यादगिर तालुक
204563	जाजू तन्मय श्याम सुन्दर एस. जाजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27108 17.03.11	शिवा ललिता काम्पलेक्स बायेंस होस्टेल, सिद्धरुद्र मठ के सामने, गुम्पा, बीदर
204564	जलकोटे शुभांगी संगमेश्वर, जलकोटे एस. नवीतनगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29696 06.07.12	साई कृपा निवास समीप एस.बी.आई इन्दौर पोस्ट तुलीजापुर तालुका, ओसमानाबाद
204565	जमादार आफताब अजीज अजीज हसन जमदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29543 28.05.12	बी-28, रूम न0.2 स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया कॉलोनी, सेक्टर -13, नेरूल (पश्चिम), नवी मुम्बई
204566	जामभाले सैश शैमराव जामभाले सैश विट्टल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24511 12.05.09	एम.बी. कलाल लोदगे, समीप वेन्कटेश थियेटर मुनदारगी तालुका, गडग
204567	जमादार प्रानाली बालकृष्णा जमादार बी. अन्नासो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24554 13.05.09	समीप बेदकिहाल सक्रल, शान्ति नगर, शामनेवाडी पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगॉव
204568	जमुना बी.ए. अशव थैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29000 27.04.12	नं. 325, 13 क्रॉस, 2 मेन रोड, होयासानगर सुनकडकटटे बंगलौर
204569	जर्नाधन मामीदी नारायण मामीदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25482 03.03.10	प्लॉट नं. 41, जयराज सेली, धारवाड़
204570	जर्नाधन शेट्टी कुरुमबिला शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25019 26.06.09	1-6-12ए, मिशन हॉस्पिटल रोड, शान्थानाडा रेजिडेन्सी तालुक, ऑफिस रोड उडुप्पी
204571	जर्नाधन एच.टी. दुकाराम एच.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28137 26.04.11	नं. 153, चोवाडेश्वरी मंदिर रोड, हलेपाल्या तिपतूर, दुमकुर
204572	जंगाले वैभव सुकदेव सुकदेव ए. जंगाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24644 21.05.09	के.एच.बी. न0.4, जामिया मस्जिद के पीछे, बीजापुर
204573	जहाणवी के. ए. वी. कैलाशम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25538 05.03.10	मकान नं. 540, 8 मेन रोड, विजयानगर, बंगलौर
204574	जहाणवी आर. उर्स बी.आर. रेनुकाराजे उर्स	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26240 23.03.10	मकान 1292/2 5ए क्रॉस , 6 मेन, के.ए. नं. एक्स, यशवान्थपुर, बंगलौर
204575	जैशमीन लैनाड नौराली लैनाड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24198 24.04.09	नवनगर, समीप वाटर टेन्क, हनुगोन्द तालुका, बागलकोट
204576	जैमश्मीन एस. अक्कलकोट सययैदबासना आई. अक्कलकोट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24715 03.06.09	मकान 694, शोलापूर रोड, बीजापुर

204577	जावेरिया उजमा मुहम्मद इकबाल अली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30458 05.06.13	सिद्धीकी शाह तलीम, मकान नं. 2-1-12, नयी कामन, बीदर
204578	जावेद मोमीन फरीदशाब मोमीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30013 09.04.13	मका नं. नं. 1738, मोमीन गली, समीप नया बस स्टैण्ड, हुक्केरी, बेलगाँव
204579	जयालक्ष्मी एम.एस एस.के. मायानवर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25052 09.07.09	मकान नं. 7/8, 11 कॉस, गायत्री लेआउट, के. आर. पुरम, बंगलौर
204580	जयलक्ष्मी एस. सुरेश जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29840 30.10.12	वेंगीदाशेरील, टी. सी. द. 10/852 (2), कवालौर लेन, वटटीयोर काव्यू, त्रिवेन्द्रम
204581	जयलक्ष्मी जी.पी एच.पी. पट्टारजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28534 25.08.11	मकान नं. 147, 6क्रॉस, प्रथम मेन रोड, बी.एम. श्री नगरा, मेटागली, मैसूर
204582	जयलक्ष्मी पी. लक्ष्मैया पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23745 02.04.09	मकान नं. 8-11-181/2ए, एन जी ओ कॉलोनी, रायचुर
204583	जयलक्ष्मी एस.आर राजशेखरप्पा एस. वी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23878 09.04.09	वेंकटप्पा लेआउट, शान्ति नगर, चल्लाकेरे तालुका, चित्रादुर्ग
204584	जयलक्ष्मी शीन्त्रे फकीरप्पा सी. शीन्त्रे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29433 23.05.12	जवन निल्या अक्की ओनी, नवलगाँड पोस्ट एण्ड तालुका, धारवाड
204585	जयम्मा होसमानी शिवाप्पा होसमानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28209 04.05.11	मकान नं. जे-9 स्टॉफ क्वार्टर्स, के.वी. कैम्पस, धारवाड
204586	जयन्ना कोरी रायप्पा एम. कोरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23852 06.04.09	कराबर ओनी, मगला पोस्ट, हुवीनहादगल्ली तालुका, बेल्लारी
204587	जयन्ना बी. जदीयान्नावर बसवन्तप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25380 02.02.10	मेन रोड होनसाहेब पोस्ट, हिरेकेरूर तालुका, हावेरी
204588	जयन्त एस श्रीनिवासमुर्ति आइ.जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27382 24.03.11	मकान 5, 7 क्रॉस मेन, विनयाक नगर, विनोतिकोप्पल, मैसूर
204589	जयप्रकाश ए. ए नं. ए.नगराजाचारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27084 15.03.11	नं. 3682/ए58, गायत्री कृपा, तरालबाबू एक्स, दावणगेरे
204590	जयराम मुदया टी बालकृष्णा मुदया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1973	26745 02.07.10	नदर हाउस, कोटेकर गाँव, मंगलौर तालुक, डी.के
204591	जयशीला जी गोपालकृष्ण टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30393 23.05.13	मकान नं. 713, 22 मेन, पट्मनाया नगर, बंगलौर
204592	जयश्री नगप्पा रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30616 26.08.13	मकान नं. 8-74, कलमुड रोड, कमलापुर, गुलवर्गा

204593	जयश्री वडोले, प्रेमदास मिटठू वडोले,	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29195 14.05.12	नं. 20, प्रथम मेन, गुरुराज लेआउट, दोडाने कुन्डी, मराथहली बंगलौर
204594	जयश्री होसागौडार, इरनगौदा होसागौडार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30372 21.05.13	पोस्ट सलाहली, तालुका —रामदुर्ग, बेलगाँव,
204595	जयश्री के.एस श्रीनिवास मुर्ति के.एस.आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28829 16.04.12	रंजना हल्ली सीतम्मा पी यू सरकारी कन्या कॉलेज पी जे विस्तार, दावणगेरे
204596	जयश्री एन पाटिल, निमागौडा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29187 14.05.12	नसलपूर पोस्ट, रायबाग तालुका, बेलगाँव
204597	जयश्री पारसी तम्मन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30167 25.04.13	महालक्ष्मी अरबन बैंक, तालुका —गोकाक, बेलगाँव, मुदलगी
204598	जयश्री पाटिल दत्तात्रेय पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30395 24.05.13	मकान नं. 41, बिददापूर कॉलोनी, अम्बिका निवास, गुलबर्गा
204599	जयश्री राजेन्द्र पाटिल राजेन्द्र ए नं. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28510 08.08.11	एफ-41, सेन्च्युरी पाक्र अपार्टमेन्ट, विद्यागिरी धारवाड
204600	जयश्री के केन्चय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24659 22.05.09	बी बी -5बी, हुटा कॉलोनी, भारद्वाज तालुका, शिमोगा
204601	जयश्री एम.एच हनुमनतप्पा मुन्डासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24052 20.04.09	मकान 416/20/2ए, विद्यानगर, मसरी, हटागिरी नाका, गडग
204602	जयश्री के. रायकर कमलाकर. आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25804 12.03.10	एच.के. रोड शिरालकोप्पा पोस्ट, शिकारीपूर तालुका, शिमोगा
204603	जयश्री उलागडडी महादेव ए नं. सालागरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29571 12.06.12	अंकली पोस्ट चिकोडडी तालुका, बेलगाँव
204604	जयभय अभिषेक महादेव जयभय एम. गोकुल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24816 05.06.09	गौलीगली, गजेन्द्रगढ पोस्ट, रॉन तालुका, गडग
204605	जीवन एम महादेवैयाह एम. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29533 28.05.12	मकान नं. 1/192, समीप वाटरटेनक, विनायका बडवाने, के.आर. नगर पोस्ट एण्ड तालुका मैसूर
204606	जीविता एस.पी प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30141 22.04.13	इ डब्लू एस -478, 12 क्रॉस, कुवेम्पू नगर, हासन
204607	जीनविवा पिन्दू जे.बी. पिन्दू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24891 08.06.09	जे.जे. कॉटेज, प्रथम क्रॉस, मलिकार्जुना नगर सकलेशपूर हसन
204608	जन्गाते मनीषा तन्जी तानाजी एम. जन्गाते	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24288 29.04.09	महावीर नगर, जमखन्डी तालुका, बागलकोट

204609	झा ज्योति महानन्द महानन्द झा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29909 10.01.13	डबलू सी एल कॉलोनी नं. बी/39, ऑफिसर्स कॉलोनी, डी ओ सी मिन्स चन्द्रपुर महाराष्ट्र
204610	जिददीमानी नागनाथ मारुतिराव मारुतिराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25140 25.09.09	मकान नं. 5-4-20, बस स्टैण्ड रोड, आलन्द तालुका गुलबर्गा
204611	जिरीनली लालो योली तरियांग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24982 12.06.09	मकान नं. 313/3बी, 6 क्रॉस 6 मेन वेंकटपुरा एक्टेंसन, प्रथम ब्लॉक कोरामंगला, बंगलौर
204612	जन्नेशवरी डी दासाराजु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25845 12.03.10	मकान नं. 2205, कलकोनिके, के. आर. नगर, बाई पास रोड हुनसूर तालुका मैसूर
204613	जोबिन जैकॉब एम. टी. जैकॉब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28260 17.05.11	अरुथा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा
204614	जोडारी सुमित सुरेश टी. सुरेश नागनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27196 19.03.11	19-4-622, श्री दत्ता निवास, नौबाद, बीदर
204615	जोगदे लतिका देवेन्द्र देवेन्द्र एम. जोगदे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24503 11.05.09	कालीदास गली सिंदगी तालुका बीजापुर
204616	जोशफ जोश पी. वी. जोश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25871 12.03.10	पूनमकुनेल हाउस, कन्जीरामाटटोम रोड, थोडुपुज्हा पश्चिम, इदुक्की
204617	जोशफ के. सी चाक्काचन के.सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25778 12.03.10	जॉय इस्टेट, संगमेश्वरपेट पोस्ट, कुमारगोड जामिया मस्जिद
204618	जोशी विलास जगदीश जगदीश डी जोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	29784 12.10.12	वार्ड नं. 2, वार्डगांव रोड, सेलू पोस्ट एवं तालुका वर्धा
204619	जोशी विनय विनायकराव जे.वी.वामन राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24663 22.05.09	कन्या हॉस्टिल, ममदापुर बिल्डिंग, कॉलेज रोड, बदामी तालुका, बागलकोट
204620	जोशी विवेकानन्द विश्वास जोशी वी रामचन्द्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24446 05.05.09	पुष्प कुन्ज, एस.यू.सी.ओ. बैंक के पीछे, 2 क्रॉस बी.टी पाटिल नगर कोप्पल
204621	ज्योथि लक्ष्मी जे. जयामूर्ति वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26654 11.05.10	श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, 21 के.एम. कनकपुर उदयपुरा बंगलौर
204622	जुलीएट एलिजाबेथ कस्टेलिनो कैसमीर कैस्टेलिनो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29560 12.06.12	बेथन्याप्रोवीन सियालेट, वमनजौर पोस्ट, मंगलौर तालूका, दक्षिण कन्नडा
204623	जुन्डाले मनीषा मोहन जुन्डाले मोहन भगवान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25279 06.11.09	कालीदास गली, सिंदगी तालुका, बीजापुर
204624	ज्योति लोकेश ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24774 04.06.09	मकान नं. 7/1/135, अब्बा गार्डन, मतदकनी, रोड बालौर, अशोक नगर, मंगलौर तालुका दक्षिण कन्नड

204625	ज्योति मल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25469 03.03.10	तवेरगिरा पोस्ट, कुस्तागी तालुका, कोप्पल
204626	ज्योति पी. नरसिंहा अडिगा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25978 18.03.10	ओटटीगल्ला रोड शारदा फार्म, निदीगे तालुका, शिमोगा
204627	ज्योति श्रीधर आचार्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26902 21.09.10	ज्योति निल्या , मडवानगरा, कोडावौर पोस्ट, उडुप्पी तालुका
204628	ज्योति प्रहलाद राव देसाई श्रीनिवास मासलेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23839 06.04.09	मकान नं. 20/1, प्रनाम, 1 डी क्रॉस, मरेनहाली, विजयानगर, बंगलौर
204629	ज्योति टी एम.टी.बी. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29339 18.05.12	नं. 5/2, वेज मार्केट रोड सी.एम नगर, लेआउट, हीरयूर तालुका, चित्रदुर्गा
204630	ज्योति सी डी. चिक्काथीम्मे गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25076 29.07.09	मकान नं. 2 क्रॉस मेन, एस.पी, लेआउट, सुनकडाकट्टी विश्वानदीम पोस्ट, बंगलौर
204631	ज्योति एल एल.जे. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25470 03.03.10	मकान 289 एफ नं. 48 8 क्रॉस, रेणुका नगर, थालार रोड बेल्लारी
204632	ज्योति टी.एम थिर्थप्पा एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25673 12.03.10	मकान 316, इ डबलू एस 2 क्रॉस, 5 ए मेन, कंगरी सेटलाइट टाउन, बंगलौर
204633	ज्योति यू. एन यू. निन्गप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24056 21.04.09	रत्नाकर लेआउट, अब्बालगिरी, शिमोगा
204634	ज्योति एम. मन्जुनाथ एम.एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28131 26.04.11	नं. 883, 10 क्रॉस 4 मेन, श्रद्धा देवी नगर, मैसूर
204635	ज्योति एस. रविन्द्र अंगदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28127 26.04.11	नं. 11-66 (एम)3, 1 क्रॉस, अन्नथा कृष्णा नगर, कुथपाडे, उडुप्पी
204636	ज्योत्सना एल. श्रीयान लोकनाथ . जी. श्रीयान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24657 22.05.09	पूजारी (एच), कोरला गौददा हेजमडे, उडुप्पी
204637	ज्योति मल्लिकार्जुन मैत्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29116 07.05.12	नं. 4-1-26, शरनगरा, अलन्द पोस्ट एवं तालुका गुलबर्गा
204638	ज्योति देसु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29642 14.06.12	लक्ष्मन नायक तान्डा, कलगी पोस्ट, चितापूर तालुका, गुलबर्गा
204639	ज्योति बासवाराज जे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30123 19.04.13	पी.ओ. हिरोली, तालुका अलन्द, गुलबर्गा, हिरोली
204640	ज्योति महादेवप्पा अंगदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30206 29.04.13	पी.ओ. काकुबालू, तालुका-हास्पेट,

204641	ज्योति शिवराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24734 03.06.09	हुमनबाद, ज्योति निवास, कोलूर रोड हुमनबाद, बीदर
204642	ज्योति राघवेन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25429 26.02.10	मकान नं. 18-3-230, मालागौडा कॉलोनी, चिदरी रोड बीदर
204643	ज्योति भद्रापुर यल्लप्पा सी. भद्रापुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24751 04.06.09	शारदा कॉलोनी, अन्नीगिरी पोस्ट, नवनगौंड तालुका, धारवाड
204644	ज्योति चौगला अप्पासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24349 29.04.09	बासव नगर 4 क्रॉस, रबकवी पोस्ट, जामखन्डी तालुका, बागलकोट
204645	ज्योति देशपाण्डे गोविन्दराव बी. देशपाण्डे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23908 09.04.09	मकान नं. 139/2, समीप नगरेश्वर मंदिर गली, बागलकोट
204646	ज्योति देवंगामठ मुसनगेस्वामी एच. देवंगामठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28830 16.04.12	सुलेभवी पोस्ट, हुनगौंड तालुका, बागलकोट
204647	ज्योति गुब्बान्नावर शंकरप्पा गुब्बान्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26236 23.03.10	मकान नं. 108, हाई स्कूल रोड, राजेन्द्र नगर, हावेरी
204648	ज्योति हल्ली बासवाराज. एस. हल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24165 24.04.09	मकान नं. 843, लक्कुन्डी पोस्ट, गडग
204649	ज्योति कटटीमानी सैयदप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28604 19.10.11	प्लॉट नं. 62, बसवशेवर नगर, तालीकोट मुडेबीहाल तालुका, बीजापुर
204650	ज्योति मालवडे नारायण मालवडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23828 06.04.09	जवाली बाजार, महालिंगपुर पोस्ट, मुधोल तालुका, बागलकोट
204651	ज्योति मुलाजे श्रीशाल मुलाजे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27361 24.03.11	अक्कमहादेवी नगर, गुलबर्गा रोड, अफजलपुर तालुका, गुलबर्गा
204652	ज्योति पाटिल शिवानगौंडा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24915 09.06.09	"भदयाश्री" तालकाटी, मुददविहल तालुका, बीजापुर
204653	ज्योति पाटकर जे.पी. पाटकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24642 21.05.09	मकान नं. 63, क्रॉस श्री निल्या ओ.एस.एम. 1 मेन क्रॉस, पुराना टाउन, भद्रावती शिमोगा
204654	ज्योति सज्जन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26254 23.03.10	बी-23, शान्ति नगर, बीजापुर
204655	ज्योति सोनगड शिवालिंगप्पा जी. सोनगड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29043 05.05.12	नं. 25-33417, खन्ट्टी पोस्ट, गोकाक तालुक, बेलगाँव
204656	ज्योति टोपलकट्टी एस.एच. टोपलकट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24603 18.05.09	मकान 139/ए नं. आइ.जी. कुबूसोड बिल्डिंग, शिवा गणेश कलेजरी रोड, धारवाड

204657	ज्योति विष्णु तालेकर विष्णु एल. तालेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30366 21.05.13	सी.टी.एस. नं. 6763 पदमनाभा अंजनया नगर, बेलगाँव
204658	ज्योति एस सिद्धैय्याह. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25224 13.10.09	मकान 1027, 10 क्रॉस डब्लू. सी.आर 2 स्टेज महालक्ष्मीपूरम राजाजीनगर, बंगलौर
204659	ज्योति सी तालीकोट चन्नावरीपा तालीकोट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24896 09.06.09	विद्यानगर, आश्रम रोड, बी.एल.डी.इ. हॉस्पिटल के सामने, बीजापुर
204660	के. चन्नाबसवन्ना गौडा के. सोमशेखरा गौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30280 07.05.13	हचोली पोस्ट, श्रीगुप्पा तालुका, बेल्लारी, हचोली
204661	के. नरेश के. वेन्कटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29793 12.10.12	मालेगांव पोस्ट, मन्दल कुबेर वाया भैयन्सा, अदीलाबाद
204662	के. अनिल कुमार कृष्णाप्पा टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26244 23.03.10	होसरामबिका निलाया, 1 क्रॉस, प्रसन्नाथ नगरा, केलागेट, चित्रादुर्ग
204663	के. स्पृथि विगणेश राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26592 22.04.10	नं. 6-5-105/1, 5 क्रॉस, गौधीनगर, मंगलौर -तालुका, दक्षिणी कन्नड़
204664	के. एम. पल्लवी महेश्वरी शैलेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27502 26.03.11	सवेटर नं. 63ए, प्लॉट न0.1, बुन्दवान सेक्टर नवानगर, बागलकोट
204665	के. एम. रूपम पाल राजेन्द्र पाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27077 15.03.11	बासवानगरा, इल्कल ए/पी, हुगौंड तालुका बागलकोट
204666	के. एम. सपना सिंह प्रमोद सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25086 04.08.09	मकान 2, 33 मेन, अष्टीलक्ष्मी लेआउट, पुटटेनहाल्ली मेन रोड जे.पी., बंगलौर
204667	के. एम. शीतल महेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26821 24.08.10	मेलिंग उतडा माने, लेजीसलेन्टार्स होम, बंगलौर
204668	कै.एम विभुति शर्मा मुनेश कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28116 25.04.11	एस.डी.एम कॉलोज ऑफ आयुर्वेद, बी.एम रोड, थन्नरुहल्ला, हासन
204669	के.वी. श्रीहर्षा वेन्कटेश मूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27073 15.03.11	नं. 136, 4 क्रॉस 4 मेन रोड, गौरव नगर जे0पी0नगर 4 फेस, बंगलूरु
204670	के.एम अनामिका गुप्ता सुभाष चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30237 30.04.13	मकान नं. 116, काशीपूर, भदोही, सन्त रविदास नगर, भदोही (एस. आर. ए नं. )
204671	के.एम प्रियंका सिंह सन्तोष कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30264 04.05.13	चचेरी मोड, चुनार, भुधखुडा पोस्ट, मिर्जापूर
204672	कब्बिनगोडा शीतल एस. कब्बिन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25055 15.07.09	मातृश्री 8, सी क्रॉस, सुब्बन्ना, के.वी.वी.स्कूल विजयनगर, बंगलौर



204673	कच्ची निलोफर जफरअली जे. अब्दूल रजाक कच्ची	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24786 04.06.09	मकान नं. 7 ईएल बैथेल, रामनगर निलपानी पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204674	कचले साधना करभारी करभारी सवालराम कचले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25397 23.02.10	सी.टी.एस. नं. 2119/ए2, भतकन्डे गली, बेलगाँव
204675	कडगवे अनूराधा कडगवे सुकुमार स्वाकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29635 14.06.12	एकता नगर, कागल, कोल्हापुर
204676	कडाकोल वैधव शान्तेश शान्तेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24115 22.04.09	बापूजी कैम्पस, टी.आर नगर, चल्लाकरे तालुका, चित्रदुर्गा
204677	कदम अमृता जयप्रकाश कदम जे. महादेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24819 05.06.09	भग्या कृपा हाउस, संस्कृत कॉलोनी, समीप, मल्लिकार्जुन आश्रम, बीजापुर
204678	कदम अश्विनी तानाजीराव तानाजीराव कृष्णाराव कदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	25375 28.01.10	नागौर, आयुर्वेदिक कॉलेज, बीजापुर
204679	कदम हेमन्त चन्द्रकान्त कदम सी. कदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23807 04.04.09	यादवाडी, मालिकवाड़ पोस्ट, चिक्कोडी, तालुका, बेलगाँव
204680	कदम नितिन कृशान्त कदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30024 10.04.13	पोस्ट -मालगाँव, तालुका एवं स्तारा
204681	कदम सतीश दामू कदम दामू यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29791 12.10.12	बोरावीर, पोस्ट धुले तालुका
204682	कड्डूर रिमता प्रभाकर प्रभाकर ए नं. कब्बूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23718 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इच्छल, सौन्दत्ती तालुका, बेलगाँव
204683	कहीरिया भाविन छगनलाल छगनलाल कहीरिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	26965 10.11.10	मकान नं. 1745, पवन गार्डन, 8 ए क्रॉस 6 मेन आर पी सी लेआउट विजयनगर, बंगलौर
204684	कहँकशॉ रफीक सौदागर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26717 15.06.10	मकान नं. 5-1-41/1, मिल्लत नगर, सौदागर नर्सिंग होम, यादगिर तालुका एवं
204685	काजले सुश्रोत नितिन नितिन मुरलीधर काजले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25201 09.10.09	बी.ए.एम. कॉलेज चल्लाकरे तालुका, चित्रदुर्गा
204686	ककाडे अमोल कृष्णा कृष्णा एम. ककाडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24675 25.05.09	हिसारघटल, हुरुलीचिकनहल्ली, बंगलौर
204687	काला एस. जी. श्रीनिवासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29294 17.05.12	गिरीप्पा निल्या , हुरोम्बू मेन रोड, राममूर्ति नगर, दोरावनी, नगर, बंगलौर
204688	कालाबूर्गी निता शारना बासप्पा शारना बी.एस. कालाबूर्गी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28923 26.04.12	नं. 1347/1, भारत गोड, अक्कलकोट पोस्ट, अक्कलकोट तालुक सोलापुर

204689	कलगी रश्मि विजयकुमार विजयकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29354 21.05.12	नं. डी 395, शान्तिनिकेतन कॉलोनी, नवानगर पोस्ट, हुबली तालुका, धारवाड
204690	कलारश्मि बी.एम. बी. मुरलीधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28609 05.11.11	मकान नं. 204, देवराज उर्स लेआउट, ब्लॉक, दावणगेरे
204691	कलारत्ना पी.एस. प्रभु एच. आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24235 28.04.09	मकान नं. 827, 2 क्रॉस, 8 इ मेन, 1 ब्लॉक, कल्याणनगर, बंगलौर
204692	कलबुर्गी गीता शरणावासप्पा शरणावासप्पा कलबुर्गी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26730 28.06.10	समीप, रुरल पुलिस स्टेशन रोड, एक्स एरिया, बागलकोट
204693	कलबुर्गी विजयलक्ष्मी सिद्धराम एस. कलबुर्गी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28924 26.04.12	शिवा स्मृति गुरुमिता हाउसिंग, सोसाइटी स्टेशन रोड, अक्कलकोट पोस्ट एवं तालुका सोलापूर
204694	काले धनन्जय गोवर्धन काले जी दशरथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24598 18.05.09	मकान 139/9, ए. नं. आई जी, कुबूसोद बिल्डिंग, महन्त नगर 4 क्रॉस, धारवाड
204695	काले इनामदार फ़ैरोज हुसेनलाल हुसेनलाल कल्लीनामदर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26583 19.04.10	डी. नं. 16 समीप स्टेशन रोड, सिंदगी नाका, बीजापुर
204696	काले निलेश शिवजी शिवजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24278 29.04.09	प्लॉट नं. 7, इ एल-बैथेल बंगला, राम नगर, निपानी तालुका, बेलगॉव
204697	काले प्रवीन गोपालराव गोपालराव जयन्त काले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24821 05.06.09	गौली गली, गजेन्द्रगढ़ पोस्ट, रॉन तालुका, गडग
204698	काले सन्दीप रामकृष्ण काले रामकृष्ण जनार्धन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23734 02.04.09	सी.एच.इ.एस ए.एम.सी, सेंडम रोड, गुलबर्गा
204699	कलीदबाबा एम. मौला साब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29425 23.05.12	नं. 88 पुलिस स्टेशन, मुदगल पोस्ट, लिंगौसूगौर रायचुर
204700	कल्लप्पा हनचिनमानी बासप्पा हिनचिनमानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27631 01.04.11	नं. 1998, बसवनगर, हिरेबागवाडी, बेलगॉव
204701	कैलाश जी.बी. जी.एम. बसवाराजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	25388 10.02.10	मकान 678, एफ/74, 3 मेन, 2 क्रॉस कल्लेशवरा निलाय विदयानगर, दावणगेरे
204702	कल्लोलेप्पा गाजीवाड्डर तिप्पन्ना गाजीवाड्डर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29820 18.10.12	डबलू नं. नगलीपेट गुलेदा गुडडा पोस्ट, बादमी तालुका, बागलकोट
204703	कमलेश्वर तेली चन्द्रशेखर आर. तेली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24698 02.06.09	टेरगॉव पोस्ट, हलियाल तालुका, करवर, उत्तर कन्नड़
204704	कलपिथा. ई. ईश्वरप्पा. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25452 02.03.10	मकान 366, 2 सेक्टर, बी टाईप, कुदरेमुख, मुदेगिरी, चिकमगलूर

204705	कल्याणम्मा अशोक औसे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25718 12.03.10	मकान 1-13, बासवाकल्याण, बीदर
204706	कल्याणी कल्लात्ती सतिगौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30489 13.06.13	4 क्रॉस, विवेकानन्द नगर, गोकाक, बेलगाँव
204707	कल्याणकर सुधीर कल्याणकर सोपान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28735 02.04.12	कलाम्ब (वालचन्दनगर), इन्दापुर पोस्ट एवं तालुका, पुर्णे
204708	कमल शर्मा प्रेम सागर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29517 26.05.12	मकान नं. 1/191, मछली तोला, फतेहगढ, फर्रुखाबाद तालुका
204709	कमलदीप कसार विलासराव गुन्डोपन्त कसार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30093 18.04.13	मेन रोड, ग्राम एवं पत्रालय तेर, तल एवं उस्मानाबाद
204710	कमालिया अशीष देवजीभट्ट, डी.एस. कमालिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28994 27.04.12	नं. 662 (8), सारानगर कॉलोनी, पंचायत चौक पवाती कुऑ, घोघला
204711	कामराज.ए नं. नरसिम्हा. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24592 16.05.09	के.ई.बी. के पीछे मारुति नगर, मधुगिरी तालुका, टुमकूर
204712	कामथ अर्चना गणेश के. गणेश पदमनाभ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23780 03.04.09	गौली गली, गजेन्द्रागढ़ पोस्ट, रॉन तालुका, गडग
204713	कामाक्षी वागमोड अमासिद्धा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30454 04.06.13	मकान 95 मल्लिकार्जुन निलाल्या, पुर्णिमा, लेआउट संगोली रामनारायण नगर, धारवाड
204714	कम्बार राजश्री मल्लीनाथ मल्लीनाथ कम्बर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30605 19.08.13	सी.आइ.डी.सी.ओ नं. 1, टाउन सेन्टर, सी-5 प्लॉट नं. -7, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
204715	काम्बले अमित राजकुमार काम्बले राजकुमार. पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24282 29.04.09	विजयर निवास, पाटिल लेन, अनपूर पोस्ट अठनी तालुका, बेलगाँव
204716	काम्बले बालसोहेब भासकरराव काम्बले बी. अनन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25022 29.06.09	मकान नं. 1295, सेक्टर नं. 7, शिवकृपा बिल्डिंग वन्तामुर्ति कॉलोनी एम.एम. विस्तार बेलगाँव
204717	काम्बले दत्तात्रेय दगदू काम्बले डी बबान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23954 13.04.09	समीप, अर्ली ट्री, जोगीमत्ती रोड, 4 क्रॉस, चित्रदुर्गा
204718	काम्बले कपिल रामप्पा ए नं. काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	29797 12.10.12	भीम शक्ति निवास, जेपी प्लॉट, शान्ति नगर अठनी पोस्ट एवं तालुका, चित्रदुर्गा
204719	काम्बले कोमल श्रीधर काम्बले श्रीधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25117 10.09.09	मकान 1586, 6सी, हम्पीनगर, विजयानगर, बंगलौर
204720	काम्बले मन्जु बबन बबन कृष्णा कम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29018 27.04.12	शिवाजीनगर, माधा, माधा तालुका, सोलापुर

204721	काम्बले नर्मता दन्यानोबा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28476 18.07.11	मकान नं. 19-2-43, आनन्द नगर, ड्डीर रोड, बीदर
204722	काम्बले पवन मोहनराव माहिन बालभीम काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25271 03.11.09	चरनतिमाठ, के पीछे, हुन्डाकरगली, बागलकोट
204723	काम्बले प्रदन्या सन्तराम काम्बले सन्तराम रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	25376 01.02.10	शाहुनगर, बेदकीहल पोस्ट, चिचिडी तालुका, बेलगाँव
204724	काम्बले सन्तोष युवराज साधु काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	29089 05.05.12	नं. 2/2, मुकुन्द राव अम्बेडकर, गुरु निर्माण सोसायटी, विजयपुर रोड सोलापुर
204725	काम्बले सुचिता दयानोबा जे. काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28306 25.05.11	निलाबिका, पी यू कॉलेज, अम्बेडकर सक्रिल बासवा कल्याण, बीदर
204726	काम्बले सुजात लक्ष्मनराव लक्ष्मनराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27131 17.03.11	मकान 9651/36, मुचलूम रोड, बासवाकल्याण तालुका, बीदर
204727	कनकाराज तयगुटेम्मा बासुर ताईगुटेम्मा बासुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24562 13.05.09	हावेरी रोड तिल्लावली पोस्ट, हंगल तालुका, हावेरी
204728	कंचन डी. पटेल दामोदर पी. पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28427 20.06.11	मकान नं. 707, बनबो बजार, दावणगेरे
204729	कंचना कनकवाडी अनिल जी.कनकवाडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24570 14.05.09	ब्लॉक सी/12, मेन रोड, महन्तेश नगर, बेलगाँव
204730	कनीज यू.ए. हसनब्बा यू.ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24959 10.06.09	मकान 843 ए, अदीमरबेतू हाउस उजीरे, वेलथानगड्डे तालुका, दक्षिण कन्नाडा
204731	कन्हाडकर विष्णु बालासाहेब बालासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25011 23.06.09	मकान 4-1062, सर्राफ बाजार, गुलबर्गा
204732	कपिल कुमार श्रीनिवास पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27749 06.04.11	मकान 3-97, कलसर तूगाँव वाडी, भाल्की पोस्ट एवं तालुका, भातम्बरा, बीदर
204733	कपिल रेड्डी के.एस. कृष्णा रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29992 08.04.13	पोस्ट -राजोला, तालुका -बासवाकल्याण, बीदर, राजोला
204734	काप्पल्ली स्मिथा टी. मोहनन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26574 16.04.10	मकान 1093, 3 मेन, बीइएल लेआउट, 2 ब्लॉक, विद्यारण्यापुरा बंगलौर
204735	काप्से स्मिता गंगाधर गंगाधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24667 22.05.09	शान्ति निवास, इनामदार कॉलोनी, बी.एल.डी.ई रोड, बीजापुर
204736	कारा बासू तालीकोटी चन्द्रशेखर के. तालीकोटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28960 26.04.12	पोस्ट, सिंदगी तालुका, बीजापुर

204737	कारड संदीप भायुसाहेब कारड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29958 06.04.13	पोस्ट धोरजलगाँव, तालुका -शेवग्राम अहमदाबाद
204738	करण हितेश विनोद विनोद करण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29956 06.04.13	ए/2 अगस्त निवास शिवाजी नगर, तम्बेपदा रोड, भान्दूप (पश्चिम)
204739	कारेन्नावर जयाश्री बालप्पा बलप्पा ए. कारेनवार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26047 19.03.10	मकान 20, दरोपदी, 6 क्रॉस, श्रीरामपुरम, बंगलौर
204740	करैय्या वीरभद्रैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25461 02.03.10	बालागनौर पोस्ट, सिंदनौर तालुका, रायचुर
204741	काशीवासप्पा .के. कृष्णा मूर्ति. के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	26769 09.08.10	हदगली रोड 12 वार्ड, हरपनहल्ली तालुका, दावणगेरे
204742	करीमुल्ला घानी मोगल पेडा मस्तान मोगल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29547 29.05.12	मकान 1-5-109, प्रभाकर कॉलोनी, डी.एल.टी.सी. के सामने, श्रीकाकूलम पोस्ट एवं तालुका,
204743	करियप्पा होसाल्ली गणेशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30204 29.04.13	पोस्ट मुटदूर, तालुका बयादगी
204744	करोले सुदर्शन करोले अप्पासाहेब श्रीपाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27843 08.04.11	एस.एस.आर ए. एम. सी., इन्चल, सौनदत्ती तालुका, बेलगाँव
204745	कारोशी श्रुतिका सुभाष सुभाष एम. कारोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27692 05.04.11	श्री बी.एम.के. एम.एम.सी., बेलगाँव
204746	कार्पे नलिनी कार्पे रविन्द्रा विश्वानाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28343 27.05.11	नं. 35, लक्ष्मीनगर, समीप पुलिस स्टेशन, बागलकोट
204747	कार्तिक के0 कम्बरम कम्बरम . पी.डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25014 25.06.09	साबरी कॉम्प्लेक्स, बाजार स्ट्रीट, नन्जगोड पोस्ट, मैसूर
204748	कार्तिक. जी.के. करास्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25515 04.03.10	मिडिल स्कूल, के पीछे, कलगोटी विस्तार, होसदुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
204749	कार्तिक. एच. वी. वसुदेवा. एच. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24906 09.06.09	हिरातेगौड्डे, कलकरे पोस्ट, कोप्पा तालुका, चित्रदुर्गा
204750	कार्तिक .एस. एस. शेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25886 12.03.10	मकान 16, 8 ए क्रॉस, एजीपूरा, विवेकनगर, बंगलौर
204751	कार्तिक .ए नं. चन्द्राशेखर ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27934 13.04.11	नं. 2-15-63, महावीर सक्रिल, गंगावती तालुका, कोप्पल
204752	करुणा विरनेकर चन्द्रहास एल. विरनेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29597 13.06.12	गुरु आर्य, समाज पुस्तकालय, शिवाजी रोड, गांधी चौक धारवाड़

204753	करवासा कंचन योगीराज कं. योगीराज गोवर्धन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24364 30.04.09	बी.ए.एम. कॉलेज बापूजी कैम्पस, टी. आर. नगर चल्लाकरे तालुका, चित्रदुर्गा
204754	काशीलिंगेय्या गुरुसिदैय्या हिरेमठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28725 02.04.12	तोलादीन्नी, कमनतगी पोस्ट, शोरपुर तालुका, यादगिरी
204755	काशीनाथ लोकन्डे दानदीबा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29804 12.10.12	1-3/7, इन्द्रा नगर, अफजलपुर पोस्ट एवं तालुका, गुलबर्गा
204756	कस्तुरी बी. देवरामनी भरम्प्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24902 09.06.09	अनिल एस. बसतवाडे, निपानी पोस्ट, रायबाग तालुका, बेलगाँव
204757	काटे अमोल विष्णु विष्णु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28334 25.05.11	एम.जी. हाउसिंग कॉलोनी, धारवाड बाईपास रोड, बैहोन्गल तालुका, बेलगाँव
204758	कथेजा कुबरा महबूब बाशा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28431 20.06.11	मकान, बी. नं. 4 स्ट्रीट, उसौर, बंगलौर
204759	कश्यानी कृष्णा शेट्टीगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27786 07.04.11	मकन 2-138 ए, हेनगवली पोस्ट, कुन्डापूरा तालुका, उडुप्पी
204760	काटकर महेशकुमार मारुति काटकर मारुति श्रीरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24474 11.05.09	बी.वी.वी.एस. व्याय डेन्टल होस्टल बागलकोट
204761	कटटे बासवा .एच दोड्डा रुदम्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27734 06.04.11	सन्तपटे, करूर पोस्ट, श्रीगुप्पा तालुका, बेल्लारी
204762	कटवे वैशाली परशुराम परशुराम विट्ठल काटवे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24998 17.06.09	डी. नं. 1763, 2 मेन, 1 क्रॉस विनोभानगर, दावणगेरे
204763	कटवल अदित्या अजित कटवल अजित दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25070 22.07.09	मकान 10-2-310-13/ए, सिन्डीकेट बैंक कॉलोनी, मानवी तालुका, रायचुर
204764	कौलागी नितिन महादेव कौलागी महादेव बलीराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23781 04.04.09	ए नं. एन नवनगर, फ़ैरेन्ड कल्ब, के पीछे, गजेन्द्रगढ, रॉन तालुका, गडग
204765	कवचले रोहिनी वहनगाँडा वहनगाँडा वी. कवचले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24744 03.06.09	भवानी निलाया, अक्की कॉलोनी, आश्रम रोड बीजापुर
204766	कावेरी सयाबन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30112 19.04.13	मकान नं. 9-587-7-110, कावेरी निवास, देवी नगर, अलंद रोड, गुलबर्गा
204767	कावेरी शरनबसप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28826 16.04.12	मकान नं. 4-601/71एफ6/ए, समीप शिव मंदिर, बुसवाशेवर कॉलोनी, गुलबर्गा
204768	कावेरी गनीगर वेंकप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30203 29.04.13	डी. नं. 1174/2/6, शिवनगर आखिरी क्रॉस, गोकक तालुका, बेलगाँव गोकक

204769	कावेरी एम.आर. एम. रविन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28887 20.04.12	नं. 24 बैंक कॉलोनी, थिन्दलू, विदयाराणयापूरा, पोस्ट, बंगलौर
204770	कावेरी समागे आदिनाथ टी. समागे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27904 11.04.11	हारुगेरी पोस्ट, रायबाग तालुका, बेलगाँव
204771	कावेरी. बी. बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24053 20.04.09	मंगसान्द्रा, बुक्कसागर पोस्ट, होसादुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
204772	कावेरी.एस.के. कट्टेबासप्पा. एस.जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29979 06.04.13	अध्यापक समीप मरेम्मा मंदिर, बसपुरा रोड़, रामपुरा
204773	कविता उमाकान्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28720 30.03.12	17-3-372, गांधी नगर कॉलोनी, मलौर रोड़, बीदर
204774	कविता बुटाली सदाशिव के. बुटाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27669 02.04.11	समीप सिधेश्वर मंदिर, बीजापुर रोड़, अठनी तालुका, बेलगाँव
204775	कविता दशवन्त सी.के. दशवन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28507 02.08.11	मकान 80/41, सोलापुर रोड़, बीजापुर
204776	कविता डोरनहाल्ली बसवाराज डोरनहाल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29207 14.05.12	नं. 170, के.एच.बी. कॉलोनी, सोलापुर रोड़, बीजापुर
204777	कविता हिरेमठ चन्द्रकान्त स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24760 04.06.09	सी.पी. हिरेमठ लाइब्रेरियन, कल्याण नगर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
204778	कविता कोटगी शिवानन्द पट्टान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29668 19.06.12	एल.आई.जी. -98, अशोक नगर, बेलगाँव
204779	कविता कुम्बार इरप्पा कुम्बार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28576 19.10.11	मकान 1455, नेकर स्ट्रीट, बिल्गी पोस्ट, बागलकोट
204780	कविता मुदगल्ला सोमनाथ मुदगल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	29537 28.05.12	दीपा मेडिकल स्टोर, गांधी सक्रिल, वरतूर मेन रोड़, बंगलौर
204781	कविता नदुविनामानी अशोक एच. नदुविनामानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29729 16.08.12	गनी पत्रालय जमखन्डी तालुका, बागलकोट
204782	कविता राठौर नरसिंह राठौर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23883 09.04.09	टी-6-208, के.पी.सी. कॉलोनी, शक्तिनगर, रायचुर
204783	कविता ए नं. रामचन्द्र मलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24394 05.05.09	वाज्जरमल्ली गाँव, मुधोल तालुका, बागलकोट
204784	कविता एम.जी. गोविन्दराजू. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29783 09.10.12	मकान 409, 17 क्रॉस, 1 मेन, अरविंद नगर, मैसूर

204785	कविता ए. थिप्पेस्वामी. ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23887 09.04.09	एच.सी. 37, एस.पी आफिस, डी.एस.पी समीप दुर्गाम्मा मंदिर, गांधी नगर, बेल्लारी
204786	कविता बी.पी. वासवनागौडा बी.पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23754 03.04.09	उदयरानी निलाया, हिरेकरुर रोड, मैसूर पत्रालय, हिरेकरुर, हावेरी
204787	कविता .ई. पी. एकम्बरम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25599 06.03.10	मकान2070, 7 क्रॉस, के. ब्लॉक, कुवेम्पुनगर, मैसूर
204788	कविता .के.एस. सिद्दप्पा के.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27338 23.03.11	शामब्रुलिंगा खाडी गाँव, इन्डस्ट्रीज, गोपीशेट्टी कोप्पा गोपाला, शिमोगा
204789	कविता के.एस. सोमशेखरप्पा के.वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23797 04.04.09	कोवी, थागरसी पत्रालय, शिकारीपूर तालुका, शिमोगा
204790	कविता एम.वी. नारायणा स्वे .एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	25374 28.01.10	मकान 86, बाबाराव लेआउट, मलौर, कोलार
204791	कविता सी. नूरनदेवमठ चन्द्रशेखर ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25962 18.03.10	समीप. दोडडपेटे, कुम्बरगल्ली, रानेबेनूर तालुका, हावेरी
204792	काव्या प्रभुगौडा बी बी. सिद्दारेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30052 16.04.13	मकान नं. 8-11-40, के.ई.बी. रोड, गर्ज मकान, बीदर
204793	काव्या बी.एस. शिवन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30152 24.04.13	समीप आई.बी. कान्नूर, अरकलगुडू -तालुका, हासन- कोन्नूर
204794	काव्या बी.एम. मारुति कुमार बी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29434 23.05.12	नं. 381, श्री अरविन्दा हायर प्राइमरी स्कूल, कुच्चप्पना पेटे, दोदाबल्लापुर, बंगलौर
204795	काव्या भारतेश भारतेश ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29243 15.05.12	मुक्ता समीप, चर्तुमुख जैन मंदिर, दान आशाला करकाला, उडुप्पी
204796	काव्या एस. सोमशेखरप्पा बी.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30189 26.04.13	मकान नं. 6, चिक्कजजूरू-2, होल्केरे तल, चित्रदुर्गा, चिक्कजाजूरू
204797	काव्या श्री एच.एल. लक्ष्मी नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25990 18.03.10	विद्यानगर 1 क्रॉस, टिनदूर तालुका, दुमकूर
204798	काव्या श्री के. कृष्णा मूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23996 18.04.09	कालासिनाकरे स्ट्रीट, वेलूर तालुका, हासन
204799	काव्या डी.आर. डी.के. रामचन्द्रय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24038 20.04.09	मकान 487, 3बी, 7क्रॉस, एस.एस. नगर, मैसूर
204800	काव्या के.आर. रंगनाथप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25639 06.03.10	कंचीगनहल्ली, सीरसी तालुका, दुमकूर



204801	काव्या ए नं. नागराजन जी. पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25494 04.03.10	मकान 945, 8 क्रॉस 13 मेन रोड, श्रीनिवासनगर 2 स्टेज, बंगलौर
204802	काव्या एम. वाइ. मन्जुनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26846 31.08.10	तालुका सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेन्ट, मुण्दर्गी तालुका, गडग
204803	काव्या एस.आर. सीताराम के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27702 06.04.11	श्री रक्षा रंगा राव नगर, दडडालाकड मंगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड
204804	काव्याश्री एच. एस. हनुमप्पा .के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24545 13.05.09	मकान 63, सरकारी होस्पेट रोड आ.एस.एम प्रथम मेन क्रॉस भद्रावती तालुका, शिमोगा
204805	कवादे स्मिता शकुजी कवाड़े शाकुजी यशवन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27436 25.03.11	रॉन गडग रोड, रॉन तालुका, गडग
204806	किर्थन जगदीश जगदीश एम.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24265 28.04.09	मकान 1-134, राई गाँव, राई पत्रालय बंतवाल तालुका, दक्षिणी कन्नड
204807	किर्थन आर. वी. आर. वेन्कटरमन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29240 15.05.12	नं. 18 मन्सा हाउस, पुट्टुर तालुका, नेल्लयदी दक्षिणी कन्नड
204808	किर्थना ए नं. बी. नरसिम्हा आचर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26667 17.05.10	मकान 1-192 (1) आश्रया मोदूगोपडी, कोटेश्वर पत्रालय, कुन्डापूर तालुका, उडुप्पी
204809	कीर्ति पुन्जा रविन्द्र पुन्जा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30143 22.04.13	समीप टेलीफोन एक्सचेंज, पत्रालय कन्नूर, दक्षिणा कन्नड, मंगलौर
204810	कीर्ति एस. संकपाल एस. ए नं. संकपाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25454 02.03.10	मकान 177, 22 मेन 12 ए क्रॉस, पद्मनामनगर, बंगलौर
204811	कीर्ति शरनप्पा हदनूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27349 24.03.11	नेहरू चौक, एस.बी. मंदिर रोड, शाहबाद, चित्तापूर तालुका, गुलबर्गा
204812	कीर्ति सदाशिव गणपति कोल्हापुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27666 02.04.11	मकान 2/3, आई.बी बीदर रोड के पीछ, हुमनबरद तालुका, बीदर
204813	कीर्ति राचोतीयावर वीरपक्षिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25443 02.03.10	आर.आर-7576, मौनेवर नगर, बेलहोंगल तालुका, बेलगाँव
204814	कीर्ति श्री समाजे कुबेर अप्पाजी समाजे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30090 18.04.13	कुबेर अप्पाजी समाजे, ग्राम एवं पत्रालय ए/पी नसलपुर, ताल रायबाग, बेलगाँव, नसलपुर,
204815	केम्पाव्वा कल्लूर विष्णु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28715 30.03.12	नाल्लनत्ती, एम.पी नाल्लनत्ती, बेलगाँव, गोकाक
204816	कान्जले रागिनी कान्जले सदाशिव ढोन्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27918 12.04.11	नन्दा गोकुल, तृतीय क्रॉस, गवी मठ, गवीश्री नगर, कोप्पल

204817	केन्नाडे सिंह थियाम यैमा सिंह थियाम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	29711 31.07.12	लन्धानो भवन, नया शनिमंदिर दार्जिलिंग
204818	केनी करुतिका नरेन्द्रा नरेन्द्रा जयराम केनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29127 07.05.12	नं. 130, जयराम प्लेस पी.जी. मार्ग, भन्डार वाडा, मलाड (डब्लू), मुम्बई
204819	केशवन .एस योगी शिवनरेद्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25869 12.03.10	मकान 491/1, 7 मेन, 3 ब्लॉक, टी.आर. नगर, बंगलौर
204820	केशवराज. बी. बी. पद्मनाभा भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25056 16.07.09	मकान 168, 9 एफ मेन रोड, मस्जिद —ए—मौजम, बी.टी.एम. लेआउट आई स्टेज, बंगलौर
204821	केशकर पूजा दीपक, केशर दीपक ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24408 05.05.09	आर.एस. हिरेमठ बिल्डिंग, एम.बी. दतर कॉलोनी, हॉस्पेट रोड, कोप्पल
204822	खादीजा प्रवीण माहमद मुरसालीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26234 23.03.10	मकान 13, 1 क्रॉस, विजयनगर, बी.ई.एम.एल., नगर, के.जी.एफ. बांगरपेट कोलार
204823	खज्जन्नवर सन्तोष कुमार सिदवीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24331 29.04.09	एम.आई.जी. 11ए, हुडको कॉलोनी, अकोल रोड, निप्पानी पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204824	खमरुनिशा हाजी डद्दाबाशा ए. हाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28952 26.04.12	हलेटोरगल पत्रालय, रामदुर्ग सावन्त चावल, मराठा कॉलोनी, धारवाड
204825	खामकर हनुमन्त लक्ष्मण लक्ष्मण भाऊ खामकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30186 26.04.13	जी-3, औदुम्बर विल्ला, सर्व नं. 43/47, भैरवनाथ मंदिर के पीछे, अम्बेगाँव बी.के., पुणे
204826	खामकर पल्लवी प्रहलाद राव खामकर पी. हरीभाव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26639 30.04.10	मकान 39, आश्रम रोड, मल्लिकार्जुन नगर, बीजापुर
204827	खान तैसीम बानू तौफीक तौफीक एच. खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30363 20.05.13	रूम नं. 137, सिंह कॉलोनी, जवसाइ अम्बरनाथ, (पश्चिम), थाणे
204828	खानगवी श्रीशल मेलीप्पा मेलीप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28435 20.06.11	मकान 501, चाचदी, सोनवल्ली तालुकस, बेलगाँव
204829	खानेपुरा महन्तप्पा एस. सतलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30583 25.07.13	पत्रालय 852/ए, समर्थ नगर, जेयर रोड, अक्कलकोट
204830	खानपूरा सिकन्द्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29651 18.06.12	मकान 326, ब्रह्मदेव देउल उतगी ग्राम, उतगी पत्रालय, जाट तालुका, सांगली
204831	खण्डागले ज्योत्सना विलास के. विलास सम्पत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24089 21.04.09	ताईकृपा कम्प्लेक्स, समीप. दनाम्मा मंदिर, रबकावी
204832	खानविल्कर एस. मोहन खानविल्कर एम. मानसिंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24213 24.04.09	मकान 1362/2, रेनुका नगर, उगर —खुर्द पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव

204833	खाराडे सागर बजरंग खाराडे बी. गंगाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29312 18.05.12	नं. 11बी, खाराडे गली, मन्जराडे पत्रालय, तासगाँव तालुका, सांगली
204834	खारात निलेश दगदू दगदू खारात	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27902 11.04.11	प्रवथमल्लेश्वरा निलाया, प्रशान्त नगर, 11 क्रॉस, चित्रदुर्गा
204835	खाराते गजान नारायनराव खाराते ए नं. अब्जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24441 05.05.09	मकान नं. 5-992/33/ए, यदुल्लाह, कॉलोनी, रोजल (के.), गुलबर्गा
204836	खाटके हिम्मतराव प्रकाश खाटके प्रकाश वामन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29864 15.11.12	इररीगेशन कॉलोनी, तालुका पंढारपुरा ताल पधारपूर
204837	खाजीराहीम्बी बाबुदीन जी. खाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28850 18.04.12	बी. मकान 1345, 1 क्रॉस, कबीर रोड, मन्डी मोहल्ला, मैसूर
204838	खालकुम्बे रोहित रमेश आर. बाबूराव खालकुम्बे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24326 29.04.09	ताईकृपा काम्प्लेक्स, रबकावी जामखन्डी तालुका, बागलकोट
204839	खोट प्रवीण भीमराव खोट भीमराव कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23721 02.04.09	एस.एस.आर ए. एम. सी., इंचेल, सौनदल्ली तालुका, बेलगाँव
204840	खोट स्वाती रामचन्द्र खोट रामचन्द्र जम्बा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29338 18.05.12	शिवपुरी कमेरी पत्रालय, वाल्वा तालुका, सांगली
204841	खुन्शेट्टे हरीप्रसाद मारुति बी. खुन्शेट्टे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29628 14.06.12	हंगर्गा (बी) पत्रालय, अवरार्ड (बी) तालुका, बीदर
204842	खुशे मनीषा सन्तराम खुशे सन्तराम विठ्ठल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24863 06.06.09	मकान 175/ए 8 क्रॉस, बैंक कॉलोनी, बनशंकरी 1 स्टेज, बंगलौर
204843	किडगांवकर राहुल मारुति किडगांवकर मारुति भाऊसो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30102 18.04.13	ग्राम एवं पत्रालय निगवे दुमला, तालुका-करावीर, कोल्हापुर, निगवे दुमाला
204844	किरण अशोक शीलवन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24796 04.06.09	मकान डी 1/बी, समीप गार्डन, विवेकनगर (पश्चिम), बीजापुर
204845	किरण चिन्ताकल ताराश्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28571 19.10.11	रंगानाथ नगर, बरशंकरी रोड, बदामी पत्रालय एवं तालुका, बागलकोट
204846	किरण जिरेमठ शिवामूर्तिथैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25500 04.03.10	एम.एल.सी.डी. क्वार्टस के.एम.सी कैम्पस, हुबली तालुका, धारवाड
204847	किरण कीर्ति कान्त कीर्ति कान्त इग्लागिर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27779 07.04.11	मकान 76, पन्थरापल्या, मैसूर रोड, 5 क्रॉस, बंगलौर
204848	किरण मल्लान्नावर कल्लाप्पा एम. मल्लान्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28410 20.06.11	पी. ई. अध्यापक कॉलोनी, लक्ष्मीनगर, अंकिली पत्रालय चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव

204849	किरण बी.के. बी. कोटरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28045 19.04.11	नं. 537/63, 10 वार्ड, कालाम्मा लेआउट, हुवीन हडगल्ली, बेल्लारी
204850	किरण जे. डोड्डामनी जगन्नाथ एम. डोड्डामनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27731 06.04.11	निसरगा निलाया, चोला मरदेश्वर नगर, रैनबेन्नूर पत्रालय एवं हावेरी
204851	किरण एस श्रीनिवास शेट्टी. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24370 30.04.09	मकान 273/ए, 11 क्रॉस, 6 मेन, एम.एस.आर नगर, मटीकेरे, बंगलौर उत्तर बंगलौर
204852	किरण कुमार श्रीगुप्पी बाबासाहेब श्रीगुप्पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23731 02.04.09	मकान 3228, सदलगा, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204853	किरण कुमार .के. केम्पे गौड़ा. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25833 12.03.10	एम. कमनगघट्टा .टी. टुमकूर पत्रालय, सी.आर. पटना, हासन
204854	किशन . जी.ए नं. नरसिम्हा प्रसाद जी.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27086 15.03.11	मकान 20, 5 मेन रोड, शकम्बरी नगर, 1 फेस, बंगलूरु
204855	किशोर महिन्द्राकर नाना महिन्द्राकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25593 05.03.10	अम्ले पत्रालय, सिंदगी तालुका, बीजापुर
204856	किशोर कुमार शेट्टी नारायण शेट्टी एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23901 09.04.09	किरण निलाया, जन्सले पत्रालय, सिददापूर, कुन्डापुर, उडुप्पी
204857	किशोर पिताम्बर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25963 18.03.10	मकान 325, सी.आई.बी. कॉलोनी, गुलबर्गा
204858	किशोर सिंह दलाल बीर सिंह दलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30309 09.05.13	चैत्रा निलाया 4 क्रॉस, एस.एस. मंदिर के सामने, रोड, विनोबानगर, टुमकूर
204859	किशोरकुमार राजपुरोहित अरविन्दराव बी. राजपुरोहित	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28033 19.04.11	सोरतपूर ग्राम एवं पत्रालय गडग तालुका एवं
204860	कितेश कुमार बाबू राम तिवारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30479 11.06.13	कंचन भवन, निरमोचन घाट, अयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.
204861	कोडगिर प्रीतम किशनराव किशनराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29926 28.02.13	नेसारी रोड, मुखड, नान्देड, महाराष्ट्र
204862	कोकारे तिरुपति माणिकराव कोकारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30032 16.04.13	तिरुपति बुन्गलाव, जधाववाडी (नीलमाला), तालुका —फालटन, सतारा, फालटन
204863	कोकीटकर अश्विनी महादेव महादेव भीमा कोकीटकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25172 06.10.09	मकान 421, 2 क्रॉस, मृत्युन्जय नगर, वेलहोन्गल तालुका, बेलगाँव
204864	कोले अस्मिता कलंगानोआ कलंगानोआ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29299 17.05.12	प्लॉट नं. 92, सुभाषनगर ए गट, मिराज तालुका, सांगली

204865	कोली ज्योत्सना बालासाहेब कोली बालासाहेब मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23719 02.04.09	इन्चल होस्पिटल, इन्चल पत्रालय, सोन्दत्ती तालुका, बेलगाँव
204866	कोली संदीप वाल्मिक कोली वाल्मिक बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24853 06.06.09	मकान 1515, शाहूनगर, बेदकिहाल पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204867	कोमल पवार धर्मैद्र सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30008 09.04.13	शिव शंकर दाल मिल्ल, समीप, वी.आर. एल, गांधी गन्ज, बीदर
204868	कोमल एम.के. मडीवालाप्पा बसप्पा काम्मार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24506 12.05.09	मृत्युन्जय नगर, बनाशंकरी लेआउट, रानीबेन्नूर तालुका, हावेरी
204869	कोमला ए. अंकैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29247 15.05.12	नं. 1035 बन्नूर रोड, मेल्लाहल्ली, हरोहल्ली पत्रालय मैसूर
204870	कोमी रेड्डी सुजातम्मा के.पी. शिवा रेड्डी	बी.ए.एम.एस. श्री वेन्कटेश्वरा वि.वि., तिरुपति 1990	25355 08.01.10	मकान 16/18, 5 ब्लॉक, 4 मेन भुवनेश्वरी नगर, बंगलौर
204871	कोनपुर कश्यपा कोनपुर नारायण मूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28852 18.04.12	मकान 104, 1 मेन, विजयनगर 2 स्टेज, महादेश वाडा नगर एक्स, मेटागली पत्रालय मैसूर
204872	कोराली अनिल के. प्रल्हादराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25609 06.03.10	मकान 15, समीप मोर कम्पलेक्स, न्यू रघवेन्द्र कॉलोनी, गुलबर्गा
204873	कोरावी तुषार तिमन्ना कोरावी टी. रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23846 06.04.09	2199, पोगनीसबोल, समीप मराठी स्कूल, मकान 2, महादेव गली, निपानी, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204874	कोरे रोहिणी बसवन्त कोरे बसवन्त दुन्डप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26133 20.03.10	इरैय्या यारगुटीमट विद्या नगर, वेलहोन्गल तालुका, बेलगाँव
204875	कोरे सौरभ चन्द्रशेखर कोरे चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25315 27.11.09	समीप पुराना परिवार, ढाबा, मानवी तालुका, रायचुर
204876	कोरे वर्षा वसन्त वसन्त निवरुति कोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24402 05.05.09	ए.पी.एम.सी. रोड 1 मेन 4 क्रॉस, तुलाजय, बिल्डिंग, सदाशिवनगर, बेलगाँव
204877	कोटा एकता मृदला कोटा श्रीनिवास राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30425 28.05.13	इरुगुलपटी इन्कलेव, फलेट नं. 103, दोनका रोड 4 लेन, गुनदूर, आन्ध्र प्रदेश
204878	कोटवाडे किशोर कोटवाडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29258 16.05.12	नं. 17/1, सरस्वती स्कूल के पीछे, बारसी रोड, विकास नगर, लाटूर पत्रालय एवं तालुका
204879	क्रान्ति कुमार लोहार अर्जुनराव लोहार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28004 18.04.11	मुदपी ए/पी, बसवाकल्याण तालुका, बीदर
204880	कृपा डी धरनीधर सी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30520 21.06.13	रामा कृपा, थुन्गा नगर लेआउट, पाडली पोस्ट बाजल, दक्षिण कन्नड़, मंगलौर

204881	कृपलानी बी.ए. आनन्दा. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25810 12.03.10	मकान 51, अरापटटूर, कार्डंगा पत्रालय, मेदीकेरी, कोदागु
204882	कृष्ण सुभाष	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25898 15.03.10	एस.एम. मंत्री, हिरेमूर पत्रालय, होनगौंड तालुका बागलकोट
204883	कृष्ण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28101 25.04.11	मकान 408, एम ब्लॉक, 2 स्टेज, 5 क्रॉस, कुवेम्पूनगर, मैसूर
204884	कृष्ण भट्ट महाबलेश्वर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30447 03.06.13	पत्रालय अन्तरावल्ली, तालुका कुमटा, उत्तर कन्नड़
204885	कृष्ण कुमार वर्मा शिव शंकर लाल वर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26927 05.10.10	नं. 59. 3 ए क्रॉस, कमाक्षीपाल्या पत्रालय, वृषाभानाथुर, बंगलौर
204886	कृष्ण कुमार के.टी. के. रामचन्द्रन नामबीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25326 09.12.09	मकान 2-2 (2), अराधना, साइब्रकट्टे, हिरेड्डी, बराकूर, उडुप्पी
204887	कृष्ण बी.सी. चन्नप्पा बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28329 25.05.11	मकान 628/11 डी, शिवानन्दा स्वामी, कम्पाउन्ड नितिन वलली रोड, दावणगेरे
204888	कृष्णागी देवालू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28553 20.09.11	कुडगी पत्रालय, भागेवाडी तालुका, बीजापुर
204889	कृष्णमूर्ति बी.एस. सत्यानारायण राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25497 04.03.10	धनवन्तरी आयु. क्लीनिक समीप, मून्सिपल, एम.सी.रोड, चिक्वालापुर
204890	कार्तिका सी. एस.टी. चन्द्रे गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30623 31.08.13	मकान 7, ए-06 ब्लॉक, बोगडी 2 स्टेज, ऐश लेआउट, मैसूर
204891	कृपा लक्ष्मी बी.एल. लिन्नेगौड़ा बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30318 14.05.13	मकान1, फार्म हाउस, बोडीगुप्पी, कल्लाहल्ली, (पत्रालय), कनकापूरा (तालुका), रामनगरा
204892	कृपा .के. कृष्णा मूर्ति जे.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26235 23.03.10	पद्मा कृपा निल्या, हुमचा पत्रालय, होसनगर तालुका, शिमोगा
204893	कृपा के.ए नं. नित्यानन्द गौड़ा के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26081 19.03.10	कलेगी, कैकाम्बा कुके, सुर्बमन्या, मेन रोड, पुट्टूर तालुका, मंगलौर
204894	कृपारानी के. क्रा. ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27315 23.03.11	मकान 911, 28 क्रॉस 4 मेन, विदयारन्यापुरा, मैसूर
204895	कशमा मूतालिक कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30224 30.04.13	मकान 49, बस स्टैंड रोड, अन्नापूर, अठनी बेलगौंव, आईनापुर
204896	कूडते पंकजा सिदरामप्पा यूवराज एम. बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25101 19.08.09	मकान 30-105, तिरुपतिनाथ, वासवाकल्याण टाउन एवं तालुका, बीदर

204897	कुलदीप सिंह गजराज सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24442 05.05.09	मकान नं. 5-992/33/ए, यादुल्लाह, कॉलोनी, रोजल (के.), गुलबर्गा
204898	कुलकर्णी अश्विनी अरविन्द कुलकर्णी अरविन्द जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29447 24.05.12	मेन रोड, ओशा पत्रालय एवं तालुका, लादूर
204899	कुलकर्णी चिन्मय विकास कुलकर्णी विकास कल्याण राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25130 24.09.09	मकान 24, वार्ड नं. 3, हुवनीआ हदगली तालुका, बेल्लारी
204900	कुलकर्णी कंचन चिदम्बर चिदम्बर आर. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	29912 19.01.13	प्लॉट नं. एच-23, दोल्लार्स कॉलोनी, गोकूल गार्डन के पीछे, हुबली
204901	कुलकर्णी कंचन मोहन के. मोहन वेंकटेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26682 26.05.10	कलाश्री बिल्डिंग, सन्मती नगर, केलगारी रोड, धारवाड़,
204902	कुलकर्णी महेश वसन्त कुलकर्णी वसन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25307 27.11.09	मकान नं. एल.आइ.जी.-24, संगमेश्वर निवास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बीदर
204903	कुलकर्णी मन्डर सदाशिव सदाशिव के.कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23722 02.04.09	एस.एस.आर ए. एम. सी., इंचल, सौनदल्ली तालुका, बेलगाँव
204904	कुलकर्णी शिवानन्द सुरेन्द्र कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24806 05.06.09	समीप. गणेश पाक्र, के सामने, मनशिवनी अर्पाटमेन्ट, तिलकवाडी, बेलगाँव
204905	कुलकर्णी सुरेश बाबू दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1982	25381 02.02.10	मेन रोड, गणेश पेठ हुबी, धारवाड़
204906	कुमादीनी ए नं. डी. ए नं. ए. देशपाण्डे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26028 19.03.10	जे.सी0आर एक्स, नया पौस्ट ऑफिस रोड, जगलूर तालुका, दावणगेरे
204907	कुमार कन्टीमठ सिद्दैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24306 29.04.09	विवेकानन्द रोड, बन्दी बिल्डिंग, राम निलाया, गडग तालुका एवं
204908	कुमार स्वामी निजागुन्नय्या निजागुन्नय्या स्वामी	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2005	28744 02.04.12	मकान 5-3-221, बासवेश्वर चौक
204909	कुमारा राघवेन्द्र निगप्पा निगप्पा कम्पार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25899 15.03.10	मकान नं. 3, सब जेल क्वार्टर्स, वसन्ता रोड, दावणगेरे
204910	कुम्बर ज्योति सोमलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29995 08.04.13	डी.ए नं. 17-4-134, एग्रीकल्चर कॉलोनी, मन्नाल्ली रोड, बीदर
204911	कुम्भार प्रसान्त विष्णु कुम्भार विष्णु कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25275 04.11.09	चेत्रा अकेडमी, 4 क्रॉस, जे.एम. रोड, चित्रदुर्गा
204912	कुम्भार श्रीकांत महादेव कुम्भार एम. दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26096 19.03.10	वेदकिहाल पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव

204913	कुम्भार सुनील रुद्रप्पा कुम्भार आर. लिंग्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23971 13.04.09	शाहबाद पोस्ट, चित्रापुर तालुका, गुलबर्गा
204914	कुम्भार वीना पान्दुरंग कुम्भार पी. तुकाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24455 05.05.09	आर.एस. हिरेमठ बिल्डिंग, एम.बी. दत्तर कॉलोनी, हॉस्पेट रोड, कोप्पल
204915	कुमारे उमाशंकर रामचन्द्र रामचन्द्र विथोबा कुभारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29449 24.05.12	सिद्यापुर पत्रालय, मंगलावेधा तालुका, सोलापुर
204916	कुम्भोज सचिन सुरेन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28270 17.05.11	कोटाली पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204917	कुमुडा पी. प्रकाश निरंजन . सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24505 12.05.09	मकान 566, 7 मेन, तिसरा फेस, चौथी स्टेज, विजयानगर, मैसूर
204918	कुमुदिनी सागी अप्पाला राजू सागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26478 01.04.10	मकान 21 के.मी. उदयापुर पत्रालय, बंगलौर
204919	कुवर अधार भटनागर अनिल भटनागर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30026 15.04.13	मोहल्ला गाँधी नगर, अमरोहा रोड, धनौरा जे.पी. नगर. यू.पी.
204920	कौरागी अनिल कालप्पा कौरागी कालाप चन्द्रू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26811 20.08.10	नं. 202/बी, अम्बेडकर गली, पुराना बेलगाँव, बेलगाँव
204921	कुराडे अभय अनिल कुराडे अनिल दिग्मबर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23741 02.04.09	मकान 625, श्री -निदि कीर्ति नगर, समीप साई बाबा मंदिर, बीजापुर
204922	खुशमंजिल शिंदे रामचन्द्रा शिंदे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28572 19.10.11	मकान 7-3-31, भीमनगर, समीप, पब्लिक गार्डन, बीदर
204923	कुसुम ए नं. के. सी.कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25732 12.03.10	मकान 297, टी.बी. विस्तार, नागमंगला मन्डया
204924	कुसमा अवरानी शिवापूत्रप्पा बी. अवरानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28833 16.04.12	हिरेकोप्पा पत्रालय, नगरगौडा तालुका, गडग
204925	कुसमा बी.एस. बी. शोरप्पा गोडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24567 14.05.09	मकान 2-82, पट्टेथना हाउस, कडमर, गाँव एवं पत्रालय पुट्टूर तालुका, दक्षिण
204926	लक्ष्मगौडा बासाप्रभु बासाप्रभु देसाई	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापूर 1979	27002 21.12.10	वेदकिहाल पोस्ट, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
204927	लक्कप्पा बिलावडी पैरिस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24352 30.04.09	रेणुका गली, टार्डल पत्रालय, जामखन्डी तालुका, बागलकोट
204928	लक्ष्मना टिप्पन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28951 26.04.12	4 क्रॉस नं. 220/21, इन्द्रपस्था, नगर आनन्द नगर, रोड हुबली तालुका धारवाड,



204929	लक्ष्मेश .के.एस. शेषप्पा गोड़ा .के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27484 26.03.11	अरन्थोड गांव एवे पत्रालय, सुलिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
204930	लक्ष्मी पान्दुगंगी रंगनाथ ए. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26758 20.07.10	कुलकर्णीस हॉस्पिटल, गाँधी सक्रिल, वरदूर, बंगलौर
204931	लक्ष्मी रविन्द्रनाथ एम. रविन्द्रनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29526 28.05.12	मकान 31-सी, सुरैया अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर -13, रोहिणी दिल्ली स्टेट
204932	लक्ष्मी बी. बासवाराजू. एच.एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25942 17.03.10	मकान 61, 4 मेन रोड़, नेहन नगर, शेषाद्रीपुरम, बंगलौर
204933	लक्ष्मी टी. थिम्मगोड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24587 14.05.09	मकान 1266, समीप, आदश कॉन्वेंट, मालावल्ली, ए नं. ई. एस विस्तार, मालावल्ली तालुका, मन्ड्या
204934	लक्ष्मीशा राव. वाई, सर्वजना मूर्ति. वाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25721 12.03.10	मकान 2-58, येल्लरु पत्रालय, उडुप्पी
204935	ललिता बेलगल्ल महन्तप्पा ए नं. बेलगल्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29623 14.06.12	मकान 153, सेक्टर -57, नवनगर पत्रालय, बागलकोट
204936	ललित कुमार. जी. गौथम चन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25951 17.03.10	डी. नं. 492, विनोभा रोड़, सकलेशपुर, हासन
204937	ललिता नगेन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27174 18.03.11	मकान 8-11-181/829, विद्यरानगर, रायचुर
204938	लालसंगे पवार बासवेश्वर ए. लालासंगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28376 09.06.11	कुरुंशी कॉलोनी, तोरावी रोड़, बीजापुर तालुका एवं
204939	लालवनी दिनेश बाबूलाल लालवानी बाबूलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26648 05.05.10	गवली गली, गजेन्द्रगढ़, रॉन
204940	लम्ब बाबसाहेब चन्द्रकान्त चन्द्रकान्त जी. लम्ब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24108 22.04.09	शिवकृपा निलाया, आश्रम रोड़, गुमाशा कॉलोनी, बिजापुर
204941	लम्बे सुरेखा रुद्रप्पा रुद्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25035 02.07.09	मकान 209, 2 सेक्टर, शिवाबासनगर, बसवा बेलगाँव, बेलगाँव
204942	लान्डे अजय अशोक लान्डे अशोक निवरुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25555 05.03.10	समीप, रंगराज, हॉस्पिटल, गजेन्द्रगढ़, रॉन तालुका, गडग
204943	लता महेन्द्रकर जनार्दन आर. महेन्द्रकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25989 18.03.10	अश्विनी नगर, 2 क्रॉस, हावेरी
204944	लाठ ए.के. कृष्णा मूर्ति जे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28839 16.04.12	मकान 7, 9 मेन रोड़, कलप्पा ब्लॉक, श्रीनगर बंगलौर

204945	लथा ए. आनन्दप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29002 27.04.12	1 क्रॉस गोपी रंगा स्वामी कम्पाउड चन्नप्पा लेआउट, शिमागा तालुका
204946	लथा. बी. भूमेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25866 12.03.10	11 क्रॉस, हर्षा निलाया, टूमकूर
204947	लथा डी.जे. जयारमाप्पा. जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24833 06.06.09	रंगानाथ नगर, चन्नावरा रोड़, सीरा तालुका, टूमकूर
204948	लथा ए नं. नगेन्द्र एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30209 29.04.13	मकान 2, बी.बी.एम.पी. क्वार्टर्स, 1 क्रॉस, मगदी रोड़, बंगलौर
204949	लथा एस. सी. सिददप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25917 15.03.10	मकान 656, अन्चेपाल्या, नागसान्द्रा पत्रालय, बंगलौर उत्तर, बंगलौर
204950	लथा एस.एम. मुरुवाय्या एस.एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25859 12.03.10	डी. नं. 3014, के.एच.बी. कालोनी, लक्ष्मीपुरा, बडवाने अरसीकेरे, हासन
204951	लथा एम.एस. सिददानंजप्पा एम.एस,	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27782 07.04.11	मंजुलम्मा गार्डन, मधीहल्ली, एक्सटेंशन, बी.एच. रोड़, टिपटुर तालुका, टूमकूर
204952	लथेश एच. होनेयया के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29531 28.05.12	जी.एल. 5-74, 5 ब्लॉक, कृष्णा पुरा कटीपल्ला पत्रालय, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड़.
204953	लौवा चकमा रशिक कुमार चकमा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29865 17/11/12	रत्नपुर गाँव, खारसन्ड पत्रालय, चंगलग
204954	लवण्या आर. वी. रामचन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30160 24.04.13	मकान 248/ए, 2 स्टेज, 2 क्रॉस, के.एच.बी., बासवेश्वरनगर, बांगलौर
204955	लक्ष्मन खवटेकोप्पा इरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30441 31.05.13	पी.ओ. कल्लोई, तालुका गोकक, बेलगाँव
204956	लक्ष्मन टर्डल भीमप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29983 06.04.13	एम/पी हल्लूर तालुका -गोकाक, बेलगाँव, हल्लूर
204957	लक्ष्मी बिदरी गंगाप्पा. एच. बिदरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28437 20.06.11	विद्या नगर, 1 मेन रोड़, रायबाग पत्रालय एवं तालुका, बेलगाँव
204958	लक्ष्मी चन्द्रपन्ना जी.टी. चन्द्रपन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24899 09.06.09	मंजुनाथ नगर, ए. ब्लॉक, हावेरी
204959	लक्ष्मी देवादुर्ग दुर्गप्पा टी. देवादुर्ग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28947 26.04.12	नं. 57 न0.8/8, वार्ड नं. 10, सन्ना सबाना कॉलोनी, बागलकोट
204960	लक्ष्मी हल्लाली कराबसप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23934 13.04.09	मकान 365, 1 मेन उमाशंकर नगर, रानेबेन्नुर तालुका, हावेरी

204961	लक्ष्मी कोटयाल शंकर एस. कोटयाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25368 21.01.10	मकान नं. 73, ब्लॉक नं. 7, सोलापुर रोड, बीदरेकर पुलिस लाइन, बीजापुर
204962	लक्ष्मी कुलकर्णी प्रल्हाद कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24719 03.06.09	बनाशकरी विस्तार, रानीबेन्नूर तालुका, हावेरी
204963	लक्ष्मी लिंगारेड्डी गिरीष	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30242 02.05.13	समीप रेड्डी बैंक, जूनिपेट, रामदुर्गा -तालुका, बेलगाँव
204964	लक्ष्मी ममदपुर मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24357 30.04.09	मकान 1361, साई कृपा, समीप रेलवे स्टेशन, घटाप्रभा, गोकक तालुका, बेलगाँव
204965	लक्ष्मी मेत्री सुखमुनि सी. मेत्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28769 05.04.12	मकान नं. 363 समीप नायक, नर्सिंग होम मंगोली रोड, बीजापुर
204966	लक्ष्मी पी. पी. मस्तान राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29122 07.05.12	नं. 13-3-141, लक्ष्मी निवास, साई बाबा कॉलोनी, लेदगरी बीदर
204967	लक्ष्मी पट्टान एम. एम.आर. पट्टान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24069 21.04.09	मकान, बी. टाईप, 1 सेक्ट कुदरेमुख पत्रालय, मुदीगेरे तालुका, चिकमगलूर
204968	लक्ष्मी सज्जन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30046 16.04.13	के.एस.आर.टी.सी. कॉलोनी, ज्ञानगबावडी, बीजापुर
204969	लक्ष्मी संगनाल शिवानन्द संगनाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29111 07.05.12	पुटटराज नगरा, गडग तालुका
204970	लक्ष्मी संजीवगोल धनपाल एम. संजीवगोल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30336 17.05.13	विदया नगर, ए/पी मुदलगी, तालुका गोकक
204971	लक्ष्मी शेट्टी एस. गोपाल शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24185 24.04.09	मकान 13, राघवेन्द्र कॉलोनी, विदयानगर, हुबली तालुका, धारवाड
204972	लक्ष्मी उक्काली चन्नाबसप्पा .आर. उक्काली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29505 26.05.12	पी.ए नं. 173, 3 क्रॉस, 1 मेन, कालीदासनगर विद्यानगर एक्स, हुबली तालुका, धारवाड,
204973	लक्ष्मीकान्त वेन्कटराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27243 22.03.11	मकान 30/6449/11, शिवनगर 1 ब्लॉक, बसवाकल्यान तालुका, बीदर
204974	लक्ष्मीकान्त बेसेट्टी शंतप्पा बेसेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	28746 02.04.12	छैनूर पोस्ट, सिंदगी तालुका, बीजापुर
204975	लक्ष्मीकान्त कम्बाली लक्ष्मन . एस. कम्बाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27742 06.04.11	नं. 32, गोकक फालस चौकी -32, गोकक तालुका, बेलगाँव
204976	लक्ष्मीकान्त मेत्री चन्नप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27053 15.03.11	नया पदनूर, पदनूर, पत्रालय, इन्दी तालुका, बीजापुर

204977	लक्ष्मीकान्थ सूर्यकान्त .एस. वल्लेपुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25987 18.03.10	मकान 14-265, एग्रीकल्लचर ऑफिस राईट साइड, औराद (बी), बीदर
204978	लक्ष्मीश हेगडे हेगडे. एम.पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28624 15.11.11	मकान नं. 208, बिदाकन पत्रालय, सिददापुर तालुका, उत्तर कन्नड़
204979	लक्ष्मीश्री इलकल जगदीश इलकल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30389 23.05.13	समीप उर्दू मिडियम स्कूल, नालाटवड, तालुका -मुददेभाई बीजापुर
204980	ली हाई सुन्ना ली यंग शू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30300 08.05.13	दोंग चूंग दोंग , ज्ञानयोजू सिटी ज्ञानयोजू बुक, 695-42, ज्ञानयोजू, साउथ कोरिया
204981	लीला. बी.वी. वीरैय्या. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24909 09.06.09	मकान 118/28, 1 क्रॉस, राजेन्द्र नगर, मैसूर
204982	लीलाधर. डी.वी. डी. के. वीरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2001	25389 10.02.10	दोला हाउस, गोनाडका पत्रालय, सुलिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
204983	लीना लहुराज कहासे लहुराज नारायण कहासे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25018 26.06.09	2 मेन, 2 क्रॉस, आदवेशले दवाणगेरे चित्रदुर्गा
204984	लेखन्ना पंडित. एल. लक्ष्मी नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24227 28.04.09	मकान 57/1, ओटी रोड, गोरीशंकर नगर, मैसूर
204985	लिंगदे सचिन पांडुरंग पांडुरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24858 06.06.09	भाग्या कृपा हाउस, संस्कृति कॉलोनी, बीजापुर
204986	लिखिता डी.ए. नं. नानैय्या डी.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27687 05.04.11	फलेट नं. 21, 76, बदागबेट्टू केल्लू, उडुप्पी
204987	लिम्बाखिका पाटिल सरादरा गौडा तलावगेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27260 22.03.11	मकान 9/7635, 1 क्रॉस, बी.टी. पाटिल नगर, कोप्पल
204988	लिम्बूकर मान्सी गोपाल रूपेश दत्ताराम कदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29648 14.06.12	मकान216, मजगॉव रोड, प्रथम कदमवाडी समीप ऑफ किर्ति नगर, रत्नागिरी तालुका
204989	लिंगाडोरे. के. कोडन्डा रामाप्पा जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24791 04.06.09	आर.टी.डी. पुलिस इन्स्पेक्टर रामाप्पा तरासू स्ट्रीट, चित्रदुर्गा
204990	लिंगाराज लुम्पाती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25154 26.09.09	बी.जी. मठ, आश्रम कॉलोनी, बीजापुर
204991	लिंगाराज कट्टीकाई नुरनदप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28490 26.07.11	समीप. नीलकण्ठ मठ, वेलूर पत्रालय, बादमी तालुका, बागलकोट
204992	लिंगराजू टी. थिपेस्वामी जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30344 20.05.13	मेन रोड, धर्मापूरा, हीरयूर तालुका, चित्रदुर्गा

204993	लोहित आर. रंजना डी.एल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30538 02.07.13	एस.के.डी. एक्सटेशन, होसादुर्गा, चित्रदुर्गा
204994	लोकेश विश्वानाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28710 30.03.12	मन्थल (मातला) पत्रालय, बासवकल्याण तालुका, बीदर
204995	लोकेश .डी.एच. हुनमनथप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26744 02.07.10	नं. 19615, पी.एण्ड टी. क्वार्टर्स, विवेकानन्द नगर, गडग
204996	लोकेश हिरेमठ बासवाराज स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26957 29.10.10	मकान 9-7-328, बी.वी.बी कॉलेज रोड, विद्या नगर कॉलोनी, बीदर तालुका
204997	लोकेश कुमार रमेश चन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30524 25.06.13	गावें व पत्रालय -बुधवल नारनौल, महेन्द्रगढ
204998	लोकेश एम. माश दमोदर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25638 06.03.10	मयल्यारलिंगेश्वर निलाया, सरकारी हॉस्पिटल, हिरयूर पत्रालय एवं तालुका, चित्रदुर्गा
204999	लोकेश. टी, थिम्मी गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25577 05.03.10	डी. टुमकूर पत्रालय, चन्नारायपटना तालुका, हासन
205000	लुबना मोहमूदी आर. रियाज मोहमूद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28627 15.11.11	मकान 15, एम.आई.जी, 2 क्रॉस, के.एच.बी. कॉलोनी, कल्याणगिरी, मैसूर
205001	लोकेश कुमार बोधराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30501 15.06.13	मकान नं. 195, बक्शी नगर, जम्मू (तावी), समीप बायेंस हायर सेकेण्डरी स्कूल, जम्मू एण्ड कश्मीर
205002	एम.डी. अनवर जिशान एम.ए. कूददूस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29887 17.12.12	मकान नं. 3-41/1, पंसी टेलीम टीम, शिकारी स्ट्रीट बीदर
205003	एम.वी.वी. दुर्गा प्रसाद शिवा नागेश्वर राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30137 22.04.13	मकान 14-1320, शिवदुर्गापूरम, नौलकपेटा, टदेपल्ली -तालुका, गुन्तुर टादेपल्ली
205004	एम.ए. ताहीरा मोहम्मद आलम बाशा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29261 16.05.12	नं. 18 वार्ड नं. 24, यसीन सब मशीद सी.डी.डबल्यू, एल. स्ट्रीट, बेल्लारी
205005	महन्तागौड़ा बिरादर मालाकजागौड़ा बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23874 09.04.09	कालाकेरी पत्रालय, सिदगी तालुका, बीजापुर
205006	मबूसाब होसाली मकतूमसाव होसाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28678 07.02.12	अम्बा भवानी नगर, जैन मनपीर रोड, मिसनदरगी तालुका/पत्रालय, गडग
205007	मदनकुमार कुलकर्णी मोहनराव वी. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25900 15.03.10	मकान 13, सेक्टर नं. 30 नवानगर, बागलकोट
205008	मदवाने हर्षद वसन्तराव मदवाने वी. बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24093 21.04.09	ताईकृपा काम्प्लेक्स, समीप. दनाम्मा मंदिर, रबकवि

205009	मदेश.पी. पी. पेरीयन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24889 08.06.09	टी.जी. दोददी जगेरी साथगल पत्रालय, केल्लोगल तालुका, सी.एच. नगर
205010	माधवी शरणाबसप्पा नगलपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25038 06.07.09	कनकचला कॅम्पलेक्स, होसली रोड, गंगावथी तालुका, कोप्पल
205011	माधवी चिवाता गुंडी सोमनायक एस.सी. गुंडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29147 08.05.12	नं. 428, मुर्वी भावी एवं पत्रालय, बैहोंगल तालुका, बेलगोंव
205012	माधवी कुलकर्णी अच्युत ए नं. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26123 20.03.10	42, महन्तेश नगर, बेलगोंव
205013	माधवी एल. रविन्धर एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30290 07.05.13	हाउस नं. 3-10-175, नयालकल रोड, निजमाबाद
205014	माधवी पाटिल कृष्णागोंडा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25865 12.03.10	विजयालक्ष्मी निवास, विजयापुर ओनी, हुबली
205015	माधव. जी.वी. विठल. जी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23885 09.04.09	गंगा निलाया मकान 63, बेलगोंव क्रॉस, कन्टोनमेंट, वेललारी
205016	माधवी एम.के. एम.के. शेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23879 09.04.09	मकान 148/बी, विश्वान्थपुरम, श्रीरामपुर कॉलोनी, बेल्लारी
205017	माधवी एम. भट्ट एम.आर. भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25071 22.07.09	अनुपमा आर्कॅड, विदयानगर, हुबली तालुका, धारवाड,
205018	मधु सुशील कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29368 21.05.12	बी-210 साई कुन्ज फेस 3 नया पालम विहास, गुडगोंव पोस्ट एवं तालुका
205019	मधु दर्श नं. एच.वी. वीरन्ना होलेयाचे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23974 18.04.09	मदापुरा, हरीयूर पत्रालय, टी.नरसीपुरा, मैसूर
205020	मधू पी.एम. कोटराय प्रसादीमठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29238 15.05.12	नं. 252 4 वार्ड, विनायकर नगर, हुवनीहादगल्ली पोस्ट एवं तालुका, बेल्लारी
205021	मधू एस.ए. अनन्था एस.टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30267 06.05.13	मकान 89-2, सालीग्राम (पी), के.आर. नगरा, (तालुका), मैसूर (डी), सालीग्राम
205022	मधू शालिनी .पी एम. पुट्टा स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28482 18.07.11	डी नं. 902/ए, 4 ब्लॉक, उदबूर, मैसूर
205023	मधू श्री . आर.ए नं. रंगप्पा .एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25648 06.03.10	कनाम्मना हट्टी, रामादेवरा बेदी, तारीकरे तालुका, चिकमगलूर,
205024	मधू .के. कृष्णामूर्ति. ए नं. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24055 21.04.09	मकान 371, काला कॅम्पलेक्स, एस.टी. जुडे चर्च, ए. नारायणपुरा, बंगलौर

205025	मधु एम. मोहनदास. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25946 17.03.10	श्री मनमोहन कृपा, जटटीपाल्ला रोड़, सुलिआ तालुका, दक्षिण कन्नड़
205026	मधु . एस. सुवैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23992 18.04.09	ए नं. डी.आर.के. कॉलेज के पीछे उदयगिरी एक्सटेंशन, हसन तालुका
205027	मधु .एस.जे. जावरे गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2002	26534 12.04.10	कदूसोनप्पा हल्ली, बंगलौर ईस्ट, बंगलौर
205028	मधुकेश्वर हेगडे सुब्राय. जी. हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25666 08.03.10	मकान 102, डी-11, देवरा हक्कलू, कुमता तालुका, उत्तर कन्नाडा
205029	मधुलिका प्रिया रामनुज पोदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27257 22.03.11	मकान 33, रंगनाथा एक्सटेंशन, हरोहल्ली, कनकपुरा, तालुका, रामनगर
205030	मधुमति. वी.एस. शामनाथ कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26935 11.10.10	नं. 28, अनूपह निलाया, 1 क्रॉस, नन्दनगर शिट्टहल्ली, बंगलौर
205031	मधुमथी . जोबली, इरन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30238 30.04.13	5 बार्ड, शिरोमल गॉव, तालुका -मुन्दर्गी,
205032	मधुमिता कृष्णा वी.सी. कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29003 27.04.12	नया नं. 18, पूराना नं. 14, 1 क्रॉस स्टेशन, सिटी कॉलोनी मयलापुर पत्रालय, चेन्नई
205033	मधुरा .वी वीरे गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26663 12.05.10	सरकारी सिल्क फैक्टूर, क्वाटर्स नं. 1, चामराजा नगर
205034	माधुरदेवी कोडीहल्ली कल्लाप्पा ए नं. कोडीहल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29171 11.05.12	जयानगर शिगगॉव पत्रालय एवं तालुका, होवरी
205035	माधुरी ए नं. नगराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29060 05.05.12	नं. 387 10 क्रॉस 2 फेस 15 स्टेज, मुजुनाथनगर बासवेश्वरनगर बंगलौर
205036	माधुरी राठौड अम्बादास देसु राठौड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29496 25.05.12	अलमल पत्रालय, सिंगडगी तालुका, बीजापुर
205037	माधुरी. बी. बासवाराज. के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25826 12.03.10	डी/ नं. 73, 1 मेन, 2 स्टेज, बगदी पत्रालय, मैसूर
205038	मधुश्री रागी जी. वरम्पा रागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30223 30.04.13	कोट्टूर, मल्लापूरा पत्रालय, सरोबा तालुका, शिमोगा, कोटीपुरा
205039	मधुसूदन कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28036 19.04.11	न0.28/82, नया जय शंकर कॉलोनी, बासवाकल्याण, बीदर
205040	मदीवालागौडा गौडार उर्फ शंकरगौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26078 19.03.10	करुली प्लॉट, गर्ग पत्रालय, धारवाड़

205041	मडिवल्लप्पा नेडालागी सदाशिव नेडालागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26859 02.09.10	यारगल्ला (बी.के.), सिंदगी तालुका, बीजापुर
205042	मडिकार प्रदन्या नितिन नितिन वसंतराव मडिकार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26661 12.05.10	विनया कुलकर्णी महागनापथी, एम.एम.सी., हलीयल रोड, धारवाड़
205043	मगदुम शारदा सतीश सतीश महादेव मगदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29821 18.10.12	मकान 83/3, चन्दौर पत्रालय, हटकाननगले तालुका, कोल्हापुर
205044	मागर विशाल नारायण नारायण पी. मागर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25206 09.10.09	मकान 19-4-622, एम.ई.एस कॉलोनी, हुमनाबाद रोड, नौबाद, बीदर
205045	मगदुम अमित नारायण मगदुम नारायण दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23808 04.04.09	यादनवाडी, मलिकवाड पत्रालय, चिक्कोडी, तालुका, बेलगाँव
205046	मगदुम ज्योति जयपाल मगदुम जयपाल दादा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24457 05.05.09	आर.एस. हिरेमठ बिल्डिंग, एम.बी. दत्तर कॉलोनी, हॉस्पेट रोड, कोप्पल
205047	मगदुम सत्याशी प्रकाश प्रकाश जितेन्द मगदुम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24848 06.06.09	मकान 1515, शाहूनगर, बेदकिहाल पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205048	मगदुम स्वप्निलाल विलास विलास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23845 06.04.09	2199, पोगनीसबोल, समीप मराठी स्कूल, मकान 2, महादेव गली, निपानी, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205049	मगदुम विवेक मार्तण्ड मार्तण्ड बलप्पा मगदुम	बी.ए.एम.एस. पूणे वि.वि., पूणे, 1997	28475 04.07.11	प्लॉट न0.1512, रामथीनगर, समीप उदय स्कूल, बेलगाँव
205050	महाडालकर स्नेहा उमेश उमेश एस. महाडालकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30461 06.06.13	बी/9, श्रीप्रभा, राजाजीपेट रामनगर, क्रॉस लेन-1, दोमबीवली पत्रालय, थाने, दोमबीवली
205051	महादेव भारत राज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28419 20.06.11	गोरत (बी) ए/पी, बासवाकल्याण तालुका, बीदर
205052	महादेव जम्वागी निन्गप्पा जम्वागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25183 08.10.09	कावतागी पत्रालय, जमखन्डी तालुका, बागलकोट
205053	महादेव संनामूरी मारुति संनामूरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24839 06.06.09	हल्याल पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव
205054	महादेव प्रसाद .सी.एस. शिवेय्या . सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24935 10.06.09	चन्गाचल्ली अम्बले पत्रालय, येलहन्का तालुका, चामराजनगर
205055	महादेवी भांगी गुरसिद्दा .आर. भांगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30348 20.05.13	ग्राम एवं पत्रालय -पमलादीन्नी, तालुका -गोकाक, बेलगाँव, पमलादीन्नी,
205056	महाजन बाहूबली जयपाल महाजन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23694 01.04.09	मकान 829/6, कोठाली पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव



205057	महाजन सम्पदा अविनाश जगनाथ महाजन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29471 24.05.12	मकान 2707, भवानी पेट, करमाला पत्रालय एवं, सोलापुर
205058	महाजन स्नेहल अविनाश महाजन ए. जगनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24857 06.06.09	ए.पी.एम.सी. रोड 1 मेन 4 क्रॉस, तुलाजय, बिल्डिंग, सदाशिवनगर, बेलगाँव
205059	महालक्ष्मी .बी.एम. सिद्धैया. बी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25091 13.08.09	वारीश एक्रोक्स, कुडलीगी रोड, के पीछे, रामनगर हागरबोम्मनहल्ली, बेल्लारी
205060	महालक्ष्मी. बी.ए नं. नरसिंहप्पा .बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24345 29.04.09	मकान नं. 1, एम.आई.जी, 1 के.एच.बी.कॉलोनी, तारीकरे तालुका, चिकमगलूर
205061	महालक्ष्मी रामपुर मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29858 05.11.12	मकान 1927, सोमवरापेट, गोकक तालुका, बेलगाँव
205062	महामद युनुस शरमूद्दीन नावोजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26015 19.03.10	डेक्कन मेडिकल, होनसागी पत्रालय, शोरापुर तालुका, यादगिरी,
205063	महामद रफी. एम. महामद युनिस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24447 05.05.09	कद्रीकेन्द्र रौड़, मलबादी हल्ली, होल्लकेरे तालुका, चित्रदुर्ग
205064	महाम्मदा हुसेन कन्नूर अमिरुदीन कन्नूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27009 28.12.10	सावदी, पत्रालय, रॉन तालुका, गडग
205065	महाम्मदयासिन ममदापूर मौलासाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28321 25.05.11	बनदर गल्ली, याशमिन मंजिल, बदामी तालुका, बागलकोट,
205066	महानन्दा रहीमतपुर महालिंगप्पा रहीमतपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28761 05.04.12	कोहाली पत्रालय, अटनी तालुका, बेलगाँव
205067	महनगडे रहीमतपुर हेमन्त आनन्दराव महनगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28825 16.04.12	मकान ए/11/17, श्री राम कैम्पस, कामगर नगर, कूर्ला (पूर्व) मुम्बई,
205068	महन्तेश श्रीशैल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24866 06.06.09	संगमेश्वर कॉलोनी, बासवाकल्याण, बीदर
205069	महन्तेश राजप्पा यारशेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25608 06.03.10	मकान 6-979, नेताजी चौक, गंज रोड, गुलबर्गा
205070	महन्तेश गलागली चन्द्राशेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25691 12.03.10	मकान 1395/9, विक्रमपूर एरिया, अठानी तालुका, बेलगाँव
205071	महन्तेश काम्बले अशोक नाना काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28010 18.04.11	हरीजन कॉलोनी, अम्बेडकर चौक, कडवाड पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव
205072	महन्तेश केन्गानल बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24818 05.06.09	ससंकृति कॉलोनी, समीप मलिकार्जुन आश्रम, बीजापुर

205073	महेन्तेश खिलारी उददप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29073 05.05.12	नं. 725, बेचीनामरदी, पत्रालय, गोकक, तालुका बेलगाँव
205074	महन्तेश यनकाची बासवाराज. एम. यनकाची	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28468 04.07.11	समीप, साधु मंदिर, महालिंगपुर पत्रालय, मुधोल तालुका, बागलकोट
205075	महन्तेश पाटिल पवाडेप्पा पी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27870 11.04.11	कौतालगी ए/पी, गोकक तालुका, बेलगाँव
205076	महन्तेश्वरी रविन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29102 05.05.12	नं. 22 6 क्रॉस पम्पा एक्टेशन, हेव्वल केम्पामपुरा बंगलौर,
205077	महन्त कुमार नायक.पी पण्डप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28558 20.09.11	प्लॉट . 3032, कस्तुरी निवास, रामनाथ नगर, बेलगाँव
205078	महावीर कुडाचे एस. कल्लाप्पा कुडाचे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24558 13.05.09	शेदबाल पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव
205079	महादेवी फरहीन फजल महोम्मद. आई महादेवी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30505 19.06.13	431/3 फ्लेट नं. 4, माया अपार्टमेन्ट, सैलसबरी पाक्र, पुणे
205080	महेश मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24170 24.04.09	मल्लिकार्जुन मिक्स हाउस, समीप बस स्टैण्ड, शोरगपुर तालुका, गुलबर्गा
205081	महेश बासवाराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25621 06.03.10	मकान नं. 6/591/1, होलुसार पत्रालय, बासवाकल्याणा तालुका, बीदर
205082	महेश अक्कील्ली महादेवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29645 14.06.12	कौसर पत्रालय, हनगल तालुका, हावेरी
205083	महेश बांगली अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28765 05.04.12	कसागेरी गली समीप हनुमान मंदिर, बीजापुर
205084	महेश भालके महादेवराव भालके	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24166 24.04.09	प्लॉट नं. 42, 02ए कॉलोनी, समीप, श्री गुरु कॉलेज, गुलबर्गा
205085	महेश जी. चिक्कोली गंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29796 12.10.12	तिम्मापुर सुदाम्बी, बायदगी तालुका, हावेरी
205086	महेश हिरेमठ शिवानन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26943 19.10.10	पडगानौर पत्रालय सिंदगी तालुका, बीजापुर
205087	महेश हिरूलाल भीमा प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27766 07.04.11	समीप बस स्टैण्ड, जयानगर, शिग्गोन तालुका, हावेरी
205088	महेश जीराली इराप्पा परप्पा जीराली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28369 31.05.11	शेड्टर मठ गली, धनम्मा देवी, मंदिर साइड अठनी तालुका, बेलगाँव

205089	महेश कुलकर्णी एम. वेन्कटेश कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28544 07.09.11	समीप, मरुति टाकिज, महालिंगपुर, मुधोल तालुका, बागलकोट
205090	महेश कुमार सकरेप्पा एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25644 06.03.10	एल.आई.जी-69, 2 फेज, के.एच.बी. कॉलोनी, गुलबर्गा
205091	महेश कुमार सूर्यकान्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28339 27.05.11	औराड (बी), सरकारी सरकारी हॉस्पिटल, औराड -तालुका, बीदर
205092	महेश कुमार. पी. गुरुनाथ राव पाथगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26842 28.08.10	मकान 9-9-53, बी वी.बी. कॉलेज, एक्सिस बैंक के पीछे, बीदर
205093	महेश परप्पागोदरू मल्लप्पा परप्पागोदरू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27050 15.03.11	माता पितृ निलाया, बासवानगर, इलकल ए/पी, हुगौड तालुका, बागलकोट
205094	महेश पाटिल सिदगौडा डी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28350 30.05.11	बोरगॉंव ए/पी, चिक्कोडी तालुका, बेलगॉंव
205095	महेश शिलोदगी मारेप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28359 30.05.11	तैलकौटी पत्रालय, मुददेभाइ तालुका, बीजापुर
205096	महेश शर्मा एम. महादेवैयाह .एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24569 14.05.09	के-22, 15 क्रॉस, 4 मेन, लक्ष्मीनारायणपुरम, बंगलौर
205097	महेश एम.पी. मल्लिकार्जुन पुन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25262 02.11.09	मकान 26/245, विजयानगर कॉलोनी, बासवाकल्याण तालुका, बीदर
205098	महेश .पी.एन एम. ई. पुट्टा नर शैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28621 05.11.11	मकान 73/1, विनया मार्ग, सिदार्थ नगर, मैसूर
205099	महेश .जी. पट्टेद गुरुपादप्पा के. पट्टेद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26587 19.04.10	मेन रोड, शिरुसांगी, सावदथी तालुका, बेलगॉंव
205100	महेश एम.वी. वेंकटरामू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26701 01.06.10	मकान 169, मारतिकत्याना हल्ली, पत्रालय, मैसूर तालुका एवं
205101	महेश .आर. श्रीसालकर आर. गंगाधर श्रीसालकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24434 05.05.09	मकान 4-1062, सर्राफ बाजार, गुलबर्गा
205102	महेश वी. भट्ट विनायक एस. भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25233 15.10.09	मकान 11, 2 क्रॉस, 2 मेन रोड, जे.पी. नगर, 7 फेस पुटटनाहाली, बंगलौर
205103	महेशकुमार गुजर शशी कुमार एम. गुजर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26278 23.03.10	समीप खादी ग्रामाद्योग कार्यालय, गुज्जर गली, बीजापुर
205104	महेश्वरी भुवेश महेश्वरी कृष्णालाल रत्नलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24445 05.05.09	मकान नं. 5-992/33/ए, यदुल्लाह, कॉलोनी, रोजल (के.), समीप वाटर टैंक गुलबर्गा

205105	महेश्वरी दनप्पागोदरा शंकरमाठा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24223 28.04.09	शंकरमठ बाई तरफ, होस्पेट रोड, हरापनहरल्ली तालुका, दवाणगेरे
205106	महेशरीन मुजावर उस्मान जी. मुजावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26659 11.05.10	गुरुकूल रोड, टर्डल पत्रालय, जामखन्डी तालुका, बागलकोट
205107	महिमा कामथ. के. उमेश कामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24783 04.06.09	मकान नं. 1-30, समीप सन्थकटटे, हरियादक समीप पत्रालय, उडुपी
205108	मोहमद इलियास मोहमद हुसैन बेपारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28271 17.05.11	इन्द्रा नगर पुलिस स्टेशन रोड, तालीकटी पत्रालय, मुददूबीहाल, बीजापुर
205109	महम्मद रफीक डोंगरीसब वालीकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23802 04.04.09	जलागिरी पलत्राय, बादमी तालुका, बागलकोट
205110	मैनाज पी.एच. हम्माद कुन्ही पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29012 27.04.12	नं. 3-278, मौन्त पाडवू आस्मा बाग मोन्टेपदवू बन्तवाल, दक्षिण कन्नड
205111	मकटेदार रोहिणी रामराजे मकटेदार रोहिणी किसनराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24127 22.04.09	मकान 15-3-133, प्लॉट नं. 16, 8 शमबावी, रामपुर कॉलोनी, बीदर
205112	मकटुम्पटेल जिन्नाशेकर जिन्नाशेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25041 06.07.09	वस्तीहाल, गुब्बाद, सिंदगी तालुका, बीजापुर
205113	मेल रेड्डी. एम. शिवरेड्डी. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24526 12.05.09	अन्नापूर गाँव, यादगिर तालुका, गुलबर्गा
205114	मालातेश कुलकर्णी कृष्णाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27765 07.04.11	मकान 510, अदरू पत्रालय, हंगल तालुका, हावेरी
205115	मलतेश ई. ईश्वरप्पा. के. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25253 24.10.09	मकान 04, 1 क्रॉस, वाल्मिकी नगर, चल्लाकरे तालुका, चित्रदुर्गा
205116	मालवी श्याम वासूकी श्याम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25541 05.03.10	मकान 15, 2 क्रॉस, 1 मेन, सौधामीनी, लेआउट, कोनाकुन्ते, बंगलौर
205117	माली जयवन्तराव आनन्दराव आनन्दराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24336 29.04.09	एम.आई.जी. 11ए, हुडको कॉलोनी, अकोल रोड, निप्पानी पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205118	माली कुन्द मदन माली मदन धरनीधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25113 09.09.09	तरावेल्लुर बंगलो, चल्लाकरे चित्रदुर्गा रोड, चल्लाकरे
205119	माली पल्लवी कृष्णा कृष्णा माली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30467 07.06.13	प्लॉट नं. 39, रामनगर, पत्रालय रेनदल, तालुका -हटकांगले, कोल्हापुर
205120	माली राहुल शंकर माली शंकर विट्ठैल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24318 29.04.09	7 क्रॉस चलुक्या नगर, बदामी तालुका, बागलकोट

205121	मलिका सरमिन . बी मोहिनी अली खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25317 27.11.09	मकान 10, सी. नं. 5 स्ट्रीट , चान्दनी चौक, शिवाजी नगर, बंगलौर
205122	मालिनी भट के. के. मन्जुनाथ भट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29156 11.05.12	नं. 208, श्री गणेश, श्री राम रोड, थ्यागराज नगर , बंगलौर
205123	मालिनी. ए नं. नौजुन्दा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26857 02.09.10	आइ. जी. 64 (10/332), के.एच. बी. कॉलोनी, समीप. बिग टैंक, चामराजा नगर
205124	माली पाटील सुधा एम.पी. शिवा कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27797 07.04.11	जानकेल पत्रालय, मानवी तालुका, रायचुर
205125	मालीपाटिल पूजा बाबूराव बाबूराव मसली पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25426 26.02.10	मकान 19-1-169, चौथी, क्रॉस, शिवनगर साउथ, उदगिर रोड, बीदर
205126	मालविजयाकुमार सम्भार्ई माली सम्भाजी विठोबा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25267 02.11.09	श्री. एस. जी. वस्त्राद बिल्डिंग, बीजापुर
205127	मल्लम्मा होस्मानी हनमनथप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24621 18.05.09	संगमेश्वर नगर, रॉन तालुका, गडग
205128	मल्लम्पा .बी. पाटिल सिद्दाप्पा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25383 05.02.10	सिददापूर कोट, खुमलापुर, रायबाग तालुका, बेलगॉव
205129	मल्लेश नायक आर. रामा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24600 18.05.09	राजागौडा हल्ली तन्डया, थिप्पेगोन्डाहल्ली चंनगिरी तालुका, दावणगेरे
205130	मल्लेशी तिल्लीहल साहेबगोड तिल्लीहल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29892 20.12.12	तालुका पत्रालय -तिडागोंदी, तालुका एवं बीजापुर
205131	मलिका एम. अदिगा महाबलेश्वर अदिगा एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28317 25.05.11	मकान 39, श्री गुरु कृपा, महाकवि कुवेम्मु वेन्कटदगिरी लेआउट, बंगलौर
205132	मल्लिकार्जुन गंगाहल्ली चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26600 23.04.10	एश्वर्या नगर आश्रम रोड, मलिकार्जुन निवास प्लॉट नं. 115, बीजापुर
205133	मल्लिकार्जुन हनमनथप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23915 09.04.09	मरकुन्दा मन्ना, एकखल्ली पत्रालय, हमनाबाद तालुका, बीदर
205134	मल्लिकार्जुन चन्दाशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24026 20.04.09	समीप. लक्ष्मीनगर, रायचुर रोड, लिंगासगुर तालुका, रायचुर
205135	मल्लिकार्जुन शिवराय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27845 08.04.11	नं. 9-738/11, गंदीगुदी लेआउट शट् बाजार, गुलबर्गा
205136	मल्लिकार्जुन कोडगी विदल कोडगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24983 12.06.09	पी. नं. 8, सैक्टर न0.9, एम.एम. एक्स, बेलगॉव

205137	मल्लिकार्जुन रगाटे श्रीशैल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27048 15.03.11	माता पितृ निलाया, बासवानगर, इलकल ए/पी, हुगोड तालुका, बागलकोट
205138	मल्लिकार्जुन वातर अययाप्पावातर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23744 02.04.09	अरबोल स्ट्रीट, शाहपुर तालुका, गुलबर्गा
205139	मल्लिकार्जुन .बी. वालकर बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24546 13.05.09	दोमनल, सुतागुन्दर पत्रालय, बागलकोट,
205140	मल्लिकार्जुन .डी. दोरेस्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30474 11.06.13	चिक्कमलापुरा (वी.एवं पी.), कोलेगल तालुका, चामराजानगरा
205141	मल्लिकार्जु नं. एच.एम. दक्षिणामूर्ति. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25342 23.12.09	एल.आई.जी-08, के. एच.बी. कॉलोनी, हागिरी बोम्मनाहल्ली, वेललारी
205142	माल्या कुसम रघुनाथ रघुनाथ माल्या .के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24677 28.05.09	मकान 11-45 (ओ), एस.डी.एम कॉलेज के पीछे, आयुर्वेदा, कुथपादे, उडुप्पी
205143	मामालाजावेगॉम वालीकर हुसेनसाह वालीकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26622 27.04.10	एच.एच. बुधीहल, तुलसीगेरी पत्रालय, बागलकोट
205144	ममता उक्कुन्डा परमेशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30317 10.05.13	समीप मंदिर, पत्रालय होन्टटी, तालुका -रानेबेन्नूर, हावेरी, रामनेबेन्नूर
205145	ममता वी. शेटी विठल शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24908 09.06.09	मकान 401, पटरद लेन, करंगलपाड़ी, मंगलौर
205146	ममताज बेगम यादवाद मकतुम हुसेन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26087 19.03.10	मदीना मोहल्ला, सावदथी तालुका, बेलगाँव
205147	ममता सी. जी. गुरुमूर्ति सी. जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30381 21.05.13	लथा निलाया, सरकारी हास्पिटल के पीछे, परशुरामपुरा पत्रालय, तालुका चल्लाकरे,
205148	ममता एम. माधवन एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30199 29.04.13	मकान 794, 7, मेन, श्रीरंगापुरा 2 स्टेज, मैसूर
205149	ममथा .जी. एम शन्तप्पा जी.एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25580 05.03.10	एच.के. अल्पनाहल्ली, हौनूर पत्रालय, दावणगेरे तालुका
205150	ममता . एच.सी. एच.ए नं. चन्द्रशेकरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25902 15.03.10	मकान 921, 34, 10 क्रॉस, दावणगेरे
205151	ममता. आर. रंगानाथ. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24355 30.04.09	मकान 2288, 3 क्रॉस, 6 मेन, विनायका, नगर बन्तीकोप्पल, मैसूर
205152	ममिता देजु पूजारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24062 21.04.09	मकान 01/92, चनदना निलाया, बालगदे, पत्रालय, कोप्प तालुका, चिकमगलौर

205153	ममता बी. राम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28258 17.05.11	मकान 18-3-154, बिलाल कॉलोनी, बीदर
205154	मानकर नितिन बी. जगनाथ जगनाथ डी. मानकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29708 13.07.12	बदोले बी.के. पत्रालय, अक्कलकोट तालुका, सोलापुर
205155	मनसा शिवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30417 27.05.13	हन्द्रहल्ली, बुदीगिरी (पी.), देवनहल्ली, चन्नयारापटना (एच), बंगलौर (आर)
205156	मनसा भट्ट आशाकिरण कल्लानकजे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28807 13.04.12	मकान 8/62, कामाक्षी नगर आई.ओ.बी. कॉलोनी, समीप भारतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
205157	मनसा एम. महालिंगाचर डी.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28851 18.04.12	मकान 12/268, 5 मेन रोड, सुभाष नगर, अरीसकरे पत्रालय, एवं तालुका, हसन
205158	मनसा वाई. आर. राजनन्ना एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29806 12.10.12	मकान 3/163, के. के. रोड, येलनदूर पत्रालय, एवं तालुका, चमराजानगर
205159	मनसा यादव विदल राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30056 16.04.13	हाउस नं. 17, शमियामम, सी.बी. नगर, धारवाड,
205160	मनसा .बी. भाष्कर भट्टा .एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25495 04.03.10	मकान 33/10, 2 फ्लोर, 10 ए क्रॉस, 4 मेन, रोड, श्रीनिवास नगर, बंगलौर
205161	मनसा .बी. के. केशवाचार. एच.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24164 24.04.09	गिरीनिवास, मकान 108/135, 1 फ्लोर , 3 क्रॉस, एच.वी.आर. लेआउट, मंगदी मेन, रोड, बंगलौर
205162	मन एन0 हेगडे नागपति एस. हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28617 05.11.11	मकान एम-5/1891/1 प्रथम क्रॉस , वेसली रोड, मन्दी मोहल्ला, मैसूर
205163	मनसा टी.एम. थोटना गौडा ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27849 08.04.11	मकान 52, 53, ज्योति, देवगौडा लेआउट जगलौर, ग्राम एवं पत्रालय एवं तालुका, दावणगेरे
205164	मनसा टी.वी. आर. वेन्कटचला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27865 11.04.11	मकान 49, 6 क्रॉस, 3 मेन रोड, म्युनिसिपल लेआउट, एस. एस. पुरम, टूमकुर
205165	मनसा वाइ. एस. राजेश एच.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26761 23.07.10	होसमाने एक्सटेंशन, 6 क्रॉस, शिमोगा तालुका
205166	मनसी रूगे वसन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25358 12.01.10	हाई स्कूल मेन रोड. भोज ग्राम एवं पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205167	मानश्वनी एच. आर. एच.पी रंगनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24162 24.04.09	मकान 43, प्रराहमशा, 100 फूट, पेप्पी टी. के सामने, होसाकेहल्ली, बंगलौर
205168	मन्वला दत्तात्रेयराव दत्तात्रेयराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25092 14.08.09	मकान 3-82, किराना बाजार, औराड (बी) तालुका, बीदर

205169	माने अश्विनी कुबेर माने कुबेर मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25907 15.03.10	मकान नं. 213, 1 स्टेज, रानी चन्मममा नगर, बेलगाँव
205170	माने गोरक्षनाथ मयाप्पा माने कुबेर मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24187 24.04.09	चालुक्या नगर, 7 क्रॉस, बदामी तालुका, बागलकोट
205171	माने मनीषा दत्तात्रेय माने दत्तात्रेय यशवंत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23958 13.04.09	बी.ए.एम. कॉलेज, चल्लाकेरे तालुका, चित्रदुर्ग
205172	माने पल्लवी शिवाजीराव माने एस. बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24873 06.06.09	मकान 175/ए, 8 क्रॉस बैंक कॉलोनी, बनासशंकरा 1 स्टेज, बंगलौर
205173	माने रोहिणी बालकृष्णा माने .बी. पान्दुरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26095 19.03.10	वेदकिहाल पत्रालय, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205174	माने सत्यावान सीताराम माने सीताराम जयवन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25312 27.11.09	समीप. पुराना परावार, धाबा, मानवी तालुका, रायचूर
205175	माने श्रीपद भगवान भगवान भाउ माने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24690 02.06.09	रतन्तरी बिल्डिंग एस. टी. खोट कॉलोनी, शमनेवादी चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205176	माने विजयाकुमार शिवाजी नारायण माने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30087 18.04.13	ए/पी नेतपूट समीप, विठैल मंदिर, विठैल नगर, ताल मलसिरस
205177	माने निलम बाबानसो बाबासो . सी. मेनर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30175 25.04.13	चन्द मान्जी, शीरला नाका, गणेश नगर इस्लामपुर, तालुक —वालवा, सांगली, इस्लामपुर,
205178	मंगला गुरुलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27128 17.03.11	गादवन्ती ए/पी, हुमनबाद तालुका, बीदर
205179	मंगला बिदराकुन्दी बासवाराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26759 23.07.10	मकान 4-4-1, बी.आर. अम्बेडकर नगर, यादगिरी तालुका
205180	मंगला गौरी गोपाल कल्लल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29204 14.05.12	नं. 494 शिवापुर रोड, हुगली मुरिराबाद, कोप्पल
205181	मंगला होन्नपानव्वर डोडावासप्पा .एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25852 12.03.10	येलीशिपुर पत्रालय, गडग
205182	मंगलागिरी फारुक नसिरअहमद नसिरअहमद आई. मंगलागिरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23961 13.04.09	विदयानगर, 1 क्रॉस, बदामी तालुका, बगलकोट
205183	मंगावकर प्रदन्थारानी अनिल कुमार मंगावकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29860 06.11.12	स्वामी निवास मकान 2942, शिवाजीनगर पंचायत समिति, शिरोही तालुका, कोल्हापुर
205184	मंगलेकर पंकज नन्दकुमार नन्दकुमार मारुति मंगलेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26832 25.08.10	बैचंगल ग्राम एवं पत्रालय बस स्टैण्ड के सामने, सौनदती तालुका, बेलगाँव



205185	मंगरूले सरोज अर्जुन अर्जुन सिद्याप्पा मंगरूले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28966 26.04.12	ए2, ओंकार अपार्टमेंट अचेगाँव पत्रालय, साउथ सोलापुर तालुका, सोलापुर
205186	माणिक मुकुन्द आपटे मुकुन्द आपटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24322 29.04.09	मकान 1-16ए, श्रीकृपा, विवेकानन्द नगर, गुलबर्गा
205187	माणिक रेड्डी वनीकयान रुद्रगौड़ा .एस. वनीकयान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27354 24.03.11	माल्ला -बी, शोरपुर तालुका, यादगिर
205188	माणिकवर परिमाला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28813 13.04.12	तुरोरी पत्रालय, ओमरेगा तालुका, ओसमानाबाद
205189	माणिक्य. के. एल. लिंगेगौड़ा .के. यू.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27516 28.03.11	कुम्बारु बीदी, कोटारगेरे टूमकुर
205190	मनीषा कुमार योगी बाबूलाल योगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	27926 12.04.11	एफ/756, 1 मेन, चर्च कम्पाउन्ड के पीछे, दावणगेरे
205191	मनीषा काम्बले मिलिन्द परशुराम काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29859 06.11.12	बोरगाँव ए/पी, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205192	मनिया मैत्रायाकुमार उमेश भट्ट मनियार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28978 27.04.12	नं. 2156-सी, निता पाकर, हिल्ल झाइव रोड, गुलिशा ग्राउन्ड के सामने, भावनगर
205193	मंजरी चन्द्र चन्द्रशेखर के.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28128 26.04.11	गूलशन रामबेतलू, कारोगड़ापाडी, उदयावारा, उडुप्पी
205194	मन्जरी के.आर. के.आर. रवि कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27041 14.03.11	मकान 92, समीराजा, 5 क्रॉस, 1 मेन, गोकुलनगर, दोदालसन्द्रा, बेंगलूरु साउथ
205195	मन्जु रेखा. बी. लक्ष्मेश आई0 वाडीगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29080 05.05.12	मरुला कालाशा, इन्द्राकील नगर, गडग रोड, मटा के पीछे, होटेल्, हास्पेट रोड,
205196	मन्जु एच. आर. एच. डी. राजेगोड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25525 04.03.10	मकान 109, एम. आई .जी -11ग्रुप, के.एच. बी. कॉलोनी, होटगल्ली, मैसूर
205197	मन्जुला सिद्धन्नागौड़ा ए.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30302 09.05.13	अराहल पत्रालय, तालुका गंगावटी,
205198	मन्जुला रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25430 26.02.10	गंगाम्मा निलाया 9-6-57, चिदरी रोड बीदर
205199	मंजूला वेलाडाडी करीयप्पा .ए नं. वेलाडाडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27112 17.03.11	एल. आई टी -325, 11 क्रॉस, नवनगर, हुबली, धारवाड़
205200	मंजूला जेवूर वीरुपक्षप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27618 01.04.11	मदारमददी, 6 क्रॉस, होसयल्लापुर, धारवाड़

205201	मंजूला कराडी पंचाक्षरी के. कराडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29423 23.05.12	नं. 209/बी2, निदागोंदी पत्रालय, रॉन तालुका, गडग
205202	मंजूला मादीवालर बलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26282 23.03.10	माडीवालर चाल, वेल्होंगल तालुका, बेलगोंव
205203	मंजूला पाटागुन्डी भीमाप्पा पाटागुन्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24721 03.06.09	श्री वीमद्रेश्वर कृपा, लक्ष्मी एक्सेटेंशन, गोकाक तालुका, बेलगोंव
205204	मंजूला रानागट्टी भीमन्ना रानागट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25455 02.03.10	मकान 358, महन्तेश नगर, समीप अब्बूकर दुर्गा जामखन्डी, तालुका, बागलकोट
205205	मंजूला श्रृगेरी बासावराज ए नं. श्रृगेरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29689 03.07.12	कृष्णापूर 2 क्रॉस, समीप इन्दी पम्प, पुलिस स्टेशन, पुराना हुबली, धारवाड़
205206	मंजूला .जी. जी. देवीन्द्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27226 22.03.11	एस.एच.ई.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा
205207	मंजूला. एम.एस. एम. वी. शंतवीरैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25582 05.03.10	मकान 2427, 1 मेन, 10 क्रॉस, दावणगेरे
205208	मंजूला .जी. एस. जी. शिवामूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28031 19.04.11	डोड्डावोमनहल्ली अनुबु पत्रालय, जगलौर तालुका, दावणगेरे
205209	मंजूला .पी. वाडीगर, प्रकाश एम. वाडीगर,	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24993 16.06.09	मकान 83, 5 क्रॉस, मेन, माईलासान्द्रा 7 स्टेज, 2 फेस, मैसूर रोड बंगलौर
205210	मंजूला . के.बी. वासवानेप्पा करलवार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25114 09.09.09	मकान 18, महावीर कॉलोनी, शन्तिनगर, हुबली धारवाड़
205211	मंजूनाथ लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29773 29.09.12	मकान 1/10, होसंगी ताण्डा, शोहरापुर तालुका, यादगिरी
205212	मंजूनाथ टोटप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24671 23.05.09	बाजार रोड केम्भावी पत्रालय, सुरापुर तालुका, गुलबर्गा
205213	मंजूनाथ ए.आर. एस. रमेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29180 14.05.12	संगम टेक्सटाइल, अनावेरी भद्रावती, शिमोगा
205214	मंजूनाथ अजनाल नगाप्पा अजनाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24277 29.04.09	112 क्रॉस, कुमार ओनी, लक्कुन्दी पत्रालय, गडग
205215	मंजूनाथ अब्बानावर वीरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23702 01.04.09	मकान 101/122, गोकक रोड, विकास नगर, हुबली तालुका, धारवाड़
205216	मंजूनाथ डोन्डी हनमंथ एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29387 21.05.12	नं. 1824 सेक्टर 10, अन्जनेय नगर, बेलगोंव

205217	मंजूनाथ गुरुलापुर शिवलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24811 05.06.09	बासवाशेखर स्ट्रीट , हल्लोर पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगाँव
205218	मंजूनाथ हुमनाबाद गुरुलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29805 12.10.12	भीमशंकर निलाया, बीजापुर रोड बासवा नगर सिंदगी पत्रालय तालुका, बीजापुर
205219	मंजूनाथ जानवेकर परशुराम जानवेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23823 04.04.09	लक्ष्मी निवास, महन्तेश नगर, घाटप्रभा पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगाँव
205220	मंजूनाथ जोवरागी मल्लिकार्जुन जोवरागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28366 31.05.11	चन्नाकेशवा निलाया, लक्ष्मीनगर, सिंदगी रोड इन्दी तालुका, बीजापुर
205221	मंजूनाथ कवाड़ी अन्नासा एच. कवाड़ी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27558 29.03.11	हंगगी ओनी, चेन्न पेट, पुराना हुबली, धारवाड़
205222	मंजूनाथ कलाल नागराज कलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28561 20.09.11	साई दुर्गा निलाया, नामदेवगल्ली, हिरेकरूर तालुका, हावेरी
205223	मंजूनाथ कान्ति गिरीधर एम. कान्ति.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23916 09.04.09	एल.आई.जी-202, मनीपाल तालुका, हुडको कॉलोनी, उडुप्पी
205224	मंजूनाथ करन्दगीमठ योगेय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27920 12.04.11	करूदगीमठ नर्सिंग होम, स्टेशन रोड, बदामी तालुका, बागलकोट
205225	मंजूनाथ मरीगौड़ा रामनागौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26899 20.09.10	लक्ष्मेश्वर पत्रालय, श्रीराहट्टी तालुका, गडग
205226	मंजूनाथ मरावडे ईश्वर्षा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24824 05.06.09	मकान 510, के.के. सक्रिल, गजेन्द्रगढ, रॉन तालुका, गडग
205227	मंजूनाथ पट्टर रेवप्पा एम. पट्टर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28938 26.04.12	गोदावर स्ट्रीट, सामलिंगेश्वर चौक, सिंदगी तालुका, बीजापुर
205228	मंजूनाथ पॉल शिवरुद्रा पॉल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26048 19.03.10	संगमेश्वर कॉलोनी, ज्ञानग बावडी, बीजापुर
205229	मंजूनाथ शिवप्पा डानडीन शिवप्पा डानडीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28438 20.06.11	मकान 278, निलोगल, कुशतगी तालुका, कोप्पल
205230	मंजूनाथ स्वामी केदार स्वामी केदारनाथ स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26491 06.04.10	बालागनौर, सिंदनौर, रायचुर
205231	मंजूनाथ .डी. लक्ष्मना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24199 24.04.09	समीप देवनागमठ गंगावटी तालुका, कोप्पल
205232	मंजूनाथ एच.डी. दशरथ हिरोली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25264 02.11.09	प्लॉट नं. 4, बी.एल.डी.ई रोड, मल्लिकार्जुन नगर, बीजापुर

205233	मंजूनाथ .आर. रामाकृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26239 23.03.10	मकान 210, ब्लॉक नं. 18, वचगाँव पत्रालय, बंगलौर
205234	मंजूनाथ .एस. शिवरुद्रप्पा .एच. सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25516 04.03.10	मकान ई-53/3, देवीनगरा, नगशेटटीहल्ली, संजय नगर पत्रालय, बंगलौर
205235	मंजूनाथ. डी. नायक धरमनायक. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24958 10.06.09	मकान 24एफ, आई.आई.एच.आर कॉलोनी, हिसारगट्टा, टी. बी. लेक पत्रालय, बंगलौर
205236	मंजूनाथ एम. टी. थिप्पस्वामी. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29999 08.04.13	समीप. रविन्द्र कॉलेज, एच.बी. कॉलोनी, टी -आर, नगर, चल्लाकेरे -तालुका -चित्रदुर्गा
205237	मंजूनाथ .एम. मल्लप्पा एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25451 02.03.10	श्री राम मंदिर , ज्योति नगर, सीरा तालुका, टुमकुर
205238	मंजूनाथ पी. एम. पी.एम चन्द्रशेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25487 04.03.10	दोदापेट, मोलाकलमरु, पत्रालय, चित्रदुर्गा
205239	मंजूनाथ डी. देवीदास. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28136 26.04.11	नं. 359/1, एम.बी. केरी, दावणगेरे
205240	मंजूश्री आर. बी. सोमन्ना चैन्नूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29130 07.05.12	मार्स बिल्डिंग के पीछे, किशोरी पेट्रोल बंक, होस्पेट रोड, कोप्पल पत्रालय
205241	मंजूश्री एस. भरमा गौड़म	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27091 16.03.11	शिवानी, तारीकेरे तालुका, चिकमगलूर
205242	मंजूश्री सिद्दोलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29193 14.05.12	134/6, सरस्वती नगर, बी ब्लॉक, 4 क्रॉस 1 मेन रोड, दावणगेरे
205243	मंजूश्री जगन्नाथ सतीश के. सुभाष पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27360 24.03.11	मकान 2261, शान्ति निवास एग्रीकल्चर कॉलोनी, बीदर
205244	मनोहर लिंगराजू जे. लिंगराजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27590 30.03.11	मकान 07, विहारा, केमपनाल्या रोड, कोलेगल्ला सी.एच. नगर
205245	मनोहर निखिल विजय मनोहर विजय चन्द्रकांत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24454 05.05.09	श्री वीभद्रेश्वर निलाया, विक्रास, नगर, के.पी.टी.सी.एल. रोड, कोप्पल
205246	मनोहर सारंगी शिवप्पा सारंगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27520 28.03.11	गुलेगुद पत्रालय, बादामी तालुका, बागलकोट
205247	मनोहर. आर. पी. राजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27328 23.03.11	चिक्कायगटी, होसादुर्गा रोड, होसादुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
205248	मनोज केसरी हरीदास केसरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2013	28323 25.05.11	एस.वी.पी.आर. ए.एम.सी, बॉयस होस्टेल, बदामी ए/पी एण्ड तालुका, बागलकोट

205249	मनोज कुमार चुनी लाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25142 25.09.09	टीचर कॉलोनी, प्लॉट नं. 115 एम.पी. प्रकाशनगर होस्पेट तालुका, बेल्गारी
205250	मनोज कुमार शन्ता कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28402 09.06.11	कस्थूर गेट, केस्थूर पत्रालय, के. आर. नगर तालुका, मैसूर
205251	मनोज. कुमार पाण्डेय जगदीश दत्त पाण्डेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25744 12.03.10	मकान 1711, 1 क्रॉस, हांगेरी कॉलोनी, हुबली तालुका, धारवाड़,
205252	मनोज.जी. गणपति .जी आचार्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28249 12.05.11	जनता कॉलोनी, समीप रेलवे स्टेशन, मुरदेशवर पोस्ट, भटकल तालुक, यू.के.
205253	मनोज कुमार अचीलाल अचीलाल आर. पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28992 27.04.12	प्लॉट नं. 6, रूम न0 डी5, गणेशनगर, (माधा) काण्डीवली (पश्चिम) मुंबई
205254	मनोजकुमार गुवार मल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24341 29.04.09	मकान 156, गुवर गली, शंकाेश्वर पत्रालय, हुक्केरी तालुका, बेलगाँव
205255	मनु कुमार .एस. शिवास्वामी. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25645 06.03.10	सुन्दहाल्ली, विलेयूर पत्रालय, माण्ड्या
205256	मन्जूर अहमद खलील अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29848 05.11.12	मकान 447, तस्तीम शावली दुर्गा खुतुब शाहीनिशा नगर, कोलारी
205257	मारी स्वामी पंचक्षरैस्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29955 06.04.13	समीप कम्बलीमठ, सान्ते बाजार, रायचूर, मस्की
205258	मरीयप्पा हरीजन हुसेनप्पा हरीजन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29566 12.06.12	हलावगली पत्रालय, कोपल तालुका
205259	मरीयप्पा मतीनावर नीलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24556 13.05.09	राजूर पत्रालय, रॉन तालुका, गडग
205260	माकण्डे .जी. जेडार. गंगप्पा .एस. जेडार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24792 04.06.09	कलवाद पत्रालय, नवलगोड तालुका, धारवाड़
205261	मारने संदीप दिपक राव मारने डी. रावसाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24080 21.04.09	विक्रमपूर, प्लॉट न0.18, अठनी तालुका, बेलगाँव
205262	मरूलाराध्या मठ पंचकेसरी मठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27087 16.03.11	हिलटॉप कॉलोनी, केम्बावी शोरापुर -तालुका, गुलबर्गा
205263	मारुति निन्नाप्पा बेलानल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24547 13.05.09	वेललूर, कटराकी पत्रालय, कोपल तालुका,
205264	मसाल प्रमोद ब्रह्मदेव मसाल ब्रह्मदेव कृष्णान्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23848 06.04.09	2199, पोगनीसबोल, समीप मराठी स्कूल, मकान 2, महादेव गली, निपानी, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव

205265	मशालकर पल्लवी बाबूराव बाबूराव बी. मशालकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29732 23.08.12	सार्वधिक मकान 4-1-200, मारवाडी गली, स्टेशन रोड, उदगिर पत्रालय एवं तालुका लेचर
205266	मास्कर प्रवीन जुम्बाराव मास्कर जुम्बाराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25306 27.11.09	मकान नं. एल.आइ.जी.-24, संगमेश्वर निवास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बीदर
205267	मास्के सरिका एकनाथ मास्के एकनाथ श्रीपति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24417 05.05.09	विद्यानगर, वेलीहोंगल, बेलगोंव
205268	मसान्ड अमित बलराम बलराम मसान्ड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28696 15.03.12	मकान 406, प्रिती अपार्टमेन्ट, कोदीअल गोठू (पश्चिम), कोददल बली, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड
205269	मोर्या अदित्य नारायण सूर्य नाथ मोर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30593 02.08.13	302, आर -2, आदर्श नई मूवी स्टार, सिनेमा, राममंदिर रोड महाराष्ट्रा
205270	मोर्या धर्मेन्द्र बांकेलाल बांकेलाल मोर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29544 28.05.12	ए/502, गणेशतोवीर, ओम साई कप्लेक्स, जनता नगर रोड, भयन्दर (पश्चिम) थाने
205271	मोर्या विजयकुमार रामशंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24273 29.04.09	देसाई ओनी, समीप त्रिकूटेश्वर मंदिर, गडग
205272	मावीनमार शंकरागोड मावीनमार सोनकन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24817 05.06.09	ई. डबलू. एस. 90, आदर्श नगर, आश्रम रोड, बीजापुर
205273	मायादेवी शिंदे एकनाथ राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28562 29.09.11	मकान नं. 5-2-70, समीप रेलवे गेट, सिद्यार्थ नगर, बीदर
205274	मयूर शेरखाने नरसिम्हा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30233 30.04.13	आर.एस. नं. 154/बी, प्लॉट नं. 44, आदर्श नगर, हुडको कॉलोनी, गडग
205275	मुहम्मद अलताफ एम.ए. अलताफ.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27244 22.03.11	मकान 9-5-236, इरानी इमामबाड़ा के पीछे, बदरुददीन कॉलोनी, बीदर
205276	मुहम्मद महबूब अली मुहम्मद हासम अली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23997 18.04.09	मकान 4, के.ई.बी ऑफिस, हुवनीहादगी तालुका, बेल्लारी
205277	मुहम्मद शफीक बाबू मियाँ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25998 18.03.10	पत्रालय एवं तालुका क्वाटर्स, आर. एस. पत्रालय ऑफिस, गुलबर्गा
205278	मुहम्मद फिरोज हुन्डेकर मुहम्मद इशाक. मुहम्मद हुन्डेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26229 23.03.10	मकान 1048 डी, आदर्श नगर, शाहपुर तालुका, यादगिर
205279	मुहम्मद मुस्ताफ मदनसाब जी. मौला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27848 08.04.11	ई/2/98, मालानौर ए/पी, सोरपुर तालुका, यादगिरी
205280	मेदारी पासी कोनस्टन सुनगोह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25223 13.10.09	विश्वा कुटीर, उदवारा , बोलारगुददे, उडप्पी तालुका, दक्षिण कन्नड

205281	मीना कुमारी मोहन हिलालपुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30140 22.04.13	मकान नं. 18-2-378, राम नगर कॉलोनी, घिदरी रोड़, बीदर
205282	मीना कुमारी बी. भीम कुमार. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27541 28.03.11	मकान 336, 5 क्रॉस, सिंडीकेट बैंक लेआउट, हिरोहाल्ली, बंगलौर
205283	मीना वी. वेन्कटेश . एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24632 18.05.09	मकान 48, 2 क्रॉस 38 मेन रोज, गार्डन, 6 फेस जे.पी. नगर, बंगलौर साउथ
205284	मीनाक्षी शारनप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29224 15.05.12	नं. 266, 3 क्रॉस ब्लॉक, वीरेन्द्र, पाटिल नगर, सदीम रोड़, गुलबर्गा
205285	मीनाक्षी ईश्वर. बी. होसूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23843 06.04.09	रघुवेन्द्र कपा, जोग रोड़, होसूर, सिददापुर, उत्तरी कन्नड़
205286	मीनाक्षी मिश्र एक्स. एस.जी.टी. एस.के. मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25434 26.02.10	मकान 12-3-172, अम्बिका निवास, लिंगाआनन्द, कॉलोनी खाजी कॉलोनी, बीदर
205287	मीनाक्षी विजयाकुमार मानकरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25427 26.02.10	मकान 9-5-160, विवेकानन्द नगर, घिदरी रोड़, बीदर
205288	मीनाक्षी एम. माल्लेशा पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29777 29.09.12	मकान 10, 2 क्रॉस, किलोस्कर फाउन्डरी, यशवन्तुर, बंगलौर
205289	मेघा सागवान राजबीर सिंह सागवान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28207 04.05.11	83 सी, 6 ए क्रॉस, बनाशंकर 3 गार्डन, बंगलौर
205290	मेघा .के. कृष्णाप्पा .वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24118 22.04.09	मकान 36, विकास लेआउट, मारुति नगर, येल्लान्का, बंगलौर
205291	मेघा .के.एस. के.आर. सत्यानारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27524 28.03.11	मकान 101, 3 एस.आर. कम्पाउन्ड, अरकरे, बन्नरघट्टा रोड़, बंगलौर
205292	मेघा. टी. टी. दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25681 12.03.10	मकान 422, चेनीगा निल्या, 6 क्रॉस, बासवेश्वरा भावने, होस्पेट तालुका, वेललारी
205293	मेघना देसाई शंकर राव देसाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26069 19.03.10	मकान 198, किल्ला, केरूर पत्रालय, बादमी तालुका, बागलकोट
205294	मेघना कुलकर्णी अशोक एच. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30385 22.05.13	ए.टी.रोड़, बादामी, बगलकोट
205295	मेघना .ए नं. नारायण टी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24208 24.04.09	मकान 64, सी.आई.एस.एफ. कॉलोनी, कुदरेमुख पत्रालय, मुदीगिरी तालुका, चिकमगलूर
205296	मेघाश्री . जी.टी. लोकेश . एस.डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24205 24.04.09	3 कॉस, होस्माने, शिमोगा

205297	मेहात्रे सोमनाथ राजाराम राजाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23933 13.04.09	कल्याण नगर, समीप राघवेन्द्रा, मंदिर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
205298	मेनका ए.एस. अन्नेप्पा शेरीकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29119 07.05.12	मकान नं. 9-7-123, गांधी गंज पुलिस स्टेशन, बीदर
205299	मेनका मकन्नावर येल्लप्पा एस. मकन्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29174 11.05.12	येल्लारपुर ओनी, हुबली तालुका, धारवड़,
205300	मंगशेट्टी ईश्वरी सुभाष सुभाष मंगशेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30295 08.05.13	आप्ली आवद, शिवजी चौक, मेन रोड, लादूर
205301	मेनकुडले धनेश्वरी शिवराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30205 29.04.13	पत्रालय राडी, तालुका —अम्बाजोगी, बीड, राडी
205302	मेध्रे महालाप्पा रेवनसिद्धा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29664 18.06.12	हुलजन्ती पत्रालय, मंगलवेधा तालुका, सोलापुर
205303	मैत्री काशीनाथ गुरुबासप्पा एम.जी. सिदरामप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24429 05.05.09	सिओजवकर, के.एम. पी. रोड, बादामी तालुका, बागलकोट
205304	मैत्री राजाशेखर महादेवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25001 18.06.09	अश्विनी कॉलोनी, बी.एल.डी.ई. रोड, बीजापुर
205305	मैत्री वीणा मैत्री भीमराया पीरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29698 06.07.12	शिवाशान्ति ड्रेसस, बाजार रोड, इन्डी पत्रालय एवं तालुका, बीजापुर
205306	मावेकरी अमिना अब्दूलसतार बी. मावेकरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30110 19.04.13	पत्रालय ब्रुन्द गली मालकापुर, तालुका —शाहवादी, कोल्हापुर, मलाकापुर
205307	म्हास्के गणेश श्रीराम श्रीराम शैली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29888 17.12.12	वारददी, बी.के. पत्रालय तालुका, सिंघखेद राजा
205308	मिलन भोजाकर सुकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30091 18.04.13	ग्राम एवं पत्रालय मंजारी, तालुका —चिकोडी, बेलगाँव, मंजारी
205309	मिलिन्द वेनाके सुभाष टी0 वेनाके	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	24121 22.04.09	डियाजियो इन्डिया लिमिटेड, मकान 2012, श्रेयस प्लाजा, 2 फ्लोर, एच.ए.एल. 2 स्टेज, इन्द्रानगर बंगलौर
205310	मीनाजागी प्रीति भीमाप्पा भीमाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26698 29.05.10	मकान 39, मल्लिकार्जुन नगर, आश्रम रोड, पी.एवं.टी क्वाटर्स के पीछे, बीजापुर
205311	मीनाक्षी बन्देप्पा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29120 07.05.12	नं. 1-16, गडी गोड गाँव, बासवाकल्याण, तालुका बीदर
205312	मनाजिला जब्बार एच.ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30334 16.05.13	फातिमा मंजिल, अददोर वाया गुरुकपा, दक्षिण कन्नड, मंगलौर



205313	मिन्. मैथ्यु के. के. जे. मैथ्यु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29068 05.05.12	नं. 166, 2 स्टेज, 2 ए मेन मैसूर
205314	मिसर श्रुति प्रमोद मिसर प्रमोद चन्द्रकान्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27066 15.03.11	नं. 201, बासवेश्वर रोड़, धारवाड़
205315	मिसबा नाज काजी अब्दूल रब काजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29251 15.05.12	नं. 12, सुभाष नगर, करवर रोड़, पुराना हुबली धारवाड़,
205316	मिसबा सुहाना मुहम्मद इजहर-उल-हक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28493 26.07.11	सैरा मंजिल, मकान 672, विजयानगर, 2 स्टेज गुददीनहल्ली हासन
205317	मिसबाह फिरदोस अमीर अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29679 29.06.12	मकान 340, 4 मेन, सुभाष नगर, बदेमकान लेआउट, ए नं. आर. मौहल्ला, मैसूर
205318	मिसबाह कहकशॉ वासिम अहमद खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30440 31.05.13	नं. 04, सत्यानगर, बैराप्पनहल्ली, मेन रोड़, एम. एस. नगर पत्रालय, बंगलौर
205319	मिश्र रजनीशकुमार श्रीकांत पी. मिश्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28838 16.04.12	मकान 505, गांधी नगर, रूड़की (गणेश वाटिका) रूड़की हरीद्वार
205320	मिश्रा संदीप शेषमन्त एम. शेषमन्त सत्यनारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23777 03.04.09	एस.एस.आर. ए.एम.सी. इनचल, सौदत्ती तालुका, बेलगाँव
205321	मिथिलेश जैन शरद जैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25031 02.07.09	दुकान नं. 5, गार्डन सक्रिल, ए.पी.एम.सी. रोड़, सिद्दापुर, ए नं. कर्नाटक
205322	मिथून कजहाकरन मधावन के.वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27592 30.03.11	बालाजी फार्म, एस. गुट्टहल्ली गेट, गेटीगेनावे होस्कोटे, बंगलौर
205323	मिथून के. शेड्टी बी. कृष्णप्पा शेड्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24771 04.06.09	मकान 1-220/11, कैकुन्जा रोड़, बी.सी. रोड़, बन्तवाल तालुका, दक्षिण कन्नड़
205324	मिथूना शिवशिम्पी बी.वी. शिवशिम्पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26858 02.09.10	रामदुर्गा क्रॉस, बदामी तालुका, बागलकोट,
205325	मिटकारी अमरुता अनिलराव अनिलराव .वी.मिटकारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23815 04.04.09	प्लॉट नं. 34, एच नं. 8-9-270, गुरुनानक कॉलोनी, बीदर
205326	मोगले लक्ष्मी अशोक अशोक एस. मोगले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24919 09.06.09	मकान 450 (नकुल), 3 ब्लॉक, एच.एम.टी. लेआउट, विद्यारण्यापुरा बंगलौर
205327	मोहम्मदसफी शैक ईस्माईल शैक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25518 04.03.10	मकान 367, कुम्भर गली, लौंदा पत्रालय, खानपुर तालुका, बेलगाँव
205328	मोहम्मद नुरुल हुसे नं. बी. अब्दूल नजीरसाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26855 02.09.10	प्राथमिक मॉडल सरकारी कन्या विद्यालय, होस्पेट रोड़, हरपनहल्ली, देवनागिरी

205329	मोहम्मद रफीक. एस. हामीद .एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27549 28.03.11	मकान 21-184, चिक्काबा नहाल्ली, मोलाकलमरु तालुका, चित्रदुर्ग
205330	मोहम्मद इमरान अवाटी हारुन सैयिद अवाटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28600 19.10.11	मकान 08, ए.पी.एम.सी. स्टॉफ क्वार्टर्स, इन्दी रोड, बीजापुर
205331	मोहम्मद इशाक शमशेर बेग मोहम्मद बेग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23827 06.04.09	जोराम्मनावर, मकान 151/1/बी50, बासवा नगर, गोकक तालुका, बेलगाँव
205332	मोहम्मद मुकताफ सुलईमान बी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30296 08.05.13	डी. नं. 3-35, बड्यार, वेलोमा, गाँव, डेरालकटटे पत्रालय, दक्षिण कन्नड़, मंगलौर
205333	मोहम्मद शफी मुल्ला अब्दूल मुनाफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30500 15.06.13	टिप्पईकोप्पा पत्रालय, -मैसूर, तालुका -हिरैकरुर, हावेरी
205334	मोहम्मद रईस मोहम्मद ईदरीश एच. बेन्नेशिरूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27900 11.04.11	अमेल ए/पी, शिंदगी तालुका, बीजापुर
205335	मोहम्मद अजहरुदीन शाहजहाँ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28474 04.07.11	गुठी पेट, मोहल्ला, शाहपुर तालुका, बेलगाँव
205336	मोहम्मद जफर एच. शाशवली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23897 09.04.09	मकान 4 नुरुानी मस्जिद के पीछे, कामेला रोड, बेल्लारी
205337	मोहम्मद मुबाशेर -उल-हक मोहम्मद मुजफ्फर-उल-हक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27750 06.04.11	मकान 4-1-60, सारदापुरा नूर खान, तलीम, बीदर
205338	मोहम्मद थमीम वी. हम्माबा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25824 12.03.10	शफी विला मकान 9-54, बाजल पत्रालय, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड़
205339	मोहम्मू लाल एम.सी. कोठाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28552 20.09.11	मकान बी 7, 6 क्रॉस, एम.एम.पी.टी. कॉलानी, सी.आई.एस.एफ पनाम्बूर, मंगलौर
205340	मोहन भांगे तानाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24615 18.05.09	समीप गाँधी चौक, स्टेशन रोड, भाल्की तालुका, बीदर
205341	मोहन भस्मे चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24903 09.06.09	मकान 3570, सदाशिव नगर, बनाहटटी, जमखन्डी, बागलकोट
205342	मोहन गलाप्पागोल हनमन्तराय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27355 24.03.11	बंजारा क्रॉस, पुराना मुगलकोड मठ के सामने, बीजापुर
205343	मोहन कगवाडे अशोक कगवाडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25610 06.03.10	जुगल पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव
205344	मोहन कृष्ण.जी. जी. रामचन्द्रय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29288 17.05.12	नं. 9-81 ए/1, विजयापुरा, राजीवनगर, जीवाकोना, तिरुपती चित्तूर,

205345	मोहन कुमार वी.सी. वी.वी. चन्द्राकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26675 20.05.10	मकान 33, एच.आई.जी.आई. जी4, डबल मेन रोड, के.एच.बी. कॉलोनी, होटागल्ली वेलावोडी, मैसूर
205346	मोहन कुमार .आर. बी. राजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27574 29.03.11	मकान 5/56, बियोन्ड, पी.एण्ड.टी. क्वार्टर्स, अर्सीकरे तालुका, हसन
205347	मोहन मोनिका राजेश राजेश मोहन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30350 20.05.13	एच. 5/बी/307 गीतांजलि, देवन इन्कलेव, अम्बाडी रोड, वसई (पश्चिम), मुम्बई
205348	मोहन नायक बासवाराज रामप्पा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29192 14.05.12	जंगीथल पत्रालय, हुकेरी तालुका, बेलगॉव
205349	मोहन स्वामी. जे. एस.एस. जगदीश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26856 02.09.10	महावीर जैन कॉलेज के पीछे, कोर्ट रोड, डोडाबल्लापुरा, बंगलूरु
205350	मोहन कुमार. बी.सी. चन्नाबसप्पा बी.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25827 12.03.10	कोल्मबी, होन्नाली तालुका, दावणगेरे
205351	मोहन कुमार एस.एस. शिवन्ना .वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24756 04.06.09	मकान 3447, दत्तात्रेय कम्पाउन्ड, अर्सीकरे तालुका, हासन
205352	मोहनराज पारुशेट्टी श्रीशैली एम. पारुशेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29082 05.05.12	नं. 225, राजेन्द्रा निवास, गुंजी पत्रालय खानपुर तालुका, बेलगॉव
205353	माहसिन कडेगॉव अब्दूलासिम. के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26178 22.03.10	कारेशी पत्रालय, चिक्कोडी, तालुका, बेलगॉव
205354	महोसिन नवाज खान वजीर जॉन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	25425 26.02.10	डी. नं. 19, एच.आई.जी., के.एच.बी. कोलोनी, कल्याणगिरी, मैसूर
205355	मोहसिन सौदागर वसिर अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28324 25.05.11	नं. 58, भगवान गली नन्दागन, गोकाक-तालुका, बेलगॉव
205356	मोहम्मद फारुक आजम मोहम्मद इदरीस	बी.ए.एम.एस. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार वि.वि., मुजफ्फरपुर 2009	26917 27.09.10	मकान 248, 6 क्रॉस, नयादानहाल्ली, मैसूर रोड, बंगलौर
205357	मोहम्मद मिकदाद सैद मोहम्मद इकबाल सैद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28210 04.05.11	नं. 1017, 14 बी, क्रॉस, 1 पलोर, जे.पी.नगर, सराक्कीगेट, बंगलौर
205358	माहिते विशाल उत्तम मोहिते उत्तम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24073 21.04.09	बासवा नगर 2 क्रॉस, रबकावी, जमखन्डी तालुका, बागलकोट
205359	मोहम्मद अजरुदीन मोहम्मद बसरुदीन दन्दोती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28670 13.01.12	मकान 14-441, गंज रोड, शाहबाद, चित्रापुर तालुका, गुलबर्गा
205360	मोहसिना सरवाद रफीक अहमद एच. सरवाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28371 09.06.11	जामा मस्जिद के पीछे, बागयत गली, बीजापुर

205361	मोमिन आशिया अलताफ अलताफ अबलाल मोमिन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26981 25.11.10	शेडवाल रोड, अठनी रोड, बेलगाँव
205362	मोमिन खाजापा शाअब्दूलासाब अब्दूलासाब मोमिन	बी.ए.एम.एस. बी.ए. मराठावाड़ा वि.वि. औरंगाबाद 1998	27003 21.12.10	रेवा स्ट्रीट, मकान 35-36, बासवाकल्याण, बीदर
205363	मोमिन मोहसिन बशीर बशीर अहमद मोमिन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24682 01.06.09	मकान 19996, अमित एक्स, कयान नगर, सिंदगी पत्रालय, बीजापुर
205364	मोमिन मुजामिल सरदार मोमिन एस. गुलामदस्तीगीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24077 21.04.09	विक्रमपूर, प्लॉट न0.18, अठनी तालुका, बेलगाँव
205365	मोमिन नजहतबानो इकबाल इकबाल मोमिन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30078 17.04.13	नं. 125-ए, आसरा हाउसिंग सोसाइटी, होटगी रोड, तालुका एवं सोलापुर
205366	मोनिका मुनागम गंगैय्याह एम.ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30457 05.06.13	मकान 1050, कनकादासा हॉस्टेल रोड, नेस एक्स. तालुका मालावल्ली, मन्ड्या
205367	मोनिका एच. ए नं. नागराजा एच.जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27588 30.03.11	मकान 13/47, 7 रोड, के.आर. नगर, मैसूर
205368	मोकम्बीका एम.टी. ए. डी. थिप्पैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	27014 07.01.11	मकान 326, सी.वी. रमन नगर, डी.आर.डी.ओ. टाउनशिप, बंगलौर
205369	मोरे अर्चना दिनकर मोरे दिनकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26697 29.05.10	मकान 39, मलिकार्जुन नगर, आश्रम रोड, पी.एवं.टी क्वार्टर्स के पीछे, बीजापुर
205370	मोरे आशीष सुभाष मोरे सुभाष विट्ठल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27143 18.03.11	शिवलान्टा शेटकर कम्पलेक्स बायेंस हास्टेल, गुम्पा तालुका, बीदर
205371	मोरे भाग्याश्री किसनराव मोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28824 13.04.12	मेन रोड, समीप बस स्टैण्ड, मन्ता पत्रालय एवं तालुका जालना,
205372	मोरे जयन्त दत्तात्रेय मोरे दत्तात्रेय भीमराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28939 26.04.12	नं. 418/445, परान्दा रोड, नायकवाड़, प्लॉट, गाँधी नगर बारसी सोलापुर
205373	मोरे किरण उत्तम राव उत्तमराव हरीभान मोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29618 14.06.12	मकान नं. 53/ए.एफ-2/29/06, नासिक पत्रालय, एवं तालुका,
205374	मोरे पूजा ओमप्रकाश मोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24159 24.04.09	पाटिल कॉटेज, एल.आई.जी. नं. 6, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, बसवातिथ रोड, हम्नाबाद तालुका बीदर
205375	मोरे प्रदीप बाबासो मोरे बाबासो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28485 18.07.11	एम.जी. हाससिंग कौलोनी, धारवाड़, बाय पास रोड, बैलहोंगल तालुका, बेलगाँव
205376	मोरे प्रवीना भीमराव मोरे भीमराव वेन्कट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30310 10.05.13	ए/पी शिंगरे, तालुका मरुद, रायगढ़, मरुद,

205377	मोरे शशिकान्त दयान्देव दयान्देव श्रीहरी मोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25396 22.02.10	एस.एस.आर. आयु. मेडिकल कॉलेज, इन्चल पत्रालय, सौन्दत्ती तालुका, बेलगाँव
205378	मोरे योगिता शामराव शामराव बाबूराव मोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23686 01.04.09	होस्टेल इन्चल मठ हॉस्पिटल, इन्चल, पोस्ट, सौन्दत्ती तालुका, बेलगाँव
205379	मोतवानी प्रवीन सुरेश एम. सुरेश असोदोमल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23840 06.04.09	श्री शिवाशंतीवीरा निलाया, पी.यू.सी. कॉलेज के पीछे, गायत्री नगर, कोप्पल
205380	मोनश तेग्गीनामनी सायावन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28412 20.06.11	यन्नीवाडागरी ए/पी, सौरापुर तालुका, यादगिरी
205381	मौनेश्वरी मल्लप्पा एच. तालागरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28866 18.04.12	मकान 947/3ए, मंगौली रोड, शिवाजी नगर, समीप चिदाम्बर मंदिर, बीजापुर
205382	मृदुला ए.पी. ए. पुरुषोत्तम भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28927 26.04.12	श्रीनगरी, पत्रालय एवं तालुका, चिक्कमगलूर
205383	मृत्युंजय आराध्यमठ एम.एम. आराध्यमठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27445 25.03.11	वीरापुरा हिरेकेरुर तालुका, हावेरी,
205384	मुवीना अब्बास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30360 20.05.13	सुन्नाथीकेरे हाउस, गुरुवायनकेरे पत्रालय, वेल्थनगड्डी तालुका, दक्षिण कन्नड
205385	मुबीन मुल्ला हुसैनसाहब एच. मुल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30373 21.05.13	एम.आई.जी. 120 के.एच.बी. कॉलोनी शंकरेश्वर, तालुका -हुक्केरी, बेलगाँव, संकेशवर
205386	मुबीना बेगम अब्दूल रहमान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28703 26.03.12	मकान 2681/ए, कसई गली, निसरुदीन ए खान, बेलगाँव
205387	मूछंदी प्रकाश रामचन्द्र रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24875 06.06.09	लक्ष्मी प्लॉट नं. 1, अमीनागढ़ पत्रालय, होगोद तालुका, बागलकोट
205388	मुदसीर अहमद ए.एम. अब्दूल मगीद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28898 20.04.12	नं. 7122/21, 4 क्रॉस बंगलौर क्लीनिक, कुवेम्पू नगर, कोलार तालुका
205389	मुडकन्ना अर्पिता अशोक अशोक वी. मुदकन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30017 10.04.13	समर्थ नगर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे, ओसमानाबाद
205390	मुहम्मद युनूस बशीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24320 29.04.09	4 क्रॉस, प्रेमनगर, सकलेशपुर तालुका, हासन
205391	मुजाहीद दारुगर मोहम्मद हनीफ एच. दारुगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27403 25.03.11	मकान 309, दुर्गा ओनी, सुदाम्बी, बायदगी, हावेरी
205392	मुजाहीद पाशा एम. महबूब पाशा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27241 22.03.11	नूर मंजली, 3 क्रॉस, कुवेम्पू नगर, कोलार

205393	मुकेश मोहन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30169 25.04.13	मकान नं. 1-907/10बी, रेलवे स्टेशन के पीछे, 3 क्रॉस, शाहाबाज कॉलोनी, गुलबर्गा
205394	मुक्ता भूयार चन्द्राशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24327 29.04.09	ताईकृपा कम्पलेक्स, रबकवी, जमखन्डी, तालुका, बागलकोट
205395	मुक्ता पाटिल कृष्णा . बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25843 12.03.10	क्वार्टर्स नं. 9, विद्यानगर, बेलगाँव
205396	मुक्ता पी.एस. सत्यनारायण पी.जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27164 18.03.11	680/2, क मेन, पी. जे. एक्स, दावणगेरे
205397	मुक्ताश्री टी.पी. एम. जी. पदमाप्रभा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24161 24.04.09	मुखीश्री निल्या, 7 क्रॉस, गोकुल एक्स, टुमकूर
205398	मुकुन्द राज. ए नं. नगराजप्पा एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23920 09.04.09	मकान 2397, 4 मेन, विनयानगर, मैसूर
205399	मुकुन्द वैचल रमेश एकनाथ वैचल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25249 24.10.09	चिनचली (मायाक्का), रायबाग तालुका, बेलगाँव
205400	मुलानी फिरोज इन्नूस इन्नूस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24478 11.05.09	बी.वी.वी.एस. बायेंस होस्टल बागलकोट
205401	मुलानी जैस्मीन बाबासाहेब बाबासाहेब मुलानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30337 17.05.13	हारून राशिद करनूल पत्रालय पट्टादकल्ल
205402	मुलानी कादिर सुबेदार मुलानी सुबेदार कासिम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25319 02.12.09	आयु. मेडिकल कॉलेज व्यायज हॉस्टेल, बादामी तालुका, बागलकोट
205403	मुले रवि रमेश मुले रमेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27595 30.03.11	ए नं. के.जे. आयु मेडिकल कॉलेज, श्री सिद्दारुध मठ गुम्पा, बीदर
205404	मौला गोड कविता बासवाराज बासवाराज एस. मुलगाँव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30371 21.05.13	24/4 विजयालक्ष्मी सी.एच.एस. तिलक नगर, एल.एल. राय मार्ग डोमबीवील (पूर्व), थाने दोमबीवील
205405	मौला आफरीन रज्जाक रज्जाक कासिम मौला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24624 18.05.09	रायचूर मानवी रौड, परिवार धाबा, मानवी पत्रालय, रायचूर
205406	मौला अतिका एम.डी. इकबाल मौला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28330 25.05.11	प्लॉट नं. बी-28, राल नगर, बेलगाँव
205407	मौला शमीम आसत खान मौला आसत खान याकूब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29936 07.03.13	ग्राम एवं पत्रालय गांव, कन्या विद्यालय के सामने तालुका हटकानांगले, कोल्हापुर
205408	मुम्बरादादी श्वेता शेषप्पा शेषप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24176 24.04.09	गौलीगली, गजेन्द्रगढ पत्रालय, रॉन तालुका, गडग

205409	मुमताज बेगम ए.सी. इलाहाबादकशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25539 05.03.10	मकान 1528, चामुण्डी नगर, आर.टी. नगर, बंगलौर
205410	मुन्दे भारत जनार्दन राव एम. जनार्दन सत्यावजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27110 17.03.11	ए नं. के.जे. ए.एम.सी. गुम्पा बायेंय, हॉस्टेल, बीदर
205411	मुनीर बेगम बालावट्टी मौलासाब ए. बालावट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29650 18.06.12	जंगुदीकोप्पा वेलगापेट पत्रालय, हंगल तालुका, हावेरी
205412	मुनि राजू के. ए नं. इश्वराप्पा के.एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24973 11.06.09	मकान 77, 3क्रॉस अयाप्पनगर, के.आर. पूरम, बंगलौर
205413	मुरली कृष्णा पी. सत्यनारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29479 24.05.12	बी-605, फेस -1 समीप ए नं. एच-9, वनस्थलीपुर पत्रालय, रंगारेड्डी
205414	मुरलीधर महेन्द्रकर अमरनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27311 23.03.11	नवनागर, गडग रोड, गवनौर तालुका, हावेरी
205415	मुरलीधर आर. हनुमन्थ .आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24257 28.04.09	मकान 233, ए नं. एच.आई.जी. -डी-6, 5 फेस, येलहाण्का न्यू टाउन, बंगलौर
205416	मुरुन्नी रेखा मुरुन्नी होसागुरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25449 02.03.10	चन्द्रोदया निलाया, 8 क्रॉस, एम. जे., नगर, होस्पेट तालुका, वेल्लारी
205417	मुश्रीफ शाही शहरफुद्दीन एम. एस. रज्जाक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24074 21.04.09	ताईकृपा कम्पेलकस, समीप. दनाम्मा मंदिर, रबकावी
205418	मुस्तफा मौला अमीरहमजा मौला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	28284 17.05.11	मकान 724/बी, शिवाजी मेन रोड, जमखन्डी तालुका, बागलकोट
205419	मुत्तप्पा एच. हंचीनाल बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24486 11.05.09	यरेहन्चीनाल पत्रालय, यलबुर्गा तालुका, कोप्पल
205420	मुत्तप्पा एच. अराकेरी हनमन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30035 16.04.13	पत्रालय खाटीजापुर, तालुका एवं जिला बीजापुर, खाटीजापुर
205421	मुत्तप्पा यतनाल मलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29386 21.05.12	सुटटाती पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगॉव
205422	ए नं. हनुमनथप्पा राव निमीशकवा ए नं. वी. सुब्बा राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1972	30581 24.07.13	मकान 217, श्री तिरुमला विन्टेज अपार्टमेन्टस, बसापुरा मेर रोड, इलेक्ट्रॉनिक, सिटी (पी.ओ), बंगलौर
205423	ए नं. नारायण स्वामी एस. नागराजा	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापूर 1997	28504 02.08.11	वेन्गलापुर, श्रीरामपूरा, होसदुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
205424	ए नं. बी. भाव्या ए नं. एस. बासवाराजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24024 20.04.09	मकान 66-67, विनायका नगराख 4 वार्ड, रोगीपुरा डोड्डावल्लीपुरा, बंगलौर रुरल

205425	नबीसाब कमतानूर हस्तागीसाव कमतानूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26029 19.03.10	मुस्लिम गली, कल्लाली पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगाँव
205426	नचीरेथा चेब्बी विनोद चेब्बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29095 7.05.12	नं. 543, 26 मेन रोड, नन्दनी लेआउट बंगलौर
205427	नदफ अस्फाक अब्दुल नदफ अब्दुल इमामसो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25288 21.11.09	अश्विनी कॉलोनी, बी.एल.डी.ई. रोड, बीजापुर
205428	नदफ इमरान नबी जब्बर अली नदाफ जब्बार अली ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28808 13.04.12	3046 समीप एल.जी. बाजार, नदाफ दारुवाला लाईन, पन्थारापूर सोलापुर
205429	नदफ सरफराज खाजासो नदफ खाजासो गुलाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24141 22.04.09	बाजार रोड, बैलहोंगल तालुका, बेलगाँव
205430	नदात्ती सम्पदा सर्जेराव सर्जेराव अपराय नदत्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29028 05.05.12	श्री कृपा आनन्द कॉलोनी गांधी नगर, गांधीगंज, कोल्हापुर
205431	नदीम आरिफ मोहम्मद अरिफोला शरिफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25229 14.10.09	ए/आर नं. 1421, ब्लॉक नं. 23, सान्थीपेट स्कूल के पीछे, हासन
205432	नागाजोथी टी.ए. अनथ नारायण शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26553 13.04.10	मकान 443, 10 क्रॉस, जी.मेन रोड, राजाजीनगर, बंगलौर
205433	नागमणि अश्वथ नारायणप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25807 12.03.10	मकान 291/1, के.ई.बी. कॉलोनी, एम.जी. रोड, गोवरीबदनूर, चिकवालापुर
205434	नगनन्दा के. नागभूषण के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29231 15.05.12	नं. 3/12, 19ए. भास्कर निल्याम, 1 फ्लोर कृष्णा चेट्टी स्ट्रीट, वेल्लारी
205435	नागनाथ वेन्कट राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25128 24.09.09	मकान 10-816, उप्पर लेन बह्मापुर, गुलबर्गा
205436	नागराज महादेवप्पा सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23898 09.04.09	सुलेपेट पत्रालय, चिनचोल तालुका, गुलबर्गा
205437	नागराज बड़ीगर देवेन्द्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24702 02.06.09	विनायक नगर, नवलोर, धारवाड,
205438	नागराज गडग ईरावासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28268 17.05.11	बथारा कॉलोनी, तरावी रोड, प्लॉट नं. 39, बीजापुर
205439	नागराज जैहल गोपालकृष्ण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25513 04.03.10	श्री देशपाण्डे कॉलोनी, स्टेशन रोड, मकान 168, बीजापुर
205440	नागराज कामथ निथयनन्दा कामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29144 08.05.12	नं. 4-94ए1, समप्रीत, अम्बापाडे पत्रालय, उडुप्पी



205441	नागराज मेनासिकड् रामलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30327 15.05.13	सर्वगन्या संक्रिल, सोमापुर स्ट्रीट, नगरागौड तालुका गडग, नगरगौड
205442	नागराज पाटिल भामनगौडा होस्मनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30121 19.04.13	केसवकी हन्चीनालू, पत्रालय केसराहट्टी, तालुका गंगावटी, कोप्पल, केसराहट्टी
205443	नागराज पूजारी डोन्डप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25162 01.10.09	राजाजीनगर, मुंसिफ कॉलानी, के.पी.टी.सी.एल ऑफिस के पीछे, बीजापुर
205444	नागराज विश्वकर्मा वीरुपक्षप्पा विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28699 17.03.12	मकान 198, तालकल पत्रालय, येलबुर्गा तालुका, कोप्पल
205445	नागराज ए. शावी वेन्कटेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23882 09.04.09	वार्ड नं. 6, इन्चल पत्रालय, होंगौड तालुका, बागलकोट
205446	नागराज. बी. मस्ती बुद्दु गोडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23902 09.04.09	वेलाम्बर पत्रालय, अन्कोला तालुका, उत्तर कन्नड़
205447	नागराजा शमन्ना शीरावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24551 13.05.09	शिव गंगा निलाया, तवरागेरी पत्रालय, कुस्तागी तालुका, कोप्पल
205448	नागराजा एस. गंगाधरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30351 20.05.13	नं. 92, एस.टी. ओनी होसा उरू, रामदुर्गा कुडुलीगी तालुका, वेललारी, रामदुर्गा
205449	नागराजा के. कृष्णप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24691 02.06.09	कल्लान्दूर, बेगी पत्रालय, कोलार
205450	नागराजा एम. हनुमन्तशा .एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25763 12.03.10	मकान 115, 3 मेन 16 क्रॉस, राजाराम नगर, हरीहर तालुका, दावणगेरे
205451	नागराजा.एस. सक्करे नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26021 19.03.10	मुगीरेड्डीपल्ली वेन्कटपुरा पत्रालय, बेगेपल्ली तालुका, चिक्काबालपुर
205452	नागराजागौडा पाटिल बापूगौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27367 24.03.11	बासवेश्वर निलाया, सावनोर रोड, शिगगॉव तालुका, हावेरी
205453	नागराजू मोघल चिन्ना कोटा मस्तान .एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28549 07.09.11	एस. के .ए. एम.सी. 10 क्रॉस, पाइपलाईन, बंगलौर
205454	नागरश्ना शिवशरणप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25686 12.03.10	स्पेशल आर.एस.आई एच.क्यू. कॉलोनी, 6 बी.एन, के.एस.आर.पी. सुपर मार्केट, गुलबर्गा
205455	नगरश्ना. ए नं. कान्ती नारायणा. एम. कान्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26578 17.04.10	एल.आई.सी. कॉलोनी, कोदुबेट्टू, उडुप्पी
205456	नगरश्ना बागेवाडी बासवाराज बागेवाडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29631 14.06.12	बसापुर, पत्रालय अरालीकट्टी, बेलगॉव

205457	नगरस्थना जरातरघर सुरेश जरातरघर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29146 08.05.12	नं. 5-354, गुड्डे आनन्दी उदयावारा, कम्पानबेट्टू उडुप्पी
205458	नगरस्थना सुनकड अप्पासाहेब सुनकड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29612 14.06.12	मकान 99, विश्वास एश्वर्य नगर, आश्रम रोड, बीजापुर
205459	नगरस्थना ए. बुडीबासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28909 26.04.12	नं. ए नं. ए-207, टी.एस.पी.एल कॉलोनी, टी.बी. डेम, होस्पेट पत्रालय एवं तालुका वेल्लारी
205460	नागरे ममताजी मारुति नागरे मारुति बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25159 30.09.09	समीप पत्रालय ऑफिस, बदामी तालुका, बागलकोट
205461	नागरेकर सुशांत शान्तराम शान्तराम एस. नागरेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24822 05.06.09	गौली गली, गजेन्द्रगढ पोस्ट, रॉन तालुका, गडग
205462	नागार्जुना .टी. रविन्द्र टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30122 19.04.13	5-5-114 / 47 / 011, चैतन्या कॉलोनी, बन्सवाडा, निजामाबाद, बन्सवाडा
205463	नागश्री एच. हनुमन्धरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30156 24.04.13	समीप ग्राम पंचायत, बंगलौर रूरल, नीलमगंला
205464	नागाश्री के.एस. श्रीनिवास के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29182 14.05.12	नं. 624 / 10, कदूर रोड, वेलगूर पत्रालय, होसदुर्गा वेल्लारी
205465	नागावेनी बुट्टा बासवाराजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29260 16.05.12	वार्ड नं. 9, विवर्स स्ट्रीट, कुरघोदू पत्रालय वेल्लारी
205466	नागेकर अपर्ना अशोक नागेकर अशोक किरा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23787 04.04.09	जवाली प्लॉट, गजेन्द्रगढ पत्रालय, रॉन तालुका, गडग
205467	नागेन्द्र मधावराव तडमल्ले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28635 21.11.11	मकान 39, जाम्बगी (बी) पत्रालय, औराड तालुका, बीदर
205468	नागेन्द्र पाटिल चन्नाबासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26026 19.03.10	मकान 234, 295, भंजान्तरी ओनी, नल्लानट्टी पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगॉव
205469	नागेन्द्र शब्बान्नावर येल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26586 19.04.10	गुरलापुर पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगॉव
205470	नागेश कन्नोली बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24975 11.06.09	हिप्पारागी पत्रालय, जमखन्डी तालुका, बागलकोट
205471	नगमा निगार जी. मोहम्मद गयाज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	29868 20.11.12	नूरानी मोहल्ला सुमाजा वेलार रोड, थन्नीरुहल्ले वेलूर रोड, हासन,
205472	नगरिया आशिष हरसुक हरसुक शान्तिलाल नगरिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26838 25.08.10	समीप देसाई व्यायज हौस्टल, जलदर्शनी, लेआउट आर. के. नगर, धारवाड

205473	नायक अनिता सोमाशेखर सोमाशेखर एस. नायक	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापूर 1995	25245 23.10.09	प्लॉट नं. 67, ए नं. सी.सी. ऑफिस के पीछे, श्रीनगर कॉलोनी, बीजापुर
205474	नायक यूसफ मोहम्मद रागिक नायवाडी एम. शैफान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25144 25.09.09	वाड नं. 29, समीप नदगोद देवी मंदिर, राजाजीनगर, बीजापुर
205475	नायर पार्वथी मोहन मोहन कुमार वी. नायर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30526 26.06.13	173/5, काव्या, पादाव्यू, नन्थौर, मंगलौर
205476	नाखरेकर विनायक वसन्त वसन्त कृष्णाजी नाखरेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29230 15.05.12	देवरुख पत्रालय, मराठा कॉलोनी, संगमेश्वर तालुका, रत्नागिरी
205477	नलागे अनुजा भामाशंकर भीमाशंकर एस. नलागे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25365 19.01.10	के.पी.एस.वी.एस ए.एम.सी. कन्या हॉस्टेल, मानवी, रायचुर
205478	नलावाडे पल्लवी प्रकाश प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24847 06.06.09	समीप लिंगेश्वर मंदिर, बांगर गली, जोरापूर पेट, बीजापुर
205479	नलावाडे शरद दत्तात्रेय नलावाडे दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23812 04.04.09	यादनवाडी, मलिकवाड पत्रालय, चिक्कोडी, तालुका, बेलगाँव
205480	नलिनी बी.के. कृष्णप्पा बी.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29001 27.04.12	रंगेनहल्ली, यराबल्ली पत्रालय, हिरयूर तालुका चित्रदुर्ग
205481	नामदेव लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28764 05.04.12	मकान 5-28, समीप वेटेनरी हॉस्पिटल, यादरमी, जावेरगी तालुका, गुलबर्गा
205482	नमना एच. ज्योति एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30345 20.05.13	मकान 1456/1, 1 मेन, 12 क्रॉस, विनोभा नगर, दावणगेरे
205483	नमित कुमार सुधाकर .पी. हब्बू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24333 29.04.09	एच.आई.जी -38, नया के.एच.बी. कॉलोनी, करावर तालुका, उत्तर कन्नाडा
205484	नमिता शंकर पुथरान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25221 13.10.09	नामिता निलाया, महालक्ष्मी नगर, उचिल्ला, उडुप्पी तालुका, दक्षिण कन्नड़
205485	नमिता नायक लक्ष्मण ए. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23757 03.04.09	स्टैट बैंक ऑफ मैसूर मेन रोड, मुदबीदरी तालुका, दक्षिण कन्नड़
205486	नमिता .एम. महादेवा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24807 05.06.09	मकान 478, 4 क्रॉस, हेब्ल 2 स्टेज, मैसूर
205487	नमिता ए नं. जे. निन्नाजीराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27371 24.03.11	रेनुकाम्बा मंदिर रोड, रेनुकाम्बा, वडवाने काशीपुरा, शिमोगा
205488	नामिता .टी. एम.सी. थिप्पेशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25286 21.11.09	कोराटेकेरे, चिक्कागनूर पत्रालय, चन्नागिरी तालुका, दावणगेरे

205489	नम्रता .एम. उमेश शेटी .एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27183 18.03.11	मकान 1-22-1642, शिवरामराव लेन, उरवा, मार्केट, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़
205490	नन्दिनी .ए नं. के.ए नं. नागाराजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26580 19.04.10	मकान 27, 4 मेन, 7 क्रॉस, सी.डी. ब्लॉक, गंगानगर, बंगलौर
205491	नन्दा अक्रास, ली गुरुनाथ एच अक्रास, ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30073 17.04.13	गॉव बन्दीवाड, तालुका —हुबली, धारवाड, हुबली
205492	नन्द जी. लंगोटी उर्फ बन्नूर गुनापाल टी. लंगोटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29263 16.05.12	जयानगर, शिगगॉव, हावेरी
205493	नन्द के. ओ. ओमप्रकाश के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30047 16.04.13	डी. नं. 204, जे.एस.एस. डॉ० क्वार्टर्स, होस्मूठ रोड, मैसूर
205494	नन्दबासप्पा बिजापूर मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24640 21.05.09	मकान 89, शास्त्री नगर, बीजापुर
205495	नन्दाकुमारी मन्तानावर हनमनथ जी. मन्तानावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28912 26.04.12	कमालदनी पत्रालय, गोकक तालुका, बेलगॉव
205496	नन्दन होडलूर शंकरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25801 12.03.10	सेक्टर नं. 62, प्लॉट नं. एम 42, नवनगर, बागलकोट
205497	नन्दानीकर पल्लवी बापूसो नन्दानीकर बापूसो परिसा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24091 21.04.09	ताईकृपा कम्पलेक्स, रबकावी समीप दनाम्मा मंदिर, रबकावी
205498	नन्दराज एस. बाबूर शरनाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30257 03.05.13	समीप चौडेश्वरी मंदिर, वार्ड नं. 4, इन्चल तालुका, बागलकोट, इन्चल
205499	नन्दीप एस.बी. बनप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25384 05.02.10	हलाप्पा सक्रिल, बी.एच रोड, भद्रावती, शिमोगा
205500	नन्दीश्वरा बी.जी. गडीगप्पा बी.पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25825 12.03.10	बासापूरा, मलानयकना हल्ली पत्रालय, रानीबेन्नूर तालुका, हावेरी
205501	नन्दिनी .चब्बी. रुद्रप्पा बी. चब्बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28817 13.04.12	मकान 725बी, बसवा ज्योति, 7 क्रॉस, बासवानगर वेलहोंगल, बेलगॉव
205502	नन्दिनी .एम. मराप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23991 18.04.09	शंकागघटटा, कुवेम्पू विश्वविद्यालय, भद्रवती तालुका, शिमोगा
205503	नन्दिनी महादेवप्पा येलशेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25512 04.03.10	मकान 5-2-290, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यादगिर तालुका
205504	नन्दिनी भीमशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25607 06.03.10	नन्दिनी निवास, रामपुर, गजराकोट पत्रालय, यादगिर तालुका, गुलबर्गा

205505	नन्दिनी बी.एच.एम बी.एच.एम विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29183 14.05.12	नं. 5/126/19 बी, कुदलागी रोड, हगरी बोम्मनहल्ली, वेल्लारी
205506	नन्दिनी .डी. विजय कुमार डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	29903 31.12.12	सिंदगी रोड, ए.आई.एम.ई.एल यू.के.पी. कैम्प, बीजापुर
205507	नन्दिनी हिरेमथ शेखैरया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24684 02.06.09	अचैना निलाया, समीप मारुति मंदिर, भाग्या नगर, कोप्पल
205508	नन्दिनी .जे.पी. के.पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30536 01.07.13	सिद्दरामप्पा एक्सटेंशन, 3 क्रॉस, फ्लोर मिल्ल, के सामने हालाकरे टाउन, चित्रदुर्ग
205509	नन्दिनी केडमानी कन्टप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29794 12.10.12	1 क्रॉस, केशवनगर, बासवना बागेवाडी पत्रालय, बीजापुर
205510	नन्दिनी टी. ए.एम. शान्तिहाह टी.ए.एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29978 06.04.13	बापूजी नगर 2 वार्ड, समीप गांधी चित्राभासमा, कुदीलगी
205511	नन्दिनी .ए.सी. चिक्कानरसय्या .के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26238 23.03.10	मकान 1555, 16 मेन रोड, एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बंगलौर
205512	नन्दिनी बी.आर. सी.आर. राजशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24573 14.05.09	मकान 1072, लिंगदाहल्ली मेन रोड, तारीकेरे तालुका, चिकमगलूर
205513	नन्दिनी सी.ए. नं. सी.पी. नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25570 05.03.10	मकान 216/3, मेन रोड, बन्नयमन्ताप एक्सटेंशन, के.आर. नगर, मैसूर
205514	नन्दिनी एम.पी. सतीश राजन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26177 22.03.10	मकान 372, 12 क्रॉस, 4 मेन 2, स्टेज, वाकर महालक्ष्मीपुरम, बंगलौर
205515	नन्दिनी ए नं. के. नगप्पा कौरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24479 11.05.09	मकान 44, बी.एस.के. मेन रोड, राजगोपाल नगर, पीन्या 2 स्टेज, बंगलौर
205516	नन्दूरकर सुरज रामचन्द्र नन्दूरकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27791 07.04.11	एम.एम.सी. व्यायज हॉस्टेल, इन्चल पत्रालय, सौन्दत्ती तालुका, बेलगॉव
205517	नंगारे रजनीकांत बालासो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23841 06.04.09	रवि भरमप्पा तुप्पाड, रवि, निलाया, 1 क्रॉस, कोप्पल
205518	नंगारे रेश्मा दत्तात्रेय दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25561 05.03.10	बी.एम.जे. हॉस्टेल, डबल रोड, गजेन्द्रगढ, रॉन तालुका, गडग
205519	नंजुनदेश मलतेशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28581 19.10.11	कोस्नूर पत्रालय, हंगल तालुका, हावेरी
205520	नांव चावन लक्ष्मण चावन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29795 12.10.12	मारुति नगर, अल्लापुर, मेगा नगरा पत्रालय जेवारगी तालुका, गुलबर्गा

205521	नफाडे अभिजीत सदाशिव नफाडे एस. एकनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24087 21.04.09	बासवा नगर 2 क्रॉस, रवकावी जमखन्डी तालुका, बागलकोट
205522	नारायण पाइ बी. अप्पूरया पाइ बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23756 03.04.09	
205523	नारायण पाण्डुरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25232 15.10.09	सुन्थान, रोल्ला पत्रालय, बासवा कल्याण तालुका, बीदर
205524	नरेन्द्र गौरव मानप्पा गौरव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26135 20.03.10	मकान नं. 2010/11, (एस), एम.जी. हाउसिंग कॉलोनी, वेलहोगल तालुका, बेलगाँव
205525	नार्क सन्दीप कुन्डलीक कुन्डलीक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25164 05.10.09	एम. बी. कलाल बिल्डिंग, समीप वंन्कटेश थियेटर, मुन्दागी तालुका, गडग
205526	नर्मदा. आर. आर. रंगास्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26960 29.10.10	मकान 275, 6 बी, 1 स्टेज, गायत्रीपुरम, उदायगिरी पत्रालय, मैसूर
205527	नरसिम्हामूर्ति .आर. भीमसेन राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25252 24.10.09	मकान 6-3-61, समीप पाण्डुरंगा मंदिर, शोरापुर तालुका, गुलबर्गा
205528	नटराज परपाकजे एस.बी. परपाकजे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28897 20.04.12	न0 16, श्री गोवरी माथूर लेआउट, येलहान्का, न्युटन जी.के.वी.के., पत्रालय बंगलौर
205529	नटराज. एच आर. रामे गौडा एच.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25015 25.06.09	प्रकृति (एक्स), हेथूर पत्रालय, संकलेशपुर, हासन
205530	नटराज . आर. रामगौडा. वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25102 19.08.09	मकान 17, 1 क्रॉस, 1 मेन रोड, चन्द्रशेखर लेआउट विश्वनदीम, पत्रालय बंगलौर
205531	नटराज. एस. एम. सिद्दन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28382 09.06.11	लोगोन्हल्ली, देवनाहल्ली तालुका, बंगलौर
205532	नटराज. टी. के. करप्पा टी.ई.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27364 24.03.11	वादेरहाल्ली, कुनुकन्दा पत्रालय, कदूर तालुका, चिकमंगलूर
205533	नौकडकर सुचेता ए नं. अरविन्द सखाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25816 12.03.10	समीप वेललाड बागेवाडी बैंक, घटाप्रभा, गोकाक, बेलगाँव
205534	नौशाद खान मोहम्मद पीर खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25637 06.03.10	सालीग्रम, भेर्या पत्रालय, के.आर. नगर तालुका, मैसूर
205535	नवीन कुमार यादव विजयनारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29222 15.05.12	नं. 63, 7 क्रॉस, कुरुबरहल्ली, सक्रिल बासवेश्वरा, नगर बंगलौर
205536	नवीन पुजार अप्पन्ना पूजार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27357 24.03.11	सिंदगी रोड, बीजापुर

205537	नवीन सज्जन काशीनाथ सी. सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26692 29.05.10	तलीकौटी पत्रालय, मुददेबीहाल तालुका, बीजापुर
205538	नवीन शेट्टी वासुदेव शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23891 09.04.09	मकान इ-11/77, रंगमपेट पत्रालय, शोरापुर तालुका, गुलबर्गा
205539	नवीन शिरासंगी बासवाराज सिरासंगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30375 21.05.13	6 गली दन्दापूर, नरगौड गडग
205540	नवीन सिवापुत्रप्पा गुलालाकर्ई शिवपुत्रप्पा गुलालाकर्ई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29442 24.05.12	कुधारीहाला, हरानगिरी पत्रालय, रानीबेन्नुर तालुका, हावेरी
205541	नवीनकुमार डोडामनी सिद्दाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24201 24.04.09	अन्नेगौदी रोड, विरूपापूर, गंगावटी तालुका, कोप्पल
205542	नवीन कुमार पाटिल वीरनंगौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24552 13.05.09	आर/ओ, हिरे हंगाइ, मान्गी तालुका, रायचूर
205543	नवीन कुमार बी.डी. देवराजू बी.ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25065 22.07.09	बिलथालू, हडलहल्ली, संकलेश्वरपुर, हासन
205544	नवीनकुमार एच.ए. नं. नरसिम्हा मूर्ति. एच.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24212 24.04.09	हेब्बाले पत्रालय, अरकलगुड तालुका, हासन
205545	नवकाकाडी रीताबेहन चन्द्रवदन एच. नवकाकाडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25058 17.07.09	मकान 18/2-3, 2 मेन रोड, स्ट्रीट, एम.वी.आर. ब्लॉक बेसोन टाउन पत्रालय, बंगलौर
205546	नवनीत हल्दीपुर विजयानन्द हल्दीपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24383 05.05.09	मकान नं. 93, दिवीगी पत्रालय, कुमटा तालुका, उत्तर कन्नाडा
205547	नव्या पी. बी. पी. प्रसाद बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28785 11.04.12	वीरे शेट्टाहल्ली गाँव, अंगोदहल्ली पत्रालय, मुलबागल तालुका, कोलार
205548	नव्या डी.पी. पुट्टैय्याह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24502 11.05.09	मकान 27/ए, 2 मेन क्रॉस, अलनहल्ली लेआउट, मैसूर
205549	नव्याश्री डी.ए. नं. डी.वी. नरसिंहामूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25036 02.07.09	मकान 107/10, 5 क्रॉस, लेआउट, विरगोनगर पत्रालय मेदाहल्ली, बंगलौर
205550	नायक गीथा मोहनदास मोहनदास नायक	बी.ए.एम.एस. गोवा वि.वि., गोवा 2005	26975 18.11.10	जी-5, मीनाक्षी कम्फोर्टस, केलेना, रामनाघट्टा मेन रोड, बंगलौर
205551	नायक शिल्पा उपेन्द्र ए. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27953 18.04.11	जे.-2सी, 201, ए नं. जी.वी., कोरामंगला, बंगलौर
205552	नायक कुमार. एस. सुब्रमन्या बी.एस.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24672 23.05.09	मकान 191/4 वार्ड, पल्थमोले (एच), पांजे गाँव एवं पत्रालय पट्टूर तालुका, दक्षिण कन्नड़

205553	नयना रामा बन्त रामा डी.बन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23893 09.04.09	वेला वन्दर रोड़, अंकोला पत्रालय एवं तालुका, उत्तर कन्नाडा
205554	नयना विनोद्वया हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25564 05.03.10	कुम्भाशी पत्रालय, कुन्दापुरा तालुका, उडुप्पी
205555	नाईला अंजुम अलीम अंजुम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29282 16.05.12	नं. 30-2-77, कल्यान मन्ताप्पा रोड़, त्रिपूरन्ता बासवन कलीयान, बीदर
205556	नाजिया ईशरथ सईद रहमत उल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29787 12.10.12	मकान 365, 1 मेन, चिन्तामनी नगर, हरीहर तालुका, दावणगेरे
205557	नाजिया बेगम अब्दूल खादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24347 29.04.09	मकान 5, रत्न सिंह आर.डी., फराजेरद टाउन, बंगलौर
205558	नजरिया बानू उमर कुन्नी.एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24495 11.05.09	मकान 207ए, उजीर पत्रालय, वेल्ठनगड्डे तालुका, दक्षिण कन्नड़
205559	नाजिया फरहीन अस्लम शरीफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29296 17.05.12	शरीफ मंजील, मन्दागरे, के.आर. पेटे तालुका, मान्दया
205560	नाजिया खातून सरताज सुभानखान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29557 12.06.12	रेमोन्ड होम के सामने, पाडे कनूर गल्ली, स्टेशन रोड़, बीजापुर तालुका एवं,
205561	नाजनिन सिंकदर भोरे एस मोहम्मद. हनीफ भोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30089 18.04.13	ए/पी वालीवान्डे, तालुका -देवगड, सिंधुदुर्ग देवगड
205562	नीलकान्ता जे. सज्जनार सज्जनार जे.वी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24513 12.05.09	मकान 438/ए, 7 क्रॉस, 5 मेन, जगदीश नगर नया थिप्पासान्द्रा बंगलौर
205563	नीलव्या जी. कोटी. गंगाधर कोटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25067 22.07.09	स्टेशन रोड़, अमराशेट्टी गली, बागलकोट
205564	नीलू पी. पकिरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28873 18.04.12	के.एच.बी. कॉलोनी मानवी, पत्रायल एवं तालुका, रायचूर
205565	नीरजा बी. बी. राममूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29845 30.10.12	मकान 6-10-388/10, के.बी. लेआउट, तिरुपति, चित्तूर
205566	नीरजाक्शी मल्लिग. टी. एच. थायन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24025 20.04.09	एम.आई.जी. 8/11, तिलक नगर, सुद्धा क्रॉस, कन्टोमेन्ट, वेललारी
205567	नीता वानकी चन्द्रहास आर. वानकी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29225 15.05.12	विशाल कुलकर्णी पेट, इलकल पत्रालय हुनगौड तालुका, बागलकोट
205568	नीता विष्णुपन्त देशमुख विष्णुपन्त देशमुख	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., बंगलौर 1989	29919 24.01.13	मकान नं. 1/1 पत्रालय खजूरी तालुका, अलन्द, गुलबर्गा



205569	नीता पी. पेरुमल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29108 07.05.12	नं. 788/डी, एलएन कॉलोनी, 1 बी मेन रोड, यशवन्तीपुर बंगलौर
205570	नेहा सम्परिया हनानी सम्परिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24867 06.06.09	मकान 8/124/3, रेहमान स्वामी, दम्बेल, अशोकनगर मंगलौर तालुका, दक्षिणा कन्नाडा
205571	नेहा यादव ए. सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30532 26.06.13	अशोका होटेल , लालबाग मेनगेट, बंगलौर
205572	नेहरू मन्दोली शिवमूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30354 20.05.13	राजागढ पत्रालय गोलासर, तालुका इन्डी, बीजापुर
205573	नेलशन ए. पट्टी अशोक डी. पट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28681 07.02.12	आनन्द निवास, नलवी बिल्डिंग के सामने, विद्यानगर, 3 क्रॉस हुबली
205574	नेथरावथी टी.एस. शरनप्पा टी.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29776 29.09.12	कनामदगू पत्रालय, कुदलागी तालुका, बेल्लारी
205575	नेत्रवथि एस. बी. भीमन्ना बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29761 29.09.12	मकान 07, सेरीकल्चर (क्वाटर्स), कुनीगल तालुका, टूमकुर
205576	नेत्रवथि निंगागोडा मलिपाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29081 05.05.12	विश्वानाथ काप्पली, संगमेश्वर, निलाया मठा होटेल के पीछे, हास्पेट कौप्पल
205577	नेत्रवथि कोट्टागस्ती बासवाराज कोट्टागस्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29376 21.05.12	प्लॉट नं. 48 शान्तिगरा, अठनी पत्रालय एवं तालुका, बेलगॉव
205578	नेत्रावथि आर. रामू .सी. एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26760 23.07.10	गगरी एस.एस. रोड, शिकरीपुरा पत्रालय एवं तालुका, शिमोगा
205579	निदागोंडी मिथून मनोहर मनोहर बी. निदागोंडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27820 08.04.11	वाडडर ओनी, वेलूर ए/पी, बादामी तालुका, बागलकोट
205580	निधि झल्लियाल एल. पी. झल्लियाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2001	29925 06.02.13	ए-2/107, घाटप्रभा ब्लॉक, नेशनल, खेल गॉव, कोरामंगला, बंगलौर
205581	निधि ठाकुर यशवन्त ए. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26561 15.04.10	मकान 527/बी, शारदा नगर, तिपूर, टूमकुर
205582	निहारिका रामीधामी ए. अजय रामीधामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28503 26.07.11	सिद्यारूध मठ, गुम्पा तालुका, बीदर
205583	निहारिका जे. डी. नरसिम्हा मूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28535 03.09.11	डी.एनत्र 1, कदाबा (हुबली), गुब्बी तालुका, टूमकुर
205584	निकाम सागर दिलीप दिलीपराव भिला पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25478 03.03.10	समीप श्रीनगर, समीप देसाई होस्टेल, धारवाड़

205585	निकाम संदीप जयवन्तराव ए नं. जयवन्तराव पान्दुरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24070 21.04.09	प्लॉट नं.0.7, ई.एल. बैथेल बुन्दलो राम, नगर निपानी चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
205586	निकम शिवसागर विलास निकम विलास दगडू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23792 04.04.09	ए नं. ए नं. नवनगर, फरेन्ड क्लब के पीछे, गजेन्द्रगढ, रॉन तालुका, गडग
205587	निकम तिरुपति मुकेश मुकेश सम्भाजी निकम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25668 08.03.10	गावली गली, गजेन्द्रगढ, रॉन तालुका, गडग
205588	निकम विजय बाबाराव जयसिंह निकम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29953 06.04.13	निकम जवेल्स वेलीगर ओनी, सौन्दत्ती-तालुका, बेलगाँव, सौन्दत्ती
205589	निकहत तरन्नुम हबीब उर्रहमान . एच.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28102 25.04.11	मकान 245, 14 क्रॉस, 2 मेन, उदयगिरी, मैसूर
205590	निकहत अमरीन मोहम्मद अली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30546 09.07.13	डोर नं. 550/बी, 29-30, दावणगेरे
205591	निखिल चन्द्रन सी. चन्द्र मोहन आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30308 09.05.13	विष्णु कृपा समीप के.वी.जी. आयु., मेडिकल कॉलेज, सुल्ला तालुका
205592	निखिलानन्द विजय कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26116 20.03.10	बुद्धवारपेट, बासवाकल्याण तालुका, बीदर
205593	निकिता अलेवोर कृष्णा मूर्ति अलेवोर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27615 01.04.11	श्रीनिकेतन, 1 पलोर, विद्यानगर, हुबली, धारवाड़,
205594	निलेश गवास नागेश टी. गवास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26127 20.03.10	मकान नं. 429, रुमे वाडी क्रॉस, खानपुर, बेलगाँव
205595	निलोफर एम.डी. सोफी बाबू मियां	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28920 26.04.12	ए-119, अल्हुदा उर्दू स्कूल, नया अरगी पत्रालय एवं तालुका, गुलबर्गा
205596	निलोफर एस.ए. शाहबीर अहमद राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28675 31.01.12	मकान 71, 1 पलोर, अप्पना ब्लॉक, चामुन्डी नगर आर.टी., नगर पत्रालय बंगलौर
205597	निम्बालकर संकेत शाहजी निम्बालकर एस. शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24549 13.05.09	मकान 10-2-310ए, समीप एमटीएम टॉकिस, मानवी तालुका, रायचुर
205598	निम्बलकर स्नेहल सुरेश ए नं. सुरेश तुकाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29138 08.05.12	वाखर भाग, कोकाने गली, मिराज पत्रालय एवं तालुका, सांगली
205599	निमिशा पी. पी. विजयन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28434 20.06.11	मकान 210, 1पलोर, 2 मेन रोड, मथुरा नगर मेटागली, मैसूर
205600	निंगादली सिद्दाराम गुरुशंतप्पा निंगादली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25350 04.01.10	वेटीनरी डिस्पेंसरी, शिरागुप्पी पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगाँव

205601	निगप्पा लिंबोजी हन्तमन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30573 22.07.13	पत्रालय कुलगाड, तालुका -गोकाक, बेलगाँव
205602	निरंजन पी.एम. जयादेवैया पी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23889 09.04.09	मकान 56, नेहरू नगर, चित्रदुर्गा एच.पी.ओ., चित्रदुर्गा
205603	निरंजन एस. सिद्देश आर.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28328 25.05.11	पी3 बी ब्लॉक, देवराज उर्स लेआउट, दावणगेरे
205604	निरंजना ए.एम. विष्णुमूर्ति ए.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23706 02.04.09	मकान 828, 6 वाड, अन्जनेय बदावाने, कोटूरु पत्रालय, कुदलीगी तालुका, वेल्लारी
205605	निरंजनराज के. बासवा राज के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28110 25.04.11	मकान 292/33/16 वाड 4, क्रॉस, बासवोश्वरा बडावाने, वेल्लारी
205606	निरंजन कुमार एम. मदैय्या एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24041 20.04.09	मकान 163, रावनी रोड, मालावल्ली तालुका, मन्डया
205607	निर्मल सचिन हनमन्तराव हनमन्तराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24692 02.06.09	मकान 849, गुलाम हुसेन गली, बीजापुर
205608	निर्मला के. एस. शिवलिंगप्पा के.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28599 19.10.11	मकान 733, 4 स्टेज, 1 फेस, विजयानगर, मैसूर
205609	निर्मला एस.जी. गोविन्दप्पा एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27388 25.03.11	सिददानमथा, चन्नागिर तालुका, दावणगेरे
205610	निरुपमा पाटिल ननगोडा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29498 25.05.12	मकान 43, नेहरू नगर, पवन हनुमान, मंदिर रोड, गंगाबावडी बीजापुर
205611	निर्वाणी गौडा के.एम. मल्लेश डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30392 23.05.13	कट्टाया (पी), हासन (टी) एवं (डी)
205612	निसर्गा विट्ठल बेवनूर विट्ठल पी. बेवनूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27664 02.04.11	एस -1, नेताजी नगर, टी.बी. दम, हॉस्पेट तालुका, वेल्लारी
205613	निश्चे बिदादा सी. पुरुषोत्तम बिडाडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30149 24.04.13	14-3-190, जोशीवाडी, गोशमहल, हैदराबाद
205614	निशाकुमारी पी.आर. पी.डी. राजेन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23773 03.04.09	एस.डी.एम कॉलेज आफ आर्युर्वेदा, थानीरहल्ला, बी.एम रोड, हासन
205615	निशान्त शर्मा चमन लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26921 27.09.10	प्लॉट नं. 2280, सक्टेर 9. 11, 4 क्रॉस, महन्तेश नगर, बेलगाँव
205616	निशान्त फातिमा मोहम्मद डी. इकबाल अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27661 02.04.11	मकान 2-1180, सिद्धकी शाह तलीम, इन्साइड नायकमन, बीदर तालुका,

205617	निशान्त तर्रनुम तजमूल अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23755 03.04.09	मकान 527, ताज पराडाइज, 1 मेन, 3 क्रॉस, आर.एम.एल नगर, शिमोगा
205618	निशान्त आर.टी. रुद्रप्पा सी.टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23833 06.04.09	मकान 325/1/46, नवनगर, हुनागौडा, बागलकोट
205619	निशान्त परवीन वार्चीवाले एम.डी. हसन वार्चीवाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	25341 22.12.09	मकान 4, मास्कू, इस्लामपूर, पुराना हुबली, धारवाड
205620	निश्चिता बी. बी.एस. बासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28893 20.04.12	नं. 3, ए नं. एम. लेन बिल्वा प्रिया निलाया, कोटोनपेट, बंगलौर
205621	निशमिता के.एम. जयप्रकाश एम.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30534 28.06.13	कौसथूबा समीप सिंडीकेट बैंक, कन्याना पत्रालय एवं गाँव, बन्तवल तालुका, दक्षिणा कन्नाडा
205622	नितिन देव पाई जी. वसन्त पाई जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25823 12.03.10	मकान 1-215-2-2-1, नेलिस्थला, कोटकर पत्रालय, मंगलौर तालुका, दक्षिणा कन्नाडा
205623	नितिन वी. वीरा नागप्पा वी.ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30462 06.06.13	न0 892, आर्शिवाद, 1 मेन, 5 3 स्टेज, 3 फंस, 3 ब्लॉक, बनाशंकरी बंगलौर
205624	नित्यानन्द यादव राजेन्द्र प्रसाद यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26492 06.04.10	एस.वी.पी. रूरल आयु. मेडिकल कॉलेज, बदामी, बागलकोट
205625	निवेधन एम. मुरली जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	30574 22.07.13	नं. 02, उगनावडी पत्राल एवं गाँव, देवनाथहल्ली तालुका, बंगलौर रूरल
205626	निवेदिता बिरादर पाटिल अन्नासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24343 29.04.09	मकान 60, श्री गौरी, लिंगराज कॉलोनी, गणेशपुर, हिन्दागले, बेलगाँव
205627	निवेदिता देसाई बालासाहेब सदाशिव देसाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29065 05.05.12	न0 1234, गांधीनगलाज रोड, नेसारी कोल्हापुर
205628	निवेदिता शेड्डीया नागेश ए नं. शेड्डीया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28332 25.05.11	नं. 164/बी, महादेववाडा रोड, अम्दालली, करवार, उत्तर कन्नड
205629	निवेदिता जी. जिन्गा गुरुेश जिन्गा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24177 24.04.09	मकान 4/टी.आर.एस., धारवाड
205630	निवेदिता हेब्बर .वाई. आर. विजयन्द्र भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27306 23.03.11	मकान 503, बिग बाजार, ईनर धन टाउन, उडुप्पी
205631	निवेदिता शेड्डी प्रकाश शेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27729 06.04.11	ई -1175, चिकोली क्रॉस, उप्पाकेरी, कुमटा तालुका, उत्तर कन्नड
205632	निवेदिता श्री के. ए नं. नारायणा बाबू के. ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30304 09.05.13	मकान 18, 7 मेन, 7 क्रॉस, श्री राम नगर, बनाशंकरी 3 स्टेज, बंगलौर

205633	निवेदिता एस. श्रीनिवास मूर्ति के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24234 28.04.09	मकान 78, 2 मेन रोड, अन्जनेयनगर, बी.एस.के. 3 स्टेज, बंगलौर
205634	निवेदिता एस. शेदटी शन्तराम शेदटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24267 28.04.09	मकान 4-1-15/1, काडीलबाली, श्रीदेवी कॉलेज, रोड, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नाडा
205635	निवेदिता पी. ए नं. नागेश पी.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28143 26.04.11	नं. 55/ए, कावेरी लेआउट, मडीकेरे, कोदागू
205636	नियथी आर. हेगडे रामदास हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30347 20.05.13	जलजकाशी निलाया, हिरोर मदगा, हिरोर, ब्रह्मदेव, उडुप्पी तालुका
205637	नुपूर काकडे के. ए नं. अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30436 31.05.13	मकान 46, ज्योतिगमया, चिन्नप्पा लेआउट, हब्बल केम्पुरा बंगलौर
205638	नूर फातिमा डी. मोहम्मद सैफूला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24389 05.05.09	मकान 396, 5 क्रॉस, 1 मेन रोड, महानगनपथी नगर, बंगलौर
205639	नौशेन ताज इनायथ उल्ला खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29109 07.05.12	नं. 226, 8 क्रॉस, सरावस्ती नगर, बंगलौर
205640	ओबालेप्पा इंगालगी अदिवेप्पा डी. इंगालगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29720 04.08.12	गिरीयाल (के.बी) पत्रालय, वेलहोन्गल तालुका, बेलगाँव
205641	आहल आनन्द सुभाष सुभाष ओहल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26731 28.06.10	समीप रूरल पुलिस स्टेशन रोड, एक्सटेंशन एरिया, बागलकोट
205642	पी. सुमन्थ पी. कृष्णा मूर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30159 24.04.13	ए नं. टी.आर. सक्रिल, डी. नं. 16/56, अन्ततनपूर, धर्मावरम
205643	पी.सी. सांवम्या पी. चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30401 27.05.13	श्रीनिवास निलाया, मकान 26/1, 18 क्रॉस, 4 ब्लॉक, पेन्था, बंगलौर
205644	पाध्ये स्नेहा अनिल पाध्ये अनिल पदमानाम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28791 11.04.12	ब्लॉक, नं. 9, 24, लोकमान्या, कॉलोनी कोठरूद हावेली तालुका, पुणे
205645	पद्मा बरागले अजित	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30218 29.04.13	रत्नाराय निल्या, मेन रोड, टर्डल, जमखण्डी तालुका, बगलकोट, टर्डल,
205646	पदमा आर. भट्ट पी.डी. राघवेन्द्र भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27800 07.04.11	कालसा पत्रालय, मोडीगिरी तालुका, चिकमगलूर,
205647	पद्मजी चौगले सी. धान्या कुमार भीमू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24095 21.04.09	भोज पत्रालय, चिककोडी तालुका, बेलगाँव
205648	पद्माप्रिय आस्की आप्पासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30034 16.04.13	पत्रालय दरूर, तालुका अठानी, बेलगाँव, दारूर

205649	पद्मश्री रत्नाकर राव. बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25024 29.06.09	डी. नं. 8, समीप एस.वी.टी, मेलकी पत्रालय, मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़
205650	पद्मावती ए नं. एस. सरीनमा ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24967 10.06.09	मकान 31, 1 बी मेन, पाईपलाईन रोड आर.पी.सी. लेआउट, विजयानगर 2 स्टेज, बंगलौर
205651	पद्मिनी एच.एस. श्रीनिवास शेट्टी के.एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25590 05.03.10	श्री रंगा सारी सेन्टर, मेना रोड, के.आर. पेट, मान्ड्या,
205652	संदीप वामनराव पडोल वामनराव बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25972 18.03.10	मकान नं. 16-400/12, समीप कैलाश नगर, एस.एस. मठ, बीदर
205653	पद्वाल राहुल परशुराम पी.जी. पद्वाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26817 21.08.10	रूम नं. 5, दीपक लोदगे, बी.डी रोड, मजेस्ट्रिक सक्रिल चित्रदुर्ग
205654	पगरिया वैभव दशरथ डी. विश्वनाथ पगरिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23783 04.04.09	बस स्टेण्ड के पीछे, गजेन्द्रगढ रॉन तालुका, गडग
205655	पल्लवी काशीनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23940 13.04.09	मकान 21-338, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हुमनाबाद तालुका, बीदर
205656	पल्लवी गुंडप्पा के. पापडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24635 18.05.09	मकान 9-4-147, खाजी कोलोनी, बी.वी.बी. कॉलेज रोड, समीप जॉबशेट्टी काम्पलेक्स, बीदर तालुका
205657	पल्लवी प्रकाश खटावकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26552 13.04.10	1-867/11, स्टेशन बाजार, वेन्कटेश नगर, गुलबर्गा
205658	पल्लवी सी. ई. ईश्वरप्पा सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30386 23.05.13	मकान 70, चिक्काडालवटा, तालुका -मधुगिरी, टुमकुर
205659	पल्लवी एम.डी. नायक अमित कुमार जी.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	29938 07.03.13	16/131 ए, पल्लवी, 2 क्रॉस, अनन्तनगर 2 स्टेज, मनिपाल, उडुप्पी
205660	पल्लवी नारेगल श्रीधर ए नं. नारेगल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28910 26.04.12	नं. 4471/1, लक्ष्मी नगर, कोटेकल, गुलेदगोड बदामी, तालुका, बागलकोट
205661	पल्लवी जी. जी. रामा मोहन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24392 05.05.09	मकान 14/206, 1, क्रॉस, देवन्द्ररा, मुनीरेड्डी, लेआउट, चिक्कालसान्द्रा, बंगलौर
205662	पल्लवी जी.वी. जी.एस. वेन्काप्पाचर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27078 15.03.11	18/57, 34 वार्ड, समीप वादाकारया मंदिर, मूर्तिनिलाया हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
205663	पल्लवी के.जी. गणेश के.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25777 12.03.10	अद्वल्ली गणपति काटटे, मगरमक्की, पत्रालय, ए नं. आर. पुरा तालुका, चिक्कमंगलूर
205664	पल्लवी के.एस. के.आर. सुब्रमन्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25771 12.03.10	स्वारा सौरभा, अगराहा, सागर तालुका, शिमोगा

205665	पल्लवी एम. बिरादर महारुदप्पा के. बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26625 27.04.10	मकान नं. 8-9-270/ए, 33/1 बासवार्थना नित्या, गुरुनानक कॉलोनी, बीदर
205666	पंचाल मयूर अशोक पंचाल अशोक वैजनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24316 29.04.09	सातवीं कोस, चालुक्य नगर, बादामी तालुका, बागलकोट
205667	पंचाल सचिन रघुनाथ रघुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27408 25.03.11	प्लॉट नं० 7, संगमेश्वर कालोनी, बीदर
205668	पांडे अमितकुमार फूलचन्द्र पांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29667 19.06.12	# 126, सरोतम यादव चास, शिवाजी नगर, कुरार गांव मसाड़ पूर्व, बोरीवली तालुका, मुंबई
205669	पांडे सिनी विजय विजय पांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27539 28.03.11	21 कि.मी., कनकापुरा रोड, बंगलौर
205670	पंकज पाटिल बालासाहिब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24397 05.05.09	# 1387/438, विक्रमपुर कालोनी, अटहानी तालुका बेलगांव
205671	पंकज पाटिल सीताराम पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28673 17.01.12	# 142, जोरापुर पीठ, बांगार गली, बीजापुर
205672	पन्नाग कामत बालाचन्द्रा कामत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26299 24.03.10	# 804, शशिगुली, नीलीकेरी कुमटा तालुका, उत्तर कन्नड़
205673	पंत प्रवीण राजकुमार पंत राजकुमार कांतिलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29739 03.09.12	# 129, सोमवार पीठ, करकंब ग्राम व पत्रालय पंधारपुर तालुका, सोलहापुर
205674	परब अखिल सुरेश परब सुरेश दिनकरराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27090 16.03.11	देसाई हास्पिटल, आर.के. नगर, धारवाड़
205675	पराग मंगनी प्रहलाद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29414 21.05.12	जोलद बाजार, शिवाजी रोड, मंगंग गली, जमखण्डी ग्राम व पत्रालय एवं तालुका बागलकोट
205676	परमज्योतिलक्ष्मी पाटिल बासवाराज पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27511 28.03.11	भागव्ही, दिवीगीहली, हायरकेरूर, हावेरी
205677	परान्जपे अनिता जयंत जोशी अमित शिशिर	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	27001 20.12.10	श्रीमती केएमएसी कॉलेज, शांतिनगर, बेडकीहल, चिक्कोडी, बेलगांव
205678	पारप्पा बालिकाई मागेप्पा बालिकाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28724 02.04.12	भागोजी कोपा ग्राम व पत्रालय, रामदुर्गा तालुका, बेलगांव
205679	पराशर अमृता अनिल रविन्द्रसिंह राजपुत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24924 10.06.09	गुरुकृपा निवास, राघवेन्दरा मंदिर के पीछे अटहानी तालुका, बेलगांव
205680	परशुराम एच ओलेकर हनुमनथप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28932 26.04.12	नं० 842, होसौनी, मुंडगोड, रेणुका निलाय, मुनगोड करवर

205681	परदेशी अजयसिंह कुंवरसिंह, कुंवरसिंह यू. परदेशी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24450 05.05.09	पहली क्रोस, टीपू सुल्तान नगर, बागलकोट
205682	परदेशी कार्जी चुन्नूलाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30228 30.04.13	54/476, गोखलेनगर, साई बाबा मंदिर के पीछे, पूणे
205683	परमार तोरलबेन मनुभाई परमार मनुभाई एल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30313 10.05.13	हरसिद्धी फार्म हाउस, नवागम, अंबुजा नगर के पास, तालुका—कोडीनार, डिस्ट्रीक जुनागढ़, नवागम
205684	परशुराम गुप्ता शरद प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26477 01.04.10	द्वारा केपीएसवीएस एएमसी, मानवी तालुका, रायचुर
205685	पारवती रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23895 09.04.09	महेश होटल, आरटीओ ऑफिस के पीछे, सीडम रोड, गुलबर्गा
205686	पार्वती बी हनमसागर बासवाराज एल हनमसागर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25363 19.01.10	# 69, एच टाईप, बंगुर नगर, डबलूसीपीएम लिमिटेड, डांडेलीहलियल तालुका, यू.के.
205687	पार्वती वी. जाली वीरुपाक्साप्पा आर. जाली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26172 22.03.10	समीप पोस्ट आफिस बंकापुर, शिगगौन तालुका, हावेरी
205688	पार्वतीकर अक्षया गुरुराई पार्वतीकर गुरुराज श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27070 15.03.11	द्वारा श्री सी.बी. गुटटल एएमसी, धारवाड़
205689	पतानु साई बाबू पी.एस. राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27104 16.03.11	नं. 32, साई नर्सिंग होम, शक्तिनगर, सेन्ट्रल बस स्टैण्ड के पीछे, गुलबर्गा
205690	पटेड राजकुमार श्रीकांत श्रीकांत आई पटेड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29768 29.09.12	# 239, बसरगी, जाट, तालुक सांगली
205691	पटेल महाराज सुल्ताना अब्दुल अब्दुल हई पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	27024 15.02.11	म. नं. 5—1—30, अहमद बाग, बीदर
205692	पटेल मिनाज उसमान गनी पटेल उसमान ए. कादिर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25905 15.03.10	म. नं. 213, पहली स्टेज, रानी चन्नम्मा नगर, बेलगांव
205693	पटेल रहमान महताब पटेल महताब चन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24438 05.05.09	म. नं. 4—601/34ए, चौथा क्रास, एम.बी. नगर, गुलबर्गा
205694	पटेल सचिनकुमार प्रदीपकुमार पटेल प्रदीपकुमार एल बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27807 08.04.11	द्वारा एस.वी.पी.आर. एएमसी, लड़को का हास्टल, बादामी, ग्राम व पत्रालय एवं तालुक बागलकोट
205695	पटेल रोनक कुमार पटेल प्रकाश सुडाम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29588 12.06.12	जंखवन ग्राम व पत्रालय, मंगलोर तालुक, सुरत
205696	पठान तबराज रियाज पठान रियाज खान वी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28983 27.04.12	मेनचड ग्राम व पत्रालय, अकांशा कॉमपलेक्स, एम्बेजन से पूणे



205697	पठान वसीमखा सलीमखा पठान एस गुलशेरखा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25335 18.12.09	म. नं. 930, सेक्टर नं. 6, इस्हासपूर्ति निवास, वांतमूर्ति कालोनी, बेलगांव
205698	पाटिल अभयसिंह विजयसिंह पाटिल विजयसिंह यशवंत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26848 01.09.10	त्यागराज रोड, कोप्पा तालुका कोप्पा, चिकमंगलोर
205699	पाटिल अभिजीत अशोक पाटिल अशोक भाउराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24646 21.05.09	केएचबी नं. 4, जामिया मस्जिद के पीछे, बीजापुर
205700	पाटिल अभिजीत महादेव महादेव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23720 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौनदती तालुका, बेलगांव
205701	पाटिल अभिजीत दनयादेव दनयादेव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24099 21.04.09	प्लॉट नं० 7, ईएल बैथल बंगलो राम नगर, निपानी, चिकोडी, तालुका, बेलगांव
205702	पाटिल अजय दौलतराव दौलतराव दादा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28480 18.07.11	द्वारा ए.डी. आर्यु. मेडिकल कालेज, चिक्कोडी, तालुका, बेलगांव
205703	पाटिल अमित नेमगोन्डा पाटिल एन एमगोन्डा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24407 05.05.09	श्री चन्नप्पानीदास्सागी, वरकरगली, कोप्पल
205704	पाटिल अमोल भैरू भैरू पिराजी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25219 13.10.09	पहली मेन, चौथी क्रास, तुलाजी इमारत, सदाशिव नगर, बेलगांव
205705	पाटिल अमोल शामराव शामराव सखाराम पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24854 06.06.09	# 1515, शाहूनगर, बेडकिहाल पत्रालय, चिकोडी तालुका बेलगांव
205706	पाटिल अमरुत मधुकर मधुकर पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25489 04.03.10	बथी झील के सामने, अश्विनी नगर, पी.बी. रोड, अश्विनी दावनगेरे
205707	पाटिल अमरुता राजाबापु पाटिल आर मालगोण्डा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24910 09.06.09	संकपाल, शामनवाडी, शांतिनगर, चिकोडी, तालुका बेलगांव
205708	पाटिल अनिरुद्ध निवरुती निवरुती मरुती पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25481 03.03.10	बस स्टैण्ड के सामने, बेलहोंगल, तालुका बेलगांव
205709	पाटिल अंजलि अडागोण्डा विजय कुमार वी. शिराहट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25281 06.11.09	# 184/ए, केएनएस सक्रल, कनकपुरा, बीदर
205710	पाटिल अर्चना अभय अभय रायगोडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29044 05.05.12	नं. 83/बी, सांगली रोड, लचलकरणजी ग्राम व पत्रालय हटकंगेल तालुक कोल्हापुर
205711	पाटिल अर्चना दिलीप पाटिल दिलीप दादासो	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30455 05.06.13	ग्राम व पत्रालय चन्दुर, तल हटकनांगेल, काल्हापुर, चन्दुर
205712	पाटिल आशिष अरुण राव पाटिल अरुण वामन राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26687 28.05.10	कैलाश नगर, 16-400/12, एस.एस.मठ, बीदर

205713	पाटिल अशोक अशोक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24330 29.04.09	एमआईजी 2 ए, हुडको कालोनी, अकोल रोड, निपानी पत्रालय, चिकोडी तालुका, बेलगांव
205714	पाटिल अशोक लिंगानागोडा लिंगानागोडा	बी.ए.एम.एस कर्णाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ 2001	29685 03.07.12	हलागेरी ग्राम व पत्रालय रनबेनुर तालुका, हावेरी
205715	पाटिल अश्विनी अरुण अरुण	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28277 17.05.11	द्वारा लडकियों का हास्टल, शाहुनगर, बेडकिहाल, चिक्कोडी, बेलगांव
205716	पाटिल अश्विनी माणिक पाटिल मणिक शमराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29298 17.05.12	मावली गवहन ग्राम व पत्रालय, तसगांव तल, सांगली
205717	पाटिल भारत बाबासाहिब पाटिल बी रामगोन्डा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24088 21.04.09	तयीकृपा काम्पलेक्स, समीप दनाम्मा मंदिर, रबकवी
205718	पाटिल भीमराव गुरुनाथ गुरुनाथ	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2003	28880 18.04.12	नं. 2/2, कल्लुर ग्राम व पोस्ट, हुमनाबाद तालुका बीदर
205719	पाटिल बृजेश पुंडालिक पाटिल पुंडालिक नामदेव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25596 06.03.10	द्वारा आरजीईएस एएमसी, रोन तालुका गडग
205720	पाटिल चेतन श्रीराम श्रीराम राजधर पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23950 13.04.09	सी.बी.नगर, म.नं. 68, सपतापुर, धारवाड
205721	पाटिल दशरथ पाटिल दशरथ पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25660 08.03.10	गोरी गली, गजेन्द्ररागढ़, रोन तालुका, गडग
205722	पाटिल दीपक नागराज नागराज काशीनाथ पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25205 09.10.09	रु 19.04.622, एमईएस कालोनी, हुमनाबाद रोड, नौबाद, बीदर
205723	पाटिल धनाक्षी बाबगोंडा सतगोंडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27866 11.04.11	दुर्गा नगर, जमखण्डी तालुका बागलकोट
205724	पाटिल दिग्विजेयासिंह विलासराव पाटिल वीआई रघुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24601 18.05.09	के.एम.पी रोड, बादामी तालुका, बागलकोट
205725	पाटिल दिपाली जीजाबराव जीजाबराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30529 26.06.13	ग्राम व पत्रालय बिदगांव, ताल-चौपड़ा, जलगांव
205726	पाटिल दिप्ति किशनराव पाटिल किशनराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28379 09.06.11	# 58101, उमा निवास, माथापट्टी गली, बीजापुर
205727	पाटिल गणेश रंगराव पाटिल आर पांडुरंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23966 13.04.09	रु 19.04.622, एमईएस कालोनी, नौबाद, बीदर
205728	पाटिल गायत्री जयवंत जयावंत भीका पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25184 08.10.09	चालुक्या नगर, सातवीं क्रॉस, बड़ापीट तालुका बागलकोट

205729	पाटिल गोमवेश सुभाष सुभाष चामु पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26813 20.08.10	नं. 202/बी, अम्बेडकर गली, पुराना बेलगांव, बेलगांव
205730	पाटिल गौमवेश पाटिल सरगोंडा नरसिंहगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28356 30.05.11	म. नं. 1515, शाहु नगर, बेडकिहाल ग्राम व पत्रालय चिकोडी तल, बेलगांव
205731	पाटिल करिश्मा अन्नाराव अन्नाराव माधवाराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28815 13.04.12	समीप एलआईसी आफिस, न्यू मोंधा डेगलूर तालुका नंदिद
205732	पाटिल किरण बालकृष्ण पाटिल बालकृष्ण शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24523 12.05.09	# 10-2-310-13/ए, सीडीकेट बैंक कालोनी मानवी तालुका रायचुर
205733	पाटिल कृपांजलि बाबासो पाटिल बाबासो छावागोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26264 23.03.10	बोरगांव ग्रम व पत्रालय, चिक्कोडी तालुका बेलगांव
205734	पाटिल के क्षितीजकुमार विलासराव विलासराव डी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24179 24.04.09	विद्यानगर, बेलहोंगल तालुका बेलगांव
205735	पाटिल कुमार रामगोंडा पाटिल आर पिरगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24653 22.05.09	# 2111, गुलाम हुसैन गली, बीजापुर
205736	पाटिल महेन्द्र हिम्मत हिम्मतराव बाबूराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29881 17.12.12	म. नं. 201, मुंडखेड़ा, पत्रालय-पटोंछा, तालुका-चालीसगांव, जलगांव
205737	पाटिल महेन्द्र जिनागोंडा पाटिल जिनागोंडा अप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25089 07.08.09	शामनवाड़ी पत्रालय, शांतिनगर, चिकोडी, तालुका बेलगांव
205738	पाटिल महेन्द्र रामगोंडा पाटिल रामगोंडा मालगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23810 04.04.09	# 20, पहली मंजिल, तीसरी मेन, संजय नगर, बंगलौर
205739	पाटिल मेधा मनोहर पाटिल मनोहर नामदेव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24103 22.04.09	प्लाट नं. 7, ईएल बेथल बंगलो, रामनगर, निपानी, चिकोडी, तालुका बेलगांव
205740	पाटिल मेनल शांताराम शांताराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24110 22.04.09	प्लाट नं. 7, ईएल बेथल बंगलो, रामनगर, निपानी, चिकोडी, तालुका बेलगांव
205741	पाटिल मेघारानी एकनाथ एकनाथ दत्तु पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25030 30.06.09	एमआईजी 4 निपानी चिकोडी तालुका, बेलगांव
205742	पाटिल मेघाश्री अमोल अनिल उपासे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28643 23.11.11	राधाकृष्णा नगर, इब्राहिमपुर, बीजापुर
205743	पाटिल नहुश पांडुरंग पाटिल पी आत्माराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24490 11.05.09	चौथी क्रॉस, श्रीनगर, रोम, तालुका, गडग
205744	पाटिल नन्दकिशोर पाटिल भगवानराव माधवराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29143 08.05.12	सिद्धापुर वाडी ग्रम व पंचायत तालुका बेलगांव

205745	पाटिल नीता नानासो नानासो महादगोंडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28312 25.05.11	समीप सदलग हास्पीटल, शांतिनगर, बेडकिहाल ग्राम व पत्रालय चिकोडी तल, बेलगांव
205746	पाटिल निलेश दिनकरराव दिनकरराव चुडामन पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25235 15.10.09	जावालज प्लाट, गजेन्द्ररागढ, रोम तालुका गडग
205747	पाटिल पल्लवी मुत्तूरज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29084 05.05.12	जनाथा क्लीनीक, गोडार ओनी, कलाहटगी तालुका, धरवाड
205748	पाटिल पंकज शिवाजीराव पाटिल शिवाजीराव निवरुती	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30614 26.08.13	धनवंतरी हास्पीटल, मेन रोड, कोकराड, तालुका—शिराला, सांगली, महाराष्ट्रा
205749	पाटिल पंकज सुभाषराव सुभाष दयाराम पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24125 22.04.09	नव नगर, हुगुंद तालुका, बागलकोट
205750	पाटिल पूजा विजय कुमार पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28892 20.04.12	समीप बस स्टैण्ड, जनता कालोनी रोड, औरद (बी) पत्रालय तालुका, बीदर
205751	पाटिल पूजा बाबगोंडा पाटिल बी मालगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30601 14.08.13	ग्राम व पत्रालय जून धनवड, तालुका शिरोल, जून धनवड
205752	पाटिल पूनम प्रताप वाई पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30095 18.04.13	ग्राम व पत्रालय यशवंत बंगलो, सावंतपुर रोड, दत्ता नगर, तालुका पालस, सांगली
205753	पाटिल पूनम विलासराव विलासराव शंकर पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28304 25.05.11	रक्षक सिटी, नं. 903, दूसरी क्रॉस, किरण बीडीजी, विजय नगर, पाईप लाईन रोड बेलगांव
205754	पाटिल प्रदन्था सखाराम पाटिल एस शिवाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24989 16.06.09	महावीर नगर, बेडकिहल पत्रालय, चिकोडी, तालुका बेलगांव
205755	पाटिल प्रफुल्ल अर्जुन पाटिल अर्जुन सुबराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24097 21.04.09	तयीकृपा काम्पलेक्स, समीप दनाम्मा मंदिर, रबकवी
205756	पाटिल प्रकाश पाटिल चन्द्रकांत गणपति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28368 31.05.11	पदमा निवास, जैनगली, चिंचली—ग्रम व पत्रालय, म. नं. 404, रायबग तालुका, बेलगांव
205757	पाटिल प्रतिक्षा रंगनाथ पाटिल रंगनाथ श्रीपति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29697 06.07.12	जगदम्बा नगर, सुरली रोड, तमभुरनी माधा तालुका सोलापुर
205758	पाटिल प्रवीण पाटिल क्रुष्णात दाडू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30511 19.06.13	ग्राम व पत्रालय सिद्धानेरली, अबैल गली, तालुका—कगल, कोल्हापुर, सिद्धानेरी
205759	पाटिल प्रवीण जयाराम जयाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23687 01.04.09	द्वारा एस.जे. पाटिल, इंचल हास्पीटल, इंचल पोस्ट, सोनदत्ती तालुका बेलगांव
205760	पाटिल प्रेमनाथ हीराजी पाटिल हीराजी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30185 26.04.13	म. नं. 12ए, ग्रम पुनेड, यूरन तालुक, पत्रालय वसेहनी, रायगढ, यूरन

205761	पाटिल प्रीतम पाटिल विष्णु मारुति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30506 19.06.13	ग्राम व पत्रालय, म. नं. 151/11, कलकुन्दरी, तालुका चांदगढ़, कोल्हापुर, कलकुन्दरी
205762	पाटिल प्रियंका गणेश नामदेव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30096 18.04.13	ग्राम व पोस्ट वसेहनी, तालुका-यूरन, रायगढ़ यूरान
205763	पाटिल प्रियंका अजितकुमार पाटिल अजितकुमार बबगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29403 21.05.12	महावीर चौक, ग्राम पंचायत के सामने, भोस पत्रालय, मिराज तालुका, सांगली
205764	पाटिल प्रियंका बालासाहिब बालासाहिब यू पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23814 04.04.09	रु 8.09.270, बीदर तालुका
205765	पाटिल प्रियंका महादेव पाटिल महादेवे पुंडलिक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24136 22.04.09	विद्यानगर, पांचवी क्रॉस, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
205766	पाटिल प्रियंका राजेन्द्र पाटिल राजेन्द्र हिन्दुराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27320 23.03.11	समीप संगम ऑफसेट, घटा प्रभा, गोकक तालुका, बेलगांव
205767	पाटिल राहुल गुरुसिद्धा गुरुसिद्धा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23739 02.04.09	# 625, शरिनिदी, कीर्ति नगर, समीप साई बाबा मंदिर, बीजापुर
205768	पाटिल राहुल प्रकाश पाटिल प्रकाश दत्तू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23945 13.04.09	श्रीनगर, चौथी क्रॉस, रोम तालुका, गडग
205769	पाटिल रामभाऊ पाटिल देवीदास आर पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23947 13.04.09	श्रीनगर, चौथी क्रॉस, रोम तालुका, गडग
205770	पाटिल रविन्द्र बाबासाहिब बाबासाहिब मारुथी पाटिल	बी.ए.एम.एस शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर 1997	28551 17.09.11	इंगली रोड, शिरगुप्पी पत्रालय, अटहनी तालुका, बेलगांव
205771	पाटिल रोहित लिंगनगौड़ा लिंगनगौड़ा एम पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25163 03.10.09	सीटीएस 4183, 4484, गुरुवरपित, गोकक तालुका बेलगांव
205772	पाटिल रूपेश रावासो पाटिल रावासो हिन्दुराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24683 02.06.09	रत्नात्रे बिल्डिंग, एस.टी.खोट कालोनी, शामनेवाडी, पत्रालय चिकौडी तालुका बेलगांव
205773	पाटिल सचिन पांडुरंग पाटिल पांडुरंग कृष्णा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24180 24.04.09	मलहग, बुडीहाल, यमगरनी पत्रालय, चिकौडी, तालुका, बेलगांव
205774	पाटिल सचिन साहू पाटिल साहू धुंधयाबा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24439 05.05.09	म.नं. 4-601/34ए, चौथी क्रॉस, एम.बी.नगर, गुलबर्गा
205775	पाटिल संदीप कराबा कराबा गणपति पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27828 08.04.11	द्वारा एस.एस.आर. एमसी लडकों का हास्टल, इंचल, सौनदत्ती तालुका, बेलगांव
205776	पाटिल संदीप मधुकर पाटिल मधुकर गजामल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23943 13.04.09	श्रीनगर, चौथी क्रॉस, रोम तालुका, गडग

205777	पाटिल संदीप वाल्मीक वाल्मीक विठल पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29886 17.12.12	जनाई नगर प्लाट नं. 1, समीप एस.के. तेल मिल, तालुका जलगांव
205778	पाटिल सारंग रविन्द्र रविन्द्र बी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29584 12.06.12	# 205, चपलगांव ग्राम व पत्रालय, अक्कलकोट तालुका, सोलापुर
205779	पाटिल सारिका जयासिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30113 19.04.13	ग्राम व पत्रालय मौज तसगांव, तालुका—हटकंगल, कोल्हापुर, पीठ वदगांव
205780	पाटिल सारिका हनमंत पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30499 15.06.13	ग्राम व पत्रालय राजापुर, तालुका—तसगांव, सांगली
205781	पाटिल शरत कुमार गणेश राव	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2005	28723 30.03.12	रु 599/बी/12/1, पादाकिपुरम, सौनदत्ती पत्रालय एवं तालुका बेलगांव
205782	पाटिल शरयू गजानन पाटिल गजानन वसंत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24144 22.04.09	विद्यानगर, पांचवी क्रास, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
205783	पाटिल शिल्पा गणपतराव पाटिल जी वसंतराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23738 02.04.09	# 625, शरिनिदी, कीर्ति नगर, समीप साई बाबा मंदिर, बीजापुर
205784	पाटिल शीतल नागानाथ नागानाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25043 06.07.09	श्री सिद्धा, संजीवनी
205785	पाटिल श्रद्धा विश्वास विश्वास एच पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24149 22.04.09	बी.ए.एम. कालेज बापूजी कैम्पस, चल्लाकरे तालुका चित्रादुर्ग
205786	पाटिल श्रीधर पिराजी पाटिल पिराजी बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28294 25.05.11	नं. 532, सोनारगली, एम वडागांव, बेलगांव
205787	पाटिल श्रुति संजय संजय कृष्णाराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28430 20.06.11	21 कि.मी., कनकापुरा रोड, उदयपुरा, बैंगलोर
205788	पाटिल श्वेता जगन्नाथ जे दनयादियो पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25185 08.10.09	द्वारा एस.एस.आर. एएमसी इंचल, सौनदत्ती तालुका, बेलगांव
205789	पाटिल स्मिता शंकरराव पाटिल एस पांडूरंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23723 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इंचल, सौनदती तालुका, बेलगांव
205790	पाटिल स्नेहा नीमगोंडा पाटिल नीमगोंडा रामगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27867 11.04.11	दुर्गा नगर, जमखण्डी तालुका बागलकोट
205791	पाटिल स्नेहल हनमंत हनमंत शमराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28702 26.03.12	# 321/2ए, नन्दादीप, शिन्डे कालोनी, करणजे पीठ, सतारा
205792	पाटिल स्नेहल जयसिंह पाटिल जयसिंह दादा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26101 19.03.10	बेडकिहाल पत्रालय, चिकौडी, तालुका बेलगांव

205793	पाटिल स्नेहल प्रकाश प्रकाश बाबूराव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27946 13.04.11	म. नं. 179, समीप मुनिस्सीपल काउंसिल, निपानी चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
205794	पाटिल सोनाली पाटिल कंचनगोंडा मुडगौडा	बी.ए.एम.एस पूणे विश्वविद्यालय, पूणे 1997	28689 02.03.12	अमबदागट्टी ग्राम व पत्रालय, बेलहोंगल तालुका बेलगांव
205795	पाटिल सुरारसिंह भरतसिंह भरतसिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23939 13.04.09	कल्याण नगर, समीप राघवेन्द्र मंदिर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
205796	पाटिल सूर्यकांत शंकर शंकर शंभू पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29923 01.02.13	ग्राम व पत्रालय, बिलादी तालुका-शहादा, नन्दोरबर, एम एच
205797	पाटिल सुशांत सुभाष पाटिल सुभाष शमराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24529 12.05.09	बालानगर, आयुर्वेद कालेज के पीछे, मानवी तालुका रायचुर
205798	पाटिल सुशीलकुमार संभाजीराव पाटिल एस. दन्यानु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23725 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौनदती तालुका, बेलगांव
205799	पाटिल स्वप्न श्रीकांत श्रीकांत रामगौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29390 21.05.12	नं. 1319, विवेकानन्द नगर, गोलप ग्राम व पोस्ट रत्नागिरी तालुका
205800	पाटिल स्वप्नजा पाटिल वी बाजीराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25817 12.03.10	समीप बेल्लद बेगवाडी बैंक, घटाप्रभा, गोकक, बेलगांव
205801	पाटिल तानाजी वसंतराव पाटिल वी. बाजीराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24405 05.05.09	शिवाशांतवीर क्लीनिक, नन्दीनगर, कोप्पल
205802	पाटिल तुषार जीजबराव पाटिल जीजबराव बालीराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24782 04.06.09	रोड पहली मेन, चौथी क्रास, सदाशिवनगर, बेलगांव
205803	पाटिल उमेश अशोक पाटिल अशोक दौलत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28837 16.04.12	प्लाट नं. एवं सीरियल नं. 10/7सी, अभियाना नगर, नाशिक तालुका
205804	पाटिल उमेश बाबन पाटिल बाबन भाऊ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25421 25.02.10	# 19, न्यू पुलिस क्वार्टरस, भारत नगर, बेलगांव
205805	पाटिल उमेश सुभाष पाटिल सुभाष नेमगोंडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24852 06.06.09	# 1515, शाहुनगर बेडकिहाल पत्रालय चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
205806	पाटिल उमेशकुमार लक्ष्मणराव पाटिल लक्ष्मणराव अन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24533 12.05.09	बस स्टैण्ड रोड समीप पोस्ट ऑफिस, रोम तालुका, गडग
205807	पाटिल वैभव सदाशिव पाटिल एस रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24838 06.06.09	# 1515, शाहुनगर बेडकिहाल पत्रालय चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
205808	पाटिल विजय विष्णु पाटिल विष्णु रंगराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24096 21.04.09	बसवा नगर, दूसरी कॅस, रबकवी, जमखण्डी तालुका, बागलकोट

205809	पाटिल विकास राजेन्द्र राजेन्द्र दनयादेव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24577 14.05.09	केएमपी रोड, बादामी तालुका, बागलकोट
205810	पाटिल विकास सरजिराव पाटिल सरजिराव निवरुति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24843 06.06.09	# 1515, शाहुनगर बेडकिहाल पत्रालय चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
205811	पाटिल विश्वास हिलाल पाटिल हिलाल उत्तम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23968 13.04.09	# 527, पहली मेन, तीसरी लेफ्ट, आरएमएल नगर, शिमोगा
205812	पाटिल विवेक वसंतराव वसंतराव बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28152 26.04.11	समीप बंजार हास्टल, कल्याण नगर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
205813	पाटिल योगिनी वामन पाटिल वामन विठोबा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24075 21.04.09	ताईकृपा काम्पलेक्स, समीप दनाम्मा मंदिर, रबकवी
205814	पाटिल विवेक बसंत बसंत पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30618 28.08.13	विवेक सिल्वर रफीनेरी, शिवकृपा वेस्ट ब्लॉक, ई-35, हेड पोस्ट आफिस रोड
205815	पट्टन शेटी केदारनाथ चन्नाबसप्पा पट्टन शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	28605 19.10.11	मन्मी काम्पलेक्स, सरकारी अस्पताल, अफजलपुर, गुलबर्गा
205816	पत्तर वीणा सुरेश सुरेश वी पतर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25115 09.09.09	श्री मुनेश्वरा कृपा, एम.पी. प्रकाश त्रगर, तालुका बेलारी
205817	पटवा संध्यारानी सुरेशलाल महेश बी शिलाके	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29218 15.05.12	मदिलेज बीकेएलएल ग्राम व पत्रालय, भुदरगढ़ तालुका, कोल्हापुर
205818	पटवर्धन आरती विनायक पटवर्धन वी मधुकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29658 18.06.12	# 39, बुधवार पेठ, दुर्गा सोसायटी, फ्लैट नं. 2, पूणे तालुका
205819	पटवर्धन प्रियंका मनोहर पटवर्धन एम सदाशिव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24406 05.05.09	आर.एस. हायरमठ बिल्डिंग, एम.एस. देवतर कालोनी, हासपेट रोड, कोप्पल
205820	पवन कुमार किशोर कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28840 16.04.12	# 2/22, स्टेशन रोड, सयैदापुर ग्राम व पत्रालय, यादगिर तालुका
205821	पवन कुमार किस्तारेडी पस्सलवाडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29856 05.11.12	ई-79/ए, कावेरी-पथ, एल एन नगर, वसवादाता सीमेंट सीडम तालुका, गुलबर्गा
205822	पवन कुमार एम. बिचप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27043 15.03.11	टीएमएडएस आयु. मेडी. कालेज, संकलापुर, बेलारी
205823	पवन कुमार.जी सिद्धाप्या. जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27083 15.03.11	पनाबगट्टा पत्रालय, हरपनहल्ली तालुका, दावनगेरे
205824	पवन कुमार के केनचप्पा. एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27724 06.04.11	नं. 56, सारथी, जोलडल, पत्रालय, चन्नागिरी तालुका, दावनगेरे



205825	पवाना जे. शेट्टी ए. जनाईन शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28494 26.07.11	# 365, छठी मेन, आठवीं क्रॉस, ए नं. आर. कालोनी, बंगलौर
205826	पवनी एम एन नीजलीगप्पा एम बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28787 11.04.12	पहली क्रॉस, शांतिनगर शिकारीपुरा तालुका, शिमोगा
205827	पवनकुमार मलवाडे विनोबा. टी. मलवाडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23861 09.04.09	# 66, बस स्टैण्ड के पीछे, शिग्गावं तालुका, हावेरी
205828	पवनकुमार सपारे वेंकटेश सपारे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27407 25.03.11	होसाहल्ली पत्रालय, कुडलिगी तालुका, बेलारी
205829	पवनराज परशुराम एम दानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29048 05.05.12	पवन क्लीनिक सिन्धानुर रोड, मानवी तालुका रायचुर
205830	पवित्र भौसलें नामदेव एल. भौसलें	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28922 26.04.12	नं. 126, शिवकृपा, चौथी क्रॉस, दूसरी ए लग्गर बंगलौर
205831	पवित्र एच के रविकुमार के आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29529 28.05.12	एसएन पलया, हेब्बूर ग्राम व पोस्ट, कुनिगल मेन रोड, दुमकूर
205832	पवित्र एच हनुमैयया के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23798 04.04.09	11वां वार्ड, पूरीगली मेन रोड, सिद्धार्थ, नगरा, न्यू एक्स. मालावल्ली तालुका मंडया
205833	पवित्र के कृष्णा मूर्ति आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25044 06.07.09	रु 1637, दूसरी क्रॉस, चौथी मेन, जे.पी. नगर, आठवां फेसगोटीगेर पत्रालय, बीदर
205834	पवित्र एम एच हसागे गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25643 06.03.10	# 112/4, सरस्वतीपुरम, हसन तालुका
205835	पवित्र एस श्रीनिवास नं. बी.ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25568 05.03.10	# 2820, पहली क्रॉस, पहली मेन रोड, चामुण्डीपुरम, मैसूर
205836	पवित्र बी.आर. बी.बी. रमेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28212 04.05.11	मंजूनाथा निलाय, बालूगोडू अरजी पत्रालय, विराजपत, कोडगु
205837	पवित्र एम. एच.महाबाला राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27715 06.04.11	# 2820, पहली क्रॉस, पहली मेन रोड, चामुण्डीपुरम, मैसूर
205838	पवित्र वासवाराजागौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30239 30.04.13	मंजूनाथा निलाय, बालूगोडू अरजी पत्रालय, विराजपत, कोडगू
205839	पवित्र बनागर वीरान्ना बनागर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30191 27.04.13	# 23 (1)-2, विसल निलाय कोठडी, वददेरस गांवे, बन्नाडी पत्रालय, उदूपी
205840	पवित्र एन एच निंगप्पा एच एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30582 25.07.13	ग्राम व पत्रालय, हुल्लूर, तालुका रोम

205841	पवित्र नायक नारायण नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30598 13.08.13	मेन रोड समीप एसबीएच, कोप्पल
205842	पवार अमित रघुनाथ पवार रघुनाथ शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25197 09.10.09	ग्राम व पत्रालय नलावगल, तालुका रेनबेनूर, हावेरी, नालावगला
205843	पवार अन्नत प्रकाश पवार पी बाबूलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24132 22.04.09	नवानगर हुनगुंड तालुका, बागलकोट
205844	पवार अनिकेत चन्द्रकांत पवार सी कृष्णा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24084 21.04.09	विक्रमपुर, प्लाट नं. 18, अटहानी तालुका, बेलगांव
205845	पवार दिपाली रामदास रामदास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24727 03.06.09	शांति निवास, समीप नायडू हास्पिटल, बीएलडीई रोड, बीजापुर
205846	पवार महेश भीमराव भीमराव अबा पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24823 05.06.09	गौला गली, गजेन्द्ररागढ़ पत्रालय, रोम तालुका, गडग
205847	पवार नलीनि भीमराव भीमराव रामचन्द्र पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27878 11.04.11	वासवी सिनेमा के पीछे, दुर्गा नगर, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
205848	पवार नीतिन हरीश चन्द्र पवार हरीशचन्द्रा वाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26721 17.06.10	देवराजनगर, समीप सरकारी हास्पिटल, तरदा ग्राम व पत्रालय, जमखण्डी तालुका बागलकोट
205849	पवार पूनम दादासो पवार दादासो दादू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23717 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौनदत्ती तालुका बागलकोट
205850	पवार प्रदीप परशुराम पी रंगानाथ पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24303 29.04.09	रिसलदार बिल्डिंग, 7वीं क्रोस, बादामी तालुका, बागलकोट
205851	पवार राहुल देवीदास पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30530 26.06.13	ग्राम व पत्रालय मेंधापुर, तालुका पंधारपुर, सोलापुर, मेंधापुर
205852	पवार सचिन हरि पवार एच तुकाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26209 22.03.10	म. नं. 2106 (ए), रामनगर, निपानी, चिकोडी तालुका बेलगांव
205853	पवार शरद पवार सुरेश अम्बरूशी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30504 19.06.13	समरथ नगर, गरड प्लाट, प्रान्धा रोड, ताल-बारशी, सोलापुर, बारशी
205854	पवार स्नेहल मुरलीधर मुरलीधर सदाशिव पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26486 05.04.10	म. नं. 2106 (ए), रामनगर, निपानी, चिकोडी तालुका बेलगांव
205855	पवार स्वप्निल आनंदराव आनंद राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23742 02.04.09	# 625, शरिनिदी, कीर्ति नगर, समीप साई बाबा मंदिर, बीजापुर
205856	पवार विशाखा विष्णु विष्णु रघुनाथ पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30528 26.06.13	ग्राम व पत्रालय, माण्डवी, तालुका एवं सतारा, माण्डवी

205857	पवार योगेश विजय विजय दत्तात्रेय पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24602 18.05.09	# 139/एन, आई. जी. खुबूसोद बिल्डिंग, महंत नगर, केलगिरी रोड, धारवाड़
205858	पवार ए नं. शेदटी एच. नरसिम्हा शेदटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23801 04.04.09	अनुग्रह, छठी क्रोस, विनोबानगर, शिमोगा
205859	पावस कुमार शर्मा महेन्द्र कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25135 25.09.09	सनमेश्वर निवास, हाउसिंग बोर्ड कलोनी, एलआईजी-24, बीदर
205860	पायोज एच एस देशमुख	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28827 16.04.12	# 2-910/67/2/13, विश्वेश्वरैया नगर, सीडम रोड, गुलबर्गा
205861	फडासे सोनल कैलास फडासे कैलास बाबन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28985 27.04.12	सीरियल नं. 246/2बी/25, खण्डवे वस्ती, कोहगांव रोड कलवड़, पूर्ण
205862	फडणवीस वर्षा अहोक पी अशोक गोपालराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25849 12.03.10	# 16, छठी मेन, दसवीं क्रोस, प्रियादर्शनी, गोकुल रोड, हुबली
205863	फडे वर्षा अजितकुमार अजितकुमार मोहनलाल फडं	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29839 30.10.12	'धवल' महावीर नगर, पंढारपुर ग्राम व पत्रालय, सोलापुर जिला
205864	फनी कुमार पी योगेशवर राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29069 05.05.12	एसएलवी टावरस, तीसरी मंजिल, पार्वतीनगर, बेलारी
205865	फणिन्द्र वी.वी. वी.एस. वेनूगोपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24029 20.04.09	# ई/378, कोर्ट के पीछे, गोवरीबिदानुर, तालुका, चिकाबलापुर
205866	फेफाले ज्योति सबेबराव फेफाले साहिब राव बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28809 13.04.12	# 58, देवीछाया मंदिरा, राजखेड़ मायामबा, बुलडाना पत्रालय एवं तालुका
205867	फोंडे अरुण रामचन्द्ररा रामचन्द्ररा टी फोंडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30325 14.05.13	ग्राम व पत्रालय वेफेट, समीप बस स्टैण्ड, तसगावं तालुक, सांगली, तसगावं
205868	फुलसागर सोनाली मारुति मारुति भिवाजी फुलसागर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27358 24.03.11	मनाली रोड, एनकेजे लड़कियों का हास्टल, बीदर
205869	पिचाड़े संध्या सुधाकर पी सुधाकर सोपान राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27124 17.03.11	द्वारा एनकेजे, एएमसी गुम्पा, बीदर
205870	पिंपल अमोल अरुण पिंपल अरुण लक्ष्मणराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24443 05.05.09	# 4-1062, सर्राफ बाजार, गुलबर्गा
205871	पिंपल आनंद गोपीनाथ पिंपल जीमलिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25600 06.03.10	एसएचइएस एएमसी लड़कों का हास्टल, भवसर नगर, सीडम रोड, गुलबर्गा
205872	पीसल राहुल विलास विलास गणपत पीसल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25236 16.10.09	था.रा.सू गली, चित्रादुर्ग

205873	पीसाल सचिन दिगाम्बर पीसाल दिगाम्बर किसान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24440 05.05.09	म.नं. 4-601/34ए, चौथी क्रॉस, एम.बी.नगर, गुलबर्गा
205874	पिथवा दीपा योगेश योगेश के पीथवा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30076 17.04.13	डी-209, उशा के अपार्टमेंट्स, साईट नं. 26, 16वीं मेन, जयानगर चौथी ब्लॉक, बेंगलौर
205875	पोकले अश्विनी चन्द्रकांत चन्द्रकांत बी. पोकले	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24470 11.05.09	बीवीवीएस लेडिस हास्टल, बागलकोट
205876	पोखारकर मंथन कोंडाजी पोखारकर कोंडाजी बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29707 13.07.12	डी-12, 2-1, मंगल दर्शन सीएचएस सेक्टर-10, एयरुली, नवीमुंबई, ठाणे
205877	पोल विनोद नानासाहेब नानासाहेब एम पोल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28654 14.12.11	द्वारा बापूजी आर्यु. मेडि. कालेज, टी.आर. नगर, चल्लाकर तालुका, चित्रादुर्ग
205878	पोमाजी प्रदीप हनमंतराव पोमाजी एच राव सी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29494 25.05.12	समीप नगूर, हास्पिटल बीएलडीई रोड, बीजापुर
205879	पोमाजी वैशाली पोमाजी एच. चन्द्रमप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29495 25.05.12	समीप नगूर, हास्पिटल बीएलडीई रोड, बीजापुर
205880	पूजा नागानाथ जी. टोगुर्गे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27042 15.03.11	हुलसूर-ग्राम व पत्रालय, बासवाकल्याण तालुका बीदर
205881	पूजा कलप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30612 23.08.13	'बासवा निलाय' महादेव मंदिर के सामने, आर/ओ मुसताक हुमनाबाद, बीदर
205882	पूजा सी शेटी के चन्द्र शेकर शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29792 12.10.12	# 468, पूजा, पहली मेन, हवानूर एक्टेंशन, नागासन्दरा पत्रालय, बेंगलौर
205883	पूजा हलभवी श्रीकांत हलभवी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25084 04.08.09	टी-31, श्रद्धा रेसीडेन्सी, सम्पीग रोड, विश्वेश्वरैया नगर, बेलगांव
205884	पूजा मुडकवी महेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30117 19/04/13	म. नं. 16, रामनगर, समीप एनटीटीएफ, धारवाड
205885	पूजा पाटिल शिवरावगोडा एस पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27937 13.04.11	नं. 2280, चौथी क्रॉस, कन्बर्गी रोड, महंतेश नगर, बेलगांव
205886	पूजा रानी के. पी पुरषोत्तम प्रभु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24262 28.04.09	# 4323, कनंगी रोड, कुकुन्दोर पत्रालय करकाला तालुका उदुपी
205887	पूजा सतीश शेटी सतीश एस. शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24266 28.04.09	फारंगीपेटे पत्रालय बंतवाल तालुका, दक्षिणा कनाडा
205888	पूजा शर्मा पंकज शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29932 07.03.13	म.नं. 818, फेस-1, रामदरबार कालोनी, चंडीगढ़

205889	पूजा बी. पशुपतिमठ बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23764 03.04.09	घाटप्रभा पत्रालय गोकाक तालुका बेलगांव
205890	पूजा ए नं. जुगनीकर भार्गव कलाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	28124 25.04.11	पंडर ओनी, मस्जिद के सामने, हुबली तालुका धारवाड
205891	पूजा एस. पूजारी शेकर के. पूजारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24965 10.06.09	पूजा, कॉम्प्यूनिटी हॉल के सामने, उदुपि
205892	पूजार पल्लवी बसवाराज पूजार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26084 19.03.10	म. नं. 15/3/26, बैंक कालोनी, गांधी गूज, बीदर
205893	पूजाश्री नगन्ना साहू चिंचोली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28911 26.04.12	गांधी चोक, शाहपुर ग्राम व पत्रालय एवं तालुका, यदियर
205894	पूला वी नागेन्द्र बाबू पी श्रीनिवास राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30006 08.04.13	म. नं. 7-51-14, कृष्णा नगर, उलावापाडू, प्रकासम, उलावापाडू
205895	पूनम नरेन्द्रकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30064 16.04.13	अल्सटोम कालोनी, तेरहवीं क्रोस, 7/4 एलटीआरटी, गुलबर्गा, शाहबाद
205896	पूनम भोजक ओम प्रकाश भोजक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29226 15.05.12	नं. 1/6, नन्जम्बा आगराह पाचवी मेन, समीप टीआर मिल, चमराजपित बीदर
205897	पूनम. डी. पटेल संकेत एम. पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26953 29.10.10	# 26-80, जोग रोड, सागर ग्राम व पत्रालय एवं तालुका शिमोगा
205898	पूनम ए. पटेल अम्बाला एम. पटेल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24762 04.06.09	रु 8-1-138सी, कुंजीबेट्ट, उदुपि
205899	पूर्णिमा हिरेमठ चन्द्रशेखरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24169 24.04.09	# 57/72, लक्ष्मेश्वर पत्रालय, शिराहल्ली तालुका गडग
205900	पूर्णचन्द्र यादव नारायणा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28613 05.11.11	आर्यु. मेडि. कालेज, सीडम रोड, गुलबर्गा
205901	पूर्णचन्द्र तेजस्वी ई.एम आई.सी. मालागली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24023 20.04.09	रु 439, पदमावती कालोनी, भदया नगर, कोप्पल
205902	पूर्णिमा अधिनाथ पाटिल आदिनाथ पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25226 14.10.09	प्लाट नं. 751, सेक्टर नं. 5, श्रीनगर, बेलगांव
205903	पूर्णिमा सी.एस. संगप्पा जी चेततर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30077 17.04.13	एपीएमसी यार्ड, गंजु, तालुका-कुस्तगी, कोप्पल, कुश्तगी
205904	पूर्णिमा जी जी. मंजूनाथ नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30421 28.05.13	थुन्गानुग्राह, गोलियांगडी, हिलीयाना पत्रालय व ग्राम, उदुपि तालुका

205905	पूर्णिमा हिरेमठ विरूपकश्या हिरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26612 23.04.10	'प्रसाद ट्रेडर्स' विठल मंदिर काम्पलेक्स, तलीकोटी, बीजापुर
205906	पूर्णिमा जलवाड़ी शंकर जलवाड़ी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24518 12.05.09	# 4, बसवा निलाय, आठवीं मेन, चौथी ब्लाक, तीसरी स्टेज बसवेश्वरनगर, बेगलौर
205907	पूर्णिमा मथ लूमापति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27350 24.03.11	गुरुबसौय्या निलाय, समीप मलिकार्जुन आश्रम, बीजापुर
205908	पूर्णिमा मूलवडे निंग्पा के मूलवडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28256 17.05.11	प्लाट नं. 5, खिलारी मठ चाल, प्रभात कालोनी, विद्यानगर, हुबली
205909	पूर्णिमा एन नागराजा वी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29383 21.05.12	नं. 80, माली पटना, कराड़ी पत्रालय, तिपतुर तालुका टुमकुर
205910	पूर्णिमा पी अमरनाथ टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	29940 15.03.13	म. नं. 13, हसारगहाटटा मेन रोड, चिकाबनावरा, बंगलौर
205911	पूर्णिमा पंचाल दयामप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29191 14.05.12	66 गौरिश निलाय, कडम्बा नगर, बनवासी रोड, सिरसी उतरा कनाडा
205912	पूर्णिमा के आनंदा मारकाला बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24291 29.04.09	रु 43, प्रमोद निलाय, कगेरी, कोनी रोड, कोटेश्वरा पत्रालय कुंडापुर तालुका, उदुपि
205913	पूर्वी सुरेश अश्रेया पी.एल. सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25545 05.03.10	# 2557, सोलहवीं मेन, दूसरी स्टेज, कुमारस्वामी लेयआउट बंगलौर
205914	पोपट रातौड भीमसिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30378 21.05.13	ग्राम व पत्रालय बाबानगर, फार्मर हाउस, तालुका
205915	पोटदार राजेश्वरी चन्द्रकांत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	29930 18.02.13	ग्राम व पत्रालय उमदी, तालुका—जाट, सांगली, महाराष्ट्र
205916	पोटदर सन्तोष विष्णु विष्णु पुटादर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24870 06.06.09	प्रथम क्रोस, विद्यानगर, बादामी तालुका बागलकोट
205917	पोटदार ऋषिकेश सुभाष पोटदार एस शिवराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24175 24.04.09	समीप रेणूका सिनमा, बादामी रोड, रोान तालुका, गडग
205918	पोटदार श्रीकांत उत्तमकुमार उत्तमकुमार पोटदर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25196 08.10.09	प्लाट नं. 6, 'आनन्द' गणेश नगर, अरविंद नगर रोड ओल्ड हुबली, हुबली
205919	पोटदार वैशाली मोहन पी मोहन शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24534 12.05.09	ईएल बैथल बंगला, प्लाट नं. 7, रामनगर, निपानी चिक्कोडी, तालुका बेलगांव
205920	पवार विजय पांडुरंग पवार पी गनू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24319 29.04.09	एमआईजी-2, म.नं. 4, हुडको कालोनी, अकोल रोड, निपानी पत्रालय, चिक्कोडी तालुका बेलगांव

205921	प्रभाकर सज्जन सुभाषचन्द्र एल. सज्जन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24308 29.04.09	प्लाट नं. 1156, सेक्टर नं. 6/1, श्रीनगर बेलगांव
205922	प्रभाकर टेराडल बसागोंडाप्पा टेराडल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24764 04.06.09	हौनतगी पत्रालय, बीजापुर
205923	प्रभंजन कुलकर्णी ए नं. आर. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24752 04.06.09	रु 1603, शरेयस्सू, सातवीं क्रोस, पहली स्टेज, कुमारसवामेय लेयआउट जे.पी. नगर, बीदर
205924	प्रभुदेव पट्टडकल बालप्पा बी पट्टडकल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28487 18.07.11	दूसरी क्रोस, सिद्धामेश्वर कालोनी, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
205925	प्रदीप गणपथ राव कदम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28252 12.05.11	कमलनगर पत्रालय, औरड तालुका बीदर
205926	प्रदीप इशप्पा बीहारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29540 28.05.12	सी-187, हुमनाबाद, ग्राम व पोस्ट एवं तालुका बीदर
205927	प्रदीप भजान्त्री रायप्पा पी भजान्त्री	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29388 21.05.12	प्लाट नं. 23/24, शिडोली रोड, श्री रामनगर, मुतगा पत्रालय, बेलगांव
205928	प्रदीप देसाई गंगाधर एन देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30039 16.04.13	म. नं. 41, ग्रीन पार्क, समीप देवीनगर विद्यानगर, हुबली
205929	प्रदीप कोन्नुर रामाकन्त कोन्नुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25453 02.03.10	समीप न्यू सरकारी हार्स्पिटल, करतगी पत्रालय, गंगावती तालुका कोप्पल
205930	प्रदीप कुमार श्री प्रमोद कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	26914 27.09.10	म.नं. 247/1/4, विश्वा निदम दूसरी स्टेज, बीदर
205931	प्रदीप कुमार जे. जनार्दन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27178 18.03.11	नेताजी नगर, मुलबगल टाउन, कोलर
205932	प्रदीप कुमार एच.के. एच.वी. करियन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28283 17.05.11	शिवाकृपा, बासपान्नाना पलया, सिरागेट, टुमकुर
205933	प्रदीप रेड्डी बेरागी रामारेड्डी बेरागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27052 15.03.11	नं. 70, गुडूर एस.बी. हीरेकोडागली पत्रालय, हुनागुंड तालुका, इंडि तालुका
205934	प्रदीप आर.ए नं. नागारप्पा आर.डी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26233 23.03.10	बन्नीकोडू पत्रालय, होन्नली तालुका, दावनगेरे
205935	प्रदीप बी. बासवाराजु एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26054 19.03.10	# 360, गुपालापुरा, टी. नरसीपुरा, मैसुर
205936	प्रदीप बी.सी. चिदाम्बर. ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27154 18.03.11	त्रिपुरांत रोड, बसवा कल्याण तालुका, बीदर

205937	प्रदीप ई.के. केशवा भट्ट ई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23759 03.04.09	द्वारा जीआर. उपाध्याय चैत्रा गांधीनगर, मुडबीदरी, मंगलोर
205938	प्रदीप एम. मसानकट्टी मरुवनदप्पा एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24611 18.05.09	गुरुमंदिर रोड, सोरबा पत्रालय एवं तालुका शिमोगा
205939	प्रदुया चित्तवाड़ागी विजयकुमार चित्तावाड़ागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26646 05.05.10	# 67, 'श्रीसाई' पन्द्रहवीं विद्यागिरी, बागलकोट
205940	प्रगति गड़गे इरप्पा गड़गे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24761 04.06.09	म. नं. 8-5-105/33, जनावडा रोड, बीदर
205941	प्रगन्या शेषराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24575 14.05.09	रु 19-1-163, पांचवी क्रोस, शिवनगर साउथ, बीदर तालुका
205942	प्रहन्थी एम गणपति भट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29377 21.05.12	मंदयूर हाउस, कल्याण पत्रालय, बंतवाल तालुका, दक्षिणा कनाडा
205943	प्रशांत कण्डस्ति दुंदाप्पा ए. कण्डस्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24491 11.05.09	आर.एस. नं. 188/2सी, बसवानगर, गोकक, तालुका, बेलगांव
205944	प्रजीत सुधाकरण सुधाकरण सी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28548 07.09.11	# 3-21, सौम्या नवुंदा, कुंडापुर, तालुका, उदुपि
205945	प्राजना दुगप्पा जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30589 31.07.13	सुभाषाया 1-7/2, मट्टू, कटापेडी, उदुपि
205946	प्राजना प्रियदर्शनी थेजप्पा अमीन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25463 02.03.10	मनसा हाउस, कल्याणपुर, उदुपि, तालुका
205947	प्राजना आर नायक रमेश नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29371 21.05.12	रामा निलाय, प्रशांत हास्पिटल के सामने, कोप्पलंगडी, कौप पत्रालय, उदुपि
205948	प्राजना के नारायणा सारालया	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24626 18.05.09	# 6-15, कनारन, मरने-पत्रालय, उदुपि
205949	प्रज्वल कुमार जे.एम. मलिकाजुनाप्पा. टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28115 25.04.11	जनाकल ग्राम व पत्रालय, होसदुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
205950	प्रजवल्ल भ्रमप्पा ब्रहमप्पा एन आस्की	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29515 26.05.12	मिनी महल, नैगुर कालानी, जाखण्डी ग्राम व पोस्ट बागलकोट
205951	प्रकाश संगप्पा एस किन्नल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29536 28.05.12	मुधोल ग्राम व पास्ट, यलबुर्गा तालुका, कोप्पल
205952	प्रकाश पुरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28253 17.05.11	कालिहल (रामनगर), सुरापुर, यादगिर



205953	प्रकाश कुडनी गुरप्पा आर कोडनी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28931 26.04.12	हिरेमठ गली, बाजार रोड, तलसन ग्राम व पास्ट, अटहानी तालुक बेलगांव
205954	प्रकाश मशयाल सोवान्ने मशयाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26161 20.03.10	वसाली रोड, तम्बे, बीजापुर
205955	प्रकाश मेटी सरनप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26045 19.03.10	नरगुंड पत्रालय व तालुका, गडग
205956	प्रकाश तीम्मापुर पावाडेप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30220 30.04.13	खानात्ती गावं, गोकक , तालुक, बेलगांव, खन्नात्ती
205957	प्रकाश .एच. रोनाड हनुमनथप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27122 17.03.11	एमआईजी-5, आर्शिवाद निलाय, पहली मेन क्रोस, सन्तोष नगर, धारवाड
205958	प्रकाशा वार्की दुर्गाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27398 25.03.11	# 55, कनकोदस मंदिर, कगिनल बयादगी तालुका हावेरी
205959	प्राकृति एम. वी. विग्नेश एम.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26164 20.03.10	एमईएस कानवेंट, पम्पानगर, शिमोगा
205960	प्राकृति.आर रामू एच.ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23907 09.04.09	# 2/247, अम्बेडकर नगर, वाया बाजपी करमबर, केनजर पत्रालय, मंगलोर
205961	प्रेम बाबान्नावर फकीरप्पा एच. बाबान्नावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24226 28.04.09	चिक्काहडिगोल पत्रालय, गडग तालुका
205962	प्रामिला डी महादेव देवन एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26193 22.03.10	सी-88, भनकुर, शाहबाद, चीतापुर, गुलबर्गा
205963	प्रमोद जगन्नाथ करांडे जगन्नाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23967 13.04.09	दीपा बिल्डिंग, समीप तालुका ऑफिस, कोप्पल
205964	प्रमोद कुमार शिव शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26613 23.04.10	म. नं. 1-4-89/ए, दतर कालोनी, रायचुर
205965	प्रमोद कुमार विश्वाम्बर राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28646 30.11.11	# 63/80/ए, शिल्पानिवास, औरद (बी) ग्राम व पत्रालय एवं तालुका, बीदर
205966	प्रमोद कुमार यादव चन्द्रभुषण यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25179 07.10.09	समीप गडग रोड, गजेन्द्रागढ़ पत्रालय, रोन तालुका, गडग
205967	प्रमोद लोखन्डे एस.आर. लोखन्डे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25872 12.03.10	म. नं. 18010-65, अक्कामहादेवी कालेज के पीछे, बीदर
205968	प्रमोद शेट बी. मारुथी शेट बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28200 30.04.11	शंकर निलाय, वैजवी स्टोर के पीछे, श्री बेदू, उदुपि तालुका

205969	प्रमोद सिंह राजपूत हरनारायण राजपूत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24997 17.06.09	डी. नं. 1763, दूसरी मेन, पहली क्रॉस विनोबानगर, दावनगेरे
205970	प्रमोदा पी.ए. अय्युथा गौडा पी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28153 26.04.11	पोमबडे, बिलीनेल गाव, कैकाम्बा पत्रालय, पुतुर तालुका डी. के.
205971	प्रमोदिनी प्रभाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30195 29.04.13	नं. 14-9-281, लक्ष्मी काटेज, समीप रेलवे सिगनल, ईडन कालोनी, तालुका
205972	प्रमोदिनी जे. पाटिल जीनगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27710 06.04.11	नसलपुर पत्रालय, रायबग तालुका, बेलगांव
205973	प्रणम्या जैन शाम्भय कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28353 30.05.11	नं. 10134?बी? महावीर कालेज रोड, मुडबीदरी, मंगलोर तालुका, डी.के.
205974	प्रणवी के बी. कृष्णाप्पा गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27709 06.04.11	नं. 1-21/4 (1), देरबेल कोनचडे, येयदी पत्रालय मंगलोर तालुका डी.के. पत्रालय
205975	प्राणेश चन्द्रकांत नेतिकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25764 12.03.10	# 4/171, मकंगली, मन्नुर पत्रालय, अफजलपुर तालुका, गुलबर्गा
205976	प्राणेश पाटिल शशिकांत पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30187 26.04.13	समीप प्राईमरी स्कूल, ग्राम व पत्रालय बेटागिरी, गोकक तालुका, बेलगांव, बेटागिरी
205977	प्रणील कुमार पवार कृष्णलाल पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26579 17.04.10	# 09-10-116, रामपुर कालोनी, बीवीबी कालेज के सामने, बीदर
205978	प्रणीता मोहन राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26298 24.03.10	प्राकृति निवास, बेलथांगडे रोड, उजिरे, बेलथांगडे तालुका, मंगलोर
205979	प्रसाद यू. आचार्य उमेश आचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28198 30.04.11	# 04-190/9, माराकाडा मंगलोर, कुंजथ बेल मंगलोर तालुका, डीके
205980	प्रसाना शंकर दर्शन शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27787 07.04.11	# 96/3, गुरुकृपा स्नेहा लेयआउट, जक्कुर पत्रालय, बंगलोर
205981	प्रसन्ना कमलादमथ परमेश्वरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26067 19.03.10	# 43, गौदर आनी, गुलगंजी पोप्पा, धारवाड़
205982	प्रसन्ना पाटिल अरुण कुमार पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27046 15.03.11	ए-7, सेक्टर नं. 11, बागलकोट तालुका
205983	प्रसन्ना एस. जनार्द नं. एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23993 18.04.09	शान्तिथडडा हाउस, हीरेवनडाडी पत्रालय, पुत्तुर, तालुका दक्षिणा कन्नड
205984	प्रसन्ना. ए. राव अनिल कुमार	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2005	28426 20.06.11	समीप कामेश्वर मंदिर बैकदी, ब्रह्मवर पत्रालय, उदुपि

205985	प्रसन्नकुमार जी.एस जी.एस. शनमुखप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25099 17.08.09	# 04-190/9, मारकेड मंगलोर, कुंजथ बेल मंगलोर तालुका, डीके
205986	प्रशांत अंगदी बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25624 06.03.10	अजुनगी (बीके) इंडि तालुका, बीजापुर
205987	प्रशांत बरगी विजय कुमार बागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23986 18.04.09	कालादगी पत्रालय, बागलकोट तालुका,
205988	प्रशांत भांडी महादेव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24202 24.04.09	बस स्टैण्ड के पीछे, दत्तात्रेय निवास, नवबग कालोनी, बीजापुर
205989	प्रशांत कब्बुर नगप्पा कब्बुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26023 19.03.10	# 534, एम 9 (5), पाचवी क्रोस, केआरसी नगर, बेलहोंगल, तालुका बेलगांव
205990	प्रशांत कराड्डी रमनागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26887 15.09.10	इंगलगेरी ग्राम व पत्रालय, मुद्देबिहल तालुका बीजापुर
205991	प्रशांत कोरी शिवायोगप्पा कोरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29976 06.04.13	ग्राम किट्टर, तालुका एवं हावेरी, किट्टर
205992	प्रशांत कुमार शिवाप्पा तलीकोटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26738 29.06.10	तवारागेरा ग्राम व पत्रालय, कुशतगी तालुका कोप्पल
205993	प्रशांत पी हीरेमठ पंचाक्षरीस्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30015 09.04.13	28ए, माक्रिट गली, म. नं. 1 सं 42, वन्नूर, तालुका-बेलहोंगल, बेलगांव
205994	प्रशांत पडागानुर हनमन्तराय	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25647 06.03.10	तालिकोटी पत्रालय, मुद्देबिहल तालुका, बीजापुर
205995	प्रशांत वैजनाथ किवान्डे वैजनाथ किवान्डे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25330 15.12.09	# 18-3-288/2, एएचक्यू कालोनी, गांधी गूंज, बीदर
205996	प्रशांत कोप्पा सिद्धप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28780 11.04.12	श्रीगुरु, बिरप्पा नगर इंडि तालुका बीजापुर
205997	प्रशांत एम.जे. एम.वी. जयपाला	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24416 05.05.09	# 118, 12वीं ए मेन, पहली स्टेज, बीटीएम लेआउट, बीदर
205998	प्रशांताकुमार हवानुर बासवाराज हवानुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25398 24.02.10	समीप देवाम्मा मंदिर बेल्लाटी पत्रालय, शिराहट्टी तालुका, गडग
205999	प्रशांत बी.टी. चन्द्र गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26551 13.04.10	# 7/155, पेपर टाउन भद्रावती तालुका, शिमोगा
206000	प्रशांत ए आनंद एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30266 06.05.13	# 2725, चौथी क्रोस, आर.पी. रोड, एक्सटेंशन, नंजागुडा (टी), मैसूर (डी), नन्जागुड

206001	प्रशांत कुमार डी. के. देवैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25949 17.03.10	डी. नं. सी 21/3, रॉवल कालोनी, कराकल
206002	प्रशांत कुमार एच.वी. विजय कुमार एच.वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23990 18.04.09	# 848/2, शंकरपुरम, हसन तालुका
206003	प्रशांत कुमार सी. चन्नैह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25930 17.03.10	# 9, बीएम रोड, हसन
206004	प्रशांतकुमार, एच.एम. चन्नाविरैह एच.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23747 02.04.09	प्रशांत निलाय पीसीडी बैंक के सामने, कौट्टरु रोड हरापनाहल्ली, छललाकेर
206005	प्रशांतकुमार शिवाशंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25625 06.03.10	अफजलपुर तालुका, रेवणसिद्धेश्वर कालोनी, गुलबर्गा
206006	प्रार्थना ज्योतस्नापैस रामाचन्द्राप्या पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25775 12.03.10	चर्च गली, बेलहोन्नुर पत्रालय, नरसिंहाराजापुर तालुका, चिकमंगलोर
206007	प्रतिभा आर. वी. राघवन आर.वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24120 22.04.09	# 55, रेणूकाचार्य नगर, पहली क्रोस, बेलारी
206008	प्रतिभा जनगसनाहल्ली बसवाराज जे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29982 06.04.13	अनकसामुद्रा पत्रालय, तालुका हगरीबोम्मानाहल्ली, बेलारी
206009	प्रतिभा मुर्ति पी. मुर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29287 17.05.12	चिंदू निलाय, छठी क्रोस, कृष्णा रोड, क्याथसंदरा, तुमकूर
206010	प्रतिभा जी. ए नं. गोपाल राव ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25523 04.03.10	समीप चमराजपित, रोयन सक्रल, पुलीस आफिसर के क्वाटरस, रु 8, बीदर
206011	प्रतिभा के भोजा शित्तीगरा केपी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23906 09.04.09	# 1-254, तीसरी क्रोस, कैकंबा, किन्नीकमबाला, मेगलोर, दक्षिणा कन्ना
206012	प्रतिभा एस. शंकराप्या सी.एल.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28662 05.01.12	# 953, पांचवी क्रोस, गोविनपुरा, तिपतर पत्रालय एवे तालुका तुमकूर
206013	पृथ्वीराज बासवन्नाप्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24360 30.04.09	गडावती पत्रालय, हुमनाबाद तालुका, बीदर
206014	प्रतिभा बसवाराजा उल्लागड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30138 22.04.13	सत्याध्यानपुरा बडावेन बासवा निलाय किन्नल रोड, कोप्पल
206015	प्रतिभा पंचाक्षरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30213 29.04.13	म. नं. 8-462/बी, मलिकार्जन मठ, किराना बाजार, आसिफ गुंज, गुलबर्गा
206016	प्रतिभा वी.वी. भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24036 20.04.09	# डी-5/113, केन्द्रीय विहार, येलहांका, बेंगलोर-बेलारी रोड, बीदर

206017	प्रतिभा बिरादर गौदार गुरुसिद्धप्पा बी गौदार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29694 06.07.12	सोपाडला ग्राम व पत्रालय, सवादत्ती तालुका, बेलगांव
206018	प्रतिभा कोप्पा सिद्धान्ना कोप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26297 24.03.10	श्रीगुरु, बिरप्पा नगर इंडि तालुका बीजापुर
206019	प्रतिभा मगदम अशोक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30482 12.06.13	ग्राम व पत्रालय शिरागुर, रायबग तालुका, बेलगांव
206020	प्रतिभा पांडूरंग पांडूरंगा डी. नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	28394 09.06.11	बेडकिहाल ग्राम व पत्रालय, चिकौडी, तालुका बेलगांव
206021	प्रतिभा टी.के. एस. श्रीधर सेट्टी टी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30001 08.04.13	धाडापुरा, सातवीं गली, नरगुड, गडग
206022	प्रतिभा एस. यालादगी सतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28266 17.05.11	# 206, चुलक्या नगर, बीजापुर
206023	प्रतिभा. एस. बबशेट सुनील. जी. बबीशेट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24515 12.05.09	# 43/33, पहली मंजिल, 59वीं क्रोस, चौथा ब्लॉक, राजाजीनगर, बीदर
206024	प्रवालिका के मल्लिकार्जुन के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30590 31.07.13	म.नं. 1-5-15/1, सिविल लेन, नारायणपेट, महबुबनगर, ए.पी.
206025	प्रवण चावदामिनी कृष्णासा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25658 08.03.10	गंजीपेट, गजेन्द्रगढ़, रोम तालुका गडग
206026	प्रवीण देसाई शिवानन्द देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25066 22.07.09	समीप मंगलकार्यालय, सिन्दगी रोड, इंडि तालुका, बीजापुर
206027	प्रवीण गिडगल्ले सकुमार गिडगल्ले	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26137 20.03.10	सदलगा पत्रालय, न्यू बस स्टैण्ड, चिकौडी, तालुका बेलगांव
206028	प्रवीण कुमार गंगाधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26964 10.11.10	द्वारा नीलाकांतेश्वर होटल, रायचुर रोड, मानवी
206029	प्रवण कुमार एवल्ली मारुति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28327 25.05.11	नं. 817, मिशन कम्पाउंड, धुपादल, गोकक, तालुका, बेलगांव
206030	प्रवण कुमार बी बिन्धुमाधवा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30477 11.06.13	समीप टाउन पुलीस स्टेशन, पडकी काम्पलेक्स, कोप्पल
206031	प्रवण कुमार बी सलुन्हे बाबासाहिब वी सलुन्हे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30362 20.05.13	समीप विठ्ठल मंदिर, भारत चौक, शाहबाद, गुलबर्गा
206032	प्रवण कुमार छोटगल ध्यामन्ना छोटगल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25782 12.03.10	पवित्र निलाय, हुलगेरी, बना गडागिन नाका, लक्ष्मेश्वर, गडग

206033	प्रवण कुमार तलीकोटी बसवाराज तलीकोटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26277 23.03.10	शांतिनगर, हकीमचौक, मं. नं. 60, बीजापुर
206034	प्रवण कुमार एच. के. कुन्नाजैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25574 05.03.10	होंगानुर पत्रालय, चामराजनगर तालुका
206035	प्रवण मालाघन लक्ष्मीकांत मालाघन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25311 27.11.09	मनतुर पत्रालय, मुढोल तालुका, बागलकोट
206036	प्रवण नायक शंकर वी नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26126 20.03.10	कोचिरी पत्रालय, हुक्केरी तालुका, बेलगांव
206037	प्रवण निदागुंडी संगप्पा जी. निदागुंडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27400 25.03.11	बेलूर पत्रालय, बादामी तालुका, बागलकोट
206038	प्रवण पयानव्वर निंगाप्पा पयानव्वर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23854 06.04.09	म. नं. 24, अरभावी अरभावी मठ, गोकाक तालुका, बेलगांव
206039	प्रवण पुलिस पाटिल भीमनागोडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30330 16.05.13	म. नं. 3/109/ए, केमबवी पत्रालय, शोरापुर, तालुका, केमबवी
206040	प्रवण टिकी अशोक टिकी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25106 26.08.09	# 450, बालिगर लेन, मंगलवार पेठ, बनहट्टी पत्रालय, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206041	प्रवण आर. डी. रामालिंगा गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24685 02.06.09	कुरुबरा हास्पिटल के पीछे, एनईएस एक्टेशन, मालावली, सर्विस स्टैण्ड
206042	प्रवण डी. सवादत्ती दुर्गाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23762 03.04.09	# 2088, यदवद पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगांव
206043	प्रवणकुमार संगनागोडा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24743 03.06.09	सिद्दालिंगेश्वर निलाय, बी.बी.नगर, कुश्तगी तालुका, कोप्पल
206044	प्रवण कुमार करियाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23805 04.04.09	गवी सिद्दालिंगेश्वर बिलाया, प्लाट नं. 7, शक्ति नगर, गुलबर्गा
206045	प्रवणकुमार निंगाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27383 24.03.11	युकेपी कैम्प, राजनकोलर ग्राम व पोस्ट, शोरापुर तालुका यादगिरी
206046	प्रवणकुमार तोरावी विठ्ठल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30106 19.04.13	शाहु नगर, समीप हरी मंदिर, बीजापुर
206047	प्रवणकुमार बाबूराव अडिप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25527 04.03.10	# 7/206, गणेश नगर, हुलसूर पत्रालय, बसवाकल्याण तालुका, बीदर
206048	प्रवण मध्यानादावर जी.बी. मध्यानादावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25175 07.10.09	मदलुर पत्रालय, हीरेकेरुर तालुका, हावेरी

206049	प्रवण सज्जन यमनाप्पा बी. सज्जन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26734 28.06.10	आमिनगढ़ ग्राम व पत्रालय, हुनगुंड तालुका, बागलकोट
206050	प्रवण स्वामी महारुद्रा स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24869 06.06.09	ममदापुर पत्रालय, चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
206051	प्रीतम कृष्णाजी लमानी कृष्णाजी शिवप्पू लमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26594 22.04.10	लक्ष्मीनगर, बागलकोट
206052	प्रिथा. आर. रामा कृष्णा गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23768 03.04.09	द्वारा माले गौडा, सब्बाना कुप्पे, एम. शीठली पत्रालय, श्री रंगापटना, मंडया
206053	प्रिथम एच.एस. शंकर एच.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25373 25.01.10	कोटे, कादेर पत्रालय एवे तालूका, मलुर
206054	प्रिथि बी बसवाराज एच टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29843 30.10.12	बी लेयआउट, मैसूर
206055	प्रिथि भोसगी महावीर भोसगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29622 14.06.12	# 19/4, अँनापुर ग्राम अटहानी पत्रालय एवं तालुका बेलगांव
206056	प्रिथि एम राव जे मुरलीधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29459 24.05.12	तुलसी निलाय, के आर पुरम एक्टेंशन, शिमोगा
206057	प्रिथि नयैर बालासुभ्रमन्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25798 12.03.10	# 6-16-2, कवूर तालुका, मेंगलोर, तालुका दक्षिणा कन्नड़ा
206058	प्रिति अमृताराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30162 25.04.13	टीएमसी काम्पलेक्स, शाहपुर-तालुका यादगिरी, शाहपुर
206059	प्रिति प्रकाशराव कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24652 22.05.09	# 3-3-53/33, विद्या नगर, सेडम तालुका गुलबर्गा
206060	प्रिति अचार एम.वी. अचार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25504 04.03.10	# 7-7-48/5, गंगोत्री, सावित्री कालोनी, रायचुर
206061	प्रिति बी बी रामदास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30108 19.04.13	प्लाट नं. 20, रत्ना निवास, न्यू आदर्श कालोनी, तीसरा फेस, बीदर
206062	प्रिति बेलकुद काल्लाप्पा बेलकुद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24985 15.06.09	मुदलगी पत्रालय, गोकाक तालुका, बेलगांव
206063	प्रिति हट्टीकल गंगाधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24894 08.06.09	# एमआईजी-118, पाचंची क्रोस, नवानगर, हुबली तालुका, धारवाड़
206064	प्रिति जोगुर चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29613 14.06.12	# 1-109, गंगा निलाय, सिंदगी तालुका, बीजापुर

206065	प्रिति पाटिल शीतल एल सदालगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29477 24.05.12	समीप मिनोरिटी बैंक, तरदल ग्राम व पत्रालय जमखण्डी, तालुका, बीजापुर
206066	प्रिति परेरा थोमस परेरा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25483 03.03.10	एमआईजी-161, न्यू केएचबी कालोनी, हब्बुवाडा, करवर तालुका
206067	प्रिति प्याति शमराउ प्याति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29671 20.06.12	प्लाट नं. 16, सीआईबी कालोनी, सेन्ट्रल बस स्टैण्ड, गुलबर्गा
206068	प्रिति शान भाग अरविंद शानभाग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29507 26.05.12	# 4/2, टाईप-वी केपीसीएल कालोनी, गणेशवाडी सोईदा तालुका, उत्तराखण्ड
206069	प्रिति तंवर ओमपाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30341 18.05.13	म. नं. 741, -पी, सेक्टर-5, अरबन स्टेट, गुडगांव
206070	प्रेमचन्द्र रामेश्वर दयाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26686 28.05.10	द्वारा श्री श्री कालेज ऑफ आर्यु. साईंस कनकपुरा रोड, बंगलौर
206071	प्रेमा माथापति तीर्थय्या सी माथापति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29760 29.09.12	# 1119, अंकलगी समीप न्यू बस स्टैण्ड तालुका बेलगांव
206072	प्रेमा ए. वाडेयार आनन्द एस.के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	26792 19.08.10	नं. 436, पहली, सी क्रोस, दूसरी मेन, आठवीं, कोरामंगला लेयआउट, बीदर
206073	प्रेमा एच. व्यास गौरिश एस. हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25302 27.11.09	जदर गली, स्टेशन रोड, बीजापुर
206074	प्रेमलता अमृता येमपल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25357 12.01.10	# 4-10-338, रिंग रोड, वेंकटेश्वरनगर, सेडम पत्रालय एवं तालुका, गुलबर्गा
206075	प्रेमलता चतुर्वेदी आर.के. चतुर्वेदी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25903 15.03.10	# 46 नरसिंहां हाउस, के.जी. हल्ली, कलानगर, बीदर
206076	प्रेमलता कमाटे रामचन्द्र बलवंत के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27690 05.04.11	उगर बुदरुक, अटानी तालुका बेलगांव
206077	प्रमिला मसकरन्हास मरिन मसकरन्हास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24207 24.04.09	# 2-34, बारकुर पत्रालय, उदुपि तालुका
206078	प्रेमलता चौहान धनंजय गडागिन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28666 09.01.12	धन्नजय क्लीनिक, समीप मराता समाजा, सन्दुर पोस्ट एवं तालुका बेलारी
206079	प्रिया भट्ट कृष्णा भट्ट एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27785 07.04.11	अभुधवा हाउस, प्रलिया, बी.सी.रोड, जोडुमर्गा पत्रालय, डी. के
206080	प्रियादर्शनी जी चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30097 18.04.13	म. नं. 361/16/बी, धनेश्वरी कृपा, साईनगर, साई बाबा मंदिर, गडग



206081	प्रियादर्शनी एस सलवाराज डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30208 29.04.13	# 167, चौथी मेन, तीसरी ब्लाक, तीसरी स्टैज, बासवारनगर, बीदर
206082	प्रिया के आर के एम राजप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30433 29.05.13	श्री रत्नागिरी सडाना, अम्बेडकर एक्वेशन, टी. एच. रोड ताजम्पुरा तरिकेरे, तालुका चिकमंगलूर
206083	प्रिया केरुर राचप्पा केरुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23699 01.04.09	चौड बाजार, गुलेड गुड्डा, बादामी तालुका, बागलकोट
206084	प्रिया ठाकूर कुलबीर सिंह राणा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29131 07.05.12	वीपीओ, नगरन, उना
206085	प्रिया आर. शेट्टीतीगर आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25953 17.03.10	# 1171, 10वीं मेन रोड, बनाशंकरी पहली स्टैज, बीदर
206086	प्रिया एस.पी. श्रीपद पूजार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25522 04.03.10	एसएफ3 रु 8, साई सिन्धु अपार्टमेंटस, त्यागराज नगर, बीदर
206087	प्रियादर्शनी बी.वीराचार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25665 08.03.10	दूसरी क्रोस, राजाप्पा लेयआउट, जान्नापुरा, भद्रावथी, शिमोगा
206088	प्रियादर्शनी मल्लिकार्जुन एम मट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28872 18.04.12	# 08-09-310, श्री संगरमप्पा हाउस, गुरुनानक कालोनी, बीदर तालुका
206089	प्रियादर्शनी खरवी के.के.खरवी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	26433 26.03.10	फ्लेट नं. 3, चौथी फ्लोर, स्वर्णा आरकेड, जीबी पंथ क्रोस रोड उदुपि
206090	प्रियादर्शनी मगादम पापा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28676 31.01.12	पुष्पारग बिल्डिंग, दूसरी क्रोस, आदर्शनगर, वडागावं, बेलगांव
206091	प्रियादर्शनी. डी दसैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24517 12.05.09	# 614, ओल्ड माक्रिट रोड, तीसरी क्रोस, शकलेसपुर तालुका, हसन
206092	प्रियंका प्रभाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30118 19.04.13	म. नं. 14-9-281, लक्ष्मी काटेज, इडन कालोनी बीदर
206093	प्रियंका कृष्णाप्पा सी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26237 23.03.10	# 40/3, पांचवी क्रोस, देवसन्दरा, कुवेम्पू लेयआउट के. आर.पूरम, बीदर
206094	प्रियंका शिवपुत्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28751 02.04.12	# 8321, बसवाकल्याण सर्वोदय कालोनी, प्रियंका निलाय, बीदर
206095	प्रियंका अवधिया दौलत प्रसाद अवधिया	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	26770 09.08.10	# 302, साईदीप हनी डियू अपार्टमेंट, चौथी रोड, उलसूर, बेगलोर
206096	प्रियंका काबरा सुरेश चन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29593 13.06.12	# 3252, मेन रोड समीप सिंडीकेट बैंक गुलगुड पत्रालय, बादामी बागलकोट

206097	प्रियंका कडादी परापपा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30487 13.06.13	ग्राम व पत्रालय कालोली, तालुका गोकक, बेलगांव
206098	प्रियंका नसी शिवशंकरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30453 04.06.13	म. नं. 9-10, 145/1, प्रीति निलाय रामपुरा कालोनी, बी. वी.बी. कालेज रोड
206099	प्रियंका पाटिल महावीर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28367 31.05.11	उप्पीन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कल्याण नगर, सिंदगी, तालुका, बीजापुर
206100	प्रियंका आर जी रविन्द्रनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30234 30.04.13	म. नं. 220, समीप बस डिपो नं. 3, विद्या नगर, गुलबर्गा-तालुका
206101	प्रियंका एस साई कुमार पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28859 18.04.12	# 173/1, दीरज यूर्स लेयआउट, बी ब्लॉक, छठी क्रॉस, दावनगोरे
206102	प्रियंका सतीजा सुरेश कुमार सतीजा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25938 17.03.10	समीप बापूजी आर्यु. मेडिकल कालेज रोड चल्लाकेर तालुका, चित्रादुर्ग
206103	प्रियंका शर्मा रोशन लाल शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28802 11.04.12	गाव-बरोला पत्रालय
206104	प्रियंका सोनी दिनेश सोनी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28521 08.08.11	द्वारा जेएसएस एएमसी, एस.एस.नगर, बन्नीमनतप, मैसूर
206105	प्रियंका एम मन्जुनाथ जी. शेड्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27730 06.04.11	तीसरी क्रॉस, गांधी नगर, कुमटा तालुका, उत्तराखण्ड
206106	प्रियंका बी. खतवाटे बीमासत खतवाटे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	24613 18.05.09	# 1369/1, अल्बर गली, गडग
206107	प्रियंका एम. बी.एस. मल्लीगैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28132 26.04.11	# 17, दूसरी स्टैज, पहली क्रॉस, सातवीं मेन, निवेदितानगर, मैसूर
206108	पूजारी अमोगसिद्धा सिद्धा कुमार ए. पूजारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29762 29.09.12	भन्डारकवथे ग्राम व पत्रालय, साउथ सोलापुर तालुका सोलापुर
206109	पूजारी धनश्री नारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30114 19.04.13	राधा निवास, प्लाट नं. 4, मंगलवार पीठ, चर्च रोड, मिराज
206110	पूजारी नीलम मधुकर मधुकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28568 19.10.11	प्लाट नं. 8-9-114, सीवीपी नगर, कमट होटल के सामने, बीदर
206111	पुंड निलेश नन्दकिशोर नन्दकिशोर एस. पुंड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	23683 01.04.09	द्वारा सीसीआर आर्यु. मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, इंचल, सोनदत्ती तालुका, बेलगांव
206112	पूनीत शर्मा बलवंत शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26497 06.04.10	सेननृपती, विद्यानगर, पाचवी क्रॉस, बादामी तालुका बागलकोट

206113	पूनीथ कुमार बेनाकनावरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	28883 20.04.12	अन्नपूर्णा निवास, समीप केवीएसआर कालेज, विद्यानगर, मसारी, गडग
206114	पूनीथ कुमार पी. पदमनाभन आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	24767 04.06.09	# 07, कोलूर गावं, अन्थराली, डोडाबालापूर, बीदर
206115	पूनीथ कुमार के.एम. राजशंकरैय्या के.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26825 25.08.10	चिलूर, कडाडाकट्टै पत्रालय, होनली तालुका दावनगेरे
206116	पूनीथा डोरेचन्द्रराव डोरेचन्द्रराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29987 06.04.13	ओल्ड एम्प्लोयमेंट के पीछे आफिस काउल बाजारी, बेलारी
206117	पूनीत मालेद बालचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28914 26.04.12	आंगनवाडी ग्राम व पोस्ट बिलागी, तालुका, बागलकोट
206118	पून्या बी. राव के भास्कर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27727 06.04.11	सनखयायना, वेस्ट ब्लोक रोड, कुन्डापुर तालुका
206119	पूर्के राहुल रामचन्द्र रामचन्द्र वसंत पूर्के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25182 08.10.09	चालुक्या नगर, सातवीं क्रॉस, बड़ापीट तालुका बागलकोट
206120	पूर्णन्द शर्मा चिमनलाल शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	30597 07.08.13	60-ए ब्लॉक, श्री गंगानगर, राजस्थान, गजसिंहपुर
206121	पुरुषोत्तम पाटिल मुरलीधर राव पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2008	25390 10.02.10	# 8-10-185, कृष्णा कुटीर, गणेश मैदान, बीदर
206122	पुष्पा जोगीहल्ली कन्कप्पा जोगीहल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25642 06.03.10	यालापुर, चिकरूर पत्रालय, हीरेकेरूर तालुका हावेरी
206123	पुष्पा पॉल भास्कर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27617 01.04.11	म. नं. 40, बासवा इस्टेट, नवानगर, हुबली, धारवाड
206124	पुष्पा टुप्पड करहप्पा टुप्पड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29186 14.05.12	ई.डब्ल्यू.एस. 20, सिद्दालिंग नगर, हुडको कालोनी, गडग
206125	पुष्पा आर रामू एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25546 05.03.10	# 311, पांचवी क्रॉस, तीसरा फेस, पांचवी ब्लॉक, बनशंकरी, बंगलौर
206126	पुष्पलता महाराणा प्रभाकर महाराणा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24348 29.04.09	जीबीजे 260, दसवीं क्रॉस, पहली मेन, एचएएल क्वाटर्स, माराठहल्ली, माधवपुरा, बीदर
206127	पुष्पलथा एन नरसिम्हामूर्ति सी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30346 20.05.13	बराडी (बी), मंडीगेर (पी), नीलामंगला (टी)
206128	पुष्पेन्द्र कुमार राठौर हीरा साय राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27368 24.03.11	नौवीं मेन, चौथी क्रॉस, चौथी स्टेज, टी.के. लेयआउट, मैसूर

206129	पुत्तैय्या भीक्षावर्त्तमठ ओमकारैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25931 17.03.10	हनुमापुर, रणबेनूर तालुका, हावेरी
206130	कादरी मोहम्मद शुएब महबूब सलीम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25553 05.03.10	जेवाले पत्रालय, गजेन्द्रागढ़, रोन तालुका, गडग
206131	रबीन भुसाल पुष्कर नाथ भुसाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30151 24.04.13	एसडीएम कालेज ऑफ आर्यु एवं हास्पीटल, बी.एम.रोड, हसन
206132	रबीया बानो सैय्यद यूसूफ सब एम.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25385 05.02.10	शिवाजी मट्ट, मुहल्ला, नदुवल पीट, हरिहर तालुका, दावनगेरे,
206133	रचना बालाकृष्णन ई.टी. बालाकृष्णन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30602 19.08.13	मीनाक्षी पुरम मेलूर पोस्ट आफिस, पलयद (वाया) कन्नूर (डी), केरला, थल्लासेरी
206134	रचना गौडा चन्द्रशेखर एम डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29998 08.04.13	पत्रालय गोगी (के), तालुक—शाहपुर, यदगिर, गोगी (के)
206135	रचना पी.सी. पी.जी. चन्द्र शेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24296 29.04.09	# 1895, पहली क्रोस, शिवा मस्जिद रोड, लश्कर मोहल्ला, मैसूर
206136	रचप्पा गंजीहल मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23975 18.04.09	नवानगर, गजेन्द्रगढ़, रोन तालुका, गडग
206137	राधा हचिनाल महंतप्पा रंगारेड्डी जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29828 30.10.12	आनन्द नगर, तीसरी क्रोस, बादामी—तालुका, बागलकोट
206138	राधा प्रिया आर बी.वी. रामानाथैय्य सेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25571 05.03.10	# 9/2, अपस्टैयर्स, ओबालप्पा क्रोस, चिक्कामवल्ली, बंगलौर
206139	राधामणी बेवीनहल्ली टी.मधुकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24974 11.06.09	# 222/1, होसपित रोड, हरापन्नाहल्ली, दावनगेरे
206140	राधिका ए. ए. नं. नागभूषण ए.वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30269 06.05.13	# 2616, अन्चे वर्ते, जोस स्ट्रीट, त्रिकेर (टी), चिक्कमंगलोर (डी), त्रिकेर
206141	राधिका ए. जे सुनील ए. अराली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24530 12.05.09	बस स्टेण्ड रोड, समीप अमर लोझ, गंगावति तालुका कोप्पल
206142	राधिका एस.एम. मारिगौडा एस.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23930 09.04.09	# 438, सेक्ण्ड ब्लॉक, पाचवी मेन, एच ब्लॉक, आर के नगर, मैसूर
206143	राधिका एस.एम. एस. मालैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24295 29.04.09	# 2616, अन्चे वर्ते, जोस स्ट्रीट, त्रिकेर (टी), चिक्कमंगलूर (डी), त्रिकेर
206144	राधिका टी टी. नरसिंहा माल्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27527 28.03.11	मैदान, चौथी क्रोस, गोलकरे स्ट्रीट, मंगलोर

206145	राधिका टी. पी. तुकाराम गौडा एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24900 09.06.09	पदमश्री निलाय, उजायर, कुटीनी, लैला, बेल्थनगड्डी, दक्षिण कन्नड
206146	रफी एम एम. अब्दुल गफार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30116 06.06.13	म. नं. 2-23, डौडारपल्ली (वी), परमाला (पी), गढवाल (एम), महबूबनगर, गढवाल
206147	रफिया भानू के.ए. अब्दुल गफार के.ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28140 26.04.11	कुशलनगर, हासन रोड, कनिवे, कुडीज सोमवारपेट, कोडगू
206148	रफियाबानो तलिकोटि आलाबक्श तलिकोटि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30084 18.04.13	समीप बडीकमन, नलबन्द गार्डन, प्लाट नं. 37, बीजापुर
206149	राघराम सुभ्रमन्या भट्ट सुभ्रमन्या एस. भट्ट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25669 12.03.10	# 100, अरुणोदय वेंकटेशवर फार्म, श्रीगंधाकवल विश्वानिदम, बंगलौर
206150	राघवनकप्पा एच बसवाराजप्पा एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23853 06.04.09	# 51, सदाशिव नगर, तेरहवीं मेन रोड, सरुगुप्पा तुलुका, बेलारी
206151	राघवेन्दरा चन्द्रकांत एस वादि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29237 15.05.12	धन्नुरा ग्राम व पत्रालय, बसवाकल्याण तालुका बीदर
206152	राघवेन्द्र घल्लुर चिन्नाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28707 30.03.12	# 73, वार्ड नं. 04, नदवीन पथ, गुलेदयुद्ध बादामी तालुका, बागलकोट
206153	राघवेन्द्र मल्लीगोप्पागोल रविन्दरा मल्लीगोप्पागोल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24943 10.06.09	# 188/2सी प्लाट नं. 23, बसवा नगर, गोकक तालुका, बेलगांव
206154	राघवेन्दरा महारावेड शंकरासा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25214 13.10.09	गंजीपेट, नायकर कालोनी, गजेन्द्ररागड, पत्रालय रोड तालुका, गडग
206155	राघवेन्दरा नायक शंकरा नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27728 06.04.11	नं. 3/7, थेंगिनाजेडू कन्नर, पेथरी पत्रालय चेरकडे, उदुपि तालुका
206156	राघवेन्द्र प्रभाकर सिद्धेशवर पी उमामहेश्वर एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23844 06.04.09	करकी पत्रालय, होन्नावर तालुका, उत्तरखण्ड
206157	राघवेन्द्र प्रसाद टी बी श्रीनिवास राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29875 29.11.12	स्वर्णाम्मा काम्पलेक्स, कादुर ग्राम व पत्रालय एवं तालुका, चिकमंगलोर
206158	राघवेन्द्र रायकर विशनाप्पा रायकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26035 19.03.10	कामाक्षी निलाय, मातोड रोड, तिलावली पत्रालय हंगल तालुका हावेरी
206159	राघवेन्द्र सारंगी शिवाशनकराप्पा सारंगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28420 20.06.11	नं. 1060/बी, गुलेडगुड, बादामी तालुका, बागलकोट
206160	राघवेन्द्र शेट्टर परशुराम शेट्टर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28034 19.04.11	बेलावकी ग्राम व पत्रालय, रोड तालुका, गडग

206161	राघवेन्द्र स्वामी. बी पार्थासारथी बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2001	28623 15.11.11	# 27, सतरहवीं बी क्रोस, तेरहवीं मेन, पाचंवी मेन, पाचंवा फेस, जे.पी. नगर, बंगलौर
206162	राघवेन्द्र डी देवेन्द्राप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25328 10.12.09	# 3/127, मेन रोड, हंडारकी, सेडम, गुलबर्गा
206163	राघवेन्द्र टी थीप्पेस्वामी. के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24543 13.05.09	कृष्णापुरा, धर्मापुरा, हिरीयून तालुका, चित्रदुर्ग
206164	राघवेन्द्र वी.एस. वीरुपक्षाप्पा शिल्पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25137 25.09.09	देवराज उर्स बडवाने, शिरालाकोप्पा पत्रालय, शिकारीपुरा तालुका, शिमोगा
206165	राघवेन्द्र वाई यालूकोत्याप्पा एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23917 09.04.09	थीम्मापुरा, अनावती पत्रालय, सोरबा तालुका, शिमोगा
206166	राघवेन्द्रचार एच.एम. मंजूनाथाचार्य	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24122 22.04.09	बालाजीनगर सीरा तालुका, टुमकूर
206167	रघु हाउस शंकर बी हाउस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29583 12.06.12	# 218बी, शरण बासवेश्वर नगर, बेटागिरी पत्रालय, गडग
206168	रहमठ मुहम्मद बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28135 26.04.11	सामने राइस मिल, के.एम. रोड., बन्कल पोस्ट, मुडीगेरे तालंका, चिकमगलूर
206169	राहुल मुदगल जी.पी. शर्मा मुदगल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25277 04.11.09	नवलगुण्डा, कम्प्लेक्स, शिवानन्द नगर, गडग
206170	राहुल यशवन्त कोडोलिकर यशवन्त डी. कोडोलिकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28602 19.10.11	# 3-16'1380, इलाल गैरेज के पीछे, कादरी टोलगेट कादरी, मंगलौर, अक्षिणी कन्नड
206171	राजकुमार ददना डाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29893 20.12.12	सुंगरगल्ली, दोहरगल्ली, लिंगासागर जालों एवं पोस्ट, रायचूर
206172	राजलक्ष्मी रविन्दरन के.एस. रविन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28899 20.04.12	शांति भवन, उमानगर, स्ट्रीट नं. 6, कोलजेय, थिसूर
206173	राजन दवादे अरुण गोविंद दवादे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	28686 23.02.12	# 25, दूसरी क्रोस, विनायक नगर, हब्बल यूनिर्वसल शोरूम, बंगलौर
206174	राजन कुमार जायसवाल सी. जायसवाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25208 09.10.09	भाग्यलक्ष्मी बिल्डिंग, मगडी मेन रोड, कामाक्षिपल्या, बंगलौर
206175	रजनी राघवेन्द्र कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29546 28.05.12	टी-वीआई-20, आर.टी.पी.एस. कालोनी, शक्तिनगर, रायचूर तालुका
206176	रजनी गुरुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29994 08.04.13	समीप सन्तोष सिन्ना थियेटर, तालुका ओराड बीदर

206177	रजनी धाडेड बालाचन्द्र धाडेड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25671 12.03.10	# 133, शास्त्री नगर, बीजापुर
206178	रजनी गुंडप्पा कमाटे गुंडप्पा ए कमाटे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29520 26.05.12	शिवानुग्रहा, आदित्य नगर, गोकक पत्रालय एवं तालुका, बेलगांव
206179	रजनी हेगडे डी.एस. हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30562 17.07.13	नीरनाहल्ली, ईटागुली पत्रालय, सिरसी तालुका, उत्तर कन्नड़
206180	रजनी काग्गा के शिवाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30370 21.05.13	24-29-219/1/1, मोहन गांधी स्ट्रीट गुलाबीटोटा, रोकलपालम, विजयवाड़ा, कृष्णा
206181	रजनी प्रभु ए. रमेश प्रभु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25526 04.03.10	# 2-107बी, मलप क्रोस रोड अशोकानगर, सन्थेकट्टे, उदुपि तालुका
206182	रजनी तलावर दुर्गाप्पा एच.तलावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26147 20.03.10	कुम्बारपेट क्रोस, मुदगल, लिंगाशुगर तालुका, रायचुर
206183	राजप्पा शतपाड़ी भीमाप्पा शतपाड़ी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28618 05.11.11	एम. कोरचारा हल्ली, हारापनाहल्ली तालुका, दावनगेरे
206184	राजाराम स्मिता पांडुरंग राजाराम पांडुरंग. डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23716 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौनदत्ती तालुका बेलगांव
206185	राजाशेखर चन्नावासैय्याह वस्त्राद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24200 24.04.09	# 5-5-123, विजयनगर कालोनी, गंगावती तालुका कोप्पल
206186	राजशेखर के. भगवती कलाप्पा के. भगवती	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27556 29.03.11	बनाशंकरी, बादामी तालुका, बागलकोट
206187	राजशेकरा एम विश्वनाथैय्याह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29210 14.05.12	नं. 1549 छठी मेन रोड, ई ब्लॉक दूसरी स्टेज, राजाजीनगर, बंगलौर
206188	राजाशेकर गुंडप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28583 19.10.11	रामपुर, राजेश्वर पत्रालय, बसव कल्याण तालुका, बीदर
206189	राजशेखर मेट्टी सोमप्पा एच. मेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24204 24.04.09	कटारकी पत्रालय, बिलगी तालुका, बागलकोट
206190	राजशेखर पिरागा चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28580 19.10.11	# 36, इडि रोड, एपीएमसी क्वाटर्स, बीजापुर
206191	राजशेखर तुक्कानट्टी गोविंद बी तुक्कानट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29382 21.05.12	घटप्रभा, मालापुर, गोकाक तालुका, बेलगांव
206192	राजश्री राजशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29024 27.04.12	नं. 12/101, जोपदा पट्टी, जोवरगी गुलबर्गा

206193	राजाश्री चन्द्रकांत हीरेमठ चन्द्रकांत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26530 12.04.10	दानेश्वरी निलाय चालुक्य नगर, सोलापुर रोड, बीजापुर
206194	राजश्री इलिगेर लक्ष्मण सी. इलिगेर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23860 06.04.09	# 918/18, बागलकोट रोड के.के. कालोनी श्री मुजुनाथ निलाय, बीजापुर
206195	राजश्री लाकुरे बाबूराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24798 04.06.09	# 27, उगर-खुर, अटहानी तालुका, बेलगांव
206196	रजत अनेगुंडी एम सी अनेगुंडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29005 27.04.12	सी-441, अनेगुंडी प्लाटस, बस स्टैण्ड के पीछे हलीयल पत्रालय एवं तालुका, उत्तर कन्नड़
206197	रजत पी.एस. सूर्यनारायणा सेट्टी पी. आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23912 09.04.09	न्यू भाग्यलक्ष्मी स्टोर, संतपीठ, अरसीकेर तालुका, हासन
206198	रजतकुमार के.एल. के.आर. लोकेश बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24488 11.05.09	हुलियार रोड, अर्सीकेरे तालुका, हासन
206199	राजीव पांडूरंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28752 02.04.12	मनडेवाल (एलटी) जवार्गी तालुका, गुलबर्गा
206200	राजीव कुमार बेनी राम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30340 18.05.13	महावीर नगर, म. नं. 295/6, फिरोजाबाद
206201	राजेन्द्र कग्गोड शिवलिंगप्पा कग्गोड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27353 24.03.11	कालिका नगर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
206202	राजेन्द्र कुमार जसवाल किर्तन लाल जसवाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26665 14.05.10	अमरुथा आर्यु. मेडिकल कालेज, ओनक्के ओबाव्वा स्टेडियम, चित्रदुर्गा
206203	राजेसब कबाडे दस्तागिरसाब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30261 04.05.13	ग्राम मंगलोर, पत्रालय देवापुर तालुका
206204	राजेश शरणप्पा शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23858 06.04.09	आईटीआई कालेज रोड हंचीनाला, सवादत्ती तालुका, बेलगांव
206205	राजेश बयारी महाबल बयारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25766 12.03.10	चित्रकुटा, अलोर, कुंडापुर तालुका उदुपि
206206	राजेश कुमार सिंह दड्डन सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27015 07.01.11	# 402, दूसरी क्रोस, जज कालोनी, गंगानगर, बंगलौर
206207	राजेश पठान पठान सैदा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28499 26.07.11	द्वारा एएमसी, दसवीं क्रोस, पाइपलाइन, विजयानगर, बंगलौर
206208	राजेश शिद्वलिंगप्पा ऐनापुर शिदलीनागर ऐनापुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24044 20.04.09	मुनावल्ली पत्रालय, सौनदत्ती तालुका, बेलगांव



206209	राजेश शिवापूजीमठ वासैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30253 03.05.13	सेक्टर नं. 58, प्लाट नं. एस 113, बागलकोट तालुका एवं नवानगर
206210	राजेश सुभाष तेलंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27352 24.03.11	अम्बेडकर सक्रल मेन रोड, हुमनाबाद, बीदर
206211	राजेश बी. भास्कर जी.बी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24773 04.06.09	# 4-11, केम्बार, सुमन विहार, पडिल पत्रालय, मंगलोर
206212	राजेश बी.ए. नं. नारायणस्वामी. एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25911 15.03.10	# 25121, 1157, नौवीं क्रोस, तीसरी मेन, महेश्वरी नगर पिनया दसराहल्ली बंगलौर
206213	राजेश डी. नायक धक्कप्पा ए नं. नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26815 20.08.10	पहली क्रोस, अम्बागिरी, सिरसी पत्रालय एवं तालुका, करवार
206214	राजेशा बासवाराजा होसामनी बसवाराज होसामनी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24540 13.05.09	शकर, हावेरी तालुका एवं हावेरी तालुका
206215	राजश्री हनमंतराव कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30314 10.05.13	प्लाट नं. 303, स्नेहा धारा महावीर नगर न्यू जेवर्गी रोड, गुलबर्गा तालुका
206216	राजेश्वर पी. चन्द प्रभु ए नं. चन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26547 12.04.10	समीप राघवेन्द्रा कल्याण मनतप अम्बेडकर सक्रल मुधोल तालुका पोस्ट ऑफिस एवं गांव मंगलोर
206217	राजेश्वरी शिवाबसप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29553 12.06.12	नवानगर गजेन्द्रगढ़ ग्राम व पत्रालय रोन तालुका गडग
206218	राजेश्वरी बसवाराज पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24830 06.06.09	# 93, प्रभु, निवास, विद्या नगर, सेडम रोड, गुलबर्गा
206219	राजेश्वरी होरिली दशरथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26223 23.03.10	# 4, मल्लिकार्जुन नबर, समीप इंजीनियरिंग, कालेज, बीएलडीए लडकों का हास्टल बीजापुर,
206220	राजेश्वरी एस जे एम.एच जयाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30566 18.07.13	# 61, उन्नीसवीं मेन, चौदहवीं क्रोस, पदमनाभा नगर, बंगलौर
206221	राजेश्वरी शिगिहल्ली गंगाधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24339 29.04.09	# 572ए26 (13, ) टीचर कालोनी, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206222	राजेश्वरी आर.वी. एच.के. रगानाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25079 30.07.09	# एलआईजी 37, छठी क्रोस, के ब्लाक, रामाकृष्णा नगर, मैसूर
206223	राजगोलकर नितिन मनोहर राजगोलकर मनोहर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24622 18.05.09	म. नं. 266, लक्ष्मीगल्ली, बेविकनकेर पत्रालय, बेलगांव
206224	राजगोडा जमबागी मेलगीरेप्पा जमबागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23776 03.04.09	# 1230, शंकर नगर, अट्नी तालुका, बेलगांव

206225	राजिने ई.टी. श्री कृष्णा एच. जीगालूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27572 29.03.11	जे.टी.कालेज, बस स्टाप, हत्तागेरी बिल्डिंग के सामने, मसारी, गडग
206226	रजनी एन नागाराज सास्त्री एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30231 30.04.13	# 1995, लक्ष्मी निलाय, विवेकानन्द नगर, बांगरपेट, तालुका
206227	राजकुमार मारुति राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26908 21.09.10	# 19-1-72, शिव नगर साउथ, बीदर तालुका
206228	राजकुमार बाबूराव शिन्दे बाबूराव शिंदे	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	29738 03.09.12	तडाकल ग्राम व पत्रालय वाया रताकल, गुलबर्गा
206229	राजोथपाल सेन प्रबीर सेन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26959 29.10.10	# 5, जयभारत रोड, नेत्रवती एक्सटेंशन, के.आर.पुरम, बंगलौर
206230	राजपूत एस.जी. गुंडप्पा राजपुत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26739 29.06.10	# 131 बंजारा नगर, शोलापुर रोड, बीजापुर
206231	राजू कबाड़ी दुशान्तशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29424 23.05.12	विश्वेश्वरैया नगर, कलासा पुर रोड, गडग
206232	राजू किलाकर लक्कप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29899 24.12.12	गुरुमटकल पुलिस स्टेशन, गुरुमटकल यदागिरी तालुका
206233	रकाटे वसुन्धरा विजय रकाते विजय दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29644 14.06.12	# 33/870, नेहरू नगर, एस जी बारवे रोड कुरला (वेस्ट) मुंबई
206234	राकेश.जी गुरुराज .बी.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28901 20.04.12	157/8 एनईएस ऑफिस के पीछे, होसददुर्गा, तालुक, चित्रदुर्गा
206235	राकेश कुमार वीर सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30168 25.04.13	गांव कनोयाला निचला, पोस्ट आफिस, गुनाह, टी.ई.एच., नालागढ़, सिलान, नालागढ़
206236	राकेश कुमार राय अजित कुमार राय	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30541 04.07.13	विद्यानगर, दरवाजा नं. 14-118, वेस्ट गोदावरी इलूरु, आन्ध्र प्रदेश
206237	राकेश कुमार.एन पी. नन्द कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25237 16.10.09	अयप्पा निवास, छठा ए मेन रोड, एचएमटी लेयआउट, आर.टी. नगर
206238	राकेश मदार चौदप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29096 7.05.12	हनुमा पुर गावं व पत्रालय, रणबेनूर हावेरी
206239	राकेश रोशन देवीदास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28722 30.03.12	28/441, शिवपुरा रोड, आदर्श नगर, बोसावाकल्याण, बीदर
206240	राकेश शर्मा.के.एम. मधुराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26184 22.03.10	चिकादादाकते, होनाली, तालुका दावनगेरे

206241	राकेश. एम.बी. बासवाराजू. एम.वी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24229 28.04.09	बसवानहल्ली, अरविंदनगर पत्रालय, चिकमलूर
206242	राकेश.एस एस.थिन्दप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28538 07.09.11	दरवाजा नं. 152/138, एम जी मेन रोड, कोटलूर कुडलगी तालुका, बेलारी
206243	राकेश.वाई.आर. वाई.आर.रंगनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24469 11.05.09	जनयाना सौदर्या लेयआउस सीरागेट, टूमकुर
206244	राकेश कुमार गुजर शशि कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30299 08.05.13	प्लाट नं. 283, पानी टंकी के पास, कनकादास बड़वाने बीजापुर तालुका
206245	राखुन्डे प्रदीप सोपान सोपन संदीपन रखुन्दे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25129 24.09.09	भावीकट्टी हास्पिटल के सामने, सिंदगी तालुका बीजापुर
206246	रक्षा डी. धर्मराजा वी.जे.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30478 11.06.13	# 235, 21वां मेन रोड श्रीनिवास नगर, नंदनी लेआउट
206247	रक्षा राय महालिंगा राय एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30522 25.06.13	अनुग्रह, 12/128-4 चौथा तल, बी.सी.रोड बंधवाल तालुका दक्षिण कन्नड
206248	रक्षा.ए. नं. आर रमेश .ए. नं. जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24254 28.04.09	# 1137, दूसरा क्रोस, पहली मेन, श्रीरामपुरा दूसरी स्टेज मैसूर
206249	रक्षा.पी कृष्णा प्रमोद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28577 19.10.11	पलेपेडी हाउस, अवरंदू पोस्ट सूलिया तालुका, दक्षिण कन्नड
206250	रक्षिथा जैन एस.बी. ब्रहमप्पा एस डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30553 16.07.13	पदमाकृपा हाउस, जैन गली, सलीग्राम, के.आर.नगर तालुका सलीग्राम मैसूर
206251	राम केस्टी महादेव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30450 04.06.13	ग्राम व पत्रालय जगन्नूर तालुका चिकौडी बेलगांव जगन्नूर
206252	राम कुमार गुप्ता हरि शंकर गुप्ता	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30236 30.04.13	नया बाजार पार्ट-2, भदोही सिटी रविदास नगर भदोही
206253	राम लखन यादव झंडी यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29756 29.09.12	ई-404, आमंत्रण नित्यानंद नगर, पूर्व मीरा भयानेद तालुका ठाणे
206254	रामा लिंगहल्ली एस शरणप्पा लिंगहल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27396 25.03.11	प्लाट नं. 12, दूसरा ब्लॉक, ओम नगर, गुलबर्गा
206255	रामचन्द्र रमैया	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30513 19.06.13	गांव कोगंलाबीडू गांव व पत्रालय, तालुका, होलेनरसिपुरा, हासन होलेनरसिपुरा
206256	रामचन्द्र कृष्णा हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23761 03.04.09	# 114, कालेमाने कालाचे पत्रालय, यालापुर तालुका उत्तर कन्नड

206257	रामचन्द्र कुराने कुराने हुवन्ना रामू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29401 21.05.12	नं. 252/5, श्रीनिवास चाल, ग्राम व पत्रालय, रायबाग तालुका, बेलगांव
206258	रामचन्द्र मलप्पा मलप्पा आर.राठौर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27560 29.03.11	पहली क्रोस, अट्टीकोला समीप रेलवे स्टेशन, धारवाड
206259	रामकृष्ण विष्णु बी विष्णु एल. बडगू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29871 21.11.12	फंगशन हाल, उसमोनी मस्जिद के पीछे रिंग रोड गुलबर्गा
206260	रामलिंगा एस.हुगार शिवाशरणप्पा हुगार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27389 25.03.11	मोगला, पहली मेन रोड, मलखेड रोड पत्रालय, चीतापुर तालुका गुलबर्गा
206261	रमन गौडा अप्पासाहिब हीरेगौडार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27200 19.03.11	यूकेपी कैम्प, टीई 29/1बी गुडी, शाहपुर तालुका यादगिरी
206262	रामानायक एल लाल्यानायक आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29815 12.10.12	कोगली टांडा, कोगली पत्रालय, हागेरी बोम्मना हल्ली तालुका, बेलारी
206263	रमनगोड पाटिल मल्लना गौड जे. पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26853 01.09.10	विद्यानगर, सिंदगी रोड, अम्बिका निवास, इंडि पत्रालय एवं तालुका, हासन तालुका
206264	रामानुज के.के. कृष्णास्वामी के.एस.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27774 07.04.11	क्याथनाहल्ली, उगाने पत्रालय, हसन तालुका
206265	रामप्पा माडीहल्ली नगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30503 17.06.13	ग्राम व पत्रालय, काबुर, तालुका—चिकौड़ी, बेलगांव
206266	रामराजू बी. बनागरा नायडू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25634 06.03.10	समीप प्राईमरी स्कूल, कट्टानापल्ली हल्ली, छललाकेर तालुका, चित्रादुर्ग
206267	रमेश देवप्पा गंगानल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27033 01.03.11	ग्राम व पत्रालय, हीरेमान्नापुर तालुका, कुस्तगी
206268	रमेश चव्हाण धनसिंह चव्हाण	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24730 03.06.09	समीप मुकुन्दासद मंदिर, केईबी टांडा, इंडि तालुका, बीजापुर
206269	रमेश हचिनाल शशिधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25287 21.11.09	# 35, अश्विनी कालोनी, बीएलडीई रोड, बीजापुर
206270	रमेश नारायण सुत्तुर नारायण के सुत्तुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29626 14.06.12	सवालगी ग्राम व पत्रालय, जमखण्डी तालुका बागलकोट
206271	रमेश संक्राट्टी पारासप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24353 30.04.09	बाल्लिहेरी पत्रालय, अठानी तालुका, बेलगांव
206272	रमेश सेडामकर बानापपा सेडामकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25166 05.10.09	नारायणपुर स्ट्रीट, गुरनीतकर, यदगिर तालुका, गुलबर्गा

206273	रमेश शिरूर शंतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26929 05.10.10	# 290, मानाबगुल्ली रोड, के.के नगर, बीजापुर
206274	रमेश डी. दत्ताप्रसाद के.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24862 06.06.09	# 348/1, के.बी. एक्टेशन, दूसरी क्रोस, दावनगेरे
206275	रमेश एम.पी. परमेश्वराप्पा एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25310 27.11.09	हलियापुरा, गटूर कालोनी, गटर पत्रालय हरिहर तालुका दावनगेरे
206276	रमेश डी. परावन्नी दुंदप्पा एस. परावन्नी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25416 25.02.10	नन्दगांव पत्रालय, गोकक तालुका, बेलगांव
206277	रमेशाप्पा लमानी चिकप्पा लमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28858 18.04.12	वेंकटपुर, ककोला पत्रालय, रणबेनूर तालुका, हावेरी
206278	रमिथा आर हेगड़े एम रामादास हेगड़े	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28955 26.04.12	जलाजाक्शी निलाय, हीरूर ग्राम व पत्रालय, उदुपि
206279	रामनाथ नायक एम. रमेश नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26163 20.03.10	मीठा बेल पत्रालय, वाया मुडबीदरी, मंगलोर, दक्षिणा कन्नड़
206280	रामतीर्थकर समीर चिंतामणि सी गणेश रामतीर्थकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24414 05.05.09	श्री वीरभद्रेशवर निलाय, विकास नगर केपीटीसीएल रोड, कोप्पल
206281	रामया ए एन नागामालप्पा ए एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29646 14.06.12	वीराशैवा लिंगायता स्ट्रीट, अराकलवाडी, चमराजनगर
206282	रम्या कृष्णा के.वी कृष्ण पी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28888 20.04.12	पहला तल सुधिक्षा, चौथी पराल्ले एल रोड, आरएमएल नगर, शिमोगा
206283	राम्य ए नं. सोगल एस.आर. नागेन्द्रन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26897 17.09.10	# एल66, तीसरी क्रोस, तीसरी मेन, ई एव एफ ब्लाक, रामाकृष्णानगर, मैसूर
206284	राम्या एस सिद्धरामैय्यहा एल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30173 25.04.13	# 67, सातवीं क्रोस, अनारग्या निलाय, मुड्डालिगेश्वर मंदिर रोड, मैसूर
206285	राम्या वी आर वी पी राघवन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30356 20.05.13	एल-7, वाटर टैंक के सामने, एलआईसी कालोनी , जीवन बीमा नगर, बंगलौर
206286	राम्या बी एच हरीशचन्द्र बी.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24499 11.05.09	# 14-बी/108, समीप डी.ए.आर. क्वार्टस, मदकेरी तालुका, कोडागू
206287	रम्या एच.एन नागराजे गौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24255 28.04.09	# 537, टी.ए नं. पूरा रोड, गिरीदर्शनी, लेयआउट ललिताद्रिपूरा, मैसूर
206288	रम्या एच.पी पदमराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24939 10.06.09	श्रेयास (एच), कसगुप्पे, अरालागोडू पत्रालय, सागर तालुका, शिमोगा

206289	रम्या के.एन के.आर. निगाराजू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24710 03.06.09	# 3888, पहली क्रोस, तीसरी मेन, सरस्वतीपूरम, हासन
206290	रम्या एस शंकराप्पा एम.टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24514 12.05.09	दूसरी क्रोस पूर्व, भीमाप्पा नायका रोड, सी.के.पूरा, चित्रदुर्ग
206291	रम्या यू.एच हुवैय्या यू.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24189 24.04.09	4-59, अरनथोडू पत्रालय, सूल्लीया तालुका, दक्षिणा कन्नड
206292	रम्या यू.के. यू.के. वेंकटाकृष्णा राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27469 26.03.11	पलैट रु 33, अम्बेडकर लेयआउट, आर.टी. नगर, बंगलौर
206293	रम्याश्री जी एस गणेशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29242 15.05.12	नं. 1025 छठी क्रोस, बनाशंकरी, पहली स्टेज, अशोकनगर, बंगलौर
206294	राणादेव स्मिता प्रकाश राणादेव विलास बलवंत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28053 19.04.11	द्वारा मनु बिल्डिंग, बेडकिहाल ग्राम व पत्रालय, चिकौडी तालुका बेलगांव
206295	रणदिवे प्रियंका विलास राणदिवे विलास गुंडप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24845 06.06.09	# 2081, सत्या साईं सदन, पहली मेन, चौथी जुडीसियल लेआउट, जीकेवीके, बंगलौर
206296	रानी मठ माल्या शिवयोग्या मठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29573 12.06.12	प्लाट नं. 36, सेक्टर नं. 06, श्रीनगर, बेलगांव
206297	रानी सुमीत्रा देगीनल सुभाषचन्द्र देगीनल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28384 09.06.11	# 233, बाजार रोड, गोगी ग्राम व पत्रालय, शाहपुर तालुका, यादगिरी
206298	रंजीता जी. गन्यानरेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28692 06.03.12	ग्राम व पत्रालय बन्नाल्ली, हुमनाबाद—तालुका, बीदर
206299	रजनीथ जी.के कृष्णप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30232 30.04.13	# 621, सातवीं मेन, आठवीं क्रोस, यशवंतपुरम
206300	रजनीथ कुमार एच. हनुमनथप्पा जी.सी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27798 07.04.11	# 1-11-56/70, सरस्वती निलाय, देवरु कालोनी, रायचूर
206301	रजनीथ कुमारा शेट्टी डी जयराम शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29422 23.05.12	सिद्धापुसा ग्राम व पत्रालय, कुंडापुसा तालुका, उदुपि
206302	रजनीथा हरियप्पा नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25838 12.03.10	माधवा नगर, कोडावुर पत्रालय, उदुपि
206303	रजनीथा एच पी पुतास्वामे एच डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29800 12.10.12	सप्तगिरी निलाय, कुवेम्मूर नगर, दूसरी स्टेज, चिरान्नहल्ली रोड के आर नगर मैसूर
206304	रजनीथा ए ए अचूथा राव ए ए	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25795 12.03.10	जी.पी/166, मरीगुनी सलूर, कोंडलूर पत्रालय, तिथोहल्ली तालुका, शिमोगा

206305	रजनीथा बी एम मुरुगेश बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25640 06.03.10	लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, चिकमगलूर
206306	रजनीथा एच.जी. गंगा गौडा सी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25794 12.03.10	# 78, तीसरी क्रोस, शुगर टाउन, मंडया
206307	रनमोडे रमेश मारुति रनमोडे एमसदाशिव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24531 12.05.09	बस स्टेण्ड रोड, समीप पोस्ट ऑफिस, रोन तालुका, गडग
206308	राव शिल्पारानी श्रीनिवास श्रीनिवास राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30599 13.08.13	# 148, भद्रागिरी, बेकडे, ब्रहमावर, उदुपि
206309	रावराणे दुष्यंत अशोकराव अशोक मोहन रावराणे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24519 12.05.09	प्लाट नं. 18, विक्रमपुर, अठानी तालुका, बेलगांव
206310	राशेल मैरीकल रेगो रोबर्ट रेगो	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27783 07.04.11	रोरेल एनजीओ कालोनी, 5-81एम6, पुतुर उदुपि
206311	राशि ए नं. आर. राजागोपाल ए नं. टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24901 09.06.09	# 101, अज्जारकद, रिबेया अपार्टमेंट, उदुपि
206312	राशीद अहमद खान हाजी मोहम्मद एस अहमद खान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25273 04.11.09	चैत्रा अकेडमी, चौथी क्रोस, हुलकोटि तालुका, गडग
206313	राशिद एम हुनासिमराव महबूबसब एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26179 22.03.10	हाई आईवाई दूसरी क्रोस, हुलकोटि गडग
206314	राशिमी दामोदर हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25436 26.02.10	# 3-178, पाडूलेवुर, अलवुर पत्रालय, उदुपि तालुका
206315	रश्मि जयाराम अलवा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25493 04.03.10	# 22-2-270-4, मंगलोर तालुका, दक्षिणा कन्नड
206316	रश्मि बी एम मालाथेश एचजी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29291 17.05.12	साईट नं. 193, हर्षा रवि, पहली स्टेज, विनोबानगर, पत्रालय, शिमोगा
206317	रश्मि जी जी शशिधर शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29525 28.05.12	# 7/141, उद्वभव सक्रल, हुवीनहादागली ग्राम व पत्रालय एवं तालुका, बेलारी
206318	रश्मि एच जी एच एस गजेन्द्रा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29670 19.06.12	अक्षता निलाय समीप जेसीबीएम कालेज, श्रीनगेरी ग्राम व पत्रालय एवं तालुका, चिकमगलोर
206319	रश्मि होला सुभ्रमन्या होला ए	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25868 12.03.10	# 20, अक्षय, केपीएससी लेयआउट नगर इन्हाभारथी पत्रालय, बेगलौर
206320	रश्मि के करासवमेय के सी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30214 29.04.13	वेंकटेश्वरा नगारा, सावीबालू निलाय, कादूर तालुका एवं टाउन, चिकमगलोर, कादुर

206321	रश्मि कलकूरा के रामाकृष्णा कलकूरा के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27498 26.03.11	# 2-79एच3, पाचवी क्रोस, सुभ्रमन्या नगर सन्धेकते, उदुपि
206322	रश्मि कमठ तलपेडी रामचन्द्रा के तलपेडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24825 05.06.09	# 19-29/7, आर्शीवाद, विद्यारन्या नगर, समीप उलाल पोस्ट ऑफिस, उलाल तालुका, दक्षिणा कन्नड
206323	रश्मि कमठ एच रामदास कमठ एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23913 09.04.09	म. नं. 2-49एफ, नागाबना रोड, समीप सीवी मंदिर, संतैकते, उदुपि
206324	रश्मि मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन बी. गुडॉर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28374 09.06.11	बंजारा ढाबा के पीछे, पंचशील नगर, इंडि तालुका, बीजापुर
206325	रश्मि मोगी शिव कुमार चिन्मप्पा मोगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28205 02.05.11	मोगी गली, रु 1707, बेलहोंगल ग्राम व पत्रालय एवं तालुका बेलगांव
206326	रश्मि नन्दावदगी रामान्ना वाई नन्दावगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27424 25.03.11	वी4-ए, बीटीडीए क्वार्टर्स, बागलकोट
206327	रश्मि पीएम पीएमजी रूद्रामुनी स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29219 15.05.12	गुरुबसवा निलाय, पाचवी क्रोस, जोगीमत रोड, चित्रदुर्ग
206328	रश्मि पाटिल चेतन पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28698 16.03.12	प्लाट नं. 221, रानी चिन्मम्मा नगर, सातवीं क्रोस, धारवाड
206329	रश्मि पाटानाड रमेश पाटानाड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30065 16.04.13	ई.एस.आई हास्पिटल क्वार्टर्स, स्टेशन रोड, बीजापुर
206330	रश्मि प्याति हुचेश प्याति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25926 17.03.10	विद्या नगर, दूसरी क्रोस (वेस्ट) हावेरी
206331	रश्मि आर गुड्डेवड रविन्दरा गुड्डेवड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25502 04.03.10	ललिथा सडाना, येरीथ्या कालोनी, गांधी नगर, बेलारी
206332	रश्मि आर एस शिवा शंकरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30153 24.04.13	अनुग्रह निलाय, जूनियर कालेज के पीछे, अरकलगुड-तालुका, हासन
206333	रश्मि राव कृष्णामूथे राव बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24784 04.06.09	श्री कृष्णा, म. नं. 3-3-7ई, आनन्दराव मार्ग, तीसरी क्रोस, अम्बालपडे, उदुपि
206334	रश्मि रत्नाकर प्रभु रत्नाकर एम. प्रभु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26751 12.07.10	1/93 श्री तुलसी बिल्डिंग, डन्डेली, हलीयल
206335	रश्मि एस श्रीनिवास आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30315 10.05.13	# एच.आई.जी. 22/ए, आठवीं क्रोस, शारदादेवी नगरा, मैसुर
206336	रश्मि शेक्टर वेंकटेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23871 09.04.09	नवानगर, गजेन्द्रागढ़, रोड तालुका, गडग



206337	रश्मि बी वी ए.एच वेंकटेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25870 12.03.10	# 35, वर्षीनी वसंथापुरा, सुभ्रमन्यापुरा पत्रालय शारदा नगर, बंगलौर
206338	रश्मि सी. सुवर्णा बी.के. चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27706 06.04.11	नं. 2-76 (1), एस.कोडी, पूनारन पत्रालय, मंगलोर तालुका, डी.के.
206339	रश्मि डी दोराई राज के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24680 28.05.09	शानथाला मार्बलस के पीछे, केडुबी रोड, कोटी थोपू सिद्दागंगा एक्टेंशन, टुमकूर
206340	रश्मि पी.वी. वेंकटकृष्णा पी.एल.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24952 10.06.09	# 2315, नौवीं मेन, दूसरी स्टेज, ई ब्लॉक, राजाजीनगर, बंगलौर
206341	रश्मि एस ए नं. सत्यानारायणा शेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24269 28.04.09	# 133/2, होरामनु, कल्याणनगर पत्रालय, बंगलौर
206342	रश्मि एस श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24617 18.05.09	ईडब्लूएस 44, पहली स्टेज, दूसरी क्रॉस, कुवेमु नगर, मैसूर
206343	रश्मि टी. एम. महेश टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24258 28.04.09	# 40, मसूर सक्रल, शिकारीपूर तालुका, शिमोगा
206344	रश्मि वी वीरा कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23869 09.04.09	# 1329/17, पहली स्टेज क्रॉस, शिवाकुमार स्वामी बदावेन, दावनगेरे
206345	रश्मि एच सी एच चन्द्रशेखर शास्त्री	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28114 25.04.11	द्वारा एसडीएम कालेज आफ आयुर्वेदा बीएम रोड, थान्नेरुहल्ला
206346	रश्मि एस. फ्रान्सीस जी. बेन्जामिन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28338 25.05.11	नं. 62, पाइप लाईन रोड, मुनीसवामप्पा गली, यशवंथापुरा, बंगलौर
206347	रश्मि वाई. रायानागोडार वाई.आर. रायानागोडार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24098 21.04.09	प्लॉट नं. 38, ग्यानाबा ग्लेडस गलेडस नारायणपुर, धारवाड़
206348	रश्मिकला. एच.बी. बासाप्पा पी.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24759 04.06.09	होसूर (वाया), शनिवारसन्थे, सकलेशपुर, हसन
206349	रसिका सोनाजी राजाराम संतराम सोनाजी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26120 20.03.10	# 352/5, हनुमान नगर, संकेश्वर, हुक्केरी, तालुका बेलगांव
206350	रश्मि एच एम मालाराध्या एच एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29802 12.10.12	# 92, हुलीकेर के. बेलूर पत्रालय, मद्दूर तालुका, मंडया
206351	रत्न कुमार अनिल कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30460 06.06.13	271, मानवी वार्ड नं. 9, 10, म. नं. 34-484, मानवी रायचूर
206352	रत्ना सी एस सुभ्रमन्या सी.आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25760 12.03.10	# 31, चिक्कानायाकना हल्ली तालुका, टुमकूर

206353	राठौड सतीश भुडाजी बी. राठौड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27847 08.04.11	आर.जी.ई.एस. एएमसी, रोह, गडग
206354	राठौड सतीश दीपक दीपक खेमू राठौड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26638 30.04.10	# 636, एलटी नं. 1, जलवड पत्रालय, सिंदगी तालुका, बीजापुर
206355	राठोर अजयसिंह पवनसिंह पवन सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24522 12.05.09	बालानगर, आयुर्वेद कालेज के पीछे, मानवी तालुका रायचुर
206356	रतीश कुमार ए. पी. पुट्टा स्वामी गौडा एबी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25829 12.03.10	# 84, अग्रहरा बेला हल्ली, के.आर.पिट (टी) मंडया
206357	रत्ना गौरावी भारामन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28348 30.05.11	अट्टीगेरी ग्राम व पत्रालय, शिगगावं ताल, हावेरी
206358	रत्नामालिनी मुत्तगार एम.एच.मुत्तगार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24895 08.06.09	सनमन कालोनी # 17-18/ए, लक्ष्मी पाक्र, ओल्ड हुबली, धारवाड
206359	रत्नापारखेश्रीराम कमलाकर कमलाकर एम रत्नाकरपरखे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25908 15.03.10	म. नं. 213, पहली स्टेज, रानी चन्नम्मा नगर, बेलगावं
206360	रत्नावा नायिक मुत्तप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30216 29.04.13	ग्राम व पत्रालय सईदापुर, मुधोल तालुका, बागलकोट सईदापुर
206361	राउत हरशल रमेश रमेश राव राउत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30196 29.04.13	ग्राम व पत्रालय वानोजा, तालुका मंगरूलपिर, वाशीम, वनोजा
206362	राउत रोहन रविन्द्र राउत रविन्द्र दिनकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24849 06.06.09	# 1515, शाहुनगर, बेडकिहाल पत्रालय, चिकौडी तालुका बेलगावं
206363	राउत उमाकांत राजराम राजाराम उरकुद रौत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24736 03.06.09	प्लाट नं. 930, वंतमुरी कालोनी, एम.एम. एक्टेंशन, बेलगाम
206364	रवि लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25611 06.03.10	राजावल टांडा, रोडडालामरी पत्रालय, शोरापुर तालुका, यदगिरी
206365	रवि अडगल येलाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26962 30.10.10	# 680/681, बागलकोट मेन रोड, हालाकुराकिम पत्रालय बादामी तालुका बागलकोट
206366	रवि कोलगी मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30182 26.04.13	महावीर कालोनी, जमाखण्डी तालुका, बागलकोट, जमाखण्डी
206367	रवि कुमार के. ए नं. नागाराजू के. टी.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26700 01.06.10	# 483, दसवीं क्रोस, पाचवीं मेन, मालाथाली, बंगलौर
206368	रवि के. बी बासवारप्पा के आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24937 10.06.09	कुम्बरबेदी, ससवेहली पत्रालय, होन्नाली तालुका, दवांगिरी

206369	रवि के. वी. विष्णु भट्ट के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25934 17.03.10	# 7314, दूसरी क्रोर्स, मारुति नगर, अरसीकेर तालुका हसन
206370	रविकुमार दानी अम्बासा टी. दानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23790 04.04.09	# 1045, जवाली प्लाट, गजेन्द्ररागढ़ पत्रालय, रोन तालुका, गडग
206371	रविकुमार गोडडारा मेघाराज जाट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28425 20.06.11	नं. 9-4-14डी, प्लैट नं. 401
206372	रविकुमार के एम धिष्णस्वामी के एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30496 14.06.13	# 1/351, बापूजी नगर, गोडेकोट रोड, कुडलिगी बेलारी
206373	रविकुमार कनकापुर रमन्ना कनकापुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29602 13.06.12	बस स्टेण्ड रोड, अलवन्डी पत्रालय, कोप्पल
206374	रविकुमार के टी धिम्मा शेट्टी के आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27373 24.03.11	हीरेवायलू कलासा पत्रालय, मुदीगर तालुका, चित्रदुर्ग,
206375	रविन्द्र सर्वागोल्ला	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24210 24.04.09	वनाजाक्शी निलाय, मारकोडू, कोटेश्वर पत्रालय कुन्डापुर तालुका, उदुपि
206376	रविन्द्र घाली दिलीप बी. घाली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26967 11.11.10	केम्पवड ग्राम व पत्रालय, अटहानी तालुका बेलगांव
206377	रविन्द्र रेड्डी भीमरेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30148 22.04.13	मेडपल्ली, चन्दरिक्की-पत्रालय, यादगिर-तालुका एवं गुरुमितकल
206378	रविन्द्र एस ए तुलाजसा दानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28461 04.07.11	हरमानु पत्रालय, कलकेर, पुण्याभूमि सक्कल, बेंगलोर
206379	रविन्द्रनाथ टोडलाबागी विश्वनाथ टोडलाबागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27857 11.04.11	नं. 47, मल्लिकार्जुन आश्रम, बीजापुर
206380	रविप्रकाश मिश्र राधेश्याम मिश्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25020 26.06.09	आकाश कॉम्पलेक्स, समीप गांधी चौक, बनाहट्टी पत्रालय जमखण्डी तालुका बागलकोट
206381	रविराज कुराबेट शंकर कुराबेट	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29962 06.04.13	ग्राम व पत्रालय-नीपानल, तालुक रायबग, रिक्ट-बेलगांव, निपानल
206382	रविशा एन नरसिम्हा मूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23973 18.04.09	# 717, पहली क्रोस, एंसीआई गौडाउन के सामने डीवी नगर पत्रालय, विजनापुरा, बंगलौर
206383	रावूडी रामाकृष्णा संजीवमूर्ति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30540 04.07.13	एच. हनुमानथप्पा आर्यु. स्टोर, एम.जी.रोड, गंगावती कोप्पाल
206384	रयान्ना नायकर कशप्पा नायकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26027 19.03.10	421/बी2/31, मृत्यूजंय नगर, बेलहोंगल, तालुका, बेलगांव

206385	रईसा जैनाब हसन परवेज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30369 21.05.13	नं. 19, छठी क्रोस, पहली मेन, न्यू गुराप्पाना पाल्या, बन्नेरघटा रोड, बंगलौर
206386	रायजादे सुषमा चन्द्रकांत सुनील शिवाजीराव मोहिते	बी.ए.एम.एस विश्वविद्यालय पूना, पूणे -2001	26988 01.12.10	एफएल नं. 801, सरकारी कालेज रोड, पहला तल, कुडूगोडी बंगलौर
206387	रेड्डी सोनी एम.एन नागराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24718 03.06.09	# 9-9-354, बीवीबी कालेज रोड, गांधी गंज पत्रालय, बीदर
206388	रेडेकर राजेश आनन्दा रेडेकर आनन्दा मारुति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24509 12.05.09	एम.बी. कलाल लोडज, समीप वेंकटेश थियेटर, मुन्दर्गी तालुका, गडग
206389	रीमा सदफ मोहम्मद जमाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25986 18.03.10	पी-16/3, सीमा गार्डन, भट्टकली तालुका, उत्तर कन्ड
206390	रीना विजयकुमार. ए नं. महागावकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25846 12.03.10	# 10-105/34, ए नं. वी. स्कूल, गार्डन रोड, सरन नगर, गुलबर्गा
206391	रीनादेवी प्रहलाद धमान्नवर पी कृष्णा धमान्नवर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29913 21.01.13	के.टी.बी.ए.जी. काम्पलेक्स, मोलाकलमुरु, चित्रदुर्गा
206392	रीना कटहरे रामचन्द्र सी. कटहरे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28337 25.05.11	म. नं. 4007, ओल्ड सरकारी हास्पिटल रोड, इलकल हुनगुंड तालुका, बागलकोट
206393	रैति यादव जशरथ यादव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25822 12.03.10	स्मिती तीसरी क्रोस, बी ब्लोक, विद्यानगर, हावेरी
206394	रेजू कृष्ण आर पी.ए नं. राधाकृष्णन नैयर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	24590 15.05.09	# 99/8, चौथी मेन, एम.एस.नगर, बनसवडी, बंगलौर
206395	रेखा मनीकप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29782 08.10.12	# 16-1-76, आलमप्रभु नगर, बीदर
206396	रेखा बी सन्नाप्पनावर बसवाराजा सन्नाप्पनावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28891 20.04.12	नं. 3, के. वीरान्ना लेआउट टिन्डलू विद्यारनयापुरा, पत्रालय बंगलौर
206397	रेखा बासवाराज के.बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24720 03.06.09	# 60, बानाशंकरी लेयआउट, दूसरी क्रोस, शांति नगर, केशवपुर, हुबली तालुका धारवाड़
206398	रेखा बीदर बाबूगोडा बिरादर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29348 21.05.12	नं. 113, गुमस्ते कालोनी, आश्रम रोड, आदर्शनगर, विजया कालेज, पत्रालय बीजापुर
206399	रेखा जुगाली डुन्डप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26666 14.05.10	समीप ओल्ड बस स्टैण्ड, रबकवी, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206400	रेखा करलाहल्ली संगापोप्पा एन कोरलाहल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29594 13.06.12	पंचाश्री नगर, पाचवीं क्रोस, बुरबुरे प्लाट, गडग

206401	रेखा पीएन नागार्जुन बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29118 07.05.12	नं. 159, कालीदास स्ट्रीट, इंदिरा कालोनी, टी नरसीपुरा तालुक मैसूर
206402	रेखा पाई जे. नारायण पाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24260 28.04.09	जैक्रीबेट्ट, बंतवल तालुका, दक्षिणा कन्नड़
206403	रेखा रघुनाथ रघुनाथ मध्यपागोल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26546 12.04.10	प्लॉट नं. 2213, रामतीर्थ नगर, कानाबरगी, बेलगांव
206404	रेखा सक्कारी भीमाराया डी सक्कारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29975 06.04.13	डोर नं. 209/2ए, वार्ड नं. 10, जयानगर बडावेन कलाबगी रोड बागलकोट
206405	रेखा शर्मा रिशाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30333 16.05.13	# 416, सेक्टर 13, समीप डाबरा चौक, हिसार
206406	रेखा बी बल्लैयाह आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24039 20.04.09	एलआईजी # 6, मुक्थि मार्ग, एच.एस. महादेवप्रदोप नगर, गुंडलूपेट, चामाराजानगर
206407	रेखा के एम के ए नं. मुनिवेनकटप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25563 05.03.10	# 597/1, पटेल सोनप्पा कम्पाउंड, हेब्ल, नार्थ बंगलौर
206408	रेखा के.एम. वीरभद्रैय्याह के.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27173 18.03.11	म. नं. 43, आठवां वार्ड, मेगलापेट, हरपनहल्ली, दावनगेरे
206409	रेखा.एन नागराजप्पा एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25768 12.03.10	# 1683/13, नन्दी, पहला तल, तरलाब्लू नगर, हडाडी रोड, दावनगेरे
206410	रेखा ए. हय्याल अशोक बी. हय्याल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27351 24.03.11	ससनूर ग्राम व पत्रालय, बासवन बेगवाडी तालुका बीजापुर
206411	रेखारानी हेराकल वीरूपक्षप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29332 18.05.12	नं. 14/बी, अनगुंडी प्लॉट, नवालागोंड ग्राम व पत्रालय एवं तालुका धारवाड
206412	रेणूका केशप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30212 29.04.13	गाम व पत्रालय तडोला, तालुका बसवाकल्याण, बीदर, तडोला
206413	रेणूका ब्याकोड साकारेप्पा एच. ब्याकोड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26588 19.04.10	समीप पोस्ट ऑफिस, हब्बूवाडा, करवर तालुका उत्तर कन्नड़
206414	रेणूका जी गुरुमुर्थि बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29416 23.05.12	आशानिलाय, तीसरी क्रोस, आजादनगर, ओटी रोड, शिमोगा
206415	रेणूका हालीमणि शिवाप्पा एम. हेलमणि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25407 24.02.10	# 64, गंगा ब्लाक, दसवीं केएसआरपी, गंगेभवी शिम्गोड तालुका हावेरी
206416	रेणूका मोराबाद मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29452 24.05.12	केवीरएसआर हाई स्कूल रोड, राजीव गांधी नगर, गडग तालुका

206417	रेणूका आर टी. रमप्पा एम तलवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27923 12.04.11	सेकण्ड क्रोस, विद्यानगर, कुमारापट्टनुम, पत्रालय रणबेनूर तालुक हावेरी
206418	रेणूकाम्मा डी.के दयामप्पा पी.के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25107 26.08.09	विनायक सक्रल (एसएसके), हरिहर तालुका, दावनगेरे
206419	रेणूका आकाश सिरिश रेणूका सिरिश लक्ष्मणराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29022 27.04.12	डी/4, सोपान नगर, ससवद ग्राम पूणे
206420	रेणूका जयश्री शिरीश शिरीश लक्ष्मण रेणूका	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29023 27.04.12	डी/4, महादा कालोनी, सोपान नगर पत्रालय सासवाद, पूणे
206421	रेणूका कीर्ति शिरीश शिरीश लक्ष्मण रेणूका	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29013 27.04.12	डी/4, महादा कालोनी, सोपान नगर पत्रालय सासवाद, पूणे
206422	रेशमा राजू वी वंगेर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29199 14.05.12	नं. 1-165, होसमर ग्राम व पत्रालय, करकाला तालुका, उदुपि
206423	रेशमा सिद्दन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29966 06.04.13	म. नं. ई-98 कवेरी मार्ग वीसी कालोनी, सेडम
206424	रेश्मा जैन एआर अनंथराज जैन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30569 18.07.13	देवचन्द्र जैन पेट, बेलथांगडे, दक्षिणा कन्नड़
206425	रेश्मा कटार्की बसवाराज आर कटार्की	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29724 09.08.12	# 915, विजय कालोनी, गजेन्द्ररागढ ग्राम व पत्रालय, रोम तालुका गडग
206426	रेश्मा नायक बी. चन्द्रशेखर नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25776 12.03.10	# 52, हेरूर गांव, ब्रह्मवर पत्रालय, उदुपि तालुका
206427	रेश्मा आर पाई रमेश पाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30355 20.05.13	जानकी राम 8-72 सी-5, इश्वरनगर, मणिपाल
206428	रेश्मा साम्बरेकर महादेव एस साम्बरेकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29087 05.05.12	नं. 2389 कमठ गली, बेलगांव तालुक
206429	रेश्मा शिवनागुट्टी रहिमनसाहिब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24986 15.06.09	समीप टीएमसी रोड इलकल पत्रालय, हुनगुंड तालुका, बागलकोट
206430	रेश्मा एम.ए. एम.पी. अशोक कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23775 03.04.09	द्वारा सीडीएम कालेज ऑफ आयुर्वेदा थर्निहल्ला, बी एम रोड, हासन
206431	रेवन्ना एम.एन निंगैय्याह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25966 18.03.10	# 214/6, एम.पी. ब्लाक, छटा वार्ड, के.आर.नगर, मैसूर
206432	रेवनसिद्धाम्पा ए एस रहिल बोगा मालाकम्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26118 20.03.10	विद्यानगर, वेस्ट हावेरी, हावेरी

206433	रेवासिद्धेश्वर सुनधोली मालप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24927 10.06.09	गोलाशवी लेन, रामपुर रबकवी, रामपुर पत्रालय जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206434	रेवथी एम नागेश एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26577 17.04.10	# 13, सातवीं क्रोस (लालबाग फोर्ट रोड) बंगलौर
206435	रेवथी टी.एस सुन्दरा मुर्ति टी.एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25889 12.03.10	# 174, बीईएमएल लेयआउट, चौथा ब्लॉक, बसवेश्वरा नगर तीसरी स्टेज, बंगलौर
206436	रीफत उन्नीसा शैक शैक ए रहमान एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24427 05.05.09	इडब्लूएस 228, आठवीं क्रोस, नवानगर, हुबली तालुका, धारवाड
206437	रीनि थोमस थोमस वी जे.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28701 22.03.12	# 2-8-648/2, कपिकद बेजय पत्रालय, मंगलोर
206438	रियोना सेरा प्रवीण सेरा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28929 26.04.12	अर्शी बोगगा पत्रालय, बंतवल तालुक, दक्षिणा कन्नड़
206439	ऋतेश कुमार अशोकराव कटारे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23819 04.04.09	लेक्चरस कालोनी रोड शाहू नगर, भाल्की तालुका, बीदर
206440	रियाजुद्दीन सिराजुद्दीन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26044 19.03.10	बसापुर, बंधनी, हरलापुर, कोप्पल
206441	रिजवान पासा जे बी. बाशा साहिब एम एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24892 08.06.09	सुन्नी चौक, अरसीकर, हासन
206442	रिजवान यूआर राहमान रियाज यूआर आर.शरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30521 21.06.13	# 198, चौथी मेन, छठी क्रोस, ?सी? लेआउट, बन्नीमनताप, मैसूर
206443	रिजवाना एम.ए.लतीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24676 25.05.09	म. नं. 9-5-236, बदरुद्दीन कालोनी, चिदरी रोड, गांधी गुंज, बीदर
206444	रोडगी रेवणसिद्धेश्वर विठोबा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23936 13.04.09	कल्याण नगर, समीप राघवेन्द्रा मंदिर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
206445	रोड सुरेन्द्र रोड सुधाकर कृष्णराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30004 08.04.13	पितरू छाया निवास, क्रांति नगर, प्रभनी गंगाखेड
206446	रोहिणी शंकर बेनूरकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30240 30.04.13	एलटीआरटी 3/3, ग्याहरवीं क्रोस, अलस्टोम कालोनी, शाहाबाद टाउन, गुलबर्गा, शाहबाद
206447	रोहिणी जाधव जाधव अबासाहब गणपति	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26266 23.03.10	शिरागौनडी पत्रालय, चिकोडी तालुका, बेलगांव
206448	रोहिणी नाग नागराज के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28147 26.04.11	# 6/374, यदूर रोड, समीप लैंड आर्मी ऑफिस, विद्यानगर, हासन

206449	रोहिणी पुरोहित सीधाराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27747 06.04.11	1-11-55/19, लिंगसुगर रोड, रायचूर
206450	रोहिणी सचिन गोपालदास रोहिणी जी असुदामल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24399 05.05.09	द्वारा बीवीवीएस संघा लडको का डेन्टल हास्टल, बागलकोट
206451	रोहिणी बी वी विश्वानाथ बी एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25171 06.10.09	# 466, तीसरी क्रोस, दूसरी मेन, गुरुराजलेयआउट, विद्यापीठ के पीछे, बंगलौर
206452	रोहिणी एम होसागौडार मारिगौडा बी. होसागौडार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25450 02.03.10	छोलाछागुड्डा पत्रालय, बादामी तालुका, बागलकोट
206453	रोहित एन शेक्टर ए नं. एस. शेक्टर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25877 12.03.10	सुरापुर पत्रालय, गडग
206454	रोहिता एच ई ईश्वरप्पा एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27365 24.03.11	डी. नं. 3468/ए, कालेश्वर एक्सटेंशन, होसादुर्गा तालुका, चित्रदुर्ग
206455	रोईवांदरा लालू जी. क्षीर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28093 21.04.11	सीडीएम कालंज आफ आर्यु. उदुपि, कुथपाडे
206456	रूपा सी चन्द्रशेखरैययाह एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30547 10.07.13	# 37, पहली मेन, एजीबी लेयआउट, चिकबनावरा मेन रोड, बंगलौर
206457	रूपादर्शिनी सिन्धे सिन्धे शंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28393 09.06.11	रु 19-2-62, आन्नद नगर, समीप एमईएस क्वार्टर्स, बीदर
206458	रूपा दसार श्रीनिवास कोटाबल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	25359 12.01.10	# 29, कोर्ट रोड, पीडब्लूडी क्वार्टर्स, चमराजनगर तालुका
206459	रूपा डोडामणी बाबू एम. डोडामणी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28523 08.08.11	वार्ड नं. 5, समीप बस स्टैण्ड, मुधोल ग्राम व पत्रालय, बागलकोट
206460	रूपा कलाशेट्टी बासवाराज कलाशेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27924 12.04.11	सिद्धारामेश्वर कालोनी, कुदुची रोड, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206461	रूपा मदगांवकर शिवायैय्या मदगांवकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25633 06.03.10	रमन नेल, सिरसी तालुका, उत्तर कन्नड़
206462	रूपा नेरालागी लागामन्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25387 06.02.10	# 504, तीसरी स्टेज, चौथी ब्लोक, बसवेश्वर नगर, बंगलौर
206463	रूपा प्रभु एम मनोहर प्रभु टी.ए	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25836 12.03.10	विवेकानन्द नगर दूसरी मेन रोड, कालसा, चिकमंगलूर
206464	रूपा सोनयाल संगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26706 03.06.10	द्वारा एस.टी., सोनयाल जय भीम नगर, सिंदगी



206465	रूपा एच नारायण एच एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26174 22.03.10	द्वारा अमरुथ क्लीनिक, मानवी तालुका, रायचुर
206466	रूपा के.एस शरणप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24815 05.06.09	# 3026, लक्ष्मीपुरा, अरसीकेर तालुका, हासन
206467	रूपा एन शिवाकपूर आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23872 09.04.09	# 1-11-82, निजलिंगप्पा कालोनी, मानवी तालुका, रायचुर
206468	रूपा पी रमेश राव पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24871 06.06.09	# 78/23, जावरी स्ट्रीट, काओ बाजार, बेलारी
206469	रूपा एस सत्यानारायण एम.आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26248 23.03.10	# 2220, चौथी क्रोस, के ब्लाक, कुवम्पू नगर, मैसूर
206470	रूपा टी धिष्णेश्पा जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23899 09.04.09	सिद्दालिंगेश्वर कालोनी, बक्कमबुद्धि पत्रालय, तारीकोर तालुका, चिक्कमंगलोर
206471	रूपा एन आर नागराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26653 07.05.10	वेटेरनेरी हास्पीटल, चिक्काजोगीहल्ली (पी), कुदलिगी तालुका, बेलारी
206472	रूपक नागराज रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26018 19.03.10	# 1-135, कोट रोड, कल्याणपुरा पत्रालय, उदुपि
206473	रूपकला दामोधरा प्रभु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23749 03.04.09	बाजागोली पत्रालय, करकला तालुका, उदुपि
206474	रूपाली असोडे घुलप्पा बी असोडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29632 14.06.12	# 21, गोकक हाउस, प्लाट नं. 21, वीरभद्रा नगर, दूसरी क्रोस, बेलगांव
206475	रूपाश्री बनाकर सोमालिंगप्पा वी बनाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29419 23.05.12	हीरेहल्ली, चिक्काबसुर पत्रालय, ब्यादगी तालुका, हावेरी
206476	रूपाश्री कटागी हुच्चेश्वर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28700 17.03.12	# डी/3, नारायणपुर, सुरापुर तालुका, यदागिरी
206477	रूपेश एम.बी. पी बोलागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26232 23.03.10	मनीगेर, मद्दुर तालुका, बिदाराहल्ली पत्रालय, मंडया
206478	राय पूनम हरिचन्द्र अनित गोस्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25157 30.09.09	# 448, अमर निवास, सातवी क्रोस, छठी मेन, बीटीएम 2एनएस स्टेज, बंगलौर
206479	रूबिया पीरजादे रफीक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26531 12.04.10	एएल-फालहा, विद्यानगर सीईटी कालेज
206480	रूबीना आइनापुरी अब्दूल मुनाफ आइनापुरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29250 15.05.12	नं. 114, गौसीया टाउन, इसलामपुर रोड, ओल्ड हुबली धारवाड़

206481	रुबी कुवर पाल एस धनकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29345 21.05.12	टीएन 184/ए, जलाहल्ली वेस्ट, 410 एयर फोर्स स्टेशन, बंगलौर
206482	रुद्रमुनिश्वर स्वामी हीरेमठ गुरुबसाय्या जी हीरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29907 10.01.13	अपोजिट एस डी बिरादर क्लीनिक, मथप्पा थिंगली बीजापुर
206483	रुद्राप्पा कदाशेट्टी शिवप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27163 18.03.11	पालाभंवी ग्राम व पत्रालय, रायबग तालुका, बेलगांव
206484	रुद्रेश रेवन्नावर गॉओडप्पा गॉओडप्पा रेवन्नावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24932 10.06.09	के.सी.नगर, पांचवी क्रोस, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206485	रुद्रेश एस श्रीधरा मुर्थि वार्ड.बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24468 11.05.09	# 203, दसवीं क्रोस, सातवीं मेन, नरुपथहुंगा नगर, बंगलौर
206486	रन्गासाना हलागेरी शामसुद्दीन हुलागेरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29774 29.09.12	सी-1320, मकबुल मंजिल, मंगलगति, प्लाट सिद्धाखरी, धारवाड़ पोस्ट ऑफिस
206487	रुम्माना हुसैन हुसैन एस एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30230 30.04.13	20/15, मुस्लिम ब्लाक, के.आर. नगर तालुका
206488	रुपादेवी होसमठ इरैय्या बी. होसमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28421 20.06.11	म. नं. 705 (बी), शीतागर चाल, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206489	रुपनावर प्रदीप बाबूराव आर बाबूराव रघुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23715 02.04.09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौनदत्ती तालुका बेलगांव
206490	रुपनार रामदास पांडूरंग रुपनार पांडूरंग डोडिवा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25531 04.03.10	प्लाट नं. 40, यालालिंगा कालानी, नौबाड, बीदर
206491	एस श्रुति शिवशंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29245 15.05.12	एईओ नं. 28/150, पार्वती निलाय, एन40एस कालोनी, त्रिपुरांत बसवाकल्याण, बीदर
206492	एस. शहिधा सुल्ताना एस.अब्दूल रावूफ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30338 18.05.13	2बी, वार्ड नं. 26, यसीन साहेब स्ट्रीट काउल बाजार, ग्योग बक
206493	साबा हजदूल्ला इस्माइल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28351 30.05.11	नं. 5-38-1, केसरगड्डे, बेल्वी ग्राम व पत्रालय, मंगलोर तालुका, डी.के.
206494	साबा आर पीरजादे रफीक ए एच पीरजादे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30557 16.07.13	प्लाट नं. 12, लेट, विद्यानगर, गोकक, बेलगांव
206495	सभा आफरीन एम. सुरानागी एमडी आई आर सुरानागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24012 18.04.09	सुरानगी क्लीनिक, एम.जी.रोड, हावेरी तालुका
206496	सबीना बानो मोईदिनबा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24916 09.06.09	# 1-85, जुम्मा मस्जिद, अडडोर पत्रालय, मंगलोर तालुका, दक्षिणा कन्नड

206497	साबरी तलतावाज फ़ैयाज साबरी फ़ैयाज अहमद जे. हुसैन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25068 22.07.09	सदफ विला प्लाट नं. 1403, ओटोनगर रोड, रामतीर्थ नगर, बेलगांव
206498	सचिन अरुण पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30260 04.05.13	प्लाट नं. 524, शाहबाद रोड, प्राशंथ नगर बी गुलबर्गा तालुका
206499	सचिन चौरे रामदया चौरे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26632 29.04.10	द्वारा अमरुथा एएमसी, ओबामा स्टेडियम के पीछे, चित्रादुर्ग
206500	सचिन देवा सदाशिवय्या डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23998 18.04.09	देवा हाउस, बाडाजा पत्रालय, इडकिडू गावं बंतवाल तालुका, दक्षिणा कन्नड
206501	सचिन जवाली अशोक जवाली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25688 12.03.10	# 421सी/1 (24), विद्यानगर, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206502	सचिन कुमार के आर के बी रुद्रमुणी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26077 19.03.10	पन्द्रहवी क्रोस, सातवीं मेन रोड, के.आर नगर तालुका, मैसूर
206503	सचिन कुम्बार गुरुपद ए कुम्बार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25343 29.12.09	एचआईजी नं. -2, राजीव नगर, चिकोडी पत्रालय तालुका बेलारी
206504	सचिन पवार बापूसो पवार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24512 12.05.09	कृष्णा कुट्टीर पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगांव
206505	सचिनकुमार शंकरराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24969 10.06.09	# 23, केईबी रोड, बैंकर्स कालोनी, बीदर
206506	सचिन कुमार गलगली भुपाल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24572 14.05.09	शिदबल पत्रालय, अटहानी तालुका, बेलगांव
206507	सादा शबनम रहमथ-उल्ला-शरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24422 05.05.09	मुस्लिम स्ट्रीट, अराकलगुड तालुका, हासन
206508	सदानन्द रेड्डी शेरी लिंगारेड्डी शेरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25415 25.02.10	जनकापल्ली पत्रालय, सेडम तालुका, गुलबर्गा
206509	सदाशिव सरदप्पा के. मदार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26649 05.05.10	रोगी पत्रालय, मुधोल तालुका, बागलकोट
206510	सदाशिव नायकवाडी विठठल लक्ष्मण नायकवाडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25403 24.02.10	बयाकुद पत्रालय, रायबग तालुका, बेलगांव
206511	सदाशिवय्या हिरेमठ शंकरय्या एस.हिरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24384 05.05.09	म. नं. 307, रेणूका, गोकुल रोड, गांधी नगर, हुबली तालुका, धारवाड
206512	साधना पाराजूली कृष्णा राज पाराजूली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23771 03.04.09	द्वारा सीडीएम कालेज ऑफ आयुर्वेदा थर्निहल्ला, बी एम रोड, हासन

206513	सादिका बेगम पीरा हुसैन होशाहल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27665 02.04.11	फिरडोस नगर, समीप आईबी, किन्नल रोड, कोप्पल तालुका
206514	सदिया फिरदौस रियाज अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30301 09.05.13	9/1, नौवीं बी मेन, बीटीएम लेआउट पहली स्टेज, समीप बीटीएम वाटर टैंक, बंगलौर
206515	साफिया परवीन मोहम्मद मुरसालीन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27254 22.03.11	# 13, पहली क्रोस, विजयानगर, बेईएमएल नगर, केजीएफ बंगारपेट, कोलार
206516	सागर बेलगुनकर मदनलाल एम.बेलगुंकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24925 10.06.09	# 11, मेन रोड, वार्ड नं. 1, महालिंगापुर पत्रालय मुधोल तालुका, बागलकोट
206517	सागर कलिंग मल्लेशी वार्ड. कलिंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26005 19.03.10	# 224, गणपत गली, हालगा पत्रालय, बेलगांव
206518	सागर लक्कुंडी शंकर जी लक्कुंडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26056 19.03.10	57/3/1, टिम्बर यार्ड (नार्थ), देवाप्रिया नगर उन्कल, हुबली, धारवाड़
206519	सागर जी एल जी एच लोकनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26220 23.03.10	एम.एस हल्लै, चल्लाकेर तालुका, चित्रादुर्ग
206520	सागरे श्रीकांत शिवादास शिवदास एम सागरे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	24805 05.06.09	म. नं. 160816, शाहू नगर, बेडकिहाल पत्रालय, चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
206521	सहाना भास्कर ए भास्करा. ए	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24809 05.06.09	पटेल हाउस, जलसूर गावं एवं पत्रालय, सुल्लीया तालुका दक्षिणा कन्नड़
206522	सहाना हेगडे श्रीपद हेगडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27584 30.03.11	राघवेन्द्रमठ के पीछे, टाउनशिप, डानडेली, उत्तर कन्नड़
206523	सहाना कामठ सतीश चन्द्र कामठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27718 06.04.11	सोवपर्निका 5—1—71ए, वीरभद्रा के पीछे कलाभवन, किन्नीमुलकेय, उदुपि
206524	सहाना सी. चन्द्ररू जी पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25909 15.03.10	# 603, पहली मेन, चौदहवीं क्रोस, मैसूर
206525	सहाना के कुमार बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24163 24.04.09	मठकुर ककोल पत्रालय, हसराघट्टा हुबली, बंगलौर
206526	सहाना पी.के के टी. प्रकाश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25891 12.03.10	# 211, 40एफटी रोड, पहली क्रोस, पहली स्टैज, पहला फेस, मन्जुनाथ नगर, राजाजी नगर, बंगलौर
206527	सहाना आर एस. रघु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28569 19.10.11	गनिगेरी स्ट्रीट, बेन्नूर ग्राम व पत्रालय, टी.ए नं. पुरा, मैसूर
206528	सहाना वी वेंकटारा मनप्पा डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23748 02.04.09	समीप हाउसिंग बोर्ड कालोनी, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे , टीआर नगर, चललाकेर, चित्रदुर्ग

206529	सहाना एच. उपाध्याय श्रीनाथ जी.बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24465 11.05.09	गगनाकुडिग गावं व पत्रालय, मुदिगर तालुका चिकमगलोर
206530	सहाना.एम शिवा कुमार एच.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26674 20.05.10	पेरलामपेडी पत्रालय, पुत्तुर तालुका, दक्षिणा कन्नड
206531	सहाना आर रामप्रसाद आर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28316 25.05.11	श्री निलाय, तीसरी मेन रोड, पालासन्दरा लेआउट, कोलार
206532	सहाना एस शेट्टी एच.एस. शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26017 19.03.10	# 4-331, गौरी निलाय, चन्धर गावं, ब्रह्मवार पत्रालय, उदुपि
206533	शहत्राबुद्धे निकेता श्रीनिधि आर देशपांडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25013 25.06.09	# 820, सेक्टर नं. 5, श्री नगर, बेलगांव
206534	साहेब गौडा बीरादर संगनागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24152 22.04.09	हुनडकर गली, बागलकोट
206535	साहिदापरवीन इटागी लाडासाहिब इटागी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26490 06.04.10	वीरभद्रेश्वर नगर, बीजापुर रोड, एक्स बीजापुर, बीजापुर
206536	साहिल शर्मा योगेन्द्र कुमार कौशिक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30263 04.05.13	म. नं. 69, जगदम्बा कालोनी, जोहरीपुर गावं, दिल्ली
206537	साई कावसल्या वी के वी.एस.शर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27439 25.03.11	सोमपुरा, कोरतागेर, टुमकूर
206538	साजिद अतहर गुलरेज अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25491 04.03.10	# 105, चौथी क्रोस, विजयापुरा एक्सटेंशन, चिकमगंलोर
206539	साजिद अली गोकवि चनसाब गोकवि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24046 20.04.09	# 4 / 1282, शिगली पत्रालय, शिराहट्टी तालुका, गडग
206540	सकाले पूनम सकल सिद्धानचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24988 16.06.09	महावीर नगर, बेडकिहाल पत्रालय, चिकौड़ी तालुका, बेलगांव
206541	साकरी दीपा विलास विलास दनप्पा साकरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29437 23.05.12	शिवलीला लक्ष्मीनगर बनहट्टी, ग्राम व पत्रालय जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206542	साक्षी पंडिता चीनी लाल पंडिता	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28554 20.09.11	# 3367, तेरहवीं मेन, आठवीं क्रोस, एचएएल दूसरी स्टेज, इंदिरानगर, बंगलौर
206543	सलीमा बानू एम टी.ए मोहम्मद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30359 20.05.13	एएल-रय्यान हाउस, विद्यानगर, बल्लेर पत्रालय, सुल्लीया तालुक, दक्षिणा कन्नड
206544	साली जयाराज अमरेशप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26714 11.06.10	# 41, बासवा कृपा, प्रतिभा कालोनी, केलागरे रोड, पहली मेन, दूसरी क्रोस, धारवाड

206545	सलीम युसूफ ए अल्लाउद्दीन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28709 30.03.12	ग्राम व पत्रालय गोलासर, इंडि तालुका बीजापुर
206546	सलमा फारस अनवर अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26788 19.08.10	टी.आर. नगर, चललाकेर, चित्रदुर्ग
206547	सलमा एच अजीज एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30246 02.05.13	# 230/11, 17वां वार्ड, सनदरूगेर, हरपनहल्ली तालुका, दावनगेरे
206548	सलमा डी सुबा साहिब डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26669 17.05.10	29वां वार्ड, नौवीं क्रॉस, 100 बेड हास्पिटल, एम.जे.नगर, हास्पेट, बेलारी
206549	सालुंखे सचिन विठ्ठल सालुंखे विठ्ठल सदाशिव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	24186 24.04.09	चालुक्या नगर, सातवीं क्रॉस, बादामी तालुका बागलकोट
206550	सालुंखे मधुरा अशोक एस अशोक गोपालराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30244 02.05.13	गंगा1, आदर्श नगर, होटल महेन्द्र के पीछे, नेशनल हाईवे, पत्रालय सतारा
206551	सालुंखे राहुल दिलीप एस दिलीप काशीनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24281 29.04.09	शांति निवास, समीप नायडू हास्पिटल, इनामदार कालोनी, बीजापुर
206552	सालुंखे सोनिया रमेश रमेश बी सलुंखे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30610 22.08.13	ग्राम व पत्रालय—तंदुलवाडी, सांगली, तालुका—वलावा, महाराष्ट्र
206553	सालुंखे सुनील अप्पाजी अप्पाजी कृष्णाजी एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23799 04.04.09	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लडकों का हास्पिट, चललाकेर तालुका चित्रदुर्ग
206554	समनवीठा बी रविचन्द्र बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26757 19.07.10	मंडेकोलू हाउस, मन्डे कोलू पत्रालय सुलीया तालुका, दक्षिणा कन्नड़
206555	समरीन दारूर हुसैन दारूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29990 06.04.13	ग्राम व पत्रालय—कुडची, तालुका रायबग, बेलगांव
206556	समीर अमजद शैक शैक अमजद पाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25565 05.03.10	# 891/2, नारायण शास्त्री, लक्ष्मीपुरम, मैसूर
206557	समीर परांडे सुधीर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26609 23.04.10	श्रीनिकेतन रुरल पुलिस स्टेशन रोड, एक्टेशन एरिया, बागलकोट
206558	समीर सनादी बी बाबालाल सनादी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24253 28.04.09	# 1362/2, रूनायका नगर, उगर—खुर्द, अठनी तालुका, बेलगांव
206559	सम्पदा सुरेश गनगाडे सुरेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28386 09.06.11	ई 14/287, लक्ष्मी गंज, शाहाबाद, चीतापुर तालुका, गुलबर्गा
206560	सम्पथ बी.पी. एस. प्रभु स्वामी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28214 04.05.11	नं. 120, तेरहवीं क्रॉस, के पी आग्रहारा, मगडी रोड, बंगलौर

206561	सम्प्रीता टी.एन टी.एस. नागाराजा शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24111 22.04.09	ए नं. आर.पुरा, चिकमगलूर
206562	समर्पिता सत्यनारायण एम. ए नं. सत्यनारायण	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26732 28.06.10	# 306/ए, राय रोड, तिलकवाडी, बेलगांव
206563	सामरा खान मुनावर खान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26947 20.10.10	बेथूल वसारत, ए.सी. रोड, कबेट्टू करकला तालुक उदुपि
206564	समरीन अजहर कामिल पाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27379 24.03.11	# 4434/1, दसवीं क्रोस, सेन्ट मैरी रोड, ए नं. आर. मोहल्ला, मैसूर
206565	समस्थ बानो अब्बास बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30397 24.05.13	कोलाक्कदन हाउस, बदयर, कुवैतू (विल) गुरुव्यान्कर बेलतांगडे, तालुका दक्षिणा कन्ड
206566	सेमूअल एडिसन शैरक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25722 12.03.10	# 18/2, 18वीं क्रोस, एपील कालोनी, शाहबाद, चीतापुर तालुका, गुलबर्गा
206567	संदीप गिरीदर हंचाटे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29134 07.05.12	बासवाकल्याण ग्राम व पत्रालय, बीदर
206568	संदीप देसाई रमेश के देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25979 18.03.10	फोर्ट रोड, ओल्ड हुबली, हुबली तालुका, धारवाड़
206569	संदीप जे मन्जुनाथ जे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29076 05.05.12	बेलारी रोड, कारीगनूर होस्पेट, तालुक बेलारी
206570	संदीप कुमार सतपाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25053 09.07.09	# 1973/1, पन्द्रहवीं मेन रोड, दावनगेरे
206571	संदीप निधि तिवारी यादव निधि तिवारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25239 20.10.09	बीएएम कॉलेज एवं हास्पिटल, सोवलंगा रोड, शिमोगा
206572	संदीप पाटिल सिद्धप्पा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25692 12.03.10	# 1135/8, बंजर गली, गोकक तालुका बेलगांव
206573	संदीप पुंढे वसंत पुंढे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24305 29.04.09	सागरदीप बिल्डिंग, श्रीनगर, धारवाड़
206574	संदीप बी. भोजप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26875 13.09.10	बेलूरा ग्राम व पत्रालय, बसवाकल्याण तालुका बीदर
206575	संदीप एस सिद्धैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26946 19.10.10	# 54, दूसरी क्रोस, दूसरी स्टेज, बोगडी (नार्थ), मैसूर
206576	संदीप एस शेट्टी शेखर एस. शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24724 03.06.09	शिवा शक्ति हाउस, अचलडी अदर मेन, अचलडी, उदुपि

206577	संदीपा सुरेन्द्रनाथ एस.वी. चौधरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26830 25.08.10	34/3, 3566, विवेकानन्द रोड, हंगल पत्रालय एवं तालुका, हावेरी
206578	सन्देश कुमार एम आर रत्नाकर आचार्य एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29659 18.06.12	# 92/6, भारथी धामा कल्लोटे, करकला तालुका एवे पत्रालय, उदुपि
206579	सन्देश कुमार संजीव शेड्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27703 06.04.11	नं. 2-10ए, हवाजें उदुपि
206580	संध्या प्रकाश हिवारे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29067 05.05.12	नं. 9-257, शाहा कटगपूर गुलबर्गा
206581	संध्या इम्मेलगानूर गंगादर इम्मेलगानूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27668 02.04.11	म. नं. 924, 24वीं क्रोस, तेजस वानासिरी नगर सत्तुर पत्रालय, धारवाड़
206582	संध्या पाटिल मल्लिकार्जुन पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23794 04.04.09	10-419, शरण नगर, ब्रहमापुर गुलबर्गा
206583	संध्या रानी पी आर बी शिवाय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30058 16.04.13	म. नं. 2-3-35, कलालवाडी मेलापुर बेस तालुका एवं यदगिर
206584	संध्या एन ए नं. नागाराजा सास्त्री	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27252 22.03.11	# 1995, श्रीलक्ष्मी निलाय, समीप एसएलवी टीसीएच, बांगरपेट, कोलर
206585	संध्यारानी बाबू देवडिगा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24160 24.04.09	यसमलथेन्का पत्रालय, उदुपि तालुका
206586	संध्या राज. एम एम. मुनिराजू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24484 11.05.09	# 57, तीसरी क्रोस, ओमकारनगर, अराकेर गेट, बी जी रोड बंगलौर
206587	संध्या सी एच सत्यानारायण सी एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30549 11.07.13	गंगानारसी हरिहारा दावनगेरे
206588	संध्या रानी एम भीमान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29816 12.10.12	# 4-4-101/88, जाहिराबाद, धनलक्ष्मी लेयआउट, रायचुर तालुका
206589	संध्या रानी एम एन पी एम नटराजन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29775 29.09.12	# 40/2, केन्टोन्मेंट, तिलक नगर बेलारी
206590	संध्यारानी एच बी बोरैई एच बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29790 12.10.12	# 235/डी, पहली क्रोस, पहली मेन, कुवेम्पूनगर मैसूर
206591	संगमेश बासनागोडा मलिपाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25176 07.10.09	बी बी नगर, समीप सीडीपीओ ऑफिस, कुस्तगी तालुका कोपल
206592	संगमेश आई. परांदी ईश्वर वी. परांदी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24564 14.05.09	# 861, रविवार पीठ, खन्नापुर तालुका बेलगांव



206593	संगमेश्वर हीरेमठ शिवापूजाय्या बी एच	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23835 06.04.09	बसवा निलाय, प्लाट नं. 85, सेडम रोड जंहानांगना कालोनी गुलबर्गा
206594	संगमकर शिल्पा सोमाशंकर संगमकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29636 14.06.12	प्लाट नं. 9, आलमप्रभु नगर, सिटटा रोड, गुम्पा बीदर के पीछे
206595	संगनागौडा मेलाशंकर मालानगौडा जी एम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29347 21.05.12	एमआईजी-11, बागलकोट रोड, जयानगर पोस्ट ऑफिस बीजापुर
206596	संगप्पा अरेनद मुरिगेप्पा बी अरेनद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27466 26.03.11	बेलांगली ग्राम व पत्रालय मुधोल तालुका बागलकोट
206597	संगीता हर्षरेड्डी माने	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26820 24.08.10	# 24, विद्यानगर, सीडम तालुका, गुलबर्गा
206598	संगीता शरणप्पा अनगुंडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27020 04.02.11	# 9-11, अनगुंडी स्ट्रीट, शाहपुर तालुका, यदगिरी
206599	संगीता वीरेन्द्र पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28713 30.03.12	एलआईजी-57, पहला फेस, आदर्शनगर गुलबर्गा
206600	संगीता जंगमाशेट्टी गुरप्पा एस जंगमाशेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27463 26.03.11	समीप बेलाद्दा पेट, घटप्रभा ग्राम व पत्रालय, गोकक तालुका, बेलगांव
206601	संगीता पी आदर्श वी बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30445 01.06.13	समीप केएसआरटीसी बस डिपो, हुवीना, हाडागली बेलारी
206602	संगीता पाटिल विजय पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29349 21.05.12	नं. 91, तीसरी क्रोस, चिदाम्बर नगर, तिलकवाडी, बेलगांव
206603	संगीता सावुकर रामचन्द्र सावुकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24337 29.04.09	काबुर पत्रालय, चिकौडी तालुका बेलगांव
206604	संगीता तिरकी अशोक शंकरप्पा टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28598 19.10.11	# 450, बालागर लेन, मंगलवार पीठ, बनहट्टी जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206605	संगीथा राव आर रमेश पूनारूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26949 20.10.10	लक्ष्मी निवास, पूनारूर पत्रालय, किन्नीगोले, मंगलौर
206606	संगेकर प्रजाकता संगेकर नागनाथ अप्पराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29145 08.05.12	सी5एवं6, सोनामाता नगर, बीजापुर रोड, सोलापुर
206607	सनीशा एम.वी.के. रमन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28719 30.03.12	ई-10/बी, कावेरी वासवादत्ता कालोनी, सीडम तालुका, गुलबर्गा
206608	संजय कुमार गुप्ता रामायण जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	29895 24.12.12	प्लाट नं. 21, डी. नं. 06, सुवर्णा नगर, नागासन्द्र बंगलौर

206609	संजय पोखारल रामप्रसाद पोखारल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	28620 05.11.11	श्री रामा कृपा, धर्मास्थल रोड, उजायर, बेलथांगडे तालुका, दक्षिणा कन्नड़
206610	संजय जिराली चिदानन्द	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29615 14.06.12	चिकलगुड, हब्बल पत्रालय, हुक्केरी तालुका, बेलगांव
206611	संजय ए.आर रामाकृष्णा राव एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24888 08.06.09	# 01, सातवीं क्रोस, उद्यामना नगर, विशनिदम पत्रालय, बीदर
206612	संजीव जोशी मोह नं. जी.जोशी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24648 21.05.09	# 1333, कवि प्लाट-4, स्टेशन रोड, बीजापुर
206613	संजीव कुमार पोमा राठौड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27153 18.03.11	हनमाननगर, इकलुर पत्रालय, बसवा कल्याण तालुका, बीदर
206614	संजीव नायक प्रभाकर नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26176 22.03.10	तीसरी क्रोस, आदर्श नगर, बेलगांव
206615	संजीव राठौड वालू राठौड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26789 19.08.10	मक्खनपुर एल.टी.2, बीजापुर
206616	संजीव वेंकटापुर बसवाराज वेंकटापुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29384 21.05.12	नं. 160, श्री रेणूकदा रामेश्वरी निलाय, विश्वेश्वर्या नगर, हावेरी तालुका
206617	संजीवनी गांधी एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29103 07.05.12	रेणूका निवास नं. 17-4-102, एग्रीकल्चर कालोनी, मनाली रोडम बीदर तालुका
206618	संजीव इक्कलकी अन्नाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29555 12.06.12	भाटागुणकी ग्राम व पत्रालय, इंडि तालुका, बीजापुर
206619	संकरनारायण एस शिवशंकरण. एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24610 18.05.09	ए-6, एमआईटी क्वाटर्स, मणिपाल पत्रालय उदुपि तालुका
206620	सन्मथी पी. राव वी.आर. पदमान्भा राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24641 21.05.09	# 197, आठवीं क्रोस, दूसरी मेन रोड, एसबीएम कालोनी, बीएसके पहली स्टेज, बंगलौर साउथ
206621	सन्तमति पाटिल विमलकांत डी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28770 05.04.12	रत्नात्रेय निवास कल्याण नगर सिंदगी तालुका बीजापुर
206622	सन्तोष जडीमठ रुद्रैय्या जडीमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26526 08.04.10	द्वारा बीवीवीएस एएमसी बागलकोट
206623	सन्तोष कुमार हनुमंथरैय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30227 30.04.13	# टी सी 243, आरटीपीएस कालोनी, शक्तितनगर, रायचुर-तालुका एवं शक्तितनगर
206624	सन्तोष कुमार एस सिदराम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30305 09.05.13	सी-15/3, डी.आर.डी.ओ., टाउनशिप, सी.वी. रमन नगर, बंगलौर

206625	सन्तोष कुमार सिंह अर्जुन सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27021 07.02.11	म. नं. 758, पहला तल, दूसरा फेस, पहली मेन, सातवां ब्लाक, बीएसके तीसरी स्टेज, बंगलौर
206626	सन्तोष कुमार एम.एन एम. नागप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25322 05.12.09	# 287, बनावसी, तवानन्दी ग्राम व पत्रालय, सोरब तालुका, शिमोगा
206627	सन्तोष पाटिल राजाशेकर गौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29185 14.05.12	ओल्ड बेनी पीठ, ब्यादगी ग्राम हावेरी
206628	सन्तोष रेड्डी एस.टी थिप्पेस्वामी एस.वी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23914 09.04.09	# 737, पदगत्ते रोड, नायकनाहलेय छल्लाकेर तालुका, चित्रदुर्ग
206629	सन्तोष शंकर मोर शंकर मोर	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	29737 03.09.12	तदकल वाई रत्कल गुलबर्गा
206630	सन्तोष एच एस शंकरप्पा डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25943 17.03.10	नोनाविनाकर दुमकूर
206631	सन्तोष के आर रामकृष्णा के. एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27248 22.03.11	# 156, 69वीं मेन रोड राजाजीनगर, बंगलौर
206632	सन्तोष एम डी देवासी एम एल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24763 04.06.09	छत्तीकुडीज, सुट्टा पत्रालय, ए नं. आर.पुरा तालुका, चिकमगलूर
206633	सन्तोष एम. रायाबगी मोहनलाल एच रायाबगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25929 17.03.10	# 5-35 ए, कम्पनबेट्टू, गुड्डे अंगदी क्रोस उद्यावर पत्रालय, उदुपि
206634	सन्तोषा होल्याचे बासवाराजप्पा होल्याचे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24196 24.04.09	समीप एपीएमसी होललू पत्रालय, हदागली तालुका, बेलारी
206635	सन्तोषा कुमार शंकरा अंचन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24606 18.05.09	गुरु आशय, होडे पत्रालय, ब्रहमावर तालुका, उदुपि
206636	सन्तोषाकुमार अदावी हनुमाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27310 23.03.11	हयरदा पत्रालय, हुवीना हदागली तालुका, बेलारी
206637	सन्तोष मारुति गोकक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25203 09.10.09	ई-1152, मुगलखोड पत्रालय, रायबग तालुका, बेलगांव
206638	सन्तोष गुडप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26993 15.12.10	म. नं. 28/110/111, हेयरमठ कालोनी, बसवाकल्याण तालुका, बीदर
206639	सन्तोष भावराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27481 26.03.11	केएसआरटीसी कालोनी नौबाड तालुका बीदर
206640	सन्तोष अराकसाली अशोक अराकसाली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24670 23.05.09	# 31, विनय कालोनी, हुबली तालुका, धारवाड

206641	सन्तोष बसराकोद मलेशाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24359 30.04.09	पाशापुर पीठ, गोलागुम्बज फरंट, समीप कृष्णा डायरी, बीजापुर
206642	सन्तोष दादी विरूपक्षप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28828 16.04.12	# 54/1, डोडा केरी नेगालूर ग्राम व पत्रालय हावेरी तालुका
206643	सन्तोष हलुन्दी दयामप्पा डी. हलुन्दी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27512 28.03.11	सन्तोष निलाय, उदय हाउसिंग कालोनी विद्या नगर (वेस्ट) हावेरी
206644	सन्तोष हुगर गुरुनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25629 06.03.10	# 95/1, खानापुरी (एस.के), नागानूर पत्रालय, शोरापुर तालुका, गुलबर्गा
206645	सन्तोष कन्चयानी जम्बुनाथ कंचयानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26132 20.03.10	कवि कीर्ति 500, कीर्ति नगर, बागलकोट रोड, बीजापुर
206646	सन्तोष कट्टी चम्बान्ना कट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26131 20.03.10	म. नं. 38, कदारोली, बेलहोगल तालुका, बेलगांव
206647	सन्तोष कोप्पड कोल्लाम्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26727 28.06.10	तेग्गीनाकेरी ओनी, कुन्डगोल ग्राम व पत्रालय एवं तालुका धारवाड
206648	सन्तोष कुमार ईश्वर राव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25009 23.06.09	# 8-9-482/1, देवीकालोनी बीदर तालुका
206649	सन्तोष कुमार चन्द्रकांत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25940 17.03.10	# 19/6/298, नार्थ शिवानगर, पापंश गेट के अन्दर, बीदर
206650	सन्तोष कुमार शरणप्पा हदीमणि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27580 30.03.11	बसवा निलाय, बीबी नगर, कुस्तगी तालुका, कोप्पल
206651	सन्तोष कुमार बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28778 11.04.12	# ई 102, तेलागबल हेरूर, जवारगी तालुका, गुलबर्गा
206652	सन्तोष कुमार इरापुर हनुमांतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28928 26.04.12	नं. 331, आठवीं क्रोस सहदेव नगर, ओल्ड हुबली तालुक धारवाड
206653	सन्तोष कुमार कोनी वीराना वी. कोनी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25628 06.03.10	# 1930/9ई, बसवानगर, हुक्केरी तालुका, बेलगांव
206654	सन्तोष कुमार राय राम सुगारथ राय	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25392 22.02.10	# 23/ए, दूसरी क्रोस, एस.वी. लेयआउट, बनाशंकरी तीसरी स्टेज, बेंगलोर
206655	सन्तोष कुमार रेवन्नावर शिवापुत्राम्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26854 01.09.10	प्लाट नं. 84, चौथी क्रोस, भागूनगर, बेलगांव पत्रालय
206656	सन्तोष कुमार सागर बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28003 18.04.11	नं. 833, मसूर रोड रत्तीहल्ली ग्राम व पत्रालय हायरकेरूर तालुका, हावेरी

206657	सन्तोष कुमार उत्तासकर बाबू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24968 10.06.09	# 432, कीर्तिनगर, बीजापुर
206658	सन्तोष एम पी महाबलेश्वर एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30517 20.06.13	म. नं. # 3, केएचबी कालोनी, तालुका-जगलूर दावनगेरे, जगलूर
206659	सन्तोष मैत्रे अप्पान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24151 22.04.09	हुंडेकर गली, बागलकोट
206660	सन्तोष नायक रामू भीमप्पा लमानी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29910 15.01.13	ए/टी-जात्तगी एल.टी., पी/टी-हुल्लूर एल टी, तालुका मुद्दाबिहल डी/टी बीजापुर
206661	सन्तोष नीलाकन्थामठ अमारय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28589 19.10.11	तीसरी क्रोस, ओल्ड हुबली पत्रालय हुबली तालुका, धारवाड़
206662	सन्तोष पाटिल फकीरागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26287 23.03.10	रशिम बिल्डिंग, रु 1281, स्कूल नं. 47, सहयदरी नगर, हिंदाल्गा, बेलगांव
206663	सन्तोष रामचन्द्र नायक रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26030 19.03.10	वार्ड/35, 155/39, आदर्श नगर, गडग
206664	सन्तोष रंगान्नावर वेंकटेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24293 29.04.09	शंकर कालेज रोड नवलगुंड पत्रालय एवं तालुका धारवाड़
206665	सन्तोष रुद्राप्पा छावदापूर आरवीराप्पा छावदापूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24020 20.04.09	गांधीनगर, मानोली पत्रालय, सवादत्ती तालुका, बेलगांव
206666	सन्तोष शंकर शंकर ए नं. कंचनावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23701 01.04.09	अदाहल्ली पत्रालय, अठनी तालुका, बेलगांव
206667	सन्तोष वी एस. वेंकटगौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25839 12.03.10	बनाशंकरी बिल्डिंग, मुनिसिपल ऑफिस, होसादुर्गा तालुका, चित्रदुर्ग
206668	सन्तोष बी. शरणप्पा बलोडे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27102 16.03.11	ओम साई कृपा क्लीनिक, हुमनाबाद रोड, कपनूर चेक पत्रालय के सामने, गुलबर्गा
206669	सन्तोष सी. नायक बी चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27501 26.03.11	बासवाराज पुरा, रुद्रापुुरा पत्रालय, चेन्नागिरी तालुका दावनगेरे
206670	सन्तोष एम. टंगली महादेव एस. टंगली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24705 03.06.09	# 10-296, लोवर लेन, ब्रह्मपुर गुलबर्गा
206671	सन्तोषगौडा पाटिल शंकरगौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24728 03.06.09	अक्की-अलूर, हंगल तालुका हावेरी
206672	सन्तोषिनी एम एस मायलारप्पा सी.जी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24371 30.04.09	# 249, पाचवीं मेन, पत्तेग्रापाल्या, विजयनगर, बंगलौर

206673	सन्तोषकुमार क्याताप्पनवर इराप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26215 23.03.10	केपीटीसीएल कालोनी, पी.बी.रोड रेनबेनूर तालुका, हावेरी
206674	सन्तोषकुमार ए कालप्पा अवंगपुर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29770 29.09.12	# 1-2-133, पोस्ट ऑफिस रोड, माल्वाकट्टा, गुरमीतकल ग्राम व पोस्ट एवं तालुका यादागिरी
206675	सन्तोषकुमार जी.बी गोलाप्पा बेटागरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23821 04.04.09	शिरालाकोप्पा पत्रालय, शिकारीपुर तालुका शिमोगा
206676	सन्तोषकुमार एम.के मारुति एल. कठारे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24448 05.05.09	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा
206677	सन्तोषकुमार पाटिल शिवाशंकरागौडा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23795 04.04.09	दसूरी कोर्स, विद्यानगर सी ब्लॉक, हावेरी
206678	सानूबर जमखानेवाले अशरफअली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25715 12.03.10	घटप्रभा पत्रालय, समीप बेल्लाद बगवाडी बैंक, गोकक, बेलगांव
206679	सपाकल धेराशिल बाबूराव बाबूराव हरीबा सपाकल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23972 13.04.09	शाहबाद पत्रालय, चीतापुर तालुका, गुलबर्गा
206680	सपाटे अजित अरुण अर्जुन राजाराम सपाटे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24193 24.04.09	म. नं. 607, समीप साईबाबा मंदिर, कीर्ति नगर, बीजापुर
206681	सपना कुपेन्द्र काबा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29066 05.05.12	नं. बी-1029/1, सपना निवास सिद्धेश्वर नगर, समीप पारले आईस फेक्टरी गाजीपुर, गुलबर्गा
206682	सपना चन्द्रकांत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30388 23.05.13	ग्राम व पत्रालय मंथल, तालुका-बसवाकल्याण बीदर
206683	सपना नरसंगी गुंडप्पा नरसंगी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28865 18.04.12	द्वारा एन आई पाटिल, गुडीमई (वीलू), बालावत पत्रालय मुददेहल तालुका, बीजापुर
206684	सपना डी देवीदास	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24561 13.05.09	# 26, केन्द्रीय विद्यालय के पीछे, आदर्श कालोनी, फेस-1, बीदर
206685	सपना बी. शेट्टी भास्कर शेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26548 12.04.10	कन्नूर पत्रालय व गांव मंगलोर तालुका, दक्षिणा कन्नड
206686	सपना एम. नदागौडार एम सी नदागौडार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24167 24.04.09	नन्दावदगी पत्रालय, हुनगुंड तालुका, बागलकोट
206687	सराह तारानुम सादिक अहमद शरीफ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29780 29.09.12	# 38/1, गुडविल मनूर अपार्टमेन्ट्स, तीसरा ब्लॉक, सुल्तानजी गुन्ता रोड, शिवाजीनगर बंगलौर
206688	सरला टी.बी. बासवाराजप्पा जे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23865 09.04.09	# 1574/16, ए मेन रोड, शिवकुमारा स्वामी एक्सटेंशन, सेकण्ड स्टेज दावनगेरे

206689	साराण्या एन सतीश सुमीथ पदमान्नन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29754 29.09.12	# 236, सोपर्निका, अकूरली पनवल पत्रालय व तालुका रायगढ़
206690	सरण्या सी सी रामांजुम	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28946 26.04.12	नं. 58, पहली बी क्रोस, पाचवीं मेन, समीप साई बाबा मंदिर एजस लेयआउट, बंगलौर
206691	सरस्वथी चिदानादप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29289 17.05.12	श्री देवी चिकित्सालय, मराली पत्रालय, आर्चनासापूर गंगावथी तालुका, कोप्पल
206692	सरस्वथी विजय कुमार पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26498 07.04.10	# एल-197, निजालिंगप्पा कालोनी, रायचुर
206693	सरस्वथी एच.आर. रामाकृष्णय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27372 24.03.11	होसाहल्ली, दोरनाहली, के.आर.नगर, मैसूर
206694	सरस्वति अमरान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30469 07.06.13	मालाहल्ली, तालुका शोरापुर ग्राम व पत्रालय पारसानाहल्ली यादगिर
206695	सरस्वति गनाचारी वीरुपक्षी आर. गनाचारी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27836 08.04.11	नं. 733/6/सी/डी/14, बसवा नगर, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206696	सारिका संगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28574 19.10.11	# 182, # 26, 27, त्रिपुरंथ, बसवा कल्याण तालुका, बीदर
206697	सरिता साईबान्ना ए नं. मेत्री	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27743 06.04.11	11-862/आईक्यू/2, अशोक नगर, एमएसके मिल रोड समीप वाटर टन, गुलबर्गा
206698	सरिथा पी के सुकरन नायर	बी.ए.एम.एस केरल वि.वि. केरल 1989	29898 24.12.12	425, चौथी सी मेन, एचआरबीआर सेकण्ड ब्लॉक, कल्याण नगर बंगलौर
206699	सरोज सुनीलकुमार राम दुलार सरोज राम दुलार	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25552 05.03.10	नवनगर, रोन तालुका, गजेन्द्रगढ़ गडग
206700	सरोजा बन्नीगोल एच हनुमानथप्पा बन्नीगोल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23980 18.04.09	पीडब्लूडी डिवीजन ऑफिस, मूलागुदांका, गडग तालुका
206701	सरोजनी कुचानूर महालिंगप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24304 29.04.09	कुम्भर गली, रबकवि पत्रालय, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
206702	सरोजनी पाटिल सतागौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30588 31.07.13	भोज, तालुका-चिकौड़ी बेलगांव
206703	सरोजी कुमारी संगप्पा ए नं. हड़पड़	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28497 26.07.11	# 69, गोवारचन्द्र नगर, मेडिकल कालेज, बीजापुर
206704	सर्वमंगला मोहन उपाध्याय के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27732 06.04.11	एमआईजी-6, केएचबी कालोनी, कोडांगलू पत्रालय, मंगलोर तालुका, दक्षिणी कन्नड़

206705	सतीश कुमार एन डोडाबासप्पा एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25632 06.03.10	समीप अय्यपा स्वामी मंदि, ईश्वरनगर पत्रालय, रनबेनूर तालुका, हावेरी
206706	सतीशागौडा दान्नाप्पानवर एन दान्नाप्पानावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27559 29.03.11	पानीगल्ली, क्यालाकोंदा, शिंगगाव तालुका, हावेरी
206707	साठे गीतांजली आन्नदराव आन्नदराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24944 10.06.09	वी.बी. गिन्नीमथ, एम.बी. कलाल बिल्डिंग, समीप वेंकटेश थियेटर, मुंदरगी तालुका गडग
206708	साठे सचिन गणपत गणपत बलू साठे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30030 15.04.13	143/3, गुलमोहर, विजयालक्ष्मी पाक्र, कर्व नाका, तालुका करद, सतारा, कर्द
206709	सतीशकुमार एच.जी गोराप्पा एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27381 24.03.11	चोवला हिरीयर, कदुर तालुका, चिकमगलोर
206710	सतीश चन्द्र.एस सीथारामा के एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27259 22.03.11	# 5/1 (417), ग्याहरवीं मेन, चौथी ब्लाक, नन्धिनी लेयआउट बंगलौर
206711	सतीश पेठे सिद्धाप्पा पेठे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24449 05.05.09	कित्तली पत्रालय, बादामी तालुका, बागलकोट
206712	सतीशा सी चन्द्रोजी राव एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30219 30.04.13	मालापुुरा गाव, मराता स्ट्रीट, मायडोलालू पत्रालय, भद्रावथी तालुक, शिमोगा
206713	सत्यानारायणा एन जी गोविंदाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26036 19.03.10	बंदेकरी, नग्गेहली, सी.आर.पटना तालुका, हसन
206714	सतीश नारायणराव कम्बले	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28619 05.11.11	सरकारी हाई स्कूल, टीचर कालोनी, औरद (बी) पत्रालय, बीदर
206715	सतीश बी हंचिनामणि बसवाराजप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28566 19.10.11	केलावरा कोप्पा पत्रालय, हंगल तालुका हावेरी
206716	सतीश निप्पानी मनोहर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26650 05.05.10	एसबीआई कालोनी, मुधोल तालुका बागलकोट
206717	सतीश एम. पाटिल मलिकार्जन के पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28145 26.04.11	केल्लूर ग्राम व पत्रालय, जवरगी तालुका, गुलबर्गा
206718	सत्यम कुमार सिंह श्री सच पाल सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26736 28.06.10	द्वारा डीजीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज गडग
206719	सत्यानारायणा मस्ताम्मानावर आर.ए.नं. मस्ताम्मानावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25231 15.10.09	सुरंगी पत्रालय शिराहट्टी तालुका, गडग
206720	सौम्या मरियम सैम जोन सौमल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28526 10.08.11	# 49, इंदिरानगर, बंगलौर



206721	सौरभ कुमार सिंह राजेन्द्र सिंह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25156 29.09.09	# 227, महावीरा निलाया, नरसाराजा रोड, दावनगेरे
206722	सवादकर कुनाल शाम एस रामचन्द्र सवादकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24793 04.06.09	प्लाट नं. 835, वसंत विहार, दूसरी स्टेज, आर.सी.नगर, बेलगांव
206723	सविता धोंदीराम पाटिल	बी.ए.एम.एस शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर 1994	29750 29.09.12	पाटिल क्लीनिक, रु 541, पाटिल गली, कनाबर्गी ग्राम व पत्रालय, बेलगांव
206724	सविता बहेती नन्द किशोर बहेती	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24300 29.04.09	# 298/ए, गजेन्द्रागढ़ पत्रालय, रोन तालुका, गडग
206725	सविता बिलीगिरीरंगा नायक वी. बेलीगिरीरंगा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24249 28.04.09	डी. नं. 947, 22वां क्रॉस, एसआईटी, टुमकूर
206726	सविता चौगले शिवाजी चौगले	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27245 22.03.11	# 33, रंगानाथा एक्सटेंशन, हरोहल्ली, कनकापुरा रामनगर
206727	सविता देसाई इरप्पा सत्याप्पा देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27817 08.04.11	कटकभवी ग्राम व पत्रालय, रायबग तालुका बेलगांव
206728	सविता गचिनमणि नागराज गचिनमणि	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29852 05.11.12	वीरभद्रेश्वर निलाय, चर्च रोड रणबेनूर तालुका, हावेरी
206729	सविता जोदंगी वीरामद्रप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30452 04.06.13	ग्राम व पत्रालय देवागांव, तालुका बेलहोंगल, बेलगांव, देवगांव
206730	सविता पंचाभाई मारुति राव पंचाभाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26868 07.09.10	गंगोत्री कालीदास नगर, बी.वी.बी. कालेज रोड, बीदर तालुका
206731	सविता तोरवी माल्लप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25473 03.03.10	हवीनल पत्रालय, इंडि तालुका, बीजापुर
206732	सविता वांगी संगाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30107 19.04.13	शाहपुर गेट, पटैल गली, जेल रोड, बीजापुर
206733	सविता के माने कृष्णाजीराव बी. माने	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24856 06.06.09	होन्नाकट्टी पत्रालय, बागलकोट तालुका
206734	सविथा के.बी.बदीगेर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28908 26.04.12	नं. 4-601/36ए, एम.जी.रोड, एम.बी.नगर, जी.जी.एच. पत्रालय, गुलबर्गा
206735	सविथा एम.रमेश	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27722 06.04.11	नं. 1-170-22, थिरलापल्के, विश्वेषवरा नगर, उदुपि
206736	सविथा के महेश पी. सवाल्गीमथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27000 20.12.10	क्वाटर नं. 14, हरवदकर बिल्डिंग, पहला गेट, तिलकवाडी, बेलगांव

206737	सविथा कुमारी आर.रामू.के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26728 28.06.10	बनाहल्ली रोड, चन्दापुरा, अनकल तालुका, बंगलौर
206738	सविथा वाई पी यालाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	30383 22.05.13	जनाथा बाजार, नीलाकटेश्वर मंदिर रोड, चित्रदुर्ग
206739	सविथा. एच एस.जी.हल्लाल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25446 02.03.10	अनुग्रह, दरगा रोड, हरिहर तालुका दवनगिरी
206740	सविथा एन एस कोत्सागोडा एन एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23894 09.04.09	नन्दीहली पत्रालय, हुवीन्हादगली तालुका, बेलारी
206741	सविथा वी. कुदरी वीराप्पा एन कुदरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24494 11.05.09	दूसरी मेन, केश्वनगर, यत्रापुर, हरिहर तालुका, दावनगरे
206742	सविथ्री बेलाकुद इरप्पा बेलाकुद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25927 17.03.10	# 131ए, कल्लोली, गोकाक तालुका, बेलगांव
206743	सावित्री सिद्धान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27835 08.04.11	पोस्ट ऑफिस, जीवेशवर नगर, शाहपुर तालुका, यादगिरी
206744	सावित्री देसाई बसवाराज ए देसाई	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28967 26.04.12	समीप कालिका नगर, सिंदगी ग्राम व पत्रालय एवं तालुक बीजापुर
206745	सावित्री करिगौडर संगनागौडर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26086 19.03.10	कोप्पल क्रोस, एच. एम. नगर, मुंदरगी तालुका, गडग
206746	सावित्री कुकाडोली पतरेप्पा. ए नं. कुकाडोली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25225 14.10.09	# 550/1, वडगांव बेलगांव
206747	सावित्री मस्ती सुरेश शिवप्पा किट्टूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28645 30.11.11	मथोश्री प्लाट नं. 76ए/32जी, नदगर कम्पाउंड, सप्तापुर, धारवाड़
206748	सावित्री रोनद श्रीनिवास एस. रोनद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26073 19.03.10	विद्यानगर, हुबली तालुका, धारवाड़
206749	सावित्री शिंत्री मलिकार्जुन शिंत्री	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24539 13.05.09	# 3202, रामापुरसाईट सोनतादल्ली बेलगांव
206750	सावित्री श्रीसाईलप्पा श्रीसाईलप्पा निदावनी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	30019 10.04.13	शिवांगंगा बिल्डिंग, श्रीनगर पहली क्रोस धारवाड़ तालुका
206751	सावित्री टेलसंग चन्नाबसप्पा टेलसंग	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27852 08.04.11	म. नं. 2346, हट्टी होलगली, नाथ पाई सक्रल, गोआवेस पोस्ट आफिस, शाहपुर, बेलगांव
206752	सावनकुमार शिवराम राठौड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28492 26.07.11	म. नं. 129/2, रेवनसिद्धेश वार कालोनी, कपनूर रोड गुलबर्गा

206753	सावंत अर्जुन पोपट सावंत पोपट ध्यानु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24524 12.05.09	बालानगर, आयुर्वेद कालेज के पीछे, मानवी तालुका रायचुर
206754	सावंत राहुल विष्णु विष्णु बी सावंत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24133 22.04.09	मृथंजय नगर, बनशकरी लेयआउट, रणबेनूर तालुका हावेरी
206755	सावंत संजय शेषराव सावंत शेषराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30312 10.05.13	ग्राम व पत्रालय बोरी (सावंत ), तालुका-बसमथ हींगोली, बोरी
206756	सावंत सन्तोष अरुण सावंत अरुण खानू	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24147 22.04.09	इंदिरा नगर, बेलहोंगल तालुका, बेलगांव
206757	सावंत स्नेहा सुरेश सुरेश भगवंत सावंत	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29167 11.05.12	1डी505, नीलगंगा सीएचएस, शंकरराव नरम
206758	सयैद अहमद शेक शेक खदीर बाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29789 12.10.12	# 4-385-3, ए.ई.आर. इन बदवल मेन रोड, जी वी, सतराम नन्दलम पेट पत्रालय, कडप्पा
206759	साय्यदमुस्तफा खाजी बशीर अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29215 14.05.12	फक्कीरेश्वरा नगर, तीसरा क्रोस, शिराहट्टी एवं पत्रालय, तालुका, गडग
206760	सय्यादशा मुल्ला खदीर शाह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26158 20.03.10	कल्याण नगर, सिंदगी तालुका बीजापुर
206761	साजिया बेगम अब्दुल रहमान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27391 25.03.11	# 1-132, हफीजा एफ एम काम्प्लेक्स, कटपेडी, उदुपि
206762	सीमा सयैद मुनताज पाशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	29855 05.11.12	समीप एम टी एम थियेटर, सिन्दानूर, मानवी तालुका, रायचुर
206763	सीमा अखतर मोहम्मद अमनउल्ला	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24230 28.04.09	# 2466, डबल/सी-22, अशोक रोड लशकर मोहल्ला मैसूर
206764	सीमा बी. एम. कोटरैह बी.एम.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30281 07.05.13	म. नं. 7/31, तीसरी मेन, सारावकी, जे.पी.नगर, पहला फेस बंगलौर
206765	सीमा चावन एस.जे. इल्कल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25238 16.10.09	# 86, एस.आर.कालोनी, जालानगर, बीजापुर तालुका
206766	सीमा जोदागरी अप्पायप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29223 15.05.12	नं. 146/4बी, प्लाट नं. 24, पहली क्रोस, विवेक आन्नद नगर गोकक, बेलगांव
206767	सीमा पाटिल अर्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30127 19.04.13	सहदेव नगर, पहली क्रोस, प्लाट नं. 70, समीप मुरुदेश्वर फेक्टरी, धारवाड, हुबली
206768	सीमा रामपाल सुनील कुमार वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर -2006	28578 19.10.11	पांचवी क्रोस, होंगसंदरा, बेगूर रोड, बौमनाहली, बंगलौर

206769	सीमा रानी गुरुलिंगाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25874 12.03.10	ओम साई एजेन्सी, हरालय्या चौक, बसवा कल्याण बीदर
206770	सीमातिनी वदिराजा आचार्य.पी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24028 20.04.09	# 8-1-52/ए.
206771	सीता.एच हनुमानतप्पा होगेरी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26194 22.03.10	सेकण्ड वार्ड, गिनीगरी पत्रालय, कोप्पल
206772	शबाना आजमी एम.ए. अजीज एम.ए.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28640 21.11.11	# 524, एम.जी.रोड, बैंक साई, उदयगिरी पत्रालय, मैसूर
206773	शबानाबेगम खलील अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25295 27.11.09	# 3-1-7, दीददकेरा स्ट्रीट कोप्पल तालुका
206774	शाबाशेरुद्दीन शमशुद्दीन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29105 07.05.12	नं. 1370/1, तीसरी क्रोस मुस्लिम, ब्लाक हालागुर मालावली मंडया
206775	शब्बीर अहमद गुलाम दस्तागिर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27079 15.03.11	डी. नं. 2115, छठी क्रोस, एम.जी नगर होसपेट तालुका, बेल्लारी
206776	शाबीन बानो मोहम्मद रिवाज मुल्ला	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25893 12.03.10	प्लाट नं. 6बी, 7, 8, द्वितीय क्रोस बेलगांव
206777	शाफीक अहमद अब्दूल मुजीब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30243 02.05.13	खदरिआ रिक मिल, मुस्लिम ब्लाक, के आर नगर तालुका, मैसूर
206778	शाह अक्षय प्रदीप प्रदीप गिरधरलाल शाह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25003 19.06.09	# 3129, तीसरा ब्लाक, जानाप्रिया हार्टस, मालासंदरा बंगलौर
206779	शाह निकेता नविनीतलाल नविनीतलाल कांतिलाल शाह	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23822 04.04.09	प्लाट नं. 7, निपानी पत्रालय, चिकौडी तालुका बेलगांव
206780	शाहाबानू मुजावर गुडासाहिब मुजावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26555 13.04.10	द्वारा ए एम. कलर्की गजेन्द्रगढ़, रोन तालुका, गडग
206781	शाहने अमोल मनोहर श्री शाहने मनोहर इकनाथ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25551 05.03.10	रंगराज अस्पताल के पास, गजेन्द्रगढ़, रोन तालुका, गडग
206782	शाहीन असमा मोहम्मद हुसैन हायरवली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24391 05.05.09	# 527, ए टाईप, बेईएमएल नगर, कोलर
206783	शाहरबनी जैनुद्दीन पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26954 29.10.10	समीप पीडीजे हाई स्कूल ग्राउण्ड कृष्णा नगर, बीजापुर
206784	शाहनावाज दिवान जी. एच. दिवान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25098 17.08.09	# 752, पाचवी मेन, राघवेन्द्रा ब्लाक, श्रीनगर, बंगलौर

206785	शैक महाम्मद वसीम मालवी अब्दूर रजाक	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29336 18.05.12	समीप जामिया मस्जिद, नागेन्हल्ली होसपेट, बेल्गारी
206786	शेख अब्दुलाही शेख मोहम्मद बशीर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24654 22.05.09	# 79/ए, नवारसपुर कालोनी, न्यू कोर्ट के सामने, बागलकोट रोड, बीजापुर
206787	शेख अशिफ बशीर अहमद शेख बशीर अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24444 05.05.09	म. नं. 4-601/34ए, चौथी क्रोस, एम.बी. नगर, गुलबर्गा
206788	शेख जावेद अब्बासमियां शेख अब्बासमियां याकुब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24679 28.05.09	लडकों का हास्टल, मामादापुर बिल्डिंग, कालेज रोड बादामी पत्रालय एवं तालुका, बागलकोट
206789	शेख नाज्या इकबाल शेख इकबाल अहमद	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26733 28.06.10	कौलकेर चौल, फलोरमिल, हुबली तालुका, धारवाड़
206790	शेख नाजिया फरहीन शौकत अली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29713 31.07.12	ई-7-3639/1, केबीएन इंजी. कालेज रोड, न्यू बैंक कालोनी, बिलालाबाद गुलबर्गा
206791	शेख परवेज रमजान अली रमजान अली शेख	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24800 05.06.09	पांचवी क्रोस, न्यू हाउस, समीप प्राइमरी बील्स बेबी स्कूल, शिमोगा
206792	शैला हिरेमठ अशोक एस. हिरेमठ	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25654 06.03.10	विद्यानगर, तालिकोटी पत्रालय, मुद्देबिहाल तालुका, बीजापुर
206793	शैला श्री हादाकर सिद्धप्पा बालाप्पा हादाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27517 28.03.11	हरुगेरी क्रासे, हरुगेरी रयाबग तालुका, बेलगांव
206794	शैला शिवायगी एस. भाद्रे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24972 11.06.09	हनुमान मंदिर आलंद तालुका, गुलबर्गा
206795	शैला एस हुईल्गोल शनमुखा बी. हुईल्गोल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23834 06.04.09	गुन्नल (वाया बावूर), यालाबुर्गा तालुका, कोप्पल
206796	शैलजा गणेश रशमी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24623 18.05.09	हितनल पत्रालय, कोप्पल तालुका
206797	शैलजा एम पूजर मालाय्या	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30100 18.04.13	ग्राम व पत्रालय बुद्राकट्टी, तालुका-बेलाहोंगल, बेलगांव बुदारकट्टी
206798	शैलजा मन्तानवर वाई जी मन्तानवर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29006 27.04.12	कमाला दिनी, ग्राम व पत्रालय, गोकक तालुक बेलगांव
206799	शैलेश विट्टाला देवदिगा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25155 26.09.09	मुनिसिपल कांडसिलर गिरीजा निवाज, विशाल नगर कोडन्गलू पत्रालय, मुदबीदरी
206800	शैलेश डी.एस. श्रीशरा भागवथी डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25948 17.03.10	# 1/87, हरिहरा, पालाथडका, सुलिया तालुका दक्षिणा कन्नड़

206801	शैलेश वाई यजनारायण एन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24168 24.04.09	# 6-84, निजर, समीप अश्वथ काटे, संथेकट्टे, उदुपि
206802	शैलेश्री जी. कोपल गुंडप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25471 03.03.10	यनकांची पत्रालय, सिंदगी तालुका, बीजापुर
206803	शकीलअहमद सुन्नाखान अब्दुल मजिद सुन्नाखान	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28573 19.10.11	तीसरी मेन, छटी क्रोस, गौरीशंकर नगर, रानीबेनूर तालुका, हावेरी
206804	शक्ति मैथड बसवाराज मैथड	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24961 10.06.09	के.सी.सी. लेयआउट, प्लाट नं. 5, नवानगर, हुबली तालुका, धारवाड़
206805	शाकुन्तला एच गदादावर होनाकेरप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30591 31.07.13	ग्राम व पत्रालय-गवारावाद, तालुका एवं गडग
206806	शकुन्तला बी बाबू मालिपाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29569 12.06.12	भुरले हास्पीटल मेन रोड, बासवाकल्याण तालुका, बीदर
206807	शाकुन्तला एस पुजेरी सत्याप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27067 15.03.11	कुराबर ओनी, अराभाभी ग्राम व पत्रालय, गोकक तालुका, बेलगांव
206808	शालिनी के एस के शांतप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26911 27.09.10	# 32/37, छटी मेन, ज्ञानाज्योथि नगर, बेंगलोर
206809	शालिनी एस साथेशा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29669 19.06.12	# 32, टाइप-3, सी.एस.आर. एवं टी.आई. स्टाफ क्वार्टर, विद्यारन्यपुरम, जे.एल.बी. रोड, मैसूर
206810	शालिनी टी.वी. टी.एल विजयान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24276 29.04.09	# 148/1, गगाना, सुरवेयोर स्ट्रीट, गांधी बाजार, बंगलौर
206811	शालिनी के अघानाशिनीकर कमलाकर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1997	24294 29.04.09	डोर नं. 7रू3-198/9, बुलोर कुचीकई, मंगलोर तालुका दक्षिणा कन्नड़
206812	शमां अफरोज एन सवानूर नूर अहमद बी सवानूर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26688 28.05.10	एसएनएस, 22/3, सागर रोड, भटकल तालुका, उत्तर कन्नड़
206813	सम्भवी के कृष्णगौड़ा के	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27384 25.03.11	# 212, टेलकम लेयआउट, बागाधी सेकण्ड स्टेज, मैसूर
206814	शंभू के कुरविनशेट्टी बासप्पा कुरविनशेट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25980 18.03.10	यारेबुदिहल पत्रालय, कुन्डागोल तालुका धारवाड़
206815	शम्भू कुमार सुमन रमेश मुखिया	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30620 28.08.13	विल-मधुरा, पोस्ट ऑफिस चौहटा, वाया-थरभिट्टा, पी. एस. किशनपुर, सुपोल, बिहार सुपोल
206816	शम्भूलिंग हेब्बल्ली शिवाप्पा जे हेब्बल्ली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26889 16.09.10	ईडब्ल्युएस-232, कर्नाटका सक्कल, नवानगर ग्राम व पत्रालय, हुबली तालुका, धारवाड़

206817	शामीरा एएम अस्थीर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25928 17.03.10	# 25, कुवम्पूनगर, हेरीयूर, चित्रादुर्ग
206818	शमशाद बेगम महबूब देवडी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25474 03.03.10	टाईप-6, म. नं. 32, आरटीपीएस कालोनी, शक्तिनगर, रायचुर
206819	शंकर मलिकार्जुन	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29110 07.05.12	पताली क्लोथस मरचानी श्री राम मार्केट आलंद गुलबर्गा
206820	शंकर माथापट्टी ईशप्पा बी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30124 19.04.13	# 39, मेहता लेयआउट, समीप एएल-आमीन उर्दु स्कूल, ओल्ड जवारगी रोड, गुलबर्गा
206821	शंकर बी.आर राजाशेखर बी.आर.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24860 06.06.09	बेलागुम्बा पत्रालय, अरसीकेर तालुका, हासन
206822	शंकराचार्य नारायणा पट्टर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29421 23.05.12	मेशथी पीठ मुदगल ग्राम व पत्रालय, लिंगासुगर तालुका, रायचुर
206823	शंकरलिंग घोली सिद्दाम्पा घोली	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25457 02.03.10	पंडारपुर रोड, केईबी चाडचन पत्रालय, इंडि तालुका बीजापुर
206824	शंकरान्ना नदागोदरा हनमंतराय	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27177 18.03.11	नदरगोदरा, रक्कसगी पत्रालय, मुद्देबिहल तालुका, बीजापुर
206825	शन्मुखा रेड्डी मोहन रेड्डी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29779 29.09.12	समीप तुलाजा भवानी मुदिर, श्री रामनगर अट्टीकोल्ला, धारवाड़
206826	शनमुखप्पा इरान्नावर वीरभद्राम्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24695 02.06.09	नारायण गुरुनगर, चिपगी पत्रालय, सिरसी तालुका, उत्तर कन्नड़
206827	शांताबाई इंगाले मंतप्पा आर. इंगाले	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30066 16.04.13	शाहपुर पीठ, के.के.रोड, पुलीस ग्राउण्ड के पीछे, बीजापुर
206828	शांताबाई हवनावर मंतप्पा आर. हवनावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28641 21.11.11	कन्नूर पत्रालय व गांव मंगलोर तालुका, बीजापुर
206829	शांतकुमार सुभाष बाबु	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26702 01.06.10	घोदिहीप्परगा, जोलादपका पत्रालय, भल्की तालुका बीदर
206830	शानू नदफ रजाकसाब	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27530 28.03.11	कमलदिनी ग्राम व पत्रालय, गोकक तालुका, बेलगांव
206831	शरद हसिकर गंगाधर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24042 20.04.09	वार्ड नं. 6, हराडोली, समीप दुर्गा मंदिर, गुलेदगुड्ड बागलकोट
206832	शरद कुलकर्णी प्रहलादराव	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30343 20.05.13	# 77, चौथा फेस, चेतन कालेज के पीछे, अक्षय कालोनी, विद्यानगर, हुबली

206833	शरदकुमार विश्वकर्मा गयाप्रसाद विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27149 18.03.11	द्वारा एसवीएम आर्यु. मेडिकल कॉलेज, इलकल तालुका, बागलकोट
206834	शारदा चन्द्रहास गट्टे	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28514 08.08.11	# 8/92/ए, दया निलाय, अशोकनगर, शिदिगुरी मंगलोर तालुका दक्षिणा कन्नड
206835	शारदा गुरुपादप्पा होट्टी गुरुपादप्पा बी. होट्टी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26072 19.03.10	# 24 समीप दयाम्बावा मंदिर, कमलापुर धारवाड
206836	शारदा खनल टीकाराम शर्मा खनल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30150 24.04.13	एसडीएम कालेज ऑफ आर्यु एवं हास्पिटल, बी.एम.रोड, हसन
206837	शारदा मदिवालर करिप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30380 21.05.13	निगापुर गली, तालुका खानापुर,
206838	शारदा यालावर शिवाप्पा यालावर	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28389 09.06.11	# 266, के के कालोनी, बी बेगवाडी रोड, जालानगर, बीजापुर
206839	शरणा राजू विट्टल वग्गी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29203 14.05.12	नं. 9-50/81, ओल्ड तहसील ऑफिस के पीछे, बसवेश्वर नगर शाहपुर, यदागिर
206840	शरणगौडा पाटिल शंकरागौडा वी पाटिल	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29491 25.05.12	कोरावर ग्राम व पत्रालय, सिंदगी तालुका, बीजापुर
206841	शरणेशा के.ए नं. नागप्पा के.	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26787 19.08.10	कनमाडुगू पत्रालय, कुडलिगी तालुका बेल्लारी
206842	शरसचन्द्र.पी रामचन्द्र सी.वी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25785 12.03.10	# 3879, जीजेसी लक्ष्मीशानगर, कदूर तालुका, चिकमगलूर
206843	शरत मेटी बासवाराज एस. मेटी	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28520 08.08.11	धनवंतरि क्लीनिक, कोप्पल मेन रोड, मुनडरगी तालुका, गडग
206844	शरथ एस श्री रंगाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28921 26.04.12	होसदुर्ग, ग्राम, पत्रालय एवं तालंका चित्रदुर्ग
206845	शरथ कुमार बी.आर बी. रामाकृष्णाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26053 19.03.10	# 2, सप्तागिरी निलाय, एनएमसी रोड, होसामने भद्रावथी, शिमोगा
206846	शरथ एस.जी गणेश.एस	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24568 14.05.09	मंजुश्री, 60फीट रोड, तीसरा क्रोस, विनोबानगरा, शिमोगा
206847	शारदा रामाकृष्णाप्पा	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25475 03.03.10	चोदेसवरी कालोनी चिंतामणि चिकाबालापुर
206848	शारदा बिरादर शिद्धान्ना	बी.ए.एम.एस राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30329 16.05.13	ग्राम व पत्रालय हुलयल, जमखण्डी तालुका, बागलकोट हुलयल



206849	शारिका मेनन एस पीजी. सतीश कुमार	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29196 14.05.12	नं. 20/224, सप्तमी, चेम्बई पुरी, सुन्दर लयर रोड, ओटापलम ग्राम व पत्रालय, पालक्कड
206850	शारिका राय के प्रभाकर राय एम	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25680 12.03.10	पहली क्रोस, कंकनाडे, वालांसिका, मंगलौर, दक्षिणा कन्नड
206851	शरोमेय के. सदाशिव	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24836 06.06.09	# 4-57/1 (3), सुर्यकल पत्रालय, मंगलौर तालुका दक्षिणा कन्नड
206852	शशिविन्दू वेनूगोपाल.के	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28424 20.06.11	डोर नं. एल-91, श्रीनिवास, चौथी क्रोस, दूसरी स्टेज, गंगोत्री लेआउट मैसूर
206853	शशिधर हाडिमनी गिरीमालाप्पा हाडिमनी	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25790 12.03.10	अध्यापक नगर, नरगुंड तालुका गडग
206854	शशिधर तुमबागी बासवाराज	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26525 08.04.10	अमिंगद पत्रालय हुनगुंड तालुका बागलकोट
206855	शशिधर ए प्रभुलिंगम गौडा.ए	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25477 03.03.10	# 8-1-656, संदीप कालोनी, एपीएमसी रोड, देओदुर्गा रायचुर
206856	शशिधरा ए नं. के. कनिवप्पा ए नं.	बी.ए.एम.एस राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27088 16.03.11	# 37, कुसुमा निलाय, सुब्बयाप्लया एम.एस नगर पत्रालय, बंगलौर
206857	शशिकला कुमारी सुरेश एस. हादीमनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24393 05-05-09	घर संख्या-999/8, रायबाग तालुका, बेलगॉव
206858	शशिकला आर विराना गोवड़ा आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24708 03-06-09	मेट्री पोस्ट, हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
206859	शशिकला वी.डी. विजय कलिंगा धनीनामनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26545 12-04-10	प्लॉट संख्या-38, 4 ऊषा कालोनी, बाउराटे रोड, बेलगॉव
206860	शशिकला सी. गुडागेरी सी.जी. गुडागेरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24538 13-05-09	प्लॉट संख्या-28, सैनागर, केलगेरी रोड, धनबाद
206861	शशिकान्त हेनामन्तराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23935 09-04-09	हाउस संख्या-2781/8, थर्ड माइन, भीभी मोहल्ला, मैसूर
206862	शशिकान्त नागनाथ वी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25623 06-03-10	प्लॉट संख्या-45, जीडीए कालोनी, गोकुल नगर, गुलबर्गा
206863	शशिकान्तयुया विरूपाक्षय्या डी. हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26772 11-08-10	हाउस संख्या-4581/एच, प्लॉट संख्या-23, आशीर्वाद बिल्डिंग बासव कालोनी, बेलगॉव
206864	शशिकान्थ हीरेमाथ डोडाबासव्या हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24045 20-04-09	हाउस संख्या 1-12-45/2, डोडी कालोनी, रायचुर

206865	शशिखारा आर. रुद्रय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28122 25-04-11	हाउस संख्या-643, आदर्शनगर, आरीसीनाकुन्टे, नेलमांगला तालुका, बंगलौर रुराल
206866	शशिरेखा बागोदी त्यागराज त्यागराज बी बागोदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26621 27-04-10	हाउस संख्या-08, मानवी.छाल, गाडग तालुका
206867	शशिरेखा एस.डी. बाई. दासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24252 28-04-09	हाउस संख्या-1049, उन्नतीस क्रॉस, एसआईटी एक्संसन, टुमकुर
206868	शायिस्ताबानु लोहार नाजीर अहमद एल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28333 25-05-11	गौरीशंकर नगर, छठा क्रॉस, तीसरा मेन, रानेबेन्नुर, हावेरी
206869	शाजिया अल्मास सुल्ताना अफरोज पाशा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28298 25-05-11	हाउस संख्या-838, चौदह क्रॉस, चन्द्राल्यौत, पहला स्टेज, बंगलौर
206870	शाजिया सैयद सैयद मकबुल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28941 26-04-12	हाउस संख्या-3-428, बी/एच, हीरगान सोसायटी, कुक्कुन्दूर पोस्ट जयंथीनगर, कारकला तालुका उदुपी
206871	शीला दुगनावर सी बी दुगनावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29007 27-04-12	662/सी, शिन्दी कुरबेट गोकक तालुका बेलगाँव
206872	शीला हलासी लक्ष्मण एम. हलासी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27823 08-04-11	मुदालगी ए/पी, गोकक तालुका, बेलगाँव
206873	शीला हट्टी बालचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30488 13-06-13	ग्राम एवं डाकघर बी.एम. हट्टी, मरकन्देया नगर, फाल्लस रोड, गोकक, बेलगाँव
206874	शीला होसाल्लीमाथ शेखाराय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30104 18-04-13	जी.आर.जी. आर्टस एण्ड वाई.ए.पी. कॉमर्स कॉलेज, इन्दी, बीजापुर, बीजापुर
206875	शीलाबाई हाजेरी सीतारामसिंह हाजेरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25247 24-10-09	बिस्तीगल्ली, तालीकोट डाकघर, मुद्देबिहाल तालुका, बीजापुर
206876	शीतल बी अरीकेरा भीमराया एम अरीकेरा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29453 24-05-12	हाउस संख्या-70, एलआईजी केएचबी कालोनी, सुभाष नगर, केशवपुर, हुबली तालुका, धारवाड
206877	शीतल एस टी शिवकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30483 12-06-13	होलसामुद्रा, तालुका औराद (बी), बिदार
206878	शीतल सुभाष रोडड सुभाष ताटोबा रोडड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28439 20-06-11	गांधी चौक, बरगाँव ग्राम एवं एण्ड डाकघर, छिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
206879	शीतल विश्वनाथ तानवाशी माल्लाप्पा	बी.ए.एम.एस. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर 1996	29728 09-08-12	तानवाशी अस्पताल, यारागाट्टी ग्राम एवं डाकघर, सौनदाट्टी तालुका, बेलगाँव
206880	शीतल वी पांडुरंग वी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27161 18-03-11	प्लॉट संख्या-127, एनजीओ एस कालोनी, जवारगी रोड, गुलबर्गा

206881	शीतल एस. खानाजी श्रीमन्त ए नं. खानाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24696 02-06-09	हाउस संख्या-20/बी, लक्ष्मी गल्ली, धामाने (एस), बेलगॉव
206882	शेख अैजाज शेख इक्बाल अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28417 20-06-11	सी/ओ अमुथा एएमसी, चित्रादुर्गा
206883	शेलार तिलोत्तमा किसान शेलार किसान नामदेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24134 22-04-09	विद्यानगर, पाँचवा क्रॉस, बैललहोन्गल तालुका, बेलगॉव
206884	शेनावी. अभिजीत नारायण शेनावी. एन डॉनडीराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27198 19-03-11	एमजी हाउसिंग सोसायटी, धारवाड़ बयपास रोड, बैलहोंगल तालुका, बेलगॉव
206885	शेनडागे प्रतिमा रामचन्द्र आर विथोबा शेनडागे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29273 16-05-12	जारे ग्राम एवं डाकघर, ग्राम एवं पाडी तालुका, सांगल्ली
206886	शेनडागे तुशार शिवाजी शेनडागे एस विठाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24476 11-05-09	बीभीभीएस लड़का होस्टल, बागलकोट
206887	शेनडकार शिल्पा रामदास रामदास बी शेनडकार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	18313 25-05-11	सी/ओ आरजीईएस एएमसी, रॉन, गाडग
206888	शेन्गानी दक्ष जगदीश जगदीश पारबात शेन्गानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29508 26-05-12	आशापुरा ट्रेडर्स बिरोबा नगर, ऑन्ड ग्राम एवं डाकघर कराड तालुका, सतारा
206889	शेशगिरी सांगा एम अनाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24755 04-06-09	वार्ड संख्या-5, कौलपेट, लल्काल डाकघर, हुन्नुन्ड तालुका, बागलकोट
206890	शेटाके दिपाली माधुकार माधुकार ए शेटाके	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28466 04-07-11	गुरुवार पेथ, संगीता मेडीकल्स, नीपानी, चिक्कोडी तालुका, बेलगॉव
206891	शेटे अभिजीत भास्कर भास्कर डी शेटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25251 24-10-09	नजदीक-पुराना पारवार ढाबा, सिनधनोर, मानवी. तालुका, रायचुर
206892	शेटे माधुरा विजयकुमार शेटे विजयकुमार बाबुराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25085 04-08-09	भवानी नीलाय, अक्की कालोनी, आश्रम रोड, बीजापुर
206893	शेटे मायूरी अरुणराव अरुणराव भी शेटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28810 13-04-12	वाकील कालोनी, गंगाखेड दाराभानी
206894	शेटे स्वारूप महालिंग महालिंग महादेव शेटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29220 15-05-12	एसबीआई कालोनी, वैभव स्टेट बैंक कालोनी संख्या सोलापुर
206895	शेटे स्वाति मारुति शेटे मारुति मालहारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29854 05-11-12	बवाडा ग्राम एवं डाकघर, इन्दापुर तालुका, पुणे
206896	शेट्टार सावित्री इरान्ना इरान्ना सी शेट्टार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24921 10-06-09	कालीदास गल्ली, सिन्डागी तालुका, बीजापुर

206897	शेट्टी चैताली वासुदेव वासुदेव भी शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23772 03-04-09	सी/ओ. एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, थानीरहल्ला, बी.एम. रोड, हासान
206898	शेट्टी ममाथा गोपाल गोपाल अप्पान्ना शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29189 14-05-12	प्लॉट संख्या-34, सेक्टर 9, खान्डा कालोनी, नावी. मुम्बई, रालहाड
206899	शेवाले प्रदीप दिलीप शेवाले दिलीप आनंदा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28644 30-11-11	सुजेमालेश्वरा नगर, बेल्लारी रोड, छल्लाकेरे डाकघर एण्ड तालुका, छित्रादुर्गा
206900	शेवथा राय संकप्पा राय. एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25954 17-03-10	संख्या-11-375, पाडील एपीएमसी रोड पुट्टुर तालुका, दक्षिण कन्नड़
206901	शिङ्गानागौंडा भिशतानागौंडा काराबासाबागौंडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29272 16-05-12	बेहिन्द गवर्नमेंट हाई स्कूल, काबूर ग्राम एवं डाकघर हावेरी तालुका
206902	शिफा बी. अब्दुल कासीम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26182 22-03-10	काशीबेट्टूर, लैला डाकघर, बेल्लानगाडी तालुका, दक्षिण कन्नड़
206903	शिफा परवी.न दावूद साहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24957 10-06-09	हाउस संख्या-1-113, ब्रहमावर, उडुपी
206904	शिकालगर अफसाना गौसमोहिद्दीन गौसमोहिद्दीन एस शिकालगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30172 25-04-13	ए/पी दूधगॉव, तालुका-मिराज, सांगल्ली, दूधगॉव
206905	शिख अस्याक अहमद इसरार इसरार अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29683 29-06-12	विपरित-वाडागा पुलिस स्टेशन, रामामातावाडी डाकघर, वाडाला (ई) तालुका, मुम्बई,
206906	शिकोत्रा जयेशकुमार प्रवी.णभाई एम. शिकोत्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	28120 25-04-11	हाउस संख्या-102, भारद्वाज, एसबीएम कालोनी, हसन तालुका
206907	शिक्षा ठाकुर एम.एस. ठाकुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27927 12-04-11	21 एसटी केएम, कनाकपुरा रोड उदयपुर, बंगलौर
206908	शिलापाश्री के.एच. कालाप्या आर. हांगारागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28895 20-04-12	संख्या-4-174/175, डाकघर एवं तालुका, यादगिरी
206909	शिलावन्त इन्दी तिप्पान्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24466 11-05-09	ज्ञानबोदी, नजदीक जेनरल गोस्टल, बीजापुर
206910	शिल्पा शारानप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28754 02-04-12	हाउस संख्या-8321, प्रियंका नीलाया, सर्वोदय कालोनी बासवाकल्यान तालुका, बिदार
206911	शिल्पा रुद्रप्पा जालीहाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29257 16-05-12	आदर्श क्लीनिक, सुभाष चौक, ब्रह्मपुर गुलबर्गा
206912	शिल्पा विश्वनाथ हेगने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30442 01-06-13	प्लॉट संख्या-9 एवं 10, संगमेश्वर नीलाया, आर.टी. नगर, गुलबर्गा

206913	शिल्पा पोवाप्पा बन्जान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30446 03-06-13	कांछिनागोली हाउस, बाडागुलीपाडी गाँव, तालुका मंगलौर, दक्षिण कन्नड़
206914	शिल्पा पान्दुरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30555 16-07-13	हाउस संख्या एवं प्लॉट संख्या-54, अम्बानीवास, भाग्यवान्थी नगर, नया जेवारगी रोड, गुलबर्गा
206915	शिल्पा गुन्दरया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23703 01-04-09	हाउस संख्या-9-587/94 (ए)/104, जे.आर. नगर नजदीक खाद्री चौक, अलान्द रोड, गुलबर्गा
206916	शिल्पा श्रीनिवास हान्चटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26039 19-03-10	हाउस संख्या-1-8-27/3, महावीर रोड, यादगीर तालुका
206917	शिल्पा मनोहर राव पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27127 17-03-11	हुलसुर ए/पी, बासवा कल्याण तालुका, बिदार
206918	शिल्पा धान्दीराम शेवाले मनोज हरिदास शिटोले	बी.ए.एम.एस. महाराष्ट्र अरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2006	28455 27-06-11	हाउस संख्या-एस-003, दूसरा क्रॉस, शिवाशंकर पेअर्लस, उदयनगर, बंगलौर
206919	शिल्पा धावाल्मीमाथ अमरेश जी धावालगीनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28766 05-04-12	हाउस संख्या-61, बागलकोटकार लायौत, आश्रम रोड, बीजापुर
206920	शिल्पा गान्डी एमएस गान्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29079 05-05-12	दीपा बिल्डिंग विकास नगर, कोप्पाल
206921	शिल्पा एच एच एच आर होन्नेशैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30578 24-07-13	हाउस संख्या-6, श्री होन्नेशवरा नीलाया, देवाप्पा कोकोनुट गार्डन रोड, नागशेथी हाली, बंगलौर
206922	शिल्पा हल्ली शंकरप्पा सी. हल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24224 28-04-09	शहाकर नीलाया, नरसापुर एकशंसन, बेटागेरी डाकघर, गाडग तालुका
206923	शिल्पा हरिगेर पायाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25714 12-03-10	हुल्लोली डाकघर, हुक्केरी तालुका, बेलगाँव
206924	शिल्पा हीरेमाथ शनमुखाय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27711 06-04-11	संख्या-18, अध्यापक नगर, सुब जैल, हुबली
206925	शिल्पा हीरेमाथ परमेश्वराया हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29946 28-03-13	648/बी, पुरानीकमाथ छाल, बैलहोंगल तालुका, बैलहोंगल
206926	शिल्पा हुलीकाट्टी गुरुबासप्पा होलीकाट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24004 18-04-09	एफएस 12/310, हाई स्कूल रोड, हावेरी तालुका
206927	शिल्पा हुक्केरी श्रीशैल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28451 20-06-11	विवेकानन्द नगर, दूसरा क्रॉस, पीलर संख्या-20, गोकक
206928	शिल्पा हुल्लाली शेकरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27362 24-03-11	पवनश्री (एच), एस.आर. कालोनी, जालानगर, बीजापुर

206929	शिल्पा जे कारावी.रामाथ जगदीश्वरय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28864 18-04-12	हाउस संख्या-44, दुर्गा रोड, रामनगर, हगारी बोम्मनाहल्ली, बेल्लारी
206930	शिल्पा जोशी राघवेन्द्रचर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25097 17-08-09	स्वामी प्रभा, इन्द्रकिला नगर, कोप्पाल तालुका
206931	शिल्पा के सदाशिव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30472 10-06-13	शिवरक्षा, कुदुपु डाकघर, मंगलौर
206932	शिल्पा केएस शरनप्पा काट्टी मनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29149 11-05-12	नजदीक-कालम्मा मंदिर, केबाङ्गेरा, शोरापुर डाकघर एवं तालुका, यादगिरी
206933	शिल्पा काराडी थिम्मारेड्डी कराडी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28211 04-05-11	संख्या-55, डोमबारहाली, बिसराहाली, कोपा तालुका
206934	शिल्पा काटगी आनंदनप्पा कोटागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28716 30-03-12	तुराविहाल, सिनधानुर, रायचुर
206935	शिल्पा एम मधु एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30254 03-05-13	शिल्पा निलाया, नजदीक मुनेश्वर मंदिर, गोरागुन्टे पाल्या, बंगलौर
206936	शिल्पा माहदेवापा बाछालापुर महादेवापा बाछालापुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23877 09-04-09	हाउस संख्या-9-5-450/47, किन्नाल रोड, कोप्पल तालुका
206937	शिल्पा नन्देन्नावर विरप्पा एन नान्देन्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29197 14-05-12	हाउस संख्या-25/एफ/2, वासवानगर चौथा क्रॉस बैलहोन्गल ग्राम एवं एण्ड डाकघर, बेलगॉव
206938	शिल्पा निम्बाल जयप्रकाश निम्बाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28383 09/06/11	हाउस संख्या-10, जालानगर, बासवाना बागवाडी रोड, बीजापुर
206939	शिल्पा पाठक श्रीकान्त पाठक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25731 12-03-10	हाउस संख्या-51, गणेश नगर, कुम्बरबाडा क्रॉस मानहल्ली रोड बिडार (के.एस.), बिडार
206940	शिल्पा पाटिल बाबुराव बासवन्तराव पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27479 26-03-11	शिक्षक कालोनी, हाउस संख्या-58, नजदीक आश्रम, बीएलडीई रोड, बीजापुर
206941	शिल्पा पाटिल कल्याण राव एन पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29528 28-05-12	हाउस संख्या-710/बी, अंजनियाँ देवारहीप्पारला ग्राम एवं डाकघर, सिन्डगी तालुका, बीजापुर
206942	शिल्पा पाट्टनाशेट्टी शंकरप्पा पट्टनाशेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23868 09-04-09	पहला मेन, पाँचवा क्रॉस, जयनगर, गंगावाथी तालुका, कोप्पल
206943	शिल्पा आर. रामचन्द्रप्पा एच.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28360 30-05-11	किरण निलाया, वेडावाथी नगर, हिरियुर तालुका, चित्रादुर्गा
206944	शिल्पा रान्देव खान्डोबा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25417 25-02-10	बेलूर डाकघर, बादामी तालुका, बागलकोट

206945	शिल्पा सान्नाशेट्टार लिंगराज सान्नाशेट्टार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27480 26-03-11	हाउस संख्या-6/5/458, जवाहर रोड टेम्गीनाकेरी स्ट्रीट, कोप्पल
206946	शिल्पा सौनशिमाथ बी.सी. सौनशिमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30074 17-04-13	एफ-2, लक्ष्मी काम्पलेक्स, नीलीगिन रोड, हुबली
206947	शिल्पा शिलावन्त्रा महादेवाप्पा शिलावन्त्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30070 16-04-13	ग्राम एवं डाकघर-सुराशेट्टीकोप्पा, तालुका-कालागातागी, धारवाड़, सुरशेट्टीकोप्पा हुबली
206948	शिल्पा टी पाटिल टिप्पानागौडा बी पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28731 02-04-12	तालिकाटी, बीजापुर
206949	शिल्पा याडाची परमेश्वरप्पा पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26966 11-11-10	फोरेस्टर रांगे, ऑफिस, जौडा ग्राम एवं डाकघर एवं तालुका, उत्तर कन्नड़
206950	शिल्पा ए बासवाराजप्पा ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24250 28-04-09	हालुवागालू डाकघर, हरापानहल्ली तालुका, डावनगेरे
206951	शिल्पा ए अनील कुमार एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25937 17-03-10	हाउस संख्या-1-204/3, चौथा क्रॉस, रंगानाथ नगर, श्रीरंगपटना, मानड्या
206952	शिल्पा बी. वी. वेनकाटचालापथे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27387 25-03-11	हाउस संख्या-378, दूसरा बी क्रॉस, चौथा मेन रोड, नागरभाभी, बंगलौर
206953	शिल्पा एल.एस लोकेशप्पा एच.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27401 25-03-11	रथना निवास, के.के. हासूर, कुडलीगिगेरे, भद्रावथी, शिमोगा
206954	शिल्पा एम महेश एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24970 11-06-09	हाउस संख्या-सी.वी. रोड, तीसरा क्रॉस, बन्नीमान्ताप एक्सटेन बन्नीमानताप, मैसूर
206955	शिल्पा एन नारायण काम्पली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2007	25272 04-11-09	हाउस संख्या-4-71/7, शांति नगर, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़
206956	शिल्पा ए नं. बी. बालाकृष्णा भट्ट एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24001 18-04-09	शिपा फार्मस, मुजूरकाट्टा, सुन्काडाकाट्टे डाकघर पुदुदुर तालुका, दाक्षी कन्नड़
206957	शिल्पा एस.ए नं. नान्जुन्डे गोवडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23927 09-04-09	हाउस संख्या-628, सोलह ए क्रॉस, कुवेम्पु नगर, हास्सान
206958	शिल्पा वी विष्णुमुरथे हेब्बार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24595 18-05-09	हाउस संख्या-2894, लक्ष्मीपुर, अरासिकेरे तालुका, हास्सान
206959	शिल्पा के. जामबानूर के एम. जामबानूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26195 22-03-10	हाउस संख्या-9-7-680/898, तीसरा क्रॉस दूसरा वार्ड संख्या-27 बी.टी. पाटिल नगर, कोप्पाल तालुका
206960	शिल्पा एम. पाटिल मनोहर पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25344 29-12-09	हाउस संख्या-147, पहला मेन, पाँचवा क्रॉस, नारायणपुर, धरवाड़

206961	शिल्पादेवी. वास्तराव इराय्या डी वास्तराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29194 14-05-12	विनायक नगर, एकसेसन क्षेत्र, बागलकोट
206962	शिल्पाश्री के पलावशी रेड्डी के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23881 09-04-09	लक्ष्मी निवार, सातवां क्रॉस, कप्पागाल रोड, बेल्लारी
206963	शिन्दे अजीत अशोक शिन्दे अशोक दन्यानु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24841 06-06-09	हाउस संख्या-1515, शाहुनगर, बेदकीहाल डाकघर चिकोडी तालुका, बेलगाँव
206964	शिन्दे अमर अशोक अशोक के शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24153 22-04-09	कनिका परमेश्वरी निलाया निवास, रॉन तालुका, गाडग
206965	शिन्दे दिग्विजय शंकराव शिन्दे एस हिन्दूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23850 06-04-09	हाउस संख्या-07, ईएल-बेथेल बून्गलॉ, राम नगर, निपानी, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
206966	शिन्दे जगदीश अनील अनील सीद्दराम शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30475 11-06-13	ग्राम एवं डाकघर येओटी, तालुका-तुल्जापुर, ओसमानाबाद
206967	शिन्दे महेश मारुति शिन्दे मारुति कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24317 29-04-09	सातवां क्रॉस, चालुक्या नगर, बादामी तालुका, बागलकोट
206968	शिन्दे मिनाक्षी भगवान शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30053 16-04-13	भईया साहेब अम्बेडकर नगर, धमंकर नाका, थाने, भिवन्डी
206969	शिन्दे सागर जगननाथ शिन्दे जगननाथ गुन्डा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30101 18-04-13	ग्राम एवं डाकघर मोरले, तालुका-खातव, सतारा, मोराले
206970	शिन्दे साई संजीव संजीव एम शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24787 04-06-09	हाउस संख्या-7, ईएल बेथेल, रामनगर निपानी डाकघर चिकोडी तालुका, बेलगाँव
206971	शिन्दे संतोष दत्ताराय दत्ताराय आर शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23705 01-04-09	हाउस संख्या 1920/28, यादनवाडी, मलिकवाड चिकोडी तालुका, बेलगाँव
206972	शिन्दे सरिका अशोक एस. अशोक रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24106 22-04-09	प्लॉट संख्या-7, ईएल बेथेल बुन्गलो, राम नगर, निपानी, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
206973	शिन्दे सविता अबासाहेब अबासाहेब आर शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30176 25-04-13	नया बजारताल, फत्तेसिंह नगर, अक्लुज, तालुका-मालशिरास, सोलापुर, अक्लुज
206974	शिन्दे सुहास पोपटराव पोपटराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23851 06-04-09	2199, पोगनीसबोल, नजदीक मराठी स्कूल, हाउस सं.-2, महादेव गल्ली, निपानी चिकोडी तालुका बेलगाँव
206975	शिन्दे सुमित सुधाकर एस सुधाकर हिन्दूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23800 04-04-09	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ब्यायज होस्पेट, चल्लाकरे तालुका, चित्रादुर्गा
206976	शिन्दे सुनील सरजेराव शिन्दे सरजेराव लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23838 06-04-09	हाउस संख्या-2, विश्वतेज निलाय, इन्द्रकील नगर, गाडग रोड, कोप्पल



206977	शिन्दे स्वपनील हरिदास शिन्दे एच भगवान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24658 22-05-09	हाउस संख्या-10-2-310-13/ए, सिंडीकेट बैंक कालोनी, मानवी. तालुका, रायचुर
206978	शिन्देपाटिल श्यामराव गंगाधर बहाव साहेब शिन्देपाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24013 18-04-09	एफ एस 12/310, हाई स्कूल रोड, हावेरी
206979	शिपाते मन्दार सुरेश सुरेश गोविन्द शिपाते	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25556 05-03-10	जवाले डाकघर, गजेन्द्रगाद, रॉन तालुका, गाडग
206980	शिरागान्ची. अनील भिमाम्पा शिरागान्ची.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25195 08-10-09	हाल-शिरागुर, शिरागुर डाकघर, रायबाग तालुका, बेलगॉव
206981	शिराज नन्दी हल्ली राजेसाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29179 15-05-12	चिक्कालीनादाहल्ली ग्राम एवं एवं डाकघर-हावेरी तालुका
206982	श्रीराम वी. दिक्षित वी.एल. दिक्षित	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25111 07-09-09	फॉर्ट मासूर डाकघर, हीरेकेरुर तालुका, हावेरी
206983	श्रीरासैयद विद्या विश्वनाथ श्रीरासैयद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30042 16-04-13	प्लॉट संख्या-40, सहस्त्रार्जन नगर, जुले सोलापुर, सोलापुर
206984	शिरावाले सुनिता प्रभाकर शिरावाले पी सम्भाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26514 08-04-10	पादमनगर, तेरदाल, जामखान्दी तालुका, बागलकोट
206985	शिरिन बानू जमादार महिबूबसाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30161 24-04-13	काले प्लॉट, बीजापुर, इन्दी
206986	शिरिन सुल्ताना मोहम्मद मोइनुद्दीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27767 07-04-11	हाउस संख्या-2-3-244, राजा बाग, सामने-कर्नाटका कामर्स कॉलेज, बिदार
206987	शिरोदकर सुचेता सुभाष सुभाष एस शिरोदकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27671 02-04-11	सी/ओ के.आर. हेब्बार मुनीयाल संस्थान एवं आयुर्वेद मेडिकल साइन्सेस, मनीपाल
206988	शिरोले विनयकुमार रावासाहेब शिरोले आर भाउसाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24914 09-06-09	हाउस संख्या-1515, शाहुनगर, बेदकीहाल, चिकोडी तालुका, बेलगॉव
206989	शिरोलकर रोहित नामदेव शामराव शिरोलकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30085 18-04-13	ए/पी निगावे दुमाला, ताल-कारवीर, कोल्हापुर
206990	शिरशाद पराशराम शिरसाद एस गुरनीनगम्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28968 26-04-12	ग्राम एवं एवं डाकघर, इन्दी तालुका, बीजापुर
206991	शिरूर सचिन गुरलिंग शिरूर गुरलिंग शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23704 01-04-09	धुपदाल रोड, घाटप्रभा, गोकक तालुका, बेलगॉव
206992	शिरवाले प्रशांत शंकर शंकर कशिरावाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25307 03-07-09	हाउस संख्या प्लॉट संख्या-1793, सेक्टर संख्या-10 अंजनिया नगर, एम.एम. एक्ससेसन, बेलगॉव

206993	शीतल. वी. जिंगादे वसंतराव जिंगादे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25459 02-03-10	अंजनिया एक्सॅसन, हाउस संख्या-1828/ए28, सामने एलआईसी कॉलोनी, दावंगेरे
206994	शितोले प्रियादर्शीनी दिलीप दिलीप बी शितोले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24913 09-06-09	संकपाल, सामनेवाडी, शांतिनगर, चिकोडी तालुका बेलगाँव
206995	शिउदकर रंजीत शामराव शिवदकर एस दत्तातरया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24138 22-04-09	टोटाड गल्ली, बैलहोन्गल तालुका, बेलगाँव
206996	शिव कुमार बासवाराज स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27723 06-04-11	इ/01, दर्शनापुर ग्राम एवं, लिक्कीनाल डाकघर शाहपुर तालुका, गुलबर्गा
206997	शिव प्रसाद जागदेवप्पा एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28447 20-06-11	मानु क्रूपा घर, नजदीक आरएसएसबीएन, मास्की, लिन्गासगुर तालुका, रायचुर
206998	शिवाचित्रालीनगप्पा जी.ए. नं. गोन्धी नीनगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26810 19-08-10	हाउस संख्या-1, दोदाबादी हाली, ओबलापुर, चाल्लाकरे, चित्रदुर्गा
206999	शिवाजी विठल राव दादगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25738 12-03-10	हाउस संख्या-8079, शिवाजीनगर कालोनी, बासवा कल्याण तालुका, बिदार
207000	शिवाजी गोपालराव कोरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27247 22-03-11	सौभाग्य बिल्डिंग, थारीसान्द्र मेन रोड थानीसान्द्र, बंगलौर पश्चिम
207001	शिवक्का उप्पार याल्लाप्पा टी उप्पार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29769 29-09-12	नजदीक बासवान्ना मंदिर रोड पुरादोनी, हावेरत तालुका
207002	शिवकुमार गुरुशन्तप्पा कुम्बार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24768 04-06-09	टीएमसी रोड, कालघातगी डाकघर एवं तालुका, धरवाड
207003	शिव कुमार सन्गान्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27134 17-03-11	मकान संख्या-1795 बासवेश्वर नगर, तीसरा क्रास, हरीबेरुर तालुका, हावेरी
207004	शिवकुमार लक्ष्मणराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28638 21-11-11	टोगलूर ग्राम एवं एवं डाकघर, बासवा कल्याण तालुका, बिदार
207005	शिव कुमार बुद्धिहाल नीनगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30177 25-04-13	पाँचवां क्रास, विद्यानगर, बैलहोन्गल तालुका, बेलगाँव, बैलहोन्गल
207006	शिवकुमार चाचादी चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24182 24-04-09	बाजार रोड, उगारगोल डाकघर, सौन्दाट्टी तालुका, बेलगाँव
207007	शिवकुमार गनीगेर पुन्डलीक गनीगेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29833 30-10-12	मकान संख्या-04, गानीगेर ओनी केन्गानुर ग्राम एवं एवं डाकघर बैलहोन्गल-तालुका, बेलगाँव
207008	शिवकुमार पाटिल शंकर गोवडा आर. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28579 19-10-11	विनायक नगर, पहला मेन, दूसरा क्रॉस रानेबेन्नूर तालुका, हावेरी

207009	शिवकुमार यारागल शिवपुत्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30164 25-04-13	प्लॉट संख्या-41, गुरुपादेश्वरा नगर, बी.बी. रोड, बीजापुर
207010	शिवकुमार बी.ए. नं. कै. नागराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26829 25-08-10	सागरपेटे, बासवापट्टना, चन्नागिरि तालुका, दावनगेरे
207011	शिवकुमारस्वामी पी पराशिवैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29822 18-10-12	मकान संख्या-37, कुम्बरा बिदी, दोब्बसपेट ग्राम एवं डाकघर, नेलामनगाला तालुका, बंगलौर रुशल
207012	शिवलीला अम्बाराया बी. रेवूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27913 12-04-11	मकान संख्या-2-909/15/47, ओम नगर, सेदाम रोड, गुलबर्गा
207013	शिवलीला माल्लाप्पानवर पुट्टपपा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23880 09-04-09	केलकर चाल, नजदीक ए.सी. कार्यालय, नजदीक रेलवे स्टेशन, हावेरी
207014	शिवनागौंड पाटिल माल्लागौंड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27135 17-03-11	मकान संख्या-236 ए, नजदीक देवी. मंदिर, रजनादे, तालीकोटी मुद्देबिहाल, बीजापुर
207015	शिवनागौंड एस. हचादद एस.ए. हचादद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24706 03-06-09	कुदारी सालवदागी डाकघर, बसावन बागेवाडी तालुका, बीजापुर
207016	शिवानन्द बिरादर विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29731 16-08-12	तेग्गीहाल्लुई ग्राम एवं डाकघर, इन्दी तालुका, बीजापुर
207017	शिवानन्द कालसान्नवर बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26031 19-03-10	मकान संख्या-257, केलागिना ओनी, कदारवल्ली डाकघर, बैलहोंगल तालुका, बेलगोंव
207018	शिवानन्द पाटिल सोमालिंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30384 22-05-13	ग्राम एवं पोस्ट कारागुप्पी, तालुका-हुक्केरी, बेलगोंव
207019	शिवानन्द पुजेर अशोक एस. पुजेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27872 11-04-11	कौजालगी ए/पी, गोकक तालुका, बेलगोंव
207020	शिवानन्द सज्जन सानगन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26896 17-09-10	मकान संख्या-1547, कुरुबारा ओनी, शानीव्वर पेथ कालागोंव बनाहट्टी डाकघर जमखान्डी तालुका, बागलकोट
207021	शिवानन्द सी.ए. नं. सी. नीजगुनीअप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24381 05-05-09	पदमा कुटीर, प्लॉट संख्या-4, कुवेम्पू नगर, गुलबर्गा
207022	शिवंकर विष्णुकान्त संतोष संतोष आर शिवंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29879 14-12-12	ग्राम एवं डाकघर-ब्रह्मगोंव, तालुका-उमरखेद, यवालमल
207023	शिवप्पा मल्लाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29112 07-05-12	यागापुर ग्राम एवं एवं डाकघर, चिट्टापूर तालुका, गुलबर्गा
207024	शिवप्पा बिरादर रुद्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26487 05-04-10	बिरादर, भान्तानुर, सिदागी, बीजापुर

207025	शिवप्पा गंगाल अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26864 03-09-10	तीसरा क्रॉस, टीप्पुनगर, बादामी तालुका, बागलकोट
207026	शिवप्रसाद आर रुद्रप्पा बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26032 19-03-10	मकान संख्या-141/1, विद्यानगर, होसादुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
207027	शिवप्रसाद एस.इ. इरामदैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28653 14-12-11	सिंगेकोटे गाँव, शिवनाहल्ली डाकघर, कनकपुरा तालुका, रामनगर
207028	शिवराज मल्लाय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28610 05-11-11	हालपुर डाकघर, मानवी. तालुका, रायचुर
207029	शिवराज शरणप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28287 17-05-11	बिन्जालभावी. ग्राम एवं एवं डाकघर, सिन्दागी तालुका, बीजापुर
207030	शिवराज कुमार अशोक रामपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30424 28-05-13	दरवाजा संख्या-1/159/6, नजदीक अम्बेडकर सक्कल, भाग्यनगर, कोप्पा
207031	शिवराम एन वी. नारायणस्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25595 06-03-10	अन्थरागन्गे रोड, कीलूकोटे, कोलार
207032	शिवरंजनी काम्बी चान्नय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29516 26-05-12	मकान संख्या-93, चान्नय्या क्रूपा, के.सी. पाक्र, दूसरा मेन, चौथा क्रॉस, सान्माथी नगर धारवाड
207033	शिवशंकर पाटिल आनंद राव आनंदराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28889 20-04-12	प्लॉट संख्या-7 गोकक रोड, कनबरागी बेलगाँव
207034	शिवशरणप्पा इरान्ना भागोदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29088 05-05-12	अल्लोली, ग्राम एवं कलाकबा डाकघर, वी.जापुर रोड, सोलापुर
207035	शिवशरणरेड्डी वी.रुद्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23693 01-04-09	मकान संख्या-7-451, मीजगुरी रोड वककालगेरा, गुलबर्गा
207036	शिवकुमार विश्वकर्मा राजनाथ विश्वकर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28449 20-06-11	मकान संख्या-19/2, दूसरा मेन, पाँचवा क्रॉस, विजयनगर, बंगलौर
207037	शोभा बासवानप्पा बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26869 07-09-10	मकान संख्या-9-10-187, गणेश नगर, बिदर
207038	शोभा महेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29039 05-05-12	पुट्टुर बोन सेट्टर्स, गान्डू राव सक्कल, उप्पेरहुट्टा, भद्रावती शिमोगा
207039	शोभा माथुर जगदीश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29959 09-04-13	ग्राम एवं. डाकघर-मेनहाली तालुका/कोप्पल, मेनहाली
207040	शोभा सन्नाबीलगी चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27591 30-03-11	मकान संख्या-3, पन्द्रह क्रॉस, लक्ष्मी सागर लायौत महादेवपुर डाकघर, बंगलौर

207041	शोभा सी.एम. सी.एम. मन्जुनाथ शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23769 03-04-09	द्वारा एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, थान्नीरहल्ला, बी.एम. रोड, हास्सन
207042	शोबीथा माधुर कृष्णा एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30134 22-04-13	डाकघर-कादेश्वल्या, बान्तवाला तालुका, दक्षिण कन्नड़, पुट्टूर
207043	शोभा वी. नायक विनोद कुमार नायक पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25806 12-03-10	मकान संख्या-11-2-74इ, प्रगति नगर, उदुपी
207044	श्रद्धा अनंथ एस ए एस. अनंथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30493 13-06-13	भी भी-13, राजश्री सीमेंट वर्क्स, आदित्य नगर, मालखेद
207045	श्रवणकुमार यातनाल मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28906 26-04-12	सुत्तात्ती ग्राम एवं एवं डाकघर, अथानी, तालुका बेलगाँव
207046	श्री विद्या पी पान्दुरंग बी.आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24245 28-04-09	मकान संख्या-13/11, छठा क्रॉस, मरियप्पाना पाल्या, बंगलौर
207047	श्री बी. मुधोल बाबूराव बी. मुधोल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24395 05-05-09	मकान संख्या-1387/438, विक्रमपुर कालोनी अथानी तालुका, बेलगाँव
207048	श्रीदेवी. हलरेमाथ सन्गाय्या सी. हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24184 24-04-09	मकान संख्या-7357/438, सेक्टर 100, अंजन्या नगर, बेलगाँव
207049	श्रीदेवी. सिद्दान्ना सिद्दान्ना गो भन्दोरगटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23727 02-04-09	सी/ओ. काशीनात डान्डू बिल्डिंग, सामने डाकघर, बी.बी. रोड शाहपुर तालुका, गुलबर्गा
207050	श्रीधर सिद्दाराम सादलापुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29993 08/04/13	ग्राम एवं डाकघर सरासम्बा, तालुका-अलान्द, गुलबर्गा
207051	श्रीधर बी.टी. थोम्मरयप्पा डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26725 18/06/10	मकान संख्या-522, नजदीक गानापाथे मंदिर, ग्राम एवं एवं डाकघर, तुरुवेकेरे तालुका, तुम्कुर
207052	श्रीहरि कुलकर्णी चीदाम्बेर आर कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29861 08-11-12	मकान संख्या-337/1, 45 वार्ड, पटेल नगर हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
207053	श्रीनिवास काम्बले केम्पन्ना अर्जुन काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26773 11-08-10	मकान संख्या-798, अम्बेडकर नगर, केरूर, चिक्कोडी तालुका, बेलगाँव
207054	श्रीशा के कृष्णा मान्जा भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27366 24-03-11	मकान संख्या-928, नौवां मेन, चौथा क्रॉस, चौथा स्टेज, टी.के. लायोत, मैसूर
207055	श्रेयस भारद्वाज रामचन्द्र केदिला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25950 17-03-10	काम्भा फार्म डाकघर, बलिला, सुल्लिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
207056	श्रेयस यू.के. उदय कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25781 12-03-10	मकान संख्या-1-55ई, सुरभि, गोपादी, कोटेश्वर, कून्दपुर तालुका, उदुपी

207057	श्रीदेवी. चावन गंगाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26532 12-04-10	बेहिन्द अंजुमान हाई स्कूल, इन्दी तालुका, बीजापुर
207058	श्रीदेवी. गोठे शिवाबासप्पा टी गोठे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28860 18-04-12	मकान संख्या-153, मामते निलाया जमाखन्दी तालुका, बागलकोट
207059	श्रीदेवी. ज्योति सिद्दान्ना एस. ज्योति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24714 03-06-09	मकान संख्या-12, महात्मा गांधी रोड, बीजापुर
207060	श्रीदेवी. नेमागोंड रामचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25161 01-10-09	शिवानगंगा निवास, मकान संख्या-84, चौथा क्रॉस, भाग्यनगर, बेलगोंव
207061	श्रीदेवी. पाटिल बसानगोंदा डी पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26279 23-03-10	बस्सापुर, अरालिकाट्टी डाकघर, बेलागवी. ताल्लुक
207062	श्रीदेवी. रेड्डी मल्लाप्पा एस. रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27677 05-04-11	खेदागी ए/पी, इन्दी तालुका, बीजापुर
207063	श्रीदेवी. एस सुब्बान्ना वैलाया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29184 14-05-12	मुदुवानहाली , रोड केआर नगर, मैसूर
207064	श्रीदेवी. सुतार बाबूराव बी सुतार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30002 09-04-13	मालापुर अंतिम बस स्टॉप राज नगर दूसरा क्रॉस, गुलान्जीकोप्पा, धारवाड
207065	श्रीदेवी. पी बी. श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26626 27-04-10	वेकटेश्वर क्लीनिक, मेन रोड, हुविना हादगल्ली, बेल्लारी
207066	श्रीधर सावादत्ती श्रीवानप्पा एस. सावादत्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26024 19-03-10	मकान संख्या-705बी63, नन्देम्मा नगर, बैलहोंगल तालुका, बेलगोंव
207067	श्रीधर शेखरप्पा लक्कुन्दी शेखरप्पा जी. लक्कुन्दी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24673 23-05-09	टाइप तीसरा, मकान संख्या-9, केपीसी कालोनी, शक्तिनगर, रायचुर
207068	श्रीधर वाद्दार बासाप्पा वाद्दार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26931 06-10-10	नजदीक आश्रम स्कूल, बीजापुर रोड, इन्दी तालुका, बीजापुर
207069	श्रीधर के योगिशप्पा के.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24114 22-04-09	कादुरहाली डाकघर, कादूर तालुका, चिकमंगलौर
207070	श्रीकान्ध अर्जून राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25442 02-03-10	नजदीक कल्याण मन्ताप, बासावाकल्याण डाकघर एवं तालुका, बिदार
207071	श्रीलक्ष्मी के.सी. के.एस. चन्द्रप्पा नायडु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26169 22-03-10	मकान संख्या-135, पहला ए क्रॉस, दूसरा मेन, एलजीआर लायौत, लाग्गेरी, बंगलौर
207072	श्रीलक्ष्मी के.एस. सत्यनाराण के.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25984 18-03-10	लान्द लोर्ड लक्या रोड, कालासापुर, चिकमंगलौर

207073	श्रीमान्त चावन गंगाराम जी. चावन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24722 03-06-09	के पीछे अन्जुमान हाई स्कूल, इन्दि तालुका, बीजापुर
207074	श्रीमन्थ रेड्डी सुभाष रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28065 19-04-11	कान्कात्ता ग्राम एवं एवं डाकघर, हुम्नाबाद तालुका, बिदार
207075	श्रीनिवास हॉन्वादकर बिहारी धोन्वादकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25410 25-02-10	मकान संख्या-236/डी, कोकातनुर डाकघर, अथानी तालुका, बेलगाँव
207076	श्रीनिवास राठौड़ धर्मसिंह पी राठौड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28998 27-04-12	प्लॉट संख्या-50, के सी नगर नजदीक नया डीसीसी बैंक, बीजापुर
207077	श्रीपद कुलकर्णी दत्तात्रेया एम. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28491 26-07-11	नन्दीहाल (पी.यू.), बासवान बागेवाड़ी तालुका, बीजापुर
207078	श्रीशैल हल्ली चान्नाप्पा हल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25935 17-03-10	तादावलागा इन्दि तालुका, बीजापुर
207079	श्रीशैल एस पूजेरी सात्तेप्पा ए पूजेरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30427 29-05-13	मकान संख्या-338, बादीगेर ओनी, अराभावी., तालुका गोकक, बेलगाँव
207080	श्रीशील अमरेश अमरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25021 29-06-09	हुदको एलआइजी-35, केएचबी कालोनी, (जे.पी.नगर), बीदर
207081	श्रीशमा बी एस. बालाकृष्णा शेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24596 18-05-09	लक्षा-सादन, हिलवाना गाँव, बेलवी. हुइलवाना डाकघर, उदुपी तालुका
207082	श्रीविद्या टी आर टी पी रामचन्द्र भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30564 17-07-13	श्रीनिकेत्यनाम, पवान्जे, हालेयान्गाडी डाकघर, मंगलौर, दक्षिण कान्नादा
207083	श्रुति गलाबी हनामन्त भी गलाबी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25689 12-03-10	गोविन्दपुर गल्ली, शिवाजी सक्कल, मुधोल, बागलकोट
207084	श्रुथान के महाभाला शेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29808 12-10-12	भ्रामाराम्बा निलाया कोल्या गुट्टू मकान विहार, बान्तवाला तालुका
207085	श्रुथि जयारमा राव के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27721 06-04-11	मकान संख्या-4/9 (4), हनुमान गारगे रोड 76 बादागुबेट्टू चितपाडे, उदुपी
207086	श्रुथि सी.एस शिवशंकर भट्ट सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30023 10-04-13	चिमुल्लू मकान, बेल्लारे डाकघर, सुल्लिया तालुका, बेल्लारे, डी.के.
207087	श्रुथि हेगड़े प्रभाकर हेगड़े	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27907 11-04-11	श्री रक्षा बिल्डिंग, दान्देली डाकघर, हालियाल तालुका, यू.के.
207088	श्रुथि जे जगन्नाथ एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30207 29-07-13	कुसुमा निलाया, मारुथि सक्कल, चन्नागिरि तालुका, दावनगेरे चन्नागिरि

207089	श्रुथि जे जयराम एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28863 18-04-12	मकान संख्या-521, हुन्सूर मेन रोड हुतागल्ली, बेलवाड़ी डाकघर, मैसूर
207090	श्रुथि काला बी. बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27862 11-04-11	मकान संख्या-78, एम. बसवानपुर, ए नं. एम. हाली, मलावाल्ली मान्दया
207091	श्रुथि एम. प्रभू मुकुन्द प्रभू ब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25112 09-09-09	श्री वेन्कटेश के पीछे गवर्नमेंट अस्पताल, मुन्सीपाल रोड कुन्दापुर तालुका उदुपी
207092	श्रुथि एस सामान्ना एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30262 04-05-13	40 फीट मेन रोड छटा (ए) क्रॉस, मारुथि नगर, तुम्कुर तालुका
207093	श्रुथि शेकर ए नं. चन्द्र शेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26581 19-04-10	मकान संख्या-455/1, डी. सुभैह रोड, लक्ष्मीपुरम मैसूर
207094	श्रुथि वी एम भीभी मुदलुगिरि	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29216 14-05-12	बी-16ए, श्री बालाजी, बनावरा रोड, सोमवारपेत एवं डाकघर, तालुका, कोदागु
207095	श्रुथि यशवथ राय यशवाथ कुमार राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24268 28-04-09	मकान संख्या-3-एच-31-2655/28, करान्गलपाडे, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207096	श्रुथि युवराज युवराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28125 25-04-11	मकान संख्या-378, पहला क्रॉस, बुद्धा मार्ग, विद्यानगर, हास्सान
207097	श्रुथि जी.के. कालप्पा जी.पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25316 27-11-09	शारदा कॉम्पलेक्स, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
207098	श्रुथि के कृष्ण गौड़ा बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26247 23-03-10	एमआइजी-64, पहला ए मेन, इ एवं एफ ब्लॉक, रामकृष्णा नगर, मैसूर
207099	श्रुथि के कृष्णा कान्नांथ के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27263 23-03-11	केदेरी मकान, बासरीबेरू, जादकाल डाकघर, कुन्दापुर तालुका, उदुपी
207100	श्रुथि एल.एच. हलाप्पा एल.सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25733 12-03-10	वी.रमद्रेश्वर निलाया, लिंगादाहल्ली डाकघर, तरिकेरे तालुका, चिक्कमंगलूर
207101	श्रुथि एन नारायण अलेवूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28516 08-08-11	मकान संख्या-13डी/2, चौथा मेन राड के पीछे स्विमिंग पूल सरासवाथिपूरम् मैसूर
207102	श्रुथि पी प्रकाश हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25573 05-03-10	कृष्णा लक्ष्मेशनगर, चिक्कमंगलूर, तालुका
207103	श्रुथि एस भी सुरेश बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29597 28-05-12	मकान संख्या-177, परिजाथ पहला स्टेज, दूसरा क्रॉस, ब्रिंदावन एक्सप्रेसन मैसूर तालुका
207104	श्रुथि एस शेशचाला एस.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24649 21-05-09	गांधी बाजार, शिमोगा तालुका



207105	श्रुथि एस सुरेश हेब्बार एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24711 03-06-09	इशाना राव, पाजीमान्नू (एच), मुन्दूर डाकघर, पुट्टूर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207106	श्रुथि एस शंकर एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24861 06-06-09	मकान संख्या-1654, सातवां क्रॉस, अनीकेथाना रोड, कुवेमपुनागर, मैसूर
207107	श्रुथि एस. सोमशेकर आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27308 23-03-11	मकान संख्या-296, सूरापुर, कुनागल्ली, कोल्लेगल तालुका, चामराजनगर
207108	श्रुथि एस के. शिवराम शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27523 28-03-11	लिवर हुट्टा, बी.एच. रोड भद्रावती तालुका, शिमोगा
207109	श्रुथि जे. राव जगन्निवास राव. ए नं. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23926 09-04-09	कावेरी निलाया, गुड्डे अंगादी मकान, हेजामदी डाकघर, उदुपी
207110	श्रुथि के कान्थाराज एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26963 03-11-10	मकान संख्या-118, अनीकेथाना रोड, दूसरा क्रॉस (दक्षिण), कुवेम्पु नगर, मैसूर
207111	श्रुथि एम. हेगडे मन्जुनाथ एस. हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25549 05-03-10	मकान संख्या-34 / 15, तीसरा मेन रोड, हनुमंथ नगर, बंगलौर
207112	श्रुथि श्रीपथी श्रीपथी केवाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29064 05-05-12	मकान संख्या-350/1 नया संख्या 486 के बीच में दस एवं ग्यारह क्रॉस सामपीगे रोड माल्लेश्वरम बंगलौर
207113	श्रुथि देशपाण्डे राम. एस. कौलगुद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26250 23-03-10	सी/ओ वी.एम. देशपाण्डे, रयारा, हेब्बाली डाकघर, धारवाड़
207114	श्रुथि धिवारी रविन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30484 13-06-13	ग्राम एवं डाकघर काल्लोली, तालुका गोकक, बेलगाँव
207115	श्रुथि जोशी विजय विजय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30126 19-04-13	वेंकताद्री मैनसन, नीन्गाराज नगर, विद्या नगर, धारवाड़, हुबली
207116	श्रुथि कपाडिया दिनेश कपाडिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30353 20-05-13	पहला, तथास्तु, प्रियंका गार्डन, खुतवाड़ नगर, नाशिक, महाराष्ट्र
207117	शुभा लक्ष्मी जे.आर. वेणुगोपाल टी.पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28265 17-05-11	तालकालाकोप्पा (आठ), नीसाराय डाकघर, सोराब (ताल्लुक), शिमोगा
207118	शुभा मधावी. नगाराराज ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25075 29-07-09	मकान संख्या-17-09-571 / 19, मथाइस रोड, मंगलौर, दक्षिण कन्नाडा
207119	शुभा पी.यू. पी.वी.के. उधाय प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30037 16-04-13	मकान संख्या-20, आर्शीवाद, काले लयौत बेन्गेरी, हुबली
207120	शुभा पट्टार रतन पट्टार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30069 16-04-13	मकान संख्या-बी 12/1, दूसरा क्रॉस, हेग्गेरी कालोनी, पुराना हुबली, हुबली

207121	शुभा एच. ए नं. नगाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24637 21-05-09	मकान संख्या-992, सोलह ए क्रॉस, बारह ए मेन रोड, ए सेक येल्हका नया शहर, बंगलौर उत्तर
207122	शुभा एम.ए नं. नारायण मुर्धी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27374 24-03-11	मलालागड्डे डाकघर, सोराबा तालुका, शिमोगा
207123	शुभा आर. शेटी नारायण मुर्धी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27707 06-04-11	श्री कृष्णा निलाया, पहला क्रॉस, राघवेन्द्र एक्सेसन, सोप्पुगुड्डे थिरथाहल्ली शिमोगा
207124	शुभादा एल. हेगडे इश्वर एल. हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24275 24-04-09	मकान संख्या-88ए, इक्कीस क्रॉस, दूसरा ब्लॉक, राजाजीनगर, बंगलौर
207125	शुभांगी रनोजी ककाडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26705 03-6-10	कावेरी नगर, के पीछे लंगात पीर दर्गा, शहबाजार रोड, गुलबर्गा
207126	शुभारानी एम मायीगैह सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23904 09-04-09	मकान संख्या-260/5, चौथा क्रॉस, नौवां मेन पपैह बगीचा, बीएसके तीसरा स्टेज, बंगलौर
207127	शुगुफता शिरिन मोहम्मद मोइनुद्दीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27769 07-04-11	मकान संख्या ए-8-286, मुल्तानी कालोनी, तस्कर रोड, बिदार तालुका
207128	शुक्ला अभिषेक मंगल प्रसाद मंगल पी शुक्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23793 04-04-09	सी/ओ दोनी काम्पलेक्स, गन्जेद्रगाद डाकघर, रॉन तालुका, गाडग
207129	शुक्ला अंजलि शंकतप्रसाद शंकतप्रसाद शुक्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29616 14-06-12	कमना संख्या-17, पहला तल, रविन्दरशान अपार्टमेंट के पीछे सुरसबी होटल, सिलवासा
207130	श्वेता अमृतप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30554 16-07-13	मकान संख्या-64, शविथ नगर साई लाय आउट, नजदीक नया बस स्टैंट, गुलबर्गा
207131	श्वेता भीमराया पानीबाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28706 30-03-12	एसएमसीटी बसावेशवा चौक, शाहपुर ए/पी, यादगीर
207132	श्वेता अब्रोल यशपाल भोला	बी.ए.एम.एस. जम्मू विश्वविद्यालय 2010	29911 15-01-13	मकान संख्या-320, केदार ब्लॉक, द ग्रीनस अपार्टमेंट मकान संख्या-14, दोददेंकुन्दी, औटर बिंग रोड, बंगलौर
207133	श्वेता बादीगेर बासवाराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27049 15-03-11	1471/1, नजदीक विजया महंतेश बैंक, हुंगुन्ड तालुका, बागलकोट
207134	श्वेता बंकापुरे अशोक बंकापुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30357 20-05-13	ग्राम एवं डाकघर बोरगाँव, तालुका-चिक्कोडी, बेलगाँव
207135	श्वेता चौगाला रमान्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29085 05-05-12	खेमलापुर ग्राम एवं एवं डाकघर, विया कुदची, रायबाग तालुका, बेलगाँव
207136	श्वेता चौहान प्रवी.न सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29741 10-09-12	प्लॉट संख्या-48, इदा कात्तेदान के पीछे रामचरण ऑयल मिल, हैदराबाद वार्ड

207137	श्वेता देसाई अन्नासाहेब देसाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24178 24-04-09	मकान संख्या-209, कादाबी गल्ली, बैहोंगल तालुका, बेलगाँव
207138	श्वेता दोदामनी शंकर दोदामनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29439 24-05-12	मकान संख्या-1543 बनागरगल्ली, गोकक ग्राम एवं डाकघर एवं तालुका, बलगाँव
207139	श्वेता दोनुरमाथ गुरुबस्सय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26080 19-03-10	मकान संख्या-302, पहला मेन रोड हुबली तालुका, धारवाड़
207140	वेता एच एच हनुमनथप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29601 13-06-12	मकान संख्या-105, पहला तल, अजाद नगर, अकीला सरदवार अपार्टमेंट्स, रायदुर
207141	श्वेता होन्नुनगर अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23976 18-04-09	चदचान, इन्दि तालुका, बीजापुर
207142	श्वेता होसमानी शंकर बी. होसमानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27816 08-04-11	नवी. स्ट्रीट, रायबाग, ए/पी एवं तालुका, बेलगाँव
207143	श्वेता कोली धरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25941 17-03-10	उमाशंकर निलाय, लक्ष्मी एक्सेशन, शेशाद्रीपुरम
207144	श्वेता कौतल उमेश भी कौतल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29114 07-05-12	पॉचवां क्रॉस पंचाक्सारी नगर, गाडग तालुका
207145	श्वेता मशाल दनाप्पा एस मशाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29104 07-05-12	भवानी निलाय, गांधी नगर, नजदीक जेडपी मैदान बिलागी बागलकोट
207146	श्वेता मुखान्दी पंचाक्षारप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26724 18-06-10	एलआईजी-204, दसवां क्रॉस, नवानगर, हुबली तालुका, धारवाड़
207147	श्वेता पाटिल सीदागौंदा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27465 26-03-11	शिवान्द कॉलेज, कगुराद गाँव एवं डाकघर, अथानी तालुका, बेलगाँव
207148	श्वेता रायकार दशरथ डी. रायकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26930 05-10-10	गवाचारी बिल्डिंग, साई नगर, बादामी तालुका, बागलकोट
207149	श्वेता एस शेट्टी सुरेशशेकर शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29117 07-05-12	मकान संख्या-18-04-35, पुराना आदर्श कालोनी, बिदार तालुका
207150	श्वेता शिराबदागी काशीनाथ शिराबदागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29524 26-05-12	मंगलावर पेट, बनाहट्टी गाँव एवं डाकघर, जमाकान्दी तालुका, बागलकोट
207151	श्वेता सिंदागी दीपक एस. मुम्मीगट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28354 30-05-11	नजदीक कनारा ऑटो सर्विस, अम्बेडकर रोड, धारवाड़
207152	श्वेता जोलगीकेर लक्ष्मीकान्त जोलगीकेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24195 24-04-09	मकान संख्या-15-3 133, रामपुरे कालोनी, बिदर

207153	श्वेता ए नं. अम्बुदापु नारायण अम्बुदापु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26500 07-04-10	प्लॉट संख्या-17, संगोल्ली रयान्ना नगर, धरवाड़
207154	श्वेता आर. पाटिल रुद्रगौदा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24022 20-04-09	आर/ओ प्लॉट संख्या-46, गाबरे लायौत, नजदीक केएचबी कालोनी पुराना जेवारगी रोड गुलबर्गा
207155	श्वेथा डी एम मुनीस्वामी एम आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30222 30-04-13	कोदागनुर गाँव एवं डाकघर, दावनगेरे तालुका
207156	श्वेथा जी गुरुसिद्धा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30250 03-05-13	मकान संख्या-538, तीसरा क्रॉस, दूसरा स्टेज, एम ब्लॉक, कुवेम्पुनगर, मैसूर
207157	श्वेथा जी बी भीमन्ना जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30399 24-05-13	ए नं. एम.सी. बायां साइड, चौथा क्रॉस, होसमाने, भद्रावथी, शिमोगा
207158	श्वेथा एच एस एच एस सुब्रमन्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28861 18-04-12	चेराला श्रीमंगाला गाँव, चेदटाल्ली डाकघर, सोमवरपेट तालुका, कोदागु
207159	श्वेथा हेब्बार वेंकटरमन हेब्बार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27705 06-04-11	नादा चून्गीगुड्डे कुन्दापुर तालुका, उदुपी
207160	स्वेथा के केशवा के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30575 22-07-13	गीथलयाम, कुमारामंगलम, भाया कुम्बला, बेला डाकघर, कासरगोड
207161	श्वेथा कुम्बोजे सुरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29634 14-06-12	कोथाल गाँव एवं डाकघर, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
207162	श्वेथा मशाल रविन्द्रनाथ जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29726 09-08-12	मकान संख्या मोहल्ला-49, आदर्श नगर, बीजापुर तालुका
207163	श्वेथा बी.एम. मोहन बी.एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24217 28-04-09	मकान संख्या-645, दसवां क्रॉस तीसरा मेन, हस्सान
207164	श्वेथा जी गोविन्दराजु भी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24482 11-05-09	दरवाजा संख्या-5, इडबल्यूएस हाउसिंग बोर्ड, अरसीकेरे तालुका, हस्सान
207165	श्वेथा एच.बी. एच.आर. बसवाराजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26619 26-04-13	हनुमनथपुरा गाँव, भद्रावथी डाकघर, शिमोगा
207166	श्वेथा के महाबालेश्वर भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27375 24-03-11	श्री निलाया, कदावा (एच), पादनुर डाकघर, पुट्टूर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207167	श्वेथा के.इ. ईश्वरप्पा के.ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28471 04-07-11	कुदलुर डाकघर, तारिकेरे तालुका, चिक्कमागलूर
207168	श्वेथा के.एस. के.एस. सत्यनारायण शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27022 07-02-11	मधु निलाया, मालेबेन्नुर डाकघर, हरीहारा तालुका, दावनगेरे

207169	श्वेथा एम मन्जूनाथ एम.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28483 18-07-11	मकान संख्या-85, विद्युत नगर, पहला क्रॉस, सालगामे रोड, हस्सान
207169	श्वेथा एम.एस. सिद्दालीनगास्वामी एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23923 09-04-09	शिवरश्वर बादावने, टी. नारासिपुरा तालुका, मैसूर
207170	श्वेथा एस पुरन्दर कोतीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24243 28-04-09	मकान संख्या-2-12-2, मनीपुर, कोटपाडे डाकघर, उदुपी
207171	श्वेथा एस.जी. गोविन्दस्वामी एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24385 05-05-09	मकान, सदाशिवनगर, सीरुगुप्पा तालुका, बेल्लारी
207172	श्वेथा एस.एम. महेश गोवदा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27255 22-03-11	मकान संख्या-30, इक्कीस, इत्तमादु मेन रोड, बंगलौर
207173	श्वेथा टी टी.पी. थिम्मप्पा शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25772 12-03-10	तीसरा मेन रोड सोप्पुगुदे डाकघर, थिरथाहल्ली तालुका, शिमोगा
207174	श्वेथा एम मन्जूनाथ वी. हेब्बार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27778 07-04-11	इन्दुवानी गाँव एवं डाकघर, सागर तालुका, शिमोगा
207175	श्वेथा ए नं. ए नं. वी. राजाशेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27741 06-04-11	मकान संख्या-1890, तीसरा क्रॉस, दूसरा मेन, के ब्लॉक, कुवेम्पु नगर, मैसूर
207176	श्वेथा एस. कराबसाल्लावर शिवानगौंडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27376 24-03-11	हलागेरी डाकघर, रानेबेन्नुर तालुका, हावेरी
207177	श्वेथाराय ए.जी. गणेश राय ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27513 28-03-11	ईश्वरमंगला डाकघर, पुट्टुर तालुका, दक्षिण कन्नड़ (दक्षिण कनारा)
207178	शेलाजा एम जी. मुनीयप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24485 11-05-09	मकान संख्या-462, पुराना इको बैंक लिमिटेड, विजीनपुर रामामूर्धनगर, बंगलौर
207179	श्याम एम एम मनजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29914 21-01-13	एमआइजी-352/707, चौथा फेस, येलहंका नया शहर, येलहंका डाकघर, बंगलौर
207181	श्यामला पदमनाभा भट्ट ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27712 06-04-11	गणेश कृपा, सी/ओ सी.डी. कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, उदुपी
207182	श्यामसुंदरम के. कोल. के. गोपाल कृष्णन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27540 28-03-11	मकान संख्या-491, ब्लॉक दूसरा, तीसरा फेस, बनशंकरी तीसरा स्टेज, बंगलौर दक्षिण
207183	श्यामसुंदर रामचन्द्र उपाध्याय बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29015 27-04-12	मकान संख्या-444, एच सिद्दैह रोड, विलसन गार्डन, बंगलौर
207184	श्यामला बी.जे. जयन्ना बी.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25143 25-09-09	सोमशेट्टी हल्ली, लिंगदाहल्ली, चन्नागिरि तालुका, दावंगेरे

207185	सिद्दालिंगौंड पाटिल कल्लाना गौंड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25190 08-10-09	पहला मेन रोड लोनी (बी.के.) डाकघर, बराददा, इन्दि तालुका, बीजापुर
207186	सिद्दाम्मा अंगादी विरबसप्पा एस. अंगादी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25884 12-03-10	महंतेश निलाया, जोशी गल्ली, लल्काल डाकघर, हुंगुंड तालुका, बागलकोट
207187	सिद्दाप्पा एलत्र कोलूर लक्काप्पा कोलूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25078 29-07-09	शापुर पेथ, गोवली गल्ली, जेल रोड, बीजापुर
207188	सिद्देश टी.आर. रजान्ना टी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25860 12-03-10	लक्ष्मी निलाया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, आदर्शनगर, तुमकुर
207189	सिद्देश्वर हौशी दृधबसप्पा एच	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25754 12-03-10	हयारदा डाकघर, हुविनाहदागल्ली तालुका, बेल्लारी
207190	सिद्धार्थ देबर्मा सोनाननी देबर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28688 01-03-12	के द्वारा दाम्बले, विनोबानुगर, शिमोगा तालुका
207191	सिद्धकी जेबा किफायतुल्लाह के भी सिद्धकी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29920 01-02-13	आरसीएल-11, फ्लैट संख्या-113-114, जीआईडीसी कालोनी, उम्बेरगाँव, उलसाद गुजरात
207192	सिद्धेश्वर सचिन अनंतराव सिद्धेश्वर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30611 22-08-13	मकान संख्या-875, महादेव मंदिर जवाल, ग्राम एवं तालुका, जालकोट, लातुर, जालकोट
207193	सिंदकार अन्जुमार अब्दुल रौफ सिंदगिकार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24940 10-06-09	मकान संख्या-1438, कल्याण नगर, सिदगी तालुका, बीजापुर
207194	सिन्धू सी.वी. वेन्कटेश एच.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30144 22-04-13	मकान संख्या-216/65, स्नेहसादना, छठा क्रॉस, मन्जुनाथनगर, रघुवनहल्ली गेट, बंगलौर
207195	सिन्धू एस नायर शंकरनारायणन नायर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30514 20-06-13	मकान संख्या-10, कौसथुभम, गनगोन्दनाहल्ली, मदावरा (पी), दसानपुरे, बंगलौर उत्तर
207196	सिन्धू उमेश बी. उमेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24390 05-05-09	मकान संख्या-231, दूसरा क्रॉस, पहला मेन, बीइएमएल चौथा स्टेज राजेश्वरी नगर, बंगलौर
207197	सिन्धू ए.वी. ए.एस. विट्टलाराजा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26129 20-03-10	मकान संख्या-48/1, पाँचवां एवं छठा क्रॉस, पहला मेन, नगरभावी. मारुथि नगर, बंगलौर
207198	सिन्धू एम.एम. मुद्दाप्पा एम.ई.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27554 29-03-11	मवी.नहल्ली (भी), कयामनहल्ली डाकघर, साकलेशपुर तालुका, हस्सन
207199	सिन्धूरानी. डी.के. देवदास गौड़ा के.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24244 28-04-09	रसरूपा निलाया, मारील, दर्दे, केम्पैन्जे पुट्टुर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207200	सिन्धूरी के के श्रीनीवास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25503 04-03-10	मकान संख्या-145, मेन बजार, हास्पेट डाकघर एवं तालुका, बेल्लारी

207201	सिन्दूरा ए.एस. सुन्दर ए.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30471 10-06-13	श्री नित्यनन्दा विहार, अरान्थोडु डाकघर एवं गाँव सुल्लिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
207202	सिंह चन्दर प्रेम प्रेम सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24887 08-06-09	रंगनाथ निलया, गांधी नगर, दूसरा क्रॉस बादामी तालुका, बागलकोट
207203	सिन्नुर योगिराज शिवशरणप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23733 02-04-09	मकान संख्या-11-65, सेदाम रोड, डॉक्टरर्स कालोनी, गुलबर्गा
207204	सिराजुल हसन दोनी मोहम्मद गौस दोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28708 30-03-12	मकान संख्या-1880/सी, जान्दे गल्ली तालीकोट, मुद्देबीहाल तालुका, बीजापुर
207205	स्मिता चौधरी मल्लेशप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30098 18-04-13	डब्ल्यू/ओ सिद्दलिंगा एस बगाली, ए/पी नागथान, तालुका
207206	स्मिता जैन नेमीराज बंगा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26269 23-03-10	पदुमरनु डाकघर, जीनाश्री, मंगलौर
207207	स्मिता जमादार महंतप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30036 16-04-13	मकान संख्या-240, विवेकनगर पश्चिम, पहला मेन, दूसरा क्रॉस, बीजापुर
207208	स्मिता जयी शंकर आर जयी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30438 31-05-13	मकान संख्या-04, सत्यनगर, बैयप्पनहल्ली मेन रोड, एम.एस. नगर डाकघर, बंगलौर
207209	स्मिता नीलगुन्ड रुद्रप्पा एस. नीलगुन्ड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28307 25-05-11	एस.ए. नगर, नरेगल डाकघर, रॉन तालुका, गड़ग
207210	स्मिता पाटिल बसानगौंड पाटिल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25707 12-03-10	नजदीक फायर मकान, जेवारगी तालुका, गुलबर्गा
207211	स्मिता पाटिल बसानगौंड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27726 06-04-11	मकान संख्या-76/3बी, गलादगी रोड, बागलकोट
207212	स्मिथा एन नित्यानन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30229 30-04-13	मकान संख्या-730, दसवां ए क्रॉस, विनय मार्ग, सिद्धार्थनगर, मैसूर
207213	स्मिथा पाटिल शंकरगौड़ आर. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26501 07-04-10	के पीछे केएसआरटीएस क्वाटर्स, गोकुल रोड, हुबली तालुका, धारवाड़
207214	स्मिथा रमन आर रमन्ना के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30201 29-04-13	मकान संख्या-414, दूसरा क्रॉस, तीसरा मेन, शारदा नगर, तिप्पुर टुम्कुर, तिप्पुर
207215	स्मिथा ए नं. ए. ए नं. आर. अनंथा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26457 30-03-10	मकान संख्या-197, साई निलया, चौथा मेन रोड, पहला स्टेज, कमलनगर, बंगलौर
207216	स्मिथा एस श्रीनिवास ऐथल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27733 06-04-11	मकान संख्या-1-4-11 एफ, सामने-धूमवाथी दैवस्ताना गुडीबैल, कुन्जीबेट्टी डाकघर, उदुपी

207217	स्मृति कामथ अनंथ कामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25800 12-03-10	मकान संख्या-3-3-106ए, अम्बालपाडे डाकघर, उदुपी
207218	स्नेहा रामकृष्ण नौदे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29342 21-05-12	श्री बनाशंकरे एचपी गैस एजेंसी, गुरमतकाल ग्राम एवं पोस्ट, यादगिर तालुका
207219	स्नेहा ए नं. के. जयनन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26607 23-04-10	लक्ष्मी रंगनाथ निलया, के पीछे लायन्स स्कूल एक्सेशन क्षेत्र, बागलकोट
207220	स्नेहा रामचन्द्र बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28297 25-05-11	मकान संख्या-22/708/12, ससाव नगर, हुमनाबाद तालुका, बीदर
207221	स्नेहा हेब्बाल्ली पुन्डलिक के हेब्बाल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29522 26-05-12	मकान संख्या-14, गोकल रोड, हुबली ग्राम, पोस्ट एवं तालुका, धरवाड़
207222	स्नेहा कुलकर्णी केशव के. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26285 23-03-10	मकान संख्या-1550/बी, मारुतिगल्ली, बेलगाँव
207223	स्नेहा नदाकट्टीन दयानंद नदाकट्टीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29256 16-05-12	मकान संख्या-4, दिन बंधू कालूनी, करवर रोड, हुबली डाकघर एवं तालुका, धरवाड़
207224	स्नेहा पाइ सदानन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27708 06-04-11	महालसा कृपा विवेकनगर, पहला क्रॉस, कुमत तालुका, यू.के.
207225	स्नेहा प्रमोद प्रभू प्रमोद भी प्रभू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28953 26-04-12	लक्ष्मी निवास, प्रभात नगर, होनवार ग्राम एवं पोस्ट एवं तालुका, उत्तर कन्नड़
207226	स्नेहा एस बी बलासुब्रमन्यम एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30402 27-05-13	मकान संख्या-21/1, बी/डबल्यू नौवां एवं दसवां क्रॉस, मरगोसा रोड, माल्लेश्वरम्, बंगलौर
207227	स्नेहा पी.के. के.टी. प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24232 28-04-09	मकान संख्या-211, श्री विट्टल, पहला क्रॉस, चालीस फीट रोड, राजाजीनगर, बंगलौर
207228	स्नेहा एस.वाई. यशवंतराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24171 24-04-09	मकान संख्या-27, नार्थ ऑफ प्रथम स्टेज, शिल्पी श्रीनिवासचर ब्लॉक, गायत्रुपुरम् उदयगिरि, मैसूर
207229	स्नेहा. एस. कोलमकर शंतराम एम. कोमलकर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25805 12-03-10	मकान संख्या-1250, गोथनीबाग, गबीतवाड़ा, मजाली, करवार, उत्तर कन्नड़
207230	स्नेहल अम्बालगेकर श्रीधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28450 20-06-11	1-19, डॉलर्स कालोनी, गोकुल रोड, हुबली तालुका, धरवाड़
207231	स्नेहल रामचन्द्र रामचन्द्र डी. नरखादे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30339 18-05-13	390, विजय नगर, पहला सामने बीआरसी गेट, 60 फीट रोड, उधना सूरत
207232	सोलंकुरे कादम्बरी अनील अनील श्रीकांत सोलंकुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26915 27-09-10	मकान संख्या-4859/52बी, दूसरा मेन, दूसरा क्रॉस, सदाशिवनगर, बेलगाँव



207233	सोमनाथ मरगुर शेतलेप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25895 15-03-10	गुंबेवाड़ डाकघर, इन्दि तालुका, बीजापुर
207234	सोमनाथ पुजारी शिवलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26779 16-08-10	हॉर्ट गाँव एवं डाकघर, इन्दि तालुका, बीजापुर
207235	सोमनाथ एस उमापथप्पा एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25289 23-11-09	34 वार्ड उक्कादकेरी, गरादिमनी, हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
207236	सोमनायक नायक मुत्तप्पा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26134 20-03-10	सैदपुर डाकघर, मुधोली तालुका, बागलकोट
207237	सोनार लक्ष्मण विलास सोनार विलास सुमनलाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24878 08-06-08	मकान संख्या-1973/1, पन्द्रहवां क्रॉस, अंजनिया बदावने दावंगेरे
207238	सोनार परेश दिनेश एस दिनेश कन्हैयालाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24947 10-06-09	मकान संख्या 1973/1, पन्द्रहवां क्रॉस, अंजनिया लायौत, दावंगेरे
207239	सोनवाने मनोज गुलाबराव एस गुलाबराव उत्तमराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23740 02-04-09	मकान संख्या-625, श्रीनिदी, कृति नगर, नजदीक साई बाबा मंदिर, बीजापुर
207240	सोनवाने सरिका हरिशचन्द्र सोनवाने एच परशुराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29857 05-11-12	मकान संख्या-473, नजारे गाँव एवं डाकघर संगोला तालुका, सोलापुर
207241	सोनवाने सोनल. एस शंतराम सोनवाने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24799 05-06-09	पॉचवां क्रॉस, नया मकान, नजदीक प्रायमरी बेल्स बाबी स्कूल, शिमोगा
207242	सोनी हेगड़े पी सुधाकर हेगड़े के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23905 09-04-09	मकान संख्या-3इ/10/789/3, नरसिम्हा शेटी कुलशेकर, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़
207243	सोनी रूपाली सोनी किसनगोपाल हरिकिसम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25560 05-03-10	सी/ओ. बीएमजे हॉस्टेल रोड, गजेन्द्रगाद रॉन तालुका, गडग
207244	सोनिया जयपाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24239 28-04-09	क्वाटर संख्या-ए'118, सेक्टर चार, एचएमटी कालोनी, विजयनगर, बंगलौर
207245	सोनिया वामन राव हनेगव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28718 30-03-12	मकान संख्या-64, महादेव कालोनी शिवनगर, बीदर
207246	सोनिया एस सुवर्ना सुन्दर सुवर्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30420 28-05-13	मकान संख्या-2-177, (ए), भी/ए कुन्जीबेतु, डाकघर मान्ची कोडी, कुक्कीकत्ते, उदुपी,
207247	सोनिया सेटिया सुभाष सेटिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28206 02-05-11	बसावनिलया, बारहवां क्रॉस, प्लॉट संख्या-712, विद्यागिरि, बागलकोट
207248	सोनिया वी. गुम्मदी प्रो. जी. वेंकटेश कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25650 06-03-10	मकान संख्या 733, उन्नीसवां क्रॉस, दसवां मेन, सी ब्लॉक, विजयनगर तीसरा स्टेज, मैसूर

207249	सोनियामिथ मदेप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29568 12-06-12	मकान संख्या 5/115, चरितिन गल्ली, हुदगी एवं डाकघर, हुमनाबाद तालुका, बीदर
207250	सोनिया अली राशिद अली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29286 17-05-12	सामदी, पुखरायन तालुका, रामबाई नगर, कानपुर देहात
207251	सोंकवाड़े स्वाति सोंकवाड़े सुरेश निरंजन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28358 30-05-11	मकान संख्या-6, एलआइजी, आनंद नगर, केएचबी कालोनी, राजापुर रोड, गुलबर्गा
207252	सोनुरे दिपाली तुलसीदास सोनुरे तकुलसीदास लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30319 14-05-13	विटटल क्रूपा, 100 एफटी रोड, प्रगथि कालोनी, मिराज तालुका, सांगली, मिरजा
207253	सोरादगे रजनीरक्षा सोरादगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27359 24-03-11	मनाली रोड, एनकेजे गर्लस होस्टल, बीदर
207254	सौभाग्य बीके कुन्देर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29190 14-05-12	मकान संख्या-565/ए, नजदीक मुकाम्बिक द्विवींग स्कूल, एनएच66, कुन्दापुर उदुपी
207255	सौभाग्य कदम लोकेश कदम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29902 31-12-12	येल्लाम्मा देवी. हाउसिंग सोसायटी, प्लॉट संख्या-77, रजथगिरि ए/पी, धरवाड
207256	सौधबानु जे. जे. इब्राहिम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27784 07-04-11	मकान संख्या 25-27-2027/2, मस्जिद रोड, कंकनादी डाकघर मंगलौर तालुका, डी.के.
207257	सौजन्या एस शिवरुद्रैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30565 18-07-13	मकान संख्या 1/29, आठवां क्रॉस सक्रल, वेंकटपुर मेन रोड कोरमंगला, बंगलौर
207258	सौजन्या टी.एस. टी.बी. श्रीनिवास राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25354 08-01-10	राघवेन्द्र कालोनी, फार्ट, कादुर तालुका, चिकमंगलौर
207259	सौम्या ए.एम.एस. सर्फभुषण ए.एम.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29986 06-04-13	एल बी एक्सेंसन कोत्तुर, तालुका-कुडलिगे, जिला-बेल्लारी, कोत्तुर
207260	सौम्य बिरादर अप्पासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26117 20-03-10	एम II 131, आदर्श नगर, बीजापुर
207261	सौम्य जी.के. जी.के. कृष्ण प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30268 06-05-13	मकान संख्या-472, तेरह मेन, पहला क्रॉस, सरस्वथीपुरम्, मैसूर
207262	सौम्य के नरसिंग राव के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28831 16-04-12	8-11-181/850, पहला तल, विद्यानगर, रायचुर तालुका
207263	सौम्य कुल्लोल्ली प्रभु ए. के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29931 15-02-13	जवल बाजार, महलिंगपुर मुधोल
207264	सौम्य मल्लय गणेश पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25796 12-03-10	12-1-41-ए, अलंकार पीछे रोड, उदुपी

207265	सौम्य पाटिल विष्णुकान्तस पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24627 18-05-09	जगदम्मा मेडिकल स्टोर, देशनूर रोड, सिरुगुप्पा तालुका, बेल्लारी
207266	सौम्य प्रियदर्शिनी वी पी. वासुदेवा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28477 18-07-11	गुरुकृपा, पहला क्रॉस, अशोक नगर शिमोगा
207267	सौम्य श्री हीरेमथ ईश्वरचन्द्र एम हीरेमथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29094 07-05-02	के द्वारा एमए हीरेमथ, कसागेरी गल्ली, बीजापुर
207268	सौम्य श्री के.एम. के. एम. भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24065 21-04-09	श्री निलया, कदामने, उप्पीनगडे लथिल डाकघर, बल्थंगडे तालुका, दक्षिण कन्नड
207269	सौम्य पी.बी. बी. प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24251 28-04-09	23, पाँचवां क्रॉस, ए ब्लॉक, देवराज उर्स बदावने, दवांगेरे
207270	सौम्य एच.ए. नं. एय.वी. नारायण शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2005	25364 19-01-10	452, सोलहवां क्रॉस, एल बी मेन रोड चौथा फेस जे.पी. नगर, बंगलौर
207271	सौम्यश्री एस कद्रल्लीमथ शराना बसावराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30043 16-04-13	देवराज आर्स कालोनी, के पीछे पब्लिक ग्राउन्ड, कोप्पल
207272	सौरभ देशमुख ज्ञान रंजन देशमुख	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23700 03-04-09	दरवाजा संख्या-13 दूसरा स्टेज, विजय नगर, बेलूर रोड कंदाली हस्सन
207273	सौरभ एस. राजगोलकर शिवाजी एल. राजगोलकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24777 04-06-09	एपीएमसी रोड पहला मेन, चौथा क्रॉस, सदाशिवनगर, बेलगाँव
207274	सौरभ कोकतनूर सुधीर कोकतनूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30005 08-04-13	25 रेवेन्यू कालोन, राज नगर हुबली
207275	सौभाग्य बी. एम. बसावराजप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26823 24-08-10	चिक्कचौती, येन्नेकोप्पा डाकघर, सोरब तालुका, शिमोगा
207276	सौभाग्य आर. रामप्पा रामन्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27514 28-03-11	कस्तुरबा नगर, चिपमी डाकघर, सिरसी तालुका, करवार
207277	सौफिया एच रहमान ए एच रहमान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29548 29-05-12	8-87 (बी), केम्पुनू गाँव एवं डाकघर, उदुपी तालुका
207278	सौजन्य. ए. वी. थंदावा मुर्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24061 21-04-09	कालसा डाकघर, मुदिगेरे तालुका, चिकमंगलूर
207279	सौजन्य बी.एस. भीम गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26715 14-06-10	नजदीक स्वामी विवेकानन्द क्रेडिट सोसायटी, संकेश्वर, हुक्केरी तालुका, बेलगाँव
207280	सौजन्य पी. करकेर प्रकाश एस. करकेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24563 14-05-09	2-143, अनुग्रह, नजदीक पादू मकान, कुलै डाकघर मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड

207281	सौम्य धर्मना शेटीगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26283 23-03-10	3-61/1सी, कदीमजाल, उदयर, मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207282	सौम्य सी चन्द्रह एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28862 18-04-12	114, के पीछे तीसरा मेन कर्नाटक बैंक विवकानन्द नगर, मैसूर
207283	साम्य एच के हाला स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29011 27-04-12	अनुशा निलया, कतपय उदुपी तालुका
207284	सौम्य कुलकर्णी गुरु राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27075 15-03-11	गोविसिददश्वर नगर, जम्बुनाथ रोड, हॉस्पेट, बेल्लारी
207285	सौम्य कुमारी. डी. संदीप सी. हेगडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26699 31-05-10	बेलाल रोड उजीरे डाकघर, बेट्टंगडी तालुका, दक्षिण कन्नड़ डाकघर
207286	सौम्य ए नं. सोगल एस.आर. नागेन्द्रन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26898 17-09-10	एल 66, तीसरा क्रॉस, तीसरा मेन, इ एवं एफ ब्लॉक, रामकृष्णा नगर, मैसूर
207287	सौम्य नायक एस श्रीनिवास नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25967 18-03-10	ए.टी. रोड कोनदूर डाकघर, थिरथहल्ली तालुका, शिमोगा
207288	सौम्य पी पुत्तचन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30428 29-05-13	930, मुनिश्वमप्पा कॉम्पौन्ड, मुदालपाल्या, बंगलौर
207289	सौम्य सी चन्नबसप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23886 09-04-09	मलेनहल्ली, सोल्लापुर डाकघर, तरिकेरे तालुका, चिक्कमंगलौर
207290	सौम्य बी. पी. पुटटे गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24000 18-04-09	59, मथरू कृपा, राजकुमार लयौत, मान्डया
207291	सौम्य सी सी पी गौड़ा एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24930 10-06-09	574, चौथा क्रॉस, स्वर्णसन्द्रा, सुगर शहर, मान्डया
207292	सौम्य एच.एस. सुब्बैह एच.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25864 12-03-10	हेगलाथि (पाँच), सिंगानबिद्री डाकघर, थिरथाहल्ली तालुका, शिमोगा
207293	सौम्य एच. वार्ड. योगेन्द्र. एच. डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25841 12-03-10	199/1, केआरएस मेन रोड, मेतागल्ली औद्योगिक क्षेत्र मेतागल्ली, मैसूर
207294	सौम्य एम. ए नं. नान्जैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24467 11-05-09	40, बीए लायौत, केएचबी कालोनी नन्जांगुड, मैसूर
207295	सौम्य पी मन्जुनाथ बी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25460 02-03-10	बदाकना हल्ली, मदाकना हल्ली डाकघर, सिरा तालुका, टुमकुर
207296	सौम्य. एस डी/गौ. ए.जी. साधनन्दा भट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23858 06-04-09	चौदह वार्ड, बागेपल्ली तालुका, चिक्कबल्लापुर

207297	सौम्य एस.एन नारायणस्वामी. एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25728 12-03-10	515, नजदीक काबा कॉम्प्लेक्स, सान्थे मैदान, एम.बी. रोड कोलार
207298	सौम्य टी.एस. सिददप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24620 18-05-09	जलगावदी डाकघर, मालावल्ली तालुका, मान्डया
207299	सौम्या सी. शेट्टी चन्द्रहसा शेट्ट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27606 30-03-11	नजदीक गवर्नमेंट हाई स्कूल, गुरुवयानकरे, बेलथानगड़े तालुका, दक्षिण कन्नड़
207300	सौम्या ए नं. एस. विरेश. ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26882 15-09-10	4-47, उज्जैनी डाकघर, कुदलीगी तालुका, बेल्लारी
207301	सौम्या एस. भट शंथाराम भट एच	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24516 12-05-09	गोपीनाथ मकान, हेम्माड़े डाकघर, कुन्दापुर तालुका, उदुपी
207302	सौम्यश्री प्रभू पान्चाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24222 28-04-09	मकान संख्या 102, दूसरा क्रॉस, जयनगर, कन्टोन्मेंट, बेल्लारी
207303	सौम्याश्री मशालकर किशोर कुमार मशालकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24246 28-04-09	73, पुराना जवारगी रोड, गुलबर्गा
207304	सौम्याश्री बी एम. रवि.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26219 23-03-10	902/910, नौवां क्रॉस, एसबीएम कालोनी, बंगलौर
207305	सौम्याश्री यू.पी. प्रसाद यू.ए नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25788 12-03-10	3-3-112बी, अम्बालाप्याड़े उदुपी
207306	सौम्याश्री डी. दसगोड़ा के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27875 11-04-11	2660/9ए, चौथा क्रॉस, वी.वी. मोहल्ला, मैसूर
207307	स्फूर्ति भीमसेना भीमसेना श्रीधर उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27380 24-03-11	प्लॉट संख्या-12ए, हुन्सुर रोड, बेलावदी इन्दि क्षेत्र, मैसूर
207308	स्फूर्ति टी थिरथेह एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30129 20-04-13	कल्लीहल गाँव एवं डाकघर, भद्रावथि-तालुका, शिमोगा, कल्लीहल
207309	स्फूर्ति टी गनपत राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30130 20-04-13	मकान संख्या-4-937, नजदीक गणेश नगर, मकतमपुर, गुलबर्गा
207310	स्फूर्ति ए बलोल अजीत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30382 22-05-13	ए/पी कुसानल, तालुका-अथानी, बेलगाँव, कुसानल
207311	स्पूरणा एच.जी. गंगाराजू एच.बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24035 20-04-09	कोते माने, होन्नामराना हल्ली, जमबुरु डाकघर चन्नारायपटना तालुका, हरसन
207312	स्फूर्ति मन्नीकेरी चन्द्रशेखर. टी. मन्नकरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25759 12-03-10	29, वायुपुत्र एक्सेसन, हुबली तालुका, धरवाड़

207313	श्रावनी सी एच नरसिम्हा राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28875 18-04-12	श्री सीता राम प्रिन्टर्स, मेन रोड, मधीरा डाकघर एवं तालुका, खम्माम
207314	श्रीकान्त विष्णु जोशी विष्णु पान्दुरंग जोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25218 13-10-09	पहला मेन, चौथा क्रॉस, तुलाजी बिल्डिंग, सदाशिव नगर, बेलगाँव
207315	श्रीनीधि. जी. एस शरनप्पा. ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23994 18-04-09	सिद्दपुर डाकघर, कुदलिगी तालुका, बेल्लारी
207316	श्रीदेवी. गदीगप्पा हीरेमथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25447 02-03-10	मकान संख्या-34, नया आदर्श कालोनी, एयरफोर्स क्षेत्र, बीदर
207317	श्रीदेवी.. जे. एम मन्जुनाथ. जे. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24765 04-06-09	298/ए, देसाई मन्सन, औद्योगिक क्षेत्र, बागलकोट
207318	श्रीदेवी.. के के. कोट्टप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25960 18-03-10	नजदीक विद्यान्जलि स्कूल, हुविना हदागल्ली तालुका, बेल्लारी
207319	श्रीदेवी.. टी. तवर्या नाइक.आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27802 07-04-11	बेगूर मरादी, बेगूर डाकघर, शिकारीपुर तालुका, शिमोगा
207320	श्रीदेवी. पी. कुलकर्णी पी.के. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24346 29-04-09	4, तीसरा क्रॉस, विद्यानगर डाकघर, शिमोगा
207321	श्रीधर रेड्डी पी शिवनाथ रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29168 11-05-12	कल्लुर रोड चिन्बोल्ली डाकघर एवं तालुका, गुलबर्गा
207322	श्रीधर. साईबाबा बडगल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27404 25-03-11	चित्तापुर रोड के पीछे एच पी गैस गौडोन, यादगिरि
207323	श्रीकान्थ. जी. गोविन्द नाइक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27529 28-03-11	पीथरू स्मृति, सातवां क्रॉस, शंकरपुर एक्सेंसन, चमराजनगर
207324	श्रीकान्थ. डी. शिवन्ना. डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28156 26-04-11	जलाल स्ट्रीट, शोरापुर गाँव डाकघर एवं तालुका, यादगिरि
207325	श्रीलक्ष्मी एन सी नागराजगौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30038 16-04-13	मकान संख्या-1017, पहला तल, सुभाष नगर, जिला-मान्ड्या, के आर पेट
207326	श्रीलक्ष्मी. जी. वी जी. वेन्कटेश ऐथल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25562 05-03-10	478, चौसठवां क्रॉस, पाँच ब्लॉक, राजाजीनगर, बंगलौर
207327	श्रीनाथ भट. वाई श्रीधर भट. वाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25885 12-03-10	5/4, तीसरा मेन रोड, मत्तादल्ली, आर.टी.नगर बंगलौर उत्तर, बंगलौर
207328	श्रीनीधि हान्या बी.एस बी.जी. एस धान्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24625 18-05-09	दूसरा-96, कन्टेश्वर रोड, गोपादी गाँव कोटेश्वर डाकघर कुन्दापुर तालुका उदुपी

207329	श्रीनीधि. एम.एस. टी. मल्लप्पा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23813 04-04-09	श्रीनीधि निवास, नजदीक पान्डुरंग मंदिर, होसादुर्ग डाकघर एवं तालुका, चित्रदुर्ग
207330	श्रीनिवास प्रभाकर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27156 18-03-11	शिक्षक कालोनी, हुमनाबाद तालुका, बीदर
207331	श्रीनिवास मुखी. टी.जी. गोपाल. टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23962 13-04-09	ए1, दसवां मेन रोड श्रीरामपुर पहला स्टेज, मैसूर
207332	श्रीनिवास राजपुत पुरप्पा राजपुत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25437 26-02-10	प्लॉट संख्या-66, यूसीबी नगर, सपतपुर अंतिम क्रॉस, धरवाड़
207333	श्रीनिवासा. एन नागाभुषण. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24256 28-04-09	सीथारमैह कालोनी, चेल्लूर, बागेपल्ली तालुका, चिक्कबलापुर
207334	श्रीनिवासूलू. बी बी. कुरुमन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28586 19-10-11	एसपीएस लड़का होस्टल, आयुर्वेद कॉलेज कैम्पस सिद्दपुर तालुका, उत्तर कन्नड़
207335	श्रीपाल हीरेकेरूर लक्ष्मण हीरेकेरूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24021 20-04-09	भायरे देवर कोप्पा, सदाशिवनन्द नगर, नवानगर, हुबली तालुका, धरवाड़
207336	श्रीप्रिया. एच. हनुमे गौड़ा. डी.एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28144 26-04-11	सी/ओ संजीविनी आयुर्वेद भण्डार, के.आर. एक्ससेसन, तुमकुर
207337	श्रीरामा एच.एम. भगवन्थ राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24387 05-05-09	2971, श्रीरामा निलया, के पीछे टेलीफोन एक्सचेंज, लक्ष्मीपुर, आरसीकेरे तालुका, हस्सन
207338	सृष्टि येरेशीमी घनवन्थ के. येरेशीमी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26216 23-03-10	दसवां क्रॉस, ए ब्लॉक, बसावेशवरनगर, हावेरी
207339	श्रुति. बी.आर बी.ए. नं. रमेश.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25424 25-02-10	के-336, एलबी क्रॉस, एल के मडेन, आठवां ब्लॉक, कोरमंगला चौथा ब्लॉक, बंगलौर
207340	स्तुति शंकर इराली आइ.ए. शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26824 25-08-10	संख्या-26, नजदीक श्री साई हाल, शाहुनगर, बेलगॉव
207341	सुमलक्ष्मी सम्पथ कुमार बेलागवी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25362 19-01-10	318, विद्यानगर, बागलकोट रोड, बीजापुर
207342	सुभांगिनी सुरेश एम नागरालमथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25514 04-03-10	श्री गुरुदेव, 66, मन्जूनाथ नगर, दर्गा जेल, बीजापुर
207343	सुभाष सौन्शी शिवानन्द. एफ. सौन्शी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25352 06-01-10	बासापुर हीरेमरथ, पी. ओ. कुन्दगोल तालुका, धरवाड़
207344	सुभाशिनी. ए नं. एस. मुरलीधर राव. ए नं. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25572 05-03-10	1245, नजदीक अम्बिका विद्यालय, नेल्लीकत्ते, पुत्तुर तालुका, दक्षिण कन्नड़

207345	सुबोध चतुर्वेदी योगेश कुमार चतुर्वेदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24321 29-04-09	एचआईजी-17, 18 क्रॉस, कुवेम्पू नगर, हस्सन
207346	सुब्रह्मन्या. के. वाई विष्णुमूर्थी. के. वाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25936 17-03-10	8-2/4, चौथा बी क्रॉस, कोदिकल कत्ते, अशोक नगर मंगलौर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207347	सुब्रह्मन्या. एम. डी धरमप्पा. एम.जे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24228 28-04-09	मल्लीपटना डाकघर, अराकालगुड तालुका, हस्सन
207348	सुब्रह्मन्या. भी वेंकटेश राव. एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23924 09-04-09	1531/5, दूसरा मेन, तीसना क्रॉस, नगप्पा ब्लॉक, श्रीरामपुरम्, बंगलौर
207349	सुचेथा देवादिगा कान्थु देवादिगा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27863 11-04-11	पॉलिटिकिनक क्वाटर्स, विवेकानन्द नगर, कोदिबाग करवार, दक्षिण कन्नड़
207350	सुचेथा जयराम जयराम. बी. सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28129 26-04-11	जयराघव इन्टरप्राइजेज, होम्बेलकु बसावनहल्ली, चिकमंगलूर
207351	सुचित्रा रामन्ना मराकला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28890 20-04-12	नजदीक नादुर कम्बा लगाददे, नादुर गाँव एवं डाकघर उदुपी तालुका
207352	सुचित्रा अंचन शंकर अंचन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24190 24-04-09	4-87, संथेकट्टे डाकघर, उदुपी
207353	सुचित्रा चवान रेखु चावन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27162 18-03-11	टी.डी. 1/1, यूकेपी कैम्पस, भीमरायाना गुडी, शाहपुर तालुका, गुलबर्गा
207354	सुचित्रा राज एमएस जयराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29254 15-05-12	श्री देवी. प्रसाद, बेजाई, कुन्तिकान, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़
207355	सुचित्रा. वी. जेवूर विरुपाक्षप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27616 01-04-11	मादरमददी, छठा क्रॉस, होसयेल्लापुर, धरवाड
207356	सुदर्शन एम. सूर्य नारायण वैद्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25438 26-02-10	1-160, मुद्दुर, नलकुर डाकघर, उदुपी तालुका
207357	सुदर्शन रेड्डी. जी. एन निन्गा रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25301 27-11-09	चन्नागना हल्ली, वलादे डाकघर, चल्लाकेरे तालुका, चित्रदुर्ग
207358	सुदाथ. ए नं. अन्नाजी ए नं. बी. अंजलि	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24236 28-04-09	अभिशोक, भारथ मिल कैम्पस हरिहर तालुका, दावनगेरे
207359	सुदीप कुमार सुतर गुरुनाथ राव सुतर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24931 10-06-09	9-5-700, मोल्टी लायौत, आदर्श कालोनी, बीदर
207360	सुदीप कुमार बी.के कुमार. बी. भी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25651 06-03-10	484, छठा क्रॉस, केसारे तीसरा स्टेज, मैसूर



207361	सुदीपा सदानन्दा. ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24604 18-05-09	2-308, सुभाषया, नजदीक दियाना थियेटर, कुक्कीकात्ते, उदुपी तालुका
207362	सुदीशा. जे कौरगु शेटी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25575 05-03-10	रेवाथि निलया, जददीनाबैल, सिद्दापुर, कुन्दापुर तालुका, उदुपी
207363	सुधा शनमुखप्पा अइली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27051 15-03-11	14 / 120, तावरागेरा, कुस्तागी तालुका, कोप्पल
207364	सुधा कांची वादिराज कांची	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30571 18-07-13	मकान संख्या-32सी/7, सोलह मेन, मुनेश्वर ब्लॉक, बंगलौर
207365	सुधा. पी. एस. पुत्तासीददीयाह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25616 06-03-10	864 / 1, चौथा क्रॉस, मनोरयाना पल्या, बंगलौर
207366	सुधारानी प्रभू एस. जान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28693 08-03-12	शिव कृपा बिल्डिंग, जैन गल्ली अलांद तालुका, अलांद, गुलबर्गा
207367	सुधारानी गुदगनाट्टी कोदप्पा गुदगनाट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27854 08-04-11	मकान संख्या-88, राघवेन्द्र कालोनी, खासबाग पी.ओ., बेलगाँव
207368	सुधीर पुजारी चिदनन्दा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24664 22-05-09	हुनावाड डाकघर, बीजापुर तालुका
207369	सुधेन्द्र. टी टी. नागप्पाय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24607 18-05-09	सुधामा, 4 / 41, थेक्काट्टे, कुन्दापुर तालुका, उदुपी
207370	सुधीरगौडा पाटिल होनागौडा. बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26903 21-09-10	केसीत गाँव एवं डाकघर, हुक्केरी तालुका, बेलगाँव
207371	सुद्रिक दिप्ति उमेशचन्द्र उमेशचन्द्र भी सुद्रिक.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23820 04-04-09	एसएसआर एएमसी, इन्चाल डाकघर, साँदत्ती तालुका, शिकारीपुर तालुका
207372	सुफिया हुमुनाबद उसमांगनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30225 03-05-13	नजदीक बसावेश्वर सक्रल, लल्काल तालुका, बागलकोट, लल्काल
207373	सुगंधा कुमारी. एच हुवैय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2004	25361 18-01-10	पाँचवां क्रॉस, नया स्ट्रीट, कोल्लेगल तालुका, मुल्लूर, चमराजनगर
207374	सुगंधामाला शेदबाल्कर श्रीधर. जे. शेदबाल्कर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27818 08-04-11	संख्या-631, भोवी. कालोनी, अइनापुर ए/पी, अथानी तालुका, बेलगाँव
207375	सुगुना. डी.सी. चिक्कलिंगे गौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25890 12-03-10	डोड्डे गोवदन्ना कोप्पालू, मलावल्ली तालुका, मान्दिया
207376	सुगुरेश हीरेमथ बसवाराजा स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27428 25-03-11	बसावेश्वर किरानी स्टोर, लिंगासुगुर तालुका, रायचुर

207377	सुहारीनी सुलगांटे नागभुषण सुलगांटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24686 02-06-09	8-9-549, उदगिर रोड, सामने पुराना, सर्विस स्टैन्ड, बीदर
207378	सुहास हरी मोर हरी अनंदा मोर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30010 09-04-13	ए/पी-चाले, ताल-पंधारपुर, सोलापुर, पंधारपुर
207379	सुहासिनी मल्लीकार्जु नं. वाई.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26590 21-04-10	मकान संख्या एफ-2, गेओरगे फरनान्डेज कॉम्प्लेक्स, शिवनगर, बीदर
207380	सुहासिनी देवी.प्रसाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28868 18-04-12	4/73/68, गौरी सदन, लक्ष्मी नगर, शाहपुर, यादगिरि
207381	सुहासिनी अशोक मोटे अशोक सदाशिव मोटे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26070 19-03-10	श्रीनगर, पहला क्रॉस, धरवाड़
207382	सुजात अल्लीपुर अंदनागौड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25379 02-02-10	नरेगल पोलिस स्टेशन, नारेगल डाकघर, रॉन तालुका, गडग
207383	सुजाता बसवाराज सदानन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26034 19-03-10	शाहपुर कालोनी, बसवाकल्याण तालुका, हनागल तालुका
207384	सुजाता बसाप्पा करजागिकर बसाप्पा जी के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1992	26662 12-05-10	विजय महातेश क्लिनिक, शिरोल तालुका, नारागुन्ड तालुका, गडग
207385	सुजाता बिरादर विठल बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26696 29-05-10	चन्द्रभागा निवास बिरप्पा नगर, इन्दि तालुका, बीजापुर
207386	सुजाता गजारे अमृत राव. आर. गजारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27780 07-04-11	सी तीसरा 5/डी, पी.डबल्यू.डी क्वार्टर्स, विश्वेश्वर नगर, बेलगाँव
207387	सुजाता मदाराकल्ल बसानगौड़ा मदाराकल्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29735 03-09-12	नजदीक पीडबल्यू.डी, तालिकोटी गाँव एवं डाकघर, मुद्देबिहाल तालुका, बीजापुर
207388	सुजाता मोदी सिद्दान्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24665 22-05-09	विरबद्रेश्वर कालोनी, बी-बागेवडी, बीजापुर
207389	सुजाता नायकोदी हनुमन्ता नायकोदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27906 11-04-11	72, पहला मेन रोड शातिनगर (केशवपुर), हुबली तालुका, धरवाड़
207390	सुजाथा रमनगौड़ा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26533 12-04-10	प्लॉट संख्या-43, सेना नगर, दूसरा फेस तोरवी. रोड, बीजापुर
207391	सुजाथा नागनाथ राव.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27482 26-03-11	15-4-283, के पीछे केआरई होस्टल, कुम्बरवाड़ा क्रॉस, बीदर
207392	सुजाथा वाददर बसाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26144 20-03-10	इन्दि डाकघर, बीजापुर

207393	सुजाथा. आर.जी गंगाधर. आर.जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25583 05-03-10	मुलकालमुरु, रामपुर तालुका, चित्रदुर्ग
207394	सुजीत ज्ञानोबा गैकवाड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29827 30-10-12	मोरखान्दी गाँव एवं डाकघर, बसावकल्याण-तालुका, बीदर
207395	सुजीनी. बी.वी. बी.एल. नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26720 17-06-10	133/26, नन्दिनी रोड आर.एस. पाल्या, एम.एस. नगर तालुका, बंगलौर
207396	सुजीथ नाम्बीर गोपीनाथ नायर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26253 23-03-10	सौपरनीका, नजदीक महालिंगेश्वर मंदिर रोड उचीला डाकघर, उदुपी
207397	सुजनाना. वी. एस सजीवा पूजारी. जे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25678 12-03-10	9-1, वेनूर डाकघर, बेत्थंगड़े तालुका, दक्षिण कन्नड़
207398	सुकाशंथ पान्दूरंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25646 06-03-10	येंगुन्डा डाकघर, औराद (बी) तालुका, बीदर
207399	सुकिंधनूपा. एम.सी. विनोद कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25492 04-03-10	हीरियांगडी डाकघर, करकला तालुका, उदुपी
207400	सुकेशा कुमारी नारायण शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25746 12-03-10	कुक्कुजे, कादथाला, कारकला तालुका, उदुपी
207401	सुखीन अरालालेमथ रुद्रामुनी, एस. अरालालेमथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26671 19-05-10	नेकार ओनी, बंकापुर, शिगाँव तालुका, हावेरी
207402	सुकुमारा.एस सुबान्ना वेलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24772 04-06-09	मधुवनहल्ली रोड, के.आर.नगर, मैसूर
207403	सुलक्षणदेवी. शलीवन जोजाने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29037 05-05-12	संतोष निलाय, मकान संख्या 8-11-138-1/4, वेंकटेश्वर कालोनी लाफ रोड बीदर
207404	सुलोचना देवी. चक्रशाली बसवंतप्पा. सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26755 16-07-10	श्री राम नगर धरवाड़ तालुका
207405	सुमा के एस अजीथ कुमार के. एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29660 18-06-12	54/ए, कौलनहल्ली, हरादुरु डाकघर, पेरियपट्टना तालुका, मैसूर
207406	सुमा माथापाटी रुद्राय्या माथापटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24338 29-04-09	3045/ए3/1, रामपुर सीट, गुरलहोसूर, सौदत्ती तालुका, बेलगाँव
207407	सुमा पाटिल रायनागौड़ा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24882 08-06-09	बसावना कोप्पा, नायकेरूर, सौनदत्ती तालुका, बेलगाँव
207408	सुमा पाटिल फक्कीर गौड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29169 11-05-12	संख्या-89, अलालीकट्टी ओनी, हुबली तालुका, धरवाड़

207409	सुमा. के. जे जगन्नाथ. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23922 09-04-09	2/ए, चौथा क्रॉस, एफ ब्लॉक, जेपी नगर, मैसूर
207410	सुमा. एम मनीकयाम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24597 18-05-09	93, दूसरा क्रॉस, छठा मेन, शंकरनगर महालक्ष्मी लायौत, बंगलौर
207411	सुमा. आर. धांगड़े आर.एल. धांगड़े	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26157 20-03-10	मकान संख्या—जे 7/7, समुरे, वियासपुरी कोलोनी, हॉस्पेट, बेल्लारी
207412	सुमालता कादादेवारू विरभद्रय्या वी. कादादेवारू,	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27485 26-03-11	नया सेकंडरी स्कूल, भोज, चिक्कोड़ी डाकघर निपानी तालुका, बेलगाँव
207413	सुमालता नन्दीकोल शिवशंकरयप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28714 30-03-12	क्वार्टर संख्या—38/2, जी.एल.बी.एल.कालोनी कडुची रोड बंगलौर
207414	सुमालता. वाई कदेशप्पा. वाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26709 10-06-10	3728/ए-1, सातवां क्रॉस, कुवैम्पू नगर, एमसीसी बी ब्लॉक, दावनगेरे
207415	सुमालिनी. पी.एम मनोहरा. पी.ई.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24220 28-04-09	नजदीक गांधी सक्कल, चन्द्रगुट्टी डाकघर, सोरब तालुका, शिमोगा
207416	सुमन महाबलेश्वर. ए नं. भट.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24221 28-04-09	विनायक कालोनी, के पीछे स्माट्टे होटल, सिरसी तालुका, करवार
207417	सुमन भट ए नं. वी. रमेश भट.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25854 12-03-10	39/40, कट्टीगेनहल्ली, आर्टएफ डाकघर, येलहंका, बंगलौर
207418	सुमन मुराल काशीनाथ. एस. मुराल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28202 30-04-11	अनंतपुर पेटे, तालिकोटी गाँव एवं डाकघर, मुद्देबिहाल तालुका, बीजापुर
207419	सुमन एस पी पुट्टामडप्पा एस एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30400 25-05-13	5479, तीसरा मेन तीसरा क्रॉस, विजयनगर दूसरा स्टेज, मैसूर
207420	सुम नं. डी. पेन्नेकर देमप्पा. बी. पेन्नेकार.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23978 18-04-09	580, पुरावंत गल्ली, बीड़ी डाकघर, खानपुर तालुका
207421	सुमना पी एस सथीशचन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28794 11-04-12	मारदोल्ली, नारीकोम्बू डाकघर, पनेमंगलौर बटवाला तालुका, दक्षिणी कन्नड
207422	सुमन्ता एच नागप्पा एच	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29801 12-10-12	1106, हालुवेगालू गाँव एवं डाकघर, हरापनहल्ली तालुका, दावनगेरे
207423	सुमाश्री. टी टी. किन्नीरैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24312 29-04-09	6-2-73/21, विजयलक्ष्मी लायौत, रायचुर
207424	सुमाय्या जमाल सैयद कलीम उर्र रहमान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26762 27-07-10	1-7-224, सिंगार बाग, बीदर तालुका

207425	सुमाय्या शिरे नं. के के0 सिराजुद्दीन अंसारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25049 08-07-09	क्वाजी मंजिल, कल्याण नगर, पहला क्रॉस, किन्नाल रोड, कोप्पल
207426	सुमाय्या. जी. ए. अब्बास. जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26589 20-04-10	गुणदका डाकघर, वार्ड-मंजिल मकान, संपाजे गाँव सुल्लिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
207427	सुम्बे दिपक तोलाजी सुम्बे तोलाजी लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25557 05-03-10	नजदीक रंगराज अस्पताल, गजेन्द्रगाद, रॉन तालुका, गड्डग
207428	सुमेधा के ए के एस अनंथमुर्थी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30559 17-07-13	हीरेसारा, अरगा (पी), थिरताहल्ली तालुका, शिमोगा
207429	सुमेधा शिन्दे शिन्दे भीम राव.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24835 06-06-09	8-11-561, केड्डी, शरण नगर, नजदीक शरण उद्यान, बीदर
207430	सुमित्रा. डी. आर. रंगधामप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26786 19-08-10	टी.आर. नगर, चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग
207431	सुमित्रा रविन्द्र सिंह यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23786 04-04-09	लोहार गल्ली, मकान संख्या-8-8-32, गुलबर्गा
207432	सुम्मिया जाविद जाविद खान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25751 12-03-10	एमआइजी-47, 3 ए मेन क्रॉस, सुभाषनगर, मैसूर
207433	सुनन्दा सुबोध कुमार सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29485 25-05-12	4-5-122, मंगलवार पेट, रायचुलर तालुका
207434	सुनन्दा शरनप्पा लासोने.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25456 02-03-10	रत्नागिरि निलया, महेशनगर, 17-4-230, बीदर तालुका
207435	सुनन्दा मथ विराय्या आर हीरेमथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29734 03-09-12	विजय हाउसिंग कालोनी कालेज रोड बीजापुर तालुका
207436	सुनन्दा पाटिल सिद्दालिंगप्पा बी पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29264 16-05-12	महालिनपुर, विद्यानगर, वसावेश्वर सक्रल डाकघर मुधोट बागलकोट
207437	सुनयना. जे जयरामु. वी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27604 30-03-11	4156/6, पुराना दसवां क्रॉस, इक्कीसवां मेन सुब्रमन्या नगर, बंगलौर
207438	सुन्धु. एम.ए अनंदा एम.आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25808 12-03-10	1-15, गुथिगारू गाँव, मलकाजे मकान, कमिला डाकघर सुल्लिया तालुका, दक्षिण कन्नड़
207439	सुनीला कुमार हेब्बी संगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25148 26-09-09	विद्या नगर, वार्ड संख्या-23, मुरंकेरी, नजदीक आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बीजापुर
207440	सुनीता पाटिल ओगोप्पा पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24864 06-06-09	सी/ओ. ओ. जी. पाटिल, बीजारगी डाकघर, बीजापुर

207441	सुनीता तिराकन्नानवर यल्लाप्पा भी तिराकन्नानवर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29570 12-06-12	बसावेश्वर नगर सी ब्लॉक, हावेरी तालुका
207442	सुनीथा. आर रंगनाथप्पा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25819 12-03-10	नयायगेरे, मगोडु डाकघर, सिरसी तालुका, टुमकुर
207443	सुनील गनपत राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29115 07-05-12	संख्या 17-4-322, मैलूर रोड सीएमसी कालोनी गांधी गूज डाकघर, बीदर
207444	सुनील हलाकुर्की चिनप्पा हलाकुर्की	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26968 16-11-10	रंगनाथ नगर, नजदीक एपीएमसी, बादामी तालुका, बागलकोट
207445	सुनील कुमार कखान्दाकी वालसिंह कखान्दाकी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25228 14-10-09	कोरवर डाकघर, सिंदागी तालुका, बीजापुर
207446	सुनील कुमार वशिष्ठ चेतन एस वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29906 04-01-13	रेड्डी बिल्डिंग पॉचवां क्रॉस, मारुथे निलया, बेगुर रोड होंगा सान्दा बंगलौर
207447	सुनील कुमार. जी गुरुवय्या. एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24605 18-05-09	पॉचवां क्रॉस, ब्रह्मा बैदार कला नगर, किन्नीमुल्की डाकघर, उदुपी
207448	सुनील कुमार. जे. टी. जे.आर. थिम्मरायप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25170 06-10-09	श्री. रामपुर, होसादुर्ग तालुका, चित्रदुर्ग
207449	सुनील मल्लाप्पा कान्ति मल्लाप्पा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2002	25338 21-12-09	वी.णा निलया, गिरिश नगर कालोनी, जमखादी तालुका, बागलकोट
207450	सुनील मुंदरवाडी मनोहर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27312 23-03-11	शिवबसाउ नगर, सौंदत्ती तालुका, बेलगॉव
207451	सुनील प्रकाश मारतिस इ.बी. मारतिस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29587 12-06-12	बेलमान डाकघर, करकला तालुका, उदुपी
207452	सुनील वाई बादिगेर यचरप्पा ए बादिगेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29963 06-04-13	गाँव एवं डाकघर—कोतुमाचागी, तालुका एवं गडग, कोतुमाचागी
207453	सुनील. के. आर. रामकृष्ण गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27719 06-04-11	सीएनएस-101, कमानहल्ली गाँव के.आर.पेट तालुका, मान्ड्या
207454	सुनीलकुमार सरंगामथ प्रभाय्या सरंगामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29981 06-04-13	पीएचसी क्वार्टर्स हनामानल, तालुका—कुस्तगी जिला कोप्पल, हनामानल
207455	सुनीलकुमार सिद्दापुर सिद्दप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25758 12-03-10	प्लॉट संख्या-318, निसारगा लायौत, कल्याण नागरकरनाटका वि.वि., धरवाड़
207456	सुनीलकुमार. ए नं. कोटेगर एन बी. कोटेगर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24920 09-06-09	मकान संख्या 304, सातवां क्रॉस, गमनागट्टी रोड, शिवानन्द नगर हुबली, धरवाड़

207457	सुनीता तुक्कारेड्डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24704 02-06-09	13-3-165, एस.पी. बेंगल, लदागेरी, शिवपुर कालोनी, बीदर
207458	सुनीता हीरेमथ चन्द्रकान्थस्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29637 14-06-12	शिवगंगा बिल्डिंग, नजदीक मोडर्न स्कूल, सारस वातपुर धरवाड़
207459	सुनीता. बी. हुल्लाली भुपाल डी हुल्लाली.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23765 03-04-09	घातप्रभा डाकघर, गोकक तालुका, बेलगॉव
207460	सुनीथा गोतुर नीलकंठप्पा एस गोतुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28728 02-04-12	प्लॉट संख्या-11, जाशिगल्ली, हुनगुन्ड
207461	सुनीथा कंचीना कोटे परशवानथ कंचीना कोटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27935 13-04-11	विजयनगर, नजदीक एपीएमसी, हुविनादगली तालुका, बेल्लारी
207462	सुनीथा. जी. के कर्नाम्पा. जी.आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25734 12-03-10	एस. नेरालकेरे, हॉसदुर्ग तालुका, चित्रदुर्ग
207463	सुन्के राहुल बाबूराव सुन्के बी अन्नाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29310 18-05-12	संख्या 67/1, मंगेश्वर कालोनी, अंचर्गाव करवीर तालुका, कोल्हापुर
207464	सुप्रभा शेड्डी शाशिधर शेड्डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25968 18-03-10	शंकरपुर रोड, सदादी होसमाने, पंगाला डाकघर, उदुपी
207465	सुप्रभा. के सुधाकर. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27725 06-04-11	शिव सादना कम्पाउन्ड कुन्जीबेट्टू, उदुपी
207466	सुप्रभा.एम.एस. एम. समबाय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28133 26-04-11	पृथ्वी. मकान संख्या 883, पहला क्रॉस, कोप्पल
207467	सुप्रीत बसावराज कादली बसावराज भी कादली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30368 21-05-13	गाँव खान्नूर डाकघर शेलवाड़ी तालुका, नवालगुंड
207468	सुप्रीता लक्ष्मणशेड्डी डी. लक्ष्मण शेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28717 30-03-12	दानापुर हॉस्पेट तालुका, बेल्लारी
207469	सुप्रीथ एस एम शिवकान्थ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30470 07-06-13	संख्या-4, पहला क्रॉस, चौथा ब्लॉक, नागादेवानहल्ली, जनाना भारथी लायौत बंगलौर
207470	सुप्रीथ . एम. जे. डी. जयरमय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26623 27-04-10	एमआइजी-7, अठारहवां क्रॉस, कुवेम्पू नगर, हस्सन
207471	सुप्रीथा. बी बी.सी. बोरालिंगैह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24233 28-04-09	141, चौथा मेन, नौवां क्रॉस, टी.आर. मिल चराजपेट, बंगलौर
207472	सुप्रिया हर्षवर्धन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29509 26-05-12	1-30/1-सी, नजदीक टी ए पटोस अस्पताल आनंद नगर, गुलबर्गा

207473	सुप्रिया अचार्य ईश्वर अचार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29083 05-05-12	वश्वेश्वरा निलया, सिम्पी लिंगन्ना रोड, शान्ति कालोनी, कोप्पल
207474	सुप्रिया भट गनपति भट.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27581 30-03-11	निर्मल नगर, दान्देली, हलियाल तालुका, उत्तर कन्नड़
207475	सुप्रिया चौहान स्वर्ण चौहान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28878 18-04-12	जीएमटीडी बीएसएनएल भवन, भोटा चौक, हमीरपुर
207476	सुप्रिया दाप्पीन गुरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28400 09-06-11	एफ-99, यू.के.पी. अलामट्टी, डी.एस.बी. बगेवाड़ी तालुका, बीजापुर
207477	सुप्रिया कागले शिवलिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27825 08-04-11	प्लॉट संख्या-78, सेक्टर संख्या-09, एम.एम. एकसेसन अंजीनेया नगर, बेलगाँव
207478	सुप्रिया मंगलवेधे श्रीधर श्रीधर बी. मंगलवेधे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27621 01-04-11	प्लॉट संख्या-7, दूसरा क्रॉस, परिजत कालोनी, भाग्य नगर, बेलगाँव
207479	सुप्रिया नाम्बियर गोपीनाथ.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26252 23-03-10	सौपर्नीका, नजदीक महालिंगेश्वर मंदिर रोड, उचिला डाकघर, उदुपी
207480	सुप्रिया नरसागौदर शिवगौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26281 23-03-10	286, बसावनगल्ली, शेदबाल डाकघर अथानी तालुका, बेलगाँव
207481	सुप्रिया एस शेट्टी के सीताराम शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2001	29945 13-03-13	यामला उड्डालगुड्डे, बरकुर डाकघर, उदुपी
207482	सुप्रिया सलाल्ली डी.बी. सलाल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24063 21-04-09	मकान संख्या-561 बी टाइप, दूसरा सेक्टर, कुद्रेमुख डाकघर मुदीगेरे तालुका, चिकमंगलूर
207483	सुप्रिया शैख लालासाब शैख	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28388 09-06-11	क्युरेशी कालोनी, तोरवी. रोड, बीजापुर
207484	सुप्रिया. पी पुट्टास्वामी. डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27309 23-03-11	वाई.के. मोले, अम्बाले डाकघर, यालंदुर तालुका, चम्राजनगर
207485	सुप्रिया. एस सुधाकर. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25793 12-03-10	मकान संख्या 8-645, जेएलबी रोड कुन्दापुर डाकघर एवं तालुका, उदुपी
207486	सुप्रिया. टी. एस सुरेश बाबू. टी. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26668 17-05-10	मकान संख्या 116, अस्सी फीट रोड, एसबीएम कालोनी, बंगलौर
207487	सुप्रिया. वी वी. सदानन्दा होल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25969 18-03-10	लक्ष्मी कृपा, नाना साहेग रोड वोदेरहोबली, कुन्दापुर
207488	सुप्रिया. एस. कल्लीयानपुर सुरेश बी. कल्लीयानपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24311 29-04-09	मकान संख्या 87/ए, तीसरा क्रॉस, अचुथानगर, परकाला डाकघर, उदुपी



207489	सुरावसी राहुल रावसाहेब सुरावसी रावसाहेब बन्दु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25200 09-10-09	मकान संख्या 4824/54, नजदीक पाट्टेड अस्पताल, अयोध्या नगर, बेलगांव
207490	सुरेखा बिरादर भीमनगोड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25351 06-01-10	एमआइजी-2 बागलकोट रोड जालानगर, बीजापुर
207491	सुरेखा ब्याली आनन्द आनंद बी न्यामगूड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29897 24-12-12	न्यू सीद्दमुत्या मन्दिर, कोस्ती गल्ली, जमखांडी, बागलकोट
207492	सुरेखा हनमन्त विट्ठल सेवाले हनमन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30615 26-08-13	ग्राम एवं डाकघर पलाशी, तहसील पन्डारपुर सोलापुर, महाराष्ट्र
207493	सुरेखा बी.ए. अंजनिा. एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25901 15-03-10	बागुर डाकघर, होस्टुर्गा तालुका, चित्रदुर्गा
207494	सुरेन्द्र पाल दिवान चन्द शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26852 01-09-10	बापुजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शिमोगा
207495	सुरेन्द्र सुगप्पा. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25303 27-11-09	बल्लातगी डाकघर इन्दि तालुका रायचुर
207496	सुरेन्द्र कुमार. डी दक्या नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24984 12-06-09	थयाकना हल्ली डाकघर कुडलिगी तालुका बेल्लारी
207497	सुरेन्द्र मोहन शुक्ला प्रकाश नारायण शुक्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28456 04-07-11	सेक्टर नं. : 09, एम.एम. एक्शंसन, प्लॉट नं. : 21111. बेलगांव
207498	सुरेश बीरादर संगप्पा बीरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26527 08-04-10	नागरदिन्नी डाकघर बी. बगेवाड़ी तालुका, बीजापुर
207499	सुरेश हंजागी भीमराया एस. हंजागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24964 10-06-09	शिवयोगी नगर, सीएमसी 3162, नजदीक बीएलडीएएस इंजीनियरिंग
207500	सुरेश कुमार इन्दर पाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28982 27-04-12	वी.पी. नागराम तहसील एवं उना चीमचाल
207501	सुरेश पाटिल सावन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26524 08-04-10	बसतवाड़ डाकघर रायबाग तालुका, बेलगांव
207502	सुरेश पुजारी बासप्पा पुजारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29964 06-04-13	थायकर ओनी मकान, 567 एवं 662 तेलसंग तालुका अठनी तेलसंग
207503	सुरेश राम पटेल राम नेहोरे पटेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27013 07-01-11	कोडियाल हॉस्पेट, कुमारा पट्टनम, राने बेन्नुर तालुका, हावेरी
207504	सुरेश राव. एम. वासुदेव राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1988	26922 29-09-10	बल्लाल सदन, वी.बी. रोड, मकान संख्या-10-119, माल्पे डाकघर, उदुपी

207505	सुरेश राठौड़. पी पुलिसंग राठौड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25765 12-03-10	मादाभावी., एल. टी-2, बीजापुर तालुका
207506	सुरेश. एस शिवान्ना.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27392 25-03-11	डिग्गी डाकघर, शाहपुर तालुक, यादगिरि
207507	सुफ्राज गदेकाय गुलाब गदेकाय.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25693 12-03-10	मकान संख्या 1567, हेबाल डाकघर, हुक्केरी तालुका, बेलगांव
207508	सुरवासे द्वीपमाला. बी सुरवासे बी कृशनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25280 06-11-09	बीएलडीइ रोड. नजदीक नागुर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गेट, बीजापुर
207509	सुरवासे संदीप कालीदास सुरवासे कैलास रन्बा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24129 22-04-09	नलातवाड़ डाकघर, मुद्देबिहाल तालुका, बीजापुर
207510	सुर्यवंशी अविनास आनंदराव सुर्यवंशी ए श्रीपाटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23779 03-04-09	एसएसआर एएमसी, इन्चल, सौंदत्ती तालुका, बंलगॉव
207511	सुर्यवंशी संतोष तानाजी तानाजी ए सुर्यवंशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23953 13-04-09	नजदीक इयरली ट्री, जोगिमट्टी रोड, चौथा क्रॉस, चित्रदुर्ग
207512	सुर्यवंशी अभिजीत आनंद एस आनंद शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29214 14-05-12	प्लॉट संख्या 403, डी-टावर, कत्राप, बदलापुर (पश्चिम) अंबरनाथ तालुका, ठाणे
207513	सुशांत जयप्रकाश. एल. सांगा,	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25626 06-03-10	मकान संख्या 1-2-6, सुल्तानपुर गल्ली, नजदीक सिंडिकेट बैंक अलालंद तालुक, गुलबर्गा
207514	सुरेश कुमार शिवप्पा घुले.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25212 13-10-09	प्लॉट संख्या, 42, दिव्या निलया, महादेव कालोनी शिववनपगर (दक्षिण), बीदर
207515	सुशीला मरी. एस. शंथप्पा. आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28141 26-04-11	मकान संख्या-133, चौब्रिकोपलू, मेलागोदू हस्सन
207516	सुषमा बी एस बाबूराव शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29894 24-12-12	मकान संख्या-30-192, सहारा निवास, सर्वोदय कालोनी, टिप्रानी, बसावकल्याण, बीदर
207517	सुषमा बरकार चकार बोरकार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24270 28-04-09	प्लॉट संख्या 275, हनुमान नगर हनुमान नगर, बेलगांव
207518	सुषमा चन्नाशेट्टी महेश बी चन्नाशेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29429 23-05-12	विद्या नगर चौथा क्रॉस, बादामी डाकघर एवं तालुका, बागलकोट
207519	सुषमा हुवी.न शेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29853 05-11-12	नटराजा लायौट हरिहर रोड हरापनहल्ली, दावनगेरे
207520	सुषमा मगदुम श्रीकांत.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26286 23-03-10	प्लॉट संख्या-51, रूकमिनी नगर, बेलगांव

207521	सुषमा मरीहाल बलाप्पा एस मरीहाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27607 01-04-11	मकान संख्या 1399/बी, नजदीक रेलवे स्टेशन, घाटप्रभा, ए/पी गौकाक तालुका, बेलगांव
207522	सुषमा पशुपतिमाठ विरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28759 05-04-12	अल्मेल गाँव एवं डाकघर, सिंदगी तालुका, बीजापुर
207523	सुषमा पी. के प्रभाकर. वी.. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26038 19-03-10	शाहाबाद रोड राजापुर, गुलबर्गा
207524	सुश्रुथा. सी.के. चन्द्रशेखर. आर. कम्मर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26747 03-07-10	मकान संख्या 664/25, मौनेश्वर बदावने, नीतुवल्ली, दावनगेरे
207525	सुस्मिथा एम. एस एम. के. श्रीनिवासन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24827 06-06-09	फ्लैट संख्या-बीएफ001, बी ब्लॉक, चौथा क्रॉस नदमनाभानगर, बंगलौर
207526	सुतार अनिरुद्ध दत्ताराया दत्ताराया एम सुतार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24950 10-06-09	के द्वारा शंकराप्पा. के. मल्लारददी, यलावल्ली शिराहल्ली तालुका, गडग
207527	सुतार अविनाश बाल्कृष्णा सुतार बाल्कृष्णा बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24143 22-04-09	मृतुन्जय नगर, बैल्लोंगल तालुक, बेलगांव
207528	सुतार अविनाश प्रकाश सुतार प्रकाश भौसो.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24085 21-04-09	इ1 बिटल बंगलॉ, प्लॉट संख्या-7, राम नगर, निपानी, चिकोडी तालुका, बेलगांव
207529	सुतार दिलदार बाबू बाबू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28391 09-06-11	मकान संख्या-78, अक्की कालोनी, आश्रम रोड, बीजापुर
207530	सुतार मल्लिकार्जुन राम चन्द्र	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28949 26-04-12	नजदीक जेडपी कन्ड प्रायमरी स्कूल, बोरगी डाकघर जोथ तालुका, सांगली
207531	सुतार प्रमोद श्रीकृष्णा सुतार एस सिद्रमप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24520 12-05-09	जोरापुरपेट, बंगार गल्ली, बीजापुर
207532	सुवर्णा बासन्ना कात्तीमनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29208 14-05-12	नरकाला दिन्नी, नवाली डाकघर, लिंगासुरु तालुका, रायचुर
207533	सुवर्णा बी रामप्पा एच बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30081 18-04-13	मकान संख्या 15 के पीछे एपीएमसी यार्ड, इल्कल, तालुका हुंगुंड, इल्कल बागलकोट
207534	सुवर्णा के के नागबसाय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29248 15-05-12	इडबल्युएस-141, छटा क्रॉस, नवानगर हुबली
207535	सुवर्णा. सी चन्द्रकान्त. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26043 19-03-10	धन्नुरा (आर), बासवकल्याण तालुका, बीदर
207536	सुवर्णा. जी. एस पी. शिवन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25077 29-07-09	मकान संख्या 65, दोददाबेत्ताहल्ली लायौत, विद्यारन्यपुरा डाकघर, बंगलौर

207537	स्वामी अश्विनी शंकरराव एस विश्वनाथ स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23680 01-04-09	मकान संख्या 12-2-71, गांधी गुंज डाकघर, हुरुगेरी तालुका, बीदर
207538	स्वामी प्रशांत निजागुनी स्वामी एन गुरालिंगय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23736 02-04-09	एसएसआर एएमसी, इन्चाल, सौंदत्ती तालुका, बेलगॉंव
207539	स्वामी विजयश्री शंकर शंकर जी स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29514 26-05-12	लिंगनूर गाँव एवं डाकघर, मीराज तालुका, सांगली
207540	स्वामी चन्नाम्मा पंचय्या स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर	30604 19-08-13	मकान संख्या 23 पडासावली, तालुका अलांद, गुलबर्गा
207541	स्वप्ना सिद्धमप्पा. वाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26166 22-03-10	मकान संख्या 9/5/726, कस्तुरी निवास, के पीछे एयरफोर्स, बीदर
207542	स्वप्ना गुन्जाल जी. नागराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24544 13-05-09	मकान संख्या 77, दूसरा वार्ड, हुविना हदागल्ली तालुका, बेल्लारी
207543	स्वप्ना विलास सबनीस विलास. जी. सबनीस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26284 23-03-10	मकान संख्या 258/ए, टाउनशिप, डंडेली हलियाल तालुका, करवर
207544	स्वर्णलथा एस नरसिम्हा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29244 15-05-12	लक्ष्मी रवालनाथ के पीछे जंसपेक्सन करकाल तालुका, उदुपी
207545	स्वरूपा. पी पी. कृष्णा शास्त्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24216 28-04-09	मकान संख्या 152, प्रशांथ नगर छटा मेन रोड बंगलौर
207546	स्वरूप मौर्य के. गणेशराव मौर्य.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24500 11-05-09	घनश्याम (एच), सामने गणपति मंदिर, कल्लीयाणपुर, संधेकट्टे, उदुपी
207547	स्वाथि सतीश कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29935 07-03-13	डी. संख्या-10-121-सी, पल्लवी., विद्या नगर कोडनगल्लू डाकघर, मुदबिदरी
207548	स्वाथि एम.पी एम.जे. प्रसन्ना कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28904 20-04-12	मकान संख्या 6, पहला क्रॉस, बीसवां मेन, बीटीएम लायौत, पहला स्टेज, तावरेकेरे डाकघर बंगलौर
207549	स्वाथि ए रामुलु ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29638 14-06-12	प्लॉट संख्या-74, एचएमटी सथावहना नगर, केलामंदिर रोड केपीएचबी कुकातपल्ली डाकघर रंगा रेड्डी
207550	स्वाथि बसावराज हुराकदली बसावराज. एस. हुराकदली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28318 25-05-11	मकान संख्या 46, पहला तल, चौथा क्रॉस, चौथा मेन गलयारा बालका महालक्ष्मीपुरम बंगलौर
207551	स्वाथि सी परमेश्वर शास्त्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29372 21-05-12	श्री कृपा, हॉसमर डाकघर, करकाल तालुका, उदुपी
207552	स्वाथि सी चिक्कलिंगिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29722 04-08-12	डीवाईएसपी डीएपी पोलिस क्वाटर्स, सागर रोड शिमोगा

207553	स्वाधि शर्मा एस.एम. शर्मा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30215 29-04-13	मकान संख्या 341, मनाशिवनी पहला मेन, दूसरा क्रॉस, टी रमैयाह गार्डन, बन्नरगट्टा रोड, बंगलौर
207554	स्वाधि. एम आर. महाबाला शेड्डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25747 12-03-10	एमआइजी-24, सौ फूट रोड, विनोबनगर, शिमोगा
207555	स्वाधि. एस एस. श्रीनिवासा रोव.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24934 10-06-09	मकान संख्या 66/ए, श्रीवात्सा, बारहवां क्रॉस, विरुपाक्षपुरा विद्यारन्यपुरम, बंगलौर
207556	स्वाधि. वी. अजय. जी. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28459 04-07-11	मकान संख्या 34, नेक्कीलादे उप्पीनांगड़े, पुट्टुर तालुका, दक्षिण कन्नड
207557	स्वाति शिवगौड़ा चौगुले शिवगौड़ा एम चौगुले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30468 07-06-13	गाँव एवं डाकघर टारडाल, तालुका हात्कांगले, कोल्हापुर
207558	स्वाति सोमानी प्रहलाद प्रहलाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30217 29-04-13	167, वार्ड संख्या 8, मारवाड़ी गल्ली, बागलकोट
207559	स्वेता राम कुमार वशिष्ठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30275 06-05-13	मकान संख्या 222, थुब्राहल्ली, वरथुर मेन रोड भिटेफिल्ड, बंगलौर
207560	स्वेता गैकवाड शिवाजी राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28803 13-04-12	अमृत नजदीक चिल्ड्रेन पाक एक्सॅसन क्षेत्र. गोकाक तालुका, बेलगांव
207561	स्वेता गुग्गारे टिप्पान्ना गुग्गारे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27363 24-03-11	बसाव नगर, अथानी तालुका, बेलगांव
207562	स्वेता कखांदकी श्रीशैल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29880 17-12-12	इडबल्युएस-143, हुदको कालोनी, बागलकोट रोड जलानाघर, बीजापुर
207563	स्वेता रेवांकर सतीश रेवांकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25353 07-01-10	प्लॉट संख्या 10, दत्ता मंदिर, शांतिनगर, एमजी रोड तिलकवाड़ी, बेलगांव
207564	स्वेता शेरावत जय राम शेरावत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28783 11-04-12	नजदीक पीएन बैंक, नांगल चौधरी नारनौल, मोहिन्दर गढ़
207565	स्वेता शिन्दे सुरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29606 14-06-12	अंकाली गाँव एवं डाकघर, चिक्कोड़ी तालुका, बंलगांव
207566	स्वेता. सी. डिंडुर शन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26171 22-03-10	मकान संख्या 20, छटा ए बीटीएम लायौत पहला स्टेज, अनेकल तालुका, बंगलौर
207567	स्वेथा मल्लीनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30286 07-05-13	मकान संख्या 1-1187/1, गुंज कालोनी, नजदीक गुंज बस स्टैन्ड, गुलबर्गा
207568	स्वेथा मंजेगौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25661 08-03-10	मकान संख्या 805, छटा क्रॉस, टी. के. लायौत, जनाथा नगर, मैसूर

207569	स्वेथा भीमाशा पुजारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26951 29-10-10	मकान संख्या 1-12-60/60, डाड्डे कालोनी, रायचुर
207570	स्वेथा हीरेमाथ सुभास हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28118 25-04-11	दूसरा बैच, बेटागेरी गाँव एवं डाकघर, गडग
207571	स्वेथा के एस श्रीधर के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28867 18-04-12	मकान संख्या 17/348, मैपाडे रोड उलियाथाडका, माधुर डाकघर, कासरगोड तालुका
207572	स्वेथा मगगौड़ा परमेश्वरप्पा. एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28002 18-04-11	मकान संख्या 826 एफ, विजयनगरा बदावाने, हुविना हदागल्ली, बेल्लारी
207573	स्वेथा एस शामसुन्दर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30432 29-05-13	मकान संख्या 228, मुनेश्वर ब्लॉक, देवी.नगर नागशेट्टाहल्ली, बंगलौर
207574	स्वेथा. अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25428 26-02-10	मकान संख्या 8-11-604, वेंकटेश कालोनी, केंडबी रोड बीदर
207575	स्वेथा. एच.पी. एच. प्रनेषा शेट्टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25589 05-03-10	मकान संख्या 555, पाँचवां मेन, गोडावारी स्ट्रीट, पाइपलाइन, श्रीनगर, बंगलौर
207576	स्वेथा. जे लक्ष्मणा रेड्डी. जे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24066 21-04-09	मकान संख्या 1567, सी/88, कुवेम्पु नगर, सिरुगुप्पा तालुका, बेल्लारी
207577	स्वेथा. पी पी. पम्पापथी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23737 02-04-09	मकान संख्या 370/46, पाँचवां क्रॉस, दूसरा हरापनहल्ली, दावनगेरे
207578	स्वेथा पी. एस शिवमूर्ती. पी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25915 15-03-10	टी.ए नं. कोटे, चल्लाकेरे तालुका, चित्रदुर्ग
207579	स्वेथा. एस आर. श्रीनिवासा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25540 05-03-10	बी 49, केपीडबल्युडी क्वाटर्स, एफए, जीवनभीमानगर, बंगलौर
207580	स्वेथा. आर. बरातक्के राजशेकर. आर. बरातक्के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25975 18-03-10	नजदीक बसावश्वर मंदिर, दोड्डापेट, रानेबेन्नुर तालुका, हावेरी
207581	स्वेथारानी. एल लक्ष्मीनाराण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28502 26-07-11	के द्वारा एनकेजे एएमसी, महिला होस्टल, सिद्धारूध मठ, गुम्पा तालुका, बीदर
207582	सैयद बाशिरुद्दीन सैयद मोइनुद्दीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23732 02-04-09	एलआईजी 66, पहला फेस, आदर्श नगर, गुलबर्गा
207583	सैयद इब्राहिम सैयद इमाम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26156 20-03-10	कारेकट्टे, चेन्नागेरी तालुका, दावनगेरे
207584	सैयद इमरान हाशमी सैयद युसुफ हाशमी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23729 02-04-09	मकान संख्या 2-5-56, पन्साल तालिम हारा ताजिया, पन्साल तालिम, बीदर

207585	सैयद मुसरफ़ सैयद अशरफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28288 25-05-11	मकान संख्या-18-4-95/16, बद्रुद्दीन कालोनी, चिद्री रोड, बीदर
207586	सैयद अमरी नं. बी. के. सैयद अल्लाह बक्शी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27744 06-04-11	विजयनगर, एक्सॅसन, पहला मेन, दूसरा क्रॉस हरिहर तालुका, दावनगेरे
207587	सैयद बुशरा सैयद अब्दुल सलाम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30109 19-04-13	2/254, फीश बिल्डिंग, बाबा गार्डेन रोड कुर्नुल, अदोनी
207588	सैयद दुर्रे सदाफ सैयद शौकत हुसैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29151 11-05-12	मकान संख्या 7-1-17/18, तालावाड़ी गाँव एवं डाकघर, बीदर
207589	सैयदा मुनीज हाशमी सज्जाद अहमद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29996 08-04-13	मकान संख्या, 19, तीसरा मेन, वाड़ी-इ-हुडा, बयपास रोड, शिमोगा
207590	सैयदा निशांत मोहम्मदी. सैयदा एमडी ए पाशा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24999 18-06-09	मकान संख्या 7-851/2, नयामोहल्ला दर्गा रोड, गुलबर्गा
207591	सैयदा रूपीया थाबुसुम सैयद एस हुसैनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30545 09/07/13	मकान संख्या 79, मस्जिद मोहल्ला, नरसिम्हाराजपुरा चिक्कमंगलोर
207592	सैयदा सादिया रूखसार सैयद रहमथुल्लाह एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24966 10-06-09	अर्मुगन-ई-शरिफ, तीसरा मेन, पन्द्रहवां क्रॉस, विनोभानगर, दावनगेरे
207593	सैयदा सीमा निशांत सैयद जाफर हुसैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29150 11-05-12	मकान संख्या 2-1-156, सिद्धि तालिम, सामने उर्दू हल्ली, बीदर
207594	सैयद शाज अंजुम सैयद बंधू मियाँ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26983 26-11-10	मकान संख्या 7-771, गुन्ज रोड एमआईजे गौरी, गुलबर्गा
207595	सैयदजमाल खाजानियाँ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24571 14-05-09	फेरिजाबाद डाकघर, गुलबर्गा
207596	सद्द्या अमीना मादनी मोहम्मद उमर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25750 12-03-10	एलआईजी-11 96, दूसरा क्रॉस, केएचबी कालोनी गोपाला, शिमोगा
207597	टी. नन्दिता टी. मुरुगेन्द्र स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28884 20-04-12	एलआईजी-298 क्रॉस 707, पहला तल चौथा फेस येलेहंका नया शहर बंगलौर
207598	टी.जी. काव्या. टी.एम. गुरुमुर्ती.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25985 18-03-10	श्री सिन्धुरा, विश्वेश्वरैयाह रोड, विद्यानगर, हस्सन
207599	ताबास्सुम अब्दुल वजिद.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25883 12-03-10	मकान संख्या 10, इरानी बिल्डिंग, नजदीक डाकघर वादी (जक्शन), चित्तापुर तालुक, गुलबर्गा
207600	तड़कासे संस्कीर्ति मोहन टी मोहन चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29614 14-06-12	एसभी टोरली गुरुकुल रोड बीजापुर

207601	ताडमोड आरिफ सरदार सरदार.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23932 13-04-09	कल्याण नगर, नजदीक राघवेन्द्र मंदिर, सिंदागी तालुका, बीजापुर
207602	ताफीम साना के एम डी सनाउल्लाह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28869 18-04-12	मकान संख्या-1-8-53, दिग्गी बासे रोड, गांधी चौक, शाहपुर तालुका, यादगिरि
207603	ताघवेन्द्र. एम. एस सत्यनारायण. ए.एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25290 27-11-09	मकान संख्या-74, लीलावथी एक्सेशन, पहला क्रॉस, पहला मेन माडुर डाकघर एवं तालुका, मान्ड्या
207604	ताज अहमद नूर अहमद नूरअहमद डोंगरगॉव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25230 15-10-09	कोहल्ली डाकघर, अथनी तालुका, बेलगॉव
207605	ताक्कालाकी माल्लीनाथ ताक्कालाकी इरागौदा चन्द्रम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28694 09-03-12	एमआईजी-7, सामने एनसीसी कार्यालय, सोलापुर रोड, के. एच.बी. कालोनी, बीजापुर
207606	ताकमोंगे प्रवारा दत्तात्रेय दत्तात्रेय महादेव ताकमोंगे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25509 04-03-10	मकान संख्या-32, श्रेया अस्पताल, बावासार नगर, सामने मानस रेसिडेन्सी, बीजापुर
207607	ताले प्रतिभा प्रभाकर बिरादर विजयकुमार आर	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर 1999	28505 02-08-11	आयुष निलाया, बी/657, कीर्ति नगर, नजदीक श्याम स्कूल, बीजापुर
207608	तामबोली गजाला अमीन बाबूलाल तामबोली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30094 18-04-13	3/20 शिवाजीनगर, सात रास्ता, मोदी सोलापुर
207609	तामबोली नदीम दिलदार तामबोली दिलदार मकबुल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30617 27-08-13	ए/पी, बम्बाबाडे, तालुक-शाहुबाडी, कोल्हापुर
207610	तामबोली समीना तामबोली समीर रज्जाक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30507 19-06-13	गोम एवं डाकघर-गोन्डावाले बीके, तालुक-मान, सतारा, गोन्डावाले बीके
207611	तानाजी. एस. पाटिल पाटिल शामराव धोनी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25059 17-07-09	मृतुन्जय नगर, बैलहोंगल तालुक, बेलगांव
207612	तानावाडे शैलेश शिवाजी तानावाडे एस महाडु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24472 11-05-09	बीभीपीएस लडका हॉस्टल, बगालकोट
207613	तान्डाले छिन्मय आत्माराम कृष्णाजी टंडेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28975 27-04-12	मकान संख्या-210 (ए-बी) 211, कृष्णा नगर, गोलानान्जी हिल रोड सेवारी मुंबई
207614	तन्मय. के. अचार्य अचार्य. ए. नं. के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25105 26-08-09	मकान संख्या-377/5, दूसरा क्रॉस, अनेकल रोड, अत्तीबेले, अनेकल, बंगलौर
207615	तनुजा होसामथ सोमशेखर बी होसामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25566 05-03-10	नया अशोक स्टोर्स, गांधी सक्रल, मुधोल तालुक, बगालकोट
207616	तानवाडे पूजा सुरेश टी सुरेश पन्छप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29020 27-04-12	संख्या 03 योगीनाथ सोसायटी, शेल्मी उत्तर सोलापुर तालुक, सोलापुर



207617	तान्या लल्ल अविनाश चन्द्र लल्ल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27659 02-04-11	21 किलोमीटर, कनकपुरा, उदयपुरा, बंगलौर
207618	तान्जीन अयीशा एस. ए अब्दुल वजीद एम. एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30139 22-04-13	मकान संख्या-2-15, बाय पास रोड, शनिवारासांथे, सोमवारापेट (टी), कोडागु (डी), मदीकेरी
207619	तापदिया स्वाति नन्द कुमार नन्द कुमार जी तापधा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28739 02-04-12	टाडे टी इन्टरप्राइजेज, गोवाले गल्ली बरशी तालुक, सोलापुर
207620	तरांगे प्रशांत सम्पतराव सम्पतराव एच तरांगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24729 03-06-09	रत्नात्रेय बिल्डिंग, एस.टी. खोट कालोनी, शांतिनगर सामनेवाडे डाकघर चिकोडी तालुक, बेलगाँव
207621	तरांगिनी चन्द्रकवाथे चन्द्रगुप्ता सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25528 04-03-10	मकान संख्या-8-10-65, के पीछे अक्कामहादेवी. कॉलेज रोड,
207622	तारिका एस बंगेरा सुब्बाय्या ए बंगेरा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29198 14-05-12	मकान संख्या 10-194, मुदबिदरी कोडांगल्लु डाकघर, मंगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड़
207623	तरनाल विजय महंतेश बसवाराज तरनाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24313 29-04-09	आदर्श कालोनी, सिंधानुर तालुक, रायचुर
207624	तरुण कुमार गुप्ता रमेश चन्द्र गुप्ता	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26160 20-03-10	मकान संख्या-15/4/25, कुबरवाड़ा रोड एसबीएच बैंक कालोनी, बीदर
207625	तासेले विवेक लीलाधर तालेले लीलाधर जगन्नाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25585 05-03-10	राधा कृष्णन नगर, जलदारशिनी लायौत, धरवाड़
207626	ताशमा सुरकोड छमनसाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27136 17-03-11	मकान संख्या-103, ममता मकान, अनीनागढ़ हुंगुंड तालुक, बागलकोट
207627	ताते आशीष गजानन ताते गजानन निवर्तुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24432 05-05-09	चौथा क्रॉस, चालुक्यनगर नगर, बादामी तालुक, बंगलकोट
207628	ताते संदीप शिवाजीराव ताते शिवाजीराव शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24745 03-06-09	दूसरा क्रॉस, पुष्पा कुन्ज, बी.टी. नगर हॉस्पेट रोड कोप्पल
207629	तौसीफ अहमद आबीद. एम.एफ.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23921 09-04-09	मकान संख्या-5, तीसरा क्रॉस, एसजेएच रोड छटा मेन, विद्यारन्यपुरम्, मैसूर
207630	तावाड़ी शारद कृष्णात तावाड़े के बाबूराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24995 17-06-09	एम.बी. कलाल बिल्डिंग, नजदीक वेंकटेश्वर थेत्रे मुंडारगी तालुक, गडग
207631	त्याबा तबासुम सईद सदाक अली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30059 16-04-13	मकान संख्या-25-158, टीएमसी गार्डन, कल्लुर रोड तालुक-हुमनाबाद, बीदर
207632	त्याबा कुल्सुम एस ए ताहेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29922 01-02-13	मकान संख्या-8, एमडीएम रोड स्टेफेन्स रोड क्रॉस, फराजेर शहर बंगलौर

207633	ताजीन फातिमा इल्काल महबुब साहेब इतकाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29019 27-04-12	मकान संख्या-298/21, रिजवान मंजिल, बीजापुर
207634	टीना नरगोत्रा इन्द्रजीत नरगोत्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26245 23-03-10	सी/ओ. आदीछुनछुनगिरी लड़की हॉस्टल, हम्पीनगर, बंगलौर
207635	तेजाश्री गोपाल भुताड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29967 06-04-13	श्रीकांत ऑटो सेंटर, ओ.एस.बी. रोड गंगावधि
207636	तेजश्विनी गच्छीनामाथ विवेकानन्द एम हिरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	29712 31-07-12	बसावेश्वर क्लीनिक, डोडाबेलवंगला डोडाबल्लापुर तालुक, बंगलौर रुरल
207637	तेजश्विनी हिरेमाथ बसाय्या. सी. हिरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28916 26-04-12	आसुत्ज ग्राम एवं डाकघर रॉन तालुक, गडग
207638	तेजस्वी. शेट्टी. बी. बी. एस. शेट्टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27261 22-03-11	ईश्वरी नरसिंग होम, जय रोड शिमोगा
207639	तेजश्वनी मल्लीमाथ मदिवालया. एम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26175 22-03-10	मार्केट रोड यादवाड़, गोकक तालुक, बेलगाँव
207640	तेजस्वी. कादम प्रवीण कादम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30609 22-08-13	मकान संख्या-2443, प्रगति नगर, नजदीक प्रार्थना होटल, निपानी, बेलगाँव
207641	तेजस्वी. किरन यदुचन्द्र भट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30622 31-08-13	महालसा, 9-2-15बी, भीटी रोड तेनकेपेटे, उडूपि
207642	तेजश्विनी. एन ए नं. नरसिम्हा एम गौड़	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29942 20-03-13	श्रीरंगा निलया, के पीछे लेडिज हॉस्टल, राजाजीनगर, बिरूर, काडुर तालुक, बिरूर
207643	तेजश्विनी के.आर राजशेकर के.सी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30667 21-05-13	कश्मीर निलाय, छठा क्रॉस, वासवान गुदी, शिवमोगा
207644	तेजश्विनी मालागे चन्द्रशेखर मालागे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30285 07-05-13	105/79, उमा नगरी, मुरारजी पेथ, पुणे रोड सोलापुर, सोलापुर
207645	तेजश्विनी शिन्दे दौलत राव एस शिन्दे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29476 24-05-12	सीटीएस 10720, त्रुपति नेहरू नगर पहला क्रॉस कोलापुर सक्रल, बेलगाँव
207646	तेजश्विनी विजय गाडगे. वी विजय कुमार सुडा नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26041 19-03-10	मकान संख्या 20, द्रौपदी, छठा क्रॉस, श्रीरामपुरम्, बंगलौर
207647	तेजश्विनी. बी. के कुमार कालीवीर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23909 09-04-09	भाग्य निलाया, एपीएमसी यार्ड (सामने), बी. एम. रोड हस्सन
207648	तेजश्विनी. के कृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24483 11-05-09	मकान संख्या 1116, दूसरा क्रॉस, चौथा मेन, विजयनगर उत्तर, बंगलौर

207649	तेजश्विनी. के. ए ए.बी. कृष्णामुर्थी आचार्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26268 23-03-10	होन्नाश्री पाँचवा मेन, ए ब्लॉक शरावथी नगर, शिमोगा
207650	तेजश्विनी. एस देवी. प्रसाद एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25952 17-03-10	मकान संख्या 255, तीसरा क्रॉस, पहला मेन संजयनगर डाकघर, बंगलौर
207651	तेकाले परमेश्वर शिवाजी तेकाले शिवाजी लक्ष्मण.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24435 05-05-09	मकान संख्या 4-1062, सराफ बाजार, गुलबर्गा
207652	तेली अशोक मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25488 04-03-10	निवरागी डाकघर, इन्दि तालुक, बीजापुर
207653	तेराला भाग्यश्री तेरालाउमा महेश्वर राव.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27472 26-03-11	सी/ओ. टीएमएईएस एएमसी, संकलापुर टान्डा, बेल्लारी रोड हॉस्पेट
207654	ठाकुर नरेन्द्र रामचन्द्रम्	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30566 16-07-13	मकान संख्या 3-2-689, रेड्डी हाउस चप्पल बाजार, काचीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
207655	थामके मगेश जगन्नाथ थामके जगन्नाथ कालू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25100 19-08-09	मकान संख्या-777, कोप्पल क्रॉस, मुन्दागी तालुक, गडग
207656	थानुजा एन जे. टी. नागाभूषण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25386 06-02-10	मकान संख्या 218, तीसरा मेन रोड शारदा कालोनी, बसावेश्वरनगर, बंगलौर
207657	थासनीम. के उस्मा नं. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24593 18-05-09	मकान संख्या 4-234 मिलान (एच), केम्पिन्जे कुरनाडका, डारबे, पुट्टुर तालुक, दक्षिण कन्नड़
207658	तेजश्विनी एल लक्ष्मीनारायण आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29534 28-05-12	मकान संख्या-17, सातवां क्रॉस, आजादनगर, चामराजपेट डाकघर, बंगलौर
207659	तेजश्वी. आई नाइक ईश्वर एच नाइक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29040 05-05-12	आरएचएस क्वातेराव संख्या-14, डोड्डनागुड्डे, कुन्जीबेट्टु डाकघर उदूपी
207660	तेजश्विनी जथान थेजप्पा. के. जथान	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23753 03-04-09	सुजा निलया कावेरीगिड्डा कल्लीआजपुर डाकघर, उदूपी
207661	तेजश्विनी. बी बसवाराजु.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27313 23-03-11	मल्लीआनाडोड्डे, लल्लाघट्टा, चन्नापटना तालक, रामानगरम्
207662	तेजश्विनी. एच. जे एच. के. जयदेवे गौड़ा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25944 17-03-10	मकान संख्या-1422, दूसरा क्रॉस, राजकुमार लायौत, नजदीक केएसआरटीएस बस डिपो, मान्ड्या
207663	थेजुकुमार. एस शानमुखाचर. जी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24358 30-04-09	अमृथा निलाया, दूसरा क्रॉस, सामने एसटी मोस स्कूल आदर्श नगर, टुमकुर
207664	थोमबारे प्रमोद पूंडलिक राव पूंडलिक राव एम थोमबारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28758 02-04-12	सिंघाड कालोनी, एम-2 मकान संख्या 28/1, एन-6, कीडको औरंगाबाद

207665	थोमबारे प्रियंका प्रताप प्रताप.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24329 29-04-09	एमआईजी ॥ ए, हुडको कालोनी, अकोल रोड निप्यानी डाकघर, चिक्कोडी तालुक, बेलगाँव
207666	थोमबारे अजयकुमार अशोकराव थोमबारे अशोकराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30544 06-07-13	गीतांजलि निवास, आदर्श कालोनी, तालुक-अम्बाजोगई, बीद
207667	थोप्ते शशिकला अशोकराव थोप्ते अशोकराव विट्ठलराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24072 21-04-09	ताईक्रूपा काम्पलेक्स, नजदीक डानम्मा मंदिर, राबकवी.
207668	थोरट अर्चना विट्ठलराव थोरट भी आनंदराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23778 03-04-09	एसएसआर एएमसी, इन्चाल, सौंदत्ती तालुक, बेलगाँव
207669	थोरट सुहास बाजीराव थोरट बाजीराव नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24842 06-06-09	मकान संख्या-1515, शाहुनगर, बेदकीहाल डाकघर चिक्कोडी तालुक, बेलगाँव
207670	थोरवाट प्रतिभा रामराव रामराव जी थोरवाट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29323 18-05-12	मकान संख्या-5/19, नारायण पेठ, इचाल करांजी ग्राम एवं डाकघर, हटकानांगले तालुक, कोल्हापुर
207671	टिकोले रुशिकेश विजयकुमार विजयकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24105 22-04-09	प्लॉट संख्या-7, इएल बेथेल बुंगलौ, राम नगर, निपानी, चिक्कोडी तालुक, बेलगाँव
207672	टिनगारे विनायक वसांत वसांत एल टिंगारे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24643 21-05-09	केएचबी संख्या-4, 1बी62, के पीछे जाम्या मस्जिद, बीजापुर
207673	तिवारी मनीष अनील तिवारी अनील रामनरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29281 16-05-12	जी8/बी, विंग, ओम शरधा, भायेन्दर (ई) थाणे तालुक
207674	तोदकारी सीमा मन्माथप्पा मन्माथप्पा एन तोदकारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29725 09-08-12	तोडकारी निवास, पन्धापुरकर गल्ली तुल्जापुर तालुक, ओमनबाद
207675	तोलमाथी गिरिश हनुमन्थ हनुमन्थ डी. तोलमात्ती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26602 23-04-10	एमआईजी-148, जलनगर हुदेओ डाकघर, बीजापुर
207676	तौसीफ महबूब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28957 26-04-12	नागरहल्ली बिल्डिंग, नागुर लायोत, बुआपुर
207677	त्रिपाठी स्वैथा ईश्वरप्रसाद त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30133 20-04-13	मकान संख्या-913/1, वैषणवी. धाम, कोप्पीनका, चन्दनसार रोड, विरार (पूर्व)
207678	त्रिवेणी अलियास पार्श्वनाथ जी कागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29032 05-05-12	मकान संख्या 3119/ए/6, प्यासागरा नगर, गोकक तालुक, बेलगाँव
207679	त्रुपथि नरसप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28917 26-04-12	प्लॉट संख्या-58, 9-587/7, संतोष कालोनी, नजदीक मल्टीपलेक्स, गुलबर्गा
207680	त्रुपथि जे ऐनापुर एयप्पा ऐनापुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30111 19-04-13	मकान संख्या-7-1101-33सी गून्ज कालोनी, गुलबर्गा

207681	तिरुपति मुतालिक देसाई अभय. टी. मुतालिक देसाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27853 08-04-11	मकान संख्या-203, शुक्रमारपेथ, तिलकवाड़ी डाकघर, बेलगाँव
207682	तुक्राराम उमरानी भिरप्पा भिमप्पा उमरानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29380 21-05-12	कल्लोली ग्राम एवं डाकघर, गोकाके तालुके, बेलगाँव
207683	तुलसी के.पी. अरविन्द चावन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28607 26.10.11	कलगनूर, डाकखाना यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा
207684	तुम्बीगिरे मुत्त विनया मन्जुनाथ एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23982 18.04.09	# 92, तृतीय क्रोस, साउथ अन्नीकेथाना कुवेमपुनगर रोड, मैसूर
207685	तुषार संगल सुरेशराव एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24941 10.06.09	# 260, तृतीय क्रोस, राजाराम मार्ग, डाकखाना चिदम्बर नगर एंगल, बेलगाँव
207686	यू.वी. चैतन्या शर्मा वैकटेश्वर यू.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27253 22.03.11	# 15, आठवीं क्रोस, भोविपालया महालक्ष्मीपुरम बंगलौर
207687	उबाले प्रशान्त प्रताप पांडुरंग उबाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30086 18.04.13	प्लॉट सं. 32, तिरंगा नगर, तहसील पंधारपुर सोलापुर पंधारपुर
207688	उदाचन अनील मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24656 22.05.09	सिद्धलिंगा कृपा, ब्लडे रोड, गणेश मंदिर के पीछे, बीजापुर
207689	उदयकुमार गुरुशान्तप्पा होलकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28606 19.10.11	बाबलास (आई.के.)विनोभा नगर, गुलबर्गा
207690	उदयकुमार शेट्टी पी. शीनप्पा शेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25012 24.06.09	शुषरव्या (एच), द्वितीय क्रोस ए.आर.बी., कालोनी एस.के.शेट्टी कम्पाउण्ड, शिमोगा
207691	उदयकुमार एस.आर. श्रीनिवास रूपनर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29969 06.04.13	जवाहर नवीदय विद्यालय नारायणपुर, बिदर नारायणपुर, बसवा कल्याण बीदर
207692	उदयकुमार सूदी कालकप्पा कशवप्पा सूदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29511 26.05.12	प्लॉट सं. 7, # 812, श्रीरामनगर, शिंडोली रोड, मुतगा, बेलगाँव
207693	उज्जवला उदय कुमार आर. आचार्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29378 21.05.12	सं. 338, महाकाली रोड, डाकखाना अम्बालपाडी, उडुपी
207694	उमा किरन के. रामचन्द्र भट्ट के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24263 28.04.09	# 3-223, नडुकटटा हाऊस, डाकखाना पांजे, तहसील पुत्तुर, दक्षिणी कन्नड़
207695	उमा महन्तेश यालगी महन्तेश यालगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25520 04.03.10	प्लॉट सं. 106, श्री हर्ष निलया डाकखाना एवं तालुका यादगिरी, यादगिरी
207696	उमा माहेश्वरी टी.सी. चन्द्रशेखर स्वामीगुलु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28488 18.07.11	# 568ए 4वीं क्रॉस, हेब्बल द्वितीय स्टेज, डाकखाना हीकल, मैसूर

207697	उमा ए. नं. आर. नागराजा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23981 18.04.09	अरल रोड़ वडडारहत्ती केम्प, तालुका गंगावथी कोप्पल
207698	उमा आर. रमैयाह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24231 28.04.09	# 797, बैरवेश्वरा निलया, द्वितीय क्रॉस तालुका दशराहल्ली डाकखाना, बंगलौर
207699	उमा एम. नायक मंजप्पा डी. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24027 20.04.09	कालकाराडी, डाकखाना अन्दागी, तहसील सिरसा नोर्थ केनरा
207700	उमैमा थाशमीरा के.एच. मोहीदीन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28303 25.05.11	सं. 64/2ए, छद्दी ब्लॉक, ब्राइट हाऊस कृष्णापुर सुरथकल, मैंगलौर, साऊथ केनरा
207701	उमाकान्त रावन राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27085 15.03.11	ग्राम एवं डाकखाना मोरखण्डी, तालुकका बसवकल्यान, बीदर
207702	उमर फारूख इसमाइल साहेब करनूल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30592 02.08.13	ग्राम एवं डाकखाना पत्ताडलकाल्लु, तालुका बादामी, बागलकोट
207703	उमाश्री केमभवी चोलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28958 26.04.12	अम्बेडकर सक्रिल के पीछे, नागोर लेआउट सिंधगी, बीजापुर
207704	उमाश्री दुबले बाबासाब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30018 10.04.13	ग्राम एवं पोस्ट कुसनाल, तालंका अथानी बेलगांव
207705	उमाश्री वानू एम.डी. नवी साहेब पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29200 14.05.12	महबूब मंजिल, देवन्ना थोटा, रेहमट नगर, तालंका मानवी, रैचुर
207706	उमेश चन्द्रशेखर आई. पत्तर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25441 01.03.10	श्री कालिका निलय, ए.पी.एम.सी.के. पास, डाकखाना एवं तालुका कलाघटगी, धारवाड़
207707	उमेश अंगदी श्रीशंकर ए. अंगदी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28414 20.06.11	ग्राम एवं डाकखाना हुंशाल (पी0जी0), तालुका गांकाक, बेलगांव
207708	उमेश होलेनवार सुन्देश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28290 25.05.11	सं. 94-189, कृष्णा मन्दिर, ग्राम बगरनल, डाकखाना कारागुप्पी, तालुका हुक्केरी, बेलगांव
207709	उमेश हुन्डेकर रामन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29749 29.09.12	ग्राम एवं पोस्ट बेन्नुर, बागलकोट
207710	उमेश माथापति चिदानन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25420 25.02.10	(नाडी), पोस्ट ईंगलगांव, तालुका अथानी बेलगांव
207711	उमेश जे.डी. टी. देवेनरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26948 20.10.10	प्रगति ग्रामीण बैंक, विजया नगर विस्तार, तालुका हुवीना हडगल्ली, बेल्लारी
207712	उमेश सी. सज्जन चन्द्राशेखर एस. सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28325 25.05.11	टी.-सी. 87, आर.टी.पी.एस. कालोनी, शक्तिनगर, रैचुर

207713	उमेश अरशिया सैयद हशम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27370 24.03.11	पेन्सन मौहल्ला, नया रोड़, हसन
207714	उम्मे हनी निसार अहमद खान ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23767 03.04.09	# 3260/3, द्वितीय क्रास, एंगण्डी, तिलक नगर, बन्नीमन्ताप, मैसूर
207715	उम्मे सलमा एम.ए.एफ. डंडोती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27548 28.03.11	# 14-442, लक्ष्मी गंज, शहाबाद तालुका चित्तापुर, गुलबर्गा
207716	उम्मेसलमा मुल्ला सैयद हुसैन मुल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28832 16.04.12	# 43, एम.ए नं. मंजिल 21वीं क्रास, 16वीं मैन, बी.टी.एम. लेआउट, द्वितीय स्टेज बंगलौर
207717	उम्मी सलमा अजीज अहमद बेग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29217 14.05.12	सं. 2-10-1ए, पुराना पंगला रोड़ पोस्ट कौप, उडुपी
207718	उपाध्याय प्रियंका अशोक अशोक श्रीपाल उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27917 12.04.11	म.सं. 1037, ग्राम एवं पोस्ट कोगनाली, तालुका चिक्कोडी, बेलगांव
207719	उपासे दीनार प्रभाकर पी. भीमाशंकर उपासे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25178 07.10.09	गदग रोड़ के पास, पोस्ट गजेन्द्रगढ़ तालुका रोन्, गदग
207720	उर्मिला लवलीन लावो जयेशकुमार पी. शिकोतरा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	28121 25.04.11	# 102, भारद्वाज, एस.बी.एम. कालोनी, तालुका हसन
207721	उषा बलेहाल्लीमता थिपेस्वामी बी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27175 18.03.11	जनगांमा ज्योथी, पोस्ट नयाकानाल्य, तालुका चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग
207722	उषा एच. हुचा हनुमथ्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29374 21.05.12	सं. 24 प्रथम मैन, संजीवनी नगर हम्मगंनहल्ली क्रॉस, बंगलौर
207723	उषा किरन एस. शदाक्षरीबी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27589 30.03.11	# 5550 (ऊपर को), प्रथम मैन क्रॉस, हसन,
207724	उषा कुमारी के रमन्ना गौडा के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27515 28.03.11	प्रेमगुरु पोस्ट, तालुका बन्टवाल, दक्षिण कन्नड़
207725	उषा एम. नागराजा एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27176 18.03.11	हजारीहोम्मानाहल्ली, बेल्लारी
207726	उषा नायक नारायण आर. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28628 15.11.11	बुन्दर रोड़ बेला, तालुका अकोला, उत्तर कन्नड़
207727	उषा सी. चन्द्रशेखर एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27406 25.03.11	# 14, द्वितीय मैन, विनाभा नगर, दावांगेरे
207728	उषा एच.ए. नं. नागराज यू.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26222 23.03.10	ऊपर गली, होलेबोन्नुर, भद्रावथी तालंका शिमागा

207729	उषा एम.वी. एम. वैकटेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26712 10.06.10	#43, प्रथम मैन्, प्रथम क्रॉस, हुडको कालोनी एवं तालुका गदग
207730	उषाकिरण एस. बी. हनुमथ राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29358 21.05.12	सं. 10-5-196/3/1, थुकाराम गेट, मारेडपल्ली तालुका हैदराबाद
207731	उषारानी जे.ई. ऐश्वर्या जे.ई.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29249 15.05.12	जमबाल्ली हेड्रीपुरा, पोस्ट होसांगारा, शिमोगा
207732	उषारानी श्याम सूनंदर सानू एस.एस. नारायण सानू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26055 19.03.10	अक्षय पाक्र, एम.आई.जी. 3, पलेट सं. 103, गोकुल रोड, तालुका हुस्की, धारवाड़
207733	उषारानी एल.आर. एल.एस.रेड्डी नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24049 20.04.09	राजेन्द्र प्रसाद रोड रामनगर, हजारी बोम्पेनाहल्ली बेलारी
207734	उल्लल अमीतकुमार हनमंत्रया हनमंत्रया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23941 13.04.09	कल्यान नगर, रघवेन्द्रा मंदिर के पास, तालुका सिधगी, बीजापुर
207735	उत्तम सीक्कादर हरीदास सिक्कादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30060 16.04.13	आर.एच.न० 3, ज्वालागेरा (पी.), रैचुर सिंधनूर
207736	उत्तरे वीरकुमार विद्याधर जीवेन्द्र उत्तरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25550 05.03.10	पोस्ट भोज, तालुका चिकोडी, बेलगांव
207737	वादेर हेमन्थ कुमार वी. नागराजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29487 25.05.12	#40 'ए' ब्लॉक, त्रिस्माला नगर, अतुर लेआऊट येलेहंका न्यू टाऊन, बंगलौर
207738	वांदीगेकर नीता प्रमोद प्रमोद पी. वांदीगेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30509 19.06.13	ग्राम एवं पोस्ट खेबावाडे, तालुका करवीर कोल्हापुर, खेबावाडे
207739	वहीदा चौधरी एच. हसन चौधरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28533 25.08.11	के.ऐ.एम.सी., के.ई.सी.टी. टॉवर्स, हौगेबैल, अशोकनगर, मैंगलौर
207740	वैजयन्तीमाला वाडीयार परशुराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25377 02.02.10	बी.ई.ओ. कार्यालय, कगवाड तालुका अथानी, बेलगांव
207741	वैशाली वाजीनाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24541 13.05.09	# 11-1400/33, घटगे लेआऊट, तालुका गुलबर्गा
207742	वैशाली एम. मल्लीकार्जुन वाई.एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30391 23.05.13	के.एच.बी. कालेनी के पीछे, सरकारी नौकर संघ भवन, नौवाद बीदर
207743	वज्रिका सी.आर. रघवेन्द्र सी.के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30235 30.04.13	# एल.आई.जी. 51, प्रथम फ्लोर, द्वितीय चरण कुवेमुनगर, मैसूर
207744	वलसे प्रिती गुन्देराव गुन्देराव ए नं. बलसे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24951 10.06.09	म. नं. 12-2-71, पोस्ट गांधी गंज, हेरुगेरी, बीदर



207745	वंजा आर. रंगप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30142 22.04.13	श्री रंग निलय, रिंग रोड के पास, विजय नगर द्वितीय स्टेज, हसन
207746	वंजा रानी एस. शिवा कुमार बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29041 05.05.12	5वीं क्रॉस शिवानन्दा नगर, नगरभावी मैन रोड बंगलौर
207747	वंजाक्षी बसावंथप्पा सवाकुवर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27717 06.04.11	अमन्ना कम्पाउन्ड, कार गली, ब्रह्मावर चान्तार, उडुपी
207748	वन्दना कुमारी सिंह उदय नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24960 10.06.09	4वीं मैन, 4वी. क्रॉस, विनयकलाउट, बुपसेन्द्र, बंगलौर
207749	वन्दना पी. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29107 07.05.12	सं. 2011/11, सिद्धविरप्पा वडावाने, 9वी. क्रॉस तालुका दावांगेरे
207750	वन्दना पी.एल. लोकेश रेड्डी पी.ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29227 15.05.12	सं. 12, 4वी. मैन 5वी. क्रॉस, आनन्दा गिरी विस्तार, आर.टी. नगर, बंगलौर
207751	वन्दना आर. पाई के. रन्हुवीरा पाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29653 18.06.12	#1/67, चारमेडी रोड, काक्कपंजे पोस्ट बेल्थांगडी तालुका, उडुपी
207752	वंदीथा डी. कामथ दयानन्द कामथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29591 12.06.12	म. नं. 2-92, देना थियेटर के पास, कुक्कीकाटटे उडुपी
207753	वाणी ए. सुब्रमण्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24261 28.04.09	पोस्ट अरोरु, उडुपी तालुका
207754	वाणी एस. देवप्पा शिवराज एम. देवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30577 24.07.13	प्लॉट नं. 32, जेवरगी कालोनी, न्यू उमकलयाउट, श्रीशैली नगर, गुलबर्गा
207755	वाणी बी. कोरगा के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24496 11.05.09	# 1-166, बेलापू पोस्ट, उडुपी
207756	वाणी सी.एम. मुनीवेंकटप्पा एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24594 18.05.09	# 390/2, बांगरपेट तालुका, कोलर
207757	वाणीश्री रेवानसिद्धप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28907 26.04.12	सं. 22/709, हुमनाबाद पोस्ट एवं तालुका बीदर
207758	वाणीश्री कुलकरनी शांतावीरय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30011 09.04.13	के.सी. नगर, डी.डी.सी. बंक् के पास बीजापुर
207759	वाणीश्री लींगादाहल्ली शिवानन्द लींगादाहल्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24574 14.05.09	बानाशंकरी निलय, मेलागिरी पोस्ट, तालुका ब्यादगी, हावेरी
207760	वाणीश्री जी. बल्लम जी.एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27256 22.03.11	# सी.-35, जी-2, जीवनभीमनगर रोड बंगलौर

207761	वाणीश्री एस.के. एस. कृष्णामुरथी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25802 12.03.10	# 4-6-624, सी.जी. कामथ रोड़, करनगलपाडी मैंगलौर, दक्षिण कन्नड़
207762	वनीता हवीनल दुकाराम हवीनल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28768 05.04.12	एम.आई.जी. प्रथम बी-45, के.एच.बी. कालोनी के पास, इन्द्रानगरख बीजापुर
207763	वनीता पाटिल रुद्रागौड़ा पी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27510 28.03.11	जी-202, अक्षय गार्डन, विद्यानगर तालुका हुबली, धारवाड़
207764	वनीथा बी. जदादेल्ली विजयाकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30131 20.04.13	टोटड हाऊस, नवनगर, गजेन्द्रगढ़ तालुका गदग, गजेन्द्रगढ़
207765	वनीथा बी. कामथ पी. वसुदेव बी. कामथ पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25684 12.03.10	# 2-3-10 ई, आदी उडुपी, अम्बलपाडी उडुपी
207766	वरालक्ष्मी सी. एस. श्रीकान्थ बाबू	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि. गुलबर्गा 2001	28550 17.09.11	# 25/69, रमनजीनेया नगर, छावनी, बेल्लारी
207767	वराप्रदा नरसिम्हाचार्य	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25755 12.03.10	# 10/2, मल्लय्याकटटा, पांस्ट एवं तालुका यदगिर
207768	वर्मा प्रशान्त कुमार प्रहलाद वर्मा प्रहलाद बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28585 19.10.11	# 501, द्वितीय क्रॉस, विनाभनगर, शिमोगा
207769	वर्षा प्रबला पी.बी.एस. शास्त्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29293 17.05.12	सं. 3-597/12, ऊँदावल्ली केन्द्र, कांग्रेस कार्यालय गुन्दुर
207770	वर्षा विठल पार्वतीकर विठल ए नं. पार्वतीकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30365 21.05.13	म.प. 1298, रामनिंगखिण्ड गली, भक्ति महिला सोसाइटी के पीछे, बेलगांव
207771	वर्षा के.ए.नं. ए नं. निंगे गौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25981 18.03.10	डी. नं. 786, तृतीय क्रॉस, शंकरप्पा लेआऊट, तालुका तिमपुर, दुमकुर
207772	वरुण सुब्रमन्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24963 10.06.09	विजय निवास, बस स्टेण्ड के पास, इलकल, तालुका हुगुण्ड, बागलकोट
207773	वरुण जोशी वेंकटेश जोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26068 19.03.10	# 210/2बी, कल्पौरुक्षा, वाम्बे चल गोकक तालुका के पास, बेलगांव
207774	वरुण डी. एस. दोरई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24694 02.06.09	संगम निवास, वेंकटेश नगर, द्वितीय क्रॉस जेल रोड़, शिमोगा
207775	वरुण ए नं. नरसिम्हा मुरथी टी.ए.नं.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25250 24.10.09	नलुर (ए.एम.पी.), चन्नागिरी तालुका दावांगेरे
207776	वरुण जी. सुरतकाल गोपाल सुरतकाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28251 12.05.11	# 19/72, थाडमवैली, सुरथकल, मैंगलौर, दक्षिण कन्नड़

207777	वरुणी सवोय विजेन्द्र राय सवोय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24310 29.04.09	वशिष्ट, तृतीय क्रॉस, प्रथम मैन, रविन्द्रनगर शिर्मोगा
207778	वरवाटे सोनाली श्रीमानी श्रीमानी के. वरवाटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28988 27.04.12	न0 153, श्री कृष्णा कालोनी, एम.आई.डी.सी. कोडली सतारा
207779	वसन्थ कुमार वी. एस. वेंकटरमनप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26785 19.08.10	# 118, 10वी. 'एफ' क्रॉस, नगवरपंत्या सी.वी. रमन नगर, बंगलौर
207780	वसवी एम. एम. नागराजा होल्ला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26013 19.03.10	# 1-145, नारायणीयम, यदावेट्टू पोस्ट, संस्थान कुन्दापुर तालुका, उडुपी
207781	वसुदिवाने अम्रता महेशराय वसुदिवाने	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28805 13.04.12	संजीव रेड्डी कालोनी, डेगलूर रोड, उदगीर, लातूर
207782	वसुन्दरा एस. सतना राजू के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23903 09.04.09	# 44, प्रशास्त्री रामचन्द्र सेठी लेआऊट, कंकापुर मैन रोड, कग्गालीपुरा, बंगलौर
207783	वतसला एच.एस. जी.एस. सोमाशेखर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25072 23.07.09	# 21/1, द्वितीय क्रॉस, 12वीं मैन, अग्रहारा दशहराल्ली, बंगलौर
207784	वेचलेकर कमलेश कृष्णजी वी. कृष्णाजी आत्माराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24415 05.05.09	श्री चन्नाप्पानी दसागी, वक्ररगली, कोपाल
207785	वेदा गिरीप्पा नान्देर जी.एस. नान्देर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28151 26.04.11	#3, बी-ब्लॉक, फोरेसिक लेबोरेट्री क्वार्टर मदीवाला बंगलौर
207786	वेदाप्रिया वी वेंकटेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30430 29.05.13	#224, प्रथम मैन रोड, द्वितीय क्रॉस, कमलानगर, बंगलौर
207787	वेदपाठक वल्लभ अशोक वी. अशोक श्रीकृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25257 27.10.09	विद्यानगर, बैहोंगल पोस्ट एवं तालुका, बेलगांव
207788	वीणा जे. संगना गौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29572 12.06.12	ए.पी.एम.सी., ओम शिवा निलय, पोस्ट एवं तालुका मानवी, रैचुर
207789	वीणा शिवराज पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25683 12.03.10	ए 34/1, # 8-9-270, गुरुनानक कालोनी वीदर
207790	वीणा बबली तम्मन्ना ओ. बबली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24883 08.06.09	धरमती पोस्ट, तालुका गोकक, इमलगांव
207791	वीणा जी.एम. चेतन सी.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29706 12.07.12	हनुमानहली, तालुका होसपेट, बेल्लारी
207792	वीणा हीरमठ मल्लिकार्जनन्या एस. हीरमठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28782 11.04.12	ग्राम एवं पोस्ट ममदापुर, बीजापुर

207793	वीणा कुपति बाबू बसेत्ती कुपती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27519 28.03.11	ग्राम एवं पोस्ट मुरागुण्डी, तालुका अथानी, बेलगांव
207794	वीणा मेगेरी चन्द्र शेखर राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29640 14.06.12	प्लॉट न0 20, अन्नपूर्णा निलय, मंजुनाथ कालोनी शिवागिरी लास्ट बस स्टॉप, धारवाड़
207795	वीणा नागराज ए नं. सी. नागराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25093 14.08.09	#23, ज्योति निवास, द्वितीय मैन्, तृतीय क्रॉस सथागिरी लेआऊट विद्या रन्यापुरा, बंगलौर
207796	वीणा नायक वेंकटरमन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24507 12.05.09	के.बी.एच. कालानी के पीछे, सदाशिव नगर, सोलापुर रोड़, बीजापुर
207797	वीणा पदनाद रामराय बी. पदनाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27819 08.04.11	ग्राम एवं पोस्ट सांकोनात्ती, तालुका अथानी, बेलगांव
207798	वीणा एस. कुलकर्णी सूर्यकान्त कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30048 16.04.13	म.न0 18, निवासी इतगा, तालुका हुमनाबाद
207799	वीणा सज्जन पवादेप्पा सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23824 04.04.09	कोरपोरेशन रोड़, पोस्ट बनहत्ती तालुका जमखण्डी, बागलकोट
207800	वीणा सलैन एल. टी. लक्ष्मन सलैन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24770 04.06.09	#6-156, सोमेश्वर ऊँचीला, पोस्ट सोमेश्वर, तालुका मैंगलौर, दक्षिण कन्नड़
207801	वीणा वीरप्पा यारागट्टी वीरप्पा वाई. यारागट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25074 24.07.09	म.न0 1701, सेक्टर 8, अंजेन्या नगर, बेलगांव
207802	वीणा विनोद ई ई. आर. विनाद	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29550 29.05.12	अर्थेट्टु हाऊस, थालाचिरा (इराम) पुस्ट, तालुका रन्नी पटनामथीटटा
207803	वीनाकुमारी के. सी. कृष्णा मुरथी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24699 02.06.09	मंजुनाथ नगर, गोकुल विस्तार क्यातासन्दर पोस्ट, दुमकुर
207804	वीर नीलेश लक्ष्मन लक्ष्मन डी. वीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25535 04.03.10	जवली प्लॉट, गजेन्द्रगढ़, तालुका रोन्ध गदग
207805	वीरवसप्पा बदीगेर शंकरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25284 18.11.09	जाइसराहंलाहल्ली पोस्ट, तालुका रानेवेन्नुर हावेरी
207806	वीरभद्रा गौड़ा पी. बी. बसवाना गौड़ा पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29997 08.04.13	तालुका गंगावती, कोपाल गंगावती
207807	वीरभद्रप्पा पुराद चन्द्राशेखरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26691 29.05.10	पोस्ट अननीकाप्पा, तालुका शिराहत्ती, गदग
207808	वीरज प्रवीण बी. प्रवीण कुमार हेगड़े	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24612 18.05.09	सत्य सदन, हेगुन्जे पोस्ट, उडुपी

207809	वीरम्मा एस.वी. शिवराज वी. पत्ते	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25008 23.06.09	नारायणपुर पोस्ट, बसवाकल्याण तालुका, बीदर
207810	वीरन्ना हावेरी गुरुलिंगप्पा हावेरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25631 06.03.10	पुलिस स्टेशन के पीछे, होलालु पोस्ट, हुवीना हदागल्ली तालुका, बेल्लारी
207811	वीरन्ना मेलगिरी नागप्पा मेलगिरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25220 13.10.09	कोलहर पुलिस स्टेशन, कालहर, बसावना बागेवादी तालुका, बीजापुर
207812	वीरेन्द्र कोल्लुरामट बसवाराज एस. कोल्लूरमट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27461 26.03.11	म. नं. 1198, बांगरा गली, तालुका गाकाक बेलगांव
207813	वीतमद्र यलगंती दनप्पा यलगंती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23804 04.04.09	यमन पेट, तालुका रामदुर्ग, बेलगांव
207814	वीरेश पवदामूर्ति अननास्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29933 07.03.13	रुद्रपुर, लक्कलकटी तालुका रोन्, गदग
207815	वीरेश सज्जन सुरेश सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27468 26.03.11	गणेश नगर, एस.बी.आई. रोड मुददेबीहाल तालुका, बीजापुर
207816	वीरेश सततीगिरी बसवाराज वी. सततागिरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27399 25.03.11	# 321 जव 476, मल्लापुर तालुका रोन्, गदग
207817	वीरेश एस. बनदेगोल सिद्धयास्वामी एस. वी. मट	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25853 12.03.10	डी/13, भीमारयाना गुडी शाहपुर तालुका, बुलबर्गा
207818	वीरेश वी. गटाटे बसवाराज ए. गटाटे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23698 01.04.09	धनश्री हाऊस के पास, अल्मेल पोस्ट, तालुका सिंदगी बीजापुर
207819	वेनागन्ती दत्तु चन्द्रम वेनागन्ती चन्द्रत आर.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24019 20.04.09	प्लॉट नं. 43, द्वितीय क्रॉस, प्रथम मैन रोड, प्रतिभा कालोनी, धारवाड़
207820	वेंकट रेड्डी बी.ए. रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28685 23.02.12	# 18-3-84/1, संगमेश्वर कालानी के पीछे के.ई.वी., चिदरी रोड, धारवाड़
207821	वेंकट सूरेश सुब्बाराय टुम्मीसेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28340 27.05.11	के द्वारा एस.डी.एम. कालेज, थानीरुहल्ला बी.एम.रोड, हसन
207822	वेंकटेश नरसिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29811 12.10.12	ग्राम बोरबन्दा, पांस्ट बुदूर, यदगिर
207823	वेंकटेश बुरुद नागप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28697 15.03.12	# 2254, ज्वाली बाजार, यल्लम्मा मंदिर के पीछे, महालिंगपुर, मुथोल तालुका, बागलकोट
207824	वेंकटेश लचपेट रविन्दर एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30287 07.05.13	म. नं. 3-10-175, न्यालकल रोड निजामाबाद

207825	वेंकटरेड्डी नरसररेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25894 15.03.10	बस स्टैंड के पास, औरद (बी) बीदर
207826	वेरनेकर विशाल अनील अनील कृष्णा वेरनेकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24942 10.06.09	# 200/6 अंजेन्या, 6वीं क्रॉस, आर.के. मार्ग, हिन्दवादी, बेलगांव
207827	व्हामाणे नीलेश अन्नासाहेब बी. अन्नासाहेब शंकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24911 09.06.09	# 1515, शाहूनगर, बेडकीहल, चिकोडी तालुका बेलगांव
207828	व्हामाणे महेश तात्यासाहेब	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28615 05.11.11	कालेज रोड़, बादामी तालुका, बागलकोट
207829	विब्बी बालकृष्णा डी. बालकृष्णा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	28679 07.02.12	आयुर्वेद अकादमी, 229/1, 4वी. मैन, द्वितीय क्रौस घमराजपेट, बंगलौर
207830	विभा बसवाराज बबलेश्वर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27137 17.03.11	राजकोलूर मैन रोड़ बंजार, शोरपुर तालुका यादगिरी
207831	विभा बालचन्द्रा हेगड़े बालचन्द्रा हेगड़े	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24703 02.06.09	श्री कांचीकाम्बा प्रसाद निलय, पांस्ट कगल, तालुका कुम्बा, उत्तर कन्नड़
207832	विभा फड़ाके श्रीकान्थ फड़ाके	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29334 18.05.12	बी-10, बी.टी.एम. 6वीं स्टेज, अवानी श्रीगेरी नगर बेलूर बंगलौर
207833	विभूते अस्मिता अशोक अशोक महादेव विभूते	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25404 24.02.10	पोस्ट तंगादी, तालुका अथानी, बेलगांव
207834	विद्या डी. देवप्पा एम.जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25321 04.12.09	सिस्टर रेसीडेन्स हाऊस के पीछे, अनीथा कान्वेन्ट रोड़, मालावल्ली, मन्ड्या
207835	विद्याश्री एस. सामन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23931 09.04.09	# 2115, तृतीय क्रॉस, अशोकापुरम, मैसूर
207836	विद्या अमागी एस. खीदागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30012 09.04.13	एम.टी.डी. 9/2 भीमरायना गंडी, तालुका शाहपुर यादगिर
207837	विद्या कृष्णा थान्थ्री एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25787 12.03.10	# 2-107/3 (2), मैंगलौर, कवूर दक्षिण कन्नड़
207838	विद्या अर्ली घन्नावसप्पा ए नं. अर्ली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26012 19.03.10	घटप्रभा पोस्ट, गोकक तालुका, बेलगांव
207839	विद्या भैराजी मल्लीकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29462 24.05.12	सदाशिव नगर, सिंदगी रोड़ इन्दी पांस्ट एवं तालुका, बीजापुर
207840	विद्या गंगाल मललीकार्जुन के. गंगाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24748 04.06.09	विद्यागिरी, 11वी. क्रॉस, बागलकोट

207841	विद्या हुदेदावर बसप्पा एफ. हुदेदावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23836 06.04.09	# 117, तृतीय क्रॉस, शिवाबसवा नगर हावेरी
207842	विद्या इन्दी श्रीकान्ध डी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	27010 28.12.10	शारानगर, लिंगादा रोड़, बीजापुर
207843	विद्या कन्नूर सुरेश कन्नूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26494 06.04.10	रुखमनी शंकर निवास, काक्कय्या कालोनी ग्याना बावडी, बीजापुर
207844	विद्या कित्तुर शिवाप्पा बी. कित्तुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25756 12.03.10	6वी. क्रॉस, मुरुगरजेन्द्र ब्रगर पोस्ट, धारवाड़
207845	विद्या कोडली शिवानन्द	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24775 04.06.09	वनशंकरी नगर, साई मंदिर रोड़, चन्नामल्लीकार्जुन कृपा, धारवाड़
207846	विद्या नायक एस. एस. कृष्णा नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28944 26.04.12	न0 31/32, आनन्द गार्डन अपार्टमेंट, 5वी. मैन, 10वी. क्रॉस, आर.के. लेआऊट, पदमानभा नगर, तालुका खानपुर
207847	विद्या नारायण जयप्रकाश नारायण	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26764 31.07.10	#93, तृतीय क्रॉस, प्रथम स्टेज, डॉलरस्कीम, बंगलौर
207848	विद्या पाटिल मल्लांगौड़ा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27824 08.04.11	पुलिस स्टेशन कुलगडा, गोकक तालुका बेलगांव
207849	विद्या राय टी. टी. गणेश राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26729 28.06.10	आई-10 / ए, अपूर्वा लेआऊट, मुकरामपाड़ी अरतपु, पुत्तूर तालुका, दक्षिण कन्नड़
207850	विद्या रानी एम. नागराज एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24218 28.04.09	# 1363, द्वितीय क्रॉस, मांनारायणपाल्या, आर.टी. नगर., बंगलौर
207851	विद्या रानी एम. मुनीराजू बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28150 26.04.11	# 8, ए 2 ब्लॉक, अस्तीन टाऊन, पुरानी सिमेंट लाइन के पास, बंगलौर
207852	विद्या शारनप्पा बी. नान्दापुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24566 14.05.09	पोस्ट मादीनूर, कोपाल
207853	विद्या श्री बसवागौड़ा मालीपाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29340 21.05.12	बी.बी. नगर, कोपाल रोड़, ग्राम पोस्ट एवं तालुका कुस्तागी, कोपाल
207854	विद्या उपाध्ये शीतल कुमार एस. उपाध्ये	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29175 11.05.12	प्लॉट न0 37, अनन्त शान्ती भवन, आदर्श नगर हिन्दवाड़ी, बेलगांव
207855	विद्या के. होलेवसप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28349 30.05.11	ग्राम एवं पोस्ट भानुवाली, तालुका हरीहर, दावंगेरे
207856	विद्याधर बालीकार्द शामुखप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28948 26.04.12	न0 33, ग्राम एवं पोस्ट बरालीकटटी, तालुका हुबली, धारवाड़

207857	विद्यालक्ष्मी अपराज विजय जे. अपराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26528 09.04.10	आइनापुर पोस्ट, तालुका अथानी, बेलगांव
207858	विद्यारानी रयानगौडर विरूपाक्षगौडर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26535 12.04.10	म. नं. 63, गंगा निलय, ज्वाली प्लॉट गजेन्द्रगढ़, रोना, गदग
207859	विद्यारानी ए.एस. अप्पासाहेब जी. सज्जन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24369 30.04.09	# 11-3-66, देशमुख कालोनी, तालुका अलन्द, गुलबर्गा
207860	विद्यासागर रेड्डी पांडुरेग रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28683 15.02.12	# 2-907/118, प्लॉट नं 36, सेदम रोड, साईनगर बादेपुर, गुलबर्गा
207861	विग्नेश होब्लीदर रश्माकर होब्लीदर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24560 13.05.09	# 322/ई/5, वूदेरहोब्ली, तालंका कुन्दापुर उडुपी
207862	विजय काम्बले आत्माराम डी. काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29763 29.09.12	ग्राम एवं पोस्ट बड़ाची, तालुका अथानी बेलगांव
207863	विजय कपतानवर मलप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26599 23.04.10	म. नं. 27/188, प्रथम क्रॉस, शिनन्द नगर, ब्रदग
207864	विजय कुमार वीरशेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25620 06.03.10	# 71, निवासी बापुर, मीनाखेड़ा बीदर
207865	विजय लक्ष्मी लक्ष्मन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23697 01.04.09	29/बी, जीवन प्रकाश स्कूल के पीछे, पी.डब्ल्यू क्वार्टर, पुराना जेवरगी रोड, गुलबर्गा
207866	विजय प्रकाश विजय एस. हिप्पारगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26905 21.09.10	# 643, द्वितीय क्रॉस, नायक हॉस्पिटल के पास क्रतिनगर, बबीजापुर
207867	विजय पी. मलहार राय पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23826 06.04.09	एस.टी.आर.टी. 6/11, 16वीं क्रॉस, अल्सटोम कालोनी, शाहाबाद, चितापुर तालुका, गुलबर्गा
207868	विजय नगन्ना	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26969 16.11.10	पोस्ट सागर, मालंका शाहपुर, गुलबर्गा
207869	विजय गवाली काशीनाथ गवाली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24340 29.04.09	\$ 3, प्लॉट नं. 217/ए, महावीर भवन के पीछे हिन्दवाड़ी पोस्ट, बेलगांव
207870	विजया कल्लीगुड नीलप्पा एम. कल्लीगुड	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28264 17.05.11	टी.एम.सी. गुलेगुड के पीछे तालुका बादामी, बागलकोट
207871	विजया महन्थेश एम. एम.आर. मडीवाला	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25370 25.01.10	गणेश गुड़ी के सामने, सदाशिवनगर, तालुका होस्पेट, बेल्लारी
207872	विजया राज एम.आर. महेश्वरप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24537 13.05.09	# 6, 12वीं क्रॉस, एस.पी. विस्तार, सुधीन्द्र नगर मालेश्वरम, बंगलौर



207873	विजयाकुमार बड़कुन्दरी दुंदप्पा एस. बड़कुन्दरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25914 15.03.10	# 70, घटप्रभा, तालुका गोकक बेलगांव
207874	विजयकुमार मेयर लोकप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25820 12.03.10	नेहरू नगर, तालुका ब्यादागी तालुका, हावेरी
207875	विजयाकुमार मुलीमणी शंकरप्पा सी. मुलीमणी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24225 28.04.09	पोस्ट बेलूर, दुर्गाम्मा मंदिर के पास तालुका बादामी, बागलकोट
207876	विजयाकुमार सिंदे शिवाजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27775 07.04.11	छत्तरापति शिवाजी, ग्राम एवं पोस्ट बैलूर, बैलहोगल तालुका, बेलगांव
207877	विजयाकुमार पी.एस. सिदप्पा पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23796 04.04.09	पोस्ट नलकुन्दरे, मालंका चन्नागिरी दावंगेरे
207878	विजयाकुमार सी. चिकथयप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24971 11.06.09	# 101, बी ब्लॉक, प्रथम मैन्, 16वीं ई क्रॉस, कीर्थि रेन्डेजस पाई लेआऊट, बंगलौर
207879	विजयाकुमार के.एम. चिदानन्दय्या के.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23710 02.04.09	#1/112, टी.एम.सी. रोड, कुल्लुर तालुका कुड्डलिंगी, बुल्लारी
207880	विजयाकुमारी हावेरी मल्लीकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30278 07.05.13	ग्राम एवं पोस्ट असुन्दी, तालुका रनेबेन्नूर, जिला हावेरी, बनेबेन्नूर
207881	अपजयालक्ष्मी एलगी विटल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28657 17.12.11	संकल्प स्कूल के सामने, सी.पी.आई. के.सी.नगर, सिद्धरामेश्वर निलय, बीजापुर
207882	विजयालक्ष्मी हदीमानी बसवाराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25670 12.03.10	# 3604, ई.डब्ल्यू.एस.-33, जलनगर, बीजापुर
207883	विजयालक्ष्मी कृमानी महन्तेश कृमानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	29835 30.10.12	फ्लेट नं. 102, कुमार हाम्स अपार्टमेंट, 4वी. क्रॉस भाग्य नगर, अंगोल, तिलकवादी, बेलगांव
207884	विजयालक्ष्मी पी. चौवडप्पा पी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25999 19.03.10	# 79/42, द्वितीय क्रॉस, यशवन्तपुर, बंगलौर
207885	विजयालक्ष्मी एस. ए. सुरेश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24628 18.05.09	# 79, नागाशेटी हल्ली, संजय नगर बंगलौर
207886	विजयालक्ष्मी बसवंत्रे बसवांत्रे एस. विरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27781 07.04.11	बी.एस.ए नं. एल. मैन् टेलिफोन एक्सचेंज एवं तालुका बागलकोट
207887	विजयालक्ष्मी भगोजी बसवन्नी जी. भगोली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23726 02.04.09	एल.आई.जी.-48, तृतीय क्रॉस, प्रथम मैन् रोड बेलगांव
207888	विजयालक्ष्मी दिवान विटलराय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25265 02.11.09	#79/ए, नवरासपुर कालोनी, बागलकोट रोड, बीजापुर

207889	विजयालक्ष्मी के. हीरेदन्नी करीयप्पा बी. हीरेदन्नी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29417 23.05.12	प्लॉट नं. 60, 61, होरगिस अपार्टमेंट के पास संजोष कालोनी, गुलबर्गा
207890	विजयालक्ष्मी लोनी मालासिदप्पा मेत्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26771 10.08.10	विद्यानगर, तालुका इन्दी, बीजापुर
207891	विजयानन्द शपुर गंगाधर बी. शपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24808 05.06.09	शपेती गली, बीजापुर
207892	विजयापानी राजशेखर सी.टी. ऐरा गौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26082 19.03.10	# 15, 4वीं मैन रोड, चामुण्डेश्वरी लेआऊट, डोडाबोम्मेट्ट विद्यानपुरा, बंगलौर
207893	विजयारेड्डी बसवाराज	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25603 06.03.10	# 57, सिंगाहल्ली, पोस्ट गोगी, तालुका शाहपुर यादगिर
207894	विजयाश्री अशोक कुमार विदीमानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25717 12.03.10	# 3-1005/1, गाजीलपुर, गुलबर्गा
207895	विजयाश्री बी.एल. लिंगा थिम्मा नायकक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24211 24.04.09	सी 4/1, के.पी.सी. कालोनी, पोस्ट करगल, तालुका सागर, शिमागा
207896	विजयेन्द्र महादेवप्पा शाहपुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26601 23.04.10	कुकानूर नगर, तालुका यलबुर्गा कोपाल
207897	विजयकुमार यमनप्पा उदूनूर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24247 28.04.09	प्लॉट न0 231, जी.डी.ए. लेआऊट, रिंग रोड, जिला कोटनूर, पोस्ट हिलयाना
207898	विजयकुमार असंगी भीमाप्पा बी. असंगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29625 14.06.12	ग्राम एवं पोस्ट हरुगेरी, तालुका रायबाग बेलगांव
207899	विजयकुमार जोशी अप्याजीराय ए नं. जोशी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28444 20.06.11	जोशी डिस्पेन्सरी, मैन रोड अलमेल, तालुका सिंदगी, बीजापुर
207900	विजयकुमार कप्से एच.एच. कप्से	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29541 28.05.12	बस डिपो के पीछे, शिवाजी चौक एवं तालुका लातूर
207901	विजयकुमार पाटिल शंकरगौडा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28484 18.07.11	मेलगिरी प्लॉट, अगस्ताहल्ली रोड ब्यादगी तालुका हावेरी
207902	विजयकुमार के.एम. मल्लीकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24557 13.05.09	# 2081, 4वीं क्रॉस, प्रथम मैन, जुडिशियल लेआऊट, पोस्ट जी.के.वी.के., यलहंका बंगलौर
207903	विजयकुमार एस. मल्लीकार्जुन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27155 18.03.11	धन्नुरा (के), पोस्ट वादी, तालुका बसवाकल्याण बीदर
207904	विजयलक्ष्मी बी. वैजीनाथ भांगे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27593 30.03.11	प्लॉट नं. 20, म. नं. 19-5-353, महादेव कालोनी, शिवनगर साउथ, बीदर

207905	विजयलक्ष्मी कंगल सिदप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24709 03.06.09	# 270, तालीकोटी रोड़ पोस्ट नालवाद, तालुका मुददेबिहाल, बीजापुर
207906	विजयलक्ष्मी कोरी सदानन्द सी. कोरी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25848 12.03.10	# 101, ईम्मीकेरी, भवानी अपार्टमेंटस, मलमददी धारवाड़
207907	विजयलक्ष्मी एम. उमाचिगी महेश जे. उमाचिगी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24987 15.06.09	म. नं. 206, बसवेश्वर नगर, होसा ओनी, पोस्ट एवं तालुका मुन्दगोड, करवर
207908	विजयरंगा मालमादे के. अलप्पा बी. मादमादे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25248 24.10.09	प्लॉट न0 835, द्वितीय स्टेज, वसन्त विहार कालोनी, रन्नी चन्मम्मा नगर, बेलगांव
207909	विजयशंकर बकप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26860 02.09.10	सुले वीरनल्ली, तालुका चिचोली, गंलवर्गा
207910	विजयश्री मेत्री प्रकाश	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28267 17.05.11	पांस्ट न्यु पीदूर, तालुका इन्दी, बीजापुर
207911	विजेश ए. विजयां ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30265 06.05.13	अदूर हाऊस, मोरझा पोस्ट, तालुका तलीपरम्बा, कन्नूर (जिला)
207912	विजेता भूयर विजय कुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24325 29.04.09	बसवा नगर, द्वितीय क्रॉस, पांस्ट रबकवी, जमखण्डी तालुका, बागलकोट
207913	विकास जी.ए. नं. जी. नरसिंहामरथी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30422 28.05.13	न0 10, 7वीं. मैन देवगौडा लेआऊट, पुलिस स्टेशन के पीछे, सदाशिवांगारा, टुमकूर
207914	विकास हीरामठ राजकुमार हीरामठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26780 16.08.10	ग्राम एवं पोस्ट सलालोगी, तालुका इन्दी, बीजापुर
207915	विकास लक्ष्मनराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25372 25.01.10	इन्द्रानगर, पोस्ट कमलानगर, ओरद (बी) बीदर
207916	विकास कुमार रामकुमार बंगालिया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30067 16.04.13	ग्राम कैरू, थे-तोशम, भीवानी, कैरू
207917	विकास सिंह रामशतम सिंह चावन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26493 06.04.10	के द्वारा एस.वी.पी. रुरल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बादामी, बागलकोट
207918	विक्रम बालू के. बालू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27602 30.03.11	# 47/1, द्वितीय क्रॉस, नागप्पा ब्लॉक, श्रीरामपुरम, बंगलौर अरबन
207919	विक्रम गजानन देशभण्डारी गजानन जी. देशभण्डारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25592 05.03.10	# 66 ए, हुलेकल रोड़, मंझाली, तालुका सिरसा, करवर
207920	विक्रान्त तानाजी इंगाले तानाजी गणपति इंगाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24452 05.05.09	पुष्प कुंज, सुको बैंक के पीछे, द्वितीय क्रॉस, बी.टी. पाटिल नगर, कोपल

207921	विल्मा बेनिदिक्त अरन्हा लारेन्स अरन्हा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	29561 12.06.12	कचारकहल्ली, के द्वारा प्रोविसियल हाऊस, पोस्ट थोमस टाऊन, बंगलौर
207922	विमल कुमार लखपत सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30027 15.04.13	ग्राम रफ्तारपुर, पुलिस स्टेशन के पास, धनौरा, जे.पी.नगर, रफ्तारपुर
207923	विमला बी. वीरस्वामी एच.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28776 11.04.12	# सी-18, सेन्ट्रल एक्साइज, सी-ब्लॉक दावंगेरे
207924	विमला बेल्लारी शरणवसवाराय वी. बेल्लारी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26742 02.07.10	उदय भवन, सार्वथापुर, मोर्डन स्कूल कलागली रोड़ के पास, धारवाड़
207925	विनाथी एस. के. श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25988 18.03.10	ओसर एस्टेट, पी.बी. न0 18, सकलेश्वर तालुका हसन
207926	विनय गुण्डागवी वीरभद्रप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26839 25.08.10	कमलेश्वर निलय, पी.बी.रोड़, हावेरी
207927	विनय कुमार आर.पी. सेठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	28661 05.01.12	# 3394/डी, 6वीं मैन, तृतीय क्रॉस, आर.पी.सी. लेआऊट, बंगलौर
207928	विनय कुमार सिंह लक्ष्मण सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	30596 05.08.13	# 410, 17वीं क्रॉस, बी.ई.एम.एल. लेआऊट, बावेश्वर नगर, बंगलौर
207929	विनय कुमार डी. पांडुरंग डरोजी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25896 15.03.10	रु 2/3/291, लक्ष्मण मेडिकल के पीछे, एल.जी. रोड़, गंगावर्धी, कोपाल
207930	विनय कुमार बी.ई., एश्वरप्पा बी.बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27082 15.03.11	# 17, एम.आई.जी. II, विजयनगर विस्तार के.आर.नगर, मैसूर
207931	विनय पड़मनूर शिवप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29268 16.05.12	आजाद नगर, तेली रोड़ बसवाना, बीजापुर
207932	विनय एस. शिवाजी एस.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30476 11.06.13	ग्राम थोरावंधा, पांस्ट अगसनहल्ली, तालुका सोरभा, शिमोगा
207933	विनया शंकर विश्वेश भारद्वाज बी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27483 26.03.11	# 4-116, सुल्लिया, पांस्ट अरम्बूर, तालुका सुल्लिया, दक्षिण कन्नड़
207934	विनायक हेमन्त राय एस. ताती	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25627 06.03.10	# 7-4-13, नया दस स्टेण्ड, मैन रोड़, अलन्द तालुका, गुलबर्गा
207935	विनायक वैजनाथ कोन्डे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26276 23.03.10	म. नं. 8-3-26, क्रान्धी गणेश, शाहगुंज, बीदर
207936	विनायक शेखरप्पा के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27803 08.04.11	बेगूर मरादी, पांस्ट बेगूर, तालुका शिकरीपुरा शिमोगा

207937	विनायक अम्लकर अशोक अम्लकर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23937 13.04.09	15वीं क्रॉस, 15 नं. स्कूल के पास, कंचम्मा मंदिर, विद्यागिरी, बागलकोट
207938	विनाये अंगादी फकीरप्पा एस. अंगादी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27557 29.03.11	तरलाघटटी पांस्ट, तालुका कुन्दगोल, धारवाड़
207939	विनायक डी. हज्जे दत्तात्रेय एम. हज्जे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29785 12.10.12	बाजार रोड़, ग्राम एवं पछापुर, तालुका हुक्करी, बेलगांव
207940	विनायक किनाल शिवप्पा बी. किनाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25821 12.03.10	'स्मूर्ति' तृतीय क्रॉस, बी. ब्लॉक, विद्यानगर, हावेरी
207941	विनायक सिंह राजपूत अशोक सिंह राजपूत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25913 15.03.10	हुक्करी सक्रिल, तालुका हुक्करी, बेलगांव
207942	विनायका बसवानी अरदन्नावरा बसवानी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27157 18.03.11	उल्लागड्डी खानपुर, तालुका हुक्करी, बेलगांव
207943	विनायक एस. हालेची संगमेश बी. हालेची	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27601 30.03.11	सोलादेवांहल्ली, हसारगट रोड़, चिक्कावनवरा पोस्ट, बंगलौर
207944	विनायकश्री के.एस. सुब्रया के.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24459 05.05.09	# 43, श्री अन्नपूर्णेश्वरी कृपा गढ़ीकोप्पा, पुलिस लेआऊट, लगन मंदिर रोड़, शिमोगा
207945	विनायकुमार हीरामठ रेवानसिद्धया	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24707 03.06.09	रु 304, 7वीं मैन, शिवानन्दा नगर, नवनगर, हुबली तालुका, धारवाड़
207946	विनायकुमार एच.के. कुमारस्वामी एच.एम.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25094 17.08.09	मथंपीथा, जन्नाकवी रोड़, कुवेम्पू नगर तालुका चन्नर्या पटना, हासन
207947	विनायराज बी.जी. बी.जी. बसवाराजा.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24855 06-06-09	मकान संख्या-1870/67, सातवां मैन, तीसरा क्रॉस, स्वामी, विवेकानन्द लायौत, दावनगेरे
207948	विनीत कुमार विक्रम सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25023 29-06-09	शिख कालोनी, राधाकृष्ण नगर,
207949	विनीथा एस किडियूर सुन्दर ए	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29415 21-05-12	मकान संख्या-24-43बी, माधवनगरा मुदुबेट्टू, कोडावूर डाकघर उदूपि
207950	विनीता शिववसप्पा हिरेबील शिवबसप्पा वाई हिरेबील	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30374 21-05-13	प्लॉट संख्या-45, शिवम मकान, शिक्षक कालोनी विनायक नगर, हिन्दलगा, बेलगांव
207951	विनोदा काट्टेन्नावर विरुपाक्षप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29173 11-05-12	नेगालूर ग्राम एवं डाकघर, तालुक, हावेरी
207952	विनोदा. एम. बाडिगेर माल्लप्पा. बी. बाडिगेर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26042 19-03-10	सी/1/136, डांडेली, हल्लीयाल तालुक, करवार

207953	विनोदकुमार कीर्ति जीवनधर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24181 24-04-09	पाछमूता बिल्डिंग, विद्यागिरि दूसरा क्रॉस, धरवाड़
207954	विनुता कोराडुर बसवाराज कोराडुर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28965 26-04-12	बसवाराज बिल्डिंग, गौरीशंकर एनजीआर रोड मेन, तीसरा क्रॉस, रानेबेन्नुर तालुक हावेरी
207955	विनुता मुतालिकदेसाई अनील. ए. मुतालिकदेसाई	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28208 04-05-11	मकान संख्या-65/36 ए, शिनिरे कालानी, निपानी, चिकोडी ताल, बेलगाँव
207956	विनुथा आचार्य विश्वनाथ आचार्य. यू.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25222 13-10-09	विश्व कुटिर उद्यवारा बोलारगुडे, उदूपि तालुक, दक्षिण कन्नड़
207957	विनुथा होल्ला. ए नं. एस सुब्रमन्या. ए नं. के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24588 15-05-09	मकान संख्या-2522, सातवां क्रॉस, एचएएल तीसरा स्टेज कोनेने आगराहरा, विमानपुरा, बंगलौर
207958	विनुथा आर रंगान्ना एल आर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28841 16-04-12	श्रीनिधि लायौत, के पीछे लालन्दा कॉन्वेंट टुमकुर
207959	विनुथा. एच. टी थाम्मप्पा एच. एस	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25006 20-06-09	मकान संख्या-607, सातवां मेन, तीसरा ब्लॉक, बसावेस्वर नगर, बंगलौर
207960	विनुथा एम वकृष्णा भट.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26016 19-03-10	मकान संख्या 2-55/2, वसुधा, पादिल डाकघर, मंगलौर तालुक, दक्षिण कन्नड़
207961	विनुथा एम.जी. एस. गोविन्दाराजु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24060 21-04-09	मकान संख्या-21, सतरहवां ब्लॉक, बीईएमएल लायौत, श्रीरामपुरा दूसरा स्टेज, मैसूर
207962	विनुथा. एम. के एस. कृष्णामुर्ती.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27547 28-03-11	तुलसी निलया, मकान संख्या-66/8, विजयनगर एक्सेशन, होसदुर्गा तालुक, चित्रदुर्ग
207963	विनुथा. टी विरन्ना. टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23900 09-04-09	रेणुका एक्सेशन, कोचुर डाकघर, कुडलिगी तालुक, बेल्लारी
207964	विनयसा. टी. ई ईरन्ना. भी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24388 05-05-09	शिवनंदा कालानी, एएपीएमसी यार्ड, तीसरा क्रॉस आर्शीकेरे तालुक, हासन
207965	विरागाति जयप्रकाश मदिवल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28648 09-12-11	एम.पी. जालिहल, बादामी तालुक, बागलकोट
207966	विरेन्द्र प्रताप सिंह कान्हाहा सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27657 01-04-11	बसाव निलाया, बारहवां क्रॉस, प्लॉट संख्या-7/2, विद्यागिरि, बागलकोट
207967	विशेशा उल्लिगेरि सोमालिंग	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26796 19-08-10	भारतीनगर, हांगल रोड, हावेरी तालुक
207968	विरोजा के मल्लिकार्जुन के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30298 08-05-13	मकान संख्या-2-50, जाजापुर (ग्राम), तालुक मकथाल, नारायनपेट (मंडल), महबूबनगर, जाजपुर

207969	विरूपक्ष्या स्वामी सोमशेखराय्या स्वामी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29078 05-05-12	बेल्लुरकी ग्राम, मदाशिरवारा डाकघर, सिंधानुर तालुक, रायचुर
207970	विशाल तालिकोटी एच तालिकोटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24157 24-04-09	पंचामुता बिल्डिंग, दूसरा क्रॉस, विद्यागिरि, धरवाड़
207971	विशालाक्षी देवेन्द्रकुमार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24814 05-06-09	सरदगी (बी), डाकघर, गुलबर्गा तालुक
207972	विशालाक्षी नाडागौंदर अशोक. वी. बन्नीकोप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28489 26-07-11	मकान संख्या-1047, दोड्डा ओनी, हम्बाल डाकघर, गडग
207973	विशावंथरेड्डी बिरादर बापूगौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26748 03-07-10	मालाहल्ली, परासनहल्ली, सोनापुर तालुक, यादगीर
207974	विष्णु काम्बले महादेव. आर. काम्बले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26672 19-05-10	होरटी रोड इन्चारेगरी ग्राम एवं डाकघर, इन्दि तालुक, बीजापुर
207975	विष्णु कीर्ति. एन वेनकप्पा भट. एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25861 12-03-10	मकान संख्या 1-25, कोट्टेकाई (एच), पेरुवाजे डाकघर
207976	विश्वनाथ चिक्कनायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28705 30-03-12	हीरे कुरुवाट्टी डाकघर, हुविना हदागली तालुक, बेल्लारी
207977	विश्वास. पी. एस. सत्यनारायण. एस. टी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28712 30-03-12	इलुमक्कलम्मा, मंदिर स्ट्रीट, चित्रदुर्ग
207978	विश्वद्वीप तुकाराम सावंत	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28311 25-05-11	नजदीक बस स्टैन्ड, औराद ताल, बीदर
207979	विश्वजीत राय बिधानचन्द्र बिधान चन्द्र राय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29661 18-06-12	मकान संख्या-06, वार्ड संख्या-24, माल्विवा नगर, नवतन्वा गाँव एवं डाकघर, महाराजगन
207980	विश्वकर्मा संजयकुमार महावीर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27181 18-03-11	सी/ओ एसभीएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हुन्गुंड तालुक, बागलकोट उदूपि
207981	विश्वनाथ नागेन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27199 19-03-11	सौभाग्य रत्ना सदाना, कुम्बारा गल्ली, साहपुर, यादगिरि
207982	विश्वनाथ चरन्धीमाथ पाड्डय्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26499 07-04-10	मकान संख्या-2200, सिद्देश्वर रोड बिलागी डाकघर एवं तालुक, बागलकोट
207983	विश्वनाथ कोटागी महादेव बी कोटागी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24726 03-06-09	कारदशी डाकघर, चिकोडी तालुक, बेलगाँव
207984	विश्वनाथ मोनप्पा मोनप्पा तेलैगबाल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27182 18-03-11	भाग्य ज्याथि स्टोन पॉलिशिंग, शाहाबाद, चित्तापुर, गुलबर्गा

207985	विश्वनाथ पाटिल मालगौड़ा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25858 12-03-10	ओम चैतन्य बिल्डिंग, एसबीआई कालोनी, चिक्कोड़ी तालुक, बेलगाँव
207986	विश्वनाथ शेबन्नावर निन्गप्पा शेबन्नावर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26884 15-09-10	नजदीक राजकीय सीबीएसई स्कूल, सिक्करी क्रॉस, बागलकोट तालुक
207987	विश्वराध्या हीरेमाथ पंडितराध्या हीरेमाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	28885 20-04-12	वार्ड संख्या-1/3, एच वन रेवनकालाकुन्टा ग्राम एवं डाकघर यालाबुर्गा तालुक कोप्पल
207988	विश्वास. टी. वी वेंकटगिरि. टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25835 12-03-10	तालागरे गुड्डागरे गुड्डेकेरी डाकघर, थिर्थाहल्ली तालुक, शिमोगा
207989	विश्वेश्वरैया माथ राचयूर्या	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29748 29-09-12	मकान संख्या-12/139, के पीछे बस स्टॉप, हुनासगी गाँव एवं डाकघर शोरापुर तालुक, यादगिरि
207990	विट्टल प्रसाद. पी बालाचन्द्र भट.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24636 21-05-09	मकान संख्या-726, तेडसवां क्रॉस, के.आर. रोड, बानाशंकरी दूसरा स्टेज, बंगलौर
207991	विवेक प्रताप सिंह धर्मेन्द्र बी सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30539 03-07-13	मकान संख्या-27/146, पहला मेन विनायका नगर, बंगलूर क्रॉस, येलहंका, बंगलौर
207992	विवेक. एस. बलीकाइ शिवप्पा. यू. बलीकाइ.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26014 19-03-10	मत्तीगत्ती डाकघर, कून्डागौड़ तालुक, धरवाड़
207993	विवेकानन्द पाटिल संगनागौड़ा ए पाटिल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29921 01-02-13	सीटीएस संख्या-2394 नजदीक दत्ता मंदिर, कोल्हापुर भीईएस, अथनी, बेलगाँव
207994	विवेकानन्द वेंकटराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25444 02-03-10	प्लॉट संख्या-38, इन्फॉर्म ऑफ लक्ष्मी मंदिर, रामनगर कपनुर डाकघर, गुलबर्गा
207995	वृन्दा गुरुराजा भट के	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30283 07-05-13	मकान संख्या-328, एसएफएस 407, चौथा फेस, येलहंका नया शहर, बंगलौर
207996	वृधुला वेन्कटा संध्या वी.एल.ए नं. शास्त्री	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28407 18-06-11	फ्लैट संख्या-113, स्पेक्ट्रम अम्बारा अपार्टमेंट प्रसांथ लायौत एक्सपेंशन आईटीपीएल रोड बंगलौर
207997	वैष्णवी. बी बद्रीनाथ. बी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24492 11-05-09	मकान संख्या-5/126, कृष्णादेवरया रोड हगारी बोम्मना हल्ली, बेल्लारी
207998	वाड़े सागर दिलीप वाड़े दिलीप दत्तात्रेय	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25667 08-03-10	नजदीक रंगरेज अस्पताल, गजेन्द्रगाद, रॉन तालुक, गड्ग
207999	वाघ भूपेन्द्र वसंतराव वसंतराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23957 13-04-09	निलाया, उदय हाउसिंग कालोनी, विद्या नगर, (पश्चिम), हावेरी
208000	वाघ प्रशांत प्रल्हाद वाघ प्रल्हाद रामराव.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25207 09-10-09	मकान संख्या-19-04-622, एमइएस कालोनी, हुमनाबाद रोड, नौवाद, बीदर



208001	वाघ विजय शिवाजी शिवाजी मारुतराव वाघ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24528 12-05-09	मकान संख्या 10-02-310-13/ए, सिंडीकेट बैंक कालोनी, मानवी. तालुका, रायचुर
208002	वाघे नायर दीपक दीपक गनपत वाघे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29474 24-05-12	फ्लैट संख्या-202, शिवाजी रोड राजे काम्पलेक्स, नजदीक पनवेल तालुका, रायगढ़
208003	वाघमारे अर्चना जगन्नाथराव रफुगर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 1999	26971 16-11-10	मकान संख्या-47, पन्द्रहवां मेन, मुन्नेश्वर ब्लॉक, बंगलौर
208004	वाघमारे किरन कुमार लालप्पा डबल्यू लालप्पा भीमराव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2010	28542 07-09-11	सी-39, शिक्षक कालोनी, नजदीक नालन्दा कॉलेज, औराद (बी), बीदर
208005	वाघमारे विकास दिगम्बर दिगम्बर. वी. वाघमारे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	23709 02-04-09	जेल कालोनी, मकान संख्या-8-9-72, बेसीदे वल्ली प्रेस, बीदर
208006	वाघमोदे स्वेता मयप्पा बाबूराव बाघमारे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	29017 27-04-12	मकान संख्या-33, आदर्श कालोनी, शाहुपूरी सतारा
208007	वाहेंगबाम दिबीता देवी. वाहेंगबाम एम सिंह	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26743 02-07-10	सी/ओ शुश्रुषा नरसिंग होम, बी.बी. रोड, येलहंका, बंगलौर
208008	वाले ओमकार अविनाश वाहेन्गबाम वाले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30531 26-06-13	ओम प्लॉट संख्या-76, फेस संख्या-2, रामा उद्यान मिराज, ताल-मिराज, सांगली, मिराज
208009	वाली अमृता अशोक अशोक गुरुलिंगप्पा वाली.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	26263 23-03-10	बेदकीहाल डाकघर, चिकोडी तालुका, बेलगाँव
208010	वाली विजयलक्ष्मी अनील कुमार. एस. शेत्तार.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	24813 05-06-09	बेलूर डाकघर, बादामी तालुका, बागलकोट
208011	वाल्के प्रिया प्रभाकर वाल्के प्रभाकर तुकाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	28103 25-04-11	मकान संख्या-83/1, नजदीक विरभद्रेश्वर मंदिर, याददूर डाकघर चिकोडी तालुका, बेलगाँव
208012	वांदरे सागर विथोबा वान्दरे भी गणपति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25062 18-07-09	प्लॉट संख्या-6544, सेक्टर संख्या-10, नवी.न नगर एम.एम. एक्सपेंशन, बेलगाँव
208013	वानी दीपक मालगौड़ा मालगौड़ा दत्तू वानी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25158 30-09-09	एम. बी. कलाल बिल्डिंग, नजदीक वेंकटेश थियेटर मुंदासगी तालुका, गडग
208014	वंखादे प्रशांत जयदेवराव वंखेडे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2011	30552 15-07-13	भोवाटे लायौत, के पीछे बेनोदा स्कूल, महादेव खोरी रोड यशोदा नगर, अमरावती
208015	वांखेडे आशीष दयानेश्वर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	25134 25-09-09	सनमेश्वर निवास, हाउसिंग बोर्ड कालोनी एलआईजी-24, बीदर
208016	वसिम जागीरदार अफसार पाशा जागीरदार	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि. बंगलौर 2009	27303 23-03-11	केएचबी कालोनी, नजदीक इन्द्रा नगर, एचआईजी 14, बीजापुर

208017	वधारकर श्रद्धा दयानेश्वर दयानेश्वर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30041 16-04-13	नालबन्दा चौक, किराना बाजार, बीजापुर
208018	यादव अशोक कुमार मंगल मंगल यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26529 09.04.10	एम.जी. हाउसिंग कॉलोनी, वेलहोंगल तालुका, वेलगॉव
208019				
208020	यादव अशोक कुमार हरीनाथ हरीनाथ बी. यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27132 17.03.11	एस.वी.एम. आयु. मेडिकल कॉलेज, इलकल तालुका, बगलकोट
208021	यादव गोरीशंकर हरीकेश आर. यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30020 10.04.13	चन्द्रावली यादव छावल, पम्पहाउस, रूम नं. 13, अम्बेरी ईस्ट, मुम्बई
208022	यादव ज्ञानेन्द्रा कुमार अवधनारायण अवधनारायण बी. यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29542 28.05.12	कृष्णा को-हाउसिंग सोसायटी, प्लाट नं. ए-23, गणेश नगर, मुम्बई तालुका
208023	यादव हरीकान्त भारतनाथ भारत नाथ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26226 23.03.10	के.पी.टी.सी.एल. कॉलोनी, पी.बी. रोड, रानेबनूर तालुका, हावेरी
208024	यादव किशोर आनन्द राव यादव ए राव निवर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28990 27.04.12	प्लाट नं.0.8, चास्तली कॉलोनी, देगॉव, पाना जनता बैंक के पीछे, पत्रालय तालुका
208025	यादव मिथुन लक्ष्मण वाई एल. मारुति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24142 22.04.09	मृत्युन्जया नगर, वेलहोंगल तालुका, बेलगॉव
208026	यादव राहुल बाजीराव यादव बाजीराव परशुराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24723 03.6.09	प्लॉट नं. 7, ई एल बेथल, रामनगर, निपानी चिकोडी तालुका, वेलगॉव
208027	यादव राजेश कुमार जयनाथ सी. यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28750 02.04.12	जयराम मुकदम की छावल, एस.पी. रोड, धारखडी दहीसर पूर्व, मुम्बई
208028	यादव रवि अशोक अशोक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29578 12.06.13	तकरी पत्रालय, वालवा (तालुका), संगली
208029	यादव सपना अछेलाल अछेलाल डी यादव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30171 25.04.13	ए/4 604ए वेदान्त कॉम्प्लेक्स, वरतक नगर, थाणे (पश्चिम)
208030	यादव वृशाली राजाराम यादव आर तुकाराम	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24410 05.05.09	आर. एस. हिरेमठ बिल्डिंग, एम.बी. दतार कॉलोनी, कोप्पल
208031	यदलापुरे विजयलक्ष्मी वाई नागशेट्टी वी.रशेट्टी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25432 26.02.10	मकान नं. 9-10-76ए रामपुरे कॉलोनी, मन्नाली रोड, बीदर
208032	यल्लाप्पा अराजप्पा मुदगल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29891 20.12.12	चिक्का यारदहील, पत्रालय अमाहील, तालुका लिंगासगुर, रायचूर

208033	यल्लारेड्डेरा हरीश रेड्डी वाई . रंगा रेड्डी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25663 08.03.10	अरासनलू पत्रालय, हारापहाल्ली तालुका, दावणगेरे
208034	यमुना संजीव शेटी	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30587 30.07.13	कल्लु कोप्पा, मालेशंकरा -एस एफ, श्रीगेरे पत्रालय, शिमोंगा तालुका
208035	यमुना जी. गिरीगोवदा डी.जी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28470 04.07.11	एम.जी.ओ. क्वार्टर्स, हसन रोड, अरासकेरे तालुका, हसन
208036	याशश्री एस. माधव कामठ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30518 21.06.13	याशश्री मकान नं. 9-35-ए, महालक्ष्मी नगर, अम्बागीलू, तालुका एवं उदुप्पी
208037	याशशिवनी रामचन्द्रा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30419 28.05.13	चन्द्रा छाया, सूरतकल, मंगलोर, दक्षिणा कन्नाड़ा
208038	याशशिवनी वाई. सी. वाई.के. चन्नाबासप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24051 20.04.09	श्रीनगर निलाया, 12 वार्ड, हुडगली रोड, हारापनहाल्ली तालुका, दावणगेरे
208039	याशस्विनी जी. गोपाल गोपालकृष्णा जी.सी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30294 08.05.13	श्री रंगा विलासा, गुड्डेथोडा (पी), कोप्पा (टी), चिकमगलूर (डी), कोप्पा
208040	याशस्विनी एच. आर. राजू	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30136 20.04.13	श्री गोरी निलाया डी/ए नं. 5555/बी, 2 क्रॉस, रकशनापूरम, तालुका
208041	याशस्विनी जे. बासवाराजा जे.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28777 11.04.12	मकान नं. 1540, डब्लू नं. 6, उज्जैनी रोड, कोट्टूरु पत्रालय कुडलीगी तालुका, बेल्लारी
208042	याशास्विनी के.एस. शिवन्ना एल.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30324 14.05.13	एल आई जी 1/16, विजयानगर एक्सटेंशन, कृष्णाराजानगर (तालुका), मैसूर
208043	याशस्विनी जी. गुन्डप्पा. डी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24829 06.06.09	मायलनायकना होसहाल्ली, मायलकना हाल्ली, पत्रालय, चन्नापटना तालुका, रामानगर
208044	याशवन्थ बी. ए नं. नान्जुदयाह. बी. एन	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23977 18.04.09	मकान नं. पी डब्लू क्वार्टर्स, मारेनगरे तिपूर तालुका, टुमकूर
208045	याशोदा एल.जी. एल.जी. मंगो नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23712 02.04.09	मकान 509, हेब्बाल्ली, बदामी तालुका, बगलकोट,
208046	याशोदा बबली दुनदाप्पा दुनदप्पा यल्लाप्पा बबली	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27518 28.03.11	धर्माट्टी पत्रालय, गोकक तालुका, वेलगौव
208047	यशोधा यादहाल्ली हनुमन्थ आर. यादहल्ली.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24271 29.04.09	होसरीट्टी पत्रालय, 555, गुट्टल रोड, हावेरी
208048	याशवन्थ नायक शिवाप्पा एम. नायक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26618 26.04.10	दूरभाष एक्सचेंज दफतर बगलकोट

208049	याशविधा रमेश रमेश आंचल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30434 31.05.13	डी.ए. नं. 2-83 (1), देजाम्मा कम्पाउन्ड, बोल्लूर कोइकुडे (वाया), हेलेगडे मंगलौर
208050	याशमीन जामखन्डी रफिक	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30166 25.04.13	नियर बस स्टैंड, साव मिल अठानी रोड, ए/पी तिकोटा, तालुका
208051	यादागे युवराज विट्टल विट्टल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	23849 06.04.09	2199, पोगनीस्बोल, समीप मराठी विद्यालय मकान नं. 2, महादेव गली, निपानी, चिक्कोडी तालुका वेलगॉव
208052	येरनाल्ले राजेशेखर प्रभु प्रभु	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26471 31.03.10	चालुक्या नगर, बीजापुर
208053	येरनाल्ले संध्या शरनाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29988 07.04.13	11 क्रॉस समीप भवानी रिच मिल्ल, विद्यानगर कॉलोनी, बीदर
208054	यशवन्त भोसले विजय भोसले	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24183 24.04.09	मकान 965, नीलगर गल्ली, बेलहोंगल तालुका, वेलगॉव
208055	यशवन्त यू. उमापति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26596 22.04.10	मकान नं. 9, 2 मेन रोड, आर.के. लेआउट, पद्मनाबनगर, बंगलौर साउथ
208056	योगेश कुन्देकर मेघो	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26289 23.03.10	मकान नं. 500, रामदेव गल्ली, एम. वडागॉव, वेलगॉव
208057	योगेश्वरी नागशेट्टी बिरादर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29960 06.04.13	अध्यापक कॉलोनी, आयुर्वेद बी, मकान नं. 34, तालुका -औराड बीदर, औराड
208058	योगेश सी. बी. चन्नाबसाप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	30202 29.04.13	चिलुकावडी (वाया) एवं (पी), कोल्लेगल (टी), चामराजनगर (डी), कोल्लेगल
208059	योजना नारवी. शेखर नारवी.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24589 15.05.09	पूरनचन्द्रा नगर, हराडे, पत्रालय, पूट्टर तालुका, दक्षिण कन्नाडा
208060	युवराज राजामाने नामदेव	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29397 21.05.12	केम्पवाड पत्रालय, अठानी तालुका, वेलगॉव
208061	जफ़ीरा उम्मर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26083 19.03.10	कम्बलबेट्टु हाउस, बन्तवल तालुका, दक्षिणा कन्नाडा
208062	जहीराजामत ए. नदाफ अब्दुलसाहब आइ नदाफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26001 19.03.10	मकान नं. 6713/1, कुलकर्णी प्लॉट, इन्द्रानगर, चिक्कोडी तालुका, वेलगॉव
208063	जैनुददीन महोम्मद उल्लाल पंडित महोम्मद उल्लाल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29426 23.05.12	नं. 12-47-1, समीप अलरकाला जुमा मस्जिद, उल्लाल पत्रालय मंगलौर
208064	जाम्बरे स्मिता अन्नासाहेब जाम्बरे ए. जयवन्त	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24090 21.04.09	ताईकृपा कम्प्लेक्स, समीप दननम्मा मंदिर, रबकावी.

208065	जंगे प्रशान्त सिदरामप्पा जंगे सिदरामप्पा बासवानप्पा	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24242 28.04.09	गौरी गल्ली, गजेन्द्रगड पत्रालय, रॉन तालुका, गदग
208066	जानवर सितल दत्ताप्रसाद दत्ताप्रसाद आर. जानवर	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	28822 13.04.12	मेन रोड समीप बस स्टैंड, मान्ता पत्रालय, जलना
208067	जरीना बानू ए. अब्दूल रहमान ए.	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	25876 12.03.10	खालेन्द्र नगर, जावोगल पत्रालय, अरसीकेरे तालुका, हसन
208068	जिनत कौसर राजे साहेब नदाफ	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	26719 17.06.10	प्लॉट नं. 2, अहमद कॉलोनी, समीप रामनगर बस स्टैंड, बिजापुर तालुका
208069	जिंगडे अर्चना प्रभाकर लोखन्डे शिवाजी शंकर	बी.ए.एम.एस. पूणे वि.वि., पूणे, 1997	25120 14.09.09	अफजलपुर, समीप शांति निकेतन विद्यालय, अफजलपुर, गुलबर्गा
208070	जिन्सेल करोल हीरेमन जिन्सेल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	29743 10.09.12	मकान 23, एवेन्चू दे ला गेरे, वोयुव्री, स्वी.ट्रजरलैन्ड कवलास
208071	जोपेल राकेश अनिल जोपेल अनिल निवर्ति	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	27928 12.04.11	21 के.एम. कनकापुरा रोड, उदयपुरा बंगलौर
208072	जुल्फी रुबिया एफ. आई. महोम्मद इस्माइल	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	28319 25.05.11	मकान 36, 4 क्रॉस, 1 एम.डी. ब्लॉक, चामराजपेट, बंगलौर
208073	जुरे प्रितेश भालचन्द्र भालचन्द्र डी. जुरे	बी.ए.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	24886 08.06.09	रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बदामी तालुका, बगलकोट

**भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका**  
**कर्नाटक**  
**भाग-II यूनानी**

के. पं. संख्या	नाम एवं पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/ पंजीयन तिथि	पता
29600	ए. शकीला बानू डी.पी. अजीजूर रहमान	बी.यू.एम.एस. एम.जी.आर. मेडिकल. वि.वि., चेन्नई 1994	1624 08.03.13	सिटी क्लीनिक नं. 1611, हुबली रोड, श्री करवर
29601	आन्सा गययोम मजहर ओययोम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1411 30.04.10	आर. नं. 03, के.सी.टी. कन्या छात्रावास, इस्लामाबाद कॉलोनी, गुलबर्गा जिला
29602	आसियामत इमामकासिम हुलीकतती	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1319 07.10.09	एम.आई.जी. 14-25, के.एच.बी. कॉलोनी, जे.एम. रोड बीजापुर जिला
29603	अब्दु सुभान अहमद इरशाद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1468 07.04.11	मरलूर आडर्सडिंग अरमानमंजिल, 8 क्रॉस, सदाशिव नगर, मेलेकोटे रोड, दूमकूर

29604	अब्दुल गदिर मसीहूर रहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1344 15.03.10	मनीन सुरेश लेआउट 10 क्रॉस, मेलेकोट रोड, सदाशिव नगर टूमकूर
29605	अब्दुल हाफिज अब्दुल बहाब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1253 15.05.09	नियर रिंग रोड, सदाशिव नगर, 6 मेन, 4 क्रॉस, मरलूर, टूमकूर
29606	अब्दुल कादर खान शेर अली खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1651 06.06.13	मकान 962, 1 मेन रोड, चिन्नाना लेआउट, एल.आर. बन्दे रोड, कावलब्यारान्द्रा आर. टी. नगर. बंगलौर
29607	अब्दुल माजीद अब्दुल राशिद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1527 16.04.12	मकान 5, 2 पलोर 5, क्रॉस ए नं. जी. पाल्या, बंगलौर
29608	अब्दुल माजीद अंसारी अलीराजा अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1386 30.03.10	गुलाम हुसेन स्ट्रीट बगलकोट, गेस्ट हाउस, बीजापुर
29609	अब्दुल कादर जिलानी एस. चन्द पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1610 04.08.12	मकान नं. 7-902/1, नया मोहल्ला, दुर्गा रोड, गुलबर्गा
29610	अब्दुल रहमान खान रियाजुदीन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1492 02.06.11	एम.ए. हुगोडख अतोला चौक, जे.एम. रोड, बीजापुर तालुका
29611	अब्दुलस्मद सलोटगी अब्दुल गनी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1615	मकान 1086, हामिद नगर, नवबाग -12, बीजापुर
29612	अबिदा एम. एम.डी. मृत्युंजा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1383 29.03.10	मकान 70/2 ए नियर मुथप्पा कम्पाउन्ड, हली मेन, बनेरगटटा रोड, बंगलौर
29613	अबर् हुसेन अब्दुल गफफौर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1465 07.04.11	मकान 176, 8 क्रॉस, गंगोदाना हल्ली, चन्द्रा लेआउट, बंगलौर
29614	अब्बाकर मुल्ला मीरासब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1296 08.06.09	एम.ए. खातिब आबू गैस एंजेन्सी, बीजापुररोड, सिंदगी बीजापुर
29615	अदीबा सगहीर सगहीर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1279 08.06.09	मकान 12/1, 5 क्रॉस, रेहमत नगर, बंगलौर
29616	आफरिन तम्बे महबूब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1596 14.06.12	नागौर कॉलोनी, 3 क्रॉस, कोर्ट के पीछे, सिंदगी -तालुका, बीजापुर
29617	अुफीफा उबेर अब्दुल वाहीद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1663 11.06.13	6-42/1 मुस्लिम चौक, मोमिनपूरा, गुलबर्गा, कर्नाटका
29618	आफरिन फातिमा एस.के. फेजुदीन कादरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1601 14.06.12	मकान 5-470/106/9 इस्लामाबाद कॉलानी, अली -फारुक मस्जिद, के पीछे गुलबर्गा
29619	अफरोज फातिमा फायज अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1538 19.04.12	हुसैनहट, नं. 5/33, ए. क्रॉस 3 मेन बिसमिल्लाहवगर, बननेरघटा रोड, बंगलौर

29620	अफशान अन्जुम शैक अबीद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1635 29.04.13	मकान 14/581, राजमोहम्मद, काम्पलक्स, मेन रोड़, शाहाबाद, गुलबर्गा
29621	अफशान फरहीन मिर्जा इमान बैग	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1589 21.05.12	मकान नं. 7-1202/10/बी/1, बैलाबाद, बम्बो बाजार, गुलबर्गा
29622	आफताब आलम निजामूल हक	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1407 21.04.10	ए.एम.बगलकोट, (वकील), गुलाम हाउस, बीजापुर
29623	अफजल पाशा अब्दुल रहीम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1549 19.04.12	1 फ्लोर, मकान जे. 107, 4 क्रॉस, टी.सी.एम. रोगन रोड़, चौलडी पाल्या, बंगलौर
29624	अहमदी फिरदोस सिबगतुल्ला अलियास	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1380 29.03.10	मकान 29, 1 फ्लोर 8 मेन रोड़, बी.टी.एम.आई स्टेज गुरुप्पाल्या, बंगलौर
29625	अहमद उरोज मदसीद एम डी इब्राहीम खान मोहम्मद इब्राहीम खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1360 19.03.10	टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड़, मिलत नगर, गुलबर्गा
29626	आलिया फिरदोस अब्दुल रजाक	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1552 19.04.12	मकान 14-3-12, समीप मक्का मस्जिद, तिमारपूर शोरलपूर यादगिर
29627	अल्मास जाकिर जाकिर हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1457 07.04.11	मकान 21, 4 के.एच.बी. रोड़, भुवनेश्वरी नगर, आर.टी. नगर पत्रालय, बंगलौर
29628	अल्ताफ हुसैन थोकर जी.एच. मोहम्मद थोकर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1387 30.03.10	पठान हमीद नगर, ग्रीन पाक्र, नवबाग, बीजापुर
29629	अमत-उल जैनाब मोहम्मद यासीन अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 1981	1625 02.04.13	मकान 220, 4 क्रॉस, अब्दूल रहमान रोड़, उदयगिरी, मैसूर
29630	अमीन बेग अस्मा बेग	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1568 19.04.12	मकान 37, 9 ए क्रॉस, सोमवेश्वरनगर, जयानगर, 1 ब्लॉक, बंगलौर
29631	अमिना बी. एस.ए. अफजल पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1291 08.06.09	नं. 02, जे. नं. 1 एस.टी. लुबर मस्जिद स्ट्रीट, शिवाजीनगर बंगलौर
29632	अमिना थाजिन अयाज अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1551 19.04.12	मकान 1750, 1 मेन , 1 क्रॉस, मास्कू शहीद नगर, कोलार
29633	अमरीन साकुब मोहम्मद युसूफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1654 10.06.13	मकान 457/बी 1 क्रॉस पाइप लाइन रोड़, इलियासनगर जे.पी. नगर पत्रालय, बंगलौर, कर्नाटका
29634	अमथूल अजीजा एम.के. इनायत उल्ला शरीफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1456 07.04.11	मकान 63, 3 के.एच.बी रोड़, काकानगर, आर.टी. नगर पत्रालय, बंगलौर
29635	अमतूला आस्मा मोहम्मदमोइनदीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1295 08.06.09	नगर बोदी गार्डन, कमन खान बोदी कमन, जे.एम. रोड़, बीजापुर

29636	अन्जल चालर्स जे. चालर्स राजा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1373 29.03.10	मकान 292, 6 मेन 12 कॉस, एम.एस.आर. नगर, मटीकेरे बंगलौर
29637	अंसारी मोहम्मद आयुब मोहदयाकब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1614 06.11.12	चंक कॉम्पनी, अकबराला काम्प, आजाद नगर चिरागनगर, घट कोप्पा (पश्चिम), मुम्बई
29638	अन्सारी जुनरिया वाकूर अहमद अन्सारी वाकूर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1266 15.05.09	7 क्रॉस, 4 मेन सदाशिवनगर, टूमकूर
29639	अनवर अहमद खान मन्सूर अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1348 18.03.10	गुलाम हुसेन स्ट्रीट बगलकोट, गेस्ट हाउस, बीजापुर
29640	अकीला नौशीन जे. महबूबल हसन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1305 08.06.09	नं. 5-40/4ए/4, के.सी.टी. रोड, खाजा कॉलोनी, गुलबर्गा
29641	अरशिया बेगम नवाब जन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1260 15.05.09	मकान 12/4, इत्तिज अनजीनाप्पा लेन, पेंसन मोहल्ला, मैसूर रोड, बंगलौर
29642	अस्फाक अहमद मुस्ताक अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1575 21.05.12	बिल्डिंग नं. 1 आर. 11, 2 मंजिल, इ.एस. पालनवाला रोड, बाइकुला, पूर्व मुम्बई 27, महाराष्ट्रा
29643	आशा एस.बी. भोजराज	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1394 01.04.10	मकान 112, बिल्डिंग नं. 12, केनगरी सैटलाइट टाउन, श्रीके आपर्टमेंट्स, के.एस. टाउन
29644	आशफिक अहमद खान अब्दुल रब खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1513 17.10.11	नगर बोदी प्लॉट्स, समीप हाकिम चौक जे.एम. रोड, बीजापुर
29645	आशिया याशमीन अब्दुल हय	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2012	1623 05.03.13	7-1202/56/के.ए., समीप अली मस्जिद, बगदाद कॉलोनी, गुलबर्गा
29646	आशमा अफरीन फातिमा मोहम्मद के. अशरफूदीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1646 27.05.13	मकान नं. 19-2-11/34/93 कालापत्थर, बिलाल नगर, हैदराबाद आन्ध्रा प्रदेश
29647	आसमा अन्जुम मोहम्मद अब्दुल अजीम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1297 08.06.09	प्रथम मंजिल, प्रेमकिरण प्लाजा, 5 मेन रोड, आर. टी. नगर, बंगलौर
29648	आसमा अन्जुम मोहम्मद रफी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1627 10.04.13	मकान नं. 5-993/105, महबूब नगर कॉलोनी, गुलबर्गा
29649	आस्मा बेगम मोहम्मद गुलाम ए. खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1522 16.04.12	मकान नं. 17-6-655 बाग -ए-लश्कर जंग, समीप पुलिस स्टेशन क्वार्टर्स, ओबीरपुर, हैदराबाद ए.पी. स्टेट
29650	आस्मा परवीन स्व. एच. अब्दुल सुभान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1545 19.04.12	मकान 6, 6 क्रॉस, केम्पीयाह ब्लॉक, जे.सी. नगर, बंगलौर
29651	अतिकराहमन फजलुरामन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1583 21.05.12	74, आयशाबाय चैम्बर सोफिया, जुबेर रोड 2 मंजिल, आर.ए नं. 57, नागपूर, मुम्बई



29652	अविनाश आर. रमइहा. डी.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1247 05.05.09	मकान एल 40, 9 क्रॉस एल.ए. नं. पूरम, देवयापाक्र, बंगलौर
29653	अयेशा अमरीन बेग मिर्जा ए.आर. बेग	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1590 21.05.12	मकान 5-993/207/2बी हगार्गा 1 क्रॉस, जुबेर कॉलोनी, गुलबर्गा
29654	आयेशा फिरदोस अब्दुल लतिफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	1325 27.11.09	मकान 16-105, चान्द बाडा, शाहबाद पत्रालय, चितापूर तालुका, गुलबर्गा
29655	आयेशा सिददीक मोहम्मद घोस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1469 07.04.11	मकान जे. 137, 5 क्रॉस, चेलूवाडी पाल्या, टी.सी.एम रोयन रोड, मैसूर रोड, बंगलौर
29656	आयशा तहसीन अब्दुल नबी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1307 11.06.09	नं. 6-1-1165, नौराही मस्जिद रोड, मेहबूबिया, सिधानोर-रायचुर
29657	आयशा तरुनूम मोहम्मद जलील	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1466 07.4.11	मकान 40, 2 मेन, 2 क्रॉस, एस.आर.के. अरदेन, जयानगर, बंगलौर
29658	आयशा तस्लीम मोहम्मद अकरम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1566 19.04.12	मकान 19-5-482/ए/162/बी/1, नजम नगर किशन बाग, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश
29659	आयशा जिनथ सयैद हबीब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1473 07.04.11	मकान 31/12, प्रथम मंजिल, 7 बी मेन, बी.टी.एम. लेआउट, 1 स्टेज, बंगलौर
29660	अजीम बिन अब्दुल रुब हाफीज अब्दुल रुब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1643 22.05.13	12-2-417/सी/10, शेहनाज इन्कलेव एल.आई.सी., मेहदीपटनम हदैराबाद, आन्ध्रा प्रदेश
29661	बदर जहान फिरदोस एच. हमीद पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1580 21.05.12	मकान 34, विनय कल्याण मन्ताप, शाहीनिशा नगर, कोलार
29662	बदरे आलम निसार अहमद अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1559 19.04.12	मकान 111, रहमतपुर शान्तनगर, नियर, मोहम्मदिया भिवंडी, थाणे
29663	बासवाराज शिंदे श्रीशैल. एस. शिंदे	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1430 28.12.10	डी.सी.सी. बैंक, चडाचन पत्रालय, इन्डी तालुका, बीजापुर
29664	बी.बी. जेवरिया अमजद पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1250 15.05.09	मकान 19, 3 क्रॉस, नालबंदवाडी मोहल्ला, रामानगरम
29665	बी.बी. राजिखा अमजद पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1661 11.06.13	मकान 19, 3 क्रॉस, नालबंदवाडी मोहल्ला, अमनग्राम कर्नाटक
29666	बिलाल अहमद खान अजीज अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1562 19.04.12	एम. अहमद जायेद साद मेशन, सुरेश लेआउट, 10 क्रॉस, सदाशिवा नगर
29667	बुशरा बेगम मोहम्मद इकबाल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1608 12.07.12	मकान 15-393/49 मिल्लत नगर, शाहबाद, चित्रापुर, गुलबर्गा

29668	बुशरा इस्लाम शमश-उल-इस्लाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1591 21.05.12	मकान 1-1456, नूर -उल-इस्लाम कैम्प, एम.एस.के. मील, गुलबर्गा
29669	बुशरा सुल्ताना सइद एस.ए. दर्वेश	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1586 21.05.12	मकान 13/1, 3 क्रॉस, आनन्दप्पा ब्लॉक, रहमत नगर, आर.टी. नगर, बंगलौर
29670	चलेकाला श्रीनिवास रेड्डी कासवा रेड्डी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2001	1666 15.07.13	मकान 209, 1 क्रॉस, विदया नगर, बोम्मासन्ना पत्रालय, अनेकल, बंगलौर कर्नाटका
29671	चित्रा प्रिया एम.एच. हिन्दयाह एम.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1384 29.03.10	मकान 28, 7 मेन 15, क्रॉस सुब्बाराजू लेआउट, लक्कासन्ना बंगलौर
29672	दानिश ओमर मोहम्मद इशाक	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	1426 25.10.10	मकान 12, देवीस रोड, अराबिक कॉलेज पत्रालय, ऑफिस, बंगलौर
29673	दयानन्द कबाडी रामचन्द्रा एच. कबाडी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1429 25.11.10	मकान 3021, मगदी, जनप्रिय भारत, इन्कलेव, अपार्टमेंट्स, सुनकडकटटे, बंगलौर
29674	दिव्या एस. सेलवाराज डी.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1369 29.03.10	मकान 16, मेन रोड, नन्जरासप्पा लेआउट नियर केनरा बैंक, कॉलोनी बंगलौर
29675	फहाद युनिसा अब्दुल रहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1290 08.06.09	जामिद गली तलीकोट बीजापुर
29676	फहमिना निशान्त एस. लियाकत अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1320 14.10.09	उरमामना बैलू, बेलारी रोड, 21 वार्ड, होस्पेट बेलारी
29677	फैज जुवैरिया जफर, फैज जफर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1631 22.04.13	1/408 सफेद मकान , एस.जी. बर्वे मार्ग, एल-वार्ड, कुरला (पश्चिम), के पीछे महारष्ट्रा मुम्बई
29678	फैज सलिहा जफर फैज जफर अब्दुलाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1630 22.04.13	1/408 सफेद मकान , एस.जी. बर्वे मार्ग, एल-वार्ड, कुरला (पश्चिम), के पीछे महारष्ट्रा मुम्बई
29679	फरीदा बेगम चित्रागी दवालसब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1553 19.04.12	मकान 557, समीग बी ब्लॉक -35, येलान्का 4 फेस, बंगलौर
29680	फरहा दीबा सइद शफिउल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1594 21.05.12	मकान, 1 मेन, 1 क्रॉस, चिन्नाप्पा गार्डन, बेनसन टाउन बंगलौर
29681	फरहथजना एस. अजीज अहमद एस.ए.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1462 07.04.11	मकान 06, 12 क्रॉस, मुनीशवारा नगर, शामपूर मेन रोड, आर.टी. नगर, बंगलौर
29682	फरहीन फातिमा मेहफूज बीन सैय्यद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1567 19.04.12	मकान नं. 17-1-375/27/ए 4/4, 1 फ्लोर, खालेन्दर नगर, हैदराबाद आन्ध्रा प्रदेश
29683	फरहीन ताज मोहम्मद मुमताज	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1542 19.04.12	मकान 2686, 5 क्रास, नालबन्दवाडी मोहल्ला, रामनगरम

29684	फरीदुनिसा एम.ए. रहिम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1585 21.05.12	मकान 3-213, गौतम नगर कॉलोनी, पटादीरू, हदैराबाद, मेदल, 502319 आन्ध्रा प्रदेश
29685	फजीलाथ मेहदी फकीर सदैय खुन्दमतर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1377 29.03.10	नं. -358, एस -एम, स्ट्रीट चन्नापटना, रामानगर
29686	फज्जुर मोहसिन खान अब्दुल सुभान खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1523 16.04.12	मकान 9, 4-59 हकीमपेट, पुलिश चौकी, हदैराबाद, आन्ध्रा प्रदेश
29687	फज्जुर रहीम मेदवाल अब्दूर रहीम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1626 10.04.13	हबीब मंजिल, आर/ओ, टिप्पू नगर, तलीकोटी गाँव, तालुका -मुद्देबीहल, बीजापुर, तलीकोटीक कर्नाटका
29688	फिरदोस बेगम अब्दुल राशिद मौजन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1461 07.04.11	मकान 146, समीप जामिया मस्जिद, मनहली, बीदर तालुका
29689	फौजिया बेगम खालिलूर रेहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1452 06.04.11	एल-139, निगलिंगप्पा कॉलोनी, 2 मंजिल मेन रोड, राखुर, तालुका
29690	फौजिया परवीन लोहरी मुर्तिलिजा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1335 05.03.10	मकान 60, जे. एम. रोड, बीजापुर
29691	फुराकन अहमद समी अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1574 21.05.12	बिल्डिंग नं. 1 आर. ए. नं. 11, 2 मंजिल, इ.एस. पालनवाला रोड, बाइकुला, पूर्व मुम्बई 27, महाराष्ट्रा
29692	गदवाल ललिया मोहम्मद शफी गदवाल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1564 19.4.12	एफ.न0 2, गराले रेजिडेंसी एस.ए. नं. 5015 भागयोदया नगर, कोनधवा पुणे महाराष्ट्रा
29693	गजला फिरदोस माइनूददीन रियाज	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1298 08.06.09	मकान 3393, 2 मेन रोड, कुमनदन मोहल्ला, रामानगरम
29694	गीता .बी.ए. नं. नरसिंहामूर्थ आर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1372 29.03.10	मकान 28/1 1फ्लोर 3 क्रॉस 13 मेन रोड, विजयानगर बंगलौर
29695	गोसिया बेगम के. बशीर अहमद के.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1314 20.08.09	2इ/1, 24 वार्ड, समीप उर्दू डी.आई.ई.टी., कोवल बाजार बेल्लारी
29696	हीजिरा शाहीन के. सयैद कलीमुल्ला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1252 15.05.09	नं. 3993, कुरुबेपेट, मुलबगल, तालुका कोलार
29697	हीना कौसर .एस. सयैद अशरफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1397 01.04.10	मकान 82, कोट रोड, विनायक नगर, डोददाबल्लापूर, तालुका, बंगलौर
29698	हीफसा अमन अमनुल्ला बेग	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1382 29.03.10	मकान 13, 2 क्रॉस, 22 मेन, जे.पी. नगर 5वॉ फेस, विनायकनगर, बंगलौर
29699	हुमा कौसर मोहम्मद मीराजुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1423 25.08.10	मकान 3-10-4, मदवाडी मठ, रायचुर तालुका

29700	हुसना खानूम बुरहान खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1544 19.04.12	14/15, 8 सी. मेन, नया गुरुप्पना पाल्या, बंगलौर
29701	आई एम. अंजुम अंवरुल्ला खान अंवरुल्ला खान आई	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1532 16.04.12	समीप अलताफ उर्दू प्राथमिक विद्यालय, नया नन्दीद नाका, लाटूर महाराष्ट्रा
29702	आई एम. तबस्सुम अंवरुल्ला खान अंवरुल्ला खान आई	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1529 16.04.12	समीप अलफलश उर्दू प्राथमिक विद्यालय, नया नन्दीद नाका, सन्त नगर, लाटूर महाराष्ट्रा
29703	इखलास अहमद अखलाओ अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1410 30.04.10	समीप औबा मदरसा, इस्लामबाद कॉलोनी, गुलबर्गा
29704	इमामूद्दीन मौला अब्दुल रौफ मौला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1524 16.04.12	मेन रोड अजमेल पत्रालय, सिंदगी –तालुका, बीजापुर
29705	इन्तेसर खान अब्दुल वाहीद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1371 29.03.10	मकान 2265, 10 क्रॉस, ए.एम.सी रोड के.जी., हल्लू बंगलौर
29706	इकबाल पटेल खानावाले उसमान पटेल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1525 16.04.12	ई.डबल्यू.एस. 3, बगलकोट रोड, बीजापुर
29707	इरफान जबीन महमूद अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1362 19.03.10	मकान नं. 8-1305/201/103, मिलाह नगर बी कॉलोनी, रिंग रोड, गुलबर्गा
29708	जे.के. सुनिता जे.के. कालाईहा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1374 29.03.10	मकान 2265, 10 क्रॉस, ए.एम.सी रोड के.जी., हल्लू बंगलौर
29709	जहान अरा ए. एम.के. खिजर महमूद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1280 08.06.09	नं. 284, 6 क्रॉस, सिद्दीक नगर, मैसूर
29710	जावेरिया नौरिन मोहम्मद अशाफाक अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1543 19.04.12	मकान 85, वार्ड, नं. 14, गफ्फर खान मोहल्ला, श्रीनिवासपुर, कोलर
29711	जयालक्ष्मी एम. मुदालगिरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1268 15.05.09	मकान 125/11, 16, मेन रोड, आई एण्ड सी लेआउट, विजयानगर, बंगलौर
29712	जीलन पाशा अब्दुल फहीम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1656 10.06.13	मकान 10, 30 बी क्रॉस, 23 मेन रोड, तिलकनगर, जयानगर, बंगलौर कर्नाटका
29713	के. एम. नगमा तबस्सुम मोहम्मद कामरान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1639 10.05.13	गॉव –हुसैनपुर मुसलमान, पत्रालय, साहीजना हमजापूर, अम्बेडकर नगर यू.पी.
29714	के.एम. सायना बानो रइस अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1496 02.06.11	सी. एच. बजन्तरी, घेवेरचन्द नगर, तौरुई रोड, बीजापुर
29715	केसरी बेगम बरकत उल्लाह अंसारी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1403 13.04.10	शांत बिल्डिंग, मकान 001, 10 क्रॉस, अबीगेरे रोड, समीप पत्रालय, जलाहल्ली (पश्चिम), बंगलौर

29716	कनीन फातिमा अब्दुल सलीम इदगा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1361 19.03.10	मकान नं. 6-94, खारी बावली, मोमीनपुर, खुनी लावा, गुलबर्गा
29717	कौसर उन्नीसा सयैद अजमठ उल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	1311 06.07.09	ए.एम. पठान, जोरापुर पेठ, कुम्बर गली, बीजापुर
29718	काजी अस्मा लोतफ हुसैन लताफत हुसैन काजी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1255 15.05.09	4 मेन, 7 क्रॉस, सदा शिवनगर, टूमकूर
29719	खदीजा जहीर मोहम्मद जहीरुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1418 02.07.10	मकान 12, देवीस रोड, बंगलौर
29720	खान अनवरुस अब्दूस सलाम खान अब्दूस सलाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1275 15.05.09	एच.एम.एस. यू.एम.सी., सदाशिव नगर, मारलूर -तालुका, टूमकूर
29721	खान आरिफ मोहम्मद अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1306 08.06.09	4 क्रॉस, 6 मेन, सदाशिव नगर, मारलूर पी.ओ., टूमकूर
29722	खान मोहम्मद इरफान आयुब मोहम्मद आयुब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1254 15.05.09	समीप रिंग रोड, सदस्तीन नगर, 6 मेन, 4 क्रॉस, मारलूर, टूमकूर
29723	खुरशीद अली मोहम्मद मुस्तफा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1401 09.04.10	याकुबपुरा, प्रतापपुर रोड, बासवाकल्याण पत्रालय, बीदर
29724	कोल्हार तजीन अशरफ अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1605 28.06.12	हकीम चौक, नगर बोदी प्लॉटस, बीजापुर
29725	कुमुधावती एम. मुनीराजाप्पा .पी.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1249 11.05.09	नं. 27/1, 1 क्रॉस, लक्कासन्द्रा, बंगलौर
29726	लीना .सी.एस. जी. टी. चन्द्राशेखराया	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1256 15.05.09	मकान 179/ए, ऑफिसर्स मॉडल कॉलोनी, टी. दसराहल्ली, बंगलौर
29727	लुबाबा तबस्सुम बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1659 10.06.13	मकान 167 बेगम मस्जिद, मोहल्ला सीरा तालुका, टूमकूर कर्नाटका
29728	एम.डी. यूसूफ -उल-इस्लाम एम.डी. मेहबूब मियों	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1312 08.07.09	मकान 5-11, समीप बेस, ओप खादी भंडार पत्रालय, चित्रगुप्प, तालुका -हुमनाबाद, बीदर
29729	महाम्मधानीफ निदोनी गुलाबसब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1258 15.05.9	मकान एल. ए. डी, 3 प्लोर, 9 क्रॉस, चोवडेस्वरी नगर, एल.ए नं. पुरम, बंगलौर
29730	महफूजर्हमान फजलूर्हमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	1309 26.06.09	टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, मिलात नगर, गुलबर्गा
29731	महमुद जहीर अहमद बेलगमी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1526 16.04.12	मकान 5, 2 प्लोर 8, क्रॉस ए नं. जी. पाल्या, बंगलौर

29732	मलिक असद मुहोम्मद अस्लाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1632 22.04.03	107, मानस अपार्टमेंट, बौधवाडा, रायगड़, महाराष्ट्रा
29733	मलिकारिउम हिरेमठ बासवराज हिरेमठ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1261 15.05.09	मकान 1-97/ए, मास्की-पत्रालय, लिंगासूगर -तालुका, रायचूर
29734	ममदापूर सबा ए. रजाक अब्दुल आर. ममदापूर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1288 08.06.09	यसीन अब्बास मामदापूर, जामदे गली, तलिकोटे, बीजापुर
29735	मनीहर सदीया मकदुम मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद मनीहर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1516 21.11.11	लुकमन यूनानी मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड के पीछे, नौबाग, बीजापुर
29736	मंजु .के. कृष्णप्पा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1419 12.07.10	मकान 663, 7 क्रॉस, 7 ए मेन रोड, नगरभावी 2 स्टेज 9 ब्लॉक, बंगलौर अर्बन
29737	मंजुनाथ बी.टी. आर. तिप्पेरुद्रहि	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1617 03.12.12	मकान 25/5, 14 क्रॉस, विजयनगर पाइप लाईन, समीप तेजस, नर्सिंग होम बंगलौर
29738	मंसूर अहमद खलील अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1274 15.05.09	मकान 447, समीप तसलीमशा दर्गा, शतिन्शाह नगर, कोलर
29739	मंजूर अहमद बशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1294 08.06.09	डी.पी. रोड, मोलाकल मुरु, चित्रादुर्गा
29740	मरीयम जमीला मदनी मेहबूब उर रहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1572 21.05.12	हुसैन कॉलोनी शान्ति नगर, हकीम चौक, जे.एम. रोड, बीजापुर
29741	मसरथ सुल्ताना ख्वाजा कमरुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1565 19.04.12	मकान 18-2-36/1/102, घाजी मिलात, कॉलोनी, चन्द्रायन गुटटा
29742	मोहम्मद अकील अहमद मोहम्मद अकमल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1416 02.07.10	मकान 36-216, देसपाण्डे स्ट्रीट, बासवान कल्याण, बीदर
29743	मोहम्मद अशरफ खातिब मोहम्मद यूसूफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1470 07.04.11	एम.ए. खातिब, लेक्चर, आई.बी. सिंदगी तालुका, के पीछे बीजापुर
29744	मोहम्मद असीफ नवीद मोहम्मद मसलेहुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1356 19.03.10	मकान 15/373/1/1, मिलात नगर पुराना, शाहबाद रोड शाहबाद चित्रापूर-तालुका, गुलबर्गा
29745	मोहम्मद इमरान अंसारी निजामुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1315 21.08.09	4 मेन 7 क्रॉस, सदाशिवनगर, टूमकूर
29746	मोहम्मद मोइद खान मोहम्मद मोइन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1537 16.04.12	छावनी (अमोधा), चाकवरी गाँव, हरय्या तालुका, बस्ती उत्तर प्रदेश
29747	मोहम्मद रिजवानुद्दीन फारुकी मोहम्मद राफिकूददीन फारुकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1357 19.03.10	दुकान नं. 5-192/3, समीप नूर बाग रोजा, गुलबर्गा

29748	मोहम्मद शहीद खान यार एम. खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1408 21.04.10	ए.एम. बगलकोट, (वकील) गुलाम हाउस, बीजापुर
29749	मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नस्मीर मोहम्मद शरीफ	बी.यू.एम.एस. वि.वि., कोलम्बो, श्रीलंका 1999	1420 26.07.10	बायेंस हॉस्टेल, नेशनल इन्स्टीट्यूट, ऑफ यूनानी मेडिसिन, मगदी रोड, कोट्टीजीपल्या, बंगलौर
29750	मोहम्मद शोएब अब्दुल्लाह मोहम्मद अब्दुल सत्तार	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1579 21.5.12	मकान नं. 5-993-244-ए6, मक्खन कॉलोनी, रिंग रोड, नियर वाटर टैंक, गुलबर्गा
29751	मोहम्मद वसी टिप्पू अन्वर ए.बी.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1285 08.06.09	मकान 36, 3वाँ मेन, 4वाँ क्रॉस चिन्नप्पा, लेआउट, के.बी. सन्दा, आर.टी.नगर, बंगलौर
29752	मोहम्मद वसीम खान मोहम्मद अनौस खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1324 27.11.09	डी.पी. रोड, कलगोद मोहल्ला, मोलाकलमूर, तालुका, चित्रादुर्गा
29753	मोहम्मद नवाजददीन मोहम्मद करीमूददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1404 13.04.10	मकान 29/101, विवर्स कॉलोनी, त्रिपुरानाथ बासवाकल्याण, बीदर
29754	मोहम्मद युनूस अहमद होसीलदर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1607 12.07.12	मकान 7-37, सनसिटी, प्रशान्त नगर, जगीर राजेन्द्र नगर, रंगारेड्डी, आन्ध्रा प्रदेश
29755	मोहम्मद जकियोददीन मोहम्मद करीमुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1402 09.04.10	मकान 29/101, विवर्स कॉलोनी, बासवाकल्याण, बीदर
29756	मेहरादीबा मोहम्मद घौस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1282 08.06.09	जे.-137, 5वाँ क्रॉस, चेवाडीपाल्या, जे.सी.एम. रॉयन रोड, बंगलौर
29757	मिर्जा तबिस बेग मिर्जा शाकील बेग	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1495 02.06.11	सुरेश लेआउट, 10वाँ क्रॉस, मेलेकोटे रोड, सदाशिव नगर, टुमकूर
29758	मिश्रा अजित कुमार दिनेश कुमार	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1323 03.11.09	आई. बी. नूरानी मस्जिद के पीछे, सिंदगी तालुका, बीजापुर
29759	मौजजम इरशाद इरशाद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1530 16.04.12	तिरनई खीजीरपुर -गाँव, पल्लियाया खास, पत्रालय, खन्डवा, बेल्यरा रोड, बैल्लीया उत्तर प्रदेश
29760	मोहम्मद कासिम बदरूददीन खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1634 29.04.13	मकान 308, ए विंग लोक सेवा, हाउसिंग सोसायटी, 90 फीट रोड, धाराविजन, मुम्बई
29761	मोहम्मद सदीक गलागली, चन्दपाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1349 18.03.10	मकान 1232/2, शंकर नगर, अठानी तालुका, बेलगम
29762	मोहम्मद फजल करीम अता करीम	बी.यू.एम.एस. बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर बिहार, वि. वि., मुजजफरपूर 2000	1432 15.02.11	मकान 60, 1 क्रॉस, 1 स्टेज केसरी, उस्मानिया ब्लॉक, मेन रोड, ए नं. आर. मोहल्ला, मैसूर
29763	मोहम्मद हाफिज अली मोहम्मद ताहीर अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1399 09.04.10	मकान 1-4-407, कर्नाटका क्लीनिक, पटेल वाडी स्ट्रीट, सिंधानूर पी.ओ. एवं तालुका रायचुर

29764	मोहम्मद सलावद्दीन मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1597 14.06.12	मकान 3-10-4, जैन मंदिर रोड़, हेड पोस्ट ऑफिस बेरुन किला, रायचुर
29765	महोम्मद फैज़ल शकील अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1647 28.05.13	रूम नं. 303, बी-विंग, 3वें फ्लोर, वसन्तराव, शादी महल हॉल रोड़, अमरुत, नगर मुम्बरा थाने
29766	मोहम्मद फारुकी मोहम्मद इदरिस	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 2003	1308 20.06.09	मकान नं. ए, कर्नाटका एजुकेशन ट्रस्ट, बिल्डिंग, 2 क्रॉस 2 स्टेज, कुरूरवारहल्ली, बंगलौर
29767	मोहम्मद नदीम मोहम्मद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1405 17.04.10	प्रासिद्ध नर्सिंग होम, जैन मंदिर रोड़, शिवाजी नगर, बंगलौर
29768	मोहम्मद शाहबाज आलम निजामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1629 22.04.13	सस्ता जनरल स्टोर, सराय चौक, अम्बेडकर नगर, यू.पी. जलापुर
29769	मोहम्मद जाकिर अली मोहम्मद तवफीक अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1598 14.06.12	मकान 18-2-43/3/ए/72, जी.एम. कॉलोनी, चमद्रायन गुटटा, केशवगिरी, बंदलागुड़ा, हैदराबाद
29770	मोहम्मदीस्माजी अंगदी लालेसब एल. अंगदी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1612 29.09.12	एस. ए. नगर बुदी, नागथान टिचर हाउस के पीछे, समीप बिदकेमा बीजापुर
29771	महोम्मद असद अखतर अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1588 21.05.12	रेनुका हॉस्पिटल, के.एस.आर.टी.सी. बस स्टैण्ड के पीछे, कोराटागिरी तालुका, टुमकूर
29772	मोहम्मद शरीक अंसारी शराफत हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1582 21.05.12	~
29773	मोहसिना फिरदोस . वाई, मोहम्मद युनुस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1251 15.05.09	मकान 56/8, 5वें क्रॉस, 4वें मेन, मुनेश्वरा ब्लॉक, पाइप लाइन रोड़, टी-दसराहल्ली, बंगलौर
29774	मुबारकुल्लाह अब्दुल मबीद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1301 08.06.09	यासिन मदापुर, जान्दे गली, तलीकोटे -तालुका, बीजापुर
29775	मुफतागिर अहमद एस. नसीम अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1248 05.5.09	मकान एल. 90, 9वें क्रॉस, एल.ए. नं. पुरम, देवयापाक्र, बंगलौर
29776	मुजिबुद्दीन शैक लेडलय	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1313 08.07.09	मकान 4-601, सरकारी पी.यू. कॉलेज, के पीछे एम. बी. नगर, बुलबर्गा
29777	मुनज्जा फिरदोस एम.ए. एम. डी. अस्लाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1460 07.04.11	मकान 735, 1 क्रॉस, 1वें स्टेज, राजीवनगर, मैसूर
29778	मुथयला वेन्कटेशवरा राव रमय्या	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1660 10.06.13	मकान 94/2, बेगुर मेन रोड़, होंगासन्द्रा बस स्टैण्ड, बंगलौर कर्नाटका
29779	नादिरा इरफान शैक फताउल्ला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1379 29.03.10	पुराना मकान 13, 1वें मेन, 1 वॉ क्रॉस, अप्पाना ब्लॉक, आर.टी. नगर बंगलौर



29780	नफीसा बेगम पी. पी. रफीक बाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1570 19.04.12	मकान 12, 2, पॅलोर 4वॉ क्रॉस, 5वॉ ए मेन, भुवनशवरी नगर, सुल्तानपाल्या, आर.टी. नगर, बंगलौर
29781	नगमा निखत मेहबूब पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1474 07.04.11	मकान 45, अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, मेन रोड, 3वॉ क्रॉस, बासवनगर, बंगलौर
29782	नलीमा बंगम. ए. सयैद सुन्नु	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1406 17.04.10	मकान 172, अन्वर लेआउट, लोटेट बोर्ड, कॉलोनी 2वॉ स्टेज पी.ओ., कादागरहल्ली, बंगलौर
29783	नमरीन निखत सयैद अन्वर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1463 07.04.11	मकान 177 / 1, 9वॉ क्रॉस, 3वॉ मेन, बेनसन टाउन पत्रालय, विलियमस टाउन बंगलौर
29784	नसीमा अखतर मरदगी अब्दुल रौफ मरदगी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1602 14.06.12	नगरबौडी एरिया, जे.एम. रोड, बीजापुर
29785	नव्या के. एम.एम. कावेशीय्यप्पा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1455 07.04.11	मकान 56, 16वॉ मेन, मारुति हाउसिंग, कॉपरेटिव सोसायटी, विजयानगर, बंगलौर
29786	नाजीया सुल्ताना सयैद नासिर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1595 21.05.12	मकान 603, 1वॉ क्रॉस, 1वॉ मेन, आर.के. हेगडे नगर, ए.सी. पत्रालय, बंगलौर
29787	नाजीया उस्मानी मोहम्मद उस्माने जाकिर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1569 19.04.12	उस्मानी घर दरगाह शाही, मोहल्ला, कोलर
29788	नाजिया सुल्ताना .ए. अमीर पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1396 01.04.10	ई 61 / 1, सी.एम.सी. ऑफिस रोड, विरतनगर, बोम्बनाहल्ली, बंगलौर
29789	नाजिया तरुन्नुम खान खान मुजफ्फर अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1515 28.10.11	जिया उर रहमान सर, मालाकोटे पत्रालय नदवी, दानानगर, टुमकूर
29790	नीतांजलि महादेवप्पा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1367 22.3.10	मकान 4-601 / 8ए, एम.बी., कॉलोनी, गुलबर्गा
29791	निखत फातिमा कलिमुल्लाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1267 15.05.09	मकान 3 / 1-1, सेन्ट्रल स्ट्रीट, साउथ क्रॉस, नीलासन्दा, बंगलौर
29792	नूर अमिना मोहम्मद घोस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1662 11.06.13	मकान जे. 137, 5वॉ क्रॉस, चेलूवाडी पाल्या, टी.सी.एम रोयन रोड, मैसूर रोड, बंगलौर कर्नाटका
29793	नूरैन एस. अलीम उल्ला शरीफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1395 01.04.10	मकान 15 क्रॉस, 1वॉ मेन, 1 क्रॉस, कृष्णा नगर, टूमकूर
29794	नूसरथ अरा खानुम आई. के. इमान खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1284 08.06.09	मकान सी-17, 2वॉ मेन, 3वॉ क्रॉस, टी-दसरहाल्ली, बंगलौर
29795	नूसरथ बेगम अब्दुल रजाक	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1400 09.04.10	मकान 6, एम आई जी. 1 फेस, केएचबी कॉलोनी, वकलगिरी, गुलबर्गा

29796	ओसमानी सबहत फातिमा मीर आसिफ अली मीर आसिफ अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1573 21.05.12	मेडिकल कॉलेज रोड मोहम्मदिया कॉलोनी फालावर्स क्वार्टर्स अम्बाजोगल, बीदर महाराष्ट्र
29797	पाटिल शायेस्ता बेगम सिकंदर ताज पाटिल सिकंदर ताज	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1428 03.11.10	ए.एस. पटेल, पटेल बिल्डिंग, के पीछे इब्राहिम रोजा, बीजापुर
29798	राफिया सौरन के.आर. सौनाला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1259 15.05.09	मकान 12/17, मट्टन मार्केट रोड, होसकोटे, बंगलौर
29799	राहत अफजा कुरेशिया सज्जद अली कुरेशिया	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1453 07.04.11	मकान 88/बी, मास्जिद-ए-कौसर, के पीछे 2वाँ क्रॉस, 2वाँ मेन, कौसरनगर, आर टी नगर, बंगलौर
29800	रहिमा बानू मोहम्मद सफी खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1587 21.05.12	मकान 7-2-49/45 डी एन एम कॉलोनी, सन्तनगर, हदैराबाद आन्ध्र प्रदेश
29801	रईस अहमद समीउला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1355 18.03.10	मकान 55, लंगर, बाजार गली, बीजापुर
29802	रलीया सुल्ताना .एम. अब्दुल राशिद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2005	1490 19.05.11	पुराना मस्जिद स्ट्रीट, सिरुगुप्पार -पत्रालय, सिरुगुप्पा -तालुका बेल्लारी
29803	रसूल दुदेकुला सिदाहिया दुदेकुला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1555 19.04.12	मकान 9-34-35, इरुकाला कॉलोनी, बेसतावरी पेटा, प्रकासम आन्ध्र प्रदेश
29804	रेहमानी इरफान अहमद गफफार अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1286 08.06.09	जामदे गली, तलीकोटे बीजापुर
29805	रेश्मा इरफान सुल्ताना मोहम्मद फैयाज अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1425 06.10.10	मकान 24/1, 7वाँ मेन रोड, 16 क्रॉस, पदरायनपूरा बंगलौर
29806	रिजवानुल्लाह निजामुदीन निजामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1273 15.05.09	4वाँ मेन 7वाँ क्रॉस, सदाशिवनगर, टूमकूर
29807	रुखसाना सयैद तसवर हुसैन	बी.यू.एम.एस. दिल्ली वि.वि., दिल्ली 1996	1622 26.02.13	मकान नं. 4-601/70ई, बनदनावाज फंक्शन हॉल, बाहरी मुद्रिका, रिंग रोड गुलबर्गा
29808	साहिबा नाज मोहम्मद सलीम पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1649 04.06.13	मकान नं. 18-3-244/1, इब्राहिम मन्जिल, बीदर कर्नाटका
29809	सदीया तसकीन अब्दुल-मुजीब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1278 08.06.09	मकान 324, 3वाँ क्रॉस, इंदिरा नगर, अनवर कॉलोनी भद्रावती शिमोगा
29810	सादिया तजीज मोइनुद्दीन अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1368 29.03.10	मकान 282 ग्राउंड 13वाँ अनवर लेआउट वेन्कटेशपूरम बंगलौर
29811	सादिया नूर उल बसर अब्दुल वाजिद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1392 01.04.10	मकान 5, 20 मेन रोड, जे.पी.नगर, 5वाँ फेस, बंगलौर

29812	सादिया सिददकी अब्दुल मलिक सिददकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1539 19.04.12	मकान 3-12-83 बेरुनकुइला रायचुर
29813	साजिदा बेगम एस. स्व. यशमल शरीफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2002	1431 10.01.11	मकान एम. 26 -4 टी एच क्रॉस, II स्टेज, अनवर लेआउट, शामपुर मेन रोड बंगलौर
29814	सकीना निशात शाफी-उल्लाह-खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1541 19.04.12	सिरा रोड, गाँधी नगर, पावगदा पत्रालय ऑफिस, टूमकूर
29815	सलमा चौस अहमददीन चौस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1336 05.03.10	ई / 30, यूकेपी कॉलोनी, नारायणपुर पत्रालय सुररपुर तालुका गुलबर्गा
29816	सलमा हबीब शकीर हबीद शकीर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1293 08.06.09	मकान नं. 2, सौलापूर रोड, केएचबी कॉलोनी, घटागी लेआउट, बीजापुर
29817	सलमा खानूम आई के.आर. इस्लाम खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1653 07.06.13	मकान 887, इलाही मस्जिद के पीछे नूर नगर, कोलार, कर्नाटका
29818	समीना अंजूम एस.एम. मोहम्मद घोस	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1415 02.06.10	मकान 1-7-55, गोल मार्केट, स्टेशन एरिया, रायचुर
29819	समीना बानो अब्दुल रावूफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1281 08.06.09	मकान 12/3, 10 क्रॉस 2 मेन रोड, वालमिकी नगर, मैसूर रोड, कस्तुरबा नगर पत्रालय बंगलौर
29820	समीना परवीन हमीम कामा एल.एस.खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1467 07.04.11	मकान 244, 5 कॅास, आर.के. हगडे नगर, बंगलौर
29821	समीना ताज.ए.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1547 19.04.12	मकान एम-37, 1 पॅलोर, ई-स्ट्रीट, 3 क्रॉस, अरोकियाम्मा, लेआउट बंगलौर
29822	समरीन फातिमा एस.के. फैय्याजुद्दीन कादरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1599 14.06.12	मकान नं. 5-470/106/9, इस्लामाबाद कॉलोनी, गुलबर्गा
29823	समरीन सुल्ताना आर. निजामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1657 10.06.13	मकान बी-21/376 सुन्नी चौक, बस्तीगुडी बैंक रोड, अरसीकेरे हस्सन
29824	सन्ना अफरीन शाहजान गलगली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1637 28.03.13	हाउस नं. 26/70, गुटटीपेट मोहल्ला, शाहपूर -तालुका, यादगिरी, कर्नाटका, शाहपुर
29825	सना तजीन फातिमा एम.डी. जावेद मनीयर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1317 02.09.09	मकान नं. 2-5-46/4/1, कोट तल्लार रायचूर पत्रालय रायचूर
29826	संदीप यादव आर राजपाल यादव	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1271 15.05.09	मकान 237, 8 ए क्रॉस, 3 ब्लॉक, एच.बी.आर. लेआउट, बंगलौर
29827	सवनुर सालेहा बाशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 2009	1621 26.02.13	दिददी ओनी, समीप एचएसएफ दरगाह इन्डी पम्प, पुराना हुबली, धारवाड

29828	सयैदासबा बेगम कुरेशी सयैद एम.ए. कुरेशी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1556 19.04.12	मकान 1931/1, हस्तीम्पीर दरगाह, स्टेशन रोड़, बीजापुर
29829	शाबा जहेरा पी.जे. मीर जावेद अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1650 06.06.13	मकान 131/ए, जुनीगीरी स्ट्रीट, पेरीयपटना, मैसूर कर्नाटका
29830	शबाना जमर्दु खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1370 29.03.10	मकान 19, 2 मेन 4 क्रॉस वाल्मिकी नगर क्रॉस वाल्मिकी नगर, बंगलौर
29831	शबाना अवती नजीर अहमद अवती	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1593 21.05.12	ए बी मुजावर समीप बस स्टैण्ड कराजागी पत्रालय, अक्कलकोट, तालुका सोलापुर महाराष्ट्रा
29832	शबाना कोवसेर राशिद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1581 21.05.12	मकान नं. 65ए, 3 क्रॉस, हाजी नगर, रामनगरम
29833	शबाना रोही मोहम्मद लियाकत हुसैन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1330 22.01.10	टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा
29834	शमंतज के. के. खलील बाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1310 29.06.09	डी. नं. 31, के. क्रॉस, बिस्मिलाह नगर, बंगलौर
29835	शागुफता याशमीन फियाज अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1546 19.04.12	मकान 705, (2) अबीलकटटे, के पीछे 3 क्रॉस, लेबर कॉलोनी, मान्डया
29836	शाह अबरार अहमद नाज़िर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1263 15.05.09	सदाशिवनगर रिंग रोड़, समीप एचएमएस कॉलेज, मल्लूर-पत्रालय, टूमकूर
29837	शाहना परवीन शैक ए बीन इब्राहिम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1648 04.06.13	मकान नं. 7-902/1, मकान नं. 7-4-57, रोहिल्लिया गली, समीप दरगापूर, फोर्ट रोड़, बीदर कर्नाटका
29838	शाहीन बानू इनामदार मोहम्मद हमीदुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1276 08.06.09	नं. 6-353, बाटली-अलावा, मोमीनपुरा, गुलबर्गा -तालुका
29839	शाहीन फातिमा मोहम्मद इस्माल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1485 26.04.11	मकान 7-964/1/70एम, गेसुदराज कॉलोनी, जवाहर -ए -हिन्द स्कूल के पीछे, गुलबर्गा
29840	शाहीन के. एम.डी. खदीर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1287 08.06.09	माउन्ट करमेल कान्चेन्ट हाई स्कूल अलस्टोम कॉलोनी, शाहबाद, चित्तापुर, गुलबर्गा
29841	शेख अब्दुल नयीम शेख अब्दुल अजीज	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1655 10.06.13	मकान 25/3, 9 मेन, 3 क्रॉस, मुनेश्वरा ब्लॉक, मातादहल्ली, आर.टी. नगर, बंगलौर
29842	शेख अस्लम एम.साब शेख अहमद साब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1512 17.10.11	नगरबौडी एरिया, प्लॉट समीप हाकिम चौक, जे.एम. रोड़, बीजापुर
29843	शेख अश्मा जहारा जुल्फीकार जुल्फीकार अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1303 08.06.09	काजी कॉलोनी, समीप बडी कमान, बीजापुर

29844	शेख बिनतूल इस्लाम दस्तागि एवं उमुजवर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1528 16.04.12	मकान 84, नागवरपाल्या, सी.वी. रमन नगर, बंगलौर
29845	शेख अजीज अहमद मकबूल मकबूल अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1300 08.06.09	बशीर अहमद डी.पी.रोड़, मालाकल्मउर्-तालुका चित्रादुर्गा
29846	शेख राफी रफीअहमद रफी अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1628 22.04.13	1 फ्लोर, रूम नं. 2 समीप रेलवे स्टेशन, तारापूर रोड़, बाईसर (पश्चिम), महाराष्ट्रा बाईसर
29847	शेख तसकीन मुजिउद्दीन शेख मुजिउद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1322 23.10.09	मकान 6/777, रंगीन मस्जिद, गुलबर्गा
29848	शेख यशमीन ए. करीम अब्दुल के.ए नं. एम.डी. शेख	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1272 15.05.09	4मेन, 7 क्रॉस, सदाशिवनगर, टूमकूर
29849	शकिला बानू अल्ला बकश	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1458 07.04.11	एस.एन मंजिल, 38/2, 1 क्रॉस, आई.टी.आई. लेआउट, विजनपूरा, बंगलौर
29850	शामा खैसुर शेख अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1540 19.04.12	मकान 841, अमबरपेटे 1 क्रॉस, समीप डीसीसी बैंक रोड़, पकिरवाड कोलार
29851	शमशाद अहमद खुर्शीद अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1366 20.03.10	टिपू सुल्तान युनानी मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड़ मिल्लात नगर गुलबर्गा
29852	शहजिया नियाज नियाज अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1459 07.04.11	मकान 4339, जनप्रिया हाई अपार्टमेंट, 4 ब्लॉक, 4 एफ आई, फ्लोर मालासन्दरा हस्सेरगट्टा बंगलौर
29853	शाजिया सुल्ताना अब्दुल गफफार	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1381 29.03.10	मकान 2842/7, विटोबा मंदिर स्टेशन के.एल.न0 गोवदा हाउस, बेसतेन्पेट दोददाबल्लापूर
29854	सुषमा यादव राजपाल यादव	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1424 15.09.10	मकान 237, 8 ए मेन, एच.बी.आर. लेआउट, III ब्लॉक, बंगलौर
29855	सिददका बेगम शमसुल इस्माल शमसुल इस्लाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1511 29.09.11	एच.एम.एस. यूनानी मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेज, रिंग रोड़, सदाशिवनगर, टूमकूर
29856	सिददकी एजाजूर रहमान अब्दुर अब्दुर रहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1299 08.6.09	यशमीन मामदापूर, जान्दे गली, तलीकोटे तालुका, बीजापुर
29857	सिददीकी फजला जैनब मोहम्मद तयीब मोहम्मद तयीब सिददीकी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1584 21.05.12	मकान 303/ए, मिनार काम्प्लेक्स, इन्शा नगर, शादी महल हॉल रोड़, अमरुत नगर, थाने
29858	सिददीकी इरफान अहमद अब्दुल कलाम	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1613 09.10.12	ई-3 301, लोकुउदयान कल्याण (पश्चिम), थाणे, महाराष्ट्रा
29859	सिददीकी एम.डी. इरफान शहीद अली सिददीकी शहीद अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1652 07.06.13	1048/11, शान्ति नगर, तालुका भिवन्डी, थाणे, भिवान्डी महाराष्ट्रा

29860	सिदिक उर्र रहमान खान आइ. आर. खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1391 01.04.10	मकान 117/2, 6 क्रॉस, विद्यारानया नगर, मगदी रोड़, बंगलौर
29861	सुमायया खानम एम.डी.सादीकी उददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1534 16.04.12	मकान 7-7-7, अदीलाबाद (ए.पी) भोक्तापूर, अदीलाबाद आन्ध्रा प्रदेश
29862	सुमय्या कौसर अब्दुल के. तिम्मापूरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1378 29.03.10	मकान 33, पालटरी फार्म कम्पाउन्ड, देवसन्दा रोड़, के. आर. पुरम, बंगलौर
29863	सुमेर अंजुम मोहम्मद रफी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1619 28.12.12	5-993/105, महबूबनगर कॉलोनी, गुलबर्गा, बुलबर्गा (तालुका)
29864	सुवेबा तररुनम मोहम्मद हयात	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1464 07.04.11	मकान 109, 3 क्रॉस कृष्णान्द्रा, कदरीनहाली क्रॉस, बाना शंकरा, बंगलौर
29865	सईद अब्दुल सलाम सईद नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1554 19.04.12	मकान 460, वाड-16, समीप अन्सारी मस्जिद, डॉ० जाकिर हुसेन महोल्ला, श्रीनिवासपूरा तालुका, कोलार
29866	सईद अरफत अली सईद अहमद अली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1509 29.09.11	मकान 8-31, समीप पुराना टी.एम.सी. ऑफिस, चितगुप्पा हुमनाबाद-तालुका, बीदर
29867	सईद जुनेद अहमद अली एस. सयैद इस्माल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1327 04.10.10	टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा
29868	सईद वाहीद उर्र रहमान स्व. सईद मीर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1550 19.04.12	सोनावडी (बी), मुलबाले तालुका, लोहर
29869	सईद अमरीन फातिमा पटेल आर सईद इस्माल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1558 19.04.12	एफ.एस.-03-30, आजाद रोड़, चारमीनार मस्सीद के पाछे, श्रीनिवासपूर, कोलर आन्ध्रा प्रदेश
29870	सईद अन्जुम फराह एस.एम. बाबा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1269 15.05.09	मकान 40, 2 फ्लोर, पिलाना गार्डन 3 स्टेज, सामने के.ई.बी. पी एवं टी कॉलोनी बंगलौर
29871	सईद आसमा फिरदोस सईद जपफर साहेब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1265 15.05.09	मकान 190, 7 क्रॉस, इल्यासनगर, सराल्ली गेट, बंगलौर
29872	सईद अतिया नुजहत सईद अबुबकर जलाल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1636 30.04.13	मकान 5-993/253, मेक्का कॉलोनी, रिंग रोड़, गुलबर्गा-तालुका एवं, गुलबर्गा कर्नाटक
29873	सईद अज्हर फातिमा सईद नूरुददीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1517 16.12.11	मकान 5-992/26/सी/6ए, यदुल्लाह कॉलोनी, गुलबर्गा तालुका
29874	सईद हदिया बानो सईद अशरफ	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1571 21.05.12	मकान 487, मदीना चौक क्रॉस, दायरा, चन्नापटना, रामनगरम
29875	सईद हाजिया बानू सईद अजमल	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1472 07.04.11	मकान 5, 1 क्रॉस जयनगर 1 ब्लॉक, सोमश्वरानगर, बंगलौर

29876	सईद हुमेरा बानू सईद पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1304 08.06.09	5-408/7, खाजा कॉलोनी, गुलबर्गा
29877	सईद जमीला बेगम सईद खाजा हुसेन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1326 10.12.09	मकान 5 -408/2बीबी, रोजा, डिग्री कॉलेज, गुलबर्गा तालुका
29878	सईद काशीफा बानू सईद खुन्दमीर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1376 29.03.10	मकान 373 किरगवल मालवल्ली तालुका मान्डया
29879	सईद नाजनीन कादरी सईद नवाब कादरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1514 28.10.11	मकान एफ एस 483 शान्त नगर, जेवरगी पत्रालय एवं तालुका, गुलबर्गा
29880	सईद रहीम उन्नीसा सईद अहमदाली	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1557 09.04.12	मकान 19-3-659, कुमारवाडी, मिसरीगुंज, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश
29881	सईद समीना कौसर सईद मुजीब अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1375 29.03.10	मकान 310, हेरम, एक्स गोपाला, शिमोगा
29882	सईद सान सईद एच. बखतीयरी	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1417 02.07.10	मकान 192, 7 वार्ड, कमलापूर पत्रालय, होसपेट बेल्लारी
29883	सईद तहसीन फराह एस.एम. बाबा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1454 07.04.11	मकान 487/18 बी, यादगार मोहल्ला स्कूल, बाबासाहेब, चन्नापटना, पत्रालय एवं तालुका, बंगलौर
29884	तबसुम मकन्दर हुसेन बी. मकन्दर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2006	1521 16.02.12	मकान 740/सी वाड्ड नं. 5, नालबंद मस्जिद के पीछे, मंगोली क्रॉस बीजापुर
29885	तहामीना एस.जी. अजहर अहमद ए.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1548 19.04.12	मकान 104, 3 क्रॉस, चौवडेश्वरी नगर लंगोरा, बंगलौर
29886	तेहिर बानू बी. छत्तारकी बन्दगीसब	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1328 16.01.10	नगर बुन्दी गार्डन बडी कमान रोड बीजापुर
29887	तजुनीसा जबीन शराफ-उर-रहमान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1427 29.10.10	लुकमन यूनानी मेडिकल कॉलेज, मकान 12, नौबाग नौबाग, बीजापुर
29888	तनवीर फातिमा मोहम्मद जहीरुद्दीन अहमद	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1609 12.07.12	मकान 7-5-113, स्टेशन रोड, तन्दूर पत्रालय, रंगा रेड्डी, आन्ध्रा प्रदेश
29889	तनजीम एस. एस. सेरवर बाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1668 03.08.13	6-137, जी. जपफर, हुसेन, गुन्दलूर स्ट्रीट, मदनपल्ली, चित्तोर आन्ध्र प्रदेश
29890	तशरीफ आलम अब्दुल मजीद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1592 21.05.12	मकान 146 प्रसुनी, रुद्रापुर शिवनाथ, (लक्ष्मीपूर) प्रसावनी, महाराजगंज यू.पी.
29891	तसनीम अन्वर अन्वर पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1491 02.06.11	फातिमा मंजिल, 60 फीट रोड, उप्पारहाल्ली, टूमकूर

29892	तसमिया तब्बसुम सिदिक पाशा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1658 10.06.13	मकान 6, 2 क्रॉस पेम्मे गोवदा रोड, जे. सी. नगर, बंगलौर कर्नाटका
29893	तोसीफ अशरफी सईद शफिउल्ला	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1270 15.05.09	मकान 2/3, 1 क्रॉस, 1 मेन, चित्रपप्पा गार्डन, बेनसन टाउल पत्रालय, बंगलौर
29894	उम्मे नोजहत गुलाम मुस्तफा	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2010	1600 14.06.12	मकान नं. 5-408/5सी/1/ए, मदीना कॉलोनी, रोजा बी बंगलौर गुलबर्गा
29895	उम्मे सादिया रईस अहमद खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1262 15.05.09	मकान 12, 2 क्रॉस, 1 मेन, जे. सी., नगर, बंगलौर
29896	उम्मे सलमा अब्दुल इनायत	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1277 08.06.09	नं. 128, 5 वार्ड, येलाहलाका, बंगलौर
29897	वेनुगोपाल नल्लाबोथुला ए नं. वेन्कटाह	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2007	1321 20.10.09	वेनु हैल्थ केयर सेन्टर, 10 क्रॉस, बोम्मानहाल्ली पत्रालय, बंगलौर
29898	विजयाश्री एम.एच. मंजुनाथ जी.एच.	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1413 14.05.10	मिर्जा बाजावन्स, मुट्टोन मार्केट, हिरीयूर, चित्रादुर्गा
29899	वबना परवीन उ नं. के.एम. नूरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1283 08.06.09	मकान 29, 2 मेन रोड, 1 फेस, मंजुनाथ नगर, राजाजीनगर, बंगलौर
29900	यासामीन लिंगासूर मेहबूब लिंगासूर	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1318 06.10.09	शैख कॉलोनी, अल्लापूर गेट रोड, बीजापुरतालुका
29901	जुबेर शंफी मोहम्मद शफी दीन	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2009	1471 07.04.11	हुन्गुन्ड, अत्ताउल्लाह चौक, जे.एम. रोड, बीजापुर
29902	जुबेदा अनोद अहमद अली खान	बी.यू.एम.एस. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., बंगलौर 2011	1664 12.06.13	47/1, 2 पलोर, 3 मेन, 4 क्रॉस, एस.आर.के. गार्डन, बी.जी.टी. मेन रोड, बंगलौर



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2016

**No. 20-08/2016 –CR (Karnataka).**—Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Karnataka and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Karnataka state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from 1st April, 2009 to 31st August, 2013 by inserting serial No. 203280 of Ayurveda and 29600 of Unani onwards after the existing last Serial No. 208073 of Ayurved and 29902 of Unani which is to be published in the Gazette of India for general information.

P. R. SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./424/16]

**Note:** While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Karnataka) from 1st April, 2009 to 31st August, 2013 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

**CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE KARNATAKA****PART-I-AYURVED**

Sl. No.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN.NO & DATE	ADDRESS
203280	A.C.Kirandeep Yadav A.Chitralingaswamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28903 20.04.12	Agalakote, Gollarahatti, Magadi Taluk, Ramnagara
203281	Aamina Noorayen Dastageer Basha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24810 05.06.09	# 1013, 2nd Main, 2nd Cross, S. Nijalingappa Layout, Davangere
203282	Aarati Basavaraj Patne	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29246 15.05.12	No 28/461, 27th Block, Basavakalyan Bidar
203283	Aarti Sahebgoud.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27170 18.03.11	Nr Sangam Bar, Basava Nagar, Bijapur Rd, Sindanur Tq, Bijapur
203284	Aasanekar Amol Maruti Aasanekar M Sakharan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24139 22.04.09	Mruthunjaya Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
203285	Abdul Asif U. Ibrahim	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28801 11.04.12	# 13/66, Alekala, Ullal Post, Mangalore Tq, D K
203286	Abdul Hafeez TamizoddinShaikh Tamizoddin M Shaikh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30377 21.05.13	At C.S. NO. 237, Madina Mohllah, Zakir Husain Rd. Post & Tq Shirpur,
203287	Abdul Rahaman B Basha M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29825 18.10.12	C-22, 1st Cross, IIIrd Main, Opp ARS Enclave, Hospet Tq, Bellary
203288	Abdul Rasheed Abdul Subhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29236 15.05.12	Deccan Medical Store Main rd, Aunasagi post, Surpur TQ, Yadgir
203289	Abhijeet Bhagat Shivaji.R.Bhagat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26746 02.07.10	#811, Nr. P. O., Hudli At & Post, Belgaum
203290	Abhijith G C M Gangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29985 06.04.13	Advocate, T B Rd. Cross, Kadur
203291	Abhilasha Kondru	BAMS	27658	Behind Bus Depot, Rajajinagar, Hospet

	Madhu Sudhan Rao	RGUH.Sciences, Bangalore 2009	02.04.11	Tq, Bellary
203292	Abhilekha Douvalappa D Dummal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30125 19.04.13	Basaveshwara Street, Nr. Old P.O. Raichur, Devadurga
203293	Abhisha A Gadennavar Anant A Gadennavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30361 20.05.13	C, R.S. No-106/A, M.G. Rd. Tilakwadi, Belgaum
203294	Abhishek Ashok Mani Ashok.P.Mani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27521 28.03.11	Vidyanagar, Muddebihal Post & Tq, Bijapur
203295	Abhishek Sharma Amarkant Sharma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26173 22.03.10	Nr. Post Office, Bankapur, Shiggoun Tq, Haveri
203296	Abhishek. Ramanna Gouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27158 18.03.11	N. Ganekal, Devadurga Tq, Raichur
203297	Abhishek.Y.Shetty Yathish Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25947 17.03.10	H.No. 1-32, Car Street, Uppinangaddi, Dakshina Kannada
203298	Abhishekhar Chatrappa Gone.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27159 18.03.11	T-21-22, Madhuling Nivas, Teacher's ClyBasavakalyan, Bidar
203299	Achala Rao. A Amarnath. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24215 28.04.09	# 204, Rajeshwari Apts, KeshwapurHubli Tq, Dharwad
203300	Adavesh Holeyache Basavanneppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24396 05.05.09	# 35, Vidyanagar, Hindalga Post, Belgaum
203301	Adep Ramesh Rajaiah Rajaiah Gangaram Adep.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24576 14.05.09	# 139/N, Kubusab Bldg, MahanthNagar, 4th Cross Kelgeri Rd Dharwad
203302	Adithya. K. K. Ananphadmanabha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23875 09.04.09	# 26, 1st Cross, Nehru Clny, Bellary
203303	Aditi Purshotam Singh Purshotam Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28877 18.04.12	Sadhrian Vill, Tarkwari Post, Bhoranj Tq, Hamirpur
203304	Aditya Bhat Manjunath Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23983 18.04.09	Govindamakki, Navilgon Post, Honnavar Tq, Uttar Kannada
203305	Aditya Gowda. I.S H. Chandra Shekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28529 25.08.11	# 4, Induvalu, Mandya
203306	Aditya Patel Rudragouda Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29788 12.10.12	Muttigi (v), Nichapura (p), Harapanahalli Tq, Davangere
203307	Adivesh Arakeri Shankar Shankar Adivappa Arakeri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28409 20.06.11	Plot No.4, Sanghamesh Nilaya, Ashok Nagar, Belgaum
203308	Adwani MulchandSundardas Sundardas Adwani	BAMS B.A. Marathwada Univ., Aurangabad 1971	29872 26.11.12	?Adwani Hospital?Main Rd. Alund Post, Gulbarga
203309	Affan K Ashraf Ali K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30426 29.05.13	D.No. 10-27, ?Affan Manzil? Post Hoode, Udupi
203310	Afreen Mulla Dastagirsab Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29350 21.05.12	CTS No 7737 Sector -12, Plot No. 24/A, Khushro nagar Mahantesh nagar, Belgaum
203311	Agam Nikhil Nivrutti Nivrutti Anandrao Agam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29577 12.06.12	Bagewadi At Post, Akluj, Malshiras Tq, Solapur
203312	Aghao MahadeoNamdeo Aghao N Shakharam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25995 18.03.10	H.No. 16-400/12, Kailash Nagar, Nr. S.S. Math, Bidar
203313	Agraharkar Preeti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24298	# 19-6-140/1, Shivnagar (North),

	Prabhakar Agraharkar.	2008	29.04.09	Bidar Tq &
203314	Agrawal Aakash. Ajay Kr K Agrawal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25088 04.08.09	H.No. 17-1-234, Sangmeshwar Nilay, Teacher's Clny Mannahalli Rd, Bidar
203315	Ahirrao Pradip Sudhanwa A Sudhanva Humdhirao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23959 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
203316	Ahirrao Kunal Shamkant Patil.S.Shamkant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24757 04.06.09	APMC Rd, Ist main. 4th Cross, Tuljai Building Sadashivanagar, Belgaum
203317	Aiesha Siddique. S Abdul Majeed. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23896 09.04.09	# 12/11, Coming Rd. Bellary Post, Bellary
203318	Aisha Halli Shamshuddin Halli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29682 29.06.12	Yaseen Manzil, Nr. Watertank, Muddebihal Tq Bijapur
203319	Aishwaryavatidevi Veeranna.B.Indaragi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24713 03.06.09	# 2, Haliyal Rd. Dharwad
203320	Aiyanna. P.P Poonacha. P.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28515 08.08.11	# 5688, 2B Crosss, 2nd Cross, Vijayanagar, Mysore
203321	Ajay Bhat. U Umesh Bhat. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25964 18.03.10	Sri Ramachandra Ay., Car Street Manjeswar, Kasargod
203322	Ajay Krishna Sarkar Bankim Chandra Sarkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29176 11.05.12	Vill-Jholi no -2, Post ?Chikal Pati, Chopna TQ, Betul
203323	Ajay Kumar Narinder Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29688 03.07.12	# 82/3, Dharampur Clny, Batala At Post Punjab State, Gurdaspur
203324	Ajay. G.S Shantharam. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28460 04.07.11	# 34, Nekkilady Uppinangady, Puttur Tq, Dakshina Kannada
203325	Ajeej Khan Ameera Khan Nadagowd	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29803 12.10.12	#9, 2nd Cross, Nava Ayodhya Nagar Nava 2nd Cross, Old Hubli, Hubli Dharwad
203326	Ajeemahammad Mokashi Hajilal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29680 29.06.12	# 2017 & 18, Kalyan Nagar, Sindagi, AT Post & Tq, Bijapur
203327	Ajeet Pawar Dharmu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28853 18.04.12	L.T.No.1, BammanajouiAt & Post, Sindagi Tq, Bijapur
203328	Ajith Kamath.MRadhakrishna Kamath. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27169 18.03.11	Sri Laxminarayan Temple Compound, Basavangudi Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203329	Akash Kittur Manohar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23766 03.04.09	CTS 4183, Guruwar Peth, Gokak Post, Belgaum
203330	Akhila K Narayana Bhat K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29373 21.05.12	Anarghya House, No 50 (4158), Panjikallu at post, Kasaragod tq &
203331	Akshata Koujalagi Ishwarchandra.Y.Koujalagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26066 19.03.10	Paramjyoti, Nr. SBI Muddebihal, Bijapur
203332	Akshata Nara Shivappa K Nara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28925 26.04.12	Plot No 5, 21st Cross, Vijayanagar , Vidyagiri , Bagalkot Taluk &
203333	Akshata. M Gopal Prabhu. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24497 11.05.09	Ajjibettu School Rd. GokulamHouse, B.C. Rd, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
203334	Akshata.P Shetty Prathap.K. Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28213 04.05.11	No.2558, 14th Cross, 24th Main Rd, HSR Layout, Sector-1, Bengaluru
203335	Akshatha Chakkerla. N. Krishna Chakkerla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25548 05.03.10	# 237, 5th Cross, K.G. Nagar, Bangalore

2009				
203336	Akshatha Shenoy P Nitheen Pai Dev G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29596 13.06.12	?Vasanth Vinaya? House, Nellikata, Kotekar, mangalore Tq, Dakshina Kannada
203337	Akshatha. B.S Shyamasundar. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24591 15.05.09	# 14, 3rd Main, Srishakthi NilayaHavanur Extn Nagasandra Post, Bangalore
203338	Akshatha. K K. Mari Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25803 12.03.10	# 3-65/27, Lohitnagar, 2nd MainRd, Ashoknagar Mangalore, South Canara
203339	Akshatha. K.P K.P. Radhakrishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25878 12.03.10	Nr. Chandhu Maidan, Mission Compound, Udupi
203340	Akshatha. S.B S. Basanth Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24274 29.04.09	# 1468, Ashok Nagar, 2nd Cross, Mandya
203341	Akshatha. T.S Somashakara. T.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27426 25.03.11	Bharathi Nagar, Amaravathi, Hospet, Bellary
203342	Akshay Shetty Ramesh Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26138 20.03.10	Prabhu Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
203343	Alla Sujit PrakashReddy A Prasad Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28779 11.04.12	Q # 11, Bangalur, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bangalur
203344	Allishe Sachin Baburao Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25695 12.03.10	Mahaveer Jain Ay. Medical College, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
203345	Almas Taranum AMA Khalil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29235 15.05.12	66 Al Hafaq no 4-81/19(1), Mahatma Nagar Layout, Kavoor Mangalore
203346	Almas Yaligar Ismail Saheb Yaligar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29265 16.05.12	No 842 1st ward, Teachers Clny , Hospet Rd, Harapanahalli, Davanagere
203347	Aloka Kulkarni Maltesh Lingo Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27936 13.04.11	No.47/A, 6th Cross, Bhagya Nagar, Belgaum
203348	Altafkarisabu Husensab Karisabu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27242 22.03.11	# 1/81 to 466, Hosaplat, AraligidadGalli, Nasalapur Raibag Tq, Belgaum
203349	Alure Mrunal Manik Rao Manikrao Shivapa Alure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28737 02.04.12	Sinhgad Society, Kanheri Rd. Latur Post Tq &
203350	Alva Akshata Umesh Umesh.N.Alva	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28342 27.05.11	No.3-78 E, Devasya Kare, Belman Post, Karkala Tq, Udupi
203351	Amar Jodatti Rudrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30492 13.06.13	At Post Borgal, Tq-Hukkeri, Belgaum
203352	Amaresh Gangangoudar Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24197 24.04.09	Nalatwad Post, Muddebihal Tq, Bijapur
203353	Amaresh Minajau Subhash	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29684 29.06.12	Laxmi Nagar, Basavana Bagewadi Tq, Bijapur
203354	Amarinisa Bagewadi Mehabub Bagewadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29639 14.06.12	#526, Murgod At Post, Savadatti Tq, Belgaum
203355	Ambalakshmy. P N. Prabhakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24630 18.05.09	# 1168/4, 18th C Main, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore
203356	Ambareesha Subhash Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28530 25.08.11	H.No. 23-43, KHB Clny, Kollu Rd. Humnabad, Bidar
203357	Ambika Sharanappa Sarnoor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	29335 18.05.12	Plot No 96, Over head Water tank , Sainagar, Sedam Rd.

		2011		Gulbarga
203358	Ambika Chauhan Maruthi Borule	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27772 07.04.11	#18-2-413, Chidri Rd.Ramnagar Clny, Bidar
203359	Ambika M M .Amaregowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29717 04.08.12	Nr. S B Temple Karatagi AT Post, Gangavati Tq, Koppal
203360	Ambika R. Patil R.B. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	27023 15.02.11	13th Cross, 60 Ft Rd. Vinobanagar, 1st Stage, Shimoga
203361	Ambika. A Krishnayya Jogi. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24803 05.06.09	# 464, 3rd Stage, 1st Block, W.C. Rd, Basaveshwar Nagar, Bangalore
203362	Ambika. M Mahadevappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28547 07.09.11	Saptagiri Suplayers, Old LIC Complex, Manvi Tq, Raichur
203363	Ambika.P.B. Madhusudhan Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28422 20.06.11	No.63, Nr. Ranganath Temple, Jalahalli Devadurga, Raichur
203364	Ambika.P.Nayak Prabhakar.N.Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25682 12.03.10	# 7-2-4, Vadiraja Rd. Udupi
203365	Ambikadas C.K. Devadas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25784 12.03.10	# 87, 3rd Cross, Vishweshwaiah, Vijayshreepuram, Mysore.
203366	Ambilpure SheetalSubhash Subhash L Ambilpure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29918 24.01.13	18-II Flr, Dhanmmal Illam, I-Main Rd, II- Cross, Vignan Nagar, Bangalore
203367	Ambuja Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30297 08.05.13	Post-Hogaranal, Tq Sindhanur, Raichur, Hogaranal
203368	Ambuja Hulageri Devendrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2003	29552 12.06.12	# 239, Bijapur Rd.Kagwad At Post, Athani Tq, Belgaum
203369	Ambupe Amol Sambha Ambupe S Appana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24192 24.04.09	Plot.No. 1295, Sector No. 7, ShivkrupaBldg, Vantmuri Clny Malmaruti Extn, Belgaum
203370	Amit Ali Rakkasagi Yusufali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25875 12.03.10	Saptagiri Badavane, Gaddankeri Cross, Bagalkot
203371	Amit Biradar Shashikant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28472 04.07.11	A/10, G.N. Biradar Shanti Niketan Clny, Bijapur
203372	Amit Kumar Soni Ashok Kr Soni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28677 06.02.12	#442, Room No.6, 20thBayanna Layout 5th Cross, HebbalBangalore
203373	Amit Rana Sh Karam Singh Rang	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25345 31.12.09	Chalukya Nagar, 7th Cross, Badami Tq, Bagalkot
203374	Amith Ramesh K.M Ramesh Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30443 01.06.13	No. 666, 5th Main, KHB Main Rd.R.T Nagar Post, Bangalore
203375	Amithkumar. N.M Manjappa. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23928 09.04.09	Kalleshwar Temple, Sasvahalli Post, Honnalli Tq, Davangere
203376	Ammaji. P P. Raja Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24209 24.04.09	# 111/1, 4th Cross, 4th Main, TyagarajaNagar Basavanagudi, Bangalore.
203377	Amreen Nad Fawad Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28399 09.06.11	KHB Coloy, Opp Rural Police Station, Ooty RdNanjangud, Mysore
203378	Amrit Lal Yadav Hiralal Yadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28567 19.10.11	# 73, 5th Cross, Rajendranagar, NR Mohalla, Mysore
203379	Amritha Acharya . Gururaja.H.Acharya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25720 12.03.10	# 1-1-12, Padusagree, Kunjibettu, Udupi

2009				
203380	Amruta Madlur Shripati Rao H Mudlur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26121 20.03.10	# 43, Khasabag, Belgaum
203381	Amrutha Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24650 21.05.09	# 5-191-1, Yelabe House, Narikombu Post, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
203382	Amrutha S Krishna S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28999 27.04.12	No 26/A, 2nd Stage, 3rd Main , New Tippasandra Post Micheal Palya Banagalore
203383	Amrutha. K K. Ganapathi Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27525 28.03.11	Kanyadi 2nd, Dharmasthala, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
203384	Amrutha.M. J.Manjunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28148 26.04.11	#4997, 2nd Phase, 4th Stage, Vijayanagar, Mysore
203385	Anagha Anigol Shripad Anigol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23681 01.04.09	H.No. 43, Manjunath Nagar, Darga Jail Rd. Bijapur
203386	Anagha Bhat. B B. Thirumaleshwar Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24237 28.04.09	# 1898, 4th A Main, Sahakaranagar Layout, Bangalore
203387	Anagha. D.N Narasimhabhatta. D.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23929 09.04.09	# 287, 21st Main, 19th Main, 2ndStage, J.P. Nagar, Mysore
203388	Anand Shankara Goud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26737 28.06.10	Angadageri Telagi At & Post, B.Bagewadi Tq., Bijapur
203389	Anand Shivanand Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26918 27.09.10	B-2, M.G.Rd, Police Head Quarters, New Building Nr Hanuman Temple, Bijapur
203390	Anand Hukkeri L S Hukkeri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26809 19.08.10	Sasalatti A/P., Jamkhandi Tq., Bagalkot
203391	Anand Hukkeri Dundappa R Hukkeri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27393 25.03.11	TukkanattiPost, Gokak Tq, Belgaum
203392	Anand Jadhav Thavaru Jadhav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25136 25.09.09	# 16-1-40031, Anand Nilaya, Manhalli Rd, Allamprabhu Nagar, gumpa, Bidar
203393	Anand Khanninaikar Basanaik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25414 25.02.10	# 19, New Police Qtrs, Bharat Nagar, Belgaum .
203394	Anand Koppal Amatyappa D Koppal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26554 13.04.10	Ward.No.4., Tatagar oni, Guledgudd, Badami Tq., Bagalkot
203395	Anand Kumar Budihalmath Mallikarjun Budihalmath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30495 14.06.13	2938 Jamkhandi, H No 3374Jamkhandi, Bagalkot
203396	Anand Kumar. G.K Karisiddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27555 29.03.11	# 337/17, 1st Main, 1st Cross, Ganesh Layout, Davangere
203397	Anand Kumathalli Annasaheb	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30437 31.05.13	Raghavendra Clny, Tq-Jamakhandi, Bagalkot, At post Jamakhandi
203398	Anand Muchchandi Ravindra G Muchchandi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29346 21.05.12	M-2/57, Ashram Rd. Adarsh nagar, Vijaya College Post, Bijapur
203399	Anand Ramachandra Ramachandra J Pujari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28900 20.04.12	Plot No 16, Munishwar Nagar , Sindagi Road , Bijapur
203400	Anand Upadhye Chintamane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25029 30.06.09	Mahishawadagi Post, Athani Tq, Belagum
203401	Anand.B.Nagurkar Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	28310 25.05.11	Thana A/P, Khusnoor Aurad Tal, Bidar

2009				
203402	Anandkumar Sangram Gajul.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25448 02.03.10	LIG-21, 1st Phase, Adarsh Nagar, Gulbarga
203403	Anandkumar Yaligar Chandrashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27007 27.12.10	Itagi At & Post, Ron Tq, Gadag
203404	Anant MadivalappaKaladurgi Madiwalappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25194 08.10.09	Chadchan Post, Indi Tq, Bijapur
203405	Anantamati Bammagol Nemappa B Bammagol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29279 16.05.12	Guruvar Peth, Kittur at post, Baihongal TQ, Belgaum
203406	Anantha.V. Shanbhogue Vasantha Kr. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27304 23.03.11	# 3-44, Ashwathpur, Mangalore, Dakshina Kannada
203407	Ananthamayya. M.S Srinivasa Mayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24907 09.06.09	Balagodu, Aralasureli, Thirthahalli Tq, Shimoga
203408	Ananya Achrapady Babu Gowda A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30307 09.05.13	Devachalls Village, Nellur Kemraje PO, Sullia Tq, Dakshina Kannada , Sullia
203409	Ananya Shetty K. Sudhakara Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28954 26.04.12	Amma, Kudi Village, Kotambail, Kokkarne, Udupi
203410	Andhalkar Sharvari Narendra Andhalkar Narendra. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24804 05.06.09	Plot.No.7, EL Bethel, RamnagarNipani Post Chikodi Tq, Belgaum
203411	Andurkar DhanshriBhaskarrao Yogeshwar B Deshpande.	BAMS University of Poona, Pune, 1998	28642 23.11.11	# 10-2/6, ?Shree?S.B. College Rd, Anand Nagar, Gulbarga
203412	Aneel Rathod Tukaram Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26972 18.11.10	Solapur Main Rd. Horti Lt No.1, Horti Post, Indi Tq, Bijapur
203413	Aneesur Rehman Madni Mahboobur Rehman Madani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25932 17.03.10	Hussain Cobay, ShantinagarHakeem Chowk J.M. Rd, Bijapur
203414	Angadi Siddappa A. Eshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25916 15.03.10	Doopadahalli, Kuolligi Tq, Bellary
203415	Anikethana. S K.T. Shivamae Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24481 11.05.09	# 7-205, 4th Cross, Buddha Marga, Vidyanagar, Hassan
203416	Anil Kumar Suresh Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25026 29.06.09	Shakti Clny, Radhakrishna Nagar, Dharwad
203417	Anil Kumar Biradar Shankar Biradar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24879 08.06.09	# 95, Bankers Clny, Bidar
203418	Anil Kumar Gautam Ghanshyam.B.Gautam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25040 06.07.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
203419	Anil Kumar Sajjan Basavaraj Sajjan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25445 02.03.10	Yankanchi Post, Sindagi Tq, Bijapur
203420	Anil Kumar Shettar Sangappa P Shettar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24812 05.06.09	Belur Post, Badami Tq, Bagalkot
203421	Anil Kumar. H.K Krishnamurthy. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23863 09.04.09	# 396/1, 17th Cross, Basamma Nilaya, Banni Mahakali, Temple Rd, KTJ Nagar, Davangere
203422	Anil Mungarwadi Manohar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29270 16.05.12	Basava Belagu , Shivabasava nagara, Saundatti post & TQ Belgaum
203423	Anil Patil Vasant Amrut Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	29512 26.05.12	Shivaji Nagar, Mutage At Post, Belgaum Tq &

2011				
203424	Anil Patil Basangouda Ningangouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24938 10.06.09	Panth Nagar, Panth Bale Kundri, Opp. KEB, Plot.No. 141, Belgaum
203425	Anil. M.H M.B. Hittalamani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24881 08.06.09	1st Main, N.G. Rd. Basaveshwara Extn.
203426	Anil. R Raja Rao. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27575 29.03.11	# 157/1, 1st Cross, Muneshwar Nagar, Kolar
203427	Anilkumar P Anand Kr P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30558 17.07.13	H.No. 3-86/4, Court Clny, Nr. Govt ITI, Medchal, Rangareddy, AP
203428	Animeshkumar Biswas AnilKr Biswas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25241 20.10.09	Vishwas Clinic, Khazimohalla, Bhadravathi Tq, Shimoga
203429	Anisha. V.M. Zainuddin. V.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28362 31.05.11	No.111-21, Movlavi Manzil, Mukve, Narimogaru, Puttur Tq, D.K.
203430	Anita Suryakant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28009 18.04.11	Raghavendra Cly, Narayanpur Rd, Basava Kalyan Tq, Bidar
203431	Anita Banapur Chidanandappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30537 02.07.13	Dattatreya Rd.Ranganwad Oni, Gadag
203432	Anita Biradar Malleshi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30292 07.05.13	H.No. 141, B.L.D.E Teachers Clny, Opp. Mallikarjun Ashram Rd. Bijapur Tq &
203433	Anita G Dalawai Girimallappa I Dalawai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30364 21.05.13	# 1045, Sadguru Nilaya, CTS No 4726, Ramteerth Nagar, Belgaum
203434	Anita Mokhasi Shrishail Mokhasi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29576 12.06.12	LIG-196, Hudco Clny, Gadag Tq &
203435	Anita Tammana Meti Tamma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28433 20.06.11	Hoolageri, Badami Tq, Bagalkot
203436	Anita Yadav Tej Ram Yadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24238 28.04.09	P-3/4, Students Study Centre, 410, AF Station Jalahalli (East), Bangalore
203437	Anita. H.S H.M. Shivanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24290 29.04.09	# 146/3, Kudige Post, Somwarpet Tq, Kodagu
203438	Anita.M.Maniche Mahadev M Minache.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24462 11.05.09	# 107/89, Jugul Post, Athani Tq, Belgaum
203439	Anita.T.Patil Rayagouda Shripal Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24289 29.04.09	Sadalagi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
203440	Anitha Eradi. A Syamalavanan Erady.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25025 29.06.09	H.No. 11, Old No. 47, 4th Cross, 3rd BlockThyagarajanagara, Bangalore
203441	Anitha K Bheemappa K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29181 14.05.12	No 185/A, Girija Sadhana, Durga Rd.Hagari Bommana halli, Bellary
203442	Anitha K D Krishna Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29466 24.05.12	Suhas Nilaya, Nr. Larent School, Challakere AT Post & Tq, Chitradurga
203443	Anitha T N Nagaraj T K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29458 24.05.12	# 16/A, Sri Datta, 1st Main, Vinayaka Nagar, Tumkur
203444	Anitha. M.V M. Vasudeva Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25060 17.07.09	Chakkabettu, Surathkal Post, Mangalore, Dakshina Kannada
203445	Anitha.B.Yadav D.M.Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	28134 26.04.11	No. F/G/692, P.B. Rd. Davangere



2009				
203446	Anithashri. B.S Srikantadatta. B.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25809 12.03.10	# 6-3-2(D)1, Chitpady, Udupi
203447	Anjaly R.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30459 06.06.13	?Rajalaxmi?Badanidiyoor Post, Thottam,
203448	Anjan. K.S Srinivas. K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24057 21.04.09	# 168/c, Kalidasa Rd.Koppa Tq, Chickmahalur
203449	Anjana Ajantha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29745 21.09.12	# 1-115/10, Kalanikethan Madoor Rd.Beer Kotekar Post, Mangalore Tq, D K
203450	Anjli Rao Subba Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29877 05.12.12	# 119/459, Darshan Purwa, Kanpur Tq &
203451	Anju Anita Devendra Kr.	BAMS BBA.Bihar Univ., Muzaffarpur 2008	25327 10.12.09	# 322, 18th G Main, Koramangala 6th Block, Koramangala, Bangalore
203452	Anju E Navaneeth K N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29730 16.08.12	Kizhakkedath Mana (H), Perumbillisseri, Cherpu Post, Thrissur Tq, &
203453	Anju Pattanad Sangamesh Pattanad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29665 19.06.12	#2118, S B I Rd. Ganesh Nagar, Muddebihal At Post & Tq, Bijapur
203454	Anju.B.Uppin Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27394 25.03.11	H.No. 6, MIG Phase 3, Adarsha Nagar Clny, Gulbarga
203455	Anjum Shaheen Sagari Mohammad Umar Salari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29269 16.05.12	No 150, Vinayak Clny, Lokoppanhakkal, Vidyanagar, Hubli post & TQ Dharwad
203456	Anjum. B.R Bhavikatti. R.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25347 01.01.10	# 51, 2nd Floor, 5th Floor, 5th Cross, 1st Stage BTM Layout, Bangalore
203457	Anjumara Loni Chandbasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28614 05.11.11	# 46, H.No. 46, Navanagar, Bagalkot
203458	Anjumkousar Inamdar Mohammad Husain Inamdar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28936 26.04.12	Behind IB , Noorani Nagar, Sindagi Taluk Bijapur
203459	Ankita Sharma Ajay Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27059 15.03.11	University Rd.D.C. Compound, Dharwad
203460	Ankita Singh Ram Pal Singh	BAMS Kurukshetra Univ.Kurukshetra 2005	26831 25.08.10	#200, B.N.P-134, 19th Cross, Kaggadaspura C.V. Raman B?lore
203461	Ankur Nigam Ganga Shankar Nigam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26826 25.08.10	No.42, 4th Cross, Sitappa Layout, Manorajan Pallya, R.T.Nagar, Bangalore
203462	Annapoorna S K Shama Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29239 15.05.12	No 49/1, Parlodka Cross Rd, Puttur at post & TQ, Darbe , Dakshina Kannada
203463	Annapootneswari. P . B.B. Puttaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24040 20.04.09	#MIG 86/J, ?N; Block, Kuvempu Nagar, Mysore
203464	Annapurna Dambal Sharanappa.S.Dambal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24735 03.06.09	Anugraha Bldg, Michagan Compound, Saptapur, Dharwad
203465	Annapurna Patil Sanganagouda.R.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24801 05.06.09	Laxmi Nagar, Ramdurg, Belgaum
203466	Annette Sahana Soans Stanley Goerge Soans.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25970 18.03.10	# 2-72/1, NH 17, Uchila Post, Udupi

203467	Annu Shamsher Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30289 07.05.13	Sirsakheri, Po-Nandgarh, Tq-Julana, Jind
203468	Anoop Kumar Valson.P.P.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26754 16.07.10	N-101 A, Behind Ullal Railway Station, Someshwar Kotekar Post, Mangalore Tq., D.K.
203469	Anoosha GS G Sreenivas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29229 15.05.12	No 538 , 10th Cross , 8th MainNarayana nagara 3rd Block, Doddakallasandra Bangalore
203470	Ansuya Abbai Shankareppa.B.Abbai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25418 25.02.10	Satagatj. P.O.Sabadath Tq. Belgaum.
203471	Anu CheruvodeinmarVeetil Subin Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28650 13.12.11	L2-21, V.V.Nagar, Toranagallu, Bellary
203472	Anuja Prakash Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29607 14.06.12	# 26-292, Vijaya Nagar Clny, Hulsur, Basava Kalyan At post & Tq, Bidar
203473	Anuja Singh V Vasanth G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30135 22.04.13	#2206, 4th H Block, 6th Stage, Kanakapura Main Rd. Bangaloe
203474	Anulekha. K Anantha Krishna. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25811 12.03.10	# 1-85B, Kelarkalabettu Post, Udupi
203475	Anup T Anjaneya T S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	29924 05.02.13	Dwaralu, Lsagara Post, SIRA Taluk, Tumkur
203476	Anupama Shiva Kr Gouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28032 19.04.11	Janekal A/P, Manvi Tq, Raichur
203477	Anupama B Bali Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29418 23.05.12	Bali complex, Hunasagi at post, Shorapur Tq, Yadagiri
203478	Anupama Ballari Basavaraj Ballari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24005 18.04.09	Hattarageri Oni, Infront of Horadi House, Haveri Tq &
203479	Anupama Chippalakatti Dharamanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23825 06.04.09	Basava Nagar, Nr. Ranna Circle, Mudhol Post & Tq, Bagalkot
203480	Anupama Janakiram G.S. Janakiram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30448 03.06.13	# 172, Sri Ramadhama, 6th Main, NoboNagar, 2nd Sec Bannerghatta Rd. Bangalore
203481	Anupama Naik C. Rama Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26181 22.03.10	Kalleshwar Badavane, Hosadurga Town, Chitradurga
203482	Anupama Patil Gurannagouda.R Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28964 26.04.12	Goudar Street, Somalingeshwar ChowkSindagi Post Taluk, Bijapur
203483	Anupama S M.S. Sadasivan Pillai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30398 24.05.13	Anugrah, Thaliyil, P O Kalliasseri, Kannur ,
203484	Anupama. C.S Sathisha. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25318 27.11.09	# 16-9-515/1, Mission Compound, Kankanady Post Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203485	Anupama. G K.V. Gangappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25017 26.06.09	Kunkanadu Post, Kadur Tq, Chikamagalore
203486	Anupama. K.S Somappa Gowda. K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24893 08.06.09	P VI 19/2, KPC Clny, Kadra, KARwar Tq, Uttar Kannada
203487	Anupama.A. Bhadrachari Bhadrachari.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24006 18.04.09	3rd Cross, 1st Main Rd. K.R. Nagar, Yantrapur Post, Harihar Tq, Davangere
203488	Anuprita Subhash Rashinkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26481 03.04.10	# 1-111/C, Aiwan-E-Shahe Clny Rd. Gulbarga

203489	Anuradha Ullegaddi Dhundappa B Ullegaddi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26122 20.03.10	H.No. 1010, Ramteerth Nagar, Khanabargi, Belgaum
203490	Anuradha. K.C K.M. Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24832 06.06.09	3-25-2117, Rayara Katte, Nr. Kudri Temple, Kankanady, Manglore Tq. Dakshina Kannada
203491	Anuradha.L.Mallya Laxminarayan Mallya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24834 06.06.09	Vignesh, # 22-20A/1, T-GardenMadhya Post Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203492	Anurag Kalmani Lappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27470 26.03.11	Savanur Rd. Shiggaon Tq, Haveri
203493	Anure Sujit Prakash Anure Prakash Raghoba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23692 01.04.09	C/o. Dhanvanthri Ayurvedic MedicalCollege & Hostel, Siddapur, Uttar Kannada
203494	Anusha Gururaj. N.G Gururaja. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25635 06.03.10	Junction Rd. Hiriyyur Post, Bhadravathi Tq, Shimoga
203495	Anusha K Krishna Murthy D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30288 07.05.13	Behind Ravindra College, Suhas Nilaya, T.R. Nagar, Challakere Tq &
203496	Anusha M Raghavendra Naidu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30406 28.05.13	?Rukmini Nilaya? Aroorutota, Sampige Nagara, Udyavara, Udupi
203497	Anusha.A.S. Shivashankara Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28006 18.04.11	No.649, Vishal Plaza, Main Rd. Hosadurga Chitradurga
203498	Anusha.S.V. Venkatesha.S.L.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28259 17.05.11	#420, Behind Junior College, Channayya Kopplu Saligrama K.R.Nagar Mysore
203499	Anushree M V Aradhya M R V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30473 10.06.13	83/6, 777, 13th Main, 1st Cross, 100ft Rd, Hal II Stage, Indiranagar, Bangalore
203500	Anushree. G B.R. Gururaj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27528 28.03.11	# 106, KSRTC Layout, Hanumantha Nagar, Bannimantap, Mysore
203501	Anwar Pathan Khasim Pathan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25174 07.10.09	CIB Clny, Nr Bhavani Temple, Shakthinagar, Gulbarga
203502	Anwesh Reddy S S Mahipal Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29177 14.05.12	No 2-96, Amm Reddy Pally At & Post, Narayan Pet TQ, Mahabubnagar
203503	Apar Deepak Vijay Vijay Apar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30181 26.04.13	Plot No 20, Nr. Hanuman Temple, Balajinagar, Sillod-Tq, Aurangabad, Sillod
203504	Aparna Viratayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27773 07.04.11	#2-910/53/1B/124, Brindhavan Cly, Vishweshwara nagar, Gulbarga
203505	Aparna Anand Sawant Anand Gopal Sawant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30331 16.05.13	# 05, Chennaraya Swamy Temple Rd.Nagrathpet Cross, Bangalore
203506	Aparna Kulkarni Anantrao.V. Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27262 22.03.11	Opp BLDE & Engg College, Ashram Rd. Bijapur
203507	Aparna Nayak. Nayak. T.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25730 12.03.10	# 36, Anugraha, 3rd Cross, 29th Main Rd, Nandini Layout, Bangalore
203508	Aparna Rao. A Shivarama Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25992 18.03.10	# 3-3-50, 1st Main, Prashanthanagar, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203509	Aparna Shivamurthi Sannakki	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29581 12.06.12	Kudachi At Post, behind Railway P W I Office Raibag Tq, Belgaum
203510	Aparna Upadhyaya Prabhakar Upadhyaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27804 08.04.11	No.5/102, Udyavara Post, Udupi Tq &

203511	Aphaya Prabhu Narayan Prabhu. M.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25994 18.03.10	# 27, Mithila Nagar, Dharmasthala, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
203512	Apoorva Bhardwaj. D.N Narasimhamurthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25501 04.03.10	# 13, 1st B Cross, LIC Housing ClnyBasaveshwara Nagar, Bangalore
203513	Apte Meenal Madhay Madhav Pundalik Apte	BAMS M.U.H.S., Nashnik 2009	29915 21.01.13	419, Srigriha, 9th B Main, HRBR Layout, Block I, Kalyan Nagar, Bangalore
203514	Arati Hiremath Mahadevayya.S. Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24354 30.04.09	Vinayak Nagar, Mudhol Tq, Bagalkot
203515	Arati Tashildar Irapa Tashildar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24779 04.06.09	# 47, First Cross, Behind Hari Mandir, Opp to Bhagyanagar, Belgaum
203516	Arati. P P. Ravindra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28440 20.06.11	Plot.No. 95, Kanta Clny, Hirapur Post, Gulbarga
203517	Aravind Gejji Murigeppa.S.Gejji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25723 12.03.10	Gundewadi Post, Athani Tq, Belgaum
203518	Aravind Kumar Rathoda Ramachandra Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27735 06.04.11	Ankalagi, LTX10-1, Bijapur Tq &
203519	Aravind. B.S Shankaranarayana. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23984 18.04.09	# 1179, 19th Main, 2nd Stage, J.P. Nagar, Mysore
203520	Aravind. H Kappathappa Hanchinal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23789 04.04.09	# 3710, Nekar Oni, Mundargi Tq, Gadag
203521	Aravinda P Pavadabasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29947 01.04.13	At Post-Huvin Hipparagi, Bijapur, Basavan Bagewadi-Tq, Bijapur
203522	Aravinda Shenoy. A Ramananda Shenoy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23758 03.04.09	# 266, W/1, Gopalakrishna Lane, Salmar Karkala Tq, Udupi
203523	Archana Chougule Suresh.S.Chougule.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24666 22.05.09	# 79/A, Navaraspur Clny, Bagalkot, Bijapur
203524	Archana Hegde. M Thimmappa Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23752 03.04.09	Ramanth Nivas Nr. Police Station, Mulki Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203525	Archana Hiremath Basalingayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27903 11.04.11	Shri Gourish Nilaya, Vidyanagar, III CrossBailhongal Tq, Belgaum
203526	Archana Kashyap Devendra Kashyap.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25830 12.03.10	ALN Rao Memorial Ay. Medical CollegeLadies Hostel, Koppa Tq, Chickmangalore
203527	Archana Kopparad Venkatesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30178 25.04.13	Marwadigalli, A/p Ilkal, Hungund Taluk, Ilkal
203528	Archana M Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30535 01.07.13	Behind Ullal Railway Station, Perubail, P.O. Kotekar, Someshwar, Dakshina Kannada, Mangalore
203529	Archana M K Kr Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29701 09.07.12	Mart Main Rd.Kampli, Hospet Tq, Bellary
203530	Archana S.N Narayanappa S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30157 24.04.13	D/No. 1022, ?Anugraha? Hesaraghatta Rd.Chikkabanavara Post, Bangalore
203531	Archana. B Basavaraju. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27327 23.03.11	# 3, Block-15, BEML Nagar, Srirampura, 2nd Stage, Mysore
203532	Archana. M.S ShivaKr M.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25767 12.03.10	# 1783/A-3, VI Cross, Siddaveerappa Layout, Davangere

203533	Archana. V.Yaji Vasant.R. Yaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26593 22.04.10	Shree Mata Court Rd.Sirsi Tq., Uttar Kannada
203534	Archana.G.Joshi Gururaj.N.Joshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25818 12.03.10	Hosayallapur Rd.Nekar Oni, Dharwad
203535	Archana.T. Takur Nair	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27688 05.04.11	PWD Contractor, Bevina Halli Tanda, Bharamasagar, Chitradurga
203536	Archanakumari. K Ramesh Sheregar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24064 21.04.09	Shankaranarayana Post, Kunpura Tq, Udupi
203537	Archanan Chinchakandi Rudresh.H.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27034 01.03.11	Ashwini Clinic Opp, Don Bosco School, Dhanvantari AMC, Siddapur
203538	Ardrana Dubey . P.P. Dubey	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26566 16.04.10	Nr. Raghavendra Temple, Pampa Complex, Raichur.
203539	Areej Jagirdar Sayed Mushtaque	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29567 12.06.12	Opp Remand Home , Glass Glory Building, Bijapur
203540	Arhanth Kumar. A Chandrashekar. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24033 20.04.09	Amith Nilaya, Nr. Court, B.N. Rd.Channarayapatna Tq, Hassan
203541	Arivukkarasu .S V. Sivasangaran	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29929 16.02.13	#8, Hudco, 2nd Stage, Banni Mantap, Mysore
203542	Arpana M. Dhanakeerthi Jain.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26140 20.03.10	# 2-115A, Aliyoor, Valpady Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203543	Arpana Swaroop.S.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27704 06.04.11	No.2306, Siddha Sukha, 1st Main, Basweswara Extn, S.S. Matt, Tumkur
203544	Arpana.P.V. Vasudeva P.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27613 01.04.11	No.271, 10th Main, Pipeline Rd, Hanumanthanagar, Bangalore
203545	Arpitha Shetty Prasad Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25904 15.03.10	# 305, Municipal Rd, Sushan Plaza, Kundapura Tq, Upupi
203546	Arpitha. P Parameshwarappa. K.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24206 24.04.09	Kalgundi Post, Arsikere Tq, Hassan
203547	Arshia .M. Halima Begum M. Basith Baig	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29970 06.04.13	Ward No. 15, Door No. 314, Sindagi Compound, K C Rd. Bellary
203548	Arshiya. Ali Mohammed Ali. S.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25791 12.03.10	34th Nekkilady, Uppinangady, Nekkilady Post Puttur Tq, Dakshina Kannada
203549	Arun Badiger Irappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28588 19.10.11	# 1131, Nesargi Post, Bailhongal Tq, Belgaum
203550	Arun Ghatnatti Srishail.D.Ghatnatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24297 29.04.09	Teligalli, Mudhol Tq, Bagalkot
203551	Arun Girisagar Chidambar Girisagar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25399 24.02.10	Yadwad Post, Gokak Tq, Belgaum
203552	Arun Havinal Mallikarjun B Havinal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27695 05.04.11	No.716, Ganesh Nagar, Sambra Post, Belgaum
203553	Arun Kumar. M Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23995 18.04.09	# 3-215, Brahmavar Post, Udupi Tq & Ist
203554	Arun Tuppad Shrishail	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26598 23.04.10	Khunatti Post, Gokak Tq., Belgaum

203555	Arun. N Nagaraja. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28597 19.10.11	# 973, Vokkaligara Beedi, Hasabeedi, Yalhanka Old Town, Bangalore
203556	Aruna Chandrakant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25431 26.02.10	# 15-5-429, Kumbharawada Rd, Bank Clny, Bidar
203557	Aruna Kumari. M Mahadev. M.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26139 20.03.10	H.No. 11, Cross 11th, Jayanagar, Mysore
203558	Aruna Pillai Gopal Krishna Pillai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24214 28.04.09	Rly Quarters, # 138/B, Goods Shed Rd.Hubli Tq, Dharwad
203559	Aruna Prabha.V. V. Veera Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27796 07.04.11	Nr. B.V.R. School, Manvi Tq, Raichur
203560	Arunarani Nijalingappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24877 06.06.09	C/o. Sharada Poly Clinic, Bijuwar RdVenkatagiri Kot Devanahalli, Bangalore
203561	Arundhati ShrikantWalwadkar S.B. Walwadkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30284 07.05.13	No. 49, First Floor, 7th Cross, P.R. Layout, Murugeshpalaya, Bangalore
203562	Arundhati. S.N Neelakantappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25674 12.03.10	# 326/4, 4th Main, 4th Cross, Basavanagar, Bangalore
203563	Arunjith. S Sarachandra Bose	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26912 27.09.10	C/o Raghu Sharada Hospital, K.R. Puram, Vijjinapura, Bangalore
203564	Arunkumar Togalooore Mallappa S Togalooore	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29830 30.10.12	(Sri kanak Finance & Loosmg ?, Aland Tq, Gulbarga
203565	Arvind Lokare Maruti Lokare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29201 14.05.12	Survey no 156/14, Ramnagar Chidri Road Bidar
203566	Asabe Raviraj A Vishvanath Keraba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27301 23.03.11	Watch & Gift Centre, Ghataprabha, Gokak Tq, Belgaum
203567	Asbe Madhuri Vasantao Vasantao Marutirao Asbe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25258 27.10.09	C/o. SHES Ay. Medical College, Hostel, Sedam Rd. Gulbarga
203568	Asha Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30200 29.04.13	D.C. Office, Sata Kacheri, Raichur
203569	Asha Gurulingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30418 28.05.13	At Post Belamagi, Tq-Aland, Gulbarga
203570	Asha Basavaraj.R.Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27430 25.03.11	# 822, Kirtinagar, Nr. Vigneshwara Temple, Bijapur
203571	Asha Chikkamath Shivayogiswami.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26063 19.03.10	Basaveshwar Nagar A Block, 16th Cross, Haveri
203572	Asha Joshi Vasantao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28546 07.09.11	# 84, Hemath Nagar, Keshwapur, Hubli
203573	Asha Kurubar Shivaputrappa.K. Kurubar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26979 25.11.10	Panchakshari NagarIV Cross, Gadag
203574	Asha Mathyari Ullas.D.Vijayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28296 25.05.11	21st KM, Kanakapura RdUdayapura P.O., Bangalore
203575	Asha Patil Bhimanagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26071 19.03.10	Bhavikatti Oni, Babaleshwar, Bijapur
203576	Asha S C M Siddalingaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29586 12.06.12	# 495, Nr. PHC, Mahadevapura Post, Sri Rangapatna Tq, Mandya

203577	Asha S M Manjunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28793 11.04.12	Haladamma Kruppa, Guthyappa Clny, 2nd Cross, Shimoga
203578	Asha Vishwanath Vishwanath Sajipa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29014 27.04.12	Anugraha Nr. Holge House, Kodical, Ashok Nagar, Mangalore Dhakshina Kannada
203579	Asha. S.A Sunil Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23918 09.04.09	# 326, G-Block, 10th Cross, Ramakrishna Nagar, Mysore
203580	Asha. Vaijinath Majage.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25468 03.03.10	# 28-304, Seeta Clny, Seeta Nivas, Basavakalyan Tq, Bidar
203581	Asha. D Panchakshri Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24826 05.06.09	Police Quarters, Here Hadagali Post, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
203582	Asha. Lavan Bhaskar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27585 30.03.11	# 1-32, Thokkattu, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203583	Asha. R Manjunath.K.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24631 18.05.09	# 732, Basavveshwara Rd BhiraveshwaraNagar, Metagalli Post Hebbal 1st Stage Mysore
203584	Asha. S Srinivasa reddy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25892 12.03.10	# 86, 3rd Cross, Manjunath Layout, B.G. Rd. Bangalore
203585	Asha.B.S. Siddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27689 05.04.11	Rajajinagar, Bagalkot Cross Rd. Behind KEB Bijapur
203586	Asha.H.S. Suresh.H.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27752 06.04.11	#29, Hirikyathana Hally At & Post, Hunsur Tq, Mysore
203587	Asha.V.Karki Veerappa.B.Karki.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25855 12.03.10	Plot.No. 86, K.C. Nagar, Solapur Rd. Bijapur
203588	Ashakiran. K.S Somappa Bhandary.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25773 12.03.10	Kayarthadka House & Post, Dharmasthala, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
203589	Ashaparvathi V Venkataramana Bhat V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29010 27.04.12	Flower Cottage , Via SS Vihar Alike Post, Bantwal Taluk , Dakshina Kannada
203590	Asharani Sangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28847 18.04.12	#7, ManthalaAt & Post, Basavakalyan Tq Bidar
203591	Asharani Chougula Ramu H Chougula	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28871 18.04.12	Halyal Rd. Shankanagar, Athani Post & Tq, Belgaum
203592	Asharani K Krishnamurthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28848 18.04.12	# 645, 14TH Cross, First Main, B MSrinagar, Mysore Tq &
203593	Asharani M Mahalingappa M S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30551 15.07.13	# 112/A, VRC RLY Qtrs, Yadavagiri, Mysore,
203594	Asharani N Nagaraj M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29740 03.09.12	Kodihally, Aralihally Post, Hosadurga Tq, Chitradurga
203595	Ashavathi. N Narasimhaiah. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27197 19.03.11	Ragaven dra Clny, Kanakapura, Ramanagara
203596	Ashish Kumar Soni Nand Kislor Soni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26502 07.04.10	C/o Maruti Ladeewas -73, HUDCO Clny, Bidar
203597	Ashish Kumar Yadav Deena Nath Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30273 06.05.13	Opp. Samudayik Swasthya Kendra, Chauri Rd. S.R.N Bhadohi, Sant Ravidas Nagar

203598	Ashish Surya Nath Singh Surya Math S. Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25974 18.03.10	Desai's Boy's Hostel, R.K. Nagar, Jaldarshini, Dharwad
203599	Ashitha S Upadhyaya Shyamasundara J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30276 07.05.13	Pernukku House, Badagannur Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada, Badagannur
203600	Ashiwini G.C. Omkarappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25837 12.03.10	Vathsalya Nilaya, Vinayaka Nagar, Tankere, Chikkamangalore
203601	Ashiwni Basawaraj Gudna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28601 19.10.11	# 14/4, Alstom Clny, ShahabadPost Chitapur Tq, Gulbarga
203602	Ashok Shivaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28854 18.04.12	E/13/49, Jewargi(k)At Post & Tq, Gulbarga
203603	Ashok Kumar Devendra Kr.D.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27047 15.03.11	D-16 (G.U.G), University Campus, Gulbarga
203604	Ashok Kumar Saini Raj Singh Saini.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25027 29.06.09	Plot.No. 75, IVth Main Rd. Dharwad
203605	Ashok Kumar Yadav Sitaram Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29849 05.11.12	Room No. 102, C Wing Shiv VaibhavCo- op Housing Society Vijay Nagar, Nalla Supara East thane
203606	Ashok Lamani Nathu Lamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26711 10.06.10	L.T. No.2, Utal Atand Post, Bijapur
203607	Ashok Rathod Shankar Namdev Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29500 25.05.12	MakhanapurLt No.2 At post, Bijapur
203608	Ashok Stephen Thomas Charakunnel Thomas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25337 19.12.09	F-127, Bala Post, Mangalore
203609	Ashoka Shivaraja.T.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27662 02.04.11	Jambaladinni At &Post, Manvi Tq, Raichur
203610	Ashreen Jaha Asad Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29375 21.05.12	Mutton market, Arasikere at post, &Tq, Hasan
203611	Ashrith Hegde B B Rajendra Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30586 30.07.13	Vinayaka House, Gurupura, Kaikamba, Kinnikambla, Dakshina Kannada,
203612	Ashutosh Chaturvedi Surendra Kr Chaturvedi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29337 18.05.12	No 819/2, Kaustubha Nr. 8th cross , Shankar Mutt Rd. KR Puram , Hasan
203613	Ashvini SM Muralasiddappa S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29370 21.05.12	Kammathahalli, at post, vishweshtertha nagar, Davanagere
203614	Ashwath Mandali Narayan J Mandali	BAMS M.U.H.S., Nashik 2011	29675 25.06.12	# 411/C, Devangmath Galli, Betageri Gadag At Post, Gadag
203615	Ashwija NH Ishwara Bhat NH	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29221 15.05.12	Kalyangad , Ramdas nagara, Kasaragod TQ,
203616	Ashwin Kumar Ashok Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26628 28.04.10	E-9-1910, Aland Rd.Harrini Nagar, Gulbarga
203617	Ashwin.M.Bhandary K.M. Bhandary	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28411 20.06.11	No.575 A, 3rd Cross, Mahalakshmi Layout, Bangalore
203618	Ashwini VM Gokhale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29343 21.05.12	No 28-443, Sarvodaya Clny, Shivapure Rd. Basavakalyana at post & tq Bidar
203619	Ashwini Chintamani.M.Sanikop.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25655 06.03.10	Itagi Post, Khanapur Tq, Belgaum



203620	Ashwini Chandrakant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27348 24.03.11	Vidhyashree Clny, Nr JBKHigh School, Basav Kalyan, Bidar
203621	Ashwini Shivanand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28784 11.04.12	Maindargi At & PostAkkalakot Tq, Solapur
203622	Ashwini A Ananda Ganiga	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29241 15.05.12	No 2-124 d2 , Ananda Sadana, Mangalore TQ, Dakshina Kannada
203623	Ashwini A Ashok Mushrif	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28981 27.04.12	No.80-B1, 4th Cross Rd, YelahankaNewtown Bangalore
203624	Ashwini Alur Kallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28753 02.04.12	Tq, Bijapur
203625	Ashwini B S Bhimaraya Somappagol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29630 14.06.12	Plot No. 88, Shardanilaya, Chamundeshwari Clny, Jewargi Rd.Gulbarga
203626	Ashwini BD BR Dodamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29148 08.05.12	No 1-40(A), Anoosha Nilaya, MankKatapady Udupi
203627	Ashwini Balekundargi Mohan Balekundargi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26136 20.03.10	H.No. 944, Neelgar Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
203628	Ashwini Banakar Mallikarjuna Banakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23888 09.04.09	Plot.No 6, Sri Hari Clny, Moaka Rd. Bellary
203629	Ashwini Chavan Motilal Chavan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30022 10.04.13	Bhavani Nivas, Shrusti Clny, T.Perur Gundurao School Bijapur
203630	Ashwini Desai Basavaraj Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29917 24.01.13	Rajaput Galli, Indi Rd. Bijapur
203631	Ashwini Deshpande Pralhad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27608 01.04.11	Plot No.158, Sector No.5, Srinagar, Belgaum
203632	Ashwini Hallad Nagappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30180 26.04.13	House No. 70, Ward No. 10, Vinayak Nagar, Hullyal Layout, Bagalkot
203633	Ashwini Havldar Chandrappa. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23979 18.04.09	# 323/261, APMC To Film Theatre RdHagari Bommanahalli Post & Tq, Bellary
203634	Ashwini Hiremath Girimallayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24361 30.04.09	Channamma Nagar, 4th Cross, Bailhongal Tq, Belgaum
203635	Ashwini Jeerankalagi Prakash Jeerankalagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28130 26.04.11	H.No.43, Tejaswini, B.B. Rd.Pulakeshi Nagar, Bijapur
203636	Ashwini K S K Shivarayappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28956 26.04.12	No.107/A, Sri Gurukrupa, MarkalCompound, Church Rd, Harihar Davanagere
203637	Ashwini K.S Shankarnarayan Bhat K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30563 17.07.13	Chikkahonnesara, Honnesara Post, Sagara Taluk, Shimoga ,
203638	Ashwini Kallappa Kaladagi. Kallappa Kaladagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24884 08.06.09	Hulagur Post, Shiggaon Tq, Haveri
203639	Ashwini Kalyanimath Jagadeesh Kalyanimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28117 25.04.11	Hubli Main Rd, Nr VeerabhadreshwarTemple Ron Tq, Gadag
203640	Ashwini Kudarimath Mahantesh Kudarimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25711 12.03.10	Mahantesh Nagar, Ghataprabha Post, Gokak Tq, Belgaum
203641	Ashwini Kumari Veeranna Beli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30463 06.06.13	#413/2, Kataraki Plots, Opp. P & T Qtrs, Rajeev Gandhi Nagar, Gadag

203642	Ashwini Kumari M. Balachandra Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27526 28.03.11	Ashwini clinic, Ajjiampura, Tarikere Tq, chackmagalur
203643	Ashwini Kumari S Sab Reddy Santnoor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29267 16.05.12	No 5/20, Batgera (B) post , Sedam TQ, Gulbarga
203644	Ashwini Madagannavar Basappa Madagannavara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30451 04.06.13	At Post Mudalagi, Tq Gokak, Belgaum, Mudalagi
203645	Ashwini Mallikarjun Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29077 05.05.12	H No 20 C/o. Bhimangouda S PatilPadmavathi Clny, Ashram Bijapur
203646	Ashwini Marathe Vighneshwara Marathe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30561 17.07.13	?Sumukha? 18-15A, 6th Cross, Laxmi Nagar, Garade, Kodavooru-Post, Udupi
203647	Ashwini N N Vishwanath Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29430 23.05.12	No 1-125 Barempady house, Ramakunja post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
203648	Ashwini Nimbale Gurunath Nimbale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28767 05.04.12	#34, Gangapuram Clny, Darga Jail Rd Bijapur
203649	Ashwini Padara Parameshwari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30567 18.07.13	Nr. S.S. PU College, Blagi, Bagalkot,
203650	Ashwini ParashuramDhongadi Parashuramsa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24955 10.06.09	# 979, Surabhi Vanasiri Nagar, Sattur, Behind SDM Dental College, Dharwad
203651	Ashwini Puttur Ganesh Kowkrady	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27701 06.04.11	Ashwini (H) Veer Savarkar Rd.Bappalige Rd. Bypass, Puttur Tq, D.K.
203652	Ashwini S Kamadal Subhas M Kamadal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29266 16.05.12	No 1132/A, Viyanagar College Rd, Mudalgi post Gokak TQ, Belgaum
203653	Ashwini Sangappa Kolar Sangappa.K.Kolar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23751 03.04.09	KDCC BankSiddapur, Uttar Kannad
203654	Ashwini Suryavanshi Suresh Suryavanshi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27464 26.03.11	# 2169/A, Maratha galli, Gokak Tq, Belgaum
203655	Ashwini VishwanathKannale Vishwanath N Kannale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	30621 29.08.13	Shetty's Solapur Clinic, Beside Govt Hospital, Afzalpur, Gulbarga,
203656	Ashwini Y Prathap Reddy Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29673 25.06.12	# 3-111/6, Jaya Nagar Clny, Ishail Khan Guda, Rampally Post Ghatkesar (M), R R
203657	Ashwini. B. Koshetty Basavaraj Koshetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26952 29.10.10	#29/10 STRT, ACC Cly, Wadi At & Post, Chittapur Tq, Gulbarga
203658	Ashwini. B.N Nagaraja. B.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23866 09.04.09	# 78/04, 2nd Main, 1st Cross, P.J. Extn, Davangere
203659	Ashwini. H H. Venugopal Shenoy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25716 12.03.10	1st Cross Rd. Ashoknagar, Mangalore, Dakshina Kannada
203660	Ashwini. H.S Somashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24037 20.04.09	Pump Hosahalli, Srirangapatna, Mandya
203661	Ashwini. M.V H. Vittal Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25083 03.08.09	G1, 947, 13th Cross, 4th Block, HMTLayout, Vidyaryanapura, Bangalore
203662	Ashwini. N D. Nagesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28486 18.07.11	# 15, 18th Cross, Ranganathapuram, Malleshwaram, Bangalore
203663	Ashwini. N.K K. Nandagopal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25581 05.03.10	# 2008/47, 20th Cross, Vidya Nagar, Davangere

203664	Ashwini. P Thirumaleshwara Bhat. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24769 04.06.09	I-163, Pijakkala House, Dolpadi Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
203665	Ashwini. S.G A. V. Govindappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24158 24.04.09	Annapoorneshwari Nilaya, JagadambaStreet Vidhyanagar, Shimoga
203666	Ashwini.A. Kulkarni Anand.C. Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26582 19.04.10	H.No.1-8-83(old), 1-8-85 (New), Brahmanwadi, Station Rd. Raichur.
203667	Ashwini.K. K. Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28687 27.02.12	#17/4/187/1, N.G.O. Layout, Vivekanand Clny, Bidar
203668	Asif Ahmed Angadi Gulab Sab A Angadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28962 26.04.12	Ganihar At & Post , Sindagi Taluk , Bijapur
203669	Asif Iqbal Talikoti Allabaksh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27179 18.03.11	Nalband Garden, Plot.No. 37, Nr. Badikaman, Bijapur
203670	Aslam Patil Akbar Shamshuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29492 25.05.12	Opp New Court, Navaraspura Clny, Plot No 73, Bijapur
203671	Aslam Nadaf Moulasab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26841 27.08.10	Hazrat Abubakar, Darga Clny, Jamkhandi Tq, Bagalkot
203672	Asma A Kakatkar Aziz K Kakatkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29551 29.05.12	Andagi At Post, Sirsi Tq, Karwar
203673	Asma Khanum Muheb Ali Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28894 20.04.12	No 1505 EWS, 8th Cross, RajkumarRd , Kalyangiri Udayagiri Post Mysore
203674	Asmath Ara Begum Noor Basha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24962 10.06.09	# 66/11KV, 1st Floor, MES Rd.Gokula Extn, Bangalore
203675	Aswini Manohar Goure.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26180 22.03.10	Plot.No. 95, Gurubara Nilaya, Kamta Cly, Hirapur, Gulbarga
203676	Aswini Sajjanavar Laxmesh B Sajjanavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29255 16.05.12	Vikas Nagar 2nd Cross, 1st Main , Ranebennur at post & TQ, Haveri
203677	Aswini. A.P Yogesh. T.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25458 02.03.10	# 133, NGEF Layout, 6th MainSanjaynagar, Bangalore
203678	Aswini. M V.G. Muraleedharan Nair.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28441 20.06.11	21st Km, Kanakapura Rd. Udaypura, Bangalore
203679	Ateeq Ur Rahaman Mohamed rafeeq H M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28773 05.04.12	Mashriff Nagar, Opp Eivil Court Bijapur
203680	Athikajan Hamza. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24116 22.04.09	VII Type, # 15/1, KPC Clny, Ganeshgudi Post Joyeda Tq, Karwar
203681	Athreya.V.Devanur Venkatesh Devanur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28543 07.09.11	# 576, 5th Cross, 7th Main Rd, K.N. Extn Yeshwantpur, Bangalore
203682	Atiyarparveen Hokrani Babusab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29464 24.05.12	# 2654/p, Basavana BagewadiTelagi Rd. Bijapur
203683	Attar Jujahid Imamoddin Attarimauddin Babadaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23911 09.04.09	UCB Nagar, Flat No. 52, Sai Krupa Building, Dharwad
203684	Attar Sajida Dilawar Dilawar Mohamed Attar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29469 24.05.12	A-6-G R.No 1, Attarmanzil, Attarwadi, Quresh Nagar, Kurla (East), Kurla Tq, Mumbai
203685	Attar Samira Fardin Asifali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1996	27016 10.01.11	Dongargaon, Kohali Post, Athani Tq, Belgaum

203686	Aurwade ShubhangiNeminath Neminath Parisa Aurwade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28052 19.04.11	C/o Manu Building, Bedkihal At & Post, Chikodi Tq, Belgaum
203687	Autee Rohit Govind Govind Shrirang Autee.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23960 13.04.09	Vidyanagar, 1st Cross, Badami Tq, Bagalkot
203688	Avani Shaima Mohiddin A Abdul Khader	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30349 20.05.13	Sana Manzil, Piraramoola, Hosanagady, Manjeshwar
203689	Avaradi Sumangala Ramappa L Avaradi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29324 18.05.12	KHDC Clny, Hulyal at post , Jamkhandi Tq, Bagalkot
203690	Avinash Bhanudas Patil Bhanudas Banduji Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24651 22.05.09	Ranganath Nilaya, Gandhi Nagar, 2ndCross, Badami Tq, Bagalkot
203691	Avinash K S K Shantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29908 10.01.13	II Cross V Stage Vinobhanagr Shimoga
203692	Avinash L.P Purushotham	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30259 04.05.13	#153, Sri Venkateshwara Nilaya, Lakshmi pura, Naganahalli Post, Mysore tq &
203693	Avinash. S M. Sudhakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25490 04.03.10	# 168, 1st Cross, Mariyappana Palya, Srirampuram, Bangalore
203694	Avinash.K.Kattimani. Krishnappa.N. Kattimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28570 19.10.11	Plot.No. E-1, Sector No. 8, Navanagar, Bangalore
203695	Aware Jaydip Gajanan Aware G Khanderao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24076 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
203696	Aware Pramod Keshav Aware Keshav Madhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24131 22.04.09	Navanagar, Hungund Tq, Bagalkot
203697	Awati Ashwini Arun Awati Arun Appaso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29883 17.12.12	Plot No.26 (34 Gala)Tal-Hatkanangale, Kolhapur
203698	Axata Pujar Ramesh S Pujar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29166 11.05.12	Banashankri Temple, Cholachagudda Post Badami TQ, Bagalkot
203699	Ayesha Hadagali Jamaluddin Hadagali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25851 12.03.10	# 219, Block III, Kulkarni Hakkal, Head P.O. , Hubli, Dharwad
203700	Ayesha Siddiqa Liyakhath Alikhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29367 21.05.12	No 1/14 Behind Srs College, NH -13, Pille Kerenahalli, Chitraduraga
203701	Ayesha Siddiqua Riyaz Ur Rahaman Shariff	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30542 05.07.13	Door No. 198, 4th Main, 6th Cross, Bannimantap C Layout, Mysore,
203702	Ayesha Tabassum M.D. Shaik Ahmed.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27544 28.03.11	# 1-4-153, Gormitkal, Yadgir
203703	Ayeshanasreen Jamkhandi Saifuddin Md. Husen jJ	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29499 25.05.12	Teacher's Clny, Mudhol At Post & Tq, Bagalkot
203704	Aysha Shamreen Abdul Rahiman. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23989 18.04.09	Shankaraghatta, Kuvempu University, Bhadravatti Tq, Shivamogga
203705	Ayubhussain Hayatkhan Mohiddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30316 10.05.13	Ugar Rd. Nr. Noor Mohalla, A/p Kudachi, Tal-Raibag, Belgaum, Kudachi
203706	B Pandurang Saudagar Saudagar B Bongane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25192 08.10.09	Kalidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
203707	B.S. Pratima Shivanna G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30241 02.05.13	General Merchant, Jalappa Building, ?D? Cross, Doddaballapur tq

203708	BI BI Fathima Shariffuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29798 12.10.12	# 873, 1st Floor, 2nd Cross, 2nd Main, S S Nagar, Banni Mantapa Mysore
203709	Babanagar SupriyaSangonda B Sangonda Channappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24746 03.06.09	Girl's Hostel, Mamdapur Bldg, Badami Tq, Bagalkot
203710	Babitha. C.R Rangaswamy. C.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25993 18.03.10	Gayathri Extension, B.G. Nagar, 5th Cross, Channarayapatna Tq, Hassan
203711	Babu Kuchanur Basappa Kuchanur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29991 06.04.13	Jorapur PethAdaki Galli Bijapur
203712	Badgujar Kavita Shriram Badgujar SYadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24647 21.05.09	Plot.No. 46, Jaya Nagar, Sedam Rd.Doctor Clny, Gulbarga
203713	Badgujar Sarita Ramesh Ramesh Kisan Badgujar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29647 14.06.12	Shreevihari Plot No.14, S No. 132/4 Bijlinagar Chinchwad Pune
203714	Badgujar Vinay Pandit Badgujar P Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24437 05.05.09	H.No. 5-992/33/A, Yadullah Clny, Roza (k), Nr. Water Tank, Gulbarga
203715	Badigar HanumeshSubrayappa Subrayappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23870 09.04.09	Nr Siddhi Vinayak School, Mallapur, P.G. Gokak Tq, Ghataprabha, Belgaum.
203716	Baheti JyotiRameshchandra Baheti Rameshchandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28812 13.04.12	Mukundraj Clny, Ambajogai At Post & Tq, Beed
203717	Baheti Mahendra Prakashchandra Baheti P Brijlal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30003 08.04.13	696, Pimpalacha Chowk, Adas, Tehsil- Kaij, Beed,
203718	Bahubali Nemanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25169 06.10.09	Bastwad Post, Hukkeri Tq, Belgaum
203719	Balaarchi. V U. Venkateshachar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25213 13.10.09	# 15, 8th Cross, Bovipalya, Mahalakshimpuram, Bangalore
203720	Balagaon SiddaramTippanna Tippanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28915 26.04.12	Umadi At & Post , Jath Taluk , Sanuli
203721	Balagoni Rachana Malleth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30570 18.07.13	Muthireddy Gudem, Chada, Atmakur (M), Nalgonda, AP
203722	Balappannavara AnandaKumara B. Kaldeppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24548 13.05.09	# 142 H/5, Huvin Hadagalli Tq, Bellary
203723	Balasab Vidhate Krishnaji Vidhate	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29870 20.11.12	Behind Old Bus StandAt/Post-Managoli Tq-B Bagewadi
203724	Balasubrahmanya. K H. Keshava Acharya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25797 12.03.10	# 1-14, Shridevikripa, Padebettu, Padubidri Post, Udupi
203725	Balatai Kutre Manohar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29563 12.06.12	# 148, RamdevGalli Savagaon Mandoli Belgaum
203726	Bambalge SonyAmresha Amreha Bombalge.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27545 28.03.11	C/o. NKJ Ay. Medical College, Siddharudh Math Gumpa, Bidar
203727	Bamugade Yuvraj Sadashiv Sadashiv.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24946 10.06.09	V.B. Gingimath, M.B. Kalal Bldg, Nr Venkatesh Theater, Mundargi Tq, Gadag
203728	Bandgar Abhiji Anandrao Bandgar A Biru.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23956 13.04.09	Nr. Early Tree, Jogimatti Rd, 4th Cross, Chitradurga
203729	Bandgar AnilkumarMachindra B Machhindra Janappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28634 21.11.11	C/o. Rajeswari KarurmathMemorial AMC, Bijapur

203730	Bangar Avantika Mahendra B Mahendra Sakharam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24436 05.05.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
203731	Bangar Rekha Kailas Bangar Kailas Bhikaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24323 29.04.09	Totad Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
203732	Bangarevva Kannur Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27561 29.03.11	Tamba, Indi Tq, Bijapur
203733	Banne Satej Tippanna Banne Halappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29326 18.05.12	Plot No 143, Bapuram Nagar, Kalamba at post, Karveer Tq, Kolhapur
203734	Banshelkikar KapilNagnathrao Banshelkikar N Ambajirao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30028 15.04.13	Goud Nivas, Sant Kabir Nagar, Opp Railway Station, Udgir, Latur, Udgir
203735	Bansode Randhir Vinayaka Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26704 02.06.10	#3-6-358, Gandhinagar Clny, Mailor Rd. Bidar
203736	Bapugouda Biradar Malianna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26563 15.04.10	Bavoor Post, Mudhebihal Tq., Bijapur
203737	Barote Ashish Ramdas Barote Ramdas S Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26799 19.08.10	1st Phase V.P.Nagar, GDA Layout, Sedam Rd. Gulbarga
203738	Barsing Akshay Anil Anil Maruti Barsing	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27955 18.04.11	C/o S.D.M.T. AMC, Terdal, Jamkhandi Tq, Bagalkot
203739	Basalinagouda Patil Linganagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24678 28.05.09	Veerabhadreshwar Sadan, Navalgund Tq, Dharwad
203740	Basanagoud Revannavar M M Revannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29385 21.05.12	Karaguppi at post , Hukkeri Tq, Belgaum
203741	Basanagouda Tejigoudra Veeranagoud Tejigoudra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29629 14.06.12	Hullur At Post, Ron Tq, Gadag
203742	Basanaik Rudranaikar Doddanaik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30163 25.04.13	A/p Murkibhavi, Tq-Bailhongal, Belgaum- , Murkibhavi
203743	Basappa Ghanti Siddappa T Ghanti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	25378 02.02.10	Hidakal Post, Raibag Tq, Belgaum
203744	Basappa Kengonda Fakkeerappa M Kengonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30523 25.06.13	At Post Kakol, Tq-Ranebennur,
203745	Basavanneppa Sadhunavar Chanabasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28423 20.06.11	No.357, Kadaravalli, Bailhongal Tq, Belgaum
203746	Basavantappa Mulimani Shivappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26906 21.09.10	Mulimani Galli, Jalikoppa, Baichongal Tq, Belgaum
203747	Basavaraj Shivappa Gudihindal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29554 12.06.12	M Gudadure, Madapure Post, Kushtagi Tq, Koppal
203748	Basavaraj Awati Shivappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26888 15.09.10	Chalukya Nagar, Bijapur
203749	Basavaraj Bannannavar Nagappa K. Bannannavara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27609 01.04.11	Jayanagar, Hukkeri A/P & Tq, Belgaum
203750	Basavaraj Beli Veeranna Beli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28064 19.04.11	Laxmi Nagar, Gurmatkal At & Post, Yadgiri Tq &
203751	Basavaraj Chavan Pandu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23695 01.04.09	Gabasavalagi Post, Sindagi Tq, Bijapur

203752	Basavaraj Ilal Sharanayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25314 27.11.09	Kesur Post, Dotihal, Kushtagi Tq, Koppal
203753	Basavaraj Jyoti Virappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30576 24.07.13	H.NO. 172/D, Plot No-30, Liquor Rd. Vidya Nagar, Gokak, Belgaum,
203754	Basavaraj Kamadolli Shivappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24382 05.05.09	Kiresur, Hebsur Post, Hubli Tq, Dharwad
203755	Basavaraj Kanaller Shekhappa.K. Kanaller.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25340 22.12.09	Gulaganji Koppa, Shivabasavanagar, Shivalli Plot, Dharwad
203756	Basavaraj Kotagi Rudrappa.S. Kotagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27826 08.04.11	No.210 3B/2, III Cross, VishweshwaraiahNagar, Gokak Tq, Belgaum
203757	Basavaraj Sharanappa Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29834 30.10.12	Nr. Police Station, Turivihal Post Sindanur Tq, raichur
203758	Basavaraj Shinde Naru.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24697 02.06.09	# 82, Sambra Rd.Basavan Kodachi, Belgaum
203759	Basavaraj Shirur Shantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28771 05.04.12	K K NagarH NO.290 Mangali Rd. Bijapur
203760	Basavaraj Subhaschandra Guggari Subhashchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25685 12.03.10	Hebballi, Badami Tq, Bagalkot
203761	Basavaraj Veeranagouda .D. Police Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28250 12.05.11	Plot No.192, Sector No.30, Navanagar, Bagalkot
203762	Basavaraj.M.Gonal Mallappa.N.Gonal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25842 12.03.10	Dabali Oni, Shirahatti Tq, Gadag
203763	Basavaraj.S Srinivasaiah .G.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28902 20.04.12	No 793, 1 st main Rd.Muthur Doddaballapur post & Taluk Bangalore Rural
203764	Basavaraja Banakara Ajjanra. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27152 18.03.11	Nr. Basava Temple, Chapparadahalli Post, Kudligi Tq, Bellary
203765	Basavaraja Naik Balappa Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26883 15.09.10	At, Machakhor Post, Mudhol Tq., Bagalkot
203766	Basavarajeshwari Sharanappa Chimkode.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25263 02.11.09	H.No. 19-6-191, Nr. Hanuman Temple, Shivanagar (North), Bidar
203767	BasavarajeshwariSaunshimath Basayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26143 20.03.10	F-2, Laxmi Complex, Neelingin Rd.Hubli Tq, Dharwad
203768	Basavarajeshwari M B Basavanagowda M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28788 11.04.12	Hithala At & Post, Shikaripura Tq, Shimoga
203769	Basavarajeswari. B B. Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25498 04.03.10	Bhireswari Nilaya, 5th Ward, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
203770	Basaveshwari Mahadevappa Ijare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29438 24.05.12	No 30-111 Basavanagar, Basavamahamane, Basavakalyan Tq, Bidar
203771	Basavva Hongal Irappar Hongal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30009 09.04.13	131 Petheonima. Nam.4.rind, 52/1 Nesaragi, Bailahongal Belgaum
203772	Basobi Azeez Sab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24307 29.04.09	Ram Temple Rd. Shiralakoppa PostShikaripura Tq, Shimoga
203773	Baswaraj Kashinath Kashinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28336 25.05.11	Nittur (B), Bhalki Tq, Bidar

203774	Bate Sandip Vyankatrao Bate Vyankatrao Dalpat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24508 12.05.09	M.B. Kalal Lodge, Nr. Venkatesh TheatreMundargi Tq, Gadag
203775	Baviskar Rahul Vinayak Baviskar Vinayak Vaman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29831 30.10.12	Plot No. 05, Adarsh Nagar, Nr. Dadashri Nagar Shahada Tq, Nandurbar
203776	Beelagi Zairuddin Malikshaheb Beelagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25124 16.09.09	Mahantesh Nagar, Muddibihal Tq, Bijapur
203777	Benazir Iqbal Mulla Iqbal Abdulaziz Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30465 07.06.13	Sharada Housing Society, Plot No 1, Rajarampuri 10th Lane, Ext. Area, Kolhapur
203778	Bhagat MayaDwarakanath Dwaraknath M Bhagat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30132 20.04.13	H.No. 360, Shivsetu Bhavan, Nagav, Tq- Bhiwandi, Thane, Dandekarwadi
203779	Bhagat Pallavi Madhukar Bhagat Madhukar Vitthal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29558 12.06.12	Velapur At Post, Malshiras Tq, Solapur
203780	Bhagat Pradnya Madhukar Madhukar Vitthal Bhagat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25204 09.10.09	# 19-4-622, Humnabad Rd.Naubad, Bidar
203781	Bhagyalakshmi. S.R Rangaraju. S.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23884 09.04.09	6th Cross, Shivamookambika Nagar, Upparahalli, Tumkur
203782	Bhagyalakshmi. B.R Radhakrishna. N.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23988 18.04.09	5th Cross, P&T Clny, Vinobhanagar, Shivamogga Tq, Shimoga
203783	Bhagyalakshmi. T B.T. Thimmana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24048 20.04.09	# 43, Basapura Rd. Rampura Post, Molakalmuru Tq, Chitradurga
203784	Bhagyalaxmi.C.V. Laxmanan.C.V.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28007 18.04.11	No.24-14-1238, 1st Cross, JeppuBoppal Mangalore, D.K.
203785	Bhagyashree Baburao Shinde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24638 21.05.09	Nagratna Nivas, Preeti Clny, Naubad, Bidar Tq &
203786	Bhagyashree Biradar Ashoka Kr.H. Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28011 18.04.11	Mahantesh Nagar, Nr MGMKSchool Muddebihal ? Tq, Bijapur
203787	Bhagyashree Gayad Veerappa Gayad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24618 18.05.09	# B 18/2, 2nd Cross, Heggeri ClnyHubli Tq, Dharwad
203788	Bhagyashree SR Rangaraju SD	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29004 27.04.12	No 752, 13th Main , 7th Cross BSK 1st StageSrinivasnagar 2nd Phase Bangalore
203789	Bhagyashri Chincholi Ramanna K Chincholi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29463 24.05.12	A # 44, Bavasamagar Bijapur Tq &
203790	Bhagyashri Patil Laxmanagoud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30352 20.05.13	Krishna Budihal, Shri Dhanvantari Clinic, Gandhi Circle A/p Tq Mudhol,
203791	Bhalerao Nilesh Yashwant Y Dattatray Bhalerao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24130 22.04.09	Mruthynjay Nagar, Banshakari Layout, Ranebennur Tq, Haveri
203792	Bhamare Surajlal Babulal Bhamare Babulal Rajaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25274 04.11.09	Chaitra Academy, 4th Cross, J.M. Rd. Chitradurga
203793	Bhanu Gupta Ashok Kr Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26718 15.06.10	#276, Nagavara Main Rd.K.G.Halli, Bangalore
203794	Bhanumati Melmuri Vasudeva.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28625 15.11.11	1st Cross, ?B?BlockBasaveshwar Nagar, Haveri
203795	Bhanupriya. M.N M.C. Narasimha Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25598 06.03.10	# 1951, 1st Cross, Opp BEML Layout, Srirampura 3rd Stage, Mysore



203796	Bharama Nayak Komareppa Dandian	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28037 19.04.11	Tippanal Sulekal A/P, Gangavathi Tq, Koppal
203797	Bharat Bhushan Tirath Ram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24872 06.06.09	# 807, Basavasadan, 60ft Rd.Vinobnagar, Shimoga
203798	Bharat Divate Srinivas.R.Divate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27405 25.03.11	# 4/611D, Nehru Nagar, Gokul Rd, Hubli Tq, Dharwad
203799	Bharat Jadhav Tanaji.K.Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27694 05.04.11	Jalalpur A/P, Raybag Tq, Belgaum
203800	Bharat Kalidindi K V S Raju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29532 28.05.12	Plot No. Rs 212/1B, Falls Rd.Gokak Post & Tq, Belgaum
203801	Bharateesh Patawari P Guru Raghavender Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30279 07.05.13	No. 3-2-623, Chappal Bazaar, Kacheguda, Hyderabad , Hyderabad
203802	Bharath Bhushanrawat Krishan Murari Rawat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28743 02.04.12	Nr. New Hospital, Iglas (Aligrah) Uttar Pradesh State
203803	Bharath Kumar.S.D. N.P. Devendrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28146 26.04.11	Jain Mutt Rd. Shraavanabelagola, Channarayapattana, Hassan
203804	Bharathi Upendra Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27716 06.04.11	Srinivas, No.19-143, Bantakal Post, Udupi Tq &
203805	Bharati Mallinath.V.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24732 03.06.09	Nr. Primary School, Hunasagi Post, Shorapur Tq, Gulbarga
203806	Bharati Kangralkar Yallapa K Kangalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29233 15.05.12	No 970/33, Parameshwar nagar , Yellur at post Belgaum
203807	Bharati Nashi Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24489 11.05.09	Hallur Post, Gokak Tq, Belgaum
203808	Bharatkumar. A.G Hanumanthappa.A.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24553 13.05.09	Hunasehalli, Kammaragatte Post, Honnali Tq, Davangere
203809	Bhargavi Kulkarni Gururaj Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24936 10.06.09	H.No. 11-366/63, Sushil Smiriti, Brampur, Gulbarga
203810	Bhargavi M S Partha Sarathy M S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30063 16.04.13	# 1758, 4th D Cross, 9th Main, Hal 3rd Stage, Indiranagar, Bangalore
203811	Bhat Swarna Ranjita Madippu Ganesh Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30494 14.06.13	#180, Malenahalli, Tq-Bhadravathi, Shimoga
203812	Bhatale Ashwini Vishwanath Bhatale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30508 19.06.13	Ganga Kunj, Sai Shankar Nagar, Akkol Rd. Tal-Chikkodi, Belgaum, Nipani
203813	Bhattar PrabhavatiLaxman Bhattar Laxman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27679 05.04.11	Nagar Khan Peth, Guledgudda A/PBadami Tq., Bagalkot
203814	Bhavana Giridhar Hanchate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28462 04.07.11	Survodaya Clny, Kalyan Mantap Rd, Basava Bidar
203815	Bhavana Ramchandra Matade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28655 14.12.11	Venkatesh Nilaya, Nekar Nagar, Netaji Clny, Hubli Tq, Dharwad
203816	Bhavana. J.M Manjunath. J.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25576 05.03.10	# 3228, Vaddarapet, Doddaballapur Tq, Bangalore
203817	Bhavana. S Shankare Gowda. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24058 21.04.09	# 90, 41 Cross, 8th Block, Jaynagar, Bangalore

203818	Bhavana.K.R. Raghavendra.K.G.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26673 20.05.10	#1951/2, East Cross 1, N.S. Rd.Shivrampet, Mysore
203819	Bhavana.R. Ramesh.P.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28398 09.06.11	#79, 7th Cross, 1st Main, Besthar BlockVidyaranyaapuram, Mysore
203820	Bhavani Hiremath Shir Kanhayya.G.Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27788 07.04.11	#1230/A, Bhavani ShankarNilaya, Shankar Nagar Athani Tq, Belgaum
203821	Bhavani. K.S Siddasetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25828 12.03.10	# 219, Vinayaka 3rd Main Rd, 11th Main, T.K. Layout Janathanagar Mysore
203822	Bhave Varun Vasudeo Vasudev R Bhave.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23963 13.04.09	7th Cross, Chalukya Nagar, Badami Tq, Bagalkot
203823	Bhavna Verma K.S. Anand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24865 06.06.09	# 100, 5th Cross, 5th StageVinobhanagar, Shimoga
203824	Bhavya Bhoja Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25095 17.08.09	Ganjimatt Post, Gandhinagar, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203825	Bhavya Yaganarasimhaiah.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26656 11.05.10	1st Cross, 1st Main, Banashankari, Tumkur.
203826	Bhavya C C. Bhanu Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	30606 19.08.13	No.10, Behind Old Police Station, Nr. Maple bear, Konankunte, Karnataka Bangalore
203827	Bhavya M M Ambady Patali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29431 23.05.12	Mahabaladka house, Jalsoor post, Sullia Tq, Dakshina Kannada
203828	Bhavya Rani. B.C.S. Chandrashekar. B.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24725 03.06.09	D.No. 99/5, 6th Cross, V. Nilaya, D.R.College Post S.G. Palya, Bangalore
203829	Bhavya. B.K Kashinath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25862 12.03.10	# 16, 13th Cross, 9th Main Rd, Wilson Garden, Bengaluru
203830	Bhavya. B.M Madhusudana Rao. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25672 12.03.10	A3/5, Kavalbairasandra, R.T. Nagar, Bangalore
203831	Bhavya. K K. Bhaskar Acharya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24030 20.04.09	# 110, BSK 1st Stage, 11th Main, Srinagar, Bagalore
203832	Bhavya. M . D.M. Malleshaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25847 12.03.10	CPDO (Sr) Quarters, Hessaraghatta, Bangalore North, Bangalore
203833	Bhavya. S J.C. Shivanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24629 18.05.09	# 422/A, Pete Chennappa Industrial Estate, Kamakshipalya, Bangalore
203834	Bhavya.G.K. Kr.G.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27663 02.04.11	Lingmanahalli, K.G.Temple, Nagasandra Post, Gubbi Tq, Tumkur
203835	Bhavyashree Ramchandra Hebbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25547 05.03.10	Airbail, Siddapur Post, Kundapur Tq, Udupi
203836	Bheemappa Koli Yallappa.S.Koli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26866 04.09.10	Sanganakeri At & Post, Gokak Tq, Belgaum
203837	Bhinge BasavarajAshok Binge Ashok Rachappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27858 11.04.11	No.46, Siddhi Vinayak CIny, Chalukya Nagar, Bijapur
203838	Bhiungade Ajay Shivaram Shivaram Bapu Bhiungade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25480 03.03.10	Plot.No. 48, 49 No. 204, Laxmi Extention, Gokak, Belgaum
203839	Bhogaonkar Yogesh Pramodarao Pramodarao Bhogaonkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30183 26.04.13	Bhogaon Dwvi, TAL-Jintur, .Parahani, Bhogaon Devi

203840	Bhoite Vishal Vithal Bhoite Vitthal Sarjerao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24701 02.06.09	C/o. Kantilal Jain, Main, Manvi Tq, Raichur
203841	Bhojkar Rohan Bhojkar R Aamgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25687 12.03.10	Ankali (Sankeshwar)Hukkeri Tq, Belgaum
203842	Bholana Avinash Ramdas Ramdas Waman Bholane	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29733 29.08.12	# 2226, Savada At & Post, Teliwada, Raver-Tq, Jalgaon
203843	Bhole Bhushan Chandrakant Chandrakant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24191 24.04.09	Plot.No. 1295, Sector No. 7, ShivkrupaBldg, Vantmuri Clny Malmaruti Extn, Belgaum
203844	Bhosale Tushar Jagannath Bhosale J Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25308 27.11.09	Plot.No. 1777, Sec.No. 09, AnjaneyaNagar Malmaruti Extn, Belgaum
203845	Bhujbal Reshma Namdev Bhujbal Namdev Khadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24324 29.04.09	Totad Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
203846	Bhujbal Rupali Suresh Suresh Babaji Bhujibal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24431 05.05.09	Gouri Shankar Clinic, KMP Rd.Badami Tq, Bagalkot
203847	Bhupendra KumarChadokar Mitthod Chadokar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28993 27.04.12	C-20, Kakda Abhinav Homes, Ayodya Nagar, Bhopal Taluk &
203848	Bhure Yogita Uttam Uttam V Bhure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30342 20.05.13	At Post Aitawade Bk. Sangli, Tel Walwa,
203849	Bhusari Amol Bhaskar Bhusari Bhaskar Nana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23784 04.04.09	Behind Busstand, Gajendragad Ron Tq, Gadag
203850	Bhushan Belawadi Madivalappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29228 15.05.12	PK Belawadi , Shankari nilaya , Nandeshwar nagar Kalasapur Rd, Gadag
203851	Bhuvaneshwari Guranagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27427 25.03.11	Padma Nivas, Huna sigi Rd, Kembhavi, Shorapur Tq, Yadagiri
203852	Bhuvaneshwari Hullyal Gangadhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26040 19.03.10	Plot.No. 13, Padmavati Clny, Nr. Ashram, Bijapur
203853	Bhuvaneshwari Swamy Vishwanath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30258 03.05.13	Ward No. 1, Basaveshwar Circle, Hunagund tq , Bagalkot , ilkal
203854	Bhuvaneshwari. K Nagayya Swamy. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24766 04.06.09	# 16-1-30, Behind Gumpa, Kailash Nagar, Manhalli Rd. Bidar
203855	Bibiameena Yallapur Abdul Rub Yallapur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25783 12.03.10	# 5/0116, 3rd Cross, 1st Main, Mrithyunjaya Nagar, P.B. Road.
203856	Bindhya. N.L Lakshmi Narayan. N.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25769 12.03.10	# 916/2, 4th Cross, 1st Main Rd. Davangere
203857	Bindiya R Patel Ramesh M Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29465 24.05.12	# 103/2, Suncity Marketing, 5th Cross, 1st Main Rd. NTY Layout, Bangalore
203858	Bindu Kumari Girdhari Prasad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30210 29.04.13	VLL-Sarvanandpur, Post Mathela, Chandauli, Uttarpradesh Chandauli
203859	Bindu Telangana Vithal R Telangana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24933 10.06.09	MIG-22, 2nd Phase, Housing Board Cly, Nehru Gunj, Gulbarga
203860	Bindumadhav Desai Keshavrao Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26046 19.03.10	MIG 1st 73, Adarsh Nagar, Solhapur Rd. Bijapur
203861	Biradar AnupsagarShivashankar Shivashankar Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29113 07.05.12	Hawgiswami Chowk, Rokde HanumanRd Udgir At & Post Taluk, Latur

203862	Biradar BasavrajaMallikarjun Biradar Mallikarjun	BAMS M.U.H.S. Nashik 2005	28749 02.04.12	# 9-11-267, Viddaya Nagar Clny, G N D E College Rd. Bidar
203863	Biradar Savitri Mallikarjun Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28112 25.04.11	Brindavan Sector, 63A, Navanagar, Bagalkot
203864	Biradar Swati Revagonda B Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30092 18.04.13	Bijapur Rd. Nr. Modi Hospital, Tal-Jath, .Sangli, Jath
203865	Birajdar VaishiliShankar Birajdar SSidharam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25147 25.09.09	Shree Siddha Sanjeevini Hospital, Inamdar Clny, Bijapur
203866	Birjdar Ranjna Suryakant Birajdar S Manikrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27126 17.03.11	C/o NKJ AMCGumpha Sidharudh Math Women HostelBidar
203867	Biswas ChayankumarDilipkumar DilipKr J Biswas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29663 18.06.12	F/49, I U D P Manmad At Post, Nandgaon Tq, Nashik
203868	Bitale Rupali Jotiram Jotiram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25906 15.03.10	Plot.No. 2111, M.M. Ext SecNo. 9, Vantmuri, Belgaum
203869	Bogam Swati Ambadas Ambadas Laxman Bogam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29744 21.09.12	# 240, Ganjpeth, Sree Krupa Appatrmnts, Nr. Shukrawar Peth, Pune Tq &
203870	Bondage MadhuriVinayakrao Bondage V Kashinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30079 18.04.13	At Post Chapoli, Taluka-Chakur, Latur, Chapoli
203871	Bora Ravikumar Vinod. Vinod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27193 19.03.11	# 19-4-622, MES Clny, Naubad, Bidar
203872	Boragale Shrinath Suresh Suresh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23847 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School# 2, Mahadev Galli, Nipani Chikkodi Tq, Belgaum
203873	Borate Pramod Janardan Borate Janardan Tolaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24363 30.04.09	B.A.M. College Bapuji Campus, T.R. Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
203874	Borse Jitendra Dagadu Borse Dagadu Madku	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30031 15.04.13	AP-Varshi, Tq-Shindkheda, Dhule, Varshi
203875	Bouramma Patil Malagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25096 17.08.09	# 1067, Bijapur Rd. Shivayogi Nagar, Athani Tq, Belgaum
203876	Brahmananda. H.R Rajashekhhar.S.Hebbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25167 06.10.09	# 714/A, TSS Clny, New Market Yard, Sirsi Tq, Dakshina Kannada
203877	Brijesh Singh Rajendra B Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	24776 04.06.09	Ward.No. 15, Shivpuri Clny, Dharwad
203878	Budhale VinayakShivsharan Shivasharan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24820 05.06.09	P-34, C/o. Meera Mohan Watharkar, Kalyan Naagr, Bijapur
203879	Budnesab Ballari Moulasab.B.Ballary	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26881 15.09.10	No.1107/B, Horakeri Street, Nargunda-A/P & Tq, Gadag
203880	Budrur Amol Arjun Budrur Arjun Ganpat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24272 29.04.09	Totad Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
203881	Bugade Gourishankar Chandrakant Sidgappa Bugade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24633 18.05.09	Kalidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
203882	Buindu.P.Patil. B. Parashiva Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25578 05.03.10	# 298, B Block, 13th Cross, J.P. Nagar, Mysore
203883	Bukshetty Praveena Bukshetty Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25110 07.09.09	# 24, Holagundi Post, Ward.No. 3, Huvin Hadagalli Tq Bellary

203884	Caroline Theresa Cutinha Salvadore Cutinha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24616 18.05.09	Navabettu House, Moodbidri PostMangalore Tq, Dakshina Kannada
203885	Chaitan Gejji Basappa Gurabasappa Gejji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29510 26.05.12	Ingalagaon (NADI) At Post, Athani Tq, Belgaum
203886	Chaitanya H Satish Chandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29687 03.07.12	# 1925, 4th Main Rd. Hal 3rd Stage, New Thippasandra Post, Bangalore
203887	Chaithanya C K. Chandrasekharan Pillai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30416 27.05.13	Agraharam, Varavila P.O, Vavvakkavu (Via), Kollam,
203888	Chaithanya.S.Poojari P. Shesha Poojari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24259 28.04.09	# 2-51E, Srinagar, Kelarkal Bettu, Udupi Tq&
203889	Chaithra. D C. Dasappa Setty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25567 05.03.10	# 79, 11th Main, J.P. Nagar, D Block, Mysore
203890	Chaithra. H.C Channakeshwava. H.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24498 11.05.09	Mosave Street, Hosaholalu Post, K.R. Pet Tq, Mandya
203891	Chaithra. K.S K.S. S Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28560 20.09.11	D.No. 17/236, Subhash Nagar, K.R. Nagar, Mysore
203892	Chaithralaxmi. K Muralikrishna. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24846 06.06.09	# 18, 3rd Main Rd. Maruti Extn, Malleshwaram, Bangalore
203893	Chaitra Choukimath Shankraiah Choukimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28667 09.01.12	Kallipet Street, Badami Post & Tq, Bagalkot
203894	Chaitra G Krishna S.Gopala Krishna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28886 20.04.12	No , 91/1 , Yogasanjeeva, Nethaji Rd.Cross 1 St Block TR Nagar Bangalore
203895	Chaitra Mujumdar Padmaja .S. Mujumdar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29965 06.04.13	Mursiddeshwar Nilaya Kadsiddeshwar Clny, CanalRd. 7th Cross, Jamkhandi
203896	Chaitra N T Ningappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28835 16.04.12	Halekundur At, Baguru Post, Hosadurga Tq, Chitradurga
203897	Chaitra. T Keshava. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27586 30.03.11	# 3-6/2, Thokkattu, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
203898	Chaitresh Gada Nagaraj Gada	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29799 12.10.12	6-77, Gaoa Galli, Humnabad At Post Tq, Bidar
203899	Chalana Kumari Chandrashekar Shetty. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25064 22.07.09	Matnagadde House, Hengavalli, Kundapura, Udupi
203900	Chalekar Vinod Vijay Chalekar Vijay Nivrutti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24083 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
203901	Chaman Lal Balaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25141 25.09.09	Teacher's Clny, Plot.No. 115M.P. PrakashnagarHospet Tq, Bellary
203902	Champavathi P Padmanabha R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30439 31.05.13	#7, 2nd Main, 3rd cross, Subbannagarden, Vijayanagar, Bangalore
203903	Chanabasavva Totad Devendrappa B Totad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29172 11.05.12	Adaragunchi At & Post, Hubli TQ, Dharwad
203904	Chanchal. S Suresh Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26241 23.03.10	# 324, 2nd Block, 11th Main, BSK 1st Stage, Hanumanthnagar, Bangalore
203905	Chandake Tejpal Vardhaman C Vardhaman Annappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24071 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi

203906	Chandana Deekshth Gunesh Kr. T.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23910 09.04.09	Flat-12, Block-2, Jeevan Griha, 24th Main, J.P Nagar, Bangalore
203907	Chandana. K.P Partheshwara. K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24059 21.04.09	Bharathi Street, Sringeri Tq, Chickkamagalur
203908	Chandankar RukuminiDilip Chandankar Dilip Bhagwan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29699 06.07.12	Samadhan Nagar, Alegaon B K, Tembhurni Madha Tq, Solapur
203909	Chandini B S B K Sreenivasa Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28855 18.04.12	#559, Site No.32, Thomas Layout, Nanjangud Tq, Mysore
203910	Chandra Gouda.M.Patil Madrasgouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27614 01.04.11	No.171, Nr. Kalmeshwar TempleUnkal Post, Hubli, Dharwad
203911	Chandra Rekha. U U. Veerabhadrapa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25433 26.02.10	# 8-10-183, Nr. Ganesh Maidan, Main Rd. Bidar
203912	Chandra mouleeshwar Panchaksharayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23690 01.04.09	# 4657/13, Hiremath Clny, Basavakalyan Tq, Bidar
203913	Chandrakala Romanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29971 06.04.13	B. K. Kollur, Tq-Chittapur, Dt-Gulbarga, Kollur
203914	Chandrakala. D Devappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27385 25.03.11	Venkatagowda Building, 1st Ward, APMC Rd Manvi Tq, Raichur
203915	Chandrakala. N.K Kempadevanna. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25840 12.03.10	# 380, Lakshmi Nivasa, Mysore-Mithra Rd, RT Nagar Dattagalli 3rd Stage, Mysore
203916	Chandrakant Bhavikatti Ghoshappa Bhavikatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26473 31.03.10	Almel At & Post, Sindagi Tq, Bijapur
203917	Chandrakant M Budni Mahadevappa B Budni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30572 18.07.13	Mahantesha Nagar, Salahalli, Salahalli
203918	Chandrakishor Sukhdev N Lokhande	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28991 27.04.12	Tiwakhed At & Post , Multai Taluk , Betul
203919	Chandramohan Krishnappa.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28066 19.04.11	Aiwn-E-Shahi, Gulabwadi At & Post, Gulbarga
203920	Chandrashekhar AshokHiremath Ashok Swamy Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27425 25.03.11	1st Cross, Koppal
203921	Chandrashekar Bhajantri Sabanna Bhajantri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28930 26.04.12	No 823, Nr. Jnaneshwar Math , Lokapur At & Post Mudhol Taluk Bagalkot
203922	Chandrashekar Rao. H Vijay Kr. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26019 19.03.10	# 9-4-44, KM Marg, Udupi
203923	Chandrashekar Salimath Shivanandswami Salimath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24398 05.05.09	Nagankal, Bevinahal Post, Gangavathi Tq, Koppal
203924	Chandrashekhar Chhabbi Sangappa.I.Chhabbi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	24559 13.05.09	# 634, Kaladgi Post, Bagalkot
203925	Chandrashekhar Lamani Yamanappa Lamani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24753 04.06.09	Daivgnya Bldg, 5th Cross, MruthynjayaNagar Ranebennur Tq, Haveri
203926	Chandrashekhar Naganur Yallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24660 22.05.09	Vidyanagar, Byadgi Tq, Haveri
203927	Chandrashekharayya Vastrao Mallayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26916 27.09.10	#18 I Sec Main Rd. 5th Cross, Nagarabhavi, B? lore

203928	Chandrika Urs. P Parameshwara Raj Urs.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25641 06.03.10	# 49, Gavanahalli, Rampura Post, Chikkamagalur
203929	Chandu Metri Anand Nemanna Metri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27691 05.04.11	Mutnal At, Nandagaon Post, Gokak Tq, Belgaum
203930	Channabasappa Nimbale Sharanappa Nimbale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28308 25.05.11	Basavanagar, Almel-A/P, Sindagi Tal, Bijapur
203931	Channabasappa Veerapur Malleshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25005 20.06.09	# 188AB, Gundenahalli Post Byadgi Tq, Haveri
203932	Channabasappa. S J. Nagappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28590 19.10.11	Kunchara Post, Harapanahalli Tq, Davangere
203933	Channabasava Hallikeri Rajshakar Hallikeri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29952 06.04.13	#646, Ext. Area, Hosaritti-Village, Tq &Haveri, Hosaritti
203934	Channamma Bellubbi Maleppa Bellubbi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28760 05.04.12	K G H P School, Telagi Rd, Basavan Bagewadi Post & Tq, Bijapur
203935	Channamma Uppin Suresh.B.Uppin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26079 19.03.10	Karagagi Post, Afazalapur Tq, Gulbarga
203936	Channappa Baraddi Sangappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25653 06.03.10	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
203937	Channaveera Saibanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25888 12.03.10	# 171/2, Block, Veeredra Patil, Gulbarga
203938	Channaveerappa Annarao Ravangol Kashinath Swami	BAMS M.U.H.S., Nashik 2005	28756 02.04.12	Nagur At & Post, Gulbarga
203939	Channaveeraswamy Nayaka E. Ganaiaiy	BAMS Univ.y of Mysore, Mysore 2004	29559 12.06.12	Madakari Nagara, Challakere At Post & Tq, Chitradurga
203940	Channayya Hiremath S S M Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29603 13.06.12	Housing Board Clny, H No. 12, Hagaribommanahalli Tq, Bellary
203941	Chanshetty Shailaja Vaijinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29123 07.05.12	No 9-12-683/1, Mailoor BVB College Vidhyanager, Gandhi Gunj Post Bidar
203942	Charita Savanur Shrikant. Savanur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26978 25.11.10	Ram Janaki Nivas, Hospet Oni, Bagalkot Tq &
203943	Chaudari Sandeep Singh Dalbir Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26996 16.12.10	SVPR Ayurvedic Medical College Boys Hostel, Badami Tq, Bagalkot
203944	Chaudhari Kunal Natthu Chaudhari Natthu Zipru.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25597 06.03.10	C/o. RGES AMC, Ron Tq, Gadag
203945	Chavan Ajay Yashwant Chavan Yashwant Keshav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24527 12.05.09	# 10-2-310-13/A, Syndicate Bank Clny, Manvi Tq, Raichur
203946	Chavan Archana Arunkumar Arun Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23942 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr Raghavendra Temple Sindagi Tq, Bijapur
203947	Chavan Bhakti Jaysing Jaysing Jyoti Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25406 24.02.10	# 64, Ganga Block, Gangebhavi Post, Shiggou Tq, Haveri
203948	Chavan Bhushan Dagadu Chavan D Shamrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23949 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
203949	Chavan Dhanaji Arjun Arjun P Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24100 22.04.09	Plot.No.7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum

203950	Chavan Manisha Subhash Raju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26941 13.10.10	MakhanapurAt&Post, Bijapur Tq &
203951	Chavan Pallavi Keshav Chavan Keshav Bapu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24365 30.04.09	B.A.M. College Bapuji Campus, T.R. Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
203952	Chavan Punam Appasaheb Chavan A Keshav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24150 22.04.09	B.A.M. College Bapuji Campus, Challakere Tq, Chitradurga
203953	Chavan ShridharRavasaheb C Ravasaheb Gundu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23708 02.04.09	Yadanwadi Malikwad Post, Chikodi Tq, Belgaum
203954	Chavan Yogita Babanrao B Jagannath Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24425 05.05.09	Gouri Shankar Clinic, KMP Rd.Badami Tq, Bagalkot
203955	Chavgle Prasanna Neminath Neminath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2004	29585 12.06.12	H No. 555/B, Math Galli, Belgaum
203956	Chaya Huller Prakash B Shivapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28896 20.04.12	Plot No. 99, R S -174/2, Last CrossShivanagar, Gokak At Post & Taluk Belagam
203957	Chennabasappa GoudHiregoudar Basanagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24740 03.06.09	H.No. 71, AkruTi Clny, Solapur Rd. Bijapur
203958	Chennabasava. B Mallikarjuna. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25622 06.03.10	Hoskera Complex, Ward.No. 12, Islampur Gangavathi Tq, Koppal
203959	Chetan Dattatrey Kulkarni Dattatrey	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26795 19.08.10	Noorandeshwar Nagar Mortagi ? A/P, Sindgi Tq, Bijapur ?
203960	Chetan Dixit Kamalakar Dixit	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29488 25.05.12	# 42-45, Nr. Vithal Mandir, Basavaklyana At Post & Tq, Bidar
203961	Chetan Nimbalkar Kamalakar Nimbalkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24954 10.06.09	Janapriya Heights, # 3129, 3rd Block, Mallasandra, Bangalore
203962	Chetan Shivasimpi Ashok Shivasimpi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26678 22.05.10	Oni, Badami Post & Tq. Bagalkot
203963	Chetan. S.K Srikant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25255 27.10.09	H.No. F-1, Ashram Raod, P & T Clny, Bijapur
203964	Chetana Santosh.S.Nerurkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25579 05.03.10	Arya Medical Centre, G.C. College RdAnkola Tq, Karwar
203965	Chetana Hiremath Gurulingayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26615 24.04.10	Hebbal Post, Hokkeri Tq. Belgaum
203966	Chetana Kadakol Basanagoud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29262 16.05.12	4th Cross, Shivabasava nagar, Haveri TQ,
203967	Chetana Kulkarni Suresh Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29457 24.05.12	# 53, I & J Nilambika Building, 3rd Cross, Krishi Nagar, Kelgeri Road Dharwad
203968	Chetana M H Hanumanthappa M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28781 11.04.12	# 05, 4th Cross, A Block Devarj Urs Layout, Davangere
203969	Chetana Mannikeri Gajanan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29202 14.05.12	No 21, Last Cross , Vivekanandnagar, Gokak Post & TQ, Belgaum
203970	Chetana.U.Malimath. Umesh.V.Malimath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25976 18.03.10	Ashok Nagar 2nd Cross, Ranebennur Tq, Haveri
203971	Chetanasindhu. C.M C.M. Marulasiddaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25464 02.03.10	CL 14, Chapparadhalli Post, Kudligi Tq, Bellary



203972	Chetankumar.R. Kolli Kolli. R. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24003 18.04.09	MIG- 2/62, Adarshanagar, Bijapur Tq &
203973	Chethan Kumar S Shekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28726 02.04.12	Shikaripur, Shimoga
203974	Chethan Kumar. A.M A.N. Nanjegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27330 23.03.11	# 411, 10th Cross, 1st Main, B.M.Shreenagar Metagalli, Mysore
203975	Chethan Kumar. A.T Thippeswamy. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23890 09.04.09	Siddalingeswara Traders, Jagalur Tq, Davangere
203976	Chethan Kumar. S.N Nagaraju. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25649 06.03.10	# 1289, 1st A Cross, KHB Clny, Malavalli Tq, Mandya
203977	Chethana D Gundu Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29341 21.05.12	No 8 , Noble Street, Rameshkumar Rd.Oil mill Rd. Thomas town Bangalore
203978	Chethana G A Anande Gowda G R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29844 30.10.12	# 454, Nr. SLV School, Vidya Nagar, Hassan
203979	Chethana. Sudhakara Poojary.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24264 28.04.09	# 5-23, Padubidri Post, Udupi Tq &
203980	Chethana. G.S Gurangouda.V. Sunkad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27377 24.03.11	# 1968/45, 2nd Cross, 1st Main, S.S.Layout, ?B?Block, Davangere
203981	Chethana. R Ramakrishna. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25591 05.03.10	# 383/2, MCC B Block, Behind H.B. Clny, Davangere
203982	Chidanand Desai Shadanand Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25705 12.03.10	# 117/A, Bedkihal Post, Chikkodi Tq, Belgaum
203983	Chidanand Jambagi Baburao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27693 05.04.11	Atharga A/P, Indi Tq, Bijapur
203984	Chidhananda.G.N Nagendrappa. B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26537 12.04.10	Chikkulikere (vill) Donehalli (Post), Channagiri (Tq), Davangere
203985	Chikote AnnpurnaMadolappa Madolappa.M.Chakote.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25291 27.11.09	# 19-1-180, Shivanagar South, Bidar
203986	Chinaesa Mogal China Madar Mogal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29029 05.05.12	No 10, KotrapalliPost Rampicheela Guntur
203987	Chincholi GurushantChandrasha Chincholi Chandrasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24868 06.06.09	1st Cross, VidyanagarBadami Tq, Bagalkot
203988	Chindage AvadhutJayasing Jayasing Ganpati Chindage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27833 08.04.11	C/o S.S.R AMC Boy's Hostel, Inchal, Soundatti Tq, Belgaum
203989	Chinmay Phadke Prabhakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26074 19.03.10	# 105, Madhura Park, SantoshNagar, Vijaynagar Hubli, Dharwad
203990	Chiranjeevi. N.S Somashekarappa. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24609 18.05.09	# 33, Maruthi Nagar, Arasikere, Muncipal Quarters Arasikere Tq, Hassan
203991	Chitale Pramod Raghunath Raghunath R Chitale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24471 11.05.09	BVVSBoy's Hostel, Bagalkot
203992	Chithajallu Bhaskar Rao C. Ananda Sagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28302 25.05.11	#37, 6th Cross, 1st Main, J.C. Nagar, Mahalakshampuram Post, Bangalore
203993	Chitmil Prashant Upendra C Upendra Mallayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23735 02.04.09	SHES AMC<Sedam Rd. Gulbarga

203994	Chitra Narayanan Vijaykrishnan.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25356 11.01.10	Flat.No. G1.No. 4, Sreesai Elegance, BTM 2nd Stage, Bangalore
203995	Chittar Rekha Ashok Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30190 27.04.13	Village & Post Sehlang, Mahendergarh
203996	Chobe Shivaji Vilas Chobe Vilas Govind	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29450 24.05.12	Sirsav At Post, Paranda Tq, Osmanabai
203997	Choodamani. G.B Basavegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25569 05.03.10	# 4565, Behind Kabiny Clny, Neelakantanagar, Nanjangud Tq, Mysore
203998	Chopade Aniket Jaykumar Chopade J Shripad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24285 29.04.09	Vijaya Niwas, Patil Lane, Rinapur PostAthani Tq, Belgaum
203999	Choudi Akkamahadevi Ashok Choudi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23750 03.04.09	9-10-227, Manhalli Rd.SiddharadhaClny, Gandhi Gunj, Bidar
204000	Chougule Rahul Balkrishna Chougule B Mahadeo.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24510 12.05.09	M.B. Kalal Lodge, Nr. Venkatesh Theatre Mundargi Tq, Gadag
204001	Chougule Amol Bajirao Chougule Bajirao Dadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24128 22.04.09	Mruthynjay Nagar, Banshakari Layout, Ranebennur Tq, Haveri
204002	Chougule Aparna Ashokrao Chougule A Appa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24949 10.06.09	R.S. Hiremath Bldg, M.B. Diwatar ClyHospet Rd. Koppal
204003	Chougule Archana Suresh Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30174 25.04.13	A/p Khanderajuri, Sangli
204004	Chougule Ashlesha Ashok C AshokTatoba	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30600 14.08.13	At Post Rukadi, Tq-Hatkanangale,
204005	Chougule Avdhoot Prakash Chougule P Ganapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24145 22.04.09	Patri Basav Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
204006	Chougule HrishikeshShamrao Chougule Shamrao Ganpati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24840 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
204007	Chougule KulbushanSurenra Chougule Surendra Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24851 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
204008	Chougule Nitin Ulhas Chougule Ulhas Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24578 14.05.09	KMP Rd.Badami Tq, Bagalkot
204009	Chougule Rishikesh Anand Anand Ganpati Chougule.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23684 01.04.09	C/o. SSR Ayurvedic Medical Coll. &Hospital, Inchal, Soundatti Tq, Belgaum
204010	Chougule Sarika Dinkar C Dinkar Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24377 05.05.09	Gouri Sharkar Clinic, KMP Rd.Laxmi Nagar, Badami Tq, Bagalkot
204011	Chougule Sunil Chandrakant C Chandrakant Bandu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24094 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
204012	Chougule Swapnil Sonappa Chougule S Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25216 13.10.09	1st Main, 4th Cross, Tulaji Building, Sadashiv Nagar, Belgaum
204013	Chougule Swati Sharad Chougule S Shripal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24555 13.05.09	Nr Bedkihal Circle, Shanti NagarShamanewadi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204014	Chougule Vijay Mallappa Chougule M Balu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24286 29.04.09	Vijaya Viwas, Patil Lane, Rinapur PostAthani Tq, Belgaum
204015	Choukade VishalGorakhnath Choukade G Bhagwanta.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25559 05.03.10	Nr. Rangraj Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag

204016	Chude Anita Babureddy.N.Chude.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25292 27.11.09	# 9-9-143, Akkamahadevi Clny, Bidar
204017	Crasta Fruma Evan Felix Felix B. Crasta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27184 18.03.11	A87/A Movadi Cross, Mullikatte, Hasadu Post, Kundapur Tq. Udupi
204018	D Nanda Kishor D B Ramulu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29823 18.10.12	#2-7, Vill-Gomaram At Post, Narasapur Tq, Medak
204019	Dabade Trupti Dhondiram. Dabade D Jyoti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24992 16.06.09	Mahaveer Nagar, Bedkihal Post, Chikodi Tq, Belgaum
204020	Dabherao HarshawardhanRamdas Ramdas Dabherao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30179 25.04.13	Pl. No. 166, Harshawardhan Nivas, Shivaji Nagar, Ambad Road, Old Jalna
204021	Dadagouda. M. Patil Malakanagouda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26944 19.10.10	Huvinahalli Post, Sindagi Tq, Bijapur
204022	Dahiphale Yogita Ambadas Ambadas R Dahifale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25537 04.03.10	Double Rd. Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204023	Dakare Varsha Shivaji Shivaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24332 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204024	Dakshayini.E.P. Prabhakar.P.E.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28704 30.03.12	Vinoba Nagar, 60 Feet Rd.Behind APMC Backside Gate, Shimoga
204025	Damina Siangshai Ram Rymbai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27582 30.03.11	C/o. SDM College of Ayurveda, Kuthpady Post, Udupi
204026	Danappa Kulenur Maharudrappa Kulenur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24976 11.06.09	Kurubagonda Post, Haveri Tq &
204027	Dandekar Niraj Prakash Prakash SDandekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24404 05.05.09	Deepa Bldg, Vikas Nagar, Nr. Taluk Office, Koppal
204028	Darade Sharad Vitthal Vitthal Gopinath RDarade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28842 16.04.12	B-54/12, Supper Indiranagar, Bibvewadi, Haveli Tq, Pone
204029	Darshan Babu.N. P.H.Nagappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27672 02.04.11	#3308/2, 12th Main M.C.C. ?B? Block, Davangere
204030	Darshan. J.P Padmaraj. J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27397 25.03.11	Neelannahalli, BSSKN post, Davangere
204031	Darshana .K.C Channabasappa .K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29974 06.04.13	Door No.-1247/4, Kottur, Tq-Kudligi, Ballari
204032	Dattatreya. B.S Sudarshan Murth. B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25260 02.11.09	# 877-3, Taluk Office, AmbedkarCircle, Old Town Bhadravathi Tq, Shimoga
204033	Davamma Hanji Subhas.N.Hanji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26543 12.04.10	Terdal-Post, Jamkhandi-Tq, Bagalkot
204034	Dayanad. A Ramachander. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28622 09.11.11	C/o. KPSVS AMC, Manvi Tq, Raichur
204035	Dayanand Ramling Singare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24880 08.06.09	Muchalamb Post, Basavakalyan Tq, Bidar
204036	Debe Anuradha Raju Raju S Dube	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30274 06.05.13	Shantinagar, Opp Alta Lab, HanumanMandir, Khopoli, Tq-Khalapur, Raigad,
204037	Deeksha. M.G Naik M.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24521 12.05.09	ArsikerePost & Tq, Hassan

204038	Deekshitha D Anatapadmanabha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29016 27.04.12	SDM Temple Manager DarmastalaBeltangadi Tq, D K
204039	Deenareshma Adamsab Mishrikoti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24904 09.06.09	Manikatti, Hoolikatti Post, Soundatti Tq, Belgaum
204040	Deepa Dayanand Swamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25832 12.03.10	?Sai Kripa? H.No. 8-10-79, Akkamahadevi Clny, Bidar
204041	Deepa Bakale Shankarasa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30525 26.06.13	#20/A, Shanthi Nagar, Keshwapur, Dharwad , Hubli
204042	Deepa Chittaragi N M Chittaragi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29521 26.05.12	# 15/0, Chittaragi Galli, Kamatagi at Post, Hungund Tq, Bagalkot
204043	Deepa Garadolkar Ramachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30358 20.05.13	C/o Y P Bobati, Medar Galli, Haliyal, Uttar Kannada
204044	Deepa Gotyal Mallikarjun R Gotyal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29100 7.05.12	Ksrct Clny, Gyanga Bawadi, Bijapur
204045	Deepa Govind KasbekarGovind Madhukar Kasbekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	27008 27.12.10	Rajatagiri, Dharwad
204046	Deepa Halikeri Shivanand Halikeri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24309 29.04.09	Plot.No. 43, Haliyal Rd.Basav NAgar Part II. Dharwad
204047	Deepa Hiremath Gadagayya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29633 14.06.12	# 673/44, Bailhongal Belgaum
204048	Deepa Holeppanavar Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29333 18.05.12	Jayangar, Shiggaon at post & Tq, Haveri
204049	Deepa Hosur Shivanand Hosur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29280 16.05.12	Hosur Galli, Baihongal Belgaum
204050	Deepa Karikatti Adivappa S Karikatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28870 18.04.12	C-10, 2nd Floor, Prabhat Cly, Ornament Castle Apartment, Vidyanagar Hubli Tq, Dharwad
204051	Deepa Malimath Gavisiddayya S Malimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29702 10/7/12	Kuntala Nagar, Kuknoor At Post, Yelburga Tq, Koppal
204052	Deepa Manjunath Janthli Manjunath K Janthil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25757 12.03.10	Saraswathipur Post, Dharwad
204053	Deepa Nandi Shivaras Nandi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27777 07.04.11	#8-9-166, Vijay Nagar Clny, Opp KSRTC Bus Stand, Bidar
204054	Deepa Patil Chanagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30490 13.06.13	At Post Vivekananda Nagar, Nr. Water Tank, Tq-Hukkeri, Belgaum
204055	Deepa Patil Jinnappagouda R Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25761 12.03.10	5th Cross, Naveenaya Nilaya, Vidyanagar Post Hubli Tq, Dharwad
204056	Deepa Rangrej Ganapatsa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29809 12.10.12	# 5/5 25, Gajendragad At & Post, Ron-Tq, Gadag
204057	Deepa V H Veeranna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30568 18.07.13	D-3/2, Nr. Hely Pad, BheemarayanaGudi, Tq Shahapur, Yadgiri,
204058	Deepa. H.C H.T. Chandrashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23831 06.04.09	# 2643/A, 2nd Cross, VI Main, MCC ?B? Block, Davangere
204059	Deepa. M K. Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24368 30.04.09	Kashipura Main Rd.Siddaramma Extn, Shimoga

204060	Deepa.A.Kotian Ananda.M.Kotian.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24188 24.04.09	# 11-148A, Pithrody, Udyavara, Udupi
204061	Deepa.H.Gamad Haleshappa.V. Gamad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28273 17.05.11	Halageri Post, Ranebennur, Haveri
204062	Deepa.S.Hubli Shantaram P Hubli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24747 03.06.09	Salpeth Ilkal Post, Hungund Tq, Bagalkot
204063	Deepa.V. Vijayagopal.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28320 25.05.11	No.1277, Vivek Nagar, Robertsonpet, KGFBangarapet, Kolar
204064	Deepak B S R K V Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28727 02.04.12	#1, Sovparnika, 3rd Main, 3rd Cross, Basaveshwaranagar, Shimoga
204065	Deepak Sudi Prabhakar .K. Sudi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29954 06.04.13	Vidya Nagar Byadgi, Tq-Byadgi, Haveri, Byadgi
204066	Deepak. N.G L. Guruswamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24386 05.05.09	# 18, 29th Block, 2nd Cross, Uduyagiri, 2AMain Rd, Shakthi Nagar, Udayagiri, Mysore
204067	Deepak. R Ramalinga Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26523 08.04.10	#P-74, 3rd Cross, Nagappa Block, L.N. Puram, B?lore
204068	Deepashree. H.P Puttegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28432 20.06.11	# 3/515, 5th Main, VivekanandanagarKuvempunagar, Mysore
204069	Deepashree. M.R A.S. Ravi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27329 23.03.11	# 361, 1st E Cross, 7th Main Rd. LIC Clny, Srirampura, Mysore
204070	Deepesh Kumar K.Rama	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28269 17.05.11	HNo.1-71(3), Batrakumar PadavinangadiKonchadi, Mangalal, D.K.
204071	Deepika Kantilal Bafna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25476 03.03.10	# 26, Car Street, Bellary
204072	Deepika Iyer HV Venkatesh HS	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28980 27.04.12	No.419, Brahmin Street, HarohalliKanakapura Taluk, Ramanagar
204073	Deepika K Jayantha K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29501 26.05.12	Netravathi Stores, Dharmasthala, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
204074	Deepika M M Malladevaru M C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30512 19.06.13	Ramaswamy Layout, Chamarajanagara (T & D), Chamarajanagara
204075	Deepika N Nagaraj K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30225 30.04.13	890-MIG, 2nd Stage, Kuvempunagar, Mysore
204076	Deepika Ramanujam K.K. Ramanujam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30607 19.08.13	Opp. Markandeshwara School, M.P. Prakash Nagar, Bellary ,
204077	Deepika S Shivanna T K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30158 24.04.13	Conductor KSRTC, Kotwal, Hassan, Ramanathapura
204078	Deepika. H.S H.K. Sathyanarayana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24219 28.04.09	# F-2, Police Office's Quarters, APTSBagalur Cross, Yelhanka, IAF Post, Bangalore
204079	Deepika.M. Chandrashekar.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27072 15.03.11	#123/A, D.No.302, SBM Rd.Chikkallasandra, Bengaluru
204080	Deepika.M.Rao Pramod. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25007 20.06.09	# 2456/A, 14th Cross, 25th Main Rd, HSR Layout Sec 1, Agara, Bangalore
204081	Deepthi MS Shivaji Rao M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28959 26.04.12	No.2953/10, 6th Main , Vivekananda Medical Hostel Davanagere

204082	Deepthi Rao.S. Satish Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27891 11.04.11	No.3-58/8, Geethanjali, Derebail ChurchAshoknagar, Mangalore Tq, D.K.
204083	Deepthi Srivirupaksha Virupaksha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23867 09.04.09	# 3998/27, 20th & 21st AminKuvempu Ngr, MCC ?B; Block, Davangere
204084	Deepthi. H Narayana. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24356 30.04.09	B.C. Rd. Jodhmarga, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
204085	Deepthi. M Halage Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27390 25.03.11	Chatramaidhan Rd.Mudigere Tq & Post, Chickmagalur
204086	Deepthi. M S. Manohar Shenoy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25965 18.03.10	Manjushri Aparments, Puttur Tq, Dakshina Kannada
204087	Deepthi.Y Ganesh.Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27720 06.04.11	H.No.1-29-1, Sri Krishna Kunj, Yenagudde Katapady, Udupi
204088	Deepti Desai Manohar Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29165 11.05.12	No 1-8-128/15(1), Suvida Building, Padavulake Kulshekar Post, Mangalore
204089	Deepti Kalyanashetti Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24067 21.04.09	# 88, Ashram Rd.Aishwarya Nagar Bijapur
204090	Deepti.A. Kurubar Ajjappa.R. Kurubar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28370 31.05.11	Vinayaka Nivas, Nehru Nagar, Alvanar Post, Dharwad
204091	Deganal Rupali Paramanand Paramanand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24433 05.05.09	Nagalegaon, Sarsamba Post, Aland Tq, Gulbarga
204092	Deglure Ganesh Basavaraj Deglure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29758 29.09.12	Shapur Galli, Basavakalyan At Post & Tq, Bidar
204093	Deokar SantoshkumarMahadev Deokar Mahadev Narayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23955 13.04.09	Prashant Nagar, Behind GG Samudhay Bhavan, Chitradurga.
204094	Deomore Amruta Ravindra Ravindra Appaso Deomore	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29580 12.06.12	# 8/816, Shantinagar Thorat Chowk, Ichalkaranji At Post, Hatkananlall Tq, Kolhapur
204095	Desai Amit Pradip Desai P Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24790 04.06.09	Ananda Nagar, Akkol Rd, BehindSomnath, Nipani Post, Chikkodi Belgaum
204096	Desai Amol Balkrishna D Balkrishna Anandrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24135 22.04.09	Totad Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
204097	Desai Amol Dhondiram Dhondiram B Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30170 25.04.13	A/p 2472, Golgumat Galli, Samor Vivekanand Nagar, Ichalkaranji, Tal/ Hatkangale,
204098	Desai Komal Mukund Desai M Rai Babubhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29008 27.04.12	So Ham Bangalow, Nr Swami Narayana Temple Silvassa
204099	Desai Pritam Raosaheb Raosaheb Nabhirai D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23806 04.04.09	Yadanwadi, Malikwad Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204100	Desai Sachin Sureshrao Suresh Mahaji Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25010 23.06.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
204101	Desai Sudhir Madhav Mahadev M Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24599 18.05.09	# 139/N, I.G. Kubusod Bldg4th Cross, Dharwad
204102	Desai Swapnali Shivajirao S Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29086 05.05.12	No , 362/A, Mujawar Galli, Hemukalani Chock, Belgaum
204103	Desai inayak Sambhaji Desai Sambhaji Keraba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23811 04.04.09	Yadanwadi, Malikwad Post, Chikkodi Tq, Belgaum

204104	Deshingkar YogeshShirishrao Deshingkar S Nagesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24693 02.06.09	Ratnry BLDG, S.T.Khot cly, ShamanewadiChikkodi Tq, Belgaum
204105	Deshmukh Mohini Shahaji. Shahaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24669 22.05.09	Shree Siddha Sanjeevini Hospital, Inamdar Clny, Bijapur
204106	Deshmukh RupaliShashikant Shashikant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24487 11.05.09	EL Bethel Bunglow, Plot.No. 7, Ramnagar, Nipani, Chikkodi Tq, Belgaum
204107	Deshmukh SubhashDamodar. Deshmukh D Dhondiba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25266 02.11.09	Manjunath Nagar, Darga Jail Rd. Bijapur
204108	Deshmukh vikram Dinkar Dinkar Deshmukh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30580 24.07.13	Patange Rd. Ajay Nagar, Deshmukh Clny, Omerga-Tq, Osmanabad,
204109	Deshna. P.K Damodharan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25679 12.03.10	# Z-5, Somwarpet, Indraprasham House, Somwarpet, Coorg
204110	Deshpande Sharvari Sunil Sunil.G. Deshpande	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26479 01.04.10	#21st KM, Sri Sri College of Ay. SciencesKanakapura Udayapura Post, Bangalore
204111	Deshpande Uma Shripad Deshpande S Haribhau	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27076 15.03.11	No.233, Rampur, Chikkodi Tq, Belgaum
204112	Desurkar Bharat Narayan Narayan S Desurkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25270 03.11.09	# 1834/A, ?Priyanshrya? Jattrat VesNipani Post Chikkodi Tq, Belgaum
204113	Devadi Geeta Bhoja Prakash Devadiga	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1994	29941 18.03.13	11-231, Thure Hithlu House, Shirva Post & Village, Udupi Tq & , Shirva
204114	Devamma Patil Sangana Gowda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28856 18.04.12	#97, Chikkalakkihal, Hirelakkihal Post Lingasur Tq, Raichur
204115	Devaraj Parvatharaddi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25505 04.03.10	Bijaspur Post, Shorapur Tq, Gulbarga
204116	DevendeerYadav Rah Singh Yadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28595 19.10.11	# 43, 1st Main Rd. Heggeri, Old Hubli, Hubli Tq, Dharwad
204117	Devendra Kumar Delwar B.K. Delwar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23965 13.04.09	7th Cross, Chalukya Nagar, Badami Tq, Bagalkot
204118	Devika Sangappa B Mankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29984 06.04.13	Yerbagh, Tq- Basavakalyana, Bidar, Yerbagh
204119	Devikrupa Shivayya Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29295 17.05.12	Devasya House, Mundaje post, Belthagadi TQ, Dakshina Kannada
204120	Deviprasad DK K Kushalappa Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29432 23.05.12	No 2-38 C, Ivathoklu Village, Panja post Sullia Tq, Dakshina Kannada
204121	Devkar Kiran Uttam Devkar Uttam Narayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23952 13.04.09	Prashant Nagar, Behind GG Samudhay Bhavan, Chitradurga.
204122	Devlekar varsha Suresh Devlekar suresh Narayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30579 24.07.13	B-4, 1st floor, Shiva Complex, Court Rd. Nr. Gokhale Hall, Panvel, Raigad
204123	Devrukhakar SamipDivakar Devrukhakar D Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25325 07.12.09	Plot.No. 1295, Sector-7, Vantmuri Cly, M.M. Extn, Belgaum
204124	Dhainje Kanchan Namdev Namdev S Dhainje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30328 16.05.13	Ganesh Nagar, Akluj Post, Malshiras Tq, Solapur , Akluj
204125	Dhanakshirur ShrutiJayateerth J Narayan Dhanakshirur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25918 15.03.10	Girls Hostel, RAMC, Autonagar, Belgaum

204126	Dhanalaxmi Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29535 28.05.12	# 2722, Shabarchawl, 1st cross, Ron Post & Tq, Gadag
204127	Dhananjay Kumar Sia Sharan Rai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26763 28.07.10	#30, 5th Main Rd. 4th Cross, KathriguppaBanashankari III Stage, B'lore
204128	Dhananjaya H. Harikrishna Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27081 15.03.11	No-3-254, Haleangady Post, Mangalore Tq., DK
204129	Dhananjaya Babu.M. G. Maranna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27098 16.03.11	Nr Sri Sharada High School, Janata Cly, Challakere, Chitradurga
204130	Dhanavade SujataShashikant D S Bhagavant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23724 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204131	Dhane Swapnil Sanjay Sanjay Y Dhane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24287 29.04.09	H.No. 2034, Koregalli, Shahpur Tq, Belgaum
204132	Dhaneshwari.A. Babanagar. Ashok.S.Babanagar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27603 30.03.11	# 65, Basaveshwar Clny, ThindluVidyaranyapura, Bangalore Urban
204133	Dhanunjaya B.V. Gadag.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28500 26.07.11	Nr. Marata Samaja, K.T. Rd.Sandur Tq, Bellary
204134	Dhanya S K. Saseendranath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30527 26.06.13	Anugraha, 19/2, Ramaiah Lane, Murugesh Palaya, Bangalore
204135	Dhanyashree K.R. Narayana Swamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25863 12.03.10	?Sannidhi? Murdeshwara Layout, Koppa, Chikmagalur
204136	Dhanyashree P Puttaraju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30251 03.05.13	Kandali (p), Hassan tq and , Kandali
204137	Dharmaveer Koti Hanamantappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25945 17.03.10	Shri Gurukripa Building, Nr. Irani Clinic, Vivekananda Nagar, Gadag
204138	Dharnagar Kishor Vikram. Dhangar Vikram Dharma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24586 14.05.09	Javali Plot, Infront of RangreHospital, Ganjendragad Ron Tq, Gadag
204139	Dharpale Babu Maruti Dharpale Maruti Genu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24078 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
204140	Dhatri Datta Dharma Datta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29101 7.05.12	No 28/3, Suh Rudha, Kote RdKote Post Office , Shivamoga
204141	Dhokrat Rohit Madhukar Madhukar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28498 26.07.11	Behind Urdu School, Nipani Post, Chikodi Tq, Belgaum
204142	Dhulappa Anjutagi Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28762 05.04.12	Benakanahalli At & Post, Indi Tq, Bijapur
204143	Dhumal Kamalesh Kumar Dhumal Kr Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24079 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
204144	Dhumal Priyanka Laxman Dhumal Laxman Kamal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30247 03.05.13	?Kalpak Society?, Building No. C7, At Post & Tq Roha, Raigad , Roha
204145	Dhuttargi Kalpesh Tippanna Shantappa Dhullargi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28732 02.04.12	Plot No 89A/ 155, Sub PlotNo. E-III, Sollapur Post & Tq , Solapur
204146	Dhyan Surendranath Surendranath K V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30519 21.06.13	?Ragasudha?, Pinarayi (Po), Thalassery (Tq), Kannur (), Thalassery
204147	Diamond PrasadDewangan Ganapat Ram Dewangan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29949 01.04.13	# 2986 Chaugan, Vill Katgi The-Kasdol Baloda Bazar , Chhattigarm



204148	Dighe Ganesh Namdeo Shree Dighe N Jijaba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24137 22.04.09	Vidyanagar, Bailhongal Tq, Belgaum
204149	Dileep Mullu Singh Savnere	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27099 16.03.11	C/o SHES AMC, Sedam Rd. Gulbarga
204150	Dileep Kumar. H.G Guruchannabasappa. H.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23892 09.04.09	Hosakere Post, Gubbi Tq, Tumkur
204151	Dileepkumar. K.J Jayadevappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27386 25.03.11	# 14/267, 2nd Cross, Hosala Nagar, Arsikere Tq, Hassan
204152	Dilipkumar Shyamdhar Shyamdhar Bind.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25997 18.03.10	# 434, 4th Cross, GovindarajnagarKaveripura Kamakshipalya, Bangalore
204153	Dilnawaz Ahmad Shah Abdul Wahab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28633 21.11.11	Plot.No. 714, Buda LayoutRamthirth Nagar, Belgaum
204154	Dimple T Thamanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30249 03.05.13	D.No. 401, 11th Cross, Kuvempu Nagar, Hassan
204155	Dinesh Kumar Jeet Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26791 19.08.10	No. 1964, 12th ?A? Cross, 1st Main Rd.Vijaynagar, Bangalore
204156	Dinesha. T.S Somanna. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25834 12.03.10	Valmikinagar, K.R. Nagar, Mysore
204157	Divya Khare Khare. R.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23830 06.04.09	MIG-6, KHB Clny, Gandhi Nagar, Sagar Tq, Shimoga
204158	Divya Kumari N.Seetharam Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24248 28.04.09	?Anugraha?Hiliyana Post, Udupi Tq &
204159	Divya MS P Mohanan Nair	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30608 21.08.13	No. 13, Sy Nko. 85, 8th main, vinayaka Layout, Doddanakundi Extn., Bangalore,
204160	Divya Patil Shekhara Gouda I Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29486 25.05.12	Baligar Street, Kanakagiri At Post, Gangavati Tq, Koppal
204161	Divya Sanjeeva Sanjeeva Kunjathur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24926 10.06.09	# 88/A, Shree Sadana, Vittal Nagar, Adjacent to ISRO Layout, Bangalore
204162	Divya VM VV Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29369 21.05.12	No 2598, 2nd Cross, Gandhi nagar, Mandya
204163	Divya. B Shambhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23999 18.04.09	Ramakunja Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
204164	Divya. E T. Egambaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25752 12.03.10	# 304, Z Cross, Kammanahalli, 3rdBlock, HRBR Layout Kalyan Nagar Bangalore
204165	Divya. K A. Parameswaran.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25519 04.03.10	# 123/1, Lalbagh Rd. 4th Cross, Double Rd. Bangalore
204166	Divya. L.M Mahalingappa. L.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27542 28.03.11	# 111, Tank Rd.N.R. Mohalla, Mysore
204167	Divya. N Nanjundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25246 23.10.09	Henjagowdanahalli, Badavaney, Arsikere Tq, Hassan
204168	Divya. S Shivaram. K.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25588 05.03.10	# 275, 10th Cross, 6th Main, MSR Nagar, Mathikere, Bengaluru
204169	Divya. T.S Shivanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25189 08.10.09	# 368/C, Sri Lakshmi Narashima Swamy Krupa, Doddianapalya Tumkur

204170	Divya.B.S. P.Shivaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27714 06.04.11	Ashirvad Bobbeker House Vittal P.O., Bantwal Tq, D.K.
204171	Divya.D.Rao T. Divakar Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28463 04.07.11	Vasudeva Nr Srinivasa Temple, Chitpady, Udupi
204172	Divya.N Gopinath Bhat.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26901 21.09.10	#44/2, 9th Main, ?Kamakshi?, 1stStage Hebbal Metagalli, Mysore
204173	Divyamadhura. M Mahadevaiah. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27587 30.03.11	4th Cross, Maddur, Mandya
204174	Divyarani Hanmantha Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25472 03.03.10	# 17-5-141, Manahalli Rd. Bidar Tq &
204175	Divyarani. H.P Puttaswamappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24034 20.04.09	Govt Hospital Rd. ShivaprasadComplex, Hallimysore, H.N. Pura Tq, Hassan
204176	Divyashree. H.K Krishnappa. L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24032 20.04.09	Salagame Rd.Vishweshwaraya Extn, Hassan
204177	Divyashree. P.V Vedamurthy. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25844 12.03.10	# 608, S.J. Rd.Periyapatna, Mysore
204178	Diwani Niraj Nitin Nitin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25168 06.10.09	# 3135, Joshi Oni, Nipani Post, Chikodi Tq, Belgaum
204179	Doke Trupti Tukaram Doke Tukaram Fakira.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24411 05.05.09	R.S. Hiremath Bldg, M.B. Datar Clny, Hospet Rd. Koppal
204180	Dol Nayana Narayan Narayan Ramchandra Dol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2002	28846 18.04.12	# 8-1-284/OU/460, OU Clny, Smakpet, Golconda Hydrabad Tq &
204181	Dolli Sushma Shivanand Shivanand G Dolli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29742 10.09.12	Block No-A/555, Room No-1110, Section- 25, Ulhasnagar, Thande
204182	Donage Jyotika Anil Anil Mahadev Donage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29473 24.05.12	# 936, Donage galli, Miraj At Post & Tq, Sangli
204183	Doni Abdul Ralaque Khawaja Husen	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29475 24.05.12	#69, Ward Number 4, Tipunagar, Talkoti Muddebihal Tq, Bijapur
204184	Doshi PareshkumarPravinkumar Doshi PravinKr JaiKr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24898 09.06.09	C/o. Kantilal Jain, Manvi Main Rd, Manvi Tq, Raichur
204185	Doulasab Imamasab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25897 15.03.10	Muddapur, Kolbal Post, Sindhanur Tq, Raichur
204186	Drakshan RaheedShilledar Abdul Razaq Shilledar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25032 02.07.09	Plot.No. 59, Taj Nagar, Hubli Tq, Dharwad
204187	Dubalgunde PratikshaChanbasayya C R Dubalgunde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30516 20.06.13	Shivshankar Nilaya, Bhavani Clny, Shivngar South, Bidar
204188	Dundale Ganesh Laxman Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24334 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204189	Dundappa Puthani Shivappa Puthani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23763 03.04.09	# 289, Shivabasava nagar, DhupdulPost, Gokak Tq, Belgaum
204190	Dunna Shailaja ShankarRao Dunna Shankar Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30119 19.04.13	Shop No. 1/B, Rd. No. 16, Kisan Nagar No. 3, Wagle Estate, Thane
204191	Duradundi Gudasi Gurappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23987 18.04.09	Hebbal Post, Hukkeri Tq, Belgaum

204192	Durgaprasad A V Vishnu Bhat A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30394 24.05.13	Anandavana House, P.O.S.S Vihar Alike, Bantwal-Tq, Dakshina Kannada
204193	Einsha Huda Peer Mohammed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28126 26.04.11	Azad Manzil, Mallar Village, KAUP, Udupi
204194	Ekal Sadichha Bhikaji Ekal Bhikaji Dattatraya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24781 04.06.09	Rd. 1st Main, 4th Cross, Sadashivnagar, Belgaum
204195	Ekatpure Ashwini Anil E Anil Bhagwanrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24126 22.04.09	# 15-3-133, Plot.No. 16, 8 Shambhavi, Rampure Clny, Bidar
204196	Ekurke Vikas Vinayakrao Ekurke V Marutirao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23817 04.04.09	19-4-622, Humnabad Rd. Bidar
204197	Emuanvel R.G. Gurudas.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26783 16.08.10	Christa Ashirwad Nivas, Nr. N.H.Office Amravati Hospet Tq. Bellary
204198	Eshwar Kanchigidad Shivalingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27740 06.04.11	Garjur At, Sangolli Post, Bailhongal Tq, Belgaum
204199	Eshwari.C.M R.Hemanth Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25366 20.01.10	#279, 12th A Main, 76th Cross, 6th BlockRajajinagar, Bangalore
204200	Farate Jagdish Shriram Farate Shriram Ambadas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30311 10.05.13	At Murma, Post Tirthpuri, Tq- Ghansawangi .Jalna, Murma
204201	Farha Noorien MS Baig	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29152 11.05.12	No 3-3-65, Noorkhan Taleem , Bidar
204202	Farha Tabassum Sadiq Ahmed Sharief	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28352 30.05.11	No.38/1, Sultanji Gunta Rd.Shivajinagar, Bangalore
204203	Farhad Affu Shekh AbdulQayum. Abdul Qayum.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26224 23.03.10	Gavishree Nagar, 1st Cross, Opp RTO Office, Koppal
204204	Farhana Taranum Althaf Pasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24054 21.04.09	JNV Yenigadar, Chintamani Tq, Chickballapur
204205	Farhanaz Mahaboob Basha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29436 23.05.12	No 1873 Asharafi Manzil, 8th main Rd.2nd stage 2nd phase , Rajivnagar Mysore
204206	Farhataleem Mahamood Sab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27771 07.04.11	#11-1220/P, M.S.K. Mill, Haji Compound, Gulbarga
204207	Farheen Banu Deshnoor Iqbal Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27028 22.02.11	#19, Ramapura, Cowdally Post, Kollegal Tq, Chamarajanagar
204208	Farheen Master Irshad Ahamed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30146 22.04.13	H.No. 470, S.R.Clny, Bijapur
204209	Farheen Nadaf Abutalib A K Nadaf.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26119 20.03.10	# 1860-B, MG Rd, Kajubag, Karwar Fort, Karwar, Uttar Kannada
204210	Farookhahmed Kamagal Makhabulsab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27378 24.03.11	# 238, 2nd Cross, Shivajinagar, Haveri
204211	Farooq Davalsab Chittargi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28663 05.01.12	#557, SMIG B Block, 35th Cross, Yelahanka 5th Phase, Bangalore
204212	Farzana Begum S. Khaja Mohiddin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23707 02.04.09	# 161/A, Ward. No. 26, Cowl Bazar, Bellary Tq &
204213	Fathima Kauser Abdul Khalia Ansari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29460 24.05.12	Nr. to Al-Ameen School, GaffarKhan Mohalla Srinivasapur Kolar

204214	Fathimath Us Zohra. C.B Baba Tajuddin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26221 23.03.10	Timber Merchant, Prasanna Takies Rd, Baharpet, Chitradurga
204215	Fatima Gadagkar Abdul Quadir Gadagkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25850 12.03.10	# 6, Prakash Clny, Nr Nehru Nagar, Head P.O., Hubli, Dharwad
204216	Fegade Sarika Shankar Fegade Shankar Hari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24996 17.06.09	M.B. Kalal Bldg, Nr Venkateshwara TheatreMundargi Tq, Gadag
204217	Ferozkhan.M.Kundoor Mazidkhan Kundoor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25122 15.09.09	Worker Street, Nr Azam MasjidRanebennur Tq, Haveri
204218	Firdaus JananBadagan Md Husain I Badagan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29451 24.05.12	# 863, Awati street, Talikot At Post, Mudde Bihal Tq, Bijapur
204219	Firdosh Tasneem Syed Qiyamoddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29896 24.12.12	H No. 5-4-175Nr. Ashur Khana Maniyar Taleem Bidar
204220	Foolan Bandurao Bhosale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26472 31.03.10	Opp BLDE Hospital, Bijapur
204221	Fourkison.L.Swer Apwell Dkhar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27776 07.04.11	#253, ?Shree Ranga?, 8th Main, 3rd Block, 4th Stage Basaveshwarnagar B?lore
204222	Fulari Rajashri Bhimashankar. Bhimashankar R Fulari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25401 24.02.10	Krishnareddy Building, Bhavani Rd.Hebguddi, Bangalore.
204223	G. Sairam Reddy Venkat ram Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	30497 15.06.13	Flat No-102, Vijetha Rindaa Meadows, Newnagole, DSNR, Hyderabad
204224	G.S. Badarinath Gundu Shastry Venkatesulu	BAMS NTR Univ. of Health Sciences, Vijayawada, 1998	26985 01.12.10	Shankarapur Thanda, Kariganur, Hospet, Bellary
204225	Gadag SharanappaBasappa Basappa Gadag	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28934 26.04.12	No 17, Karwar Rd.Deen Abandhu Clny, Hubli Taluk Dharwad
204226	Gadche MaheshDattatraya Dattatraya Gadche.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24778 04.06.09	Tuljai Bldg, APMC Rd, 1st Main, 4th Cross, Sadashivnagar, Belgaum
204227	Gaddam Rama Devi Jonah Sandre Pogu	BAMS NTR Univ.of Health Sciences, Vijayawada 1993	26871 07.09.10	Francis Villa, Kuthpady, Udyavara Post, Udupi Tq. &
204228	Gadekar MahendrakumarSarjerao Gadekar Sarjerao Muktajji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24008 18.04.09	FS 12/310, High School Rd. Haveri
204229	Gaibu Naykar Gopal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27620 01.04.11	Bisanal-A/P, Bilagi Tq, Bagalkot
204230	Gaikwad Anju Dilip Gaikwad Dilip Shahaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26186 22.03.10	H.No. 12-2-72, Harurgari Gandhi, Bidar
204231	Gaikwad DhananjaySubhash Subhash D Gaikwad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30594 03.08.13	Sanjeev Raje Nagar, Plot No.-3, Giravi Rd. Phaltan-Tq, Satara,
204232	Gaikwad PrajaktaRangarao Rangarao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23685 01.04.09	C/o. S.J. Patil, Inchal Hospital, InchalPost, Soundatti Tq, Belgaum
204233	Gaikwad RajanikantSampatrao Sampat S Gaikwad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25033 02.07.09	H.No 1295, Sec No. VII, Shivkrupa BuildingVantamuri ClnyM.M. Extn, Belgaum.
204234	Gaikwad Supriya Kamlakar Kamlakar Pandurang Gaikwad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25467 03.03.10	# 8-10-12, Akkamahadevi Clny, Rangmandir, Bidar
204235	Gaikwad SurajHanamant Hanamant B Gaikwad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29889 18.12.12	AHP Pargaon(New) Kolhapur, Tq-Hatkanangle

204236	Gaikwad VarsharaniBalaji Gaikwad Balaji Haribahv	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28821 13.04.12	# R-1/2360/2, Paomini Niwas, Vaibhav Nagar Latur Post Tq &
204237	Gajadandasharma Veeresh Sharma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25719 12.03.10	# 130/A1, Sindhanur, Pathnal Post, Manvi Tq, Raichur
204238	Gajanan Sankaje Shankar Sankaje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29444 24.05.12	Khadaklat At Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204239	Gajanan Sankonatti Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24342 29.04.09	Khemalapur Post, Raibag Tq, Belgaum
204240	Gajare Deepak Namdeo Gajare N Trimbak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24614 18.05.09	LIG-48, Ashok Nagar, Belgaum
204241	Gajendragadkar ManasiYashvant G Yashvant Gajanan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24172 24.04.09	# 32, Opp Manas Residency, ShyreyaHospital, Bavasar Nagar, Bijapur
204242	Galatage Vinayak Girish Galatage Girish Krushna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24501 11.05.09	Plot. No. 835, 2nd Stage, Vasant Vihar Cly, R.C. Nagar, Belgaum
204243	Ganapate Sheetal Chandra G C Haribhau.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25080 30.07.09	Flat.No. 121, Rich Fields Apts, Marathahalli Outer Ring Rd. Bangalore.
204244	Ganapati Hanmantappa Hantantappa	BAMS M.U.H.S., Nashik 2005	28879 18.04.12	No 2/217, Riosatolli, Yakathpur post, Bidar taluk &
204245	Gandhi Suyog Ranjendra Gandhi Rajendra W.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24582 14.05.09	# 139/N, Kubusab Bldg, MahanthNagar, 4th Cross Kelgeri Rd. Dharwad
204246	Gandhiji Huchareddi Amarappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27932 12.04.11	Wadawadgi A/P, Basavana Bagewadi Tq, Bijapur
204247	Gandugade Pradnya Vinayak Gandugade Vinayak Ganpati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29277 16.05.12	Hamidwada At post, Kagal TQ, Kolhapur
204248	Gane Sudarshan Rajagonda Gane R Balasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24859 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal BedikihalPost Chikodi Tq, Belgaum
204249	Gane Trishala Baburao Gane Baburao Nemu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24092 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
204250	Ganesh Mrutunjay Chickmath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27305 23.03.11	Gutipet Shahapur, OTO 277, Shahapur, Yadgir
204251	Ganesh Tejasvi S S V Udayashankara Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30560 17.07.13	?Karody Gardens? House, Post-Badoor (Via), Kumbla, Kasaragod Tq &
204252	Ganesha Naik. K Ramesha. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24542 13.05.09	Pariyalthadka, Punacha Post, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
204253	Ganesha VishnumoorthiBhat. B. Vishnumoorthi Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25774 12.03.10	Nandanvana, Kergal Post, Kundapur Tq, Udupi
204254	Gangabai S Hirol Shamaray	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29980 06.04.13	At Post Jalawadi, Tq. Sindagi, Jalawadi
204255	Gangadhar Aralelimath Totayyaswamy.C. Aralelimath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26300 24.03.10	# 239/17, 3rd Cross, Vivekananda Nagar, Gadag
204256	Gangadhar Patil Basavan Gowda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26774 16.08.10	B.B.Nagar, Shetty House, Nr Water TankKusthaghi Tq. Koppal
204257	Ganganhalli AbhishekSuresh Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28378 09.06.11	Vishweshwaria Clny, Ashram Rd. Bijapur

204258	Gangothri Kalal Subash Kalal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29977 06.04.13	Nr. DamRd. Brahminstreet Kote Hospet, Dt-Bellary, Hospet
204259	Gangu Basappa Bhoote.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24050 20.04.09	Malleswar Kirani Merchants, Yelburga Tq, Koppal
204260	Gantala Arati Anil Anil H Gantala	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30050 16.04.13	Otta No. A 38/18, Upper Indiranagar, Nr. Pushpam Gas Godown, Pune
204261	Garde PriyankaChandrakant Garde Chandrakant Arjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25700 12.03.10	RGES Ay. Medical College, Ron Tq, Gadag
204262	Gaurabai Patil Mallanagoud.S.Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28392 09.06.11	Kulkarni Galli, ChadchanAt & Post, Indi Tq, Bijapur
204263	Gaurav Rathi Mahipal Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26476 01.04.10	#34, 3rd Main, Banashankari, 3rd Stage, Hosakerihalli, Bangalore.
204264	Gautami Desai Shripad Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29252 15.05.12	No 61/4 , Opp Datta Temple, Killa Old Hubli Post Dhrwad
204265	Gavali Sachin Laxman Laxman Gavali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25048 08.07.09	Nermala Health Centre, Thadamanahalli, Hesaragatta Main Rd. Bangalore
204266	Gavekar Nayana Ranjit Ranjit Bharmati Gavear	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26928 05.10.10	3rd Cross, Ganesh Chowk Hindwadi, Belgaum
204267	Gawade Manoj Dasharath Dasharath M Gawade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24292 29.04.09	4th Cross, Ron Tq, Gadag
204268	Gawande Harshad Gulabrao Gulabrao Gawande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23818 04.04.09	19-4-622, Humnabad Rd. Bidar
204269	Gayathri Kamath. D Manjunath Kamath. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26020 19.03.10	# 1/67, Dakkerabalu, Jansale Post, Kundapur Tq, Udupi
204270	Gayathri Padiyar. U Anandth Padiyar. U	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24608 18.05.09	Padiyar's Compound, Main Rd.Kauppadu Post, Udupi Tq &
204271	Gayathri Shiva Ramappa K.M. Shivaramappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27605 30.03.11	# 1829, 12th Cross, 5th Main, RPC Layout Vijayanagar Bangalore
204272	Gayathri.C.K. Kenchappa.C.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27921 12.04.11	Kamagondana Halli, P.N.Halli Post, Sira Tq, Tumkur
204273	Gayathri.G.Hegde. G.V. Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24351 30.04.09	Rudrapada, Agrahara, Kalasa Post, Mudigere Tq, Chickmagalur
204274	Gayathridevi K P Vinod K Pandit	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30245 02.05.13	Ashok Rd. Siddapur Post & Tq, Uttara Kannada , Siddapur
204275	Gayatri Dhumansure Somanath Dhumansure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29121 07.05.12	No 7568-910, Sarvodaya Basavakalyan Taluk Bidar
204276	Gayatri Godbole Narayan Godbole.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27583 30.03.11	Opp. Durga Gram Panchayath VillageTellar Post Karkala Tq, Udupi
204277	Gayatri Kalal Shanmukhappa Kalal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29445 24.05.12	Kanaginahal Rd. S B Nagar, Gadag Betgeri Post, Gadag
204278	Gayatri Patil Siddanagouda S Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29652 18.06.12	Vidyanagar, Shubhalaya No-5, Mallayya Temple, Indi Bijapur
204279	Gayatri Patrut Ashok.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23746 02.04.09	H.No. 221/1A/1, MahalingeshwarNagar, Gokak Tq, Belgaum

204280	Gayatri Sadalge Devagonda DSadalage.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26092 19.03.10	Karadga, Chikkodi Tq, Belgaum
204281	Gayatri Uppar Fakeerappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30485 13.06.13	At Post-F.D. Uppar, Apsara Garden, H.No. 288/1, Block No.19, Belgaum
204282	Gayatri Yaradetti Sidram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30486 13.06.13	Co-op Hospital Campus, Ghataprabha, Tq- Gokak, Belgaum
204283	Geeta Madiwalappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28721 30.03.12	Girinivas, Nr. Urdu School, Jewargi, Gulbarga
204284	Geeta Badakar Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25694 12.03.10	Ankal, Sankeshwar Post, Hukkeri Tq, Belgaum
204285	Geeta Bhavikatti Timmangouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24639 21.05.09	Nr. Gururaj Play Home, Hundund Post & Tq, Bagalkot
204286	Geeta Gadad Govindappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26280 23.03.10	LIG-127, Mahantesh Nagar, Belagavi
204287	Geeta Hansanur Girigouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26904 21.09.10	Chalukya Nagar, 5th Cross, Badami Post & Tq, Kiritnagar,
204288	Geeta Hiremath Mallikarjunayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24047 20.04.09	Kadaramandalgi Post, Byadgi Tq, Haveri
204289	Geeta Jituri Vishnusa Jituri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24980 11.06.09	Nr. Vitthal Mandir, Dajibanpeth, Hubli Tq, Dharwad Diast
204290	Geeta Kapali Basavanneppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30188 26.04.13	Ragavendra Badavane, Nr. Asundi Cross, Gadag .
204291	Geeta Karikatti Shrishail C Karikatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29759 29.09.12	Plot No-135, 10th Sub Cross, 3rd Main Rani Channamma Nagar, Dharwad
204292	Geeta Kerutagi Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30256 03.05.13	Behind Shastrinagar, Plot No. 15, Bijapur Tq & , Bijapur
204293	Geeta Mathapati Teerthayya .C. Mathapati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29943 08.03.13	H.No. 182/2 +3A, Plot No.-14, Vidya Nagar, Gokak, Belgaum
204294	Geeta Mugalkhod Ramasiddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28608 05.11.11	Behind LB, Gurlapur Post, Gokak Tq, Belgaum
204295	Geeta N Goudar Ningappa Goudar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1992	30405 27.05.13	Geeta S Huballi, Panchaxari Galli, Terdal, Jamakhandi
204296	Geeta Natikar Shanmukhappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23700 01.04.09	LIG ? 25, Bagalkot Rd. Jalanagar, Bijapur
204297	Geeta Soodi Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27402 25.03.11	Sanmatinagar, Kelageri Rd. Dharwad
204298	Geeta. C.B Chitrasen.S.Bagali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26142 20.03.10	Ward.No. 01, Afzalpur, Gulbarga
204299	Geetabai Math Irrayya.S.Math.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25282 17.11.09	Pragati Nagar, Plot.No. 67Asram Rd. Bijapur
204300	Geetabai Mestri Siddappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30291 07.05.13	Kaman Khan Bazar, Uppar Clny, Bijapur Tq &
204301	Geetanjali Shedbalkar Ashok JayaKr Shedbalkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27462 26.03.11	Ainapur Post, Athani Tq, Belgaum

204302	Geetha Gurusiddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27138 17.03.11	Kardkal At & Post, Lingsugur Tq, Raichur
204303	Geetha Kumari. S Suresh. C.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24536 12.05.09	Horanadu Rd. Kalasa Post, Mudigere Tq, Chickmagalur
204304	Geetha Rani. N Narayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27369 24.03.11	Siddianapura, Kollegal Tq, C.H. Nagar
204305	Geetha Sawkar Amarappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26683 26.05.10	Vinayaka Nagar, Ranebennur At Post & Tq., Haveri
204306	Geetha. L Lallan Prasad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24785 04.06.09	B.H. Rd. Ranipet, Hospet, Bellary
204307	Geetha. N.R Rajappa. N.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25770 12.03.10	2nd Cross, Nr Vivekananda BED College, Arasikere Tq, Hassan
204308	Geetha. S.N Ningaraju. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24929 10.06.09	# 5, B? Block, New Officer's Quarters, Jalpuri, Mahadevpura Rd Uduyagiri, Mysore
204309	Geetha.S. Shekharappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26895 17.09.10	#43(20), 2nd Main, 4th Cross, Sanjeeviini Nagar, Moodalpalaya, B?lore
204310	Geethanjali S Srinivas B K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28857 18.04.12	# 129, 7th Cross, Kuvempu Nagar, Shankarnagar post Office, Mandya
204311	Geethasri S SC Shankare Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29093 05.05.12	245, 5th Cross, Vinayaka Tent Rd Hosahalli Mandya
204312	Ghadge Kiran Laxman Laxman K Ghadge	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23788 04.04.09	Behind Bus Stand, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204313	Ghanekar SouabhRamchandra G Ramchandra Shivram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24283 29.04.09	Vijaya Viwas, Patil Lane, Rinapur Post, Athani Tq, Belgaum
204314	Ghansham NandakumarJadhav NandaKr A Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30466 07.06.13	At Post Anur, Tal-Kagal, Vil-Anur, Kolhapur,
204315	Gharat Rani Raghunath Gharat R Chandar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24458 05.05.09	R.S. Hiremath BLDG, MB Diwatar Clny, Hospet Rd. Koppal
204316	Gharate Dineshkumar Gharate Dadaji Bhatu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29807 12.10.12	52B, Ramesh Nagar, Sakri At Post & Tq, Dhule
204317	Gharate Sagar Dilip Dilip R Gharate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24401 05.05.09	H.No. 304, Shivanand Nagar, 2ndMain Rd, Navanagar, Hubli Tq, Dharwad
204318	Gharpade Sachin Suhas Ghorpade SShrirung	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23782 04.04.09	NN, Nav Nagar, Behind Friend Club, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204319	Ghatage Sandip Tanaji Ghatage Tanaji Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25256 27.10.09	Vidyanagar, Bailhongal Post & Tq, Belgaum
204320	Ghatage Vaishali Nanasahab Nanasab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24480 11.05.09	EL Bethel Bungalow, Plot.No. 7, Ramnagar, Nipani, Chikkodi Tq, Belgaum
204321	Ghatge Swapnil Prataprao Pratap Bhauso Ghatge.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25554 05.03.10	Jawale Post, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204322	Ghayal Amol Bhimrao Ghayal Bhimrao Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23856 06.04.09	Sangmeshwar Niwas, LIG 24, Housing Board Clny, Bidar
204323	Ghodekar Nilesh Sudam Ghodekar S Mahadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23691 01.04.09	C/o. Dhanvanthri Ayurvedic Medical College & Hostel, Siddapur, Uttar Kannada



204324	Ghodke PradnyaBalwant Rao Balwant Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29786 12.10.12	Ambedkar Chowk, Anand Nagar, Nr. Krishna Dal Mill, Latur Ta &
204325	Ghogare Vinod Uttam Uttamrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23935 13.04.09	Kalidas Galli, Sindagi
204326	Ghorband ShrikantDattatrya Ghorband D Sambhaji Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25762 12.03.10	# 110, Mohadina Manzil, Heggeri ExtnOld Hubli, Hubli Tq, Dharwad
204327	Girase Jeetendra Narayan Narayan N Girase.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23791 04.04.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
204328	Giri Prabhakar Prakash Shri Prakash Giri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29957 06.04.13	Jain Estate, Village Rd. Bhandup West, Mumbai
204329	Giridharaswami M.S.Math Andanayya S. M.S. Math	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27933 12.04.11	Hospet Street, Naregal A/P, Ron Tq, Gadag
204330	Girija Parshuram Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27770 07.04.11	#LIG III Phase, 121, Badepur Cly, Sedam Rd. Gulbarga
204331	Girija Mole Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29420 23.05.12	Yabaratti at post, Raibag Tq, Belgaum
204332	Girish Gundappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27543 28.03.11	Telephone, Exchange, Shahpur, Basava kalyan, Bidar
204333	Girish Mirajkar Gundurao Mirajkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25139 25.09.09	Pattar Galli, Athani Post & Tq, Belgaum
204334	Girishkumar. S.V Venkatesh. S.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27249 22.03.11	# 20, Manjunat Nilaya, Nr. Deepa Hospital, KR Puram, Bangalore
204335	Girwalkar Nagnath Mahendra Girwalkar Mahendra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25530 04.03.10	Plot.No. 40, Yallalinga Clny, Naubad, Bidar
204336	Gnanendrakumara. B.S Sadashivappa. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25153 26.09.09	Sunnadakoppa Post, Shikaripura Tq, Shimoga
204337	Gnyaneshawar Sheshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28364 31.05.11	Nr Bhagat Singh School, Teacher ClyHumnabad Tq, Bidar
204338	Gollalappa Kannolli Ningappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28763 05.04.12	Basav nagar, Devarhi-ppargiSindagi Tq, Bijapur
204339	Gondhalli Kiran Dattatraya. G Dattatraya Sakharam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24918 09.06.09	KHB No. 4, MIG-1, B-62, Jamiya Masjid, Bijapur
204340	Gopal Adinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29961 06.04.13	Dharmapeth ManthalBasava Kalyan, Manthal
204341	Gopalkrishna Dhulagond P Siddappa Dhulagond.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24424 05.05.09	Zunjarkoppa Galli, W.No. 4, H.No. 64, Mudhol Tq, Bagalkot
204342	Gouda Rang Veni Basavanna Basavanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29609 14.06.12	Samruddhi Enterprises, Patil's Indi Rd. Bijapur
204343	Goudappanavar B G Fakeerappa	BAMS Karnataka University, Dharwar 1991	29727 09.08.12	# 421 B/1/16(1), Pitru KrupaMrutyunjayanagar Bailhongal Tq, Belgaum
204344	Gouravva Patil Basanagouda B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29691 06.07.12	# 188/1, Plot No. 4849, Jyothi Peg BarRd, Basavanagar Gokak Tq, Belgaum
204345	Gouri Tanksali Ramesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30379 21.05.13	Siddrameshwar Clny, Tq Mudhol,

2011				
204346	Gouri hardagali Basavaraj Basavaraj S Hadagali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29504 26.05.12	Shri Krishna Yogashram, Guledagudd At Post, Badami Tq, Bagalkot
204347	Goutham.S.P. Puttanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27748 06.04.11	#37, 1st Cross, 1st Main, Behind Surya Bakery, Mysore
204348	Govind Ram Shri. Vedram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25004 19.06.09	SCM Compound, N.R. Pura Rd, Double Tank Jyoti Nagar, Shimoga
204349	Govindaraju. P Poojarappa. V.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25486 04.03.10	Hanagal Post, Molakalmuru Tq, Chitradurga
204350	Govindraj. S.K Kullegowda. S.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23919 09.04.09	# 987, Anne Chowka Rd, NrPushpa Convent, Piriapatna, Mysore
204351	Gowramma. K Kallappa. K.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23832 06.04.09	Nr. Eswara Temple, Horakere, Jagalur Tq, Davangere
204352	Gowri K K Kishore Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29545 28.05.12	1 Ward 305/2, Sri Vridhavisnu, karkalla At Post & Tq, Udupi
204353	Gowri Prasanna.K. Chethan Prakash	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28363 31.05.11	No.549-556, Kombettu, Ramchandra Nilaya Bolwar, Puttur Tq, D.K.
204354	Gowri Shankar RN Nanjundappa RC	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28977 27.04.12	No.117, Doddaballapur Main Rd, Rajanukunte At & Post , Bangalore North Bangalore
204355	Gowripalya Ramchandran P. Ramachandra Nair.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26141 20.03.10	H.No. 214, 8th Cross, Mathikere, Bangalore
204356	Gudale Ashwini Arun Arun Baburao Gudale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24284 29.04.09	Mahavir Nagar, Jamkhandi Post & Tq, Bagalkot
204357	Guddad SupriyaVivekanand Vivekanand Guddad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29355 21.05.12	Plot no 13 1st main , Anusuma, Sampige nagar Dharwad
204358	Gujar Pallavi Gambhirrao Rahul.R.Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	25439 26.02.10	Brindavana, Behind KSRTC Dept No. 2, KSRTC Housing Clny, Bijapur
204359	Gulam Hakhani Gulam Samdani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25296 27.11.09	C/o. Taj Medical Store, Main Rd.Gunj Bhalki Tq, Bidar
204360	Gund Amit Nagnath Nagnath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28772 05.04.12	Anagar At & Post, Mohol Tq, Solapur
204361	Gund Pavan Laxman Gund Laxman Udhav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24123 22.04.09	# 15-3-133, PT-16, Shambhavi, Rampur Clny, Bidar
204362	Gunwantrao Shivlingappa Shivalilingappa Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29549 29.05.12	Ladha at Post, Aurad (B) Tq, Bidar
204363	Gupta SwatiPhoolchand Phoolchand S Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29878 05.12.12	# 9/602, A Wing, Arunodaya C H S Tilak Nagar, Chembur At Post, Mumbai
204364	Gupte Aarti Niranjan Gupte Niranjan Ambalal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24456 05.05.09	R.S. Hremath BLDG, MB Diwatar Clny, Hospet Rd. Koppal
204365	Gurav Amruta Suresh Suresh Murlidhar Gurav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29021 27.04.12	Block No 46, Rajhams SocietyNorth Solapur Taluk, Solapur
204366	Gurav Nilesh Ramchandra Gurav R Bapu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24426 05.05.09	4th Cross, Chalukya Nagar, Badami Tq, Bagalkot
204367	Gurav Vidya Manohar Gurav M Shankarrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24780 04.06.09	# 1056A, Post Office Rd.Kakti, Belgaum

204368	Gursimran Kaur M.S. Sohal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26489 05.04.10	5th Cross, ?Shantrupti? Vidyanagar, Badami Tq, Bijapur
204369	Gurubasappa Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27799 07.04.11	Gali Gowdru N.N. Camp, Balaganur PostSindhanur Tq, Raichur
204370	Gurubasav Veerayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29812 12.10.12	#6-93, Kannade Galli, Hulsoor At Post, Basavakalyan Tq, Bidar
204371	Gurubasavaraja Yadihalli Kotrappa Yadihalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25857 12.03.10	I Bevinahalli, I Higudi, Horapanahalli Tq, Davangere
204372	Gurudev Hosamani Laxman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29764 29.09.12	Plot No 18, Annapurneshwari House, Vijeta Nagar Darga Jail Rd. Bijapur
204373	Gurudevi I Modi Irranna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30221 30.04.13	Plot No. 11, Ibrahimpur, Bijapur
204374	Gurupadappa Boodi Vishwanath Boodi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27316 23.03.11	Aski Post, Sindagi Tq, Bijapur
204375	Gurupadaswamy.K.Kovallimath Kotrayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24504 12.05.09	Guttal Post, Haveri Tq &
204376	Guruprasad Krswamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25792 12.03.10	# 3-31, Yermol Thenka, Udupi
204377	Guruprasad Hadapad Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27801 07.04.11	New Kadrolli At & Post, Bailhongal Tq, Belgaum
204378	Guruprasad.S. .M.Shivanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28142 26.04.11	No.453, 1st Cross, 1st Main, Gayathripuram, Mysore
204379	Gururaj Ninganna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28849 18.04.12	# 37, Jyothi Nagar, Sedam Rd. Gulbarga Tq &
204380	Gururaj Shantamallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23696 01.04.09	C/o. Devendrappa Veerappajaladi, Shaha Bazar, Gulbarga
204381	Gururaj Dasar Biddadeppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28035 19.04.11	Gudihonnatti A/P, Ranebennur Tq, Haveri
204382	Gururaj Guggari Subhashchandra Guggari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23711 02.04.09	# 509, Hebballi, Badami Tq, Bagalkot
204383	Gururaj Gulappanavar Shambanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27444 25.03.11	Rattihalli, Hirekerur Tq, Haveri
204384	Gururaj Hegganadoddi Kashinath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24712 03.06.09	Police Station, Main Rd. Kallakeri Post, Siddagi Tq, Bijapur
204385	Gururaj.S.Varnale S.G. Varnale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24687 02.06.09	# 1912/12, 4th Cross, Swami Vivekanand Badavane, Davangere
204386	Gurusiddeshwar Kalyanimath Jagadeesh.M.Kalyanimath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24421 05.05.09	Main Rd. Ron Tq, Gadag
204387	Guruswami Soppimath Sangayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28527 25.08.11	Plot.No. 54, Nr New Govt. Hospital, Hungund Tq, NH 13, Ilkal Tq, Bagalkot
204388	Gutal Sachin Machhindra Gutal Machhindra Arjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24789 04.06.09	H.No.7, EL Bethel, Ramnagar Nipani PostChikodi Tq, Belgaum
204389	Gyaneshwar Mishra Ramakrishna Mishra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25395 22.02.10	# 89, Shushruthi Nagar, AndrahalliMain Rd, Peenya 1st Stage, Bangalore

204390	H Dideepya H Ravindra Gowd	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30550 11.07.13	H.No. 20-207-47, Vijaynagar Clny, Guntakal, AP
204391	H. Swathi H. Nagabhushana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29973 06.04.13	House No. 9-7-679/N, 9th Ward, Koppal
204392	H.C. Rachana Chandrappa H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30282 07.05.13	64/2, Tejanilaya, GurumurthappaCompound, J.P Nagar 1st Phase, Bangalore South
204393	H.S. Padmavathi A.S. Nagesh	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1991	27018 03.02.11	#23, Hosahalli Rd. Bhyrava Clny, Talaghattapura, Ganigarapalya, Bangalore
204394	Habeebulla. K.A K. Alippu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25394 22.02.10	K.N, F.R. Rd. Konanur Post, Arkalgud Tq, Hassan
204395	Hadimani SureshShrishail Shrishail Basappa Hadimani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27942 13.04.11	H.No.19, Sadashivnagar, Nr. Sai Park, Bijapur
204396	Hadiya Amreen Mohammed Rafiuddin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24681 29.05.09	# 6-2-79(Old), 100 New, Fort Rd, Osman Gunj Branch, Bidar
204397	Hafeeja Banu V.K. Abdul Azeez	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26647 05.05.10	Badriya Manzil, Vittal Mudnoor Village, Bantural Tq. D.K.
204398	Hajarabegum Ahamed Mohiuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30044 16.04.13	Tegginkera Street, Koppal-Tq & , Koppal
204399	Hajare KetansinghNandkishor Hajare N Ganapatsing.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24430 05.05.09	4th Cross, Chalukya Nagar, Badami Tq, Bagalkot
204400	Hake Shanta Dagadu Hake Dagadu Nivrutti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29686 03.07.12	Sonake At Post, Pandharpur Tq, Solapur
204401	Halgarkar Mahesh Dipak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29753 29.09.12	Halgara At Post, Nilanga Tq, Latur
204402	Halgarkar Nilesh Deepak Halgarkar Deepak Bhaurao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30613 26.08.13	At Post-Halgara, Tq-Nilanga, Latur, Maharashtra
204403	Halle Shivaraj Halle Apparao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25125 22.09.09	# 17-4-144, Agriculture Clny, Bidar
204404	Hallor Smita Satyabodh Satyabodh Pralhadrao H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24581 14.05.09	Vinayak Nagar, 13th Cross, K.R. Puram, Bangalore
204405	Hameeda Banu Mainuddin Aurangwale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26246 23.03.10	# 117, Kulkarni Hakkal, Block III, Hubli Tq, Dharwad
204406	Hamera Tamkanath Roohi Md Mainuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23682 01.04.09	# 4-8-286, Multani Clny, Bidar
204407	Hamibindu B.K. Pampanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25517 04.03.10	# 55, 2nd Cross, Sangollirayanna Rd.Challakere Post & Tq, Chitradurga
204408	Hanamant Dhareppanavar Sadashiv L Dhareppanavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27871 11.04.11	Belagali A/P, Mudhol Tq, Bagalkot
204409	Hanamshetti PradeepMallinath M Bhimrao Hanamshetti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25193 08.10.09	Kalidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
204410	Hanje Sweta Prakash Prakash N Hanje.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24788 04.06.09	H.No.7, EL Bethel, Ramnagar Nipani PostChikodi Tq, Belgaum
204411	Hansraj Shrsharao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	29723 09.08.12	Jambagi At Post, Aurad Tq, Bidar

204412	Hanumesh Veeranna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2004	25400 24.02.10	Plot.No. 44, Sairam Clny, 4th Main Rd. Bellary
204413	Hanumesh M D H Doddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29674 25.06.12	Hyderabad Chemicals Ltd., 1st Gate, Sinhanur Tq, Raichur
204414	Hari Krishna. C K. Chinnaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25867 12.03.10	# 387/1, 1st Cross, Belavatha Gramma, RBI Post, Mysore
204415	Harikrishna BN BS Narasimha Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29271 16.05.12	Anugraha House, Thiravail Village, Vamanjoor, Post Mangalore TQ, Dakshina Kannada
204416	Harinakshi N Narasimha Murthy N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30435 31.05.13	#144, 3rd Cross, J.C. Layout, Devasandra, K.R. Puram, Bangalore
204417	Harish K. Vithil Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28335 25.05.11	Vidyanagar Clny, Mailoor Rd.H.No.-9-11- 195, Bidar
204418	Harish Chakra K K Sundarshan Goud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29211 14.05.12	Flat no 301, Raj Residency , Subhasnagar , Mahabubnagar
204419	Harish Deshpande Raghottam Deshpande	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29747 29.09.12	Sangameshwar Nagar, Almatti Rd.Near I B Muddebihal At Bijapur
204420	Harish Naik. A K. Govind Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24117 22.04.09	# 126/1, Aramanehithlu House, Kadirudhyavara Vill.Belthangady Tq, Dakshina Kannada
204421	Harish. L P. Lakshmappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23864 09.04.09	# 3714/89, MCC ?A? Block, Davangere
204422	Harish. M S. Mahalingaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25873 12.03.10	Madenur Post, Tiptur, Tumkur
204423	Harishitha Gummanur Anand Kr G T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29599 13.06.12	# 74, Nisarga, 10th Main, Rajaji Nagar, Sattur Dharwad
204424	Harsha Bhushana.T.N. Nagabhushana.T.N.	BAMS BBA Bihar Univ., Muzaffarpur 1997	28695 09.03.12	#95, 1st Main, 4th Cross, Kalidasa Layout, Srinagara, Bangalore
204425	Harsha Hosmani Siddappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29530 28.05.12	Hosamani Rd.Hosamani Building, Haveri Tq &
204426	Harsha Metras Rajan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28272 17.05.11	Ashok Nagar Basaveshwar SchoolRd, Banhatti Jamkhandi Tq, Bagalkot
204427	Harsha Prabhu Padmanabha Prabhu. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2003	25371 25.01.10	Panchajanya, 1st Cross, Tellar RdKarkala, Udupi
204428	Harsha. K S.K. Kengatappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28458 04.07.11	# 163, 12th Cross, 2nd Main, Mahalaxmi Layout, Bangalore
204429	Harsha. S.G Shridhara. B.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24380 05.05.09	Hosakoppa, Bennur Post, Sorab Tq, Shimoga
204430	Harshavardhan Kantappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28496 26.07.11	At & Post, Surapur Tq, Yadgir
204431	Harshavardhan Mogalappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30585 26.07.13	H.No. 1-1-39, Shree Manik PrabhuStreet, Tq-Zaheerabend, Medak, AP
204432	Harshavardhana B B Sham Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29292 17.05.12	4/104, Laxmi Nilaya, Banari RdMuaputtur TQ, Dakshina Kannada
204433	Harshitha H V L H Kedilaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29523 26.05.12	?Harshitha? Bolwar, Puttur Post & Tq, D K

204434	Hasbe Rahul Venkatrao Hasbe Venkatrao. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24428 05.05.09	Vidyanagar, Nr. Chimankatti House, Badami Tq, Bagalkot
204435	Haseeba NaimaTulla Zaidi Syed Zameeruddin Hussaini	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29153 11.05.12	No 5-4-51, Maniyar Taleem , Bidar
204436	Haseena.K K. Alavi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27670 02.04.11	T-2, M/3, KPC Cly, HosangadyKundapura Tq, Udupi
204437	Havisha. Raj M.S. Rajagopal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24956 10.06.09	# 206, 11th Main Rd.Wilson Garden, Bangalore
204438	Heena Kousar Kundgol Mahammad Gous	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27667 02.04.11	Ayodhaya Nagar, Krishnapur Cross, Samagar Oni, Old Hubli, Dharwad
204439	Heena Kouser Shaik Chaban	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28834 16.04.12	# 74, Zakir Hussain Mohalla, Srinivaspur Tq, Kolar
204440	Hegana Rahul Raoso Hegana Raoso Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25217 13.10.09	1st Main, 4th Cross, Tulaji Building, Sadashiv Nagar, Belgaum
204441	Heganna Sushama Vijay Mahadev Heganna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30088 18.04.13	A/p Shirol, Govt ITI, Nr. Dattanagr, Tq- Shirol, Kolhapur, Shirol
204442	Hema Ganesh Ganesh. A.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27522 28.03.11	# 18/173, G. Narayana Compound, Kote Rd. Shimoga
204443	Hema Irappa Kodaganur Irappa Kodaganur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29866 20.11.12	# 437/2B/2B/43Mantap Navanagar HungundBagalkot
204444	Hema Lakkannavar Gangadhar Lakkannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23728 02.04.09	MG Housing Clny, Bailhongal Tq, Belgaum
204445	Hemachandra Shetty Madhava Shetty. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23760 03.04.09	# 1-38-4, ?Durga Kripa? Ballamanja, Machina PO, Belthangady Dakshina Kannada
204446	Hemalatha. D.K M.J. Krishnegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27314 23.03.11	Doddakoppal (V), Haleyr Post, K.R. Nagar, Mysore
204447	Hemalatha. K Kadurappa. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30000 08.04.13	Aao, General Hospital, Challakere-Tq, Chitradurga
204448	Hemalatha. S Shivanna. L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25652 06.03.10	Srirampura Post, Hosdurga Tq, Chitradurga
204449	Hemamalini. N Nagaraju. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24876 06.06.09	# 394, Kote Main Rd.Arkalgud Post & Tq, Hassan
204450	Hemamalini. P.A P.M. Appaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24301 29.04.09	# 264, Tyagaraj Rd, 3rd BlockKushalnagar Somwarpet, Kodagu
204451	Hemant Kumar Sonare Maroti Rao Sonare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27100 16.03.11	C/o SHES AMC, Bhavsar Nagar Sedam Rd. Gulbarga
204452	Hemanth. V Vasanth Kr.C.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26505 07.04.10	#15, BWSSB, Jalladarshini Layout, Nr. Ramayya Hospital, Bangalore
204453	Hemashruthi. K K.L. Kalachar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24031 20.04.09	Priyadarshini Layout, Palanajogihalli, Kodigehalli Post, Doddaballapur Tq, BangaloreRural
204454	Hemavathi.N.S. K. Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26885 15.09.10	LIG-5 Main Rd. Housing Board Clny, Nanjangud, Mysore
204455	Hemlata Khanapure V.B.Khanapure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27660 02.04.11	C-1 KV Quarters, Air Force Station, Bidar Tq &

204456	Henna Kauser Syed Shah Saud Quadri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24923 10.06.09	# 5-1-271 (New), Quadriya Pura, Bidar
204457	Henna Naiz Shabbin Ahmed.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25933 17.03.10	# 2-6067/1, 1st Floor, Ghalib Nagar, Arsikere Tq,
204458	Herkalamruta Shridhar Herkal S Krishnaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24423 05.05.09	Gouri Shankar Clinic, KMP Rd, Badami Tq, Bagalkot
204459	Hidayathulla. Abdulsalam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25242 21.10.09	Preetham Tailors, Bellary Rd. 2nd Cross, Challakere Tq, Chitradurga
204460	Hidayatulla Khan Afzal Khan I Pathan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25779 12.03.10	Mohammadiya Clny, Nr. Arkat Dargah, Jamiya Masjid, Bijapur
204461	Hipparge Sonali Kalyani Hipparge Kalyani Aapparao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29604 14.06.12	Makhanapur At Post, Lt No. 2, Bijapur
204462	Hiremath AnupriyaBasavaraj H B Gurulingayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28818 13.04.12	Patange Rd. Mahajan Galli, Kala MathOmerga Post & Tq, Osmanabad
204463	Hiremath MaheshwarShivanand Shivanand S Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26227 23.03.10	# 2738/A/1, Ward.No. 1, Vidyanagar, Sindagi Tq, Bijapur
204464	Hiremath Muktha Satish. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28501 26.07.11	Opp Balaji Theatre, Siruguppa Tq, Bellary
204465	Hiremath RashmiSivlingaya Shivlingaya A Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26584 19.04.10	H.No.2106(A), Ram Nagar, Nipani, Chikodi, Belgaum.
204466	Hiremath SapanaVidyadhar Bramhanand.K.Swamy	BAMS MUHS., Nashik 2003	28690 02.03.12	#8-11-254, Raghavendra Cly, KEB Rd. Bidar
204467	Hodage Rajdip Maruti Hodage Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24335 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204468	Honna Nageshwari Baburao Honna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29126 07.05.12	No. 17-4-358, Cmc Clny, Gandhi Gunj, Bidar
204469	Honnawad Megha. Anand.B.Honnawad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28545 07.09.11	Annadan Nilaya, Shivapeti, 6th Cross, Ron Tq, Gadag
204470	Hosurvanitha Kumari H. Chandrashekar Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24240 28.04.09	# 100, 2nd Cross, 5th Main, Marenhalli, Vijaynagar, Bangalore
204471	Houji Radhika Anand.N. Khatawate.	BAMS NTR Univ.of Health Sciences, Vijayawada 1998	25440 26.02.10	# 56, South Avenue, J.P. Nagar, 8thCross, 8th Phase Gottigere, Bangalore
204472	Hrshikesh Tejasvi. M.L. K. Lakshman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25391 22.02.10	# 1123, Panchajanya, 9th Main3rd Stage Gokulam, Mysore
204473	Huddar DeepaliPrabhakar Huddar Prabhakar Malappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27460 26.03.11	Godad Galli, Mahalingapur, Mudhol Tq, Bagalkot
204474	Huddar Nitin Chandrakant Huddar C Appaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28950 26.04.12	Karadga At & Post, Chikkodi Taluk, Belgaum
204475	Hugara Pampapathi H. Jagadeeshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28282 17.05.11	Holalu, Forte, Huvini Hadagali, Bellary
204476	Hulsure ShivashankarMallikarjunappa MShankarappa Hulsure.	BAMS B.A. Marathwada Univ. Aurangabad 1993	25132 25.09.09	Kamalnagar Post, Aurad (B), Bidar
204477	Hulyalkar Kaveri Ningonda M Hulyalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29472 24.05.12	# 47, 48, Arwade Park, Guru Basav, Nr. Railway Station, Miraj Tq, Sangli

204478	Huma Sarwar Shah Saud Ahmed Quadri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25737 12.03.10	# 5-1-271(New), Quadriyapura, Golakhan, Bidar
204479	Humbe Udaysinha Marut Rao H M Vishwanath Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23816 04.04.09	MES Clny, Humanabad Rd.Navbad, Bidar
204480	Husainbi.M.Patel Mehboob Niazi.B.Patel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24981 11.06.09	# 53, 10th Cross, Venugopal Nagar, Behind Rockline Studio, Bangalore
204481	Ichur Amol Shivram Shivram Yallappa Ichur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28647 30.11.11	C/o TMAE's Ay. Medi. CollegeBhadravathi Tq, Badami Tq.
204482	Iffath Banu Hafizulla Shariff Turabi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30404 27.05.13	#34, 5th Main, Bismillah Nagar, B.G. Rd. Cross, Bangalore
204483	Imamsa.K.Nadaf Karimsa.H.Nadaf.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25346 31.12.09	# 6, Jammaladinni, Muddebihal Tq, Bijapur
204484	Imtiyaz Khan Rasheed Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27938 13.04.11	#2961, Mothi Nagar Mohalla Masjid Rd, Ramanagaram Town, Ramanagaram
204485	Inamil Hasansha Shingoti Imamsaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23876 09.04.09	D/151, 2nd Cross, Madhura Estate, Hubli Tq, Dharwad
204486	Indapurkar AmitGajananrao Indapurkar G Pralhadrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24885 08.06.09	Rural Ayurvedic Medical CollegeBadami Tq, Bagalkot
204487	Inde Tejashri Sunil Inde sunil Shankarrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29610 14.06.12	Makhanapur At Post, Lt No. 2, Bijapur
204488	Indira Palabhavi Ravi.S.Nandgaon.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25061 18.07.09	Kabbur Chal, Jamkhandi Rd, Mudhol Tq, Bagalkot
204489	Indiravalli M K Kathirvelu M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30429 29.05.13	#7, ?Sri Shakti Stalam?6th Cross, Banashankari Layout, Virgo Nagarpost, Battarahalli, Bangalore
204490	Indrani Shivananjanaika H N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30226 30.04.13	Varadaraja Badavane, Hullahalli Village, Nanjangud Tq, Mysore
204491	Indumathi Devaraddi Chandrashekhara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26726 28.06.10	Behind Kalyan Nagar Police Station, Sindagi Tq., Bijapur
204492	Iranna Sajjan Mahadevappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24565 14.05.09	# 375/B, 2nd Galli, Danadapur, Naragunda Tq, Gadag
204493	Irappa Koloor Basavarajappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24203 24.04.09	Kamatagi Post, Hungund Tq, Bagalkot
204494	Irayya Mallayya Hiremath Mallayya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	29297 17.05.12	No 1230, Kalmeswar nagar, Sulebhavi at post, Belgaum
204495	Irfan Ahemad B Ahmed.S.Kudachi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28149 26.04.11	Garib Shah Takiya, Atamanjeel Chitguppa, Humanabad Tq, Bidar
204496	Irfana Farheen Taj Mohammed Ajmathulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26886 15.09.10	No.31, 2nd Cross, First Main Rd.Viveknagar, Bangalore
204497	Irshad Ali. C Shaikshavali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25506 04.03.10	# 1248 (24th Ward), BhuwaneshwariNagar Hospet Tq, Bellary
204498	Ishra Parveen WadaWadagi Hasanaheb B Wadawadagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28937 26.04.12	M/P Devar HipparagiAt Post, Sindagi Taluk Bijapur
204499	Ishwar Patted Ningappa Patted.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24844 06.06.09	# 303/A, Basavnagar, Bagalkot Rd, Bijapur



204500	Ismail Nadaf Mahaboobsab.R. Nadaf	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28154 26.04.11	No.338, New Police Line, Karwar Rd. Hubli Tq, Dharwad
204501	Ithape JyotiprasadBaban Rao Ithape Babanrao Appasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25558 05.03.10	Nr. Rangraj Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204502	Iyshwarya. H.S K.T. Thimme Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25594 06.03.10	# 1518/A, 2nd Main, 6th Main Rd.Vivekananda Nagar, Mysore
204503	J Darshana Hemchandra Hemchandra V Jibhakate	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29681 29.06.12	Ward No-4, Hawrey Layout, SevabhaviNagar, Sewagram At Post, Wardha Tq &
204504	J M Chethana J M Gowreesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29672 25.06.12	#507, Shanthinilayam, 2nd Cross, Basavanagar, Maruthahalli, Bangalore
204505	Jadhav ASHwini Jagannath Jadhav J Dnyanadev.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24991 16.06.09	Sutar Bldg, Bedkihal Post, Chikodi Tq, Belgaum
204506	Jadhav Amisha Anil Anil rohidas Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29575 12.06.12	Wada At Post (Mulbandh), Devgad Tq, Sindhudurga
204507	Jadhav Amol Prakash Jadhav Prakash Krishnaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23714 02.04.09	C/o. SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204508	Jadhav Ashish Prakash Yelnath Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30082 18.04.13	Yelnath Nivas, Kasba Peth, A/p Madha, Tal-Madha, Solapur, Madha
204509	Jadhav Dattatrya Sudam Sudam Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	30449 03.06.13	At Post nandur Ghat, Tq-Kaij, Beed
204510	Jadhav Deepali Niwasrao J Niwasrao Chandru.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24109 22.04.09	Plot.No. 7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
204511	Jadhav JayendraSadashiv. J Sadashiv Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24154 22.04.09	Kanika Parmeshwari Nilaya Niwas, Ron Tq, Gadag
204512	Jadhav Manisha Marutirao Jadhav K Marutirao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24948 10.06.09	H.No. 733/9, Shemnewadi Chikodi Tq, Belgaum
204513	Jadhav Patil YuvrajRaghunath R Babu Jadhav Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24717 03.06.09	Ratnatray Bldg, S.T. Khot Clny, ShantinagarShamanewadi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204514	Jadhav Prashant Bhagwan Bhagwan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24797 04.06.09	Pooja Clinic, K.K.G.S Rd, Kaseeri Galli, Bijapur
204515	Jadhav Pritesh Punlik Pundlik Arjun Jadhav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23946 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
204516	Jadhav Rachana Kumar Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24795 04.06.09	Shree Siddha Sanjivini Hospital, Inamdar Clny, Bijapur
204517	Jadhav Rahul Ashruba Jadhav Ashruba Namdev	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27811 08.04.11	C/o S.V.P.R. AMC, Boy's Hostel, Badami A/P & Tq, Bagalkot
204518	Jadhav Rahul Sugriv Jadhav Sugriv Khandu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24550 13.05.09	# 10-2-310-13A, Nr. MTM Talkies, Manvi Tq, Raichur
204519	Jadhav Rajashri Baban Jadhav Baban Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23743 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
204520	Jadhav Ranjit Ramesh Jadhav Ramesh Vyankatrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25532 04.03.10	New Adarsh Clny, # 19-1-53-3 Airforce Rd. Bidar
204521	Jadhav Rohini Nivasrao J Nivasrao Bapuso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24418 05.05.09	Indranagar, Bailhongal Tq, Belgaum

204522	Jadhav Sachin Sambhaji Jadhav S Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24477 11.05.09	4th Cross, Chalukyanagar, Badami Tq, Bagalkot
204523	Jadhav Sagar Chanrakant C Jaganath Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29038 05.05.12	Serve No 52/1, Shivadarsan ClyVidyanagarSaidpur, Kard Taluk Satara
204524	Jadhav Sanjay Gajanan Jadhav G Sitaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25034 02.07.09	H.No 1295, Sec No. VII, Shivkrupa BuildingVantamuri ClnyM.M. Extn, Belgaum.
204525	Jadhav Sarita Vasant Jadhav Vasant Mahadev	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28997 27.04.12	Ncc Office, CS No Rajaram Park , GajananMaharaj Ngr Karvir Kochapur
204526	Jadhav SatyajitRamchandra J Ramchandra Dnyandev.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24374 05.05.09	Gouri Sharkar Clinic, KMP Rd.Laxmi Nagar, Badami Tq, Bagalkot
204527	Jadhav Shamal Narayan Jadhav Narayan Maruti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23944 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
204528	Jadhav Sheetal Rajendra Vishnu Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30080 18.04.13	Vitthal Nagar, Satara, Patan
204529	Jadhav ShilpaShankar Rao Jadhav S R Baburao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27931 12.04.11	H.No.179, Nr. Muncipal Council, Nipani Chikodi Tq, Belgaum
204530	Jadhav Suman Ganapati Jadhav Ganapati Pamu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29042 05.05.12	No 324, Hargarpur Cari SankeshwarAt & Post Hukkeri Taluk, Belagaum
204531	Jadhav Umesh Subhash Subhash Shamrao Jadhav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25090 07.08.09	, Kavdigudda Rd, Manvi Tq, Raichur
204532	Jadhav Vaibhavi Vishwas Dharmaji Jadhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30510 19.06.13	At Post Khedashi, Paras Nagar, Room No. B-67/68, Tal-Ratnagiri, Khedashi
204533	Jadhav Vipul Tanaji Tanaji Hari Jadhav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24700 02.06.09	B.A.M. College Challakere Tq, Chitradurga
204534	Jadhav Vrushali Vishwas Jadhav Vishwas Ganpat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28987 27.04.12	KarandiAt & Post , Setara Taluk &
204535	Jagadale Rahul Hambirrao Hambirrao B Jagadale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24716 03.06.09	Ratnatray Bldg, S.T. Khot Clny, ShantinagarShamanewadi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204536	Jagadale Viraj Anil Jagdale Anil Narayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23713 02.04.09	C/o. SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204537	Jagadeesh Gurulingayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27919 12.04.11	Sangolli A/P, Bailhongal Tq, Belgaum
204538	Jagadeesh BheemappaSampaganvi Bheemappa T Sampaganvi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29882 17.12.12	At Post Sangankeri Tq, Gokak Belgaum
204539	Jagadeesh Mangannavar Somaraddi Mangannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26735 28.06.10	#806, Hanchinal At & Post, Savadatti Tq., Belgaum
204540	Jagadeesh. M Mallaiah. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24043 20.04.09	Mallahalli Mala, Alahalli, Kollegal Tq, Chamarajnagar
204541	Jagadeesha. L Lachhanaik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23862 09.04.09	# 1929/17, Nr. Last Bus Stop, Vidyanagara, Davangere
204542	Jagadheesh. D Doddakamaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25636 06.03.10	Baraka(V), Bukkapattana Post, Kortagere Tq, Tumkur
204543	Jagadish Sai Banna Pujari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27029 22.02.11	#4-5-150, Nr. Laxmi Theatre, Kanakanagar, Yadgir Tq &

204544	Jagadish Nayaka. M.R Rajanna. M.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24119 22.04.09	# 762, 8th Cross, 4th Main, TK Layout, Mysore
204545	Jagannath Sangunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30390 23.05.13	#E/39, Jogur(p), Gulbarga Jogur
204546	Jagatap Kiran Ramdas Ramdas B Jagatap.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24645 21.05.09	KHB No. 4, Behind Jamia Masjid, Bijapur
204547	Jagatap Manohar Dattatray. Dattatray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25298 27.11.09	# 1834/A, ?Prashashraya? Jatrat VesNipani Post Chikkodi Tq, Belgaum
204548	Jagdale Abhijit Sarjerao J Sarjerao Dadabhao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23785 04.04.09	Behind Busstand, Gajendragad Ron Tq, Gadag
204549	Jagdale Ajit Eknath Eknath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23857 06.04.09	# 07, EL-Bethel Bunglow, Ram , Nagar, NipaniChikkodi Tq, Belagum
204550	Jagdale Krushna Dattrao Dattrao Jagdale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2012	30619 28.08.13	At-Belther, Post-Yelki, Taluk-Kalamanuri, Hingoli, Maharastra Kalamnuri
204551	Jagdale Yogita Shivaji Shivaji Balahim Jagdale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28738 02.04.12	Shivajinagar, Madha, Madha Tq, Solapur
204552	Jagdishwar Baburao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28691 05.03.12	#275/A, Anandwadi Post, Bhatambra Bhalki Tq, Bidar
204553	Jagtap Jyosna Annaso Annaso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30491 13.06.13	At Post Gajabarwadi, Post Kunnur, Tq Chikkodi, Belgaum
204554	Jagtap Jyoti Vijay Jagtap Vijay Nanaso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27905 11.04.11	T.S.P.S.M. Ay. Medical CollegeSindagi Tq, Bijapur
204555	Jagtap Kirti RajDasharathrao Dasharath Rao A Jagtap	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29757 29.09.12	Someshwarnagar At Post, Baramati Tq, Pune,
204556	Jagtap Swapnil Sampatrao Sampatrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24945 10.06.09	V.B. Gingimath, M.B. Kalal Bldg, Nr Venkatesh Theater, Mundargi Tq, Gadag
204557	Jahagirdar Pradnya Ashok Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28913 26.04.12	A2/241, Mantri Chandak Park, Solapur Post, Taluk &
204558	Jahnavi Narayana Bhatta .K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30533 27.06.13	#R-12, 4th Cross, R-12 Gangotri Quarters, Mysore
204559	Jai Prakash Rathore Budh Ram Rathore.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24525 12.05.09	Balanagar, Behind Ayurveda College, Manvi Tq, Raichur
204560	Jaigoudar YellarlingMahadevappa Mahadevappa Y J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27180 18.03.11	Indi Rd. Nadgoua Adde, Nr. Teli Complex, Bijapur
204561	Jain Rahul Suresh Suresh Tilokchand Jain.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25536 04.03.10	Navnagar, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204562	Jaipal Reddy P Satyanarayan Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29178 14.05.12	Govt Hps , Azia Poor, Madwar Post, Maktal Yadgir TQ &
204563	Jaju TanmayShyamsundar Shyamsundar.S. Jaju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27108 17.03.11	Shiva Lalita Complex Boy's Hostel, Opp Siddharudh Math, Gumpa, Bidar
204564	Jalkote ShubhangiSangameshwar Jalkote S Navitnggapa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29696 06.07.12	Sai Krupa Nivas Nr. SBI AndurAt Post Tuljapur Tq, Osmanabad
204565	Jamadar Aftab Aziz Aziz Hasan Jamadar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29543 28.05.12	B-28, Room No 2, State Bank of India Clny, Sector-13, Nerul (East), Navimumbai

204566	Jambhale Saish Shamrao Jambhale S Vithal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24511 12.05.09	M.B. Kalal Lodge, Nr. Venkatesh Theatre Mundargi Tq, Gadag
204567	Jamdar Pranali Balkrishna Jamdar B Annaso.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24554 13.05.09	Nr Bedkihal Circle, Shanti Nagar, Shamanewadi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204568	Jamuna BA Ashwathaiiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29000 27.04.12	No 325, 13th Cross , 2nd Main Rd.Hoyasanagar Sunkadakatte Bangalore
204569	Janardhan Mamidi Narayana Mamidi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25482 03.03.10	Plot.No. 41, Jayraj Sali, Dharwad
204570	Janardhan Shetty Kurumbila Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25019 26.06.09	# 1-6-12A, Mission Hospital Rd, Shanthanada Resedency Taluk Office Rd Udupi
204571	Janardhana.H.T. Thukarama.H.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28137 26.04.11	No.153, Chowdeshwari Temple Rd, Halepalya Tiptur, Tumkur
204572	Jangale Vaibhav Sukadeo Sukadeo A Jangale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24644 21.05.09	KHB No. 4, Behind Jamia Masjid, Bijapur
204573	Janhavi. K A.V. Kailasam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25538 05.03.10	# 540, 8th Main Rd.Vijayanagar, Bangalore
204574	Janhavi.R.Urs B.R. Renukaraje Urs.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26240 23.03.10	# 1292/2, 5 A Cross, 6th Main, K.N. Extn, Yashwanthpur, Bangalore
204575	Jasmeen Lainad Nooralai Lainad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24198 24.04.09	Navanagar, Nr. Water Tank, Hungund Tq, Bagalkot
204576	Jasmeen.S.Akkalkot Sayyedbasha.I.Akkalkot.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24715 03.06.09	# 694, Sholapur Rd. Bijapur
204577	Javeriya Uzma Md Iqbal Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30458 05.06.13	Siddiqe Shah Taleem, H.No. 2-1-129, Nayi Kaman, Bidar
204578	Javid Momin Fareedsab Momin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30013 09.04.13	H.No. 1738, Momin Galli, Nr. New Bus Stand, hukkeri, Belgam
204579	Jayalakshi. M.S S.K. Mayannavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25052 09.07.09	# 7/8, 11th Cross, Gayathri Layout, K.R. Puram, Bangalore
204580	Jayalakshmi S Suresh G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29840 30.10.12	Vengidasseril, TC No. 10/852 (2), Kavallur Lane, Vattiyoor Kavu Trivandrum
204581	Jayalakshmi. G.P H.P. Puttaraju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28534 25.08.11	#147, 6th Cross, 1st Main Rd.B.M. Shree Nagara, Metagalli, Mysore
204582	Jayalakshmi. P Lakshmayya. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23745 02.04.09	H.No. 8-11-181/2A, NGO Clny, Raichur
204583	Jayalakshmi. S.R Rajashekarappa. S.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23878 09.04.09	Venkatappa Layout, Shanti Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
204584	Jayalaxmi Shintre Fhakhirappa C Shintre	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29433 23.05.12	Jawan nilaya Akki Oni, Navalgund at post & Tq, Dharwad
204585	Jayamma Hosamani Shivappa Hosamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28209 04.05.11	H.No. J-9 Staff Quarters, K.V. Campus, Dharwad
204586	Jayanna Kuri Rayappa.M.Kuri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23852 06.04.09	Karabar Oni, Magala Post, Huvinahadagalli Tq, Bellary
204587	Jayanna.B. Jadiyannanavar Basavantappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25380 02.02.10	Main Rd. Haunsabhavi Post, Hirekerur Tq, Haveri

204588	Jayanth. S Sreenivasamurthy. I.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27382 24.03.11	# 5, 7th Cross, 6th Main, Vinayaka Nagar, Vontikoppal, Mysore
204589	Jayaprakash.A.N. A. Nagarajachari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27084 15.03.11	No.3682/A58, Gayatri Krupa, Taralabalu Extn, Davangere
204590	Jayaram Mudya . T Balakrishna Mudya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1973	26745 02.07.10	Nadar House, Kotekar Village, Mangalore Tq., D.K.
204591	Jayasheela G Gopalakrishna T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30393 23.05.13	#713, 22nd Main, Padmanaba Nagar, Bangalore
204592	Jayashree Nagappa Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30616 26.08.13	#8-74, Kalmud Rd.Kamalapur, Gulbarga,
204593	Jayashree Badole Premdas Miithu Badole	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29195 14.05.12	No 20 , 1st A Main, Gururaj Layout , Dodaane Kundi, Marathahalli Bangalore
204594	Jayashree Hosagoudar Iranagouda Hosagoudar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30372 21.05.13	At Post Salahalli, Tq-Ramdurg , Belgaum, Salahalli
204595	Jayashree K S Sreenivasa Murthi K S R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28829 16.04.12	Rajana Halli SeetammaGovt Girls P U College P J Extension, Davangere
204596	Jayashree N Patil Nemagouda B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29187 14.05.12	Nasalapur At Post, Raibag TQ, Belgaum
204597	Jayashree Parshi Tammanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30167 25.04.13	Mahalaxmi Urban Bank, Tq- Gokak, Belgaum , Mudalagi
204598	Jayashree Patil Dattatraya Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30395 24.05.13	H.No 41, Biddapur Clny, Ambika Nivas, Gulbarga
204599	Jayashree RajendraPatil Rajendra N Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28510 08.08.11	F-14, Century Park Appartment, Vidyagiri, Dharwad
204600	Jayashree. K Kenchaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24659 22.05.09	BB-5B, Hutta Clny, Bhadravathi Tq, Shimoga
204601	Jayashree. M.H Hanumantappa Mundasab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24052 20.04.09	# 416/20/2A, Vidyanagar, Masari, Hatageri Naka, Gadag
204602	Jayashree.K.Raykar Kamalakar. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25804 12.03.10	H.K. Rd. Shiralkoppa Post, Shikaripur Tq, Shimoga
204603	Jayashri Ulagaddi Mahadev N Salagare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29571 12.06.12	Ankali At Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204604	Jaybhay Abhishek Mahadeo Jaybhay M Gokul.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24816 05.06.09	Gouligalli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
204605	Jeevan M Mahadevaiah M K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29533 28.05.12	#2/192, Nr. Watertank, VinayakaBadavane, K R Nagar At Post & Tq, Mysore
204606	Jeevitha S.P Prakash	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30141 22.04.13	EWS-478, 13dth Cross, Kuvempu Nagar, Hassan, Hassan
204607	Jeneviva Pinto J.B. Pinto.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24891 08.06.09	J.J. Cottage, 1st Cross, MallikarjunaNagar Sakaleshpur, Hassan
204608	Jengate Manisha Tanaji Tanaji M Jengate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24288 29.04.09	Mahavir Nagar, Jamkhandi Tq, Bagalkot
204609	Jha Jyoti Mahanand Mahanand Jha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29909 10.01.13	WCL Clny No. B/39, Officer's Clny, D O C Mines Chandrapur Maharashtra

204610	Jiddimani NagnathMaruti Rao Maruti Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25140 25.09.09	# 5-4-20, Bus Stand Rd.Alalnd Tq, Gulbarga
204611	Jireenly Laloo Yoly Tariang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24982 12.06.09	H.No. 313/3b, 6th Cross, 6th MainVenkatapura Extn, 1st Block Koramangala, Bangalore
204612	Jnaneshwari. D Dasaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25845 12.03.10	# 2205, Kalkunike, K.R. Nagar, Bye PassRd Hunsur Tq, Mysore
204613	Jobin Jacob M.T. Jacob	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28260 17.05.11	C/o Boy's Hostel, Amrutha Ayurvedic Medical College Chitradurga
204614	Jodahari Sumit Suresh T Suresh Nagnath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27196 19.03.11	19-4-622, Sri Datta Nivas, Naubad, Bidar
204615	Jogade Latika Devandra Devandra.M.Jogade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24503 11.05.09	Kalidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
204616	Joseph Jose P.V. Jose.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25871 12.03.10	Ponnanakunnel House, Kanjiramattom RdThodupuzha East, Idukki
204617	Joseph. K.C Chakachan. K.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25778 12.03.10	Joy Estate, Sangameshwarapet Post, Kumragodu, Jamiya Masjid,
204618	Joshi Vilas Jagdish Jagdish D Joshi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	29784 12.10.12	Ward No. 2, Wardgaon Rd.Seloo At Post & Tq, Wardha
204619	Joshi Vinay Vinayakrao J V Waman Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24663 22.05.09	Girls Hostel, Mamadapur Bldg, College RdBadami Tq, Bagalkot
204620	Joshi Vivekanand Vishwas Joshi Vi Ramchandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24446 05.05.09	Pushp Kunja, Behind SUCO Bank, 2ndCrossBT Patil Nagar, Koppal
204621	Jothilakshmi.J. Jayamurthi. V.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26654 11.05.10	Sri Sri College of Ayurveda, 21st KM, Kanakapur Udayapura, Bangalore.
204622	Juliet Elizabeth Castelino Casmir Castelino	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29560 12.06.12	Bethanyprovin Cialate, Vamanjoor Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
204623	Jundale Manisha Mohan Jundale Mohan Bhagvan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25279 06.11.09	Kallidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
204624	Jyothi Lokesh. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24774 04.06.09	# 7/1/135, Abba Garden, Matadakani, Rd. Bolor, Ashok Nagar, Mangalore Tq Dakshina Kannada
204625	Jyothi Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25469 03.03.10	Tavaragera Post, Kustagi Tq, Koppal
204626	Jyothi P. Narasimha Adiga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25978 18.03.10	Ottigatta Rd. Sharada Farm, Nidige Tq, Shimoga
204627	Jyothi Shridhara Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26902 21.09.10	Jyothi Nilaya, Madwanagara, Kodavoor Post, Udupi Tq &
204628	Jyothi Pralhadrao Desai Srinivas Masalekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23839 06.04.09	# 20/1, Pranam, 1st ?D?Cross, Marenahalli, Vijayanagar, Bangalore
204629	Jyothi T MTB Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29339 18.05.12	No 5/1, Veg market Rd. CM Nagar, Layout, Hiruyur Tq, Chitradurga
204630	Jyothi. C D. Chikkathimme Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25076 29.07.09	# 149, 2nd Cross, 2nd Main, S.P. Layout, SunkadakattiVishwaneedam Post, Bangalore
204631	Jyothi. L L.J. Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25470 03.03.10	# 289 F1, F.No. 48, 8th Cross, RenukaNagar, Thalar Rd. Bellary

204632	Jyothi. T.M Thirthappa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25673 12.03.10	# 316, EWS 2nd Cross, 5th A Main, Kengeri Satellite Town, Bangalore
204633	Jyothi. U.N U. Ningappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24056 21.04.09	Ratnakar Layout, Abbalagere, Shimoga
204634	Jyothi.M. Manjunath.M.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28131 26.04.11	No.883, 10th Cross, 4th Main, Sharadha Devi Nagar, Mysore
204635	Jyothi.S. Ravindra Angadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28127 26.04.11	No.11-66 (M)3, 1st Cross, Anantha Krishna Nagar, Kuthpady, Udupi
204636	Jyothsna.L.Shriyan Loknath.G.Shriyan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24657 22.05.09	Poojari (H), Korala Gudda Hejmady, Udupi
204637	Jyoti Mallikrajun Maitri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29116 07.05.12	No 4-1-26, Sharanagara , Aland At Post & Taluk Gulbarga
204638	Jyoti Desu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29642 14.06.12	Lakshman Nayak Tanda, Kalagi Post, Chitapur Tq, Gulbarga
204639	Jyoti Basavaraj J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30123 19.04.13	P.O. Hiroli, Tq-Aland, Gulbarga, Hiroli
204640	Jyoti Mahadevappa Angadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30206 29.04.13	P.O.Kakubalu, Tq-Hospet,
204641	Jyoti Shivaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24734 03.06.09	Humnabad, Jyoti Nivas, Kollur Rd, Humnabad, Bidar
204642	Jyoti Raghavendra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25429 26.02.10	# 18-3-230, Malagonda Clny, Chidri Rd. Bidar
204643	Jyoti Bhadrapur Yallappa.C.Bhadrapur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24751 04.06.09	Sharada Clny, Annigeri Post, Navangund Tq, Dharwad
204644	Jyoti Chougala Appasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24349 29.04.09	Basav Nagar, 4th Cross, Rabkavi Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
204645	Jyoti Deshpande Govindrao.B.Deshpande	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23908 09.04.09	# H.no. 139/2, Nr Nagareshwar Temple Galli, Bagalkot
204646	Jyoti Devangamath Musangaswami H Devangamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28830 16.04.12	Sulebhavi At & Post, Hungund Tq, Bagalkot
204647	Jyoti Gubbannanavar Shankarappa Gubbannanavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26236 23.03.10	# 108, High School Rd.Rajendra Nagar, Haveri
204648	Jyoti Halli Basavaraj.S.Halli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24165 24.04.09	# 843, Lakkundi Post, Gadag
204649	Jyoti Kattimani Saidappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28604 19.10.11	Plot.No. 62, Basaveshwar Nagar, Talikoti Muddebihal Tq, Bijapur
204650	Jyoti Malawade Narayan Malawade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23828 06.04.09	Jawali Bazar, Mahalingpur Post, Mudhol Tq, Bagalkot
204651	Jyoti Mulaje Shrishaal Mulaje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27361 24.03.11	Akkamahadevi Nagar, Gulbarga Rd, Afazalpur Tq, Gulbarga
204652	Jyoti Patil Shivanagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24915 09.06.09	?Bhadyashree? Talikoti, Muddebihal Tq, Bijapur
204653	Jyoti Patkar J.P. Patkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24642 21.05.09	H.No. 63, Cross Kavya Shree NilayaOSM 1st Main Cross, Old Town Bhadravathi Shimoga

204654	Jyoti Sajjan Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26254 23.03.10	B-23, Shanti Nagar, Bijapur
204655	Jyoti Sunagad Shivalingappa G Sonagad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29043 05.05.12	No 25-33417, KhanattiAt & Post Gokak Taluk , Belagaum
204656	Jyoti Topalakatti S.H.Topalakatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24603 18.05.09	# 139/N, I.G. Kubusod Bldg, ShivaGanesh Kelgeri Rd. Dharwad
204657	Jyoti Vishnu Talekar Vishnu L Talekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30366 21.05.13	CTS No 6763 ?Padmanabha?Anjaneya Nagar, Belgaum
204658	Jyoti. S Siddaiah. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25224 13.10.09	# 1027, 10th Cross, WCR 2nd StageMahalaxmipuram Rajajinagar, Bangalore.
204659	Jyoti.C.Talikota Chanaveerappa Talikota.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24896 09.06.09	Vidyanagar, Ashram Rd.Opp BLDE Hospital, Bijapur
204660	K Channabasavana Gouda K Somashekhara Gouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30280 07.05.13	Hatcholli Post, Sirguppa Tq, Bellary , Hatcholli
204661	K Naresh K Venkati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29793 12.10.12	Malegaon Post, Mandal Kubeer Via Bhainsa, Adilabad
204662	K. Anil Kumar Krishnappa. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26244 23.03.10	Hosarambika Nilaya, 1st Cross, Prashanth Nagara, Kelagate, Chitradurga
204663	K. Spoorthi Vignesh Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26592 22.04.10	No.6-5-105/1, 5th Cross, Gandhinagar, Mangalore-Tq., D.K.
204664	K.M. Pallavi Maheshwari Shailendra Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27502 26.03.11	Sect.No. 63A, Plot.No. 11, BrundawanSector Navnagar, Bagalkot
204665	K.M. Roopam Pal Rajendra Pal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27077 15.03.11	Basavanagara, Ilkal A/P, Hungund Tq. Bagalkot
204666	K.M. Sapana Singh Pramod Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25086 04.08.09	# 2, 33rd Main, Ashtlakshmi Layout, Puttenhalli Main Rd. J.P. Bangalore
204667	K.M. Sheetal Mahesh Chandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26821 24.08.10	Mallige Utada Mane, Legislators Home, Bangalore
204668	K.M. Vibhuti Sharma Muneesh Kr Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28116 25.04.11	C/o SDM College of Ayurveda, BM Rd, Thanneruhalla, Hassan
204669	K.V. Sriharsha Venkatesh Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27073 15.03.11	No.136, 4th Cross, 4th Main Rd, GauravNagar J.P. Nagar 7th Phase, Bengaluru
204670	KM Anamika Gupta Subhash Chandra Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30237 30.04.13	H.No. 116, Kashipur, Bhadohi, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi (SRN)
204671	KM Priyanka Singh Santosh Kr Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30264 04.05.13	Chacheri Mode, Chunar, Bhudhkuda Post, Mirzapur
204672	Kabbingoda Sheetal.S.Kabbin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25055 15.07.09	Mathrushree, 8th C Cross, Subbanna GardenKVV SchoolVijaynagar, Bangalore
204673	Kacchi Nilofar Jafarali. J Abdul Razak Kachhi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24786 04.06.09	H.No.7, EL Bethel, Ramnagar Nipani PostChikodi Tq, Belgaum
204674	Kachale Sadhana Karbhari Karbhari Sawaleram Kachale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25397 23.02.10	CTS No. 2119/A2, Bhatakande Galli, Belgaum
204675	Kadagave Anuradha Kadagave Sukumar Swakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29635 14.06.12	Ekata Nagar, Kagal Kolhapur



204676	Kadakol Vaidhav Shantesh Shantesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24115 22.04.09	Bapuji Campus, TR Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
204677	Kadam Amruta Jayprakash Kadam J Mohadeo	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24819 05.06.09	Bhagya Krupa House, Sanskriti Clny, Nr. Mallikarjun Ashram, Bijapur
204678	Kadam Ashwini Tanajirao Tanajirao Krishnrao Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	25375 28.01.10	Opp. NagurAyurvedic College, Bijapur
204679	Kadam Hemant Chandrakant Kadam C Bandu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23807 04.04.09	Yadanwadi, Malikwad Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204680	Kadam Niteen Krishnat Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30024 10.04.13	At Post-Malgoan, Tq &Satara
204681	Kadam Satish Damu Kadam Damu Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29791 12.10.12	BoravahirAt Post, Dhule Tq &
204682	Kaddur Smita Prabhakar Prabhakar N Kabbur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23718 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204683	Kahiriya Bhavin Chhaganlal Chhaganlal Kathiriya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26965 10.11.10	#1745, Pawan Garden, 8th A Cross6th Main RPC Layout Vijaynagar, Bangalore
204684	Kahkashan Rafeeq Saudagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26717 15.06.10	#5-1-41/1, Millat Nagar, Saudagar Nursing Home, Yadgir Tq.&
204685	Kajale Sushrut Nitin Nitin Murlidhar Kajale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25201 09.10.09	B.A.M. CollegeChallakere Tq, Chitradurga
204686	Kakade Amol Krishna. Krishna M Kakade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24675 25.05.09	Hessarghatta, Hurulichikanahalli, Bangalore
204687	Kala S G Srinivassappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29294 17.05.12	Giriyappa Nilaya, Hormovu main RdRamamurthy nagar, Doravani nagar, Bangalore
204688	Kalaburgi Nita SharanaBasappa Sharan B S Kalaburgi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28923 26.04.12	No 1347/1, Bharat Gau, Akalkot At & Post, Akalkot Taluk Solapur
204689	Kalagi Rashmi Vijaykumar VijayKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29354 21.05.12	No D 395, Shantineketan Clny, Navanagar post, Hubli Tq, Dharwad
204690	Kalarashmmi. B.M B. Muralidhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28609 05.11.11	# 204, Devraj Urs Layout, ??Block, Davangere
204691	Kalarathna. P.S Prabhu. H.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24235 28.04.09	# 827, 2nd A Cross, 8th E Main, 1st Block Kalyanagar, Bangalore
204692	Kalburgi Geeta Sharanbasappa Kalburgi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26730 28.06.10	Nr. Rural Police Station Rd.Extension Area, Bagalkot
204693	Kalburgi VijayalaxmiSiddharam Siddharam S Kalburgi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28924 26.04.12	Shiva Smitri Gurmitra HousingSociety Station Rd Akalkot At Post & Taluk Solapur
204694	Kale Dhananjay Govardhan Kale G Dashrath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24598 18.05.09	# 139/N, I.G. Kubusod Bldg, Mahant Nagar4th Cross, Dharwad
204695	Kale InamaddarFairoj Husenlal Husenlal Kallinamdar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26583 19.04.10	D.No.16, Nr.er Station Rd.Sindagi, Naka, Bijapur.
204696	Kale Nilesh Shivaji Shivaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24278 29.04.09	Plot.No.7, EL-Bethel Bunglow, Ram Nagar Nipani Tq, Belgaum
204697	Kale Pravin Gopalrao Gopalrao Jaywant Kale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24821 05.06.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag

204698	Kale Sandip Ramkrishna Kale RJanardhan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23734 02.04.09	SHES AMC<Sedam Rd. Gulbarga
204699	Kalidbaba M Moula Sab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29425 23.05.12	No. 88 Police station, Mudgal at post, Lingusugar Raichur
204700	Kallappa Hanchinamani Basappa Hanchinamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27631 01.04.11	No.1998, Basavanagar, Hirebagewadi, Belgaum
204701	Kallesh. G.B G.M. Basavarajappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25388 10.02.10	# 678, F/74, 3rd Main, 2nd CrossKalleshwara Nilay Vidyanagar, Davangere
204702	Kalloseppa Gajiwaddar Tippanna Gajiwaddar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29820 18.10.12	W No.-, Naglipeth, Guleda Gudda At Post, Badami Tq, Bagalkot
204703	Kalmeshwar Teli Chandrashekar.R.Teli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24698 02.06.09	Tergaon Post, Haliyal Tq, Karwar , Uttar Kannada
204704	Kalpitha. E Eshwarappa. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25452 02.03.10	# 366, 2nd Sector, B Type, Kudremukh, Mudgere Tq, Chikkamagalur
204705	Kalyanamma Ashok Ause.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25718 12.03.10	# 1-13, Basavakalyan, Bidar
204706	Kalyani Kallatti Satigouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30489 13.06.13	4th Cross, Vivekanand Nagar, Gokak, Belgaum
204707	Kalyankar Sudhir Kalyankar Sopan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28735 02.04.12	Kalamb (Walchandnagar), Indapur Post & Tq, Pune
204708	Kamal Sharma Prem Sagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29517 26.05.12	# 1/191, Machli tola, Fateh Garh, Farrukhabad Tq &
204709	Kamaldip Kasar Vilasrao Gundopant Kasar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30093 18.04.13	Main Rd.A/p Ter, Tal &Osmanabad
204710	Kamalia AshishDevjibhat DS. Kamalia	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28994 27.04.12	No 662(8), Saranagar cly, PanchayatChowk Pavti Kuwa, Ghoghla
204711	Kamaraj. N Narasimhaiah. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24592 16.05.09	Maruthi Nagar, Behind KEB, Madhugiri Tq, Tumkur
204712	Kamath Archana Ganesh K Ganesh Padmanabh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23780 03.04.09	Gouli Galli, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204713	Kamaxi Wagmode Amasidda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30454 04.06.13	#95, ?Mallikarjun Nilaya?, PoornimaLayout, Sangolli Rayanna Nagar, Dharwad
204714	Kambar RajashreeMallinath Mallinath Kambar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30605 19.08.13	CIDCO N1, Town Centre, C-5 Plot No-7, Aurangabad, Maharashtra
204715	Kamble Amit Rajkumar Kamble RajKr. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24282 29.04.09	Vijaya Niwas, Patil Lane, Ainapur PostAthani Tq, Belgaum
204716	Kamble BalasahebBhaskarrao Kamble B Anant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25022 29.06.09	H, No 1295, Sec No. VIII(7), ShivkrupaBuilding, Vant Mury Cly M.M. Extn, Belgaum
204717	Kamble Dattatray Dagadu Kamble D Baban.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23954 13.04.09	Nr. Early Tree, Jogimatti Rd, 4th Cross, Chitradurga
204718	Kamble Kapil Ramappa N Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	29797 12.10.12	Bhim Shakti Nivas, Jepi Plot, Shanti NagarAthani At Post & Tq, Belgaum
204719	Kamble Komal Shridhar Kamble Shridhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25117 10.09.09	# 1586, 6C, Hampinagar, Vijayanagar, Bangalore

204720	Kamble Manju Baban Baban Krishna Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29018 27.04.12	Shivaji Nagar MadhaAt Post & Taluk, Solapur
204721	Kamble Namrata Dnyanoba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28476 18.07.11	H. No. 19-2-43, Anand NagarUdgir Rd. Bidar
204722	Kamble Pavan Mohanrao. Mohan Balbhim Kamble.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25271 03.11.09	Behind Charantimath, Hundakargalli, Bagalkot
204723	Kamble Pradnya Santram Kamble S Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25376 01.02.10	Shahunagar, Bedkihal Post, Chicidi Tq, Belgaum
204724	Kamble Santosh Yuvraj Yuvraj Sadhu Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29089 05.05.12	No 2/2, Mukund Rao Ambedkar Gruh Nirman Society Vijapur Road Solapur
204725	Kamble Suchita Dnyanoba J Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28306 25.05.11	Govt Nilmbika, P.U. College, AmbedkarCircle Basava Kalyan, Bidar
204726	Kamble SujataLakshmanrao Lakshmanrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27131 17.03.11	# 9651/36, Muchlum Rd.Basavakalyan Tq, Bidar
204727	Kanakraj TaiguttemmaBasur Tai Guttemma Basur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24562 13.05.09	Haveri Rd. Tilavalli Post, Hanagal Tq, Haveri
204728	Kanchan.D.Patel Damodar.P.Patel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28427 20.06.11	# 707, Banboo Bazzar, Davangere
204729	Kanchana Kankanwadi Anil GKankanwadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24570 14.05.09	Block C/12, Main Rd.Mahantesh Nagar, Belgaum
204730	Kaneez. U.A Hasanabba. U.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24959 10.06.09	# 843 A, Adimarbettu House, Ujire, Belthangady Tq, Dkashina Kannada
204731	Kanhadkar VishnuBalasaheb Balasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25011 23.06.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
204732	Kapil Kumar Shivaras Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27749 06.04.11	#3-97, Kalsar Tugaon Wadi, Bhalki Post & Tq, Bhatambra, Bidar
204733	Kapil Reddy K.S. Krishna Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29992 08.04.13	At Post-Rajola, Tq-Basavakalyan, Bidar, Rajola
204734	Kappally Smitha T. Mohanan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26574 16.04.10	#1093, 3rd Main, BEL Layout, 2nd Block, Vidyananyapura, Bangalore
204735	Kapse Smita Gangadhar Gangadhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24667 22.05.09	Shanti Niwas, Inamdar Clny, BLDE Rd. Bijapur
204736	Kara Basu Talikoti Chandrashekar K Talikoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28960 26.04.12	At & PostSindagi Taluk Bijapur
204737	Karad Sandeep Bhausahab Karad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29958 06.04.13	At Post-Dhorjalgaon, Taluka-Shevgaon Ahmednagar
204738	Karan Hitesh Vinod Vinod Karan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29956 06.04.13	A/2 Agast Niwas Shivaji Nagar, Tembepada Rd. Bhandup (West)
204739	Karenavar JayashriBalappa. Balappa A Karenavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26047 19.03.10	# 20, Draupadi, 6th Cross, Srirampuram, Bangalore
204740	Kareyya Veerabhadrayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25461 02.03.10	Balaganur Post, Sindanur Tq, Raichur
204741	Karibasappa.K Krishna Murthy.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26769 09.08.10	Hadagali Rd. 12th Ward, Harapanalli Tq., Davangere

204742	Karimulla Ghani Mogal Peda Mastan Mogal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29547 29.05.12	# 1-5-109, Prabhakar Clny, Opp D.L.T.C, Sri Kakulam Post & Tq,
204743	Kariyappa Hosalli Ganeshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30204 29.04.13	At Post Muttur, Taluk Byadagi,
204744	Karole Sudarshan Karole Appasaheb Shripal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27843 08.04.11	C/o S.S.R AMC Boy's Hostel, Inchal, Soundatti Tq, Belgaum
204745	Karoshi Shrutika Subhash Subhash M Karoshi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27692 05.04.11	C/o Shri.B.M.K. AMC, Belgaum
204746	Karpe NaliniRavindra Karpe Ravindra Viswanatha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	28343 27.05.11	No.35, Laxminagar, Nr. Police Station, Bagalkot
204747	Karthik Kkambaram Ekambaram. P.D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25014 25.06.09	Sabari Complex, Bazaar Street, Nanjangud Post, Mysore
204748	Karthik. G.K Kraswamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25515 04.03.10	Behind Middle School, Kalguthi Extn, Hosadurga Tq, Chitradurga
204749	Karthik. H.V Vasudeva. H.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24906 09.06.09	Herategadde, Kalkere Post, Koppa Tq, Chickmagalur
204750	Karthik. S S. Shekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25886 12.03.10	# 16, 8th A Cross, Ejipura, Viveknagar, Bangalore
204751	Kartik.N Chandershekar.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27934 13.04.11	No.2-15-63, Mahaveer Circle, Gangavathi Taluk, Koppal
204752	Karuna Vernekar Chandras L Vernekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29597 13.06.12	Guru Aai, Opp Samaj Pustakalay, Shivaji Rd. Gandhi Chowk Dharwad
204753	Karwasra Kanchan Yogiraj K Yogiraj Govardhan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24364 30.04.09	B.A.M. College Bapuji Campus, T.R. Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
204754	Kashilingayya Gurusiddayya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28725 02.04.12	Toladinni, Kamanetagi Post, Shorapur Tq, Yadagiri
204755	Kashinath Lokhande Dondiba	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29804 12.10.12	I-3/7, Indira Nagar, Afzalpur At Post & Tq, Gulbarga
204756	Kasturi.B.Devaramani Bharamappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24902 09.06.09	C/o. Anil.S.Bastawade, Nipani Post, Raibag Tq, Belgaum
204757	Kate Amol Vishnu Vishnu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28334 25.05.11	M.G. Housing Clny, Dharwad Bypass Rd, Bailhongal Tq, Belgaum
204758	Katheeja Kubra Mahaboob Basha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28431 20.06.11	# 6, B.No. 4th Street, Ulsoor, Bangalore
204759	Kathyayini Krishna Shettigara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27786 07.04.11	#2-138 A, Hengavali At & Post, Kundapura ? Tq, Udupi
204760	Katkar MaheshkumarMaruti Katkar Maruti Shrirang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24474 11.05.09	BVVSBoy's Dental Hostel, Bagalkot
204761	Katte Basava.H. Dodda Rudrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27734 06.04.11	Santepete, Karur Post, Siruguppa Tq, Bellary
204762	Katve Vaishali Parshuram Parshuram Vithal Katwe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24998 17.06.09	D.No. 1763, 2nd Main, 1st CrossVinobanagar, Davangere
204763	Katwal Aditya Ajit Kotwal Ajit Dattatray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25070 22.07.09	# 10-2-310-13/A, Syndicate Bank Clny, Manvi Tq, Raichur

204764	Kaulage Nitin Mahadev Kaulagi MaBaliram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23781 04.04.09	NN, Nav Nagar, Behind Friend Club, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204765	Kavchale RohiniVahangounda Vhangonda V Kavchale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24744 03.06.09	Bhavani Nilaya, Akki Clny, Ashram Rd. Bijapur
204766	Kaveri Sayabanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30112 19.04.13	H.No. 9-587-7-110, Kaveri Nivas, DeviNagar, Aland Rd. Gulbarga
204767	Kaveri Sharanabasapa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28826 16.04.12	# 4-601/71F6/A, Nr Shiv Mandir, Busaweshwar Clny, Gulbarga
204768	Kaveri Ganiger Venkappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30203 29.04.13	D.No. 174/2/6, Shivanagar Last Cross, Gokak Talk, Belgaum , Gokak
204769	Kaveri MR M. Ravindra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28887 20.04.12	No. 24 Bank Clny , Thindlu , Vidyaryanapura Post Bangalore
204770	Kaveri Samage Adinath T. Samage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27904 11.04.11	Harugeri At & Post, Raibag Tq, Belgaum
204771	Kaveri. B Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24053 20.04.09	Mengasandra, Bukkasagar Post, Hosadurga Tq, Chitradurga
204772	Kaveri.S.K Kattebasappa .S.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29979 06.04.13	Teacher Nr. Maremma Temple, Basapura Rd. Rampura
204773	Kavita Umakanth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28720 30.03.12	17-3-372, Gandhi Nagar Clny, Mailoor Rd. Bidar
204774	Kavita Butali Sadashiv K. Butali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27669 02.04.11	Nr. Siddeshwar Temple, Bijapur Rd, Athani Tq, Belgaum
204775	Kavita Dashavant C K.Dashavant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28507 02.08.11	# 80/41, Solapur Rd. Bijapur
204776	Kavita Doranhalli Basavaraj Doranhalli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29207 14.05.12	No 170, Khb Clny, Solapur Rd. Bijapur
204777	Kavita Hiremath Chandrakant Swami.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24760 04.06.09	C.P. Hiremath Librarian, Kalyan Nagar, Sindagi Tq, Bijapur
204778	Kavita Kotagi Shivanand Pattan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29668 19.06.12	LIG-98, Ashok Nagar, Belgaum
204779	Kavita Kumbar Irappa Kumbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28576 19.10.11	# 1455, Nekar Street, Bilgi At & Post, Bagalkot
204780	Kavita Mudagalla Somanath Mudagalla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	29537 28.05.12	Deepa Medical Store, Gandhi Circle, Vartur Main Rd. Bangalore
204781	Kavita Naduvina Mani Ashok H Naduvinamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29729 16.08.12	Gani at PostJamakhandi Tq, Bagalkot
204782	Kavita Rathod Narasing Rathod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23883 09.04.09	T-6-208, KPC Clny, Shaktinagar, Raichur
204783	Kavita. NRamchandra Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24394 05.05.09	Vajjarmatti Village, Mudhol Tq, Bagalkot
204784	Kavitha M G Govindaraju S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29783 09.10.12	# 409, 17th Cross, 1st Main, Arvind Nagar, Mysore
204785	Kavitha. A Thippeswamy. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23887 09.04.09	HC 37, SP Office, DSP Nr DurgammaTemple, Gandhi Nagar, Bellay

204786	Kavitha. B.P Basavanagouda. B.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23754 03.04.09	Udayarani Nilaya, Hirekerur Rd.Masur Post, Hirekerur Tq, Haveri
204787	Kavitha. E P. Ekambaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25599 06.03.10	# 2070, 7th Cross, K Block, Kuvempunagar, Mysore
204788	Kavitha. K.S Siddappa. K.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27338 23.03.11	Shambulinga Khadhi Village, IndustriesGopishetty KoppaGopala, Shimoga
204789	Kavitha. K.SSomashekarappa. K. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23797 04.04.09	Kowli, Thagarsi Post, Shikaripur Tq, Shimoga
204790	Kavitha. M.V Narayana Sway. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25374 28.01.10	# 86, Babarao Layout, Malur, Kolar
204791	Kavitha.C.Noorandevramath Chandrashekar N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25962 18.03.10	Nr. Doddapete, Kumbargalli, Ranebennur Tq, Haveri
204792	Kavya Prabhugouda B Siddareddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30052 16.04.13	House No. 8-11-40, Keb Rd. , Gerjey House, Bidar
204793	Kavya B.S Shivanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30152 24.04.13	Nr. I.B. Konanur, Arkalgudu-Taluk, Hassan- , Konanur
204794	Kavya BM Maruti Kr BH	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29434 23.05.12	No 381, Sri Aravinda Higer Primery SchoolKucchappana pete, Doddaballapur Bangalore
204795	Kavya Bharatesh Bharatesh A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29243 15.05.12	Muktha Nr. Chaturmukha Jain Temple , Daan Ashaala Karkala Udupi
204796	Kavya S Somashekarappa B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30189 26.04.13	H.No. 6, Chikkajajuru-2, Hollakere Tal, Chitradurga , Chikkajajuru
204797	Kavya Shree. H.L Lakshmi Narayana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25990 18.03.10	Vidyanagar 1st Cross, Tiptur Tq, Tumkur
204798	Kavya Shree. K Krishna Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23996 18.04.09	Kalasinakere Street, Belur Tq, Hassan
204799	Kavya. D.R D.K. Ramachandraiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24038 20.04.09	# 487, 3B, 7th Cross, S.S. Nagar, Mysore
204800	Kavya. K.R Ranganathappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25639 06.03.10	Kanchiganahalli, Sirsi Tq, Tumkur
204801	Kavya. N Nagarajan. G.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25494 04.03.10	# 945, 8th Cross, 13th Main Rd, Srinivasanagar 2nd Stage, Bangalore
204802	Kavya.M Y. Manjunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26846 31.08.10	Taluk Social Welfare Department, Mundargi Tq, Gadag
204803	Kavya.S.R. Seetharama.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27702 06.04.11	Sri Raksha Ranga Rao Nagar, , Daddalkad Mangalore Tq, D.K.
204804	Kavyashree. H.S Hanumappa.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24545 13.05.09	# 63, Govt. Hospet Rd. OSM 1st MainCross, Bhadravathi Tq, Shimoga
204805	Kawade Smita Shakuji KawadeShakuji Yashwant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27436 25.03.11	Ron Gadag Rd, Ron Tq, Gadag
204806	Keerthan Jagadish Jagadish. M.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24265 28.04.09	# 1-134, Rayee Village, Rayee PostBantwal Tq, Dakshina Kannada
204807	Keerthana RV R Venkataramana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29240 15.05.12	No 18 Manasa House, Puttur TQ Nellyadi Dakshina Kannada

204808	Keerthana. N B. Narasimha Achar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26667 17.05.10	# 1-192(1) Ashraya Moodugopadi, Koteswar Post, Kundapur Tq, Udupi
204809	Keerthi Punja Ravindra Punja	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30143 22.04.13	Nr. Telephone Exchange, Post Kannur, Dakshina Kannada, Mangalore
204810	Keerthi.S.Sankpal S.N. Sankpal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25454 02.03.10	# 177, 22nd Main, 12th A Cross, Padmanabhanagar, Bangalore
204811	Keerti Sharanappa Hadnoor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27349 24.03.11	Nehru Chowk, S.B. Tempel Rd, Shahabad, Chittapur Tq, Gulbarga
204812	Keerti Sadashiv Ganapati Kolhapure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27666 02.04.11	#2/3, Behind IB Bidar Rd.Humnabad Tq, Bidar
204813	Keerti Rachotiyavar Virapakshsiya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25443 02.03.10	RR-7576, Mouneshwar Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
204814	Keertishree Samaje Kuber Appaji Samaje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30090 18.04.13	Kuber Appaji Samaje, A/p Nasalapur, Tal Raibag, Belgaum, Naslapur
204815	Kempavva Kullur Vishnu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28715 30.03.12	Nallanatti, M.P. Nallanatti, Belgaum Gokak,
204816	Kenjale Ragini Kenjale Sadashiv Dhondi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27918 12.04.11	Nanda Gokul, III Cross, Gavi Math, Gavishree Nagar, Koppal
204817	Kennedy Singh Thiyam Yaima Singh Thiyam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	29711 31.07.12	Landhoni Bhavan, Sadonmore, Chetanyapur New Rangia, Matigara, Shnmandir Darjeeling
204818	Keny Krutika Narendra Narendra Jayram Keny	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29127 07.05.12	No 130, Jayram Palace Pg Marg , Bhandar wada, Malad (w) , Mumbai
204819	Keshavan. S Yogi Shivanandar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25869 12.03.10	# 49/1, 7th Main, 3rd Block, TR Nagar, Bangalore
204820	Keshavaraj. B B. Padmanabha Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25056 16.07.09	# 168, 9th F Main Rd, Mazdid-E- Mouzaum, BTM Layout I Stage, Bangalore
204821	Keskar Pooja Deepak Keskar Deepak N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24408 05.05.09	R.S. Hiremath Bldg, M.B. Datar Clny, Hospet Rd. Koppal
204822	Khadija Parveen Mohamed Mursaleen.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26234 23.03.10	# 13, 1st Cross, Vijaynagar, BEMLNagar, KGF Bangarpet, Kolar
204823	Khajjannavar Santosh kumar Sidveer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24331 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204824	Khamarunissa Haji Dadabasha A Haji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28952 26.04.12	Haletorgal At & Post , Ramdurg Sawant Chawl Maratha Colony, Dharwad
204825	Khamkar Hanumant Laxman Laxman Bhau Khamkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30186 26.04.13	G-3, Audumbar Villa, Serve No. 43/47, Behind Bhairavanath Temple, Ambegaon Bk, Pune
204826	Khamkar PallaviPralhadrao Khamkar P Haribhav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26639 30.04.10	#39, Ashram Rd.Mallikarjun Nagar, Bijapur
204827	Khan Taiseem BanuToufique Toufique H Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30363 20.05.13	Room No. 1337, Singh Clny, Javsai Ambarnath (West), Thane
204828	Khanagavi ShrishailMaileppa Maileppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28435 20.06.11	# 501, Chachadi, Soundatti Tq, Belgaum
204829	Khanapure Mahantappa S Satlingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30583 25.07.13	At Post 852/A, Samarth Nagar, Jeur Rd. Akkalkot,

204830	Khanapure Sikandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29651 18.06.12	#326, Bramdev Deul Utagi Gram, Utagi At Post, Jath Tq, Sangli
204831	Khandagale Jotsna Vilas K Vilas Sampat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24089 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
204832	Khanvikar S Mohan. Khanvilkar M Mansing.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24213 24.04.09	# 1362/2, Renuka Nagar, Ugar-Khurd PostAthani Tq, Belgaum
204833	Kharade Sagar Bajarang Kharade B Gangram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29312 18.05.12	No 11B, Kharade Galli, Manjarde at post, Tasgaon TQ, Sangli
204834	Kharat Nilesh Dagadu Dagadu Kharat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27902 11.04.11	Parvathamalleshwara Nilaya, Prashant Nagar, II cross, Chitradurga
204835	Kharate Gajanan Narayanrao Kharate N Abaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24441 05.05.09	H.No. 5-992/33/A, YadullahClny, Roza(K), Gulbarga
204836	Khatake HimmatraoPrakash Khatake Prakah Waman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29864 15.11.12	Irrigation ClnyAT/p-Karkamb Tal Padharpur
204837	Khazirahimbi Babuddin G Khazi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28850 18.04.12	B # 1345, 1st cross, Kabir Rd, Mandi Mohalla, Mysore
204838	Kholkumbe Rohit Ramesh R Baburao Khaolkumbe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24326 29.04.09	Tayikripa Complex, Rabakavi, Jamakhandi Tq, Bagalkot
204839	Khot Pravin Bhimrao Khot Bhimrao Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23721 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204840	Khot Swati Ramachandra Khot Ramachandra Jamba	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29338 18.05.12	Shivpuri Kmeri post, Walwa Tq, Sangli
204841	Khunshette Hariprasad Maruti B. Kunshette	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29628 14.06.12	Hangarga (B) At Post, Avrad (B) Tq, Bidar
204842	Khuse Manisha Shantaram Khuse Shantaram Vitthal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24863 06.06.09	# 175/A, 8th Cross, Bank ClnyBanashankari 1st Stage, Bangalore
204843	Kidgaonkar RahulMaruti Kidgaonkar Maruti Bhauso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30102 18.04.13	A/p Nigave Dumala, Tal-Karveer, Kolhapur, Nigave Dumala
204844	Kiran Ashok Sheelavant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24796 04.06.09	# D1/B, Nr BDA Garden, Viveknagar (East), Bijapur
204845	Kiran Chintakal Tarashree.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28571 19.10.11	Ranganath Nagar, Banshankari Rd, Badami Post & Tq, Bgalkot
204846	Kiran Jiremath Shivamurthayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25500 04.03.10	MLCD Quarters, KMC Campus, Hubli Tq, Dharwad
204847	Kiran Keerthi Kant Keerthi Kanth Ingalagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27779 07.04.11	#76, Panthrapalya, Mysore Rd.5th Cross, Bangalore
204848	Kiran Mallannavar Kallappa M Mallannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28410 20.06.11	P.E. Teachers Clny, Laxminagar, Ankali Post Chikkodi Tq, Belgaum
204849	Kiran.B.K. B. Kotrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28045 19.04.11	No.537/63, 10th Ward, Kamma Layout, Huvina Hadagali, Bellary
204850	Kiran.J. Dodamani Jagannath M.Doddamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27731 06.04.11	Nisarga Nilaya, Chola Maradeswar nagar, Ranibennur Post & Tq, Haveri
204851	Kirana. S Sreenivasa Shetty. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24370 30.04.09	# 273/A, 11th Cross, 6th Main, MSR Nagar, Mathikere, Bangalore North, Bangalore



204852	Kirankumar Shiraguppe Babasab Shiraguppe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23731 02.04.09	# 3228, Sadalga, Chikkodi Tq, Belgaum
204853	Kirankumar. K Kempe Gowda. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25833 12.03.10	M. Kamanaghatta. D.Tumkur Post, C.R. Patna, Hassan
204854	Kishan .G.N. Narasimha Prasad.G.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27086 15.03.11	#20, 5th Main Rd. Shakambari Nagar, 1st Phase, Bengaluru
204855	Kishor Mahindrakar Nana Mahindrakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25593 05.03.10	Almel Post, Sindgi Tq, Bijapur
204856	Kishorakumara Shetty Narayana Shetty.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23901 09.04.09	Kiran Nilaya, Jansale Post, Siddapur, Kundapur, Udupi
204857	Kishore Pitamber.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25963 18.03.10	# 325, CIB Clny, Gulbarga
204858	Kishore Kumar Beer Singh Dalal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30309 09.05.13	Chaitra Nilaya, 4th Cross, Opp. S.S.Temple Rd. Vinobanagar, Tumkur
204859	Kishorkumar Rajapurohit Aravindrao.B. Rajapurohit	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28033 19.04.11	SoraturA/P, Gadag Tq &
204860	Kitesh Kumar Babu Ram Tiwari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30479 11.06.13	Kanchan Bhavan, Nirmochan Ghat, Ayodhya, Faizabad, UP
204861	Kodgire Pritam Kishanrao Kishanrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29926 28.02.13	Nersi Rd.Mukhed , Nanded, Maharashtra
204862	Kokare Trupti Manikrao Kokare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30032 16.04.13	Trupti Bungalow, Jadhavwadi (Nalemala), Tq-Phaltan, Satara, Phaltan
204863	Kokitakar AshwiniMahadev Mahadev Bhima Kokitakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25172 06.10.09	# 421, 2nd Cross, Mrutyunjay Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
204864	Kole Asmita Kalgaunoa Kalgaunoa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29299 17.05.12	Plot No 92, Subhasnagar A GatMiraj TQ, Sangli
204865	Koli Jyotsna Balasaheb Koli Balasaheb Maruti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23719 02.04.09	C/o. Inchal Hospital, Inchal Post, Saundatti Tq, Belgaum
204866	Koli Sandeep Valmik Koli Valmik Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24853 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
204867	Komal Pawar Dharmendra Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30008 09.04.13	Shiv Shankar Dal Mill, Nr. VRL, Gandhi Gunj, Bidar
204868	Komal. M.K Madiwalappa Basappa Kammar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24506 12.05.09	Mrutyunjaya Nagar, Banashankari Layout, Ranebennur Tq, Haveri
204869	Komala a Ankaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29247 15.05.12	No 1035 Bannur Rd.Mellahalli, Harohalli post Mysore
204870	Komi Reddy Sujathamma K.P. Siva Reddy.	BAMS Sri Venkateshwara Univ., Tirupati, 1990	25355 08.01.10	# 16/18, 5th Block, 4th Main Bhuvaneshwari Nagar, Bangalore.
204871	Konapur Kasypa Konapur Narayana Murthi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28852 18.04.12	# 104, 1st Main, Vijayanagar 2nd Stage, Mahadesh Wara Nagar Extn Metagalli Post Mysore
204872	Koralli Anil K. Pralhad Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25609 06.03.10	# 15, Nr. More Complex, New Raghavendra Clny, Gulbarga
204873	Koravi Tushar Timanna Koravi T Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	23846 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School# 2, Mahadev Galli, Nipani

		2008		Chikkodi Tq, Belgaum
204874	Kore Rohini Basavant Kore Basavant Dundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26133 20.03.10	Irayya Yaragattimath Vidya Nagar, Baillhongal Tq, Belgaum
204875	Kore Sourabh Chandrashekhar Kore Chandrashekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25315 27.11.09	Nr. Old Pariwar, Dhaba, Manvi Tq, Rauichur
204876	Kore Varsha Vasant Vasant Nivrutti Kore.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24402 05.05.09	APMC Rd. 1st Main, 4th Cross, TulajaiBldg, Sadashivnagar, Belgaum
204877	Kota Ektha Mrudula Kota Srinivasa Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30425 28.05.13	Irugulapati Enclave, Flat No 103, Donka Rd. 4th Lane, Guntur, A.P.
204878	Kotwade Kishor Namdev Kotwade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29258 16.05.12	No 17/1, Behind Sarwati SchoolBarshi Rd, Vikas nagar, Latur post & TQ,
204879	Krantikumar Lohar Arjunrao Lohar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28004 18.04.11	Mudbi A/P, Basavakalyan Tq, Bidar
204880	Kripa D Dharaneedhara C H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30520 21.06.13	?Rama Kripa?, Thunga Nagar Layout, Padil Post, Bajal, Dakshina Kannada, Mangalore
204881	Kripalini. B.A Ananda. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25810 12.03.10	# 51, Arapattu, Kadanga Post, Madikeri, Kodagu
204882	Krishna Subhas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25898 15.03.10	C/o. S.M. Mantri, Hiremaur Post, Hungund Tq, Bagalkot
204883	Krishna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28101 25.04.11	#408, M Block, 2nd Stage, 5th Cross, Kuvempunagar, Mysore
204884	Krishna Bhat Mahabaleshwar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30447 03.06.13	Post Antravalli, Tq Kumta, Uttar Kannada
204885	Krishna Kumar Verma Shiv Shankar Lal Verma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26927 05.10.10	No.59, 3rd A Cross, Kamakshipalya Post, Vrushbhanathiwar, Bangalore
204886	Krishna Kumar. K.T K. Ramachandran Nambiar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25326 09.12.09	# 2-2(2), ?Aradhana?, Saibrakatte, Herady, Barkur, Udupi
204887	Krishna.B.C. Channappa.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28329 25.05.11	#628/11 ?D?, Shivananda Swamy CompoundNittu Valli Rd. Davangere
204888	Krishnagi Devalu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28553 20.09.11	Kudagi At & Post, Bhagewadi Tq, Bijapur
204889	Krishnamoorthy. B.S Sathyanarayana Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25497 04.03.10	Dhanvanthri Ay. Clinic, Nr. Muncipal College M.G. Rd. Chikballapur
204890	Krihika C S.T Chandre Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30623 31.08.13	# 07, A-06 Block, Bogadi 2nd Stage, Aiish Layout, Mysore
204891	Krupa Lakshmi B L Lingegowda B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30318 14.05.13	#1, Farm House, Boodiguppe, Kallahalli(Post), Kanakapura (tq), Ramanagara (),
204892	Krupa. K Krishna Murthy. J.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26235 23.03.10	Padma Krupa Nilaya, Humcha Post, Hosanagar Tq, Shimoga
204893	Krupa. K.N Nithyananda Gowda. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26081 19.03.10	Kalige, Kaikamba Kukke, SubramanyaMain RdPuttur Tq, Mangalore
204894	Kruparani. K Kra. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27315 23.03.11	# 911, 28th Cross, 4th Main, Vidyaryapuram, Mysore

204895	Kshama Mutalik Krishna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30224 30.04.13	#49, Bus stand Rd.Ainapur, Athani Belgaum, Ainapur
204896	Kudte PankajaSidramappa Yuvraj.M.Biradar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25101 19.08.09	# 30-105, Tripuranth, Basavakalyan Town & Tq Bidar
204897	Kuldeep Singh. Gajraj Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24442 05.05.09	H.No. 5-992/33/A, YadullahClny, Roza(K), Gulbarga
204898	Kulkarni Ashwini Arvind Kulkarni Arvind G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29447 24.05.12	Main Rd.Ausa At Post & Tq, Latur
204899	Kulkarni Chinmay Vikas Kulkarni Vikas Kalyanrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25130 24.09.09	# 24, Ward No. 3, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
204900	Kulkarni KanchanChidambar Chidambar R Kulkarni	BAMS MUHS, Nasik 2003	29912 19.01.13	Plot No. H -23, Dollars Clny, Behind Gokul Garden, Hubli
204901	Kulkarni Kanchan Mohan K Mohan Venkatest	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26682 26.05.10	Kalashri Building, Sanmati Nagar, Kelgeri Rd. Dharwad
204902	Kulkarni Mahesh Vasant Kulkarni Vasant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25307 27.11.09	H.No. LIG-24, Sangameshwar NivasHousing Board Clny, Bidar.
204903	Kulkarni Mandar Sadashiv Sadashiv.K.Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23722 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
204904	Kulkarni ShivanandSurenra Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24806 05.06.09	Nr. Ganesh Park, Opp.Manaswini Appt, Tilakwadi, Belgaum
204905	Kulkarni Sureshbabu Dattatrayarao Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1982	25381 02.02.10	Main Rd.Ganesh Peth Hubi, Dharwad
204906	Kumadini. N.D N.A. Deshpande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26028 19.03.10	JCR Extn, New P.O. Rd.Jagalur Tq, Davangere
204907	Kumar Kanthimath Siddayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24306 29.04.09	Vivekanand Rd. Bandi Building, Ram Nilay, Gadag Tq &
204908	Kumar SwamyNijagunayya Nijagunayya Swamy	BAMS M.U.H.S., Nashik, 2005	28744 02.04.12	#5-3-221, Basaveshwar Chowk
204909	Kumara RaghavendraNingappa Kempara Ningappa Kempar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25899 15.03.10	H.No. 3, Sub-Jail Quarters, Vasanta Rd. Davangere
204910	Kumbar Jyoti Somlingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29995 08.04.13	D.No. 17-4-134, Agriculture Clny, Mannalli Rd. Bidar
204911	Kumbhar Prashant Vishnu Kumbhar Vishnu Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25275 04.11.09	Chaitra Acadamy, 4th Cross, J.M. Rd. Chitradurga
204912	Kumbhar ShrikantMahadeo Kumbhar M Dattatray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26096 19.03.10	Bedkihal Post, Chikkodi Tq, Belgaum
204913	Kumbhar Sunil Rudrappa Kumbhar R Lingappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23971 13.04.09	Shahabad Post, Chittapur Tq, Gulbarga
204914	Kumbhar Veena Pandurang Kumbhar P Tukaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24455 05.05.09	R.S. Hiremath BLDG, MB Diwatar Clny, Hospet Rd. Koppal
204915	Kumbhare UmashankarRamchandra Ramchandra Vithoba Kubhare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29449 24.05.12	Siddhapur At Post, Mangalawedha Tq, Solapur
204916	Kumbhoje Sachin Surendra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28270 17.05.11	Kothali Post, Chikodi Tq, Belgaum

204917	Kumuda. P Prakash Niranjan. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24505 12.05.09	# 566, 7th Main, 3rd Phase, 4th Stage, Vijayanagar, Mysore
204918	Kumudini Sagi Appala Raju Sagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26478 01.04.10	#21st KMUdayapura Post, Bangalore
204919	Kunwar AdharBhatnagar Anil Kr Bhatnagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30026 15.04.13	Moh Gandhi Nagar, Amroha Rd. Dhanaura J.P. Nagar, U.P
204920	Kurangi Anil Kalappa Kurangi Kallappa Chandru	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26811 20.08.10	No.202/B, Ambedkar Galli, Old Belgaum, Belgaum
204921	Kurde Abhay Anil Kurde Anil Digambar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23741 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
204922	Kushmanjali Shinde Ramchander Shinde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28572 19.10.11	# 7-3-31, Bheemnagar, Nr. Publi Garden, Bidar
204923	Kusum. N.K C. Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25732 12.03.10	# 297, T.B. Extn, Nagamangala, Mandya
204924	Kusuma Avaradi Shivaputrappa B Avaradi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28833 16.04.12	Hirekoppa At & Post, Naragunda Tq, Gadag
204925	Kusuma. B.S B. Shoorappa Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24567 14.05.09	# 2-82, Pattethana House, KadmarVillage & Post Puttur Tq, Dakshina
204926	Lakhamgouda Basaprabhu Basaprabhu Desai	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1979	27002 21.12.10	Bedakihal Post, Chikodi Tq, Belgaum
204927	Lakkappa Bilawadi Paris.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24352 30.04.09	Renuka Galli, Terdal Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
204928	Lakshmana Tippanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28951 26.04.12	4th Cross, No 220/21, IndraprastaNagar At Anand Nagar Road Hubli Taluk Dharwad
204929	Lakshmeesh. K.S Sheshappa Gowda. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27484 26.03.11	Aranthodu Village & Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada
204930	Lakshmi Pandugangi Ranganath.A.Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26758 20.07.10	Kulkarni's Hospital, Gandhi Circle, Varthur, Bangalore
204931	Lakshmi Ravindranath M Ravindranath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29526 28.05.12	# 31-C, Surya Appartments, Sector-13, Rohini Delhi State
204932	Lakshmi. B Basavaraju. H.L.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25942 17.03.10	# 61, 4th Main Rd. Nehan Nagar, Sheshadripuram, Bangalore
204933	Lakshmi. T Thimmegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24587 14.05.09	# 1266, Nr. Adarsha ConventMalavalli, NES Extn Malavalli Tq, Mandya
204934	Lakshmisha Rao. Y Sarvajna Moorthy. Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25721 12.03.10	# 2-58, Yelluru Post, Udupi
204935	Lalita Belgall Mahantappa N Belgall	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29623 14.06.12	# 153, Sector-57, Navnagar At Post, Bagalkot
204936	Lalith Kumar. G Goutham Chand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25951 17.03.10	D.No. 492, Vinobha Rd.Sakleshpur, Hassan
204937	Lalitha Nagendra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27174 18.03.11	# 8-11-181/829, Vidhyanagar, Raichur
204938	Lalsange Pawar Basaweshwar A. Lalsange	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28376 09.06.11	Qureshi Clny, Toravi Rd. Bijapur Tq &

204939	Lalwani Dinesh Babulal Lalwani Babulal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26648 05.05.10	Gavali galli, Gajendragad , Ron
204940	Lamb Babasaheb Chandrakant Chandrakant G Lamb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24108 22.04.09	Shivkrupa Nilaya, Ashram Rd.Gumasha Clny, Bijapur
204941	Lambe Surekha Rudrappa Rudrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25035 02.07.09	# 209, II Sector, Shivabasanagar, Basava Belagu, Belgaum
204942	Lande Ajay Ashok Lande Ashok Nivrutti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25555 05.03.10	Nr. Rangraj Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
204943	Lata Mahendrakar Janardhan.R. Mahendrakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25989 18.03.10	Ashwini Nagar, 2nd Cross, Haveri
204944	Lath A K Krishna Murthy J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28839 16.04.12	# 7, 9th Main Rd.Kalappa Block, Srinagar Bengaluru
204945	Latha A Anandappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29002 27.04.12	1st Cross Gopi Ranga Swamy CompoundChannappa Layout, Shimoga Taluk &
204946	Latha. B Bhoomesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25866 12.03.10	11th Cross, Harsha Nilaya, Tumkur
204947	Latha. D.J Jayaramappa. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24833 06.06.09	Ranganatha Nagar, Changavara Rd.Sira Tq, Tumkur
204948	Latha. N Nagendra S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30209 29.04.13	#2, BBMP Quatress, 1st Cross, Magadi Rd. Bangalore
204949	Latha. S C. Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25917 15.03.10	# 656, Ancephalaya, Nagasandra Post, Bangalore North, Bangalore
204950	Latha. S.M Marulaiah. S.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25859 12.03.10	D.No. 3014, KHB Cly, LaxmipuraBadavane Arsikere, Hassan
204951	Latha.M.S. Siddananjappa.M.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27782 07.04.11	Manjulamma Garden, Madhihalli ExtensionB.H. Rd Tiptur Tq, Tumkur
204952	Lathesh H Honnayya K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29531 28.05.12	GL 5-74, 5th Block, Krishna Pura Katipalla Post, Mangalore Tq, D K
204953	Lauva Chakma Rashik Kr Chakma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29865 17/11/12	Ratnapur Village, Kharsand Post, Changlang
204954	Lavanya R V Ramachandra Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30160 24.04.13	# 248/A, 2nd Stage, 2nd Cross, K.H.B Clny, Basaveswaranagar, Bangalore
204955	Laxman Khavatakoppa Iruppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30441 31.05.13	Po Kalloli, Tq Gokak, Belgaum
204956	Laxman Teradal Bheemappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29983 06.04.13	M/P Hallur Tq-Gokak, Belgaum, Hallur
204957	Laxmi Bidari Gangappa.H.Bidari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28437 20.06.11	Vidya Nagar, 1st Main Rd.Raibag Post & Tq, Belgaum
204958	Laxmi Chandrapattana G.D. Chandrapattana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24899 09.06.09	Manjunath Nagar, ?A? Block, Haveri
204959	Laxmi Devadurg Durgappa T Devadurg	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28947 26.04.12	No.57 no 8/8, Ward No 10, Sanna Sabanna Clny Bagalkot
204960	Laxmi Hallalli Karabasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23934 13.04.09	# 365, 1st Main, Umashankar Nagar, Ranebennur Tq, Haveri

204961	Laxmi Kotyal Shankar S Kotyal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25368 21.01.10	# H.No. 73, Block.No. 7, Solapur RdBidrekar Police Line, Bijapur
204962	Laxmi Kulkarni Pralhadd Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24719 03.06.09	Banashakari Extn, Mrujynbjay Nagar, Ranibennur Tq, Haveri
204963	Laxmi Lingaraddy Girish	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30242 02.05.13	Nr. Reddi Bank, Junipeth, Ramdurg-Tq, Belgaum
204964	Laxmi Mamadpur Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24357 30.04.09	# 1361, Sai Kripa, Nr Rly Station, Ghataprabha, Gokak Tq, Belgaum
204965	Laxmi Metri Sukhamuni C Metri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28769 05.04.12	H No 363 Nr. NayakNursing Home Mangoli Rd Bijapur
204966	Laxmi P P Mastan Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29122 07.05.12	No 13-3-141, Laxmi Nivas, Sai Baba Clny , Ladgeri Bidar
204967	Laxmi Pattan. M M.R. Pattan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24069 21.04.09	# 61, B Type, 1st Sec Kudremukh PostMudigere Tq, Chickmagalore
204968	Laxmi Sajjan Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30046 16.04.13	KSRTC Clny, Gyangabawadi, Bijapur
204969	Laxmi Sanganal Shivanand Sanganal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29111 07.05.12	Puttaraj Nagara , Gadag Taluk &
204970	Laxmi Sanjeevagal Dhanapal M Sanjeevagal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30336 17.05.13	Vidya Nagar , A/p Mudalgi, Tq Gokak,
204971	Laxmi Shetty S. Gopal Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24185 24.04.09	# 13, Raghavendra Clny, Vidyanagar, Hubli Tq, Dharwad
204972	Laxmi Ukkali Channabasappa R Ukkali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29505 26.05.12	P. No. 173, 3rd Cross, 1st Main, Kalidasnagar Vidyanagar Extn, Hubli Tq, Dharwad
204973	Laxmikant Venkatrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27243 22.03.11	# 30/6449/11, Shivanagar 1st Block, Basavakalyan Tq, Bidar
204974	Laxmikant Basetti Shantappa Basetti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	28746 02.04.12	Khainur At & Post, Sindagi Tq, Bijapur
204975	Laxmikant Kambali Laxman.S. Kambali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27742 06.04.11	No.32, Gokak Falls Chouki- 32, Gokak Tq, Belgaum
204976	Laxmikant Metri Channappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27053 15.03.11	New Padanur, Padanur Post, Indi Tq., Bijapur
204977	Laxmikanth Suryakanth.S.Wallepure.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25987 18.03.10	# 14-265, Agriculture Office Righ Side, Aurad (B), Bidar
204978	Laxmish Hegde. Hegde. M.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28624 15.11.11	H.No. 208, Bidrakan PostSiddapur Tq, Uttar Kannada
204979	Laxmishree Ilkal Jagadheesh Ilkal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30389 23.05.13	Nr. Urdu Medium School, Nalatwad, Tq- Muddebhal, Bijapur
204980	Lee Hae Sung Lee Young Soo	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30300 08.05.13	Dong Chung Dong, Gyeongju City, Gyeong Buk, 695-42, Gyeongju , South Korea
204981	Leela. B.V Veeraiah. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24909 09.06.09	# 118/28, 1st Cross, Rajendra Nagar, Mysore
204982	Leeladhar. D.V D.K. Veerappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2001	25389 10.02.10	Dola House, Goonadka Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada

204983	Leena Lahuraj Kahase Lahuraj Narayan Kanase.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25018 26.06.09	2nd Main, 2nd Cross, Aadevaeshale Davangere, Chitradurga
204984	Lekhana Pandith. L Lakshmi Narayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24227 28.04.09	# 57/1, Ooty Rd, Gowrishankar Nagar, Mysore.
204985	Ligade Sachin Pandurang Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24858 06.06.09	Bhagya Krupa House, Sanskruti Clny, Bijapur
204986	Likhita.D.N. Nanaiah.D.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27687 05.04.11	Flat No.21, 76, Badagabettu Bailur, Udupi
204987	Limbambika Patil Saradara Gouda Talavageri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27260 22.03.11	# 9/7/635, 1st Cross, BT Patil Nagar, Koppal
204988	Limbukar Manasi Gopal Rupesh Dattaram Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29648 14.06.12	#216, Mazgaon Rd.First Kadamwadi Nr. of Kriti Nagar Ratnagiri Tq &
204989	Lingadore. K Kodanda Ramappa. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24791 04.06.09	Rtd Police Inspector, Ramappa Tarasu Street, Chitradurga
204990	Lingaraj Lumapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25154 26.09.09	C/o. B.G. Math, Ashram Clny, Bijapur
204991	Lingaraj Kattikai Noorandappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28490 26.07.11	Nr. Neelakanth Math, Belur Post, Badami Tq, Bagalkot
204992	Lingaraju T Thippeswamy G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30344 20.05.13	Main Rd. DharmapuraHiriyur Taluk Chitradurga
204993	Lohit R Rajanna D.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30538 02.07.13	S.K.D Extension, Hosadurga, Chitradurga
204994	Lokesh Vishwanath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28710 30.03.12	Manthal (Matala) Post, Basavakalyan Tq, Bidar
204995	Lokesh .D.H. Hanumantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26744 02.07.10	No.19615, Behind P&T Quarters, Vivekanand Nagar, Gadag.
204996	Lokesh Hiremath Basawaraj Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26957 29.10.10	#9-7-328, BVB College Rd.Vidya Nagar Clny, Bidar Tq &
204997	Lokesh Kumar Ramesh Chand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30524 25.06.13	Vpo-Budhwal, The-Narnaul, Mahendergarh,
204998	Lokesh. M Mash Damodar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25638 06.03.10	Mylaralingeswar Nilaya, Govt. Hospital Rd, Hiriyur Post & Tq, Chitradurga
204999	Lokesh. T Thimme Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25577 05.03.10	D. Tumkur Post, Channarayapatna Tq, Hassan
205000	Lubna Mahmoodi. R Riyaz Mahmood.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28627 15.11.11	# 15, MIG II, 2nd CrossKHB Clny, Kalyangiri, Mysore
205001	Lukesh Kumar Bodhraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30501 15.06.13	H.No. 195, Bakshi Nagar, Jammu (Tawi), Nr. Boys Hr.Sec School, Jammu and Kashmir
205002	M D Anwar Zeeshan M A Quddus	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29887 17.12.12	H No. 3-1-41/1, Pansal Taleem Tam Shikari Street Bidar
205003	M.V.V. Durga Prasad Siva Nageswara Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30137 22.04.13	# 14-1320, Sivadurgapuram, Nulakapeta, Tadepalli-Tq, Guntur , Tadepalli
205004	MA Tahira Mohamed Alam Basha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29261 16.05.12	No 18 ward no 24, Yaseen sab Mashid cdwl Street, Bellary

205005	MAhantagouda Biradar Malakajappagouda Biradar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23874 09.04.09	Kalakeri Post, Sindagi Tq, Bijapur
205006	Mabusab Hosalli Maktumsab Hosalli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28678 07.02.12	Amba Bhavani Ngr, Jain Manpir Rd, Misndaragi Tq/Post, Gadag
205007	Madankumar Kulkarni Mohanrao.V.Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25900 15.03.10	# 13, Sector.No. 30 Navanagar, Bagalkot
205008	Madawane Harshad Vasantao Madawane V Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24093 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205009	Madesh. P P. Periannan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24889 08.06.09	T.G. Doddi, Jageri Sathegal Post, Kollegal Tq, C.H. Nagar
205010	Madhavi Sharanabasappa Nagalapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25038 06.07.09	Kanakachala Complex, Hosalli Rd, Gangavathi Tq, Koppal
205011	Madhavi ChivataGundi Somanai S C Gundi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29147 08.05.12	No 428, Murki Bhavi At & Post , Bailhongal TQ, Belgaum
205012	Madhavi Kulkarni Achuyut N Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26123 20.03.10	\$ 42, Mahantesh Nagar, Belgaum
205013	Madhavi L Ravindhar L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30290 07.05.13	House No. 3-10-175, Nyalkal Rd. Nizamabad
205014	Madhavi Patil Krishnagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25865 12.03.10	Vijayalaxmi Nivas, Veerapur Oni, Hubli
205015	Madhavi. G.V Vithal. G.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23885 09.04.09	Ganga Nilaya, # 63, Belagal Cross, Cantonment, Bellary
205016	Madhavi. M.K M.K. Sekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23879 09.04.09	# 148, /B, Vishwanathpuram, Srirampur Clny, Bellary
205017	Madhavi.M.Bhat. M.R.Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25071 22.07.09	Anupama Archade, Vidyanagar, Hubballi Tq, Dharwad
205018	Madhu Sushil Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29368 21.05.12	B-210 Sai Kunj phase 3, New Palam Vihar, Gurgaon at post & Tq, &
205019	Madhu Darshan. H.V Veeranna Holeyache.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23974 18.04.09	Madapura, Hriyur Post, T.Narasipura, Mysore
205020	Madhu PM Kotraiah Prasadimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29238 15.05.12	No 252 4th Ward, Vinayaka nagar , Huvinahadagali at post & TQ, Bellary
205021	Madhu S.A Anantha S.T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30267 06.05.13	# 89/2, Saligrama (p), K.R. Nagara(Tq), Mysore (D), Saligrama
205022	Madhu Shalini. P M. Putta Swamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28482 18.07.11	D.No. 902/A, 4th Block, Udbur, Mysore
205023	Madhu Shree. R.N Rangappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25648 06.03.10	Kanamanna Hatti, Ramadevra Bedi, Tarikere Tq, Chikamagalur
205024	Madhu. K Krishnamurthy. N.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24055 21.04.09	# 371, Kala Complex, ST Jude Church, A. Narayanapura, Bangalore.
205025	Madhu. M Mohandas. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25946 17.03.10	Shri. Manamohan Kripa, Jattipalla Rd, Sullia Tq, Dakshina Kannada
205026	Madhu. S Subbaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23992 18.04.09	Behind NDRK College, Udhayagiri Extn, Hassan Tq &



205027	Madhu. S.J. Javare Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2002	26534 12.04.10	Kadusonnappana Halli, Bangalore East, Bangalore
205028	Madhukeshwar Hegde. Subray.G.Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25666 08.03.10	# 102, D-II, Devara Hakkalu, Kumta Tq, Uttara Kannada
205029	Madhulika Priya Ramanuj Poddar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27257 22.03.11	# 33, Ranganatha Extn., Harohalli, Kanakapura Tq, Ramanagar
205030	Madhumathi. V.S. Shamanth Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26935 11.10.10	No.28, Anugraha Nilaya, 1st Cross, Nandanaganara Shettihalli, Bangalore
205031	Madhumati Jobali Iranna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30238 30.04.13	5th Ward, Shirol Village, Tq-Mundaragi,
205032	Madhumitha Krishnan VC Krishnan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29003 27.04.12	New No 18, Old No 14, 1st Cross St.Cti Cly Mylapore Post, Chennai
205033	Madhura. V Veere Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26663 12.05.10	Govt. Silk Filature Quarters No. 1, Chamaraja Nagar
205034	Madhuradevi Kodihalli Kallappa N Kodihalli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29171 11.05.12	Jayanagar ShiggoanAt & Post & TQ Haveri
205035	Madhuri N Nagraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29060 05.05.12	No 387 10th Cross 2nd Phase 15th StageManjunathnagar Basaveshwaranagar Bangalore
205036	Madhuri Rathod Ambadas Desu Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29496 25.05.12	Alamel at Post, Sindagi Tq, Bijapur
205037	Madhuri. B Basavaraj. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25826 12.03.10	D/No. 73, 1st Main, 2nd Stage, Bagadi Post, Mysore
205038	Madhushree Ragi G Baramappa Ragi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30223 30.04.13	At Kotupura, Mallapura Post, Soraba Tq, Shimoga , Kotipura
205039	Madhusudhan Krishna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28036 19.04.11	No.28/82, New Jai Shankar Clny, Basavakalyan, Bidar
205040	Madiwalagouda GoudarAlias Patil Shankaragouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26078 19.03.10	Kurli Plot, Garag Post, Dharwad
205041	Madiwalappa Nedalagi Sadashiva Nedalagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26859 02.09.10	Yaragalla (B.K), Sindagi Tq, Bijapur
205042	Madykar Pradnya Niteen Niteen Vasanttrao Madkikak	BAMS R.G.U.H.Sciences, Bangalore 2009	26661 12.05.10	C/o, Vinaya Kulkarni MahaganapathiAMC, Haliyal Rd. Dharwad.
205043	Magadum SharadaSatish Satish Mahadev Magdum	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29821 18.10.12	# 83/3, Chandur At Post, Hatkanangale Tq, Kolhapur
205044	Magar Vishal Narayan Narayan.P.Magar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25206 09.10.09	# 19-04-622, MES Clny, Humnabad Rd, Naubad, Bidar
205045	Magdum Amit Narayan Magdum N Dattatrya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23808 04.04.09	Yadanwadi, Malikwad Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205046	Magdum Jyoti Jayapal Magdum Jayapal Dada.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24457 05.05.09	R.S. Hiremath BLDG, MB Diwatar Clny, Hospet Rd. Koppal
205047	Magdum Satyashil Prakash Prakash Jinendra Magdum.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24848 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikkodi Tq, Belgaum
205048	Magdum Swapnil Vilas Vilas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23845 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School# 2, Mahadev Galli, Nipani Chikkodi Tq, Belgaum

205049	Magdum VivekMartand Martand Balappa Magdum.	BAMS Univ. of Poona, Pune 1997	28475 04.07.11	Plot.No. 1512, Ramthirhinagar, Nr. Uday School, Belgaum
205050	Mahaddalkar SnehaUmesh Umesh S Mahaddalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30461 06.06.13	B/9, Shreeprabha, Rajaji Path, Ramnagar, Cross Lane-1, Dombivali Post, Thane, Dombivali
205051	Mahadev Bharat Raj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28419 20.06.11	Gorta(B) ? A/P, Basavakalyan Tq, Bidar
205052	Mahadev Jambagi. Ningappa Jambagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25183 08.10.09	Kavatagi Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205053	Mahadev Sanamuri Maruti Sanamuri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24839 06.06.09	Halyal Post, Athani Tq, Belgaum
205054	Mahadeva Prasad. C.S Shivaiah. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24935 10.06.09	Changachahalli, Ambale Post, Yelhanka Tq, Chamarajnar
205055	Mahadevi Bhangi Gurasidda R Bhangi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30348 20.05.13	A/p- Pamaladinni, Tq-Gokak, Belgaum, Pamaladinni
205056	Mahajan Bahubali Jayapal Mahajan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23694 01.04.09	# 829/6, Kothali Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205057	Mahajan SampadaAvinash Avinash Jagannatha Mahajan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29471 24.05.12	# 2707, Bhavani Peth, Karmala At Post & Tq, Solapur
205058	Mahajan Snehal Avinash Mahajan A Jagannath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24857 06.06.09	APMC Rd. IV Cross, 1st Mian RdSadashivnagar, Belgaum
205059	Mahalakshmi. B.M Siddaiah. B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25091 13.08.09	Back of Veeresh Xerox, Kudligi Rd.Ramanagar Hagarbommanahalli, Bellary
205060	Mahalakshmi. B.N Narasimhappa. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24345 29.04.09	H.No. 1, MIG 1, KHB Clny, Tarikere Tq, Chikkamagalur
205061	Mahalaxmi Ramapur Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29858 05.11.12	# 1927, Somawarpeth, Gokak Tq, Belgaum
205062	Mahamad Yunus Sharmuddin Nabooji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26015 19.03.10	Deccan Medical, Hunasagi Post, Shorapure Tq, Yadgiri
205063	Mahamadrafi. M Mahamad Unis.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24447 05.05.09	Kadikendra Rd. Malbdi Halli, Holalkere Tq, Chitradurga
205064	Mahammada Husen Konnur Amiruddin Konnur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27009 28.12.10	Savadi At & Post, Ron Tq, Gadag
205065	MahammadayashinMamadapur Moulasab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28321 25.05.11	Banadar Galli, Yashin Manjil, Badami Tq, Bagalkot
205066	Mahananda Rahimatpur Mahalingappa Rahimatpur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28761 05.04.12	Kohalli At & Post, Atani Tq, Belgaum
205067	Mahangade Hiran Hement H Anandaroh Mahangade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28825 16.04.12	# A/II/17, Shree Ram Kapus, Kamgar Nager, Kurla (East) Mumbai
205068	Mahantesh Shreeshail.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24866 06.06.09	Sangameshwar Clny, Basavakalyan, Bidar
205069	Mahantesh Rajappa Yaraskar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25608 06.03.10	# 6-979, Netaji Chowk, Gunj Rd. Gulbarga
205070	Mahantesh Galagali Chandrashekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25691 12.03.10	# 1395/19, Vikrampur Area, Athani Tq, Belgaum

205071	Mahantesh Kamble Ashok Nana Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28010 18.04.11	Harijan Clny, Ambedkar ChowkKagwad At & Post, Athani Tq, Belgaum
205072	Mahantesh Kenganal Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24818 05.06.09	Sanskriti Clny, Nr. Mallikarjun Ashram, Bijapur
205073	Mahantesh Khilari Uddappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29073 05.05.12	No 725, BenachinamardiAt Post, Gokak Taluk Belguam
205074	Mahantesh Yankachi Basavaraj.M. Yankachi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28468 04.07.11	Nr. The Sadhu Temple, Mahalingpur Post, Mudhol Tq, Bagalkot
205075	Mahantesha Patil Pavadeppa.P.Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27870 11.04.11	Koujalagi A/P, Gokak Tq, Belgaum
205076	Mahanteshwari RavindraKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29102 05.05.12	No 22, 6th Cross Pampa Extension Hebbal Kempapura Bangalore
205077	Mahantkumar Naik. P Pandappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28558 20.09.11	Plot.No. 3032, Kasturi Niwas, Ramnath Nagar, Belgaum
205078	Mahaveer Kudache S.Kallappa Kudache.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24558 13.05.09	Shedbal Post, Athani Tq, Belgaum
205079	Mahedvi Farheen Fazal Md. I Mahedvi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30505 19.06.13	431/3 Flat No 4, Maya Apartment, Salisbury Park, Pune
205080	Mahesh Mallikarjun Kolli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24170 24.04.09	Mallikarjun Meals House, Nr Bus Stand, Shorapur Tq, Gulbarga
205081	Mahesh Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25621 06.03.10	# 6/59/1, Hulsoor Post, Basavakalyan Tq, Bidar
205082	Mahesh Akkivalli Mahadevappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29645 14.06.12	Kusanur At & Post, Hanagal Tq, Haveri
205083	Mahesh Bagali Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28765 05.04.12	Kasageri Galli, Nr. Hanuman Temple, Bijapur
205084	Mahesh Bhalke Madhavrao Bhalki.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24166 24.04.09	Plot.No. 42, 02A Cly, Nr. Shree Guru College, Gulbarga
205085	Mahesh G Chikkalli Gangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29796 12.10.12	Timmapur Sudambi, Byadgi Tq, Haveri
205086	Mahesh Hiremath Shivanand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26943 19.10.10	Padaganur At & Post, Sindagi Tq, Bijapur
205087	Mahesh Hirulal Bhima Prasad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27766 07.04.11	Nr. Bus Stand, Jayanagar, Shiggaon Tq, Haveri
205088	Mahesh Jirali Irapa Parappa Jirali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28369 31.05.11	Shettar Math Galli, Dhanamma Devi Temple Side Athani Tq, Belgaum
205089	Mahesh Kulkarni M Venkatesh Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28544 07.09.11	Nr. Maruthi Talkies, Mahalingapur, Mudhol Tq, Bagalkot
205090	Mahesh Kumar Sakreppa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25644 06.03.10	LIG-69, 2nd Phase, KHB Clny, Gulbarga
205091	Mahesh Kumar Suryakanth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28339 27.05.11	Govt. Hospital, Aurad (B), Aurad-Tq, Bidar
205092	Mahesh Kumar .P Gurunath Rao Pathgi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26842 28.08.10	#9-9-53, B.V.B. College, Behind Axis Bank, Bidar

205093	Mahesh Parappagoudru Mallappa Parappagoudru	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27050 15.03.11	Matapitru Nilaya, Basavanagar , Ilkal A/P, Hungund Tq., Bagalkot
205094	Mahesh Patil Shidagouda.D.Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28350 30.05.11	Borgaon A/P, Chikodi Taluk, Belgaum
205095	Mahesh Sallodagi Mareppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28359 30.05.11	Talikoti Post, Muddebihal Tal, Bijapur
205096	Mahesh Sharma. M Mahadevaiah. L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24569 14.05.09	K-22, 15th Cross, 4th MainLakshminarayanapuram Bangalore
205097	Mahesh. M.P Mallikarjun Punna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25262 02.11.09	# 26/245, Vijaynagar Clny, Basavakalyan Tq, Bidar
205098	Mahesh. P.N M.E. Putta Narasaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28621 05.11.11	# 73/1, Vinaya Marga, Siddartha Nagar, Mysore
205099	Mahesh.G.Patted Gurupadappa.K. Patted	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26587 19.04.10	Main Rd. Shirasangi, Savadathi Tq. Belgaum
205100	Mahesh.M.V. Venkataramu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26701 01.06.10	#169, Maratikyatana Halli At & Post, Mysore Tq &
205101	Mahesh.R.Shirsalkar R Gangadhar Shirsalkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24434 05.05.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
205102	Mahesh.V.Bhatt Vinayaka.S.Bhatt.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25233 15.10.09	# 11, 2nd Cross, 2nd Main Rd, J.P.Nagar, 7th Phase Puttenahalli, Bangalore
205103	Maheshkumar Gujar ShashiKr.M.Gujar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26278 23.03.10	Nr. Khadi Gramodyog OfficeGujjar Gali, Bijapur
205104	Maheshwari Bhupesh Maheshwari M Krishnalal Ratanlal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24445 05.05.09	H.No. 5-992/33/A, Yadullah Cly, Roza(K), Nr Water Tank, Gulbarga
205105	Maheshwari Danappagoudara Shankarmath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24223 28.04.09	Shankarmath Left Side, Hospet RdHarapanahalli Tq, Davangere
205106	Mahesreen Mujawar Usman.G. Mujawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26659 11.05.10	Gurukul Rd.Terdal Post, Jamkhandi Tq. Bagalkot
205107	Mahima Kamath. K Umesh Kamath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24783 04.06.09	H.No. 1-30, Nr. Santhekatte, Hiriadka Post, Udupi
205108	Mahmad Iliyas Mohamad Husen Bepari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28271 17.05.11	Indira Nagar Police Station Rd.Talikati Post, Muddebihal, Bijapur
205109	Mahmadrafarif Dongrisab Walikar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23802 04.04.09	Jalageri Post, Badami Tq, Bagalkot
205110	Mainaz PH Hammad Kunhi P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29012 27.04.12	No 3-278, Monte Padavu, Asma Bagh, Montepadavu Bantwal Dhakshina Kannada
205111	Maktedar Rohini Ramraje Maktedar R Kisanrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24127 22.04.09	# 15-3-133, Plot.No. 16, 8 Shambhavi, Rampure Clny, Bidar
205112	Maktumpatel Jinnasarkar Jinnasarkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25041 06.07.09	Bastihal, Gubbewad, Sindagi Tq, Bijapur
205113	Mal Reddy. M Shivareddy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24526 12.05.09	Anapur Village, Yadgir Tq, Gulbarga
205114	Malatesh Kulkarni Khrushnaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27765 07.04.11	#510, Adru At & Post, Hangal Tq, Haveri

205115	Malathesha. E Eswarappa. K.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25253 24.10.09	# 04, 1st Cross, Valmiki Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
205116	Malavi Shayan Vasuki Shayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25541 05.03.10	# 15, 2nd Cross, 1st Main, SoudhaminiLayout, Konankunte, Bangalore
205117	Mali Jaywantrao Anandrao Anandrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24336 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205118	Mali Mukund Madan. Mali Madan Dharmidhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25113 09.09.09	Traveller's Banglow, Challakere Chitradurga Rd Challakere
205119	Mali Pallavi Krishna Krishna Mali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30467 07.06.13	Plot No- 39, Ramanagar, At Post Rendal, Tal-Hatkanangale, Kolhapur
205120	Mali Rahul Shankar Mali S Vitthal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24318 29.04.09	7th Cross, Chalukya NAgar, Badami Tq, Bagalkot
205121	Malika Samrin. B Mohsin Ali Khan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25317 27.11.09	# 10, C.No. 5th Street, Chandhi Chowk, Shivaji Nagar, Bangalore
205122	Malini Bhat K K Manjunath Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29156 11.05.12	No 208, Sri Ganesh, Sri Rama Rd. , Thyagaraj Nagar, Bangalore
205123	Malini.N Nanjunda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26857 02.09.10	IG 64 (10/332), KHB Clny, Nr. Big Tank, Chamaraja Nagar
205124	Malipateel Sudha M.P. ShivaKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27797 07.04.11	Janekal At & Post, Manvi Tq, Raichur
205125	Malipatil Pooja Baburao Baburao Mali Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25426 26.02.10	# 19-1-169, IVth Cross, Shivnagar South, Udgir Rd. Bidar
205126	Malivijaykumar Sambhai Mali Sambhaji Vithoba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25267 02.11.09	Shri. S.G. Vastrad Building, Bijapur
205127	Mallamma Hosamani Hanamanthappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24621 18.05.09	Sangameshwar Nagar, Ron Tq, Gadag
205128	Mallappa.B.Patil Siddappa.B.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25383 05.02.10	Siddapur Tot, Khemalapur, Raibag Tq, Belgaum
205129	Mallesha Naik. R Rama Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24600 18.05.09	Rajagonda Halli Tandya, Thippegonanahalli Chanagiri Tq, Davangere
205130	Malleshi Tillihal Sahebgoud Tillihal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29892 20.12.12	At & Post- Tidagundi, Tq & Bijapur
205131	Mallika.M.Adiga Mahableshwara Adiga.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28317 25.05.11	#39, Sri Guru Kripa, Mahakavi Kuvempu RdVenkatadri Layout, Bangalore
205132	Mallikargun Ganganahalli Chandrakant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26600 23.04.10	Aishwarya Nagar Ashram Rd, Mallikarjun Niwas Plot.No.115, Bijapur
205133	Mallikarjun Hanmanthappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23915 09.04.09	Markunda Manna, Ekhalli Post, Humnabad Tq, Bidar
205134	Mallikarjun Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24026 20.04.09	Nr. Laxminagar, Raichur Rd.Lingasagar Tq, Raichur
205135	Mallikarjun Shivaray	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27845 08.04.11	No-9-738/11, Gandigudi Layout Shata Bazar, Gulbarga
205136	Mallikarjun Koodagi Vitthal Koodagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24983 12.06.09	P.No. 8, Sector.No. 9, M.M. Etxn, Belgaum

205137	Mallikarjun Ragate Shrishail	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27048 15.03.11	Matapitru Nilaya, Basavanagar , Ilkal A/P, Hungund Tq., Bagalkot
205138	Mallikarjun Vatar Ayyappavatar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23744 02.04.09	Arbol StreetShahpur Tq, Gulbarga
205139	Mallikarjun.B.Walikal Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24546 13.05.09	Domanal, Sutagundar Post, Bagalkot
205140	Mallikarjuna D Doreswamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30474 11.06.13	Chikkamalapura (V&P), Kollegal Tq, Chamarajanagara
205141	Mallikarjuna. H.M Dakshinamurthy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25342 23.12.09	LIG-08, KHB Clny, Hagari Bommanahalli, Bellary
205142	Mallya Kusum Raghunath Raghunath Mallaya. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24677 28.05.09	# 11-45(O), Behind SDM College ofAyurveda, Kuthpady, Udupi
205143	Mamalajabegaum Walikal Husenasab Walikal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26622 27.04.10	C/o. H.H. BudihalTulsigeri Post, Bagalkot
205144	Mamata Ukkunda Parameshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30317 10.05.13	Nr. Temple, At/Post Honnatti, Tq- Ranebennur, Haveri, Ranebennur
205145	Mamata.V.Shetty Vittal Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24908 09.06.09	# 401, Patrad Lane, Karangalpady, Mangalore
205146	Mamataj BegumYadawad Maktumhusen.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26087 19.03.10	Madeena Mohalla, Savadathi Tq, Belgaum
205147	Mamatha C G Gurumurthy C G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30381 21.05.13	Latha Nilaya, Behind Govt Hospital, Parashurampura Post, Tq Challakere,
205148	Mamatha M Madhavan M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30199 29.04.13	#794, 7th Main, Srirampura 2nd stage, Mysore
205149	Mamatha. G.S Shantappa. G.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25580 05.03.10	H.K. Alapanahalli, Honnur Post, Davangere Tq &
205150	Mamatha. H.C H.N. Chandrashekharappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25902 15.03.10	# 921/34, 10th Cross, Davangere
205151	Mamatha. R Ranganath. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24355 30.04.09	# 2288, 3rd Cross, 6th Main, VinayakaNagar Bantikoppal, Mysore
205152	Mamitha Deju Poojary.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24062 21.04.09	# 01/92, Chandana Nilaya, Balagady Post, Koppa Tq, Chickmaglor
205153	Mamta B. Ram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28258 17.05.11	#18-3-154, Bilal Clny, Bidar
205154	Manakar Nitinb Jagannath Jagannath D Mankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29708 13.07.12	Badole BK At Post, Akkalkot TQ, Solapur
205155	Manasa Shivappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30417 27.05.13	Handarahalli, Budigere (p), Devanahalli Channarayapatna (H), Bangalore (R)
205156	Manasa Bhat Ashakiran Kallankaje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28807 13.04.12	# 8/62, Kamakshi Nagar IOB Cly, Nr Bharathiyar University, Coimbatore
205157	Manasa M Mahalingachar D S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28851 18.04.12	# 12/268, 5th Main Rd. Subhash Nagar, Arsikere Post & Tq, Hasan
205158	Manasa Y R Rajanna H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29806 12.10.12	# 3/163, K K Rd.Yelandur At Post & Tq, Chamarajanagar

205159	Manasa Yadav Vithalrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30056 16.04.13	House No-17, Samyamam, C.B. Nagar, Dharwad
205160	Manasa. B Bhaskar Bhatta. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25495 04.03.10	# 33/10, 2nd Floor, 10th A Cross, 4th MainRd Srinivas Nagar, Bangalore
205161	Manasa. B.K Keshavachar. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24164 24.04.09	Girinivas, # 108/135, 1st Floor, 3rdCross, HVR Layout, Magadi Main Rd Bangalore.
205162	Manasa.N.Hegde. Nagapati.S.Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28617 05.11.11	# M-5/1891/1, 1st Cross, Wesley RdMandi Mohalla, Mysore
205163	Manasa.T.M. Thotana Gouda.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27849 08.04.11	#52.53, Jyothi, Devegowda Layout Jagalur A/P & Tq, Davangere
205164	Manasa.T.V. R.Venkatachala	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27865 11.04.11	#49, 6th Cross, 3rd Main Rd.Municipal Layout, S.S. Puram, Tumkur
205165	Manasa.Y.S. Rajesh.H.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26761 23.07.10	Hosamane Extension, 6th Cross, Shimoga Tq &
205166	Manasi Rooge Vasant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25358 12.01.10	High School Main Rd. Bhoj At & Post, Chikkodi Tq, Belgavi
205167	Manasvini. H.R H.P. Ranganath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24162 24.04.09	# 43, Parahahamsa, 100ft Rd, Opp Pesi.T, Hosakerehalli, Bangalore
205168	Manchala Dattatrayrao Dattatrayrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25092 14.08.09	# 3-82, Kirana Bajar, Aurad (B) ? Tq, Bidar
205169	Mane Ashwini Kuber Mane Kuber Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25907 15.03.10	H.No. 213, 1st Stage, Rani Channamma Nagar, Belgaum
205170	Mane Goraxnath Mayappa Mane M Dhondiba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24187 24.04.09	Chalukya Nagar, 7th Cross, Badami Tq, Bagalkot
205171	Mane Manisha Dattatray Mane Dattatray Yashvant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23958 13.04.09	B.A.M. CollegeChallakere Tq, Chitradurga
205172	Mane Pallavi Shivajirao Mane S Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24873 06.06.09	# 175/A, 8th Cross, Bank Clny, Banashankari 1st Stage, Bangalore
205173	Mane Rohini Balkrishna Mane B Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26095 19.03.10	Bedkihal Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205174	Mane Satyawan Sitaram Mane Sitaram Jaiwant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25312 27.11.09	Nr. Old Pariwar, Dhaba, Manvi Tq, Raichur
205175	Mane Shripad Bhagawan Bhagawan Bhau Mane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24690 02.06.09	Ratnry BLDG, S.T. Khot Clny, Shamanewadi Chikkodi Tq, Belgaum
205176	Mane Vijaykumar Shivaji Narayan Mane	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30087 18.04.13	A/p Natepute, Nr. Vittal Temple, Vittal Nagar, Tal Malshiras, .
205177	Maner Nilam Babanso Babanso C Maner	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30175 25.04.13	Chand Manzil, Shirala Naka, Ganesh Nagar, Islampur, Tal-Walwa, .Sangli, Islampur
205178	Mangala Gurulingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27128 17.03.11	Gadwanti ? A/P, Humnabad Tq., Bidar
205179	Mangala Bidarakundi Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26759 23.07.10	#4-4-1, B.R.Ambedkar Nagar, Yadgiri Tq &
205180	Mangala Gowri Gopal Kalal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29204 14.05.12	No 494 Shivapur Rd.Huligi Munirabad Koppal

205181	Mangala Honnappanavar Doddabasappa H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25852 12.03.10	Yelishipur Post, Gadag
205182	Mangalgiri FaruqNasirahamed Nasirahamed I Mangalgiri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23961 13.04.09	Vidyanagar, 1st Cross, Badami Tq, Bagalkot
205183	Mangaonkar Pradnyarani AnilKr K Mangaonkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29860 06.11.12	?Swami Niwas? # 2942, Shivajinagar Panchayatt Samithi, Shirol Tq, Kolhapur
205184	Manglekar PankajNandakumar NandKr Maruti Manglekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26832 25.08.10	Baichangal ?A/P, Opp Bus Stand, Soundatti Tq, Belgaum
205185	Mangrule Saroj Arjun Arjun Siddhappa Mangrule	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28966 26.04.12	A2, Onkar Appt. Achegaon At & PostSouth Solapur Taluk, Solapur
205186	Manik Mukund Apte Mukund Apte.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24322 29.04.09	# 1-16/A, Shrikripa, Viveknand Nagar, Gulbarga
205187	Manikareddi Vanikayal Rudragouda.S. Vanikayal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27354 24.03.11	Malla-B, Shorapur Tq, Yadagir
205188	Manikwar Parimala	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28813 13.04.12	Turori At & Post, Omerga Tq, Osmanabad
205189	Manikya. K.L Lingegowda. K.U	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27516 28.03.11	Kumbaru Beedi, Koratagere, Tumkur
205190	Manish Kumar Yogi Babulal Yogi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	27926 12.04.11	F/756, 1st main, Behind Church Compound, Davangere
205191	Manisha Kambale Milind Parashuram Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29859 06.11.12	Borgaon At & Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205192	Maniyar Maitrayakumar Umesh Bhat Maniyar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28978 27.04.12	No.2156-C, Nita Park , Hill Drive Rd, Opp Gulisha Ground, Bhavnagar
205193	Manjari Chandra Chandrashekar.K.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28128 26.04.11	Gulshan Rambetlu, Korangrapady, Udyavara, Udupi
205194	Manjari.K.R. K.R. Ravi Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27041 14.03.11	#92, Sameeraja, 5th Cross, 1st Main, Gokulnagar, Doddakalsandra, Bengaluru South
205195	Manju Rekha B Laxmesh I Badiger	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29080 05.05.12	Amruta Kalasha, Indrakeel NagarGadag Rd Behind Matha Hotel, Hospet Road,
205196	Manju. H.R H.D. Rajegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25525 04.03.10	# 109, MIG-II Group, KHB Clny, Hootagalli, Belwadi Post, Mysore
205197	Manjula Siddana Gouda A K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30302 09.05.13	Arhal Post, Tq Gangavati,
205198	Manjula Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25430 26.02.10	Gangamma Nilaya, 9-6-57, Chidri Rd. Bidar
205199	Manjula Beladadi Kariyappa.N. Beladadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27112 17.03.11	LIT-325, 11th Cross, Navanagar, Hubli, Dharwad
205200	Manjula Jevoor Virupaxappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27618 01.04.11	Madarmaddi, 6th Cross, Hosayallapur, Dharwad
205201	Manjula Karadi Panchakshari K Karadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29423 23.05.12	No 209/B2, Nidagundi at post , Ron Tq, Gadag
205202	Manjula Madiwalur Balappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26282 23.03.10	Madiwalur Chal, Bailhongal Tq, Belgaum



205203	Manjula Patagundi Bhimappa Patagundi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24721 03.06.09	Shri. Veebhadeshwar Krupa, Laxmi Extn Area, Gokak Tq, Belgaum
205204	Manjula Ranagatti Bheemanna Ranagatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25455 02.03.10	# 358, Mahantesh Nagar, Nr. Abubkar Darga Jamkhandi Tq, Bagalkot
205205	Manjula Sirigeri Basavaraj N Sirigeri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29689 03.07.12	Krishnapur 2nd Cross, Nr. Indi Pump Police Station, Old Hubli, Dharwad
205206	Manjula. G G. Devindrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27226 22.03.11	SHESAy. Medical College, Gulbarga
205207	Manjula. M.S M.V. Shanthaveeraiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25582 05.03.10	# 2427, 1st Main, 10th Cross, Davangere
205208	Manjula.G.S. G. Shivamurthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28031 19.04.11	Doddabommanahalli, Anaburu PostJagalur Tq, Davangere
205209	Manjula.P.Badiger Prakash.M.Badiger.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24993 16.06.09	# 83, 5th Cross, 4th Main, Mylasandra BEMLLayout, 7th Stage, 2nd Phase Mysore RdBangalore
205210	Manjunala. K.B Basavanneppa Karlwar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25114 09.09.09	# 18, Mahaveer Cly, Shantinagar, KeshwapurHubli Tq, Dharwad
205211	Manjunath Laxman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29773 29.09.12	# 1/10, Hunasagi TandaShorapur Tq, Yadgiri
205212	Manjunath Totappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24671 23.05.09	Bazar Rd. Kembhavi Post, Surapur Tq, Gulbarga
205213	Manjunath AR S Ramesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29180 14.05.12	Sangam Textiles, Anaveri At Bhadravathi Shimoga
205214	Manjunath Ajanal Nagappa Ajanal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24277 29.04.09	112th Cross, Kumar Oni, Lakkundi Post, Gadag
205215	Manjunath Avvannavar Veerappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23702 01.04.09	# 101/122, Gokul Rd. Vikas NagarHubli Tq, Dharwad
205216	Manjunath Dundi Hanmanth S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29387 21.05.12	No 1824 Sector 10, Anjaneya nagar, Belgaum
205217	Manjunath Gurlapur Shivaligappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24811 05.06.09	Basaveshwar Street, Hallur Post, Gokak Tq, Belgaum
205218	Manjunath Humanabad Gurulingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29805 12.10.12	Bhimashankar Nilay, Bijapur Rd. BasavaNagar, Sindagi Post Tq, Bijapur
205219	Manjunath Janvekar Parashuram Janvakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23823 04.04.09	Laxmi Nivas, Mahantesh Nagar, Ghataprabha PO, Gokak Tq, Belagum
205220	Manjunath Jevaragi Mallikarjun Jevaragi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28366 31.05.11	Channakeshava Nilaya, Laxminagar, Sindagi Rd. Indi Tq, Bijapur
205221	Manjunath Kabadi Annasa.H.Kabadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27558 29.03.11	Hanggi Oni, Chenn peth, Old Hubli, Dahrwad
205222	Manjunath Kalal Nagraj Kallal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28561 20.09.11	Sai Durga Nilaya, Namdevgalli, Hirekerur Tq, Haveri
205223	Manjunath Kanthi Giridhar.M.Kanthi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23916 09.04.09	LIG-202, Manipal Tq, Hudco CIny, Udupi
205224	Manjunath Karundagimath Yogayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27920 12.04.11	Karudagimath Nursing Home, Station Rd. Badami Tq, Bagalkote

205225	Manjunath Marigouda Ramanagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26899 20.09.10	Laxmeshwar At & Post, Shirahatti Tq, Gadag
205226	Manjunath Merawade. Ishwarsa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24824 05.06.09	# 510, K.K. Circle, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
205227	Manjunath Pattar Revappa M Pattar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28938 26.04.12	Gowdar Street, Somalingeshwar Chowk, Sindagi Taluk, Bijapur
205228	Manjunath Pol. Shivarudra Pol.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26048 19.03.10	Sangameshwar Clny, Gyang Bawadi, Bijapur
205229	Manjunath ShivappaDandin. Shivappa.B.Dandin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28438 20.06.11	# 278, Nilogal, Kushtagi Tq, Koppal
205230	Manjunath SwamyKedar Swamy Kedarnath Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26491 06.04.10	Balaganur, Sindanur, Raichur
205231	Manjunath. D Lakshmana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24199 24.04.09	Nr. Devangmath, Gangavati Tq, Koppal
205232	Manjunath. H.D Dasharath Hirolli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25264 02.11.09	Plot.No. 4, BLDE Rd.Mallikarjun Nagar, Bijapur
205233	Manjunath. R Ramakrishnappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26239 23.03.10	# 210, Block.No. 18, Vchgaon Post, Bangalore
205234	Manjunath. S Shivarudrappa. H.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25516 04.03.10	# E-53/3, Devinagara, Nagashettyhalli, Sanjay Nagar Post Office, Bangalore
205235	Manjunath.D.Naik Dharmanaik. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24958 10.06.09	# 24F, IIHR Clny, Hesaragatta, T.B. Lake Post, Bangalore
205236	Manjunatha M T Thippeswamy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29999 08.04.13	Nr. Ravindra College, H.B. Clny, T.R.Nagar, Challakere-Tq- Chitradurga
205237	Manjunatha. M Mallappa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25451 02.03.10	Opp Sri Rama Temple, Jyoti Nagar, Sira Tq, Tumkur
205238	Manjunatha. P.M P.M. Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25487 04.03.10	Doddapet, Molakalmuru, Post, Chitradurga
205239	Manjunatha.D Devidas. S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28136 26.04.11	No.359/1, M.B.Keri, Davangere
205240	Manjushree Somanna Chinnur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29130 07.05.12	Mars Building Behind , Kishori Petrol Bunk , Hospet Road Koppal At Post &
205241	Manjushree .R.B. Bharama Goudar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27091 16.03.11	ShivaniTarikere Tq, Cikkamagalore
205242	Manjushree S Siddalingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29193 14.05.12	1341/6, Saraswathi Nagar, B block4th Cross1st Main Rd, Davangere
205243	Manjushri Jagannath Satish K Subhash Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27360 24.03.11	# 2261, Shanti Niwas Agriculture Clny, Bidar
205244	Manohar Lingraju . J. Lingaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27590 30.03.11	# 07, Vihara, Kempanapalya Rd.Kollegala, C.H. Nagar
205245	Manohar Nikhil Vijay Manohar Vijay Chandrakant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24454 05.05.09	Sri Veerabhadrashwara Nilaya, Vikas Nagar, KPTCL Rd. Koppal
205246	Manohar Sarangi Shivappa Sarangi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27520 28.03.11	Gulegudd At & Post, Badami Tq, Bagalkot

205247	Manohar. R P. Rajappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27328 23.03.11	Chikkayagati, Hosadurga Rd.Hosadurga Tq, Chitradurga
205248	Manoj Keshri Haridas Keshari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28323 25.05.11	C/o SVPR AMC, Boy's Hostel, Badami Tq, Bagalkot
205249	Manoj Kumar Chuni Lal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25142 25.09.09	Teacher's Clny, Plot.No. 115M.P. PrakashnagarHospet Tq, Bellary
205250	Manoj Kumar Shantha Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28402 09.06.11	Kesthur Gate, Kesthur PostK.R.Nagar Tq, Mysore
205251	Manoj Kumar Pandey Jagdish Dutt Pandey.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25744 12.03.10	# 1711, 1st Cross, Heggeri ClyHubli Tq, Dharwad
205252	Manoj.G. Ganapati.G. Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28249 12.05.11	Janatha Clny, Nr Railway Station, Murdeswar Post, Bhatkal Tq, U.K
205253	Manojkumar Acheelal Acheelal R Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28992 27.04.12	Plot No 6 , Room No. D5, Ganeshnagar (Mhada) Kandivaci (west) Mumbai
205254	Manojkumar Guvar Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24341 29.04.09	# 156, Guvar Galli, Sankeshwar Post, Hukkeri Tq, Belgaum
205255	Manukumar. S Shivaswamy. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25645 06.03.10	Sundahally, Veliyur Post, Mandya
205256	Manzoor Ahmed Khaleel Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29848 05.11.12	# 447, Tasleem Shavali Durga, Khutub Shahinsha Nagar, Kolari
205257	Mariswamy Panchaksharayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29955 06.04.13	Nr. Kambalimath, Sante Bazar, Raichur, Maski
205258	Mariyappa Harijan Husenappa Harijan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29566 12.06.12	Halawagali At Post, Koppal Tq &
205259	Mariyappa Matinavar Neelappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24556 13.05.09	Rajur Post, Ron Tq, Gadag
205260	Markandeya.G.Jedar. Gangappa.S.Jedar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24792 04.06.09	Kalwad Post, Navalgund Tq, Dharwad
205261	Marne Sandip Dipakrao Marne D Raosaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24080 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
205262	Marularadhya Math Panchakshari Math	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27087 16.03.11	Hiltop Clny, Kembhavi Shorapur-Tal, Gulbarga
205263	Maruti Ningappa Belanal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24547 13.05.09	Bellur, Kataraki Post, Koppal Tq &
205264	Masal Pramod Brahmdev Masal Brahmdev Krishnat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23848 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School# 2, Mahadev Galli, Nipani Chikkodi Tq, Belgaum
205265	Mashalkar Pallavi Baburao Baburao B Mashalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29732 23.08.12	?Sarhak? # 4-1-200MARWADI Galli, Station Rd. Udgir At Post & Tq Lature
205266	Maskar Pravin Zumbarrao. Maskar Zumbarrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25306 27.11.09	H.No. LIG-24, Sangameshwar NivasHousing Board Clny, Bidar.
205267	Maske Sarika Eknath Maske Eknath Shripati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24417 05.05.09	Vidyanagar, Bailhongal, Belgaum
205268	Massand Amit Balram Balram. S.Massand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28696 15.03.12	#406, Preethi Apt, Kodial Guthu (w), Koddal Bail, Mangalore Tq, D.K.

205269	Maurya Aditya NarayanShrinath M. Maurya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30593 02.08.13	302, R-2, Adarsh Chs. New Movie StarCinema, Rammandir Rd. , Maharashtra
205270	Maurya DharmendraBankelal Bankelal Maurya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29544 28.05.12	A/502, Ganeshtower, Om Sai Complex, Janata Nagar Rd. Bhayandar (w) Thane
205271	Maurya Vijaykumar Ramashankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24273 29.04.09	Dasar Oni, Nr Trikuteshwar Temple Gadag
205272	Mavinmar Shankargoud Mavinmar Paragonda Sankanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24817 05.06.09	E.W.S 90, Adarsh Nagar, Ashram Rd. Bijapur
205273	Mayadevi Shinde Ekanath Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28562 29.09.11	H.No. 5-2-70, Nr. Railway Gate, Siddhrth Nagar, Bidar
205274	Mayur Sherkhane Narashimha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30233 30.04.13	R.S. No. 154/B, Plot No. 44, Adarsh Nagar, Hudco Colony, Gadag
205275	Md Altaf M.A. ef.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27244 22.03.11	# 9-5-236, Behind Irani Imambada, Badruddin Clny, Bidar
205276	Md Mehaboob Ali Mohammed Hasham Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23997 18.04.09	# 4, KEB Office, Huvinahadagali Tq, Bellary
205277	Md Shaffeq Babumiya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25998 18.03.10	P&T Quarters, R.S. Post Office, Gulbarga
205278	Md. Feroz Hundekar Md. Ishaq.M.Hundekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26229 23.03.10	# 1048D, Adarsh Nagar, Shahapur Tq, Yadgir
205279	Md. Mustaf Madansab.G. Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27848 08.04.11	E/2/89, Malanoor A/P, Surupur Tq, Yadagiri
205280	Medari Pasi Konstan Sungoh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25223 13.10.09	Vishwa Kuteera, Udyavara, Bolargudde, Udupi Tq, Dkashina Kannada
205281	Meena Kumari Mohan Hilalpure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30140 22.04.13	H.No. 18-2-378, Ram Nagar Clny, Chidri Rd. Bidar
205282	Meena Kumari. B Bhim Kr. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27541 28.03.11	# 336, 5th ???Cross, Syndicate BankLayout, Herohalli, Bangalore
205283	Meena. V Venkatesh. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24632 18.05.09	# 48, 2nd Cross 38th Main, RoseGarden, 6th Phase J.P. Nagar, Bangalore South
205284	Meenakshi Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29224 15.05.12	No 266, 3rd Cross , 3rd Block , VeerandraPatil Nagar, Sedam Rd. , Gulbarga 585101
205285	Meenakshi Ishwar.B.Hosur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23843 06.04.09	Raghavendra Krupa, Jog Rd. Hosur, Siddapur, U.K.
205286	Meenakshi Mishra Ex. S.G.T.S.K. Mishra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25434 26.02.10	# 12-3-172, Ambika Nivas, Linganand Cly, Khaji Clny, Bidar
205287	Meenakshi. VijayKr Mankare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25427 26.02.10	# 9-5-160, Vivekanand Nagar, Chidri Rd. Bidar
205288	Meenashree M Mallesha P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29777 29.09.12	#10, 2nd Cross, Kirloskar FoundryYeshwanthpur, Banglore
205289	Megha Sangwan Rajbir Singh Sangwan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28207 04.05.11	83 C, 6th ?A?Cross, Banashankari 3rd Stage, Lakshmanappa Garden, Bangalore
205290	Megha. K Krishnappa. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24118 22.04.09	# 36, Vikas Layout, Maruthi Nagar, Yelhanka, Bangalore.

205291	Megha. K.S K.R. Satyanarayana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27524 28.03.11	# 101, 3rd S.R. Compound, Arkere, Bannerghatta Rd. Bangalore
205292	Megha. T T. Dattatreya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25681 12.03.10	# 422, Chaniga Nilaya., 6th CrossBasaweshwara Bhadavane Hospet Tq, Bellary
205293	Meghana Desai Shankar Rao Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26069 19.03.10	# 198, Killa, Kerur Post, Badami Tq, Bagalkot
205294	Meghana Kulkarni Ashok H Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30385 22.05.13	A.T. Rd.Badami Bagalkot
205295	Meghana. N Narayana. T.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24208 24.04.09	# 64, B CISF Clny, Kudremukh PostMudigere Tq, Chickmagalore
205296	Meghashree. G.T Lokesh. S.D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24205 24.04.09	3rd Cross, Hosmane, Shimoga
205297	Mehetre Somanth Rajaram Rajaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23933 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr. Raghavendra Temple, Sindagi Tq, Bijapur
205298	Menaka AS Anneppa Sherikar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29119 07.05.12	H. No.9-7-123, Gandhi Gunj Police Station, Bidar
205299	Menaka Makannavar Yallappa S Makannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29174 11.05.12	Yellapur Oni, Hubli TQ , Dharwad
205300	Mengshetty EshwariSubhash Subhash Mengshetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30295 08.05.13	Aapli Aavad, Shivaji Chowak, Main Rd. Latur
205301	Menkudale Dhaneshwar Shivaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30205 29.04.13	At Post Radi, Tq-Ambajogai, Beed, Radi
205302	Methre Mahalappa Revansidha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29664 18.06.12	Huljanti At Post, Mangalwedha Tq, Solapur
205303	Metri Kashinath Gurubasappa M G Sidramappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24429 05.05.09	Seojivakar, K.M.P Rd.Badami Tq, Bagalkot
205304	Metri Rajashekhar Mahadevappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25001 18.06.09	Ashwini Clny, BLDE Rd. Bijapur
205305	Metri Veena Metri Bheemaraya Peerappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29698 06.07.12	Shivashanti Dresses, Bazar Rd. Indi At Post & Tq, Bijapur
205306	Mevekari Amina Abdulsattar B Mevekari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30110 19.04.13	At Post Burud Gali Malkapur, Taluk- Shahuwadi, Kolhapur, Malkapur
205307	Mhaske GaneshShriram Shriram Shali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29888 17.12.12	At-WardadiB K Post Tq, Sindkhed Raja
205308	Milan Bhojakar Su Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30091 18.04.13	A/p Manjari, Tal-Chikodi, Belgaum, Manjari
205309	Milind Benake Subhash.T.Benake.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	24121 22.04.09	Diageo India Ltd, # 2012, Sreyash Plaza, 2nd Floor, HAL 2nd Stage, Indranagar Bangalore
205310	Minajagi Priti Bhimappa Bhimappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26698 29.05.10	#39, Mallikarjun Nagar, Ashram Rd.Behind P&T Quarters, Bijapur
205311	Minaxi Bandeppa Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29120 07.05.12	No 1-16, Gadi Gound Gaon, Basavkalyan Taluk Bidar
205312	Minazila Jabbar H A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30334 16.05.13	Fathima Manzil, Addoor Via Gurupura, Dakshina Kannada , Mangalore

205313	Minu Mathew K KJ Mathew	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29068 05.05.12	No 166, 2nd Stage 2nd A Main Mysore
205314	Misar Shruti Pramod Misar Pramod Chandrakant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27066 15.03.11	No.201, Basaveshwar Rd. Dharwad
205315	Misba Naz Kazi Abdul Rab Kazi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29251 15.05.12	No 12, Subhash nagar , Karwar Rd. Old Hubli Dhrwad
205316	Misba Suhana Md Izhar-Ul-Huq.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28493 26.07.11	Saira Manzi, # 672, Vijayanagar, 2nd Stage Guddinahalli, Hasssan
205317	Misbah Firdose Ameer Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29679 29.06.12	# 340, 4th Main, Subhash Nagar, Bademakan Layout, N R Mohalla, Mysore
205318	Misbah Kehkashan Waseem Ahmed Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30440 31.05.13	No. 04, Sathanagar, Bairappanahalli, Main Rd, M.S. Nagar Post, Bangalore
205319	Mishra Rajnishkumar Shrikant Shrikant P Mishra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28838 16.04.12	# 505, Gandhi Nagar, Roorkee (Ganesh Vatika) Roorkee Hardiwar
205320	Mishra Sandeep Sheshmant M ShSatyanarayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23777 03.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205321	Mithlesh Jain Sharad Jain.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25031 02.07.09	Shop.No. 5, Garden Circle, APMC Rd.Siddapur, N.Karnataka
205322	Mithun Kazhakaran Madhavan. K.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27592 30.03.11	Balaji Farm, S. Guttahalli Gate, Gatigenabe Hoskote, Bangalore
205323	Mithun.K.Shetty B. Krishnappa Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24771 04.06.09	# 11-220/11, Kaikunja Rd. B.C. Rd.Bantwal Tq, Dakshina Kannada
205324	Mithuna Shivashimpi B V Shivashimpi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26858 02.09.10	Ramdurg Cross, Badami Tq, Bagalkot
205325	Mitkari Amruta Anilrao Anilrao.V.Mitkari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23815 04.04.09	Plot.No. 34, H.No. 8-9-270, Gurunanak Clny, Bidar
205326	Mogale Laxmi Ashok Ashok.S.Mogale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24919 09.06.09	# 450 (Nakul), 3rd Block, HMT Layout, Vidyaranyaपुरa, Bangalore
205327	Mohamadasif Shaikh Ismail Shaikh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25518 04.03.10	# 367, Kumbhar Galli, Londa Post, Khanapur Tq, Belgaum
205328	Mohamed NoorulHussain. B. Abdul Nazeersab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26855 02.09.10	Govt Girls Primary Model School, Hospet Rd. Harapanahalli, Davangere
205329	Mohamed Rafiq. S Hameed. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27549 28.03.11	# 21-184, Chikkaba nahalli, Molakalmuru Tq, Chitradurga
205330	Mohammad ImranAwati Haroon Saiyyad Awati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28600 19.10.11	# 08, APMC Staff Quarters, Indi Rd. Bijapur
205331	Mohammad Ishaq Shamseer Baig Mohammed Baig	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23827 06.04.09	Jorammanavar, # 151/1/ B50, Basava Nagar, Gokak Tq, Belgaum
205332	Mohammad Mukthaf Sulaiman B H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30296 08.05.13	D.NO. 3-35, Badyar, Belma Village, deralakatte post, dekhshina kannada, Mangalore
205333	Mohammad Shafi Mulla Abdul Munaf	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30500 15.06.13	At-Tippaikoppa, Post-Masur, Tq- Hirekerur, Haveri
205334	Mohammadaraish M. H. Benne Shirur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27900 11.04.11	Amel ? A/P, Shindagi Tq, Bijapur

205335	Mohammed Azaruddin Shahajan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28474 04.07.11	Guthi Peth, Mohalla, Shahapur Tq, Belgaum
205336	Mohammed Jaffar. H Shashavali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23897 09.04.09	# 4, Behind Noorani Masjid, Kamela Rd. Bellary
205337	Mohammed Mubasheer-Ul-Haq Md. Muzaffer-Ul-Haq	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27750 06.04.11	#4-1-60, Sardarpura Noor KhanTaleem, Bidar
205338	Mohammed Thameem V. Hammabba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25824 12.03.10	Shaffi Villa # 9-54, Bajal Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
205339	Mohammulal M.C. Kothali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28552 20.09.11	# B 7, 6th Cross, NMPT Clny, CISF Panambur, Mangalore
205340	Mohan Bhangе Tanaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24615 18.05.09	Nr Gandhi Chowk, Station Rd, Bhalki Tq, Bidar
205341	Mohan Bhasme Chandrashekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24903 09.06.09	# 3570, Sadashiv Nagar, BanahattiJamkhandi, Bagalkot
205342	Mohan Galappagol Hanmantray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27355 24.03.11	Banjara Cross, Opp. Old Mugalkod Math, Bijapur
205343	Mohan Kagawade Ashok Kagawade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25610 06.03.10	Jugul Post, Athani Tq, Belgaum
205344	Mohan Krishna G G Ramachandraiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29288 17.05.12	No 9-81 a/1, Vijayapura, Rajivnagarar, Jeevakona, Tirupathi , Chitoor
205345	Mohan Kumar. V.C VV ChandraKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26675 20.05.10	#33, HIGI G4, Double Main Rd. KHBClny, Hootagally Belavodi, Mysore
205346	Mohan Kumari. R B. Raju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27574 29.03.11	# 8/56, Beyond P&T Quarters, Arsikere Tq, Hassan
205347	Mohan Monica Rajesh Rajesh Mohan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30350 20.05.13	H 5/B307 Geetanjali, Dewan Enclave, Ambadi Rd. Vasai (W), Mumbai
205348	Mohan Naik Basavaraj Ramappa Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29192 14.05.12	Zangatihal At Post, Hukkeri Tq, Belgaum
205349	Mohan Swamy. J S.S.Jagadeesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26856 02.09.10	Behind Mahaveer Jain CollegeCourt Rd. Doddaballapura, Bengaluru
205350	Mohana Kumara. B.C Channabasappa. B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25827 12.03.10	Kulambi, Honnali Tq, Davangere
205351	Mohankumar. S.S Shivanna. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24756 04.06.09	# 3447, Dhattraya Compound, Arsikere Tq, Hassan
205352	Mohanraj Parushetti Shrishail M Parushetti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29082 05.05.12	No 225, Rajendra Nivas, Gunji At & Post Khanapur Taluk Belgaum
205353	Mohasin Kadegaon Abdulasim. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26178 22.03.10	Karoshi Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205354	Mohasin Nawaz Khan Vazeer John.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25425 26.02.10	D.No. 19, HIG, KHB Clny, Kalyanagiri, Mysore.
205355	Mohasin Soudagar Basirahammad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28324 25.05.11	No.58, Bagawan Galli, NandaganGokak- Tq, Belgaum
205356	Mohd Farooq Azam Mohd Idris	BAMS BBA, Bihar Univ., Muzzaparpur	26917 27.09.10	#248, 6th Cross, Nayandanhally, Mysore Rd. Bangalore

2009				
205357	Mohd Miqdad Sait Mohd. Iqbal Sait	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28210 04.05.11	No.1017, 14th ?B?Cross, 1st Floor, J.P.Nagar, Sarakkigate, Bangalore
205358	Mohite Vishal Uttam Mohite Uttam Govind.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24073 21.04.09	Basava nagar 2nd Crosss, Rabkavi, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205359	Mohmed Azharuddin Md. Bashiruddin Dandoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28670 13.01.12	#14-441, Gunj Rd, Shahabad, Chitapur Tq, Gulbarga
205360	Mohsina Sarwad Rafiq Ahmed.H. Sarwad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28371 09.06.11	Behind Juma Masjid, Bagayat Galli, Bijapur
205361	Momin Arshiya Altaf Altaf Abalal Momin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26981 25.11.10	Shedbal Rd. Athani Tq, Belgaum
205362	Momin KhajapashaAbdullasab Abdullasab Momin	BAMS B.A. Marathwada Univ, Aurangabad 1998	27003 21.12.10	Reva Street, #35-36, Basvakalyan, Bidar
205363	Momin Mohsin Bashir. Bashir Ahmeed Momin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24682 01.06.09	# 19996, Amit Extn, Kayan Nagar, Sindagi Post, Bijapur
205364	Momin Muzamil Sardar Momin S Gulamdagir.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24077 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
205365	Momin NajahatbanoIqbal Iqbal Momin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30078 17.04.13	No. 125-A, Asara Housing Society, Hotgi Rd. Tq &Solapur
205366	Monika Munangam Gangaiah M N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30457 05.06.13	# 1050, Kanakadasa Hostel Rd.Nes Extn., Tal Malavalli, Mandya
205367	Monika. H.N Nagaraja. H.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27588 30.03.11	# 13/47, 7th Rd. K.R. Nagara, Mysore
205368	Mookambika M.T. A.D. Thippiaha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27014 07.01.11	#326, C.V. Raman Nagar, D.R.D.O. Township, Bangalore
205369	More Archana Dinakar More Dinakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26697 29.05.10	#39, Mallikarjun Nagar, Ashram Rd.Behind P&T Quarters, Bijapur
205370	More Ashish Subhash More SubhashVitthal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27143 18.03.11	Shivlarita Shetkar Complex Boy's Hostel, Gumpa Tq, Bidar
205371	More Bhagyashri Kisanrao Sarjerao More	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28824 13.04.12	Main Raod, Nr Bus Stand, Mantha At & Post & Tq. Jalna
205372	More Jayant Dattatray More Dattatray Bhimrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28939 26.04.12	No. 418/445, Paranda Rd, NaikwadPlot , Gandhi Nagar Barshi Solapur
205373	More Kiran Uttam Rao Uttamrao Haribhan More	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29618 14.06.12	# N-53/AF-2/29/06, Nashik At Post Tq &
205374	More Pooja Omprakash More.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24159 24.04.09	Patil Cottage, LIG No.6, HousingBoard Cly, Basavateerth Road Humnabad Tq, Bidar
205375	More Pradip Babaso More Babaso Ganpati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28485 18.07.11	MG Housing Clny, Dharwad By-Pass Rd Bailhongal Tq, Belgaum
205376	More Pravina Bhimrao More Bhimrao Venkat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30310 10.05.13	A/p Shighre, Tal Murud, Raigad, Murud
205377	More Shashikant Dnyandeo Dnyandeo Shreehari More.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25396 22.02.10	SSR Ay. Medical College, Inchal Post, Saundatti Tq, Belgaum



205378	More Yogeeta Shamrao Shamrao Baburao More	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23686 01.04.09	Hostel Inchal Math Hospital, InchalPost, Soundatti Tq, Belgaum
205379	Motwani Pravin Suresh M Suresh Assodomal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23840 06.04.09	Shri Shivashantaveera Nilaya, BehindPUC College, Gayigathi Nagar, Koppal
205380	Mounesh Tegginamani Sayabanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28412 20.06.11	Yanniwadageri ? A/P, Surapur ? Tq, Yadgiri
205381	Mouneshwari Mallappa H Talagari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28866 18.04.12	# 947/3A, Manguli Rd, Shivaji Nagar, Nr. Chidamber temple, Bijapur
205382	Mridula AP A Purushothama Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28927 26.04.12	SringeriAt Post & Taluk , Chikkamagalur
205383	Mrutyunjaya Aradhyamath M.M. Aradhyamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27445 25.03.11	Veerapura, Hirekerur Tq, Haveri
205384	Mubeena Abbas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30360 20.05.13	Sunnathkere House, Guruvayankere Post, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
205385	Mubin Mulla Husainsaheb H Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30373 21.05.13	MIG 120 KHB Clny Sankeshwar Tq- Hukkeri Belgaum, Sankeshwar
205386	Mubina Begum Abdul Rehaman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28703 26.03.12	#268 I/A, Kasai Galli, C/o Nasruddin A Khan, Belgaum
205387	Muchchandi PrakashRamachandra Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24875 06.06.09	Laxmi Plot.No. 1, Ameenagad Post, Hungund Tq, Bagalkot
205388	Mudasir Ahmed AM Abdul Mageed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28898 20.04.12	No, 712/21, 4th Cross Bangalore ClinicKuvempu Nagar Kolar Taluk &
205389	Mudkanna Arpita Ashok Ashok V Mudkanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30017 10.04.13	Samarth Nagar, Behind rict Court, Osmanabad
205390	Muhammed Yunus Basheer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24320 29.04.09	4th Cross, Premnagar, Sakleshpur Tq, Hassan
205391	Mujaheed Darugar Mahammadhaneef.H. Darugar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27403 25.03.11	# 309, Darga Oni, Sudambi, Byadagi, Haveri
205392	Mujahid Pasha. M Mahaboob Pasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27241 22.03.11	Noor Manzil, 3rd Cross, Kuvempu Nagar, Kolar
205393	Mukesh Mohan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30169 25.04.13	H.No. 1-907/10B, Behind Railway Station, 3rd Cross, Shahabaz Clny, Gulbarga
205394	Mukta Bhuyar Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24327 29.04.09	Tayikripa Complex, Rabakavi, Jamakhandi Tq, Bagalkot
205395	Mukta Patil Krishnaji.B.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25843 12.03.10	Qts.No. 9, Vidhyanagar, Belgaum
205396	Muktha P.S. Sathyanarayana P.G.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27164 18.03.11	680/2, 8th Main, P.J. Extn. Davangere
205397	Mukthishree T.P M.G. Padmaprabha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24161 24.04.09	Mukthishree Nilaya, 7th Cross, Gokula Extn, Tumkur
205398	Mukund Raj. N Nagarajappa. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23920 09.04.09	# 2397, 4th Main, Vinayanagar, Mysore.
205399	Mukund Waychal Ramesh Ekanath Waychal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25249 24.10.09	Chinchali (Mayakka), Raibag Tq, Belgaum

205400	Mulani Firoz Innus Innus.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24478 11.05.09	BVVSBoy's Hostel, Bagalkot
205401	Mulani JasminBabasaheb Babasaheb Mulani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30337 17.05.13	C/o Haroon Rashid Karnool At Post Pattadkall
205402	Mulani Kadir Subhedar Mulani Subhedar Kasim.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25319 02.12.09	Ay. Medical College Boys Hostel, Badami Tq, Bagalkot
205403	Mule Ravi Ramesh Mule Ramesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27595 30.03.11	C/o. NKJ Ay. Medical College, Shri Siddharoodh Math Gumpa, Bidar
205404	Mulgund KavitaBasavaraj Basavaraj S. Mulgund	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30371 21.05.13	24/4 Vijayalaxmi C.H.S Tilaknagar, L.L. Rai Marg. Dombivli (East), Thane, Dombivli
205405	Mulla Aafarin Razzaq Razzaq Kasam Mulla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24624 18.05.09	Raichur Manvi Rd. Parivar Dhaba, Manvi Post, Raichur
205406	Mulla Atika MD Iqbal Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28330 25.05.11	Plot No. B-28, Rail Nagar, Belgaum
205407	Mulla Shamim Aasata Khan Mulla Aasata Khan Yakub	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29936 07.03.13	A/P Mangaon, Infront of Kanya School, Tq Hatkangale, Kolhapur
205408	Mumbaraddi ShwetaSheshappa Sheshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24176 24.04.09	Gouligalli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
205409	Mumtaz Begum. A.C Allahbaksh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25539 05.03.10	# 1528, Chamundi Nagar, R.T. Nagar, Bangalore
205410	Munde BharatJanardhan Rao M Janardhanrao Satanavji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27110 17.03.11	NKJ AMC, Gumpa Boy's Hostel, Bidar
205411	Munirabegum Balavatti Moulasab A Belavatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29650 18.06.12	Jangundikoppa Belgalpet Post, Hangal Tq, Haveri
205412	Muniraju. K.N Eswarappa. K.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24973 11.06.09	# 77, 3rd Cross, Ayappanagar, K.R. Puram, Bangalore
205413	Murali Krishna P Satyanarayana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29479 24.05.12	B-605, Phase-I, Nr. NH-9, Vanasthalipuram At Post, Rangareddy
205414	Muralidhar Mahendrakar Amarnath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27311 23.03.11	Navanagar, gadag Rd. Gavanur Tq, Haveri
205415	Muralidhar. R Hanumantha. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24257 28.04.09	# 233, N-HIG-D-6, 5th Phase, Yelhanka New Town, Bangalore
205416	Murunni Rekha Murunni Hosagurappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25449 02.03.10	Chandrodaya Niulaya, 8th Cross, M.J.Nagar, Hospet Tq, Bellary
205417	Mushrif Shahin Sharfuddin M S Abdul Razzak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24074 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205418	Mustafa Mulla Ameerahamza Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28284 17.05.11	#724/B, Shivaji Main Rd.Jamkhandi Tq, Bagalkot
205419	Muttanna Basappa .Hanchinal Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24486 11.05.09	Yarehanchinal Post, Yalburga Tq, Koppal
205420	Muttappa H Arakeri Hanamant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30035 16.04.13	At Post Khatijapur, Taluk And Dis. Bijapur, Khatijapur
205421	Muttappa Yatnal Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29386 21.05.12	Suttatti at post, Athani Tq, Belgaum

205422	N. Hanumantha Rao N. V. Subba Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1972	30581 24.07.13	#217, Sri Tirumala Vintage Apartments, Basapura Main Rd.Electronic Electronic City (Po), Bangalore
205423	N. Narayanaswami S. Nagaraja.	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1997	28504 02.08.11	Vengalapur, Srirampura, Hosdurga Tq, Chitradurga
205424	N.B. Bhavya. N.S. Basawaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24024 20.04.09	# 66-67, Vinayaka Nagara, IV ward, Rogipura Doddaballapura, Bangalore Rural
205425	Nabisab Kamatanur Dastageesab Kamatnur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26029 19.03.10	Muslim Galli, Kalloli Post, Gokak Tq, Belgaum
205426	Nachiretha Chebbi Vinod Chebbi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29095 7.05.12	No 543, 26th Main Rd Nandini Layout Bangalore
205427	Nadaf Ashapak Abdul Nadaf Abdul Imams.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25288 21.11.09	Ashwini Clny, BLDE Rd. Bijapur
205428	Nadaf Imran NabiJabbaralli Nadaf Jabbar Ali N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28808 13.04.12	3046 Nr. Ig Market, Nadaf Daruwala Line, Pandharpur Solapur
205429	Nadaf Sarfaraj Khajaso Nadaf Kh Gulab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24141 22.04.09	Bajar Rd.Baiholgal Tq, Belgaum
205430	Nadatti SampadaSarjerao Sarjerao Aparai Nadatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29028 05.05.12	Shri Kripa Anand Cly Gandhinagar , Gandhingaj, Kolapur
205431	Nadeem Arif Mohammed Arifulla Shariff	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25229 14.10.09	A/R.No. 1421, Block.No. 23, Behind Santhepete School, Hassan
205432	Nagajothi.T.A. Anantha Narayan Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26553 13.04.10	#443, 10th Cross, G.Main Rd. Rajajinagar, Bangalore
205433	Nagamani Ashwath Narayanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25807 12.03.10	# 291/1, KEB Clny, M.G. Rd, Gowribidanur, Chickballapur
205434	Nagananda K Nagabhushana K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29231 15.05.12	No 3/12 , 19a, Bhaskara nilayam, 1st floor Krisnam Chetty Street, Bellary
205435	Naganath Venkat Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25128 24.09.09	# 10-816, Upper Lane Brahmapur, Gulbarga
205436	Nagaraj Mahadevappa Sajjan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23898 09.04.09	Sulephet Post, Chincholi Tq, Gulbarga
205437	Nagaraj Badiger Devendrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24702 02.06.09	Vinayak Nagar, Navalur, Dharwad
205438	Nagaraj Gadag Irabasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28268 17.05.11	Bathara Clny, Taravi Rd. Plot No.39, Bijapur
205439	Nagaraj Jalihal. Gopalkrishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25513 04.03.10	Sri. Deshpande Clny, St Rd. # 195, Bijapur
205440	Nagaraj Kamath Nithyananda Kamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29144 08.05.12	No 4-94A1, Sampreeth, Ambaipady At & Post Udipi
205441	Nagaraj Menasinakai Ramalingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30327 15.05.13	Sarvagnya Circle, Somapur Street, Naragund Tq, Gadag , Naragund
205442	Nagaraj Patil Bheemanagouda Hosmani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30121 19.04.13	At Kesakki Hanchinalu, Post Kesarahatti, Tq Gangavati, Koppal , Kesarahatti
205443	Nagaraj Pujari Dondappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25162 01.10.09	Rajajinagar, Mushif Clny, Behind KPTCL Offic, Bijapur

205444	Nagaraj Vishwakarma Virupaxappa Vishwakarm	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28699 17.03.12	#198, Talakal At & Post, Yelaburga Tq, Koppal
205445	Nagaraj.A.Shavi Venkatesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23882 09.04.09	Ward. No.6, Ilkal Post, Hunagund Tq, Bagalkot
205446	Nagaraj.B.Masti Buddu Gouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23902 09.04.09	Belambar Post, Ankola Tq, Uattar Kannada
205447	Nagaraja Shamanna Shirawar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24551 13.05.09	Shivaganga Nilaya, Tawaragere Post, Kustagi Tq, Koppal
205448	Nagaraja S Gangadharappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30351 20.05.13	No. 92, S.T Oni Hosa Uru, Ramadurga Kudligi Tq, Bellary , Ramadurga
205449	Nagaraja. K Krishnappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24691 02.06.09	Kallandur, Begli Post, Kolar
205450	Nagaraja. M Hanumanthsa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25763 12.03.10	# 115, 3rd Main, 16th Cross, Rajaram NgrHarihar Tq, Davangere
205451	Nagaraja. S Sakkare Nayaka.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26021 19.03.10	Mugireddipalli, Venkatapura Post, Bagepalli Tq, Chikkabalapur
205452	Nagarajagouda Patil Bapugouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27367 24.03.11	Basaveshwar Nilaya, Savanur Rd.Shiggaon Tq, Haveri
205453	Nagaraju Moghal Chinna Kota Mastan. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28549 07.09.11	SKAMC, 10th Cross, Pipeline, Bangalore
205454	Nagarathna Shivasharanappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25686 12.03.10	Spl. RSI HQ, Coy. 6th BN, KSRP Super Market, Gulbarga
205455	Nagarathna.N. Kanti Narayana.M. Kanti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26578 17.04.10	LIC Clny, Kodubettu, Udupi
205456	Nagaratna Bagewadi Basavaraj Bagewadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29631 14.06.12	BasapurAt Aralikatti Post, Belgaum
205457	Nagaratna Jartarghar Suresh Jartarghar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29146 08.05.12	No 5-354, Gudde Angadi UdayavaraKampanbettu, Udupi
205458	Nagaratna Sunkad Appasaheb Sunkad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29612 14.06.12	#99, Vishwas Aishwarya NagarAshiram Rd. Bijapur
205459	Nagaratna.A Budibasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28909 26.04.12	No.NA-207, TSPL Clny, TB Dam, Hospet Post & Taluk Bellary
205460	Nagare Mamtaji Maruti Nagare Maruti Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25159 30.09.09	Nr. Post, Office, Badami Tq, Bagalkot
205461	Nagarekar SushantShantaram. Shantaram S Nagarekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24822 05.06.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
205462	Nagarjuna T Ravindar T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30122 19.04.13	5-5-114/47/011, Chaithanya Clny, Banswada, Nizamabad, Banswada
205463	Nagashree H Hanumantharayappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30156 24.04.13	Nr. Gram Panchayath, Bangalore Rural, Nelamangala
205464	Nagashree KS Srinivas K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29182 14.05.12	No 624/10, Kadur Rd.Belagur At & Post, Hosadurga Bellarya
205465	Nagaveni Butta Basavarajappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29260 16.05.12	Ward no 9, Weavers street, Kurghaodu post Bellary

205466	Nagekar Aparna Ashok Nagekar Ashok Kira.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23787 04.04.09	Javali Plot, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
205467	Nagendra Madhavarao Tadamalle.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28635 21.11.11	# 39, Jambgi (B) At & Post, Aurad Tq, Bidar
205468	Nagendra Patil Chanabasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26026 19.03.10	# 234, 295, Bhajanthri Oni, Nallanatti Post, Gokak Tq, Belgaum
205469	Nagendra Shabannavar Yallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26586 19.04.10	Gurlapur Post, Gokat Tq. Belgaum
205470	Nagesh Kannoli Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24975 11.06.09	Hipparagi Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205471	Nagma Nigar G Mohammad Gayaz	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2012	29868 20.11.12	Noorani Muhila Sumaja Belur Rd.Thanniruhalle Belur Rd. Hassan Thanniruhalle Belur Road Hassan
205472	Nagriya Ashish Harsuk Harsuk Shantilal Nagriya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26838 25.08.10	Nr. Desai Boy's Hostel, Jaladarshani Layout R.K.Nagar, Dharwad
205473	Naik Anita Somshekhar Somshekhar.S.Naik.	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1995	25245 23.10.09	Plot.No. 67, Behind NCC Office, Shrinagar Clny, Bijapur
205474	Naikwadi YusufMohmadragik Naiwadi M Saifan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25144 25.09.09	Ward.No. 29, Nr Nadgud Devi Temple, Rajajinagar, Bijapur
205475	Nair Parvathy Mohan Mohan Kr V Nair	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30526 26.06.13	173/5, Kavya, Padavu, Nanthoor, Mangalore
205476	Nakharekar VinayakVasant Vasant Krishnaji Nakharekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29230 15.05.12	Devrukh Post , Maratha Clny, Sangmeshwar TQ, Ratnagiri
205477	Nalage Anuja Bhimashankar Bhimashankar S Nalage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25365 19.01.10	KPSVS AMC Girls Hostel, Manvi, Raichur
205478	Nalawade Pallavi Prakash Prakash.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24847 06.06.09	Nr Lingeswar Temple, Banagar Galli, Jorapur Path, Bijapur
205479	Nalawade Sharad Dattatray Nalawade Dattatray	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23812 04.04.09	Yadanwadi, Malikwad Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205480	Nalini Bk Krishnappa BR	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29001 27.04.12	Rangenhalli , Yaraballi Post, Hiriyur Taluk Chitradurga
205481	Namadev Laxman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28764 05.04.12	# 5-28, Nr Veternary Hospital, YadramiJevargi Tq, Gulbarga
205482	Namana H Jyothi H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30345 20.05.13	# 1456/1, 1st main, 12th Cross, Vinobhanagar, Davangere
205483	Namit Kumar Sudhakar.P.Habbu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24333 29.04.09	HIG-38, New KHB Clny, Karwar Tq, Uttar Kannada
205484	Namitha Shankar Puthran.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25221 13.10.09	Namitha Nilaya, Mahalaxmi Nagar, Uchilla, Udupi Tq, Dakshina Kannada
205485	Namitha Nayak Laxman.A.Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23757 03.04.09	State Bank of Mysore Main Rd.Moodbidri Tq, Dkashina Kannada
205486	Namitha. M Mahadeva.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24807 05.06.09	# 478, 4th Cross, Hebbal 2nd Stage, Mysore
205487	Namitha. N.J Ningajirao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27371 24.03.11	Renukamba Temple Rd.Renukamba Badavane Kashiपुरa, Shimoga

205488	Namitha. T M.C. Thippeshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25286 21.11.09	Koratekere, Chikkagangur PostChannagiri Tq, Davangere
205489	Namratha. M Umesh Shetty. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27183 18.03.11	# 1-22-1642, Shivramrao Lane, UrvaMarket, Mangalore, Dakshina Kannada
205490	Nanadini. N. () K.N. Nagaraju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26580 19.04.10	#27, 4th Main, 7th Cross, C.D. Block, Ganganagar, Bangalore
205491	Nanda Arkasali Gurunath H Arkasali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30073 17.04.13	Village-Bandiwad, Tq-Hubli, Dharwad, Hubli
205492	Nanda G LangotiUrf Bannur Gunapal T Langoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29263 16.05.12	Jayanagar , Shiggaon Haveri
205493	Nanda K O Omprakash K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30047 16.04.13	D.No. 204, JSS Doctor's Quarters, Hosmuth Rd. Mysore
205494	Nandabasappa Bijapur Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24640 21.05.09	# 89, Shastri Nagar, Bijapur
205495	Nandakumari Mantanavar Hanamanth G Mantanavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28912 26.04.12	Kamaladinni At & Post , Gokak Taluk, Belagam
205496	Nandan Hodlur Shankarappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25801 12.03.10	Sector.No. 62, Plot.No. M42, Navanagar, Bagalkot
205497	Nandanikar Pallavi Bapuso Nandanikar B Parisa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24091 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205498	Nandaraj S Bavoor Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30257 03.05.13	Nr. Choudeshwari Temple, Ward No. 4, Ilkal Tq, Bagalkot , Ilkal
205499	Nandeep. S.B Banappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25384 05.02.10	Halappa Circle, BH Rd.Bhadravathi, Shimoga
205500	Nandeeshwara. B.G Gadigappa. B.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25825 12.03.10	Basapura, Malanayakana Halli Post, Ranibennur Tq, Haveri
205501	Nandhini Chabbi Rudrapa B Chabbi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28817 13.04.12	# 725/B, Basava Jyothi, 7th Cross, Basavanagr Bailhongal Belgaum
205502	Nandhini. M Marappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23991 18.04.09	Shankaghatta, Kuvempu University, Bhadravathi Tq, Shivamoga
205503	Nandini Mahadevappa Yelsatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25512 04.03.10	# 5-2-290, Housing Board Clny, Yadgir Tq &
205504	Nandini Bheemshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25607 06.03.10	Nandini Nivasa, Rampur, Gajararkot Post, Yadagir Tq, Gulbarga
205505	Nandini BHM BHM Vishwanath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29183 14.05.12	No 5/126/19 B, Kudligi Rd. , Hagari Bommanahalli Bellary
205506	Nandini D Vijay Kr D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	29903 31.12.12	Sindagi Rd.AIMEL U K P Camp Bijapur
205507	Nandini Hiremath Shekharayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24684 02.06.09	Archana Nilaya, Nr Maruti Temple, Bhagya Nagar, Koppal
205508	Nandini J P K.P. Jayashankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30536 01.07.13	Siddaramappa Extn., 3rd Cross, Opp. Flour Mill, Holalkere Town, Chitradurga,
205509	Nandini Kademani Kantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29794 12.10.12	1st Cross, Keshavnagar, Basavana Bagewadi At Post & Tq, Bijapur

205510	Nandini T.A.M Shantaiah T.A.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29978 06.04.13	Bapuji Nagar 2nd WardNr. Gandhi Chitabhasma, Kudligi
205511	Nandini. A.C Chikkanarasaiah. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26238 23.03.10	# 1555, Sixteenth Main Rd. M.C. Layout, Vijaynagar, Bangalore
205512	Nandini. B.R C.R. Rajashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24573 14.05.09	# 1072, Lingadahalli Main Rd.Tarikere Tq, Chikkamagalur
205513	Nandini. C.N C.P. Narayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25570 05.03.10	# 216/3, 3rd Main Rd, Bannymantap Extn, K.R. Nagar, Mysore
205514	Nandini. M.P Satish Rajanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26177 22.03.10	# 372, 12th Cross, 4th Main, 2nd Stage, Wocr Mahalakshampuram, Bangalore
205515	Nandini. N.K Nagappa Kuri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24479 11.05.09	# 44, BSK Main Rd. Rajgopal Nagar, Peenya 2nd Stage, Bangalore
205516	Nandurkar Suraj Ramchandra Nandurkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27791 07.04.11	AMC, Boy's Hostel, Inchal At & Post, Saundatti Tq, Belgaum
205517	Nangare RajanikantBalaso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23841 06.04.09	C/o. Ravi Bharamappa Tuppad, RaviNilaya, 1st Cross, Koppal
205518	Nangare ReshmaDattatraya Dattatraya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25561 05.03.10	BMJ Hostel, Double Rd. Gajendragad, Ron Tq, Gadag
205519	Nanjundesh Malleshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28581 19.10.11	Kusnur At & Post, Hangal Tq, Haveri
205520	Nanv Chavan Laxman Chavan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29795 12.10.12	Maruthi Nagar, Allapur, Maga Nagera Post Jewargi Tq, Gulbarga
205521	Naphade Abhijit Sadashiv Naphade S Eknath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24087 21.04.09	Basava nagar 2nd Crosss, Rabkavi, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205522	Narayan Pai B. Appuraya Pai. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23756 03.04.09	
205523	Narayan. Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25232 15.10.09	Sunthan, Rolla Post, Basava Kalyan Tq, Bidar
205524	Narendra Gurav Monappa Gurav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26135 20.03.10	H.No. 2010/11, (s) 21. MG Housing Cly, Bailhongal Tq, Belgaum
205525	Narke Sandeep Kundlik Kundlik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25164 05.10.09	M.B. Kalal Building, Nr Venkatesh Theater, Mundargi Tq, Gadag
205526	Narmada. R. R. Rangaswamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26960 29.10.10	#275, 6th B, 1st Stage, Gayathripuram, Udayagiri Post, Mysore
205527	Narsimhamurthy. R Bhimsen Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25252 24.10.09	# 6-3-61, Nr. Panduranga Temple, Shorapur Tq, Gulbarga
205528	Nataraj Parpakaje S.B.Parpakaje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28897 20.04.12	No 16, Sri Gowri Mathru Layout, YelahankaNewtown , G.K.V.K Post Bangalore
205529	Nataraj. H.R Rame Gowda. H.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25015 25.06.09	Prakruti(Ex), Hethur Post, Sakaleshpur, Hassan
205530	Nataraj. R Ramegowda. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25102 19.08.09	# 17, 1st Cross, 1st Main Rd, Chadrashekar Layout Viswaneedam Post Bangalore
205531	Nataraj.S. M. Siddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28382 09.06.11	Lalgondanahalli, Devanahalli Tq, Bangalore

205532	Nataraja. T.K Krappa. T.E	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27364 24.03.11	Vaderahalli, Kunkanadu Post, Kadur Tq, chikamagalur
205533	Naukudkar Sucheta N Aravind Sakharan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25816 12.03.10	Nr Bellad Bagewadi Bank, Ghataprabha, Gokak, Belgaum
205534	Naushad Khan Mohammad Peer Khan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25637 06.03.10	Saligrama, Bherya Post, K.R. Nagar Tq, Mysore
205535	Naveen Kumar Yadav Vijaynarayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29222 15.05.12	No 63, 7th Cross, Kurubarahalli Circle Basaveshwara Nagar Bangalore
205536	Naveen Pujar Appanna Pujar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27357 24.03.11	Sindagi Tq, Bijapur
205537	Naveen Sajjan Kashinath.C.Sajjan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26692 29.05.10	Talikoti Post, Muddebihal ? Tq., Bijapur
205538	Naveen Shetty Vasudev Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23891 09.04.09	# E/11/77, Rangampeth Post, Shorapur Tq, Gulbarga
205539	Naveen Shirasangi Basavaraj Shirasangi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30375 21.05.13	6th Galli Dandapur, Nargund Gadag
205540	Naveena Shivaputrappa Gulalakai Shivaputrappa Gulalakai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29442 24.05.12	Kudharihala, Haranagiri post, Ranibennur Tq, Haveri
205541	Naveenkumar Doddamani Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24201 24.04.09	Anegundi Rd. Virupapur, Gangavati Tq, Koppal
205542	Naveenkumar Patil Veerangouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24552 13.05.09	R/o. Hire Hanagi, Mangi Tq, Raichur
205543	Naveenkumar. B.D Devaraju. B.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25065 22.07.09	Biluthalu, Hadlahalli, Sakaleshapur, Hassan
205544	Naveenkumar. H.N Narasimha Murthy. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24212 24.04.09	Hebbale Post, Arkalgud Tq, Hassan
205545	Navkakadi Ritabahen Chandravadan H. Navkakade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25058 17.07.09	# 18/2-3, 2nd Main Rd, AT Street, MVRBlock Benson Town Post, Bangalore
205546	Navneet Haldipur Vijayanand Haldipur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24383 05.05.09	H.No. 93, Divigi Post, Kumta Tq, Uttar Kannada
205547	Navya P B V Prasad Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28785 11.04.12	Veere Shettahalli Village Angondahalli Post, Mulbagal Tq, Kolar
205548	Navya. D.P Puttaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24502 11.05.09	# 27/A, 2nd Main, 2nd Cross, Alanahally Layout, Mysore
205549	Navyashree. D.N D.V. Narasimhamurthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25036 02.07.09	# 107/108, 5th Cross, Layout, Virgonagar Post Medahalli Bangalore
205550	Nayak Geetha Mohandas Mohandas Nayak	BAMS Goa University, Goa 2005	26975 18.11.10	G-5, Meenakshi Comforts, Kalena Agrahara, Bannerghatta Main Rd. B?lore
205551	Nayak Shilpa Upendra. A. Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27953 18.04.11	J-2C, 201, N.G.V., Koramangala, Bangalore
205552	Nayan Kumar. S Subramanya B. S.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24672 23.05.09	# 191/4th Ward, Palthamoole (H) Panaje Village & Post Puttur Tq, Dakshina Kannada
205553	Nayana Rama Bant Rama.D.Bant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23893 09.04.09	Bela Bander Rd. Ankola Post & Tq, Uttar Kannada



205554	Nayana. Vinodraya Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25564 05.03.10	Kumbhashi Post, Kundapura Tq, Udupi
205555	Nayeela Anjum Aleem Anjum	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29282 16.05.12	No 30-2-77, Kalyan Mantappa RdTripurnata , Basava kalian , Bidar
205556	Nazia Ishrath Syed Rahamath Ulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29787 12.10.12	# 365, 1st Main, Chintamani Nagar, Harihar Tq, Davangere
205557	Nazima Begum. Abdul Khader.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24347 29.04.09	# 5, Rathan Singh RD, Frazer Town, Bangalore
205558	Nazira Banu Umar Kunni. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24495 11.05.09	# 207A, Ujire Post, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
205559	Naziya Farheen Aslam Shareef	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29296 17.05.12	Shareef Manzil, Mandagere, KR Pete TQ, Mandya
205560	Naziya Khatoon Sartaj Subhankhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29557 12.06.12	Opp Remond Home, Pade Knur Galli, Station Rd. Bijapur Tq &
205561	Naznin Sikandar Bhore S Md. Hanif Bhore	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30089 18.04.13	A/p Waliwande, Tal-Devgad, Sindhudurg, Devgad
205562	Neelakanta.J.Sajjanar Sajjanar. J.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24513 12.05.09	# 438/A, 7th Cross, 5th Main, JagadishNagar New Thippasandra, Bangalore
205563	Neelavva.G.Koti Gangadhar Koti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25067 22.07.09	Station Rd.Amarshetti Galli, Bagalkot
205564	Neelu P Pakirappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28873 18.04.12	K H B Clny ManviAt Post & Tq, Raichur
205565	Neeraja B B. Ramamoorthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29845 30.10.12	# 6-10-388/10, K B Layout, Tirupathi, Chittoor
205566	Neerajakshi Mallige. T H. Thayanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24025 20.04.09	MIG 8/11, Tilak Nagar, Sudha Cross, Contoment, Bellary
205567	Neeta Vanaki Chandrasah R Vanaki	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29225 15.05.12	Vishal Kulkarni Peth, Ilkal Post Hungund TQ, Bagalkot
205568	Neeta VishnupantDeshmukh Vishnupant Deshmukh	BAMS Shivaji University Kohapur 1989	29919 24.01.13	H No 1/1 Post Khajuri Tq, Aland Gulbarga
205569	Neetha P Perumal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29108 07.05.12	No 788/D, LN Clny1st B Main Rd. Yeshwanthpur Bangalore
205570	Neha Samapriya Hanani Samapriya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24867 06.06.09	# 8/124/3, Rehman Sawmil, Dambel, Ashoknagar Mangalore Tq, Dakshina Kannada
205571	Neha Yadav A Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30532 26.06.13	Above Ashoka Hotel, Infront of Lalbagh Maingate, Bangalore
205572	Neharu Mandoli Shivamurti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30354 20.05.13	Rajagraha, At Post Golasar, Tq. Indi, Bijapur
205573	Nelson.A.Patti Ashok.D. Patti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28681 07.02.12	Anand Nivas, Opp Nulvi Building, Vidyanagar, 3rd Cross, Hubli
205574	Nethravathi T S Sharanappa T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29776 29.09.12	Kanamadugu At Post, Kudligi Tq, Bellary
205575	Netravathi S B Bhimanna B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29761 29.09.12	#07, Sericulture (Quatras), Kunigal Tq, Tumkur

205576	Netravati Ninganagouda Malipatil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29081 05.05.12	Vishwanath Kappali, Sangameshwara Nilaya Behind Matha Hotel, Hospet Koppal
205577	Netravati Kotragasti Basavaraj Kotragasti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29376 21.05.12	Plot No 48 Shantinagara, Athani at post, & Tq, Belgaum
205578	Netravati.R. .Ramu.C.H.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26760 23.07.10	Gagri S.S. Rd.Shikaripura At Post & Taluk, Shimoga
205579	Nidagundi Mithun Manohar Manohar B. Nidagundi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27820 08.04.11	Waddar Oni, Belur A/P, Badami Tq, Bagalkot
205580	Nidhi Jhaladiyal L P Jhaladiyal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2001	29925 06.02.13	A-2/107, Ghataprabha Block, National Games Village, Koramangala, Bangalore
205581	Nidhi Thakur Yashwanth.A. Thakur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26561 15.04.10	#527/B, Sharada Nagar, Tiptur, Tumkur
205582	Niharika Ramidhamy. A Ajay Ramidhamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28503 26.07.11	Siddharudh Math, Gumpa Tq, Bidar
205583	Niharika. J D. Narasimha Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28535 03.09.11	D.No. 1, Kadaba (Hobli), Gubbi Tq, Tumkur
205584	Nikam Sagar Dilip Diliprao Bhila Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25478 03.03.10	Nr. Srinagar, Nr. Desai Hostel, Dharwad
205585	Nikam Sandip Jaywantrao NJaywantrao Pandurang	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24070 21.04.09	Plot.No. 7, EL Bethel Bunglow, RamNagar Nipani Chikodi Tq, Belgaum
205586	Nikam Shivsagar Vilas Nikam Vilas Dagadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23792 04.04.09	N.N, Navanagar, Behind FriendClub, Gajendragad, Ron Tq, Gadag.
205587	Nikam Trupti Mukesh Mukesh Sambhaji Nikam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25668 08.03.10	Gavali Galli, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
205588	Nikam Vijay Babanrao Jaysing Nikam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29953 06.04.13	Nikam Jewellers, Baligar Oni, Saundatti-Tq, Belgaum, Saundatti
205589	Nikhat Tharanum Habib Ur Rehaman.H.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28102 25.04.11	#245, 14th Cross, II Main, Udaygiri, Mysore
205590	Nikhath Amreen Mohammed Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30546 09.07.13	Door No-550/B, 29-30, Davanagere,
205591	Nikhil Chandran C Chandra Mohana R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30308 09.05.13	?Vishnu Kripa? Nr. K.V.G Ay.Medical College, Sullia Tq
205592	Nikhilanand Vijay Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26116 20.03.10	Budhwarpath, Basavakalyan Tq, Bidar
205593	Nikitha Alewoor Krishna Moorthy Alewoor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27615 01.04.11	Shriniketan, 1st Floor, Vidyanagar, Huldi, Dharwad
205594	Nilesh Gawas Nagesh.T.Gawas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26127 20.03.10	H.No. 429, Rume Vadi Cross, Khanapur, Belgaum
205595	Nilofar MD Sofi Babu miya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28920 26.04.12	A-119, Alhuda Urdu SchoolNew Argi At Post & Taluk , Gulbarga
205596	Nilofar.S.A. Shabeer Ahmed Roy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28675 31.01.12	#71, 1st Floor, Appanna Block, Chamundi Nagar R.T. Nagar Post Bangalore
205597	Nimbalkar Sanket Shahaji Nimbalkar S Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24549 13.05.09	# 10-2-310-13A, Nr. MTM Talkies, Manvi Tq, Raichur

205598	Nimbalkar SnehalSuresh N Suresh Tukaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29138 08.05.12	Wakhar Bhag, Kokane Galli, Miraj Post & Taluk Sangli
205599	Nimisha. P P. Vijayan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28434 20.06.11	# 210, 1st Floor, 2nd Main Rd.Mathura Nagar Metagalli, Mysore
205600	Ningadalli Siddharam Gurushantappa Ningadalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25350 04.01.10	Veterenary Dispensary, Shiraguppi Post, Athani Tq, Belgaum
205601	Ningappa Limboji Hanamant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30573 22.07.13	At Post Kulgod, Ta-Gokak, Belgaum,
205602	Niranjan. P.M Jayadevaiah. P.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23889 09.04.09	# 56, Nehru Nagar, Chitradurga HPO Chitradurga
205603	Niranjan.S. Siddesh.R.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28328 25.05.11	P3, ?B?Block, Devraj Urs Layout, Davangere
205604	Niranjana. A.M Vishwamurthy. A.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23706 02.04.09	# 828, 6th Ward, Anjaneya Badavane, Kotturu Post, Kudligi Tq, Bellary
205605	Niranjanaraj.K Basava Raj.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28110 25.04.11	#292/33, 3/16th Ward, 4th Cross, Basaveshwara Badavane Bellary
205606	Niranjankumar. M Madaiah. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24041 20.04.09	# 163, Ravani Rd.Malavalli Tq, Mandya
205607	Nirmal Sachin Hanmantrao Hanmantrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24692 02.06.09	# 849, Gulam Hussain Galli, Bijapur
205608	Nirmala. K.S Shivalingappa. K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28599 19.10.11	# 733, 4th Stage, 1st Phase, Vijayanagar, Mysore
205609	Nirmala. S.G Govindappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27388 25.03.11	Siddanamatha, Channogiri Tq, Davangere
205610	Nirupama Patil Nanagouda B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29498 25.05.12	# 43, Neharunagar, Pavan Hanuman, Mandir Rd. Gangbawdi Bijapur
205611	Nirvani Gowda K M Malleth D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30392 23.05.13	Kattaya (P), Hassan (T) & (D)
205612	Nisarga Vithal Bevanur Vithal .P.Bevanur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27664 02.04.11	S-1, Netaji Nagar, T.B.Dam, Hospet Tq, Bellary
205613	Nischay Bidada C. Purushottam Bidada	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30149 24.04.13	14-3-190, Joshiwadi, Goshamahal, Hyderabad
205614	Nishakumari. P.R P.D. Rajendran.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23773 03.04.09	C/o. SDM College of Ayurveda, Thanirhalla, B.M. Rd. Hassan
205615	Nishant Sharma Chaman Lal Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26921 27.09.10	Plot No. 2280, Sector No 11, 4th Cross, Mahantesh Nagar, Belgaum
205616	Nishanth Fatima Md Iqbal Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27661 02.04.11	#2-1-180, Siddiq Shah Taleem, Inside Naikaman, Bidar Tq &
205617	Nishanth Tarannum Tajamul Ahmed.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23755 03.04.09	# 527, Taj Paradise, 1st Main, 3rdCross, RML Nagar, Shimoga
205618	Nishantha. R.T Rudrappa. C.T .	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23833 06.04.09	# 325/1/46, Navanagar, Hunagunda, Bagalkot
205619	Nishat Parveen Barchiwale Md Hassan Barchiwale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25341 22.12.09	# 4, Behind Mosque, ISlampur, Old Hubli, Dharwad

205620	Nishchita B B.S. Basappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28893 20.04.12	No 3, N.M. Lane Bilwa Priya Nilaya, Cottonpet , Bangalore
205621	Nishmitha K M Jayaprakasha M C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30534 28.06.13	?Kausthuba? Nr. Syndicate Bank, Kanyana Post and Village, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
205622	Nitheen Dev Pai. G Vasanth Pai. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25823 12.03.10	# 1-215-2-1, Nellisthala, Kotekar Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
205623	Nitin V Veera Nagappa V N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30462 06.06.13	No-892, ?Ashirwada?, 1st a Main, 5th Cross, 3rd Stage, 3rd Phase, 3rd Block, Banashankari Bangalore
205624	Nityanand Yadav Rajendra Prasad Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26492 06.04.10	C/o SVP RuralAy.Medical College, Badami, Bagalkot
205625	Nivedhan M Murali G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	30574 22.07.13	No.-02, Uganavadi Post and Vill., Devanahalli Tq, Bangalore Rural,
205626	Nivedita Biradar Patil Annasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24343 29.04.09	# 60, Shri Gouri, Lingaraj Cly, Ganeshpur, Hindalge, Belgaum
205627	Nivedita Desai Balasaheb Sadashiv Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29065 05.05.12	No 1234, Gandhinglaj Rd, Nesari Kolhapur
205628	Nivedita Shetiya Nagesh N Shetiya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28332 25.05.11	No.164/B, Mahadevada Rd.Amadalli, Karwar, Uttar Kannada
205629	Nivedita.G.Jinaga Guresh Jinaga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24177 24.04.09	# 4/TRS, Dharwad
205630	Niveditha Hebbar. Y.R Vijayendra Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27306 23.03.11	# 503, Above Big Bazar, Ianar Dhan Tower, Udupi
205631	Niveditha Shetty Prakash Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27729 06.04.11	E-1175, Chikolli Cross, Uppakeri, Kumta ? Tq, U.K
205632	Niveditha Shree K N Narayana Babu K A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30304 09.05.13	# 18, 7th main, 7th cross, Sree Ram NagarBanashankari 3rd Stage, Bangalore
205633	Niveditha. S Srinivasa Murthy. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24234 28.04.09	# 78, 2nd Main Rd. Anjaneyanagar, BSK 3rd Stage, Bangalore
205634	Niveditha. S.Shetty Shantaram Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24267 28.04.09	# 4-1-15/1, Kodialbail, Shreedevi CollegeRd Mangalore Tq, Dakshina Kannada
205635	Niveditha.P.N. Nagesh.P.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28143 26.04.11	No.55/A, Cavery Layout, Madikeri, Kodagu
205636	Niyathi R Hegde Ramadasa Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30347 20.05.13	Jalajakshi Nilaya, Heroor Madaga, Heroor, Brahmavar, Udupi Tq &
205637	Noopur Kakde K.N. Ashok Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30436 31.05.13	#46, Jyotirgamaya, Chinnappa Layout, Hebbal Kempaura Bangalore
205638	Noor Fathima D. Mohammed Saifulla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24389 05.05.09	# 396, 5th Cross, 1st Main RdMahaganapathi Nagar, Bangalore
205639	Nousheen Taj Inayath Ulla Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29109 07.05.12	No 226, 8th CrossSaraswathi Nagar, Bangalore
205640	Obaleppa Ingalagi Adivappa D Ingalagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29720 04.08.12	Giriyal (KB) AT Post, Bailhongal Tq, Belgaum
205641	Ohol Anand Subhash Subhash Ohol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26731 28.06.10	Nr. Rural Police Station Rd.Extension Area, Bagalkot

205642	P. Sumanth P. Krishna Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30159 24.04.13	NTR Circle, D.No. 16/56, Anantapur, Dharmavram
205643	P.C. Sowmya P. Chandrashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30401 27.05.13	Sri Srinivasa Nilaya, # 26/1, 18th Cross, 4th block, Peenya, Bangalore
205644	Padhye Sneha Anil Padhye Anil Padmanabh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28791 11.04.12	Block No-9, 24, LokmanyaClny Kothrud Haveli Tq, Pune
205645	Padma Baragale Ajit	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30218 29.04.13	Ratnatraya Nilaya, Main Rd.Terdal, Jamakhandi Tq, Bagalkot, Terdal
205646	Padma R. Bhatta P.D. Raghavendra Bhatta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27800 07.04.11	Kalasa At & Post, Moodigere Tq, Chickamagalur
205647	Padmaja Chougale C DhanyaKr Bhimu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24095 21.04.09	Bhoj Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205648	Padmapriya Aski Appasab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30034 16.04.13	At Post Darur, Taluk Athani, Belgaum, Darur
205649	Padmashree Rathnakar Rao. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25024 29.06.09	D.No. 8, Nr. SVT, Mulki Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
205650	Padmavathy. N.S Sreerama. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24967 10.06.09	# 31, 1st B Main, Pipeline Rd. RPC Layout, Vijayanagar 2nd Stage, Bangalore
205651	Padmini. H.S Shreenivas Shetty. K.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25590 05.03.10	Shree Ranga Saree Centre, Main Rd.K.R. Pet, Mandya
205652	Padol SandeepWamanrao Padol Wamanrao. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25972 18.03.10	H.No. 16-400/12, Nr Kailash Nagar, S.S. Math, Bidar
205653	Padwal Rahul Parshuram P G Padwal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26817 21.08.10	Room. No.5, Deepak Lodge, B.D.Rd. Majestic Cricle, Chitradurga
205654	Pagira Vaibhav Dashrath D Vishwanath Pagire	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23783 04.04.09	Behind Busstand, Gajendragad Ron Tq, Gadag
205655	Pallavi Kashinath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23940 13.04.09	# 21-338, Housing Board Clny, Humnabad Tq, Bidar
205656	Pallavi Gundappa.K.Papade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24635 18.05.09	# 9-4-157, Khaji Clny, B.V.B. College Rd, Nr. Jobshetty Complex, Bidar Tq &
205657	Pallavi Prakash Khatavkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26552 13.04.10	1-867/11, Station Bazar, Venkatesh Nagar, Gulbarga
205658	Pallavi C E Eshwarappa C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30386 23.05.13	#70, Chikkadalavatta, Tq-Madhugiri, Tumkur
205659	Pallavi M. D. Naik Amith Kr G. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	29938 07.03.13	16/131 A, Pallavi, 2nd Cross, Ananthnagar 2nd Stage, Manipal, Udupi
205660	Pallavi Naregal Shridhar N.Nargal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28910 26.04.12	No.447/1, Laxmi Nagar , Kotekal, Guledguod Badami , Taluk , Bagalkot
205661	Pallavi. G G. Rama Mohan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24392 05.05.09	# 14/206, 1st Cross, DevendraMunireddy, Layout, Chikkalasandra, Bangalore
205662	Pallavi. G.V. G.S. Venkappachar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27078 15.03.11	18/57, 34th ward, Nr Vadakaraya TempleMarutinilaya Hospet Tq, Bellary
205663	Pallavi. K.G Ganesh. K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25777 12.03.10	Aduvalli Ganapathi Katte, MegaramakkiPost, N.R. Pura Tq, Chickmagalur

205664	Pallavi. K.S K.R. Subramanya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25771 12.03.10	Swara Sourabha, Agrahara, Sagar Tq, Shimoga
205665	Pallavi.M. Biradar Maharudrappa. K. Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26625 27.04.10	H.No.8-9-270/A, 33/1 Basavratna Nilaya, Gurunanak Clny, Bidar
205666	Panchal Mayur Ashok. Panchal Ashok Vajjnath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24316 29.04.09	7th Cross, Chalukya NAgar, Badami Tq, Bagalkot
205667	Panchal SachinRaghunath Raghunath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27408 25.03.11	Plot.No. 7, Sangameshwar Clny, Bidar
205668	Pandey Amitkumar Phoolchandra Pandey	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29667 19.06.12	# 126, Sarottam Yadav Chawl, ShivajiNagar, Kurar Village Malad East, Borivalli Tq, Mumbai
205669	Pandey Cinni Vijay Vijay Pandey.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27539 28.03.11	21st Km, Kanakapura Rd. Bangalore
205670	Pankaj Patil Balasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24397 05.05.09	# 1387/438, Vikrampur ClnyAthani Tq, Belgaum
205671	Pankaj Patil Sitaram Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28673 17.01.12	#142, Jorapur Peth, Bangar Galli, Bijapur
205672	Pannag Kamat Balachandra Kamat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26299 24.03.10	# 804, Shashiguli, Nellikeri Kumta Tq, Uttar Kannada
205673	Pant Pravina Rajkukmar Pant RajKr Kantilal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29739 03.09.12	# 129, Somwar Peth, Karkamb At Post, Pandharpur Tq, Solhapur
205674	Parab Akhil Suresh Parab Suresh Dinakarrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27090 16.03.11	Desai Hospital, R.K. Nagar Dharwad
205675	Parag Mengani Pralhad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29414 21.05.12	Jolad Bazaar, Shivaji Rd. Mengang galli, Jamkhandi post & Tq, Bagalkot
205676	Paramjyotilaxmi Patil Basavaraj Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27511 28.03.11	Bhagavvi, Divigihalli, Hirekerur, Haveri
205677	Paranjape Anita Jayant Joshi Amit Shishir	BAMS M.U.H.S., Nashik 2003	27001 20.12.10	Smt KMAC College, Shantinagar, Bedkihal, Chikkodi, Belgaum
205678	Parappa Balikayi Mageppa Balikayi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28724 02.04.12	Bhagoji Koppa At & Post, Ramdurga Tq, Belgaum
205679	Parashar Amruta Anil Ravindrasingh Rajput.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24924 10.06.09	Gurukrupa Niwas, BehindRaghavendra Temple Athani Tq, Belgaum
205680	Parashuram H Olekar Hanumanthappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28932 26.04.12	No. 842, Hosaoni , Mundgod, Renuka Nilaya Mundgod Karwar
205681	Pardeshi AjaysingKuwersing Kuwersing.U. Pardeshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24450 05.05.09	1st Cross, Tipu Sultan Nagar, Badami Tq, Bagalkot
205682	Pardeshi Kajree Chunnulal Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30228 30.04.13	54/476, Gokhalenagar, Behind Sai Baba Temple, Pune
205683	Parmar Toralben Manubhai Parmar Manubhal L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30313 10.05.13	Harsidhhi Form House, Navagam, Nr. Ambuja Nagar, Tq-Kodinar, Dt. Junagadh, Navagam
205684	Parshuram Gupta Sharda Prasad Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26477 01.04.10	C/o. KPSVS AMC, Manvi Tq., Raichur
205685	Parvati Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23895 09.04.09	Mahesh Hotel, Nr. RTO Office, Sedam Rd. Gulbarga

205686	Parvati B Hanamsagar Basavaraj L Hanamsagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25363 19.01.10	#69, H Type, Bangur Nagar, WCPMLtd, DandeliHaliyal Tq, U.K
205687	Parvati.V.Jalli Virupaxappa.R.Jalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26172 22.03.10	Nr Post Office, Bankapur, Shiggoun Tq, Haveri
205688	Parvatikar AkshayaGururai Parvatikar Gururaj Srinivas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27070 15.03.11	C/o Shri C.B.Guttal AMC, Dharwad
205689	Patanu Sai Babu P.S. Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27104 16.03.11	No.32, Sai Nursing Home, Shaktinagar, Behind Central Bus Stand, Gulbarga
205690	Pated Rajkumar Shrikant Shrikant I Pated	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29768 29.09.12	# 239, Basaragi, Jath Tq, Sangli
205691	Patel Mehraj Sultana Abdul Abdul Hayi Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	27024 15.02.11	H.No. 5-1-30, Ahmed Bagh, Bidar
205692	Patel Minaz Usman Gani Patel Usman.A.Kadir.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25905 15.03.10	H.No. 213, 1st Stage, Rani Channamma Nagar, Belgaum
205693	Patel Rehan Mahetab. Patel Mahetab Chand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24438 05.05.09	H.No. 4-601/34A, 4th Cross, M.B. Nagar, Gulbarga
205694	Patel SachinkumarPradipkumar Patel PradipKr L B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27807 08.04.11	C/o S.V.P.R. AMC, Boy's Hostel, Badami A/P & Tq, Bagalkot
205695	Patel ronak Kumar Patil Prakash Sudam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29588 12.06.12	Zankhavan At & Post, Mangrol Tq, Surat
205696	Pathan Tabrej Riyaj Pathan Riyaj Khan V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28983 27.04.12	Meinchad ?At Post, Akansha Complex Ambegon To Pune
205697	Pathan Wasimkha Salimkha Pathan S Gulsherkha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25335 18.12.09	H.No 930, Sector.No. 6, Ishaspurti Nivas, Wantmuri Clny, Belgaum
205698	Patil Abhaysingh Vijaysing Patil Vijaysingh Yashwant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26848 01.09.10	Tyagraj Rd. Koppa Tq, Koppa , Chickmangalore
205699	Patil Abhijeet Ashok Patil Ashok Bhaurao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24646 21.05.09	KHB No. 4, Behind Jamia Masjid, Bijapur
205700	Patil Abhijeet Mahadev Mahadev Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23720 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205701	Patil Abhijit Dnyandev Dnyandev.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24099 21.04.09	Plot.No.7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
205702	Patil Ajay Doulatrao Doulatrao Dada Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28480 18.07.11	C/o. A.D.Ay. Medi. College, Chikkodi Tq, Belgaum
205703	Patil Amit Nemgonda Patil N Amgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24407 05.05.09	Shri Channappanidasagi, Warkargalli, Koppal
205704	Patil Amol Bhairu Bhairu Piraji Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25219 13.10.09	1st Main, 4th Cross, Tulaji Building, Sadashiv Nagar, Belgaum
205705	Patil Amol Shamrao Shamrao Sakharam Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24854 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
205706	Patil Amrut Madhukar Madhukar Patel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25489 04.03.10	Opp Bathi Lake, Ashwini Nagar, P.B.Rd. Davangere
205707	Patil Amruta Rajabapu Patil R Malgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24910 09.06.09	Sankpal, Shamanewadi, Shantinagar, Chikodi Tq, Belgaum

205708	Patil Anirudha Nivruti Nivrutti Maruti Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25481 03.03.10	Opp. Bus Stand, Bailhongal Tq, Belgaum
205709	Patil Anjali Adagonda VijayKr.V.Shirahatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25281 06.11.09	# 184/A, KNS CircleKanakapura, Bangalore
205710	Patil Archana Abhay Abhay Rayegowda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29044 05.05.12	No 83/B, Sangali Rd. Ichalkaranji At , Hatkarngale Taluk, Kolhapur
205711	Patil Archana Dilip Patil Dilip Dadaso	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30455 05.06.13	At Post Chandur, Tal Hatkanangale, Kolhapur, Chandur
205712	Patil Ashish Arun Rao Patil Arun Waman Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26687 28.05.10	Kailash Nagar, #16-400/12, S.S.Math, Bidar
205713	Patil Ashok AShok.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24330 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd.Nippani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205714	Patil AshokLinganagouda Linganagouda	BAMS Karnataka University, Dharwar 2001	29685 03.07.12	Halageri At Post, Ranebennur Tq, Haveri
205715	Patil Ashwini Arun Arun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28277 17.05.11	C/o Girls Hostel, Shahunagar, Bedkihal, Chikkodi, Belgaum
205716	Patil Ashwini Manik Patil Manik Shamrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29298 17.05.12	Mavli Gavhan at post, Tasgaon Tal, Sangli
205717	Patil Bharat Babasaheb Patil B Ramgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24088 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205718	Patil Bhimrao Gurunath Gurunath	BAMS M.U.H.S., Nashik 2005	28880 18.04.12	No 2/2 , Kallur At & post , Humnabad Taluk Bidar
205719	Patil Brijesh Pundalik Patil Pundalik Namdeo.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25596 06.03.10	C/o. RGES AMC, Ron Tq, Gadag
205720	Patil Chetan Shriram Shriram Rajdhar Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23950 13.04.09	C.B. Nagar, H.No. 68, Saptapur, Dharwad
205721	Patil Dassharath Patil. Dasharath Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25660 08.03.10	Gowri Galli, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
205722	Patil Deepak Nagaraj Nagaraj Kashinath Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25205 09.10.09	# 19-04-622, MES Clny, Humnabad Rd, Naubad, Bidar
205723	Patil DhanashriBabgonda Babgonda Satgonda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27866 11.04.11	Durga Nagar, Jamkhandi ? Tq, Bagalkot
205724	Patil Digvijayasing Vilasrao Patil Vi Raghunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24601 18.05.09	K.M.P Rd.Badami Tq, Bagalkot
205725	Patil Dipali Jijabrao Jijabrao Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30529 26.06.13	At Post Bidgaon, Tal-Chopda, Jalgaon
205726	Patil Dipti Kishanrao Patil Kishan Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28379 09.06.11	#58101, Uma Nivas, Mathapti Galli, Bijapur
205727	Patil Ganesh Rangrao Patil R Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23966 13.04.09	# 19-4-622, MES Clny, Naubad, Bidar
205728	Patil Gayatri Jayavant Jayawant Bhika Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25184 08.10.09	Chalukya Nagar, 7th Cross, Badapit Tq, Bagalkot
205729	Patil Gomatesh Subhash Chamu Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26813 20.08.10	No.202/B, Ambedkar Galli, Old Belgaum, Belgaum



205730	Patil Gomtesh Patil Surgonda Narsigonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28356 30.05.11	H.No.1515, Shahu Nagar, Bedkihal A/P, Chikodi Tal, Belgaum
205731	Patil Karishma Annarao Annaro Madhavroa Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28815 13.04.12	Nr. LIC Office, New Mondha Degloor TQ, Nanded
205732	Patil Kiran Balkrishna Patil Balkrishna Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24523 12.05.09	# 10-2-310-13/A, Syndicate Bank Clny, Manvi Tq, Raichur
205733	Patil Krupanjali Babaso Patil Babaso Chavagonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26264 23.03.10	Borgoan Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205734	Patil Kshitijkumar Vilasrao Vilasrao D Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24179 24.04.09	Vidyanagar, Bailhongal Tq, Belgaum
205735	Patil Kumar Ramgonda Patil R Pirgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24653 22.05.09	# 2111, Gulam Husain Galli, Bijapur
205736	Patil Mahendra Himmat Himmatrao Baburao Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29881 17.12.12	H No. 201, Mundakheda, Post-Patonda, Taluk- Chalisgaon, Jalgaon
205737	Patil Mahendra Jinagonda Patil Jingonda Appa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25089 07.08.09	Shamanewadi Post, Shantinagar, Chikodi Tq, Belgaum
205738	Patil Mahendra Ramgonda Patil Ramgonda Malgonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23810 04.04.09	# 20, 1st Floor, 3rd Main, Sanjay Nagar, Bangalore
205739	Patil Medha Manohar Patil Manohar Namdev.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24103 22.04.09	Plot.No.7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
205740	Patil Meenal Shantaram Shantaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24110 22.04.09	Plot.No. 7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
205741	Patil Megharani Ekanath Ekanath Dattu Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25030 30.06.09	MIG-4, Nippani, Chikkodi Tq, Belgaum
205742	Patil MeghashriRagunath Amol Anil Upase.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28643 23.11.11	Radhakrishna Nagar, Ibrahimpur, Bijapur
205743	Patil Nahush Pandurang Patil P Atmaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24490 11.05.09	4th Cross, Srinagar, Ron Tq, Gadag
205744	Patil Nandkishor Patil Bhagavan Rao Madhav Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29143 08.05.12	SiddhapurWadi At Post TQ, Belgaum
205745	Patil Neeta Nanaso Nanso Mhadgonda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28312 25.05.11	Nr Sadalge Hospital, Shantinagar, Bedkihal A/P Chikodi Tal, Belgaum
205746	Patil Nilesh Dinkarrao Dinkarrao Chudaman Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25235 15.10.09	Javalj Plot, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
205747	Patil Pallavi Mutturaj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29084 05.05.12	Janatha Clinic , Goudar Oni, Kalgahatgi Taluk, Dharwad
205748	Patil Pankaj Shivajirao Patil Shivajirao Nivrutti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30614 26.08.13	Dhanwantary Hospital, Main Rd. Kokarud, Tq-Shirala, Sangli, Maharastra
205749	Patil Pankaj Subhashrao Subhash Dayaram Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24125 22.04.09	Nav Nagar, Hungund Tq, Bagalkot
205750	Patil Pooja VijayKr Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28892 20.04.12	Nr. Bus Stand , Janata Clny Rd , Aurad (B) Post Taluk Bidar
205751	Patil Pooja Babgonda Patil B Malgonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30601 14.08.13	At Post June Danwad, Tq-Shirol, June Danwad,

205752	Patil Poonam Pratap Y Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30095 18.04.13	A/p Yashwant Bunglow, Sawantpur Rd. Dattanagar, Tal-Palus, Sangli
205753	Patil Poonam Vilasrao Vilasrao Shanker Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28304 25.05.11	Rakshak Clny, No-903, 2nd Cross, , Kiran Bdg, Vijay Nagar Pipe Line Road Belgaum
205754	Patil Pradnya Sakharam Patil S Shivaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24989 16.06.09	Mahaveer Nagar, Bedkihal Post, Chikodi Tq, Belgaum
205755	Patil Prafull Arjun Patil Arjun Subrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24097 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205756	Patil Prakash Patil Chandrakant Ganapati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28368 31.05.11	Padma Niwas, Jaingalli, Chinchali-A/P, H.No.404, Raibag Tq, Belgaum
205757	Patil Pratiksha Rangnath Patil Rangnath Shripati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29697 06.07.12	Jagadamba Nagar, Surlri Rd, Tembhorni , Madha Tq, Solapur
205758	Patil Pravin Patil Krushnat Dadu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30511 19.06.13	At Post Siddhanerli, Ubale Galli, Tal- Kagal, Kolhapur, Siddhanerli
205759	Patil Pravin Jayaram Jayaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23687 01.04.09	C/o. S.J. Patil, Inchal Hospital, InchalPost, Soundatti Tq, Belgaum
205760	Patil Premnath Hiraji Patil Hiraji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30185 26.04.13	H.No. 12A, At Punade, Uran Taluk, Post Vasheni, Raigad , Uran
205761	Patil Pritam Patil Vishnu Maruti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30506 19.06.13	At Post House No. 151/11, Kalkundri, Tal-Chandgad, Kolhapur, Kalkundri
205762	Patil Priyanka Ganesh Namdev Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30096 18.04.13	A/p Vasheni, Tal-Uran, Raigad, Uran
205763	Patil Priyanka Ajithkumar Patil AjithKr Babgonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29403 21.05.12	Mahaveer Chowk, in front ofGrampanchayat, Bhose post, Miraj Tq, Sangli
205764	Patil Priyanka Balasaheb Balasaheb UPatil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23814 04.04.09	# 8-9-270, Bidar Tq &
205765	Patil Priyanka Mahadeo. Patil Mahadeo Pundlik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24136 22.04.09	Vidyanagar, 5th Cross, Bailhongal Tq, Belgaum
205766	Patil Priyanka Rajendra Patil Rajendra Hindurao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27320 23.03.11	Nr. Sangam Offset, Ghata prabha, Gokak Tq, Belgaum
205767	Patil Rahul Gurusidha Gurusidha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23739 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
205768	Patil Rahul Prakash Patil Prakash Dattu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23945 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
205769	Patil Rambhau Patil Devidas R Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23947 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
205770	Patil RavindraBabasaheb Babasaheb Maruthi Patil.	BAMS Shivaji Univ. Kolhapur 1997	28551 17.09.11	Ingali Rd. Shirguppi Post, Athani Tq, Belgaum
205771	Patil Rohit Lingangouda Lingangouda M Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25163 03.10.09	CTS 4183, 4484, Guruvarpet, Gokak Tq, Belgaum
205772	Patil Rupesh Ravaso Patil Ravaso Hindurao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24683 02.06.09	Ratnatray Bldg, S.T.Khot Cly, Shamanewadi Post Chikkodi Tq, Belgaum
205773	Patil Sachin Pandurang Patil Pandurang Krishna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24180 24.04.09	Malnhag, Budihal, Yamgarni Post, Chikkodi Tq, Belgaum

205774	Patil Sachin Shahu Patil Shahu Dhudhyaba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24439 05.05.09	H.No. 4-601/34A, 4th Cross, M.B. Nagar, Gulbarga
205775	Patil Sandip Keraba Keraba Ganapati Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27828 08.04.11	C/o S.S.R AMC Boy's Hostel, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205776	Patil Sandip Madhukar Patil Madhukar Gajamal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23943 13.04.09	Srinagar, 4th Cross, Ron Tq, Gadag
205777	Patil Sandip Walmik Walmik Vitthal Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29886 17.12.12	?Janai Nagar? Plot No. 1, Nr. S K Oil Mill, TalJalgaon
205778	Patil Sarang Ravindra Ravindra B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29584 12.06.12	# 205, Chapalgaon At & Post, Akkalkot Tq, Solapur
205779	Patil Sarika Jayasing	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30113 19.04.13	A/p Mouje Tasgaon, Tq-Hatkanangle, Kolhapur, Peth Vadgaon
205780	Patil Sarika Hanamanth Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30499 15.06.13	At Post Rajapur, Tq-Tasgaon, Sangli,
205781	Patil Sharat Kumar Ganesh Rao	BAMS M.U.H.S., Nashik 2005	28723 30.03.12	#599/B/12/1, Padakipuram, Saundatti Post & Tq, Belgaum
205782	Patil Sharyu Gajanan Patil Gajanan Vasant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24144 22.04.09	Vidyanagar, 5th Cross, Bailhongal Tq, Belgaum
205783	Patil Shilpa Ganpatrao Patil G Vasantao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23738 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
205784	Patil Shital Naganath Naganath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25043 06.07.09	Shree SiddhaSanjeevini.
205785	Patil Shraddha Vishwas Vishwas H Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24149 22.04.09	B.A.M. College Bapuji Campus, Challakere Tq, Chitradurga
205786	Patil Shridhar Piraji Patil Piraji Baburao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28294 25.05.11	No. 532, Sonargalli, M. Vadagaon, Belgaum
205787	Patil Shruti Sanjay Sanjay Krishnarao Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28430 20.06.11	21st Km, Kanakapura Rd, Udaypura, Bangalore
205788	Patil Shweta Jagannath J Dnyandeo Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25185 08.10.09	C/o. S.S. Rural AMC, Inchal Post, Saundatti Tq, Belgaum
205789	Patil Smita Shankarrao Patil SPandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23723 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205790	Patil Sneha Nemgonda Patil Nemgonda Ramgonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27867 11.04.11	Durga Nagar, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205791	Patil Snehal Hanmant Hantant Shamrao Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28702 26.03.12	#321/2A, Nandadeep, Shende Clny, Karanje Peth, Satara
205792	Patil Snehal Jaysing Patil Jaysing Dada.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26101 19.03.10	Bedkihal Post, Chikkodi Tq, Belgaum
205793	Patil Snehal Prakash Prakash Baburao Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27946 13.04.11	H.No.179, Nr Muncipal Council, NipaniChikodi Tq, Belgaum
205794	Patil Sonali Patil Kenchangouda Mudgouda	BAMS University of Poona, Pune 1997	28689 02.03.12	Ambadagatti At & Post, Bailhongal Tq, Belgaum
205795	Patil Surarsing Bharatsing Bharatsing.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23939 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr. Raghavendra Temple, Sindagi Tq, Bijapur

205796	Patil Suryakant Shankar Shankar Sambhu Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29923 01.02.13	At Post Biladi Tal-Shahada, Nandorbar, M H
205797	Patil Sushant Subhash Patil Subhash Shamrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24529 12.05.09	Balanagar, Behind Ayurveda College, Manvi Tq, Raichur
205798	Patil SushilkumarSambhajirao Patil S Dnyanu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23725 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205799	Patil Swapna Shrikant Shrikant Ramgouda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29390 21.05.12	No 1319 Vivekanand nagar, Golap at post, Ratnagiri tq &
205800	Patil Swapnaja Patil B Satyagonda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25817 12.03.10	Nr Bellad Bagewadi Bank, Ghataprabha, Gokak, Belgaum
205801	Patil Tanaji Vasantrao Patil V Bajirao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24405 05.05.09	Shivashantveer Clinic, Nandinagar, Koppal
205802	Patil Tushar Jijabrao. Patil Jijabrao Baliram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24782 04.06.09	Rd. 1st Main, 4th Cross, Sadashivnagar, Belgaum
205803	Patil Umesh Ashok Patil Ashok Daulat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28837 16.04.12	Plot No. & SL No. 10/7C, Abhiyana Nagar, Nashik Tq &
205804	Patil Umesh Baban Patil Baban Bhau.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25421 25.02.10	# 19, New Police Qtrs, Bharat Nagar, Belgaum
205805	Patil Umesh Subhash Patil Subhash Nemgonda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24852 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
205806	Patil Umeshkumar Laxmanrao Patil Laxmanrao Anna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24533 12.05.09	Bus Stand Rd. Nr. Post Office, Ron Tq, Gadag
205807	Patil Vaibhav Sadashiv Patil SRamchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24838 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
205808	Patil Vijay Vishnu Patil Vishnu Rangrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24096 21.04.09	Basava nagar 2nd Crosss, Rabkavi, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205809	Patil Vikas Rajendra Rajendra Dnyadev Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24577 14.05.09	KMP Rd.Badami Tq, Bagalkot
205810	Patil Vikas Sarjerao Patil Sarjerao Nivruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24843 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
205811	Patil Vishhvas Hilal Patil Hilal Uttam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23968 13.04.09	# 527, 1st Main, 3rd Left, RML Nagar, Shimoga
205812	Patil Vivek Vasantrao Vasantrao.B.Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28152 26.04.11	Nr Banjar Hostel, Kalyana NagarSindagi Tq, Bijapur
205813	Patil Yoginee Vaman Patil Vaman Vithoba	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24075 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
205814	Patil vivek Basant Basant Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30618 28.08.13	Vivek Silver Refinery, Shivkrupa West Block, E-35, Head Post Office Road
205815	Pattan Shetty KedarnathChanabasappa Pattan Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	28605 19.10.11	Manmi Complex, Govt. Hospital, Afzalpur, Gulbarga
205816	Pattar Veena Suresh Suresh V Pattar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25115 09.09.09	Sri Muneshwara Krupa, M.P. Prakash NagarHospet Tq, Bellary
205817	Patwa SandhyaraniSureshlal Mahesh B Shelake	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29218 15.05.12	Madilage Bkll At & Post , Bhudargad TQ, Kolhapur

205818	Patwardhan Aarti Vinayak Patwardhan V Madhukar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29658 18.06.12	#39, Budhwar Peth, Durga Society, Flat No. 2, Pune Tq &
205819	Patwardhan PriyankaManohar Patwardhan M Sadashiv.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24406 05.05.09	R.S. Hiremath Bldg, M.S. Devatar Clny, Hospet Rd. Koppal
205820	Pavan Kumar Kishor Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28840 16.04.12	# 2/22, Station Rd.Saidapur At & Post, Yadagir Tq &
205821	Pavan Kumar Kistareddy Passalvadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29856 05.11.12	E-79/A, Kaveri-Path, L N Nagar, Vasavadatta Cement Sedam Tq, Gulbarga
205822	Pavan Kumar M. Bichappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27043 15.03.11	TMAES Ay. Medi. College, Sanklapur Tanda, Hospet, Bellary
205823	Pavan Kumar .G. Siddappa. G.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27083 15.03.11	Punabagatta Post, Harapanahalli Tq., Davangere
205824	Pavan Kumar.K Kenchappa.H.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27724 06.04.11	No.56, Sarathi, Joldal Post, Channagiri Tq, Davangere
205825	Pavana.J.Shetty A. Janardhana Setty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28494 26.07.11	# 365, 6th Main, 8th Cross, N.R. Clny, Bangalore
205826	Pavani M N Nijalingappa M B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28787 11.04.12	1st Cross, Shanthinagar Shikaripura Tq, Shimoga
205827	Pavankumar Malavade Vinoba.T.Malavade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23861 09.04.09	# 66, Behind New Bus Stand, Shiggaon Tq, Haveri
205828	Pavankumar Sapare Venkatesh Sapare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27407 25.03.11	Hosahalli Post, Kudligi Tq, Bellary
205829	Pavanraj Parashuram M Dani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29048 05.05.12	Pavan Clinic Sindhanur Rd.Manvi Taluk Raichur
205830	Pavithra Bhosale Namdev L Bhosale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28922 26.04.12	No 126, Shivakrupa, 4th Cross, 2nd A main, Laggere Bangalore Laggere Bangalore
205831	Pavithra H K RaviKr K R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29529 28.05.12	S N Palya, Hebbur At Post, Kunigal Main Rd. Tumkur
205832	Pavithra. H Hanumaiah. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23798 04.04.09	11th Ward, Purigali Main Rd.Siddartha Nagara, New Ext, Malavalli Tq, Mandya
205833	Pavithra. K Krishna Murthy. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25044 06.07.09	# 1637, 2nd Cross, 4th Main, J.P. Nagar, 8th PhaseGottigere Post, Bangalore.
205834	Pavithra. M.H Halage Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25643 06.03.10	# 112/4, Saraswathipuram, Hassan Tq &
205835	Pavithra. S Srinivasan. B.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25568 05.03.10	# 2820, 1st Cross, 1st Main Rd.Chamundipuram, Mysore
205836	Pavithra.B.R. B.B. Ramesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28212 04.05.11	Manjunatha Nilaya, Balugodu Arji Post, Virajpet, Kodagu
205837	Pavithra.M. H.Mahabala Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27715 06.04.11	#23(1)-2, Vistal Nilaya Kothadi, Vaddarse Village Bannadi Post, Udupi
205838	Pavitra Basavarajagouda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30239 30.04.13	At Post Hullur, Tq Ron,
205839	Pavitra Banagar Veeranna Banagar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30191 27.04.13	Main Rd. Nr. SBH, Koppal .

205840	Pavitra N H Ningappa H H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30582 25.07.13	At Post Nalavagal, Tq-Ranebennur, Haveri, Nalavagala
205841	Pavitra Naik Narayan Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30598 13.08.13	Balaji Kripa, Arbail, Tq-Yellapur, Karvar, Uttara Kannada,
205842	Pawar Amit Raghunath Pawar Raghunath Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25197 09.10.09	# 4824/54, Nr. Patted Hospital, Ayodhya Nagar, Belgaum
205843	Pawar Anant Prakash Pawar P Babulal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24132 22.04.09	Navanagar, Hungund Tq, Bagalkot
205844	Pawar Aniket Chandrakant Pawar C Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24084 21.04.09	Vikrampur, Plot.No. 18, Athani Tq, Belgaum
205845	Pawar Deepali Ramdas. Ramdas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24727 03.06.09	Shanti Nivas, Nr. Naidu Hospital, BLDE Rd. Bijapur
205846	Pawar Mahesh Bhimarao Bhimarao Aba Pawar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24823 05.06.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
205847	Pawar Nalinee Bhimarao Bhimrao Ramchandra Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27878 11.04.11	Behind Vasavi Theatre, Durga Nagar, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205848	Pawar Nitin HarishChandra Pawar Harishchandra Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26721 17.06.10	Devrajnagar, Nr Govt Hospital, Terda At & Post, Jamkhandi Tq., Bagalkot
205849	Pawar Poonam Dadaso Pawar Dadaso Dadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23717 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
205850	Pawar Pradip Parshuram P Ranganath Pawar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24303 29.04.09	Risaldar Bldg, 7th Cross, Badami Tq, Bagalkot
205851	Pawar Rahul Devidas Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30530 26.06.13	At Post Mendhapur, Tal Pandharpur, Solapur, Mendhapur
205852	Pawar Sachin Hari Pawar HTukaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26209 22.03.10	H.No. 2106(A), Ramnagar, Nipani, Chikkodi Tq, Belgaum
205853	Pawar Sharad Pawar Suresh Ambarushi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30504 19.06.13	Samarth Nagar, Garad Plot, Paranda Rd. Ta-Barshi, Solapur, Barshi
205854	Pawar Snehal Murlidhar Murlidhar Sadashiv Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26486 05.04.10	#2106/A, Ram Nagar, Nipani Post, Chikodi Tq, Belgaum
205855	Pawar Swapnil Anandrao Anandrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23742 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
205856	Pawar Vishakha Vishnu Vishnu Raghunath Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30528 26.06.13	At Post Mandave, Tal & Satara, Mandave
205857	Pawar Yogesh Vijay Vijay Dattatraya Pawar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24602 18.05.09	# 139/N, I.G. Kubusod Bldg, Mahant Nagar Kelgeri Rd. Dharwad
205858	Pawar.N.Shetty H.Narasimha Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23801 04.04.09	Anugraha, 6th Cross, Vinobanagar, Shimoga
205859	Pawas Kumar Sharma. Mahendra Kr Sharma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25135 25.09.09	Sanmeshwar Niwas, Housing Board clyLIG-24, Bidar
205860	Payoj H S Deshmukh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28827 16.04.12	# 2-910/67/2/13, Vishweshwarayya Nagar Sedam Rd, Gulbarga
205861	Phadale Sonal Kailas Phadale Kailas Baban	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28985 27.04.12	S No.246/2B/25, Khandve WastiCohegaon Rd Kalwad Pune

205862	Phadanavis VarshaAahok P Ashok Gopalrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25849 12.03.10	# 16, 6th Main, 10th Cross, Priyadarshini ClyGokul Rd. Hubli
205863	Phade Vrsha Ajitkumar AjithKr Mohanlal Phade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29839 30.10.12	?Dhawal? Mahaveer Nagar, pandharpur At & Post, solapur Dit
205864	Phani Kumar P Yogeshwara Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29069 05.05.12	Slv Towers, 3rd floor Parvatinagar Bellary
205865	Phanindra. V.V V.S. Venugopal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24029 20.04.09	#E/378, Behind Court, Gowribidanur Tq, Chikkabalapur
205866	Phepale Jyoti Sabebrao Phepale Saheb Rao B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28809 13.04.12	# 58, Devichya MandiraRajkhed Mayamba Buldana Post & Tq &
205867	Phonde Arun Ramchandra Ramchandra T Phonde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30325 14.05.13	At Post Waiphate, Nr. Bus Stand, Tasgaon Taluk, Sangli , Tasgaon
205868	Phulsagar Sonali Maruti Maruti Bhivaji Phulsagar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27358 24.03.11	Manali Rd.NKJ Girl's Hostel, Bidar
205869	Pichare SandhyaSudhakar P Sudhakar Sopan Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27124 17.03.11	C/o NKJ AMC Gumpa Bidar
205870	Pimple Amol Arun Pimple Arun Laximanrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24443 05.05.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
205871	Pimple Anand Gopinath Pimple GMallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25600 06.03.10	SHES AMC Boy's Hostel, Bhavsar Nagar, Sedam Rd. Gulbarga
205872	Pisal Rahul Vilas Vilas Ganapat Pisal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25236 16.10.09	Tha.Ra.SuStreet, Chitradurga
205873	Pisal Sachin Digambar Pisal Digambar Kisan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24440 05.05.09	H.No. 4-601/34A, 4th Cross, M.B. Nagar, Gulbarga
205874	Pithwa Deepa Yogesh Yogesh K Pithwa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30076 17.04.13	D-209, Usha's Apartments, Site No-26, 16th Main, Jayanagar 4th Block, Bangalore
205875	Pokale Ashwini Chandrakant Chandrakant.B.Pokale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24470 11.05.09	BVVS Ladies Hostel, Bagalkot
205876	Pokharkar ManthanKondaji Pokharkar Kondaji Baburao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29707 13.07.12	D-12, 2-1, Mangal Darshan CHS Sect-10, Airuli, Navimumbai, Thane
205877	Pol Vinod Nanasaheb Nanasaheb M Pol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28654 14.12.11	C/o Bapuji Ay. Medi. College, T.R.Nagar, Challakere Tq, Chitradurga
205878	Pomaji PradeepHanamantrao Pomaji H Rao C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29494 25.05.12	Nr. NagurHospital Bldc Rd. Bijapur
205879	Pomaji Vaishali Pomaji H Chandramappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29495 25.05.12	Nr. NagurHospital Bldc Rd. Bijapur
205880	Pooja Naganath. G. Togurge	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27042 15.03.11	Hulsoor-A/P, Basavakalyan Tq., Bidar
205881	Pooja Kallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30612 23.08.13	?Basava Nilaya? Opp. Mahadeva Temple, R/o Mustaf Humnabad, Bidar-
205882	Pooja C Shetty K Chandra Shekar Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29792 12.10.12	# 468, Pooja, 1st Amain, Havanur Extn, Nagasandra Post, Bangalore
205883	Pooja Halbhavi Shrikant Halbhavi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25084 04.08.09	T-31, Shradha Residency, Sampige Rd, Vishveswarayya Nagar, Belgaum

205884	Pooja Mudkavi Mahesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30117 19/04/13	H.No. 16, Ramangar, Nr. NTTF, Dharwad
205885	Pooja Patil Shivraogouda S Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27937 13.04.11	No.2280, 4th Cross, Kanbargi Rd, Mahantesh Nagar, Belgaum
205886	Pooja Rani. K.P Purushotham Prabhu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24262 28.04.09	# 4323, Kanangi Rd. Kukkundoor PostKarkala Tq, Udupi
205887	Pooja Satish Shetty Satish.S.Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24266 28.04.09	Farangipete Post, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
205888	Pooja Sharma Pankaj Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29932 07.03.13	House No. 818, Phase-I, Ramdarbar Clny, Chandigarh
205889	Pooja.B.Pashupatimath Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23764 03.04.09	Ghataprabha Post, Gokak Tq, Belgaum
205890	Pooja.N. Juganikar Bhargav Kalal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	28124 25.04.11	Pendar Oni, Opp Masjid, Hubli Tq, Dharwad
205891	Pooja.S.Poojari. Shekar.K.Poojari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24965 10.06.09	Pooja, Opp. Community Hall, Koppalagadi, KAUP Post, Udupi
205892	Poojar Pallavi Basavaraj Poojar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26084 19.03.10	H.No. 15/3/26, Bank Clny, Gandhi Gunj, Bidar
205893	Poojashree Naganna Sahu Chincholi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28911 26.04.12	Gandhi Chock , Shahapur At Post & Taluk, Yadiur
205894	Poola V Nagendra Babu P Srinivasa Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30006 08.04.13	House No. 7-51-14, Krishna Nagar, Ulavapadu, Prakasam , Ulavapadu
205895	Poonam NarendraKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30064 16.04.13	Alstom Clny, 13th Cross, 7/4 LTRT, Gulbarga, Shahabad
205896	Poonam Bhojak Om Prakash Bhojak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29226 15.05.12	No 1/6, Nanjamba Agrahara 5th Main , Nr. TR Mills , Chamrajpet Bangalore
205897	Poonam. D. Patel Sanket.M. Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26953 29.10.10	#26-80, Jog Rd.Sagar At Post & Tq, Shimoga
205898	Poonam.A.Patel. Ambalal.M.Patel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24762 04.06.09	# 8-1-138C, Kunjibettu, Udupi
205899	Poorinma Hiremath Chandrashekarayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24169 24.04.09	# 57/72, Laxmeshwar Post, Shirahatti Tq, Gadag
205900	Poornachander YadavP Narayana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28613 05.11.11	Ay. Medi. College, Sedam Rd. Gulbarga
205901	Poornachandra TejaswiE.M I.C. Malagali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24023 20.04.09	# 439, Padmavathi Clny, Bhadya Nagar, Koppal
205902	Poornima Adinath Patil. Adinath Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25226 14.10.09	Plot.No. 751, Sect.No. 5, Shreenagar, Belgaum
205903	Poornima C.S Sangappa G Chetter	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30077 17.04.13	APMC Yard, Ganju, Tq-Kustagi, Koppal, Kushtagi
205904	Poornima G G. Manjunatha Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30421 28.05.13	Thunganugraha, Goliyangady, Hiliyana Post and Village, Udupi (Tq & )
205905	Poornima Hiremath Virupaxayya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26612 23.04.10	?Prasad Traders? Vittal Mandir Complex, Talikota, Bijapur



205906	Poornima Jalawadi Shankar Jalawadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24518 12.05.09	# 4, Basawa Nilaya, 8th Main, 4th Block3rd Stage Basaveshwaranagar, Bangalore
205907	Poornima Math Lumapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27350 24.03.11	Gurubasaya Nilaya, Nr. Mallikarjun Ashram, Bijapur
205908	Poornima Mulawade Ningappa K Mulawade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28256 17.05.11	Plot No.5, Khillari Math Chal, Prabath Clny, Vidyanagar, Hubli
205909	Poornima N Nagaraja V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29383 21.05.12	No 80, Malli pattana, Karadi post, Tiptur Tq, Tumkur
205910	Poornima P Amaranath T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	29940 15.03.13	H.No. 13, Hesaraghatta Main Rd.Chikkabanavara, Bangalore
205911	Poornima Panchal Dyamappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29191 14.05.12	66 Gourish Nilaya, Kadamba Nagar, Banavasi Rd. Sirsi Uttara Kannada
205912	Poornima. K Ananda Marakala. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24291 29.04.09	# 43, Pramod Nilaya, Kageri, Koni Rd, Koteshwara Post Kundapur Tq, Udupi
205913	Poorvi Suresh Athreya P.L. Suresh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25545 05.03.10	# 2557, 16th Main, 2nd Stage, Kumaraswamy Layout Bangalore
205914	Popat Rathod Bheemasing	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30378 21.05.13	At Post Babanagar, Farmer House, Tq &
205915	Potadar Rajeshwari Chandrakant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	29930 18.02.13	A/P Umadi, Tq-Jath, Sangli, Maharashtra
205916	Potadar Santosh Vishnu Vishnu Putadar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24870 06.06.09	1st Cross, Vidyanagar, Badami Tq, Bagalkot
205917	Potdar Hrishikesh Subhash Potdar S Shivram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24175 24.04.09	Nr. Renuka Theatre, Badami Rd.Ron Tq, Gadag
205918	Potdar Shrikant Uttamkumar UttamKr Potdar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25196 08.10.09	Plot.No. 6, ?Anand? Ganesh Nagar, Arvind Nagar Rd Old Hubli, Hubli
205919	Potdar Vaishali Mohan P Mohan Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24534 12.05.09	EL Bethel Bunglow, Plot.No. 7, Ramnagar, Nipani, Chikkodi Tq, Belgaum
205920	Powar Vijay Pandurang Powar P Ganu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24319 29.04.09	MIG-II, H.No.4, Hudco Cly, AkolRd. Nippani Post Chikkodi Tq, Belgaum
205921	Prabhakar Sajjan Subhasachandra.I.Sajjan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24308 29.04.09	Plot.No. 1156, Sect.No. 6/1, Shrinagar, Belgaum
205922	Prabhakar Teradal. Basagondappa Teradal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24764 04.06.09	Honnutagi Post, Bijapur
205923	Prabhanjan Kulkarni N.R. Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24752 04.06.09	# 1603, Shreassu, 7th Cross, 1st Stage, Kumaraswamy Layout J.P. Nagar, Bangalore
205924	Prabhudev Pattadkall Balappa BPattadkall	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28487 18.07.11	2nd Cross, Siddrameshwar Clny, Jamkhandi Tq, Bagalkot
205925	Pradeep Ganpath Rao Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28252 12.05.11	Kamalnagar Post, Aurad Tq, Bidar
205926	Pradeep Ishappa Beehari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29540 28.05.12	C-187, HumnabadAt Post & Tq, Bidar
205927	Pradeep Bhajantri Rayappa P Bhajantri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29388 21.05.12	Plot No 23/24, Shidoli Rd. ShriRamnagar, Mutaga post, Belgaum

205928	Pradeep Desai Gangadhar N Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30039 16.04.13	H.No. 41, Green Park, Nr. Devinagar Vidyanagar, Hubli
205929	Pradeep Konnur Ramakanth Konnur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25453 02.03.10	Nr. New Govt. Hospital, Karatagi Post, Gangavati Tq, Koppal
205930	Pradeep Kumar Shree Pramod Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	26914 27.09.10	H.No.247/1/4, Vishwa needam, Hegganahalli, Peenya 2nd Stage, Bangalore
205931	Pradeep Kumar J. Janardhana K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27178 18.03.11	Nethaji Nagar, Mulbagal Town, Kolar
205932	Pradeep Kumar.H.K. H.V. Kariyanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28283 17.05.11	Shivakrupa, Basavannana Palya, Siragate, Tumkur
205933	Pradeep Reddi Beragi Ramareddi Beragi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27052 15.03.11	No.70, Gudur.S.B. Hirekodagali Post, Hunagund Tq., Indi Tq.,
205934	Pradeep. R.N Nagarappa. R.D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26233 23.03.10	Bannikodu Post, Honnali Tq, Davangere
205935	Pradeep. B Basavaraju. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26054 19.03.10	# 360, Gupalapura, T.Narasipura, Mysore
205936	Pradeep. B.C Chidamber. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27154 18.03.11	Tripurant Rd.Basava Kalyan Tq, Bidar
205937	Pradeep. E.K Keshava Bhat. E	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23759 03.04.09	C/o GR.Upadhy Chaitra Gandhinagar, Moodbidri, Mangalore
205938	Pradeep.M.Masankatti Muruvandappa. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24611 18.05.09	Gurumandir Rd.Soraba Post & Tq, Shimoga
205939	Praduya Chittawadagi VijayaKr Chittawadagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26646 05.05.10	#67, ?Shree Sai?, 15th Vidyagiri, Bagalkot
205940	Pragati Gadge Earappa Gadage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24761 04.06.09	H.No. 8-5-105/33, Janawada Rd. Bidar
205941	Pragnya Shesharao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24575 14.05.09	# 19-1-163, 5th Cross, Shivanagar South, Bidar Tq &
205942	Prahanthi M Ganapathi Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29377 21.05.12	Mandyoor House, Kalyana post, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
205943	Prahsant Kandratti Dundappa.A.Kandratti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24491 11.05.09	R.S. No. 188/2C, Basavnagar, Gokak Tq, Belgaum
205944	Prajeeth Sudhakaran Sudhakaran. C.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28548 07.09.11	# 3-21, ?Sowmya? Navunda, Kundapur Tq, Udupi
205945	Prajna Duggappa G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30589 31.07.13	Shubhashaya 1-7/2, Mattu, Katapady, Udupi,
205946	Prajna Priyadarshini Thejappa Amin.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25463 02.03.10	Manasa House, Kallianpur, Udupi Tq &
205947	Prajna R Nayak Ramesh Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29371 21.05.12	Rama nilaya, Opp Prashanth Hospital, Koppalangi, Kaup post, Udupi
205948	Prajna. K Narayana Saralaya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24626 18.05.09	# 6-15, Kanaran, Marne-Post, UDUPI
205949	Prajwal Kumar.J.M Mallikarjunappa. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28115 25.04.11	Janakal At & Post, Hosadurga Tq, Chitradurga

205950	Prajwala BharamappaAski Bharamappa N Aski	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29515 26.05.12	Mini Mahal, Naigur Clny, Jawkhandi At Post, Bagalkot
205951	Prakash Sangappa S Kinnal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29536 28.05.12	Mudhol At Post, Yalburga Tq, Koppal
205952	Prakash Purappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28253 17.05.11	Kolihal (Ramanagar), Surapur, Yadagir
205953	Prakash Kudni Gurappa R Kodni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28931 26.04.12	Hiremath Galli , Bazar Rd.Telsan At & Post , Athani Taluk Belgaum
205954	Prakash Mashyal Sowanne Mashyal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26161 20.03.10	Vasalli Rd.Tambe, Bijapur
205955	Prakash Meti Sharanappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26045 19.03.10	NargundPost & Tq, Gadag
205956	Prakash Timmapur Pavadeppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30220 30.04.13	Khanatti Village, Gokak Taluk, Belgaum , Khanatti
205957	Prakash.H. Ronad Hanumanthappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27122 17.03.11	MIG-5, Ashirwad Nilaya, 1st Main Cross, Santosh Nagar, Dharwad
205958	Prakasha Barki Durgappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27398 25.03.11	# 55, Kanakodas Temple, Kagginele, Byadagi Tq Haveri
205959	Prakrithi. M.V Vignesh. M.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26164 20.03.10	Opp MES Convent, Pampanagar, Shimoga
205960	Prakruthi. R Ram. H.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23907 09.04.09	# 2/247, Ambadkar Nagar, Via BajpeKarambar, Kenjar Post, Mangalore
205961	Prame Babannavar Fakkirappa.H. Babannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24226 28.04.09	Chikkahadigol Post, Gadag Tq &
205962	Pramila. D Mahadev Devan. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26193 22.03.10	C-88, Bhankur, Shahabad, Chittapur, Gulbarga
205963	Pramod Jagannath Karande Jagannath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23967 13.04.09	Deepa Bldg, Nr. Taluka Office, Koppal
205964	Pramod Kumar Shiva Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26613 23.04.10	H.No. 1-4-89/A-29, Datar Cly Raichur.
205965	Pramod Kumar Vishwamber Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28646 30.11.11	#63/80/A, Shilpanivas, Aurad(B) At Post & Tq, Bidar
205966	Pramod Kumar Yadav. Chandrabhushan Yadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25179 07.10.09	Nr. Gadag Rd. Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
205967	Pramod Lokhande S.R. Lokhande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25872 12.03.10	H.No. 18010-65, Behind Akkamahadevi College Bidar
205968	Pramod Shet.B. Maruthi Shet.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28200 30.04.11	Shankar Nilaya, Behind VaishnaviStores, Shiri Beedu, Udupi Tq &
205969	Pramod Singh Rajpoot Harnarayan Rajput.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24997 17.06.09	D.No. 1763, 2nd Main, 1st CrossVinobanagar, Davangere
205970	Pramoda.P.A. Achhutha Gowda.P.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28153 26.04.11	Poombady, Bilinele Village, Kaikamba Post, Puttur Tq, D.K.
205971	Pramodini Prabhakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30195 29.04.13	No. 14-9-281, Laxmi Cottage, Nr. Railway Signal, Eden Colony, Tq &

205972	Pramodini.J.Patil Jinagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27710 06.04.11	Nasalapur Post, Raibag Tq, Belgaum
205973	Pranamy Jain Shambay Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28353 30.05.11	No.10134 ?B?, Mahaveer College Rd, Moodbidri, Mangalore Tq, D.K.
205974	Pranavi.K. B.Krishnappa Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27709 06.04.11	No-1-21/4 (1), Derebail Konchady , Yeyyadi Post Mangalore Tq, D.K. Post
205975	Pranesh Chandrakant Natikar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25764 12.03.10	# 4/171, Makangalli, Mannur Post, Afzalpur Tq, Gulbarga
205976	Pranesh Patil Shashikanta Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30187 26.04.13	Nr. Primary School, A/p Betageri, Gokak Taluka, Belgaum , Betageri
205977	Pranil Kumar Pawar Kishanlal Pawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26579 17.04.10	#9-10-116, Rampur Clny, Opp. BVB College, Bidar
205978	Pranita Mohan Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26298 24.03.10	Prakruti Nivas, Belthangady Rd, Ujire, Belthangady Tq, Mangalore
205979	Prasad.U.Acharya Umesh Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28198 30.04.11	#4-190/9, Marakada Mangalore, KunjathBail Mangalore Tq, DK
205980	Prasana Shankar Darshan Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27787 07.04.11	#96/3, Gurukripa Sneha Layout, Jakkur Post, Bangalore
205981	Prasanna Kamaladmath Parmeshwarayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26067 19.03.10	# 43, Goudar Oni, Gulaganji Poppa, Dharwad
205982	Prasanna Patil ArunKr. B. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27046 15.03.11	A-7, Sector No-11, Bagalkot Tq &
205983	Prasanna. S Janardana. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23993 18.04.09	Santhithadda House, Hirebandady PostPuttur Tq, Dakshina Kannada
205984	Prasanna.A.Rao Anil Kr	BAMS M.U.H.S., Nashik 2005	28426 20.06.11	Nr. Kameshwar Temple Baikady, Brahmavar Post, Udupi
205985	Prasannakumar. G.S G.S. Shanmukhappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25099 17.08.09	# 48, Hebbalagere Village & Post, Channagiri Tq, Davangere
205986	Prashant Angadi Basavraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25624 06.03.10	Arjunagi (BK), Indi Tq, Bijapur
205987	Prashant Baragi Vijaya Kr Baagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23986 18.04.09	Kaladagi Post, Bagalkot Tq &
205988	Prashant Bhandi. Mahadev.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24202 24.04.09	Behind Bus Stand, Dhattatreya Nivas, Navbag Clny, Bijapur
205989	Prashant Kabbur Nagappa Kabbur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26023 19.03.10	# 534, M/9(5), 5th Cross, KRC Nagar, Bailhngal Tq, Belgaum
205990	Prashant Karaddi Ramanagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26887 15.09.10	Ingalgeri At & Post, Muddebihal Tq, Bijapur
205991	Prashant Kori Shivayogappa Kori	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29976 06.04.13	At Kittur, Tq & Haveri, Kittur
205992	Prashant Kumar Shivappa Talikoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26738 29.06.10	Tavaragera At & Post, Kushtagi Tq, Koppal
205993	Prashant P Heremath Panchakshriswami	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30015 09.04.13	28A, Market Galli, H.No. 1 to 42, Vannur, Tq-Bailhongal, Belgaum

205994	Prashant Padaganur Hanamantray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25647 06.03.10	Talikoti Post, Muddebihal Tq, Bijapur
205995	Prashant Vajinath Kiwande Vajinath Kiwande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25330 15.12.09	# 18-3-288/2, AHQ Clny, Gandhi Gunj, Bidar
205996	Prashant koppa Siddappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28780 11.04.12	Shriguru, Beerappa Nagar Indi Tq, Bijapur
205997	Prashant. M.J M.V. Jayapala.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24416 05.05.09	# 118, 12th A Main, 1st Stage, BTM Layout, Bangalore
205998	Prashantakumar Havanur. Basavaraj Havanur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25398 24.02.10	Nr. Devamma Temple, Bellatti Post, Shirahatti Tq, Gadag
205999	Prashanth B.T.Chandre Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26551 13.04.10	#7/155, Paper Town, Bhadravathi Tq., Shimoga
206000	Prashanth A Anand S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30266 06.05.13	# 2725, 4th Cross, R.P. Rd. Extn., Nanjangud (T), Mysore (D), Nanjangud
206001	Prashanth Kumar. D.K Devaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25949 17.03.10	D.No. C21/3, Rarwal Clny, Karkal
206002	Prashanth Kumar. H.V Vijaya Kr. H.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23990 18.04.09	# 848/2, Shankarpuram, HassanTq &
206003	Prashanth Kumara. C Channaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25930 17.03.10	# 9, BM Rd. Hassan
206004	Prashanthkumar. H.M Channaveraiah. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23747 02.04.09	?Prashant Nilaya? Opp.PCD Bank, Kotturu Rd. Harapanahalli, Challakere,
206005	Prashantkumar Shivashankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25625 06.03.10	Afzalpur Tq, Revansiddeswar Clny, Gulbarga
206006	Prathana Jyothsnpais Ramachandrappa. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25775 12.03.10	Church Galli, Balehonnur Post, Narasimharajapura Tq, Chickmagalore
206007	Prathiba. R.V Raghavan. R.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24120 22.04.09	# 55, Renukacharya NAgar, 1st Cross, Bellary
206008	Prathibha Jangasanahalli Basavaraj .J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29982 06.04.13	Ankasamudra Post, Tq- Hagaribommanahalli, Bellary
206009	Prathibha Murthy P Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29287 17.05.12	Chintu nilaya, 6th Cross, Krishna Rd, Kyathsandra, Tumkur
206010	Prathibha. G.N Gopal Rao. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25523 04.03.10	Nr. Chamrajpet, Royan Circle, Police Officer's Quarters, # 8, Bangalore
206011	Prathibha. K Bhoja Shettigara. K.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23906 09.04.09	# 1-254, 3rd Cross, KaikambaKinnikambala, Mangalore, Dakshina Kannaa
206012	Prathibha.S. Shankarappa.C.L.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28662 05.01.12	#953, 5th Cross, Govinpura, Tiptur Post & Tq, Tumkur
206013	Prathviraj Basawannappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24360 30.04.09	Gadawanti Post, Humnabad Tq, Bidar
206014	Pratibha Basavaraja Ullagaddi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30138 22.04.13	Sathyadhyanaपुरa Badavane, ?BasavaNilaya?Kinnal Rd. Koppal
206015	Pratibha Panchakshri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30213 29.04.13	H.No. 8-462/B, Mallikarjun Math, Kirana Bazar, Asif Gunj, Gulbarga

206016	Pratibha V.V. Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24036 20.04.09	# D-5/113, Kendriya Vihar, Yelhanka, Bangalore-Bellary Rd. Bangalore
206017	Pratibha Biradar Goudar Gurusiddappa B Goudar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29694 06.07.12	Soppadla At Post, Savadatti Tq, Belgaum
206018	Pratibha Koppa Siddanna Koppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26297 24.03.10	Shriguru, Birappanagar, Indi Tq, Bijapur
206019	Pratibha Magadam Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30482 12.06.13	At Post Shiragur, Raibag Taluk, Belgaum
206020	Pratibha Panduranga Panduranga D Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	28394 09.06.11	Bedkihal At & Post, Chikodi Tq, Belgaum
206021	Pratibha T.K.S Sreedhar Setty T.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30001 08.04.13	Dhadapura, 7th Galli, Nargund, Gadag
206022	Pratibha.S. Yalladagi Satappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28266 17.05.11	#206, Chalukya Nagar, Bijapur
206023	Pratibha.S.Babshet Sunil.G.Babshet.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24515 12.05.09	# 43/33, 1st Floor, 59th Cross, 4th Block Rajajinagar, Bangalore
206024	Pravallika K Mallikarjun K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30590 31.07.13	H.No. 1-5-15/1, Civil-Lane, Narayanpet, Mahabubnagar, A.P.
206025	Praveen Chavadimani Krishnasa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25658 08.03.10	Ganjipet, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
206026	Praveen Desai Shivanand Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25066 22.07.09	Nr. Mangalkaryalaya, Sindagi Rd.Indi Tq, Bijapur
206027	Praveen Gidgalle SuKr Gidgale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26137 20.03.10	Sadalga Post, New Bus Stand, Chikkodi Tq, Belgaum
206028	Praveen Kumar Gangadhar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26964 10.11.10	C/o Neelakanteshwara Hotel, Raichur Rd. Manvi
206029	Praveen Kumar Aivalli Maruti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28327 25.05.11	No.817, Mission Compound, Dhupadal Gokak Tal, Belgaum
206030	Praveen Kumar B Bindhumadhava	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30477 11.06.13	Nr. Town Police Station, Padaki Complex, Koppal
206031	Praveen Kumar B Salunkhe Babasaheb V Salunkhe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30362 20.05.13	Nr. Vittal Mandir, Bharat Chowk, Shahabad, Gulbarga
206032	Praveen Kumar Chotagal Dhyamanna Chotagal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25782 12.03.10	Pavithra Nilaya, Hulageri Bana Gadagin Naka, Laxmeshwar, Gadag
206033	Praveen Kumar Talikoti Basavaraj Talikoti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26277 23.03.10	Shantinagar, Hakeemchowk, H.No. 60, Bijapur
206034	Praveen Kumar. H.K Kunnanjaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25574 05.03.10	Honganur Post, Chamarajanagar Tq &
206035	Praveen Malaghan Lakshmikant Malaghan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25311 27.11.09	Mantur Post, Mudhol Tq, Bagalkot
206036	Praveen Naik Shankar.V.Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26126 20.03.10	Kochiri Post, Hukkeri Tq, Belgaum
206037	Praveen Nidagundi Sangappa.G. Nidagundi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27400 25.03.11	Belur Post, Badami Tq, Bagalkot

206038	Praveen Payannavar Ningappa Payannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23854 06.04.09	H.No. 24, Arabhavi Arabhavi Math, Gokak Tq, Belgaum
206039	Praveen Police Patil Bheemanagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30330 16.05.13	H.No. 3/109/A, Kembavi Post, Shorapura Tq, Kembavi
206040	Praveen Tirki Ashok Tirki.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25106 26.08.09	# 450, Baligar Lane, Mangalwar PethBanhatti Post Jamkhadi Tq Bagalkot
206041	Praveen. R D. Ramalinge Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24685 02.06.09	Behind Kurubara Hospital, NES Extn, Malavalli, Service Stand,
206042	Praveen.D .Savadatti Durgappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23762 03.04.09	# 2088, Yadwad Post, Gokak Tq, Belgaum
206043	Praveenakumar Sanganagouda. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24743 03.06.09	Siddalingeshwara Nilaya, B.B. Nagar, Kushtagi Tq, Koppal
206044	Praveenkumar Kariyappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23805 04.04.09	Gavi Siddalingeshwar Bilaya, Plot.No. 7, Shakti Nagar, Gulbarga
206045	Praveenkumar Ningappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27383 24.03.11	UKP Camp, Rajankolar At & Post, Shorapur Tq, Yadgiri
206046	Praveenkumar Toravi Vitthal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30106 19.04.13	Shahu Nagar, Nr. Hari Mandir, Bijapur
206047	Praveenkumar. Baburao Adeppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25527 04.03.10	# 7/206, Ganesh Nagar, Hulsoor Post, Basavakalyan Tq, Bidar
206048	Pravin Madhyanadavar G.B. Madhyanadavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25175 07.10.09	Madlur Post, Hirekerur Tq, Haveri
206049	Pravin Sajjan Yamanappa B. Sajjan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26734 28.06.10	Amingad At & Post, Hungund Tq., Bagalkot
206050	Pravin Swami Maharudra Swami.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24869 06.06.09	Mamadapur Post, Chikodi Tq, Belgaum
206051	Preetam Krishnaji Lamani Krishnaji Shivappu Lamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26594 22.04.10	Laxminagar, Bagalkot
206052	Preetha. R Rama Krishna Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23768 03.04.09	C/o. Malle Gowda, Sabbana Kuppe, M.Sheththalli Post, Sri Rangapatna, Mandya
206053	Preetham. H.S Shankar. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25373 25.01.10	Kote, Kadur Post & Tq, Malur,
206054	Preethi B Basavaraj H T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29843 30.10.12	B Layout Mysore
206055	Preethi Bhosagi Mahaveer Bhosagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29622 14.06.12	# 19/4, Ainapur At, athani Post & Tq, Belgaum
206056	Preethi M Rao J Muralidhar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29459 24.05.12	Tulasi Nilaya, K R Puram Extension, Shimoga
206057	Preethi Nair Balasubrahmanya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25798 12.03.10	# 6-16-2, Kavoor Tq, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
206058	Preeti Amritarao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30162 25.04.13	TMC Complex, Shahapur-Tq, Yadgiri- , Shahapur
206059	Preeti Prakashrao Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24652 22.05.09	# 3-3-53/33, Vidya Nagara, Sedam Tq, Gulbarga

206060	Preeti Achar M.V. Achar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25504 04.03.10	# 7-7-48/5, Gangotri, Savitri Clny, Raichur
206061	Preeti B B Ramdas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30108 19.04.13	Plot No 20, Ratna Nivas, New Adarsh Clny, 3rd Phase, Bidar
206062	Preeti Belkud Kallappa Belkud.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24985 15.06.09	Mudalagi Post, Gokak Tq, Belgaum
206063	Preeti Hattikal Gangadhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24894 08.06.09	# MIG-118, 5th Cross, Navanagar, Hubli Tq, Dharwad
206064	Preeti Jogur Chandrashekahr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29613 14.06.12	#1-109, Ganga Nilaya, Sindagi Tq, Bijapur
206065	Preeti Patil Sheetal L Sadalagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29477 24.05.12	Nr. Minority Bank, Terdal At Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
206066	Preeti Pereira. Thomas Pereira.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25483 03.03.10	MIG-161, New KHB Clny, Habbuwada, Karwar Tq &
206067	Preeti Pyati Shamrau Pyati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29671 20.06.12	Plot No. 16, CIB Clny, Behind Central Bus Stand, Gulbarga
206068	Preeti Shan Bhag Arvind Shanbhag	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29507 26.05.12	# 4/2, Type-V KPCL Clny, Ganeshwadi Soida Tq, Uttarkannada
206069	Preeti Tanwar Ompal Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30341 18.05.13	House No. 741-p, Sector -5, Urban Estate, Gurgaon
206070	Prem Chandra Rameshwar Dayal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26686 28.05.10	C/o. Sri Sri College of Ay.Science Kanakpura Rd. Bangalore
206071	Prema Mathapati Teerthayya C Mathapati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29760 29.09.12	# 1119, Ankalgı Nr.New Bus Stand Gokak Tq, Belgaum
206072	Prema.A.Wadeyar Anand S.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26792 19.08.10	No.436, 1st ?C? Cross, 2nd Main, 8th Block, Koramangala Layout, Bangalore
206073	Prema.H.Vyas Gourish.S.Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25302 27.11.09	Jadar Galli, Station Rd. Bijapur
206074	Premalata Amrutha Yempalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25357 12.01.10	#. 4-10-338, Ring Rd. Venkateshnagar, Sedam Post & Tq, Gulbarga
206075	Premalata Chaturvedi R.K. Chaturvedi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25903 15.03.10	# 46, Narasimha House, K.G. Halli, Kalanagar, Bangalore
206076	Premalata Kamate Ramachandra Balavant K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27690 05.04.11	Ugar Budruk, Athani Tq, Belgaum
206077	Premila Mascarenhas Marin Mascarenhas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24207 24.04.09	# 2-34, Barkur Post, Udupi Tq &
206078	Premlatha Chowhan Dhananjaya Gadagin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28666 09.01.12	Dhananjaya Clinic, Nr Marata Samaja, Sandur Post & Tq, Bellary
206079	Priya Bhat Krishna Bhat.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27785 07.04.11	?Abhyudava? House, Parliya, B.C. Rd, Jodumarga ? Post, D.K.
206080	Priya Darshini G Chandrashekhar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30097 18.04.13	H.No. 361/16/B, Daneshwari Krupa, SaiNagar, Behind Sai Baba Temple, Gadag
206081	Priya Dharshini S Selvaraj D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30208 29.04.13	#167, 4th Main, 3rd Block, 3rd Stage, Basveshwarnagar, Bangalore



206082	Priya K R K M Rajappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30433 29.05.13	Sri Rathnagiri Sadana, Ambedkar Extn., T.H. Rd. Tajjampura Tarikere Tq, Chikmagalore
206083	Priya Kerur Rachappa Kerur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23699 01.04.09	Chou Bazar, Guled Gudda, Badami Tq, Bagalkot
206084	Priya Thakur Kulbir Singh Rana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29131 07.05.12	Vpo Nangran Una
206085	Priya. R Shettigar. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25953 17.03.10	# 1171, 10th Main Rd.Banashankari 1st Stage, Bangalore
206086	Priya. S.P Sripad Pujar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25522 04.03.10	SF3 # 8, Sai Sindhu Appartments, Tyagaraj Nagar, Bangalore
206087	Priyadarshini B. Veerachar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25665 08.03.10	2nd Cross, Rajjappa Layout, Jannapura, Bhadravathi, Shimoga
206088	Priyadarshini Mallikarjun M Math	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28872 18.04.12	# 8-9-310, Sri Sangramppa House, Gurunanak Clny, Bidar Tq &
206089	Priyadarshini Kharvi K.K. Kharvi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26433 26.03.10	Flat.No. 3, 4th Floor, Swarna Arcade, GB Panth Cross Rd. Udupi
206090	Priyadarshini Magadam Papa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28676 31.01.12	Pushparag Building, 2nd Cross, Adarshnagar, Vadagaon Belgaum
206091	Priyadarshini. D Dasaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24517 12.05.09	# 614, Old Market Rd. 3rd CrossSakleshpur Tq, Hassan
206092	Priyanka Prabhakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30118 19.04.13	H.NO. 14-9-281, Laxmi Cottage, Eden Clny, Bidar
206093	Priyanka Krishnappa. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26237 23.03.10	# 40/3, 5th Cross, Devasandra, Kuvempu Layout K.R. Puram, Bangalore
206094	Priyanka Shivaputra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28751 02.04.12	# 8321, Basavakalyan Sarvodaya Cly, Priyanka Nilay, Bidar
206095	Priyanka Awadhiya Doulat Prasad Awadhiya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	26770 09.08.10	#302, Saideep Honey Dew Apt, 4thMain Rd Ulsoor, Bangalore
206096	Priyanka Kabra Suresh Chandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29593 13.06.12	# 3252, Main Rd. Nr. Syndicate Bank Guledgudd Post, badami Bagalkot
206097	Priyanka Kadadi Parappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30487 13.06.13	At Post Kalloli, Tq-Gokak, Belgaum
206098	Priyanka Nasi Shivshankrayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30453 04.06.13	H.No. 9-10, 145/1, ?Preeti Nilaya?, Rampure Clny, B.V.B. College Road,
206099	Priyanka Patil Mahaveer	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28367 31.05.11	Uppin Bldg, Ground Floor, Kalyan Nagar, Sindagi Tq, Bijapur
206100	Priyanka R G Raveendranath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30234 30.04.13	H.No. 220, Nr. Bus Depot, No. 3, Vidya Nagar, Gulbarga-Tq &
206101	Priyanka S SaiKr P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28859 18.04.12	#173/1, Deraj Urs Layout, B Block, 6th Cross, Davangere
206102	Priyanka Satija. Suresh Kr Satija.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25938 17.03.10	Nr. Bapuji Ay.Medical College Rd.Challakere Tq, Chitradurga
206103	Priyanka Sharma Roshan Lal Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28802 11.04.12	Vill-Brolla, Post

206104	Priyanka Soni Dinesh Soni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28521 08.08.11	C/o. JSS AMC, S.S. Nagar, Bannimantap, Mysore
206105	Priyanka. M Manjunath.G. Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27730 06.04.11	III Cross, Gandhi Nagar, Kumta Tq, U.K.
206106	Priyanka.B.Khatawate. Bimasat Khatawate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24613 18.05.09	# 1369/1, Albur Galli, Gadag
206107	Priyanka.M. B.S. Maligaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28132 26.04.11	#17, 2nd Stage, 1st ???Cross, 7th Main, Nivedithanagar, Mysore
206108	Pujari Amogsidha Sidhakumar Pujari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29762 29.09.12	Bhandarkavthe At Post, South Solapur Tq, Solapur
206109	Pujari Dhanashree Narayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30114 19.04.13	Radha Nivas, Plot No. 4, Mangalwar Peth, Church Road, Miraj
206110	Pujari Neelam Madhukar Madhukar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28568 19.10.11	Plot.No. 8-9-114, SVP Nagar, Opp Kamat Hotel, Bidar
206111	Pund Nilesh Nandkishore Nandkishore.S.Pund	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23683 01.04.09	C/o. SSR Ayurvedic Medical Coll. &Hospital, Inchal, Soundatti Tq, Belgaum
206112	Puneet Sharma Balwant Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26497 06.04.10	Sanrupti, Vidyanagar, 5th Cross, Badami Tq. Bagalkot
206113	Puneeth Kumar Benakanawari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28883 20.04.12	Annapurna Nivas ,Nr. KVSR College , Vidyanagar , Masari , Gadag
206114	Puneeth Kumar. P Padmanabhan. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24767 04.06.09	# 07, Kolor Village, Antharahalli, Doddaballapur, Bangalore
206115	Puneeth Kumar.K.M. Rajashekaraiiah.K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26825 25.08.10	Chilur, Kadadakatte Post, Honnali Tq, Davanagere
206116	Puneetha Dorechandrarao Dorechandrarao Phatage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29987 06.04.13	Behind Old EmploymentOffice Cowl Bazaar, Bellary
206117	Punit Maled Balachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28914 26.04.12	Anagawadi At & Post Bilagi , Taluk, Bagalkot
206118	Punya B. Rao K. Bhaskara	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27727 06.04.11	SankhyayanaWest Blocck Rd. Kundapur Tq.,
206119	Purke Rahul Ramchandra Ramchandra Vasant Purke.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25182 08.10.09	Chalukya Nagar, 7th Cross, Badapit Tq, Bagalkot
206120	Purnandu Sharma Chiman Lal Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	30597 07.08.13	60-A Block, Sri Ganganagar, Rajasthan Gajsinghpur
206121	Purushottam Patil Murlidhar Rao Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25390 10.02.10	# 8-10-185, Krishna Kuteer, Ganesh Maidan, Bidar
206122	Pushpa Jogihalli Kanakappa Jogihalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25642 06.03.10	Yallapur, Chikkerur Post, Hirekerur Tq, Haveri
206123	Pushpa Pol Bhaskar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27617 01.04.11	H.No.40, Basava Estate, Navanagar, Hubli, Dharwad
206124	Pushpa Tuppad Karhappa T Tuppad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29186 14.05.12	Ews 20, Siddaling Nagar, Hudco Clny, Gadag
206125	Pushpa. R Ramu. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25546 05.03.10	# 311, 5th Cross, 3rd Phase, 5th Block, Banashankari, Bangalore

206126	Pushpalata Maharana Prabhakar Maharana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24348 29.04.09	GBJ 260, 10th Cross, 1st Main, HALQts, Marathhalli, Madhavapura, Bangalore
206127	Pushpalatha N Narasimhamurthy C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30346 20.05.13	Baradi (V), Mandigere (p), Nelamangala (T)
206128	Pushpendra KumarRathore Hira Say Rathore.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27368 24.03.11	9th Main, 4th Cross, 4th Cross, 4th Stage, T.K. Layout, Mysore
206129	Puttayya Bhixavartimath Omkarayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25931 17.03.10	Hanumapur, Ranebennur Tq, Haveri
206130	Qadri Mohammed Shuaib Mehboob Saleem.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25553 05.03.10	Jawale Post, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
206131	Rabin Bhusal Pushkar Nath Bhusal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30151 24.04.13	SDM College of Ay. & Hospital, Thanniruhalla, B.M. Rd. Hassan
206132	Rabiya Banu Syed Yusuff Sab. M.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25385 05.02.10	Shivaji Matt, Muhala, Naduval Peat, Harihar Tq, Davangere
206133	Rachana Balakrishnan E.T. Balakrishnan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30602 19.08.13	?Meenakshy Puram?, Melur P.O., Palayad (Via), Kannur (D), Kerala Thalassery
206134	Rachana Gouda Chandrashekar M D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29998 08.04.13	Post Gogi (K), Talluk-Shahapur, Yadgir, Gogi (K)
206135	Rachana. P.C P.G. Chandra Shekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24296 29.04.09	# 1895, 1st Cross, Shiva Masjid Rd, Lashkar Mohalla, Mysore
206136	Rachappa Ganjihah Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23975 18.04.09	Navanagar, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
206137	Radha HanchinalMahantappa Rangareddy G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29828 30.10.12	Anand Nagar, 3rd Cross, badami-Tq, Bagalkot
206138	Radha Priya. R B.V. Ramanathaiah Setty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25571 05.03.10	# 9/2, Upstairs, Obalappa Cross, Chikkamavalli, Bangalore
206139	Radhamani Bevinhalli T. Madhukara.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24974 11.06.09	# 222/1, Hospet Rd. Harapanahalli, Davangere
206140	Radhika A.N Nagabhushana A V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30269 06.05.13	# 2616, Anche Varte, Jois Street, Tarikere (T), Chikkamagalore (D), Tarikere
206141	Radhika. A.J Sunil.A.Arali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24530 12.05.09	Bus Stand Rd. Nr. Amar Lodge, Gangavati Tq, Koppal
206142	Radhika. S.M Marigowda. S.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23930 09.04.09	# 438, 2nd Block, 5th Main, H Block, RK Nagar, Mysore
206143	Radhika. S.M S. Mallaiiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24295 29.04.09	# 197, 3rd Cross, Raghavendra Nagar, Siddhartha NAGar Post, Mysore
206144	Radhika. T T. Narasimha Mallya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27527 28.03.11	Maidan, 4th Cross, Gollerkerly Street, Mangalore
206145	Radhika. T.P Thukaram Gowda. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24900 09.06.09	Padmashree Nilay, Ujire, Kuntini, LAila, Belthangady, Dakshina Kannada
206146	Rafi .M M. Abdul Gaffar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30116 06.06.13	H.No. 2-23, Dowdarpally (V), Paramala (P), Gadwal (M), Mahboobnagar, Gadwal
206147	Rafiya Bhanu.K.A. Abdul Gaffar.K.A.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28140 26.04.11	Kushalnagar, Hassan Rd, Kanive, Kudige Somvarpet, Kodagu

206148	Rafiyabanu Talikoti allabaksh Talikoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30084 18.04.13	Nr. Badikaman, Nalband Garden, Plot No. 37, Bijapur
206149	Ragharam SubramanyaBhat Subramanya SBhati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25669 12.03.10	# 100, Arunodaya, Venkateshwara Farm, Shrigandhakaval Vishwaneedam, Bangalore
206150	Raghavankappa. H Basavarajappa. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23853 06.04.09	# 51 Sadhashiva Nagar, 13th MainRd, Siruguppa Tq, Bellary
206151	Raghavendra Chandrakant S Wadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29237 15.05.12	Dhannura at post, Basavakalyan TQ, Bidar
206152	Raghavendra Ghatnur Chinnappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28707 30.03.12	#73, Ward No.04, Naduvin PathGuledyudd Badami Tq, Bagalkot
206153	Raghavendra Malligeppagol Ravindra Malligeppagol.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24943 10.06.09	# 188/2C, Plot.No. 23, Basav NAGar, Gokak Tq, Belgaum
206154	Raghavendra Meharawade Shankarasa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25214 13.10.09	Ganjipeth, Nekar Clny, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
206155	Raghavendra Naik Shankara Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27728 06.04.11	No.3/7, Thenginajeddu Kannar, Pethri Post Cherkady, Udupi Tq &
206156	Raghavendra PrabhakarSiddeshwar P Umamaheshwar S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23844 06.04.09	Karki Post, Honnavar Tq, U.K.
206157	Raghavendra PrasadT S T B Srinivasa Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29875 29.11.12	Swarnambha Complex, Kadur At Post & Tq, Chickmagalore
206158	Raghavendra Raikar Vishnappa Raikar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26035 19.03.10	Kamakshi Nilaya, Method Rd, Tilavalli Post Hanagal Tq, Haveri
206159	Raghavendra Sarangi Shivashankrappa Sarangi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28420 20.06.11	No.1060/B, Guledgudd, Badami Tq, Bagalkot
206160	Raghavendra Shettar Parashuram Shettar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28034 19.04.11	Belavanki A/P, Ron Tq, Gadag
206161	Raghavendra Swamy. B Parthasarathi. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2001	28623 15.11.11	# 27, 17th ?B? Cross, 13th Main5th Main, 5th Phase, J.P. Nagar, Bangalore
206162	Raghavendra. D Devendrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25328 10.12.09	# 3/127, Main Rd, Handaraki, Sedam, Gulbarga
206163	Raghavendra. T Thippeswamy. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24543 13.05.09	Krishnapura, Dharmapura, Hiriyyur Tq, Chitradurga
206164	Raghavendra. V. S Virupakshappa Shilpi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25137 25.09.09	Devraj Urs Badavane, Shiralakoppa Post, Shikaripura Tq, Shimoga
206165	Raghavendra. Y Yalukotyappa.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23917 09.04.09	Thimmapura, Anavatti Post, Soraba Tq, Shimoga
206166	Raghavendrachar. H.M Manjunathachary.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24122 22.04.09	Balajinagar, Sira Tq, Tumkur
206167	Raghu House Shankar B Hosur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29583 12.06.12	# 218B, Sharan Basaveshwar Nagar, Betageri Post, Gadag
206168	Rahmath Muhammad.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28135 26.04.11	Opp. Rice mill, K.M. Rd. Bankal-Post, Mudigere Tq, Chickmagalore
206169	Rahul Mudgal G P Sharma Mudgal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25277 04.11.09	C/o. Navalgunda Complex, Shivanand Nagar, Gadag

206170	Rahul YashavanthKodolikor Yashavanth.D. Kodolikor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28602 19.10.11	# 3-16-1380, Behind Ballal GarageKadri Tolgate Kadri, Mangalore, Dakshina Kannada
206171	Rajakumar Dadanna Dal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29893 20.12.12	Sungargalli, Dohargalli, Lingasagar Tq & Post, Raichur
206172	Rajalakshmi Ravindran K.S. Ravindran Nair	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28899 20.04.12	Santhi Bhavan , Umanagar , Street No 6 Kolazhy , Thrissur
206173	Rajan Dawande Arun Govind Dawande	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	28686 23.02.12	#25, 2nd Cross, Vinayaka Nagar, Hebbal, Univercell Showroom, B'lore
206174	Rajan Kumar Jaiswal C. Jaiswal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25208 09.10.09	Bhagyalaxmi Bldg. Magadi Main Rd, Kamakshipalya, Bangalore
206175	Rajani Raghavendra Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29546 28.05.12	T-VI-20, R.T.P.S Clny, Shaktinagar, Raichur Tq &
206176	Rajani Gurunath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29994 08.04.13	Nr. Santosh Cinema Theater, Tq-Aurad (B), Bidar, Aurad
206177	Rajani Dhaded Balachandra Dhaded.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25671 12.03.10	# 133, Shastri Nagar, Bijapur
206178	Rajani Gundappa Kamate Gundappa A Kamate	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29520 26.05.12	Shivanugraha, Aditya Nagar, Gokak Post & Tq, Belgaum
206179	Rajani Hegde D.S. Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30562 17.07.13	Neernahalli, Itaguli Post, Sirsi Taluk, Uttar Kannada ,
206180	Rajani Kagga K Sivaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30370 21.05.13	24-29-219/1/1, Mohan Gandhi Street, Gulabhitota, Rokalpalem, Vijayawada, Krishna ,
206181	Rajani Prabhu. A. Ramesh Prabhu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25526 04.03.10	# 2-107B, Malpe Cross Rd. Ashoknagar, Santhekatte, Udupi Tq &
206182	Rajani Talavar Durgappa.H.Talavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26147 20.03.10	Kumbarpet Cross, Mudgal, Lingasugur Tq, Raichur
206183	Rajappa Shatpadi Bheemappa Shatpdi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28618 05.11.11	M. Korachara Halli, Harapanahalli Tq, Davangere
206184	Rajaram Smita Pandurang Rajaram Pandurang. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23716 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
206185	Rajashekar Channabassayya Vastrad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24200 24.04.09	# 5-5-123, Vijayanagar Clny, Gangavathi Tq, Koppal
206186	Rajashekar.K. Bhagavathi Kalappa.K. Bhagavati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27556 29.03.11	Banashankari, Badami Tq, Bagalkot
206187	Rajashekara M Viswanathaiiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29210 14.05.12	No 1549 6th Main Rd.E block 2nd Stage , Rajajinagar Bangalore
206188	Rajashekhar Gundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28583 19.10.11	Rampur, Rajeshwar Post Basav KalyanTq, Bidar
206189	Rajashekhar Meti Somappa.H.Meti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24204 24.04.09	Kataraki Post, Billagi Tq, Bagalkot
206190	Rajashekhar Peeraga Chandrashekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28580 19.10.11	# 36, Indi Rd.APMC Quarters, Bijapur
206191	Rajashekhar Tukkanatti Govind B Tukkanatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29382 21.05.12	Ghataprabha , Mallapur, Gokak Tq, Belgaum

206192	Rajashree Rajashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29024 27.04.12	No 12/101, Jopada Patti, Jewargi Gulbarga
206193	Rajashree Chandrakant Hiremath Chandrakanth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26530 12.04.10	Daneshwari Nilaya Chalukya Nagar, Solapur Rd. Bijapur.
206194	Rajashree Iliger Laxman.C.Iliger.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23860 06.04.09	# 918/18, Bagalkot Rd. K.K. ClyShri Manjunath Nilaya, Bijapur
206195	Rajashree Lakure Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24798 04.06.09	# 27, Ugar-Khur, Athani Tq, Belgaum
206196	Rajat Anegundi M C Anegundi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29005 27.04.12	C-441, Anegundi Plots, Behind Bus Stand, Haliyal Post & Taluk Uttara Kannda
206197	Rajath. P.S Suryanarayana Setty. P.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23912 09.04.09	New Bhagyalaxmi Stores, SanthepethArsikere Tq, Hassan
206198	Rajathkumar. K.L K.R. Lokesh Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24488 11.05.09	Huliyar Rd.Arsikere Tq, Hassan
206199	Rajeev Pandurang	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28752 02.04.12	Mandewal(LT) Jewargi Tq, Gulbarga
206200	Rajeev Kumar Beni Ram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30340 18.05.13	Mahaveer Nagar, H.No 295/6, Firozabad
206201	Rajendra Kaggod Shivalingappa Kaggod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27353 24.03.11	Kalika Nagar, Sindagi Tq, Bijapur
206202	Rajendra Kumar Jaiswal Kirtan Lal Jaiswal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	26665 14.05.10	Amrutha Ay. Medical College, Behind Onakke Obavva Statium Chitradurga
206203	Rajesab Kabade Dastagirasab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30261 04.05.13	At Mangalore, Post Devapur, Tq &
206204	Rajesh Sharanappa Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23858 06.04.09	ITI College Rd. Hanchinala, Savadatti Tq, Belgaum
206205	Rajesh Bayari Mahabal Bayari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25766 12.03.10	Chithrakoota, Aloor, Kundapur Tq, UDupi
206206	Rajesh Kumar Singh Shri Daddan Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27015 07.01.11	#402, 2nd Cross, Judges Clny, Ganganagar, Bangalore
206207	Rajesh Pathan Pathan Saida.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28499 26.07.11	C/o. AMC, 10th Cross, Pipeline, Vijayanagar, Bangalore
206208	Rajesh ShidlingappaAinapur Shidlinagar Ainapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24044 20.04.09	Munavalli Post, Saundatti Tq, Belgaum
206209	Rajesh Shivapujimath Basayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30253 03.05.13	Sector, No. 58, Plot No. S 113, Bagalkot tq & , Navanagar
206210	Rajesh. Subhash Telang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27352 24.03.11	Ambedkar Circle Main Rd.Humnabad, Bidar
206211	Rajesh. B Bhaskar. G.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24773 04.06.09	# 4-11, Kembar, Suman Vihar, Padil Post, Mangalore
206212	Rajesh. B.N Narayanaswamy. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25911 15.03.10	# 256/1, 1157, 9th Cross, 3rd MainMaheshwari Nagar Peenya Dasarahalli Bangalore
206213	Rajesh. D.Naik Dhakappa.N.Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26815 20.08.10	1st Cross, Ambagiri, Sirsi Post & Tq., Karwar

206214	Rajsha Basavaraja Hosamani Basavaraj Hosamani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24540 13.05.09	Shakar, Haveri Tq & Haveri Tq &
206215	Rajeshree Hanmanthrao Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30314 10.05.13	Plot No. 303, ?Sneha Dhara?, MahaveerNagar, New Jewargi Rd, Gulbarga tq &
206216	Rajeshwar.P. Chandra Prabhu.N. Chandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26547 12.04.10	Nr Raghavendra Kalyan MantapAmbedkar CircleMudhol Tq., PO & Vill. Mangalore Tq.,
206217	Rajeshwari Shivabasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29553 12.06.12	Navanagar Gajendragad At Post, Ron Tq, Gadag
206218	Rajeshwari Basavaraj Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24830 06.06.09	# 93, Prabhu Nivas, Vidya Nagar, Sedam Rd. Gulbarga
206219	Rajeshwari Horilli Dasharath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26223 23.03.10	# 4, Mallikarjun Nagar, Nr Eng College, BLDEA Boy's Hostel, Bijapur
206220	Rajeshwari S J M.H Jayaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30566 18.07.13	#61, 19th Main, 14th cross, Padmanabha Nagar, Bangalore,
206221	Rajeshwari Sheegihalli Gangadhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24339 29.04.09	# 572A26(13), Teachers Clny, Bailhongal Tq, Belgaum
206222	Rajeshwari. R.V H.K. Ranganatha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25079 30.07.09	# LIG 37, 6th C Cross, K Block, Ramakrishna Nagar, Mysore.
206223	Rajgolkar Nitin Manohar Rajgolkar Manohar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24622 18.05.09	H.No. 266, Lakshmigalli, Bekkinkere Post, Belgaum
206224	Rajgouda Jambagi Melgireppa Jambagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23776 03.04.09	# 1230, Shankar Nagar, Athani Tq, Belgaum
206225	Rajine. E.T Shree Krishna.H.Jigaloor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27572 29.03.11	J.T. College, Bus Stop, OppHatageri Bldg, Masari, Gadag
206226	Rajini N Nagaraja Sastry N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30231 30.04.13	#1995, Lakshmi Nilaya, VivekanandaNagar, Bangarpet Tq, Kolar , Bangarpet
206227	Rajkumar Maruthi Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26908 21.09.10	#19-1-72, Shivanagar South, Bidar Tq &
206228	Rajkumar Baburao Shinde Baburao Shinde	BAMS M.U.H.S., Nashik 2006	29738 03.09.12	Tadakal At PostVia Ratakakal, Gulbarga
206229	Rajothpaul Sen Prabir Sen	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26959 29.10.10	#5, Jayabharat Rd.Netravati Extn, K.R.Puram, B'lore
206230	Rajput. S.G. Gundappa Rajput	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26739 29.06.10	#131, Banjara Nagar, Sholapur Rd. Bijapur
206231	Raju Kabadi Dushantsa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29424 23.05.12	Vishweshwarayya nagar, Kalasapur Rd. Gadag
206232	Raju Kilakar Lakkappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29899 24.12.12	Gurumatkal Police Station, Gurumatkal Yadagiri Tq &
206233	Rakate Vasundhara Vijay Rakate Vijay Dattatraya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29644 14.06.12	#33/870, Nehru NagarS G Barve Rd. Kurla (West) Mumbai
206234	Rakesh .G Gururaj. B.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28901 20.04.12	No 157/8, Behind NES Office , Hosadurga , Taluk , Chitradurga
206235	Rakesh Kumar Veer Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30168 25.04.13	Vill. Kanoyala Nichala, P.O. Gunaha, T.E.H., Nalagarh, Silan, Nalagarh

206236	Rakesh Kumar Roy Ajit Kr Roy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30541 04.07.13	Vidya Nagar, Door No. 14-118, West Godavari , Eluru, AP
206237	Rakesh Kumar. N P. Nanda Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25237 16.10.09	Ayappa Nivas, 6th A Main Rd, HMT Layout, R.T. Nagar
206238	Rakesh Madar Choudappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29096 7.05.12	Hanumapur At & Post , Ranebennur Haveri
206239	Rakesh Roshan Devidas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28722 30.03.12	28/441, Shivpure Rd. Adarsh Nagar, Basavakalyan, Bidar
206240	Rakesh Sharma. K.M Madhu Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26184 22.03.10	Chikadadakatte, Honali Tq, Davangere
206241	Rakesh. M.B Basavaraju. M.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24229 28.04.09	Basavanahali, Aravind Nagar Post, Chickmagalur
206242	Rakesh. S S. Thindappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28538 07.09.11	D.No. 152/138, M.G. Main Rd.Kotlur Kudligi Tq, Bellary
206243	Rakesh. Y.R Y.R. Ranganath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24469 11.05.09	Jnyana Sondrayaa LayoutSira Gate, Tumkur
206244	Rakeshkumar Gujar ShashiKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30299 08.05.13	Plot No. 283, Nr. Water Tank, Kanakadas Badavane, Bijapur Tq &
206245	Rakhunde Pradip Sopan Sopan Sandipan Rakhunde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25129 24.09.09	Opp. Bhavikatti Hospital, Sindagi Tq, Bijapur
206246	Raksha D Dharmaraja V J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30478 11.06.13	#235, 21st Main Rd.Srinivasnagar, Nandini Layout, Bangalore
206247	Raksha Rai Mahalinga Rai S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30522 25.06.13	Anugraha, 12/128-4, 4th Floor, B.C. Rd. Bantwal-Tq, Dakshina Kannada
206248	Raksha. N.R Ramesh. N.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24254 28.04.09	# 1137, 2nd Cross, 1st Main, Srirampura 2nd Stage, Mysore
206249	Raksha. P Krishna Pramod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28577 19.10.11	Paleppady House, Aivarnadu Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada
206250	Rakshitha Jain S B Brahmappa S D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30553 16.07.13	Padmakrupa House, Jain Street, Saligrama, K.R. Nagara Tq, Saligrama, Mysore,
206251	Ram Kesti Mahadev	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30450 04.06.13	At Post Jaganur, Tq Chikkodi, Belgaum, Jaganur
206252	Ram Kumar Gupta Hari Shankar Gupta	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30236 30.04.13	Naya Bazar, Part II, Bhadohi City, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi
206253	Ram Lakhan Yadav Jhari Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29756 29.09.12	E-404, Aamantran Nityanand Nagar, East Mira Bhayaned Tq, Thane
206254	Rama Lingdalli. S Sharanappa Lingdalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27396 25.03.11	Plot.No. 12, 2nd Block, Om Nagar, Gulbarga
206255	Ramachandra Ramaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30513 19.06.13	Village-Kongalabeedu, At Post & Tq Holenarasipura, Hassan, Holenarasipura
206256	Ramachandra Krishna Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23761 03.04.09	# 114, Keleman Kalache Post, Yallapur Tq, Uttar Kannada
206257	Ramachandra Kurane Kurane Huvanna Ramu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29401 21.05.12	No 252/5, Shrinivas Chawl, at post, Raibag Tq, Belgaum



206258	Ramachandra MallappaRathod Mallappa R Rathod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27560 29.03.11	1st Cross, Attikolla Nr. Railway Station, Dharwad
206259	Ramakrishna Vishnu B Vishnu L Badgu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29871 21.11.12	Function Hell, Beside Usmoni Masjit Ring Road Gulbarga
206260	Ramaling.S.Hugar Shivasharanappa Hugar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27389 25.03.11	Mogala, 1st Main Rd, Malkhed Rd Post, Chittapur Tq, Gulbarga
206261	Raman Gouda Appasaheb Hiregoudar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27200 19.03.11	UKP Camp, TE 29/1B gudi, Shahapur Tq, Yadgiri
206262	Ramanaik L Lalyanaik R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29815 12.10.12	Kogali Tanda, Kogali Post, Hagari Bommana Halli Tq, Bellary
206263	Ramangoud Patil Mallana Goud J. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26853 01.09.10	Vidyanagar Sindagi Rd. Ambika Nivas, Indi Post & Tq. , Bijapur
206264	Ramanuja.K.K. Krishnaswamy.K.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27774 07.04.11	Kyathnahalli, Ugane Post, Hassan Tq &
206265	Ramappa Madihalli Nagappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30503 17.06.13	At Post Kabbur, Tq-Chickodi, Belgaum
206266	Ramaraju. B Banagara Nayedu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25634 06.03.10	Nr. Primar School, Katappanahally, Challakere Tq, Chitradurga
206267	Ramesh Devappa Ganganal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27033 01.03.11	At/Post Hiremannapur Tal, Kustagl
206268	Ramesh Chavan Dhanasingh Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24730 03.06.09	Nr. Mukundasad Temple, KEB Tanda, Indi Tq, Bijapur
206269	Ramesh Hanchinal Shashidhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25287 21.11.09	# 35, Ashwini Clny BLDE Rd. Bijapur
206270	Ramesh Narayan Sutar Narayan K Suttur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29626 14.06.12	Savalgi At Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
206271	Ramesh Sankratti Parasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24353 30.04.09	Balliheri Post, Athani Tq, Belgaum
206272	Ramesh Sedamkar Banappa Sedamkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25166 05.10.09	Narayanpur Street, Gurnitkar, Yadgir Tq, Gulbarga
206273	Ramesh Shirur Shantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26929 05.10.10	#290, Managuli Rd.K.K. Nagar, Bijapur
206274	Ramesh. D Dattaprasad. K.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24862 06.06.09	# 348/1, K.B. Extn, 2nd Cross, Davangere
206275	Ramesh. M.P Parameshwarappa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25310 27.11.09	Haliapura, Guttur Clny, Guttur Post Harihar Tq, Davangere
206276	Ramesh.D.Paravanni Dundappa.S.Paravanni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25416 25.02.10	Nandagaon Post, Gokak Tq, Belgaum
206277	Rameshappa Lamani Chikkappa Lamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28858 18.04.12	Venkatapur, Kakola Post, Ranebennur Tq, Haveri
206278	Ramitha R Hegde M Ramadasa Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28955 26.04.12	Jalajakshi Nilaya, Heroor At & Post, Udupi
206279	Ramnath Nayak. M Ramesh Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26163 20.03.10	Mitha Bail Post, Via Moodbidri, Mangalore, Dakshina Kannada

206280	Ramtirthkar SameerChintamani C Ganesh Ramtirthkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24414 05.05.09	Shri Veerabhadreshwara Nilaya, VikasNagar KPTCL Rd Koppal
206281	Ramya A N Nagamallappa A M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29646 14.06.12	Veerashaiva Lingayata Street, Arakalavadi, Chamarajanagar
206282	Ramya Krishna K .V Krishnan P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28888 20.04.12	1St Floor Sudhiksha , 4th Paralle L Rd. RML Nagar Shivamogga
206283	Ramya N. Sogal S.R. Nagendran	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26897 17.09.10	#L66, 3rd Cross, 3rd Main, E&F Block, Ramakrishna Nagar, Mysore
206284	Ramya S Siddamadaiah L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30173 25.04.13	#67, 7th cross, Anargya Nilaya, , Muddalingeshwara Temple Rd. Mysore
206285	Ramya V R V P Raghavan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30356 20.05.13	L-7, Opp Water Tank, LIC Clny, Jeevan Bhima Nagar, Bangalore
206286	Ramya. B.H Harishchandra. B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24499 11.05.09	# 14-B/108, Nr. D.A.R Quarters, Madkeri Tq, Kodagu
206287	Ramya. H.N Nagaraje Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24255 28.04.09	# 537, T.N. Pura Rd, GiridarshiniLayout Lalitadripura, Mysore
206288	Ramya. H.P Padmaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24939 10.06.09	Shreyas(H), Kasguppe, Aralagodu Post, Sagar Tq, Shimoga
206289	Ramya. K.N K.R. Ningaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24710 03.06.09	# 3888, 1st Cross, 3rd Main, Saraswathipuram, Hassan
206290	Ramya. S Shankarappa. M.T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24514 12.05.09	2nd Cross East, Bheemappa Nayaka Rd.C.K. Pura, Chitradurga
206291	Ramya. U.H Hoovayya. U.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24189 24.04.09	IV-59, Aranthodu Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada
206292	Ramya. U.K U.K. Venkatakrishna Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27469 26.03.11	Flat # 33, Ambedkar Layout, R.T. Nagar, Bangalore
206293	Ramyashree G S Ganesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29242 15.05.12	No 1025 6th Cross , Banashankari1st Stage Ashoknagar Bangalore
206294	Ranadive SmitaPrakash Ranadive Prakash Balvant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28053 19.04.11	C/o Manu Building, Bedkihal At & Post, Chikodi Tq, Belgaum
206295	Randive Priyanka Vilas Ranaive Vilas Gundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24845 06.06.09	# 2081, Satya Sai Sadan, 1st Main, 4thCross Judicial Layout, GKVK Bangalore
206296	Rani Math Mallayya Shivyogayya Math	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29573 12.06.12	Plot No 36, Sector No 06, Shreenagar, Belgaum
206297	Rani Sumitra Deginal Subhaschandra Deginal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28384 09.06.11	#233, Bazar Rd.Gogi At&Post, Shapur Tq, Yadagiri
206298	Ranjeeta.G. Gnyanreddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28692 06.03.12	At/Post Bannalli, Humnabad-Tq, Bidar
206299	Ranjith G.K Krishnappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30232 30.04.13	#621, 7th Main, 8th cross, Yeshwanthpuram
206300	Ranjith Kumar.H. Hanumanthappa.G.C.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27798 07.04.11	#1-11-56/70, Sarswathi Nilaya, Devaru Clny, Raichur
206301	Ranjith Kumara Shetty D Jayram Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29422 23.05.12	Siddapura at post , Kundapura Tq, Udupi

206302	Ranjitha Hariyappa Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25838 12.03.10	Madhwa Nagar, Kodavoor Post, Udupi
206303	Ranjitha H P Puttaswamy H D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29800 12.10.12	Saptagiri Nilaya, Kuvempu Nagar, 2nd Stage, Cheeranahalli Rd. K R Nagar Mysore
206304	Ranjitha. A.A Achutha Rao. A.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25795 12.03.10	G.P/166, Mariguni Salur, Kondlur Post, Thirthahalli Tq, Shimoga
206305	Ranjitha. B.M Murugesh. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25640 06.03.10	Laxmi Nagar, Gandhi Nagar. Chikmagalur
206306	Ranjitha. H.G Gange Gowda. C.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25794 12.03.10	# 78, 3rd Cross, Sugar Town, Mandya
206307	Ranmode Ramesh Maruti Ranmode MSadashiv.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24531 12.05.09	Bus Stand Rd. Nr. Post Office, Ron Tq, Gadag
206308	Rao Shilparani Srinivas Srinivas Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30599 13.08.13	#148, Bhadrageeri, Baikady, Brahmavara, Udupi,
206309	Raorane Dushyant Ashokrao Ashok Mohan Raorane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24519 12.05.09	Plot.No. 18, Vikrampur, Athani Tq, Belgaum
206310	Rashel Miracle Rego Robert Rego	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27783 07.04.11	Rorael NGO Clny, 5-81M6, Puttur Udupi
206311	Rashi. N.R Rajagopal. N.T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24901 09.06.09	# 101, Ajjarkad, Riveeia Apatments, Udupi
206312	Rashid Ahmed Khan Haji Md S Ahmed Khan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25273 04.11.09	Chaitra Academy, 4th Cross, J.M. Rd. Chitradurga
206313	Rashid.M. Hunasimarad Mahaboobsab. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26179 22.03.10	HIGH IY 2nd Cross, Hulkoti Tq, Gadag
206314	Rashimi . Damodar Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25436 26.02.10	# 3-178, , Padulevoor, Alevoor Post, Udupi Tq &
206315	Rashmi Jayaram Alva.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25493 04.03.10	# 22-2-270-4, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
206316	Rashmi BM Malathesh HG	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29291 17.05.12	Site No 193, Harsha Ravi, 1st Stage, Vinobanagar, post, Shimoga
206317	Rashmi G G Shashidhar Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29525 28.05.12	#7/141, Udbava Circle, huvinahadagali At post & Tq, Bellary
206318	Rashmi H G H S Gajendra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29670 19.06.12	Akshata Nilaya Nr., JCBM College, Sringeri At Post & Tq, Chikmagalore
206319	Rashmi Holla Subramanya Holla. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25868 12.03.10	# 20, Akshaya, KPSC Layout, BhuvaneshwariNagar Inanbharathi Post, Bangalore
206320	Rashmi K Kraswamy K C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30214 29.04.13	Venkateshwara Nagara, Savibaalu Nilaya, Kadur Tq & Town, Chikmagalore , Kadur
206321	Rashmi Kalkura. K Ramakrishna Kalkura. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27498 26.03.11	# 2-79H3, 5th Cross, SubramanyaNagar, Santhekatte, Udupi
206322	Rashmi Kamath Talpady Ramachandra KTalpady.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24825 05.06.09	# 19-29/7, Ashirwad, Vidyaranya NagarNr Ullal Post Office, Ullal Tq, Dakshina Kannada
206323	Rashmi Kamath. H Ramdas Kamath. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23913 09.04.09	H.No. 2-49F, Nagabana Rd.Nr CV Temple, Santekatte, Udupi

206324	Rashmi Mallikarjun Gundoor Mallikarjun B Gundoor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28374 09.06.11	Behind Banjara Dhaba, Panchashil Nagar, Indi Tq, Bijapur
206325	Rashmi Moogi ShivaKr Chinnappa Moogi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28205 02.05.11	Moogi Galli, #1707, Bailhongal At Post & Tq, Belgaum
206326	Rashmi Nandawadgi Ramanna Y Nandawagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27424 25.03.11	V4-A, BTDA Quarters, Bagalkot
206327	Rashmi PM PMG .Rudramuni Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29219 15.05.12	Gurubasava Nilaya, 5th Cross , Jogimatt Rd. , Chitradurga
206328	Rashmi Patil Chetan Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28698 16.03.12	Plot No.221, Rani Chennamma Ngr, 7th Cross, Dharwad
206329	Rashmi Pattanad Ramesh Pattanad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30065 16.04.13	E.S.I Hospital Quatress, Station Rd. Bijapur
206330	Rashmi Pyati Huchesh Pyati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25926 17.03.10	Vidya Nagar, 2nd Cross(West), Haveri
206331	Rashmi R Guddewad Raveendra Guddewad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25502 04.03.10	Lalitha Sadana, Yerrithatha CIny, Gandhi Nagar, Bellay
206332	Rashmi R.S Shiva Shankarappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30153 24.04.13	Anugraha Nilaya, Behind Junior College, Arakalgud-Tq, Hassan
206333	Rashmi Rao Krishnamoorthy Rao. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24784 04.06.09	Sh. Krishna, H.No. 3-3-7E, AnandraoMarg, 3rd Cross, Ambalpady, Udupi
206334	Rashmi Ratnakar Prabhu Ratnakar.M.Prabhu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26751 12.07.10	I/93, ?Shree Tulasi? Building, Dandeli, Haliyal
206335	Rashmi S Srinivasa R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30315 10.05.13	# H.I.G. 22/A, 8th Cross, Sharadadevi Nagara, Mysore
206336	Rashmi Shettar Venkatesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23871 09.04.09	Navanagar, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
206337	Rashmi. B.V A.H. Venkatesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25870 12.03.10	# 35, Varshini Vasanthpura, SubranyapuraPost Sharda Nagar, Bangalore
206338	Rashmi. C. Suvarna B.K. Chandrashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27706 06.04.11	No.2-76(1), S.Kodi, Punaroor ? Post, Mangalore Tq, D.K.
206339	Rashmi. D Dorai Raj. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24680 28.05.09	Behind Shanthala Marbles, KEB Rd, Kothi Thopu Siddaganga Extn, Tumkur
206340	Rashmi. P.V Venkatakrishna. P.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24952 10.06.09	# 2315, 9yh Main, 2nd Stage, ?E? Block, Rajajinagar, Bangalore
206341	Rashmi. S N. Sathyanarayana Setty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24269 28.04.09	# 133/2, Horamanu, Kalyanagar Post, Bangalore
206342	Rashmi. S Srinivas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24617 18.05.09	EWS 44, 1st Stage, 2nd CrossKuvempu Nagar, Mysore
206343	Rashmi. T.M Mahesh. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24258 28.04.09	# 40, Masur Circle, Shikaripur Tq, Shimoga
206344	Rashmi. V Veera Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23869 09.04.09	# 1329/17, First Stage Cross, Shivakumara Swamy Badavane, Davangere
206345	Rashmi.H.C. H. Chandrashekhara Shastry	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28114 25.04.11	C/o SDM College of Ayurveda, BM Rd, Thanneruhalla, Hassan

206346	Rashmi.S. Francis.G. Benjamin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28338 25.05.11	No.62, Pipe Line Rd, Muniswamappa GalliYeshavanthapura, Bangalore
206347	Rashmi.Y.Rayanagoudar Y.R. Rayanagoudar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24098 21.04.09	Plot. No. 38, Gyanaba Golden GladesNarayanapur, Dharwad
206348	Rashmikala. H.B Basappa. P.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24759 04.06.09	Hosur (Via), Shanivarsanthe, Sakaleshpur, Hassan
206349	Rasika Sonaji Rajaram Santram Sonaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26120 20.03.10	# 352/5, Hanuman Ngr, Sankeshwar, Hukkeri Tq, Belgaum
206350	Rasmi H M Mallaradhya H M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29802 12.10.12	#92, Hulikere, K. Bellur Post, Maddur Tq, Mandya
206351	Ratan Kumar Anil Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30460 06.06.13	271, Manvi Ward, No. 9, 10, H.No. 34- 484, Manvi, Raichur
206352	Rathna. C.S Subramanya. C.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25760 12.03.10	# 31, Chikkanayakana Halli Tq, Tumkur
206353	Rathod Satish Bhudhaji B. Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27847 08.04.11	R.G.E.S. AMC, Roh, Gadag
206354	Rathod Satish Deepak Deepak Khemu Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26638 30.04.10	# 636, LT. No.1, Jalwad Post, Sindagi Tq. Bijapur
206355	Rathor Ajaysingh Pawansingh. Pawan Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24522 12.05.09	Balanagar, Behind Ayurveda College, Manvi Tq, Raichur
206356	Ratish Kumar. A.P Putta Swamy Gowda. AB	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25829 12.03.10	# 84, Agrahara Bella Halli, K.R. Pet(T), Mandya
206357	Ratna Goravi Bharamanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28348 30.05.11	Attigeri A/P, Shiggaon Tal, Haveri
206358	Ratnamalini Mutgar M.H. Mutgar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24895 08.06.09	Sanman Cly, # 17-18/A, Lakshmi Park, Old Hubli, Dharwad
206359	RatnaparkheshreeramKamalakar Kamalakar M Ratnakarparkhe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25908 15.03.10	H.No. 213, 1st Stage, Rani Channamma Nagar, Belgaum
206360	Ratnawwa Nayik Muttappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30216 29.04.13	At Post Saidapur, Mudhol (Tq), Bagalkot () Saidapur
206361	Raut Harshal Ramesh Ramesh Rao Raut	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30196 29.04.13	At post Wanoja, Tq-Mangrulpir, Washim, Wanoja
206362	Raut Rohan Ravindra Raut Ravindra Dinkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24849 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
206363	Raut Umakant Rajram. Rajaram Urkuda Raut.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24736 03.06.09	Plot.No. 930, Vantmuri Clny, M.M. Extn, Belgaum
206364	Ravi Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25611 06.03.10	Rajawal Tanda, Geddalamari Post, Shorapur Tq, Yadgiri
206365	Ravi Adagal Yallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26962 30.10.10	# 680/681, Bagalkot Main Rd.Halakurakim Post Badami Tq, Bagalkot
206366	Ravi Koulagi Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30182 26.04.13	Mahaveer Clny, Jamakhandi-Tq, Bagalkot, Jamakandi
206367	Ravi Kumar. K.N. Nagaraju.K.T.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26700 01.06.10	#483, 10th Cross, 5th Main, Malathalli, Bangalore

206368	Ravi. K.B Basavarappa. K.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24937 10.06.09	Kumbarbeedi, Sasvehalli Post, Honnali Tq, Davangere
206369	Ravi. K.V Vishnu Bhat. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25934 17.03.10	# 7314, 2nd Cross, Maruti Nagar, Arsikere Tq, Hassan
206370	Ravikumar Dani Ambasa.T.Dani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23790 04.04.09	# 1045, Jawali Plot, GajendragadPost, Ron Tq, Gadag
206371	Ravikumar Goddara Megharaj Jat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28425 20.06.11	No. 9-4-14D, Flat No.401
206372	Ravikumar K.M Thippeswamy K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30496 14.06.13	#1/351, Bapuji Nagar, Gudekote Rd. Kudligi, Bellary
206373	Ravikumar Kanakapur Ramanna Kanakapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29602 13.06.12	Bus Stand Rd.Alwandi Post Koppal
206374	Ravikumar. K.T Thimma Shetty. K.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27373 24.03.11	Hirebylu, Kalasa Post, Mudigere Tq, chitradurga
206375	Ravindra Sarvagolla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24210 24.04.09	Vanajakshi Nilaya, Markodu, Koteshwara Post Kundapur Tq, Udupi
206376	Ravindra Ghali Dileep. B. Ghali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26967 11.11.10	Kempwad At& Post, Athani Tq, Belgaum
206377	Ravindra Reddy Bheemreddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30148 22.04.13	Madepalli, Chandriki-Post, Yadgir-Tq & , Gurumitkal
206378	Ravindra. S.A Tulajasa Dani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28461 04.07.11	Harmanu Post, Kalkere, Punyabhumi Circle, Bangalore
206379	Ravindranath Todalabagi Vishwanath Todalabagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27857 11.04.11	No.47, Mallikarjuan Ashram Bijapur
206380	Raviprakash Mishra Radhesham Mishra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25020 26.06.09	Akash Complex, Nr Gandhi ChowkBanahatti Post Jamkhandi Tq, Bagalkot
206381	Raviraj Kurabet Shankar Kurabet	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29962 06.04.13	At Post-Nipanal, Taluk-Raibag, rict- Belgaum, Nipanal
206382	Ravisha. N Narasimha Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23973 18.04.09	# 717, 1st Cross, Opp FCI Godown, DV Nagar Post, Vijinapura, Bangalore
206383	Ravudi Ramakrishna Sanjeevamurthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30540 04.07.13	H.Hanumanthappa Ay.Stores, M.G. Rd. Gangavathi Koppala,
206384	Rayanna Naikar Kashappa Naikar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26027 19.03.10	421/B2/31, Mritunjay Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
206385	Rayeesa Zainab Hassan Parveez	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30369 21.05.13	No. 19, 6th Cross, 1st Main, NewGurappana Palya, Bannerghatta Road, Bangalore
206386	Rayjade SushamaChandrakant Sunil Shivajirao Mohite	BAMS University of Poona, Pune, 2001	26988 01.12.10	FL No. 801, Govt College Rd. 1st Floor, Kadugodi, Bangalore
206387	Reddy Sony M.N. Nagraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24718 03.06.09	# 9-9-354, BVB College Rd.Gandhi Gunj Post, Bidar
206388	Redekar Rajesh Ananda Redekar Ananda Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24509 12.05.09	M.B. Kalal Lodge, Nr. Venkatesh Theatre Mundargi Tq, Gadag
206389	Reema Sadaf Mohammed Jamal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25986 18.03.10	P-16/3, Seema Garden, Bhatkal Tq, Uttar Kannada

206390	Reena. VijayaKr.N. Mahagaonkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25846 12.03.10	# 10-105/34, N.V. School, Garden Rd.Saran Nagar, Gulbarga
206391	Reenadevi PralhadDhamannavar P Krishna Dhamannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29913 21.01.13	K.T.B.A.G. Complex, Molakalmuru, Chitradurga
206392	Reeta Kathare Ramchandra.C. Kathare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28337 25.05.11	H.No.4007, Old Govt Hospital Rd, Ilkal Hungund Tq, Bagalkot
206393	Reeti Yadav Jasrath Yadav.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25822 12.03.10	?Smruthi? 3rd Cross, B Block, Vidyanagar, Haveri
206394	Reju Krishnan. R P.N. Radhakrishnan Nair.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	24590 15.05.09	# 99/8, 4th Main, M.S. NAgar, Banaswadi, Bangalore
206395	Rekha Manikappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29782 08.10.12	# 16-1-76, Allamprabhu Nagar, Bidar
206396	Rekha B Sannappanawar Basavaraja Sannappanawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28891 20.04.12	No 3, K .Veeranna LayoutThindlu Vidyanarayapura Post Bangalore
206397	Rekha Basavaraj K. Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24720 03.06.09	# 60, Banashankari Layout, 2nd CrossShanti NAgar, Keshawapur Hubli Tq Dharwad
206398	Rekha Birdar Babugouda Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29348 21.05.12	No 113, Gumaste Clny, Ashram Rd.Adarshnagar, Vijaya College Post Bijapur
206399	Rekha Jugali Dundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26666 14.05.10	Nr. Old Bus Stand, Rabkavi, Jamkhandi Tq, Bagalkot
206400	Rekha Karlahalli . Sangapopa N Korlahalli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29594 13.06.12	Panchaxari Nagar, 5th Cross, Burbure Plot, Gadag
206401	Rekha PN Nagaraju B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29118 07.05.12	No 159, Kalidasa Street , Indira Clny T Narasipura Taluk Mysore
206402	Rekha Pai. J. Narayan Pai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24260 28.04.09	Jackribettu, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
206403	Rekha RaghunathMadyapagol Raghunath Madyapagol	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26546 12.04.10	Plot. No. 2213, Ramthirth Nagar, Kanabergi, Belgaum
206404	Rekha Sakkari Bhimaraya D Sakkari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29975 06.04.13	Door No. 209/2A, Ward No. 10, Jayanagar Badavane Kaladagi Rd. Bagalkot
206405	Rekha Sharma Rishal Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30333 16.05.13	# 416, Sector 13, Nr. Dabra Chock, Hisar
206406	Rekha. B Bellaiiah. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24039 20.04.09	LIG #6, Mukthi Marga, H.S.MahdevpradodNagar, Gundlupet, Chamarajanagar
206407	Rekha. K.M K.N. Munivenkatappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25563 05.03.10	# 597/1, Patel Sonappa Compound, Hebbal, North Bangalore
206408	Rekha. K.M Veerabhadraiah. K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27173 18.03.11	H.No. 43, 8th Ward, Megalapete, Harapanahalli, Davangere
206409	Rekha. N Nagarajappa. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25768 12.03.10	# 1683/13, Nandi, 1st Floor, TaralabaluNagar Hadadi Rd, Davangere
206410	Rekha.A.Hayyal Ashok.B.Hayyal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27351 24.03.11	Sasanur At & Post, Basavan Bagewadi Tq, Bijapur
206411	Rekharani Herakal Virupakshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29332 18.05.12	No 14/B, Anegundi Plot, Navalagond at post & Tq, Dharwad

206412	Renuka Keshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30212 29.04.13	At Post Tadola, Tq-Basavakalyana, Bidar, Tadola
206413	Renuka Byakod Sakareppa. H. Byakod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26588 19.04.10	Nr. Post Office, Habbuwada, Karwar Tq., Uttar Kannada
206414	Renuka G Gurumurthy B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29416 23.05.12	Ashanilaya, 3rd cross, Azadnagar, ot Rd. Shimoga
206415	Renuka Halimani Shivappa.M.Halemani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25407 24.02.10	# 64, Ganga Block, 10th KSRP, Gangebhavi Shiggou Tq, Haveri
206416	Renuka Morabad Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29452 24.05.12	KVSR High School Rd.Rajiv Gandhi Nagar, Gadag Tq&
206417	Renuka.R.T. Ramappa.M. Talwar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27923 12.04.11	II Cross, Vidyanagar, KumarapattanumPostRanebennur Taluk, Haveri
206418	Renukamma. D.K Dyamappa. P.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25107 26.08.09	Vinayaka Circle (SSK), Harihar Tq, Davangere
206419	Renuke Aakash Sirish Renuke Sirish Laxmanrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29022 27.04.12	D/4, Sopan nagar, Saswad At, Pune
206420	Renuke Jayshree Shiris Shirish Laxman Renuke	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29023 27.04.12	D/4, Mhada Clny, Sopan Nagar Post Saswad Pune
206421	Renuke Kirti Shirish Shirish Laxman Renuke	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29013 27.04.12	D/4, Mhada Clny SopanNgr Nr Sopan Nagar Post Saswad Pune
206422	Reshma Raju V Bangera	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29199 14.05.12	No 1-165, Hosamar At & Post, Karkala TQ, Udupi
206423	Reshma Siddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29966 06.04.13	H.No. E-9B KaveriMarg Vc Clny Sedam
206424	Reshma Jain AR Ananthraj Jain	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30569 18.07.13	Devachandra, Jain Pete, Belthangady, Dakshina Kannada,
206425	Reshma Katarki Basavaraj R Kataraki	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29724 09.08.12	# 915, Vijay Clny, Gajendragad At Post, Ron Tq, Gadag
206426	Reshma Naik B. Chandrashekar Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25776 12.03.10	# 52, Heroor Village, Brahmavar Post, Udupi Tq &
206427	Reshma R Pai Ramesh Pai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30355 20.05.13	?Janaki Ram? 8-72 C-5, Eshwarnagar- Manipal
206428	Reshma Sambrekar Mahadev S Sambrekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29087 05.05.12	No 2389 KamathGalli, Belgaum Taluk
206429	Reshma Shivanagutti Raheemansaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24986 15.06.09	Nr. TMC Rd. Ilkal Post, Hungund Tq, Bagalkot
206430	Reshma. M.A M.P. Ashok Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23775 03.04.09	C/o. SDM College of Ayurveda, Thanirhalla, B.M. Rd. Hassan
206431	Revanna. M.N Ningaiiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25966 18.03.10	# 214/6, M.P. Block, 6th Ward, K.R. Nagar, Mysore
206432	Revansiddappa A SRAheel Bogali Mallakappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26118 20.03.10	Vidya Nagar, West Haveri, Haveri.
206433	Revashiddeshwar Sundholi Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24927 10.06.09	Golashavi Lane, Rampur Rabkavi, RampurPost Jamkhandi Tq, Bagalkot



206434	Revathi. N. Nagesh.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26577 17.04.10	#13, 7th Cross (Lalbagh Fort Rd.) Bangalore
206435	Revathi. T.S Sundara Murthy. T.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25889 12.03.10	# 174, BEML Layout, 4th BlockBasaveshwara Nagar 3rd Stage, Bangalore
206436	Rifat Unnisa Shaik Shaik A Rehman M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24427 05.05.09	EWS 228, 8th Cross, Navanagar, Hubli Tq, Dharwad
206437	Rini Thomas Thomas.V.J.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28701 22.03.12	#2-8-648/2, Kapikad Bejai Post, Mangalore
206438	Riona Sera Praveen Sera	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28929 26.04.12	Ashry Vogga Post , Bantwal Taluk , Dhakshina Kannada
206439	Riteshkumar Ashokrao Katare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23819 04.04.09	Lecturers Clny Rd. ShahuNagar, Bhalki Tq, Bidar
206440	Riyazuddin. S Sirajuddin. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26044 19.03.10	Basapur, Bandhi, Harlapur, Koppal
206441	Rizwan Pasha. J.B Basha Saheb. M.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24892 08.06.09	Sunni Chowk, Arsikere, Hassan
206442	Rizwan Ur Rahman Riyaz Ur R Shariff	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30521 21.06.13	#198, 4th Main, 6th Cross, ?C? Layout, Bannimantap, Mysore
206443	Rizwana M.A. ef.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24676 25.05.09	H.No. 9-5-236, Badruddin Cly, Chidri Rd, Gandhi Gunj, Bidar
206444	Rodagi Revanshiddeshwar Vithoba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23936 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr. Raghavendra Temple, Sindagi Tq, Bijapur
206445	Rode Surendra Rode Sudhakar Rao Kishanrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30004 08.04.13	Pitru Chaya Niwas, Kranti Nagar, Gangakhed, Tq-Gangakhed, Parbhani, Gangakhed
206446	Rohini Shankar Bennurkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30240 30.04.13	LTRT 3/3, 11th Cross, Alstom Clny, Shahabad Town, Gulbarga , Shahabad
206447	Rohini Jadhav Jadhav Abasaheb Ganapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26266 23.03.10	Shiragaonadi Post, Chikodi Tq, Belgaum
206448	Rohini Nag Nagaraj.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28147 26.04.11	#6/374, Yedur Rd, Nr Land Army Office, Vidyanagar, Hassan
206449	Rohini Purohit Seetharam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27747 06.04.11	1-11-55/19, Lingusugur Rd. Raichur
206450	Rohini Sachin Gopaldas Rohini G Asudamal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24399 05.05.09	C/o. BVVS Sangha BoysDental Hostel, Bagalkot
206451	Rohini. B.V Vishwanath. B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25171 06.10.09	# 466, 3rd Cross, 2nd Main, Gururajlayout, Behind Vidyapeeta, Bangalore
206452	Rohini.M.Hosagoudar Marigouda.B. Hosagoudar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25450 02.03.10	Cholachagudda Post, Badami Tq, Bagalkot
206453	Rohit.N.Shettar N.S. Shettar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25877 12.03.10	Sorapur Post, Gadag
206454	Rohita. H.E Eshwarappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27365 24.03.11	D.No. 3468/A, Kalleshwara extenstion, Hosadurga Tq, Chitradurga
206455	Roiwandara Laloo G. Kshir	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28093 21.04.11	SDM College of Ayurveda, Udupi, Kuthpady

206456	Roopa C Chandrashekaraiiah S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30547 10.07.13	# 37, 1st Main, AGB Layout, Chikbanavara, Hesarhatta, Main Road, Bangalore,
206457	Roopa Darshini Sindhe Sindhe Shanker	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28393 09.06.11	#19-2-62, Anand Nagar, Nr MES Quarters, Bidar
206458	Roopa Dasar Shreenivas Kotabal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	25359 12.01.10	#29, Court Rd.PWD Quatres, Chamarajnagar Tq &
206459	Roopa Dodamani Babu.M.Dodamani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28523 08.08.11	W.No. 5, Nr. Bus Stand, Mudhol At & Post, Bagalkot
206460	Roopa Kalashetty Basavaraj Kalashetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27924 12.04.11	Siddarameshwar Clny, Kuduchi RdJamkhandi Tq, Bagalkot
206461	Roopa Madgaonkar Shivarayya Madgaonkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25633 06.03.10	Raman Nail, Sirsi Tq, Uttar Kannada
206462	Roopa Neralagi Lagamanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25387 06.02.10	# 504, 3rd Stage, 4th Block, Basaveshwar Nagar, Bangalore
206463	Roopa Prabhu. M Manohar Prabhu. T.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25836 12.03.10	Vivekananda Nagar 2nd Main Rd.Kalasa, Chickmagalur
206464	Roopa Sonyal Sangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26706 03.06.10	C/o. S.T.Sonyal Jai Bhim Nagar, Sindgi
206465	Roopa. H Narayan. HS	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26174 22.03.10	C/o. Amruth Clinic, Manvi Tq, Raichur
206466	Roopa. K.S Sharanappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24815 05.06.09	# 3026, Lakshmipura, Arsikere Tq, Hassan
206467	Roopa. N ShivaKr. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23872 09.04.09	# 1-11-82, Nijalingappa Clny, Manvi Tq, Raichur
206468	Roopa. P Ramesh Rao. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24871 06.06.09	# 78/23, Jawari Street, Cow Bazaar, Bellary
206469	Roopa. S Satyanarayan. M.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26248 23.03.10	# 2220, 4th Cross, K Block, Kuvempu Nagar, Mysore
206470	Roopa. T Thippeshappa. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23899 09.04.09	Siddalingeshwara Clny, Bakkambudhi Post, Tarikere Tq, Chikkamagalore
206471	Roopa.N. R. Nagaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26653 07.05.10	Veterinary Hosptital, Chikkajogihalli (P), Kudligi Tq., Bellary.
206472	Roopak Nagaraj Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26018 19.03.10	# 1-135, Kote Rd.Kalyanpura Post, Udupi
206473	Roopakala. Damodhara Prabhu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23749 03.04.09	Bajagoli Post, Karkala Tq, Udupi
206474	Roopali Asode Ghulappa B Asode	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29632 14.06.12	#21, Gokak House, Plot No 21, Veerabhadra Nagar, 2nd Cross, Belgaum
206475	Roopashree Banakar Somalingappa V Banakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29419 23.05.12	Hirehalli, Chikkabasur post, Byadagi Tq, Haveri
206476	Roopashree Katagi Huchcheswar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28700 17.03.12	#D/3, Narayanpur, Surapur Tq, Yadagiri
206477	Roopesh. M.B P. Bolagowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26232 23.03.10	Manigere, Maddur Tq, Bidarahalli Post, Mandya

206478	Roy Poonam Harichand Anit Goswami.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25157 30.09.09	# 448, Amar Nivas, 7th Cross, 6th Main, BTM 2ns Stage, Bangalore
206479	Rubia Peerzade Rafiq	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26531 12.04.10	Al-Falah, Vidyanagar Beside CETCollege, Gokak, Belgaum.
206480	Rubina Ainapuri Abdul Munaf Ainapuri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29250 15.05.12	No 114 Gousiya Town , Islampur Rd, Old Hubli Dhrwad
206481	Ruby Kuwar pal S Dhnker	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29345 21.05.12	TN 184/A, Jalahalli West, 410 Air Fource Station Bangalore
206482	Rudramunishwara SwamiHiremath Gurubasayya G Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29907 10.01.13	Opposit S D Biradar Clinic, Mathapa Thigalli Bijapur
206483	Rudrappa Kadashetti Shivappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27163 18.03.11	PalabhanviAt & Post, Raibag Tq., Belgaum
206484	Rudresh RevannavarGaoudappa Goudappa Revannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24932 10.06.09	K.C. Nagar, 5th Cross, Bailhongal Tq, Belgaum
206485	Rudresh. S Sridhara Murthy.Y.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24468 11.05.09	# 203, 10th Cross, 7th MainNrupathunga Nagar, Bangalore
206486	Rugsana Hulageri Shamshuddin Hulageri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29774 29.09.12	C-1320, Maqbool Manzil, Mangalgatti, Plot Shiddakhari, Dharwad P.O.
206487	Rummana Hussain Hussain S H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30230 30.04.13	20/15 , Muslim Block, K.R. Nagar Tq
206488	Rupadevi Hosamath Irayya.B. Hosamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28421 20.06.11	H.No.705 (B), Shetagar Chal, Bailhongal Tq, Belgaum
206489	Rupanwar Pradip Baburao R Baburao Raghunath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23715 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
206490	Rupnar Ramdas Pandurang Rupnar Pandurang Dhodiba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25531 04.03.10	Plot.No. 40, Yallalinga Clny, Naubad, Bidar
206491	S Shruti Shivashankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29245 15.05.12	Aeo No 28/150, Parvati nilaya, N40SClny, Tripurant Basavakalyan Bidar
206492	S. Shahidha Sultana S. Abdul Rawoof	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30338 18.05.13	2B, Ward No. 26, YaseenSaheb Street Cowl Bazar, Gyeong Buk
206493	Saba Hazdulla Ismail	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28351 30.05.11	No.5-38-1, Kesargadde, Belvai A/P, Mangalore Tq, D.K.
206494	Saba R Peerzade Rafiq A H Peerzade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30557 16.07.13	Plot No 12, Beside Let, Vidyanagar, Gokak, Belgaum,
206495	Sabha Afreen.M.Suranagi Md I R Suranagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24012 18.04.09	Suranagi Clinic, M.G. Rd. Haveri Tq &
206496	Sabina Banu Moidinabba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24916 09.06.09	# 1-85, Jumma Masjid, Addoor Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
206497	Sabri Talatnawaz FaiyazAhamad S. Faiyaz Ahamad J Husain.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25068 22.07.09	?Sadaf Villa? Plot.No. 1403, Autonagar Rd Ramateerth Nagar, Belgaum
206498	Sachin Arun Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30260 04.05.13	Plot No. 524, Shahabad Rd.Prashanth Nagar ?B?, Gulbarga tq &
206499	Sachin Choure Ramdaya Choure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26632 29.04.10	C/o. Amrutha AMC, Behind Obamma Stadium, Chitradurga

206500	Sachin Deva Sadashivayya. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23998 18.04.09	Deva House, Badaja Post, IdkiduVillage Bantwal Tq, Dakshina Kannada
206501	Sachin Javali Ashok Javali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25688 12.03.10	# 421C/1(24), Vidyanagar, Bailhongal Tq, Belgaum
206502	Sachin Kumar. K.R K.B. Rudramuni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26077 19.03.10	15th Cross, 7th Main Rd.K.R. Nagar Tq, Mysore
206503	Sachin Kumbar. Gurupad.A.Kumbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25343 29.12.09	HIG.No.-2, Rajiv Nagar, Chikodi Post & Tq, Bellary
206504	Sachin Pawar Bapuso Pawar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24512 12.05.09	Krishna Kittur Post, Athani Tq, Belgaum
206505	Sachinkumar Shankarrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24969 10.06.09	# 23, KEB Rd.Bankers Clny, Bidar
206506	Sachinkumar Galagali Bhupal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24572 14.05.09	Shedbal Post, Athani Tq, Belgaum
206507	Sada Shabanam Rahamath-Ulla-Shariff	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24422 05.05.09	Muslim Street, Arakalgud Tq, Hassan
206508	Sadananda Reddy Sheri. Lingareddy Sheri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25415 25.02.10	Jakanapalli Post, Sedam Tq, Gulbarga
206509	Sadashiv Sardappa.K.Madar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26649 05.05.10	Roogi Post, Mudhol Tq. Bagalkot
206510	Sadashiv Naikwadi Vitthal Laxman Naikwadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25403 24.02.10	Byakud Post, Raibag Tq, Belgaum
206511	Sadashivayya Hiremath Shankarayya.S.Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24384 05.05.09	H.No. 307, Renukanagar, Gokul Rd, Gandhi Nagar, Hubli Tq, Dharwad
206512	Sadhana Parajuli Krishna Raj Parajuli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23771 03.04.09	C/o. SDM College of Ayurveda, Thanirhalla, B.M. Rd. Hassan
206513	Sadika Begum Peera Hussain Hosahalli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27665 02.04.11	Firdose Nagar, Nr. IB, Kinnal Rd. Koppal Tq &
206514	Sadiya Firdous Riyaz Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30301 09.05.13	9/1, 9th ?B? Main, BTM Layout 1 stage, Nr. BTM Water Tank, Bangalore
206515	Safiya Parveen Mohammed Mursaleen.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27254 22.03.11	# 13, 1st Cross, Vijayanagar, BEMLNagar, KGF Bangarpet, Kolar
206516	Sagar Belgunkar Madanlal.M.Belgaunkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24925 10.06.09	# 11, Main Rd, Ward.No. 1, MahalingapurPost Mudhol Tq, Bagalkot
206517	Sagar Kaling Malleshi.Y.Kaling.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26005 19.03.10	# 224, Ganpat Galli, Halaga Post, Belgaum
206518	Sagar Lakkundi Shankar G Lakkundi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26056 19.03.10	57/3/1, Timber Yard (North), Devapriya Nagar Unkal, Hubli, Dharwad
206519	Sagar. G.L G.H. Lokanath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26220 23.03.10	M.S. Hally, Challakere Tq, Chitradurga
206520	Sagare Shrikant Shivadas Shivadas M Sagare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24805 05.06.09	H.No. 160816, Shahu Nagar, Bedkihal Post Chikkodi Tq, Belgaum
206521	Sahana Bhaskara. A Bhaskara. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24809 05.06.09	Patel's House, Jalsur Village & Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada

206522	Sahana Hegde Sripad Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27584 30.03.11	Behind Raghavendra Math, Township, Dandeli, Uttar Kannada
206523	Sahana Kamath Sathish Chandra Kamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27718 06.04.11	Sowparnika 5-1-71A, BehindVeerabhadra Kalabhavan, Kinnimulky, Udupi
206524	Sahana. C Chandru. G.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25909 15.03.10	# 603, 1st Main, 14th Cross, Mysore
206525	Sahana. K Kr. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24163 24.04.09	Mathkur Kakol Post, Hesaraghatta Hobli, Bangalore
206526	Sahana. P.K K.T. Prakash.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25891 12.03.10	# 211, 40ft Rd, 1st Cross, 1st Stage1st Phase, Manjunath Nagar Rajajinagar, Bangalore
206527	Sahana. R S. Ragghu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28569 19.10.11	Ganigeri Street, Bannur At & Post, T.N. Pura, Mysore
206528	Sahana. V Venkatara manappa. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23748 02.04.09	Nr.Housing Board Clny, BehindTelephone Exchange, TR.Nagar, Challakere, Chitradurga
206529	Sahana.H.Upadhyya Srinatha. G.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24465 11.05.09	Ganganakudige Village & PostMudigere Tq, Chickmagalore
206530	Sahana.M ShivaKr.H.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26674 20.05.10	Perlampady Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
206531	Sahana.R. Ramaprasad.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28316 25.05.11	Shree Nilaya, III Main Rd, Palasandra Layout, Kolar
206532	Sahana.S.Shetty H.S. Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26017 19.03.10	# 4-331, Gowri Nilaya, Chanthar Village, Brahmavar Post, Udupi
206533	Sahastrabuddhe Niketa Shrinidhi Ro Deshpande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25013 25.06.09	#820, Sector No. 5, Shri Nagar, Belgaum
206534	Saheb Gouda Biadar Sanganagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24152 22.04.09	Hundekar Galli, Bagalkot
206535	Sahidaparaveen Itagi Ladasaheb Itagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26490 06.04.10	Veerabhadreshwar Nagar, Bijapur Rd, XBijapur Bijapur
206536	Sahil Sharma Yogender Kr Kaushik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30263 04.05.13	H.No. 69, Jagdamda Clny, Johripur Village, Delhi
206537	Sai Kawsalya. V.K V.S. Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27439 25.03.11	Sompura, Koratagere, Tumkur
206538	Sajid Ather Gulreez Ahamed.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25491 04.03.10	# 105, 4th Cross, Vijayapura Extn, Chikkamangalore
206539	Sajidali Gokavi Chansab Gokavi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24046 20.04.09	# 4/1282, Shigli Post, Shirahatti Tq, Gadag
206540	Sakale PoonamSubhashchandra S S. Dhanchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24988 16.06.09	Mahaveer Nagar, Bedkihal Post, Chikodi Tq, Belgaum
206541	Sakri Dipa Vilas Vilas Danappa Sakri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29437 23.05.12	Shivlila Laxminagar Banhattiat post Jamkhandi Tq, Bagalkot
206542	Sakshi Pandita. Chini Lal Pandita	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28554 20.09.11	# 3367, 13th Main, 8th Cross, HAL 2nd Stage, Indiranagar, Bangalore
206543	Saleema Banu M T.A. Mohammad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30359 20.05.13	Al-Rayyan House, Vidyanagar, Bellare Post, Sullia Taluk, Dakshina Kannada

206544	Sali Jayaraj Amareshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26714 11.06.10	#41, Basava Krupa, Pratibha Clny, Kelagery Rd. 1st Main, 2nd Cross, Dharwad
206545	Salim Yusuf A. Allauddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28709 30.03.12	At/Post ? Golasar, Indi Tq, Bijapur
206546	Salma Faras Anwar Ahmad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26788 19.08.10	T.R. Nagar, Challakere, Chitradurga
206547	Salma H Azeez H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30246 02.05.13	# 230/11, 17th Ward, Sondurgere, Harapanahalli Tq, Davangere ,
206548	Salma. D Suba Sahib. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26669 17.05.10	29th Ward, 9th Cross, 100 BED Hospital, M.J. Nagar, Hospet, Bellary
206549	Salunke Sachin Vitthal Salunke Vitthal Sadashiv.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24186 24.04.09	Chalukya Nagar, 7th Cross, Badami Tq, Bagalkot
206550	Salunkhe Madhura Ashok S Ashok Gopalrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30244 02.05.13	Ganga 1, Adarsh Nagar, Behind HotelMahendra, National Highway, Post Jgedm Satara
206551	Salunkhe Rahul Dilip S Dilip Kashinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24281 29.04.09	Shanti Niwas, Nr. Naidu Hospital, Inamdar Clny, Bijapur
206552	Salunkhe Soniya Ramesh Ramesh B Salunkhe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30610 22.08.13	At Post- Tandulwadi, Sangli, Tal-Walawa, Maharashtra
206553	Salunkhe Sunil Appaji Appaji Krishnaji S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23799 04.04.09	Bapuji Ayurvedic Medical College, Boy's Hospet, Challakere Tq, Chitradurga
206554	Samanvitha.B Ravichandra.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26757 19.07.10	Mandekolu House, Mande Kolu Post, Sullia Tq., Dakshina Kannada
206555	Samareen Darur Husain Darur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29990 06.04.13	At Post-Kudchi, Tq-Raibag, Belgaum
206556	Sameer Amjad Shaik Shaik Amjad Pasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25565 05.03.10	# 891/2, Narayan Shashtri, Lakshmiapuram, Mysore
206557	Sameer Parande Sudheer	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26609 23.04.10	Shriniketan Rural Police Station Rd, Extension Area, Bagalkot
206558	Sameer Sanadi B Babalal Sanadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24253 28.04.09	# 1362/2, Runeka Nagar, Ugar- KhurdAthani Tq, Belgaum
206559	Sampada Suresh Gandage Suresh Gandage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28386 09.06.11	E 14/287, Laxmi Ganj, ShahabadChitappur Tq, Gulbarga
206560	Sampath.B.P. S. Prabhu Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28214 04.05.11	No.120, 13th Cross, K.P Agrahara, Magadi Rd. Bangalore
206561	Sampreeth. T.N T.S. Nagaraja Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24111 22.04.09	N.R. Pura, Chickmagalur
206562	Samprita Satyanarayan M.N.Sathyanarayana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26732 28.06.10	#306/A, Roy Rd. Tilakwadi, Belgaum
206563	Samra Khan Munawer Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26947 20.10.10	Baithul Basharath, A.C. Rd.Kabettu Karkala Tq, Udupi
206564	Samreen Azhar Kamil Pasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27379 24.03.11	# 4434/1, 10th Cross, Saint Mary's Rd, N.R. Mohalla, Mysore
206565	Samsath Banu Abbas B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30397 24.05.13	Kolakkadan House, Badyar, Kuvettu (Vil), Guruvayanekere Beltangady Tq. Dakshina Kannada

206566	Samuel Edison. Sharack.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25722 12.03.10	# 18/2, 18th Cross, Apil Cly, Shahabad, Chittapur Tq, Gulbarga
206567	Sandeep Giridar Hanchate	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29134 07.05.12	BasavakalyanAt Post & Taluk , Bidar
206568	Sandeep Desai Ramesh.K.Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25979 18.03.10	Fort Rd. Old Hubli, Hubli Tq, Dharwad
206569	Sandeep J Manjunath J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29076 05.05.12	Bellary Rd. Kariganoor Hospet Taluk Bellary
206570	Sandeep Kumar Satpal Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25053 09.07.09	# 1973/1, 15th Main Rd. Davangere
206571	Sandeep Nidhi Tiwari Yadav Nidhi Tiwari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25239 20.10.09	BAM College & Hospital, Sowlanga Rd. Shimoga
206572	Sandeep Patil Siddappa Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25692 12.03.10	# 1135/8, Banagar Galli, Gokak Tq, Belgaum
206573	Sandeep unde Vasant Punde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24305 29.04.09	Sagardeep Bldg, Sri Nagar, Dharwad
206574	Sandeep. B. Bhojappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26875 13.09.10	Belura At & Post, Basavakalyan Tq, Bidar
206575	Sandeep. S. Siddaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26946 19.10.10	#54, 2nd Cross, 2nd Stage, Bogadi (North), Mysore
206576	Sandeep.S.Shetty. Shekhar.S.Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24724 03.06.09	Shiva Shakti House, Achladi Adar Mane, Achaladi, Udupi
206577	Sandeepa Surendranatha S.V. Choudhari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26830 25.08.10	34/3, 3566, Vivekanand Rd.Hangal Post & Tq, Haveri
206578	Sandesh Kumar M R Rathnakar Acharya M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29659 18.06.12	# 92/6, Bharathi Dhama kallotteKarkala Tq & Post, Udupi
206579	Sandesha Kumar Sanjeeva Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27703 06.04.11	No-2-10 A, Havanje, Udupi
206580	Sandhya Prakash Hibare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29067 05.05.12	No 9-257, Shaha Katgapur Gulbarga
206581	Sandhya Emmeiganur Gangadr Emmeiganur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27668 02.04.11	HNo.924, 24th Cross, Tejas, VanasiriNagar Sattur Post, Dharwad
206582	Sandhya Patil Mallikarjun Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23794 04.04.09	10-419, Sharan Nagar, Bramhapur, Gulbarga
206583	Sandhya Rani P R B Shivayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30058 16.04.13	H.No. 2-3-35, Kalalwadi, Mailapur base, Tq & Yadgir
206584	Sandhya. N N. Nagaraja Sastry.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27252 22.03.11	# 1995, Srilakshmi Nilaya, Nr. SLV TCH, Bangarapet, Kolar
206585	Sandhyarani Babu Devdiga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24160 24.04.09	Yermalthenka Post, Udupi Tq &
206586	Sandiya Raj. M M. Muniraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24484 11.05.09	# 57, 3rd Cross, Omkarnagar, ArakereGate, BG Rd. Bangalore
206587	Sandya C H Satyanarayan C H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30549 11.07.13	Ganganarasi, Harihara, Davanagere,

206588	Sandya Rani M Bheemanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29816 12.10.12	# 4-4-101/88, Zahirabad, Dhanalakshmi Layout, Raichur Tq &
206589	Sandya Rani M N P M Natrajan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29775 29.09.12	# 40/2, Cantonment, Tilak Nagar, Bellary
206590	Sandyarani H B Boraiah H B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29790 12.10.12	# 235/D, I Cross, Imain, Kuvempunagar Mysore
206591	Sangamesh Basanagouda Malipatil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25176 07.10.09	B.B. Nagar, Nr. CDPO Office, Kustagi Tq, Koppal
206592	Sangamesh.I.Parandi Ishwar.V.Parandi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24564 14.05.09	# 861, Raviwar Peth, Khanapur Tq, Belgaum
206593	Sangameshwar Hiremath Shivapoojayya. B.H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23835 06.04.09	Basawa Nilaya, Plot.No. 85, SedamRd. Jhanaganga Clny, Gulbarga
206594	Sangamkar Shilpa Somashekar Sangamkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29636 14.06.12	Plot No. 9, Allamprabhu Nagar, Citta Rd. Behind Gumpa Bidar
206595	SanganagoudaMelashankar Mallanagouda G M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29347 21.05.12	MIG-11, Bagalkot Rd. Jayanagar Post Office Bijapur
206596	Sangappa Arenad Murigeppa B Arenad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27466 26.03.11	Belagali At & Post, Mudhol Tq, Bagalkot
206597	Sangeeta Harshareddy Manne	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26820 24.08.10	#24, Vidyanagar, Sedam Tq, Gulbarga
206598	Sangeeta Sharanappa Anegundi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27020 04.02.11	#9-11, Anegundi Street, Shahapur Tq, Yadgiri
206599	Sangeeta Veerendra Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28713 30.03.12	LIG-57, 1st Phase, Adarshnagar, Gulbarga
206600	Sangeeta Jangamashetti Gurappa S Jangamashetti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27463 26.03.11	Nr Belladda Pete, Ghataprabha At &Post, Gokak Tq, Belgaum
206601	Sangeeta P Adarsh V.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30445 01.06.13	Nr. KSRTC Bus Depot, Huvina, Hadagali Ballary
206602	Sangeeta Patil Vijay Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29349 21.05.12	No 91, 3rd cross, Chidambar nagar, Tilakwadi, Belgaum
206603	Sangeeta Savukar Ramchandra Savukar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24337 29.04.09	Kabbur Post, Chikkodi Tq, Belgaum
206604	Sangeeta Tiraki Ashok Shankarappa T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28598 19.10.11	# 450, Balagar Lane, MangalwarPeth, Banhatti Jamkhandi Tq, Bagalkot
206605	Sangeetha Rao. R. Ramesh Punaroor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26949 20.10.10	Laxmi Nivas, Punaroor Post, Kinnigoly, Mangalore
206606	Sangekar PrajaktaNagnath Sangekar Nagnath Apparao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29145 08.05.12	C5&6, Sonamata Nagar, Bijapur Rd. Solapur
206607	Sanisha M.V.K. Raman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28719 30.03.12	E-10/B, Kaveri Vasavadatta ClySedam Taluk, Gulbarga
206608	Sanjay Kumar Gupta Ramayan G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	29895 24.12.12	Plot No 21, D No. 06, Suvarna Nagar, Nagasandra Bangalore
206609	Sanjay Pokharel Ramprasad Pokarel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	28620 05.11.11	Sri Rama Kripa, Dharmasthala Rd, UjireBelthangady Tq, Dakshina Kannada



206610	Sanjay Zirali Chidanand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29615 14.06.12	Chikalgudd, Hebbal Post, Hukkeri Tq, Belgaum
206611	Sanjay. A.R Ramakrishna Rao. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24888 08.06.09	# 01, 7th Cross, Udyamanya Nagar, Vishneedam Post, Bangalore
206612	Sanjeev Joshi Mohan.G.Joshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24648 21.05.09	# 1333, Kavi Plot-4, Station Rd. Bijapur
206613	Sanjeev Kumar Poma Rathod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27153 18.03.11	Hanumannagar, Ekloor Post, Basava Kalyan Tq, Bidar
206614	Sanjeev Naik Prabhakar Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26176 22.03.10	3rd Cross, Adarsh Nagar, Belgaum
206615	Sanjeev Rathod Valu Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26789 19.08.10	Makhanapur L.T.2, Bijapur
206616	Sanjeev Venkatapur Basavaraj Venkatapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29384 21.05.12	No 160 Shri Renukada Rameshwarinilaya, Vishweshtertha nagar, Haveri tq &
206617	Sanjeevini Gandhi N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29103 07.05.12	Renuka Nivas No 17-4-102, Agriculture Clny, Manalli Roadm Bidar Taluk
206618	Sanjiv Ikkalaki Annappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29555 12.06.12	Bhatagunaki At Post, Indi Tq, Bijapur
206619	Sankaranarayanan. S Sivasankaran. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24610 18.05.09	A-6, MIT Qtrs, Manipal Post, Udupi Tq &
206620	Sanmathi.P.Rao V.R. Padmanabha Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24641 21.05.09	# 197, 8th Cross, 2nd Main Rd, SBM ClyBSK 1st Stage, Bangalore South
206621	Sanmati Patil Vimalkant D Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28770 05.04.12	?Ratnatray Nivas?Kalyan Nagar Sindagi Tq, Bijapur
206622	Santhosh Jadimath Rudrayya Jadimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26526 08.04.10	C/o. BVVSAMC, Bagalkot
206623	Santhosh Kumar Hanumantharaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30227 30.04.13	#T C 243, RTPS Clny, Shakthinagar, Raichur-Tq & , Shakthinagar
206624	Santhosh Kumar S Sidram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30305 09.05.13	C-15/3, D.R.D.O Township, C.V. Raman Nagar, Bangalore
206625	Santhosh Kumar Singh Arjun Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27021 07.02.11	H.No. 758, 1st Floor, 2nd Phase, 1st Main, 7th Block, BSK 3rd Stage, Bangalore
206626	Santhosh Kumar.M.N M.Nagappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25322 05.12.09	#287, Banavasi, Tavanandi At & Post, Sorab Tq, Shimoga
206627	Santhosh Patil Rajashekar Gowda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29185 14.05.12	Old Benni Peth , Byadgi At Haveri
206628	Santhosh Reddy. S.T Thippeswamy. S.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23914 09.04.09	# 737, Padagatte Rd, NayakanahallyChallakere Tq, Chitradurga
206629	Santhosh Shankar More Shankar More	BAMS M.U.H.S., Nashik 2006	29737 03.09.12	TadkalVai Ratakall, Gulbarga
206630	Santhosh. H.S Shankarappa. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25943 17.03.10	Nonavinakera, Thumkur
206631	Santhosh. K.R Ramakrishna. K.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27248 22.03.11	# 156, 69th Main Rd.Rajajinagar, Bangalore

206632	Santhosh. M.D Devasi. M.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24763 04.06.09	Chattikudige, Sutta Post, N.R. Pura Tq, Chikmahalur
206633	Santhosh.M.Rayabagi Mohanal.H.Rayabagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25929 17.03.10	# 5-35A, Kampanbettu, GuddeAngadi Cross Udyavar Post, Udupi
206634	Santhosha Holeyache. Basavarajappa Holeache	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24196 24.04.09	Nr. APMC Holalu Post, Hadagali Tq, Bellary
206635	Santhosha Kumar Shankara Anchan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24606 18.05.09	Guru Ashraya, Hoode Post, Brahmavar Tq, Udupi
206636	Santhoshakumar Adavi Hanumappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27310 23.03.11	Hyrada Post, Huvina Hadagali Tq, Bellary
206637	Santosh Maruti Gokak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25203 09.10.09	E-1152, Mugalkhod Post, Raibag Tq, Belgaum
206638	Santosh Gundappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26993 15.12.10	H.No. 28/110/111, Heremath Clny, Basavakalyan Tq, Bidar
206639	Santosh Bhavrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27481 26.03.11	KSRTC Clny, Naubad Tq, Bidar
206640	Santosh Arakasali Ashok Arakasali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24670 23.05.09	# 31, Vinay Clny, Hubli Tq, Dharwad
206641	Santosh Basarakod Malleshappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24359 30.04.09	Pashapur Peth, Golagumbaz Front, Nr. Krishna Dairy, Bijapur
206642	Santosh Daddi Virupaxappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28828 16.04.12	# 54/1, Dodda Keri, Negalur At & Post, Haveri Tq &
206643	Santosh Halundi Dyamappa.D. Halundi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27512 28.03.11	Santosh Nilya, Uday Housing ClyVidya Nagar (W), Haveri
206644	Santosh Hugar Gurunath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25629 06.03.10	# 95/1, Khanapur(S.K), Naganoor Post, Shorapur Tq, Gulbarga
206645	Santosh Kanchyani Jambunath Kanchyani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26132 20.03.10	Kavi Kirthi 500, Kirthi Nagar, Bagalkot Rd. Bijapur
206646	Santosh Katti Chambanna Katti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26131 20.03.10	H.No. 38, Kadarolli, Bailhongal Tq, Belgaum
206647	Santosh Koppad Kallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26727 28.06.10	Tegginakeri Oni, Kundgol At, Post & Tq., Dharwad
206648	Santosh Kumar Ishwar Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25009 23.06.09	# 8-9-482/1, DeviClny, Bidar Tq &
206649	Santosh Kumar Chandrakant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25940 17.03.10	# 19/6/298, North Shivanagar, Inside Papansh Gate, Bidar
206650	Santosh Kumar Sharanappa Hadimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27580 30.03.11	Basava Nilaya, BB Nagar, Kustagi Tq, Koppal
206651	Santosh Kumar Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28778 11.04.12	# E 102, Telagabal HeroorJewargi Tq, Gulbarga
206652	Santosh Kumar Irapur Hanumantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28928 26.04.12	No.3318th Cross Sahadev Nagar, Old Hubli Taluk Dharwad
206653	Santosh Kumar Koni Veeranna. V.Koni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25628 06.03.10	# 1930/9E, Basavnagar, Hukkeri Tq, Belgaum

206654	Santosh Kumar Ray Ram Sugarath Rai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25392 22.02.10	# 23/A, 2nd Cross, S.V. Layout, Banashankari 3rd Stage, Bangalore
206655	Santosh Kumar Revannavar Shivaputrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26854 01.09.10	Plot No-84, 4th Cross, Bhagunagar, Belgaum Post &
206656	Santosh Kumar Sagar Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28003 18.04.11	No.833, Masur Rd. Rattihalli At Post, Hirekerur Tq, Haveri
206657	Santosh Kumar Utlaskar Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24968 10.06.09	# 432, Keerthinagar, Bijapur
206658	Santosh M P Mahabeleshwara S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30517 20.06.13	H.No. #3, KHB Clny, Tq-Jagalur, Davangere, Jagalur
206659	Santosh Metre Appanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24151 22.04.09	Hundekar Galli, Bagalkot
206660	Santosh Naik Ramu Bhimappa Lamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29910 15.01.13	A/T-Jattagi L.T, P/t-Hullur L T, T/q- Muddabihal D/T, Bijapur
206661	Santosh Neelakanthamath Amarayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28589 19.10.11	3rd Cross, Old Hubli PostHubli Tq, Dharwad
206662	Santosh Patil Fakiragouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26287 23.03.10	Rashmi Building, # 1281, Sch.No. 47Sahyadri Nagar, Hindalaga Post, Belgaum
206663	Santosh RamachandraNaik Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26030 19.03.10	W/35, 155/39, Adarsh Nagar, Gadag
206664	Santosh Rangannavar Venkatesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24293 29.04.09	Shankar College Rd.Navalgund Post & Tq, Dharwad
206665	Santosh Rudrappa Chavadapur. Rveerappa Chavadapur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24020 20.04.09	Ghandinagar, Manoli Post, Savadatti Tq, Belgaum
206666	Santosh Shankar Shankar.N. Kenchannavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23701 01.04.09	Adahalli Post, Athani Tq, Belgaum
206667	Santosh. V S. Venkategowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25839 12.03.10	Banashankari Building, Behind MunicipalOffice, Hosadurga Tq, Chitradurga
206668	Santosh.B. Sharnappa Balode	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27102 16.03.11	Om Sai Krupa Clinic, Humnabad Rd, Kapnoor Opp Check Post, Gulbarga
206669	Santosh.C.Naik B. Chandra Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27501 26.03.11	Basavaraja Pura, Rudrapura Post, Chennagiri Tq, Davangere
206670	Santosh.M.Tengli Mahadev.S.Tebgli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24705 03.06.09	# 10-296, Lower Lane, Brahmipur, Gulbarga
206671	Santoshagouda Patil Shankaragouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24728 03.06.09	Akki-Alur, Hangal Tq, Haveri
206672	Santoshini. M.S Mylarappa. C.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24371 30.04.09	# 249, 5th Main, Pattegarapalya, Vijayanagar, Bangalore
206673	SantoshkumarKyatappanavar Erappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26215 23.03.10	KPTCL Clny, P.B. Rd.Ranebennur Tq, Haveri
206674	Santoshkumar A Kallappa Avangapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29770 29.09.12	# 1-2-133, Post Office Rd. Mallavakatta, Gurumitkal At Post & Tq, Yadagiri
206675	Santoshkumar. G.B Goolappa Betageri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23821 04.04.09	Shiralakoppa Post, Shikaripur Tq, Shimoga

206676	Santoshkumar. M.K Maruti.L.Kathare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24448 05.05.09	Gulbarga University, Gulbarga
206677	Santoshkumari Patil Shivashankaragouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23795 04.04.09	2nd Cross, Vidyanagar ?C? Block, Haveri
206678	Sanubar Jamkhanewale Ashraffali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25715 12.03.10	Ghataprabha Post, Nr Bellad BagewadiBank, Gokak, Belgaum
206679	Sapakal Dhairashil Baburao Baburao Hariba Sapakal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23972 13.04.09	Shahabad Post, Chittapur Tq, Gulbarga
206680	Sapate Ajit Arun Arjun Rajaram Sapate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24193 24.04.09	H.No. 607, Nr. Saibaba Temle, Kirti Nagar, Bijapur
206681	Sapna Kupendra kaba	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29066 05.05.12	No B -1029/1, Sapna Nivas SiddeshwarNagar Nr Parle Ice Factory Gazipur Gulbarga
206682	Sapna Chandrakant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30388 23.05.13	At & Post ManthalTq-Basavakalyan Bidar
206683	Sapna Narasanagi Gundappa Narasanagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28865 18.04.12	C/o N I Patil, Gudimal (Vlu), Balawat Post Muddehal Tq, Bijapur
206684	Sapna. D Devidas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24561 13.05.09	# 26, Behind Kendriya VidyalayaAdarsh Clny Phase-1, Bidar
206685	Sapna.B.Shetty Bhaskar Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26548 12.04.10	KannurPost & Village Mangalore Tq., Dakshina Kannada
206686	Sapna.M.Nadagoudar M.C. Nadagoudar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24167 24.04.09	Nandawadagi Post, Hungund Tq, Bagalkot
206687	Sarah Taranum Sadiq Ahmed Sharief	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29780 29.09.12	# 38/1, Goodwill Manor Appartments, 3rd Block, Sultanji Gunta Rd. Shivajinagar Bangalore
206688	Sarala. T.B Basavarajappa. J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23865 09.04.09	# 1574/16, ?A? Main Rd, Shivakumarara Swamy Extn, 2nd Stage, Davangere
206689	Sarannya N Satheesh Sumith Padmanabhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29754 29.09.12	# 236, SouparnikaAkurali Panvel Post & Tq, Raigad
206690	Saranya C C Ramanujam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28946 26.04.12	No.58, 1st B Cross, 5th Main Nr.Sai Baba Temple Ags Layout Bengalore
206691	Saraswathi Chidanandappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29289 17.05.12	Shree Devi Chikitsalaya, Marali post, Acharnarasapur Gangavathi TQ, Koppal
206692	Saraswathi Vijay Kr Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26498 07.04.10	# L-197, Nijalingappa Clny, Raichur
206693	Saraswathi. H.R Ramakrishnaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27372 24.03.11	Hosahalli, Dornahalli, K.R. Nagar, Mysore
206694	Saraswati Amaranna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30469 07.06.13	Malahalli, Tq Shorapur, At Post Parasanahalli, Yadgir
206695	Saraswati Ganachari Virupaxi .R. Ganachari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27836 08.04.11	No.733/6/C/D/14, Basava Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
206696	Sarika Sangappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28574 19.10.11	# 182, # 26, 27, Tripuranth, Basava Kalyan Tq, Bidar
206697	Sarita Saibanna.N. Metri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27743 06.04.11	11-862/IQ/2, Ashok Nagar, MSKMill Rd Nr Water Tan, Gulbarga

206698	Saritha P K SuKran Nair	BAMS Kerla University 1989	29898 24.12.12	No. 425, 4th C Main, HRBR II Block, Kalyan Nagar, Bangalore
206699	Saroj Sunilkumar Ram Dular Saroj Ram Dular.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25552 05.03.10	Navnagar, Ron Tq, Gajendragad, Gadag
206700	Saroja Bannigol. H Hanumanthappa Bannigol.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23980 18.04.09	PWD Division Office, Mulagundanaka, Gadag Tq &
206701	Sarojani Kuchanur Mahalingappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24304 29.04.09	Kumbhar Galli, Rabkavi Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
206702	Sarojani Patil Satagouda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30588 31.07.13	Bhoj, Tq-Chikkodi, Belagaum,
206703	Saroji Kumari Sangappa.N. Hadapad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28497 26.07.11	# 69, Gevarchand Nagar, Medi. College, Bijapur
206704	Sarvamangala Mohan Upadhyaya.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27732 06.04.11	MIG-6, KHB Clny, Kodangallu Post, Mangalore Tq, D.K.
206705	Sateesh Kumar. N Doddabasappa. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25632 06.03.10	Nr. Ayyappa Swamy Temple, EshwarnagarRanebennur Tq, Haveri
206706	SateeshagoudaDannappanavar N Dannappanavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27559 29.03.11	Panigatti, Kyalakonda, Shiggaon Tq, Haveri
206707	Sathe Geetanjali Anandarao Anandarao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24944 10.06.09	V.B. Gingimath, M.B. Kalal Bldg, Nr Venkatesh Theater, Mundargi Tq, Gadag
206708	Sathe Sachin Ganpat Ganpat Balu Sathe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30030 15.04.13	143/3, Gulmohar, Vijayalaxmi Park, , Karve Naka, Tq-Karad, Satara, Karad
206709	Satheeshkumar. H.G Gorappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27381 24.03.11	Chowla Hiriyur, Kadur Tq, Chickamagalur
206710	Sathish Chandra. S Seetharama. K.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27259 22.03.11	# 5/1 (417), 11th Main, 4th Block, Nandhini Layout, Bangalore
206711	Sathish Pethe Siddappa Pethe.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24449 05.05.09	Kittali Post, Badami Tq, Bagalkot
206712	Sathisha C Chandroji Rao S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30219 30.04.13	Mallapura Village, Marata Street, Mydolalu Post, Bhadravathi Taluk, Shimoga
206713	Sathyanarayana. N.G Govindaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26036 19.03.10	Bandekeri, Nuggehalli, C.R. Patna Tq, Hassan
206714	Satish Narayanrao Kamble.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28619 05.11.11	Govt. Hgh School, Teacher Clny, Aurad (B) Post, Bidar
206715	Satish B Hanchinamani Basavarajappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28566 19.10.11	Kelavara Koppa Post, Hangal Tq, Haveri
206716	Satish Nippani Manohar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26650 05.05.10	SBI Clny, Mudhol Tq. Bagalkot
206717	Satish.M.Patil Mallikarjun.K. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28145 26.04.11	Kellur A/P, Jewargi Tq, Gulbarga
206718	Satyam Kumar Singh Shri Sach Pal Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26736 28.06.10	C/o DGMAYurvedic Medical College, Gadag
206719	SatyanarayanMastammanavar R.N. Mastammanavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25231 15.10.09	Suranagi Post, Shirahatti Tq, Gadag

206720	Saumya Mariam Sam John Saumel.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28526 10.08.11	# 49, Indiranagar, Bangalore
206721	Saurabh Kumar Singh Rajendra Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25156 29.09.09	# 227, Mahaveera Nilaya, Narasaraja Rd. Davangere
206722	Savadkar Kunal Sham S Ramchandra Savadkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24793 04.06.09	Plot.No. 835, Vasant Vihar, 2nd Stage, R.C. Nagar, Belgaum
206723	Savita Dhondiram Patil	BAMS Shivaji University, Kolhapur 1994	29750 29.09.12	Patil Clinic, # 541, Patil Galli, Kanabargi At Post, Belgaum
206724	Savita Baheti Nandakishore Baheti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24300 29.04.09	# 298/A, Gajendragad Post Ron Tq, Gadag
206725	Savita Biligiriranga Naik V. Beligiriranga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24249 28.04.09	D.No. 947, 22nd Cross, SIT, Tumkur
206726	Savita Chougule Shivaji Chougule.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27245 22.03.11	# 33, Ranganatha Extension, Harohalli, Kanakapura, Ramanagar
206727	Savita Desai Irapa Satyappa Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27817 08.04.11	Katakabhavi A/P, Raibag Tq, Belgaum
206728	Savita Gachinmani Nagaraj Gachinmani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29852 05.11.12	Veerabhadreswara Nilaya, Church Rd. Ranebennur Tq, Haveri
206729	Savita Jodangi Veerabhadrapa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30452 04.06.13	At Post Devagaon, Tq Bailhongal, Belgaum, Devagaon
206730	Savita Panchabhai Maruti Rao Panchabhai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26868 07.09.10	?Gangotri?, Kalidas Nagar, B.V.B. College Rd. Bidar Tq &
206731	Savita Toravi Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25473 03.03.10	Havinal Post, Indi Tq, Bijapur
206732	Savita Vangi Sangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30107 19.04.13	Shahapur Gate, Patel Galli, Jail Rd. Bijapur
206733	Savita.K.Mane Krishnajirao.B.Mane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24856 06.06.09	Honnakatti Post, Bagalkot Tq &
206734	Savitha K.B.Badiger	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28908 26.04.12	No.4-601/36A, M.G.Rd. , M.B.Nagar, G.G.H. Post, Gulbarga
206735	Savitha M. Ramesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27722 06.04.11	No.1-170-22, Thirlalpalke, Vishweshwara nagar, Udupi
206736	Savitha K. Mahesh P. Savalagimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27000 20.12.10	Q.No.14, Herwadkar Building, 1st Gate, Tilakwadi, Belgaum
206737	Savitha Kumari R. Ramu.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26728 28.06.10	Banahalli Rd.Chandapura, Anekal Tq., Bangalore
206738	Savitha Y P Yallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30383 22.05.13	Janatha Bazaar, Neelakanteshwar Temple Rd. Chitradurga
206739	Savitha. H S.G. Hallalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25446 02.03.10	Anugraha, Darga Rd Harihar Tq, Davangere
206740	Savitha. N.S Kotragouda. N.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23894 09.04.09	Nandihalli Post, Huvinhadagalli Tq, Bellary
206741	Savitha.V.Kudari. Veerappa.N.Kudari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24494 11.05.09	2nd Main, Keshavanagar, Yantrapur, Harihar Tq, Davangere

206742	Savithri Belakud Irappa Belakud.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25927 17.03.10	# 131A, Kalloli, Gokak Tq, Belgaum
206743	Savitri Siddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27835 08.04.11	Front of Post Office, Jeeweshwar Nagar, Shahapur Tq, Yadagiri
206744	Savitri Desai Basavaraj A Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28967 26.04.12	Nr. Kalika Nagar, Sindagi At Post & Taluk Bijapur
206745	Savitri Karigoudar Sanganagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26086 19.03.10	Koppal Cross, H.M. Nagar, Mundargi Tq, Gadag
206746	Savitri Kukadolli Patreppa.N.Kukadolli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25225 14.10.09	# 550/1, Vadgaon, Belgaum
206747	Savitri Masti Suresh Shivappa Kittur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28645 30.11.11	Mathoshri Plot No.76A/3G, Nadger Compound, Saptapur, Dharwad
206748	Savitri Ronad Shrinivas.S.Ronad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26073 19.03.10	Vidyanagar, Hubli Tq, Dharwad
206749	Savitri Shintri Mallikarjun Shintri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24539 13.05.09	# 3202, Ramapursite, Sauntadatti Belgaum
206750	Savitri Shrisailappa Shrishailappa Nidavani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30019 10.04.13	Shivaganga Building, Shrinagar 1st cross, Dharwad-Tq &
206751	Savitri Telsang Channabasappa Telsang	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27852 08.04.11	H.No.2346, Hatti Holigalli, Nath Pai Circle, Goaves P. O., Shahapur, Belgaum
206752	Sawankumar Shivram Rathod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28492 26.07.11	H.No. 129/2, Revensiddesh war ClyKapnoor Rd. Gulbarga
206753	Sawant Arjun Popat Sawant Popat Dnyanu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24524 12.05.09	Balanagar, Behind Ayurveda College, Manvi Tq, Raichur
206754	Sawant Rahul Vishnu Vishnu B Sawant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24133 22.04.09	Mruthynjay Ngr, Banshakari Layout, Ranebennur Tq, Haveri
206755	Sawant Sanjay Shesharao Sawant Shesharao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30312 10.05.13	A/p Bori (Sawant), , Tal-Basmath Hingoli, Bori
206756	Sawant Santosh Arun. Sawant Arun Khanu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24147 22.04.09	Indira Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
206757	Sawant Sneha Suresh Suresh Bhagwant Sawant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29167 11.05.12	1D505, Neelganga Chs, Shankarrao Naram
206758	Sayeed Ahmed Shaik Shaik Khadeer Basha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29789 12.10.12	#4-385-3, A.E.R In Badvel MainRd. G VSatramNandalam Pet Post, Kadapa
206759	Sayyadmustafa Khaji Basheer Ahmmad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29215 14.05.12	Fakkieshwara nagar 3rd Cross, Shirahatti & Post, TQ, Gadag
206760	Sayyadsha Mulla Khadir Shah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26158 20.03.10	Kalyan Nagar, Sindagi Tq, Bijapur
206761	Saziya Begum Abdul Raheman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27391 25.03.11	# 1-132, Hafiza F.M. Complex, Katpady, Udupi
206762	Seema Syed Muntaj Pasha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	29855 05.11.12	Nr. M T M Theater, Sindanoor, Manvi Tq, Raichur
206763	Seema Akther Mohammed Amanulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24230 28.04.09	# 2466, W/c-22, Ashok Rd.Lashkar Mohalla, Mysore

206764	Seema B.M Kotraiah B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30281 07.05.13	H.No. 7/31, 3rd Main, Sarakki, J.P. Nagar 1st Phase, Bangalore
206765	Seema Chavan S.J. Ilkal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25238 16.10.09	# 86, S.R. Clny, Jalanagar, Bijapur Tq &
206766	Seema Jodageri Appayappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29223 15.05.12	No 146/4B, Plot no 24, 1st Cross , Vivek Anandnagar Gokak Belgaum
206767	Seema Patil Arjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30127 19.04.13	Sahadev Nagar 1st Cross, Plot No 70, Nr. Murudeshwar Factory, Dharwad , Hubli
206768	Seema Rampal Sunil Kr Vashistha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	28578 19.10.11	5th Cross, HongsandraBegur Rd. Bowmanahalli, Bangalore
206769	Seema Rani Gurulingappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25874 12.03.10	Om Sai Agencies Haralayya Chowk, Basav Kalyan, Bidar
206770	Seemantini Vadiraja Acharya. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24028 20.04.09	# 8-1-52/A,
206771	Seeta. H Hanumantappa Haugeri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26194 22.03.10	2nd Ward, Ginigari Post, Koppal
206772	Shabana Azmi. M.A Azeez. M.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28640 21.11.11	# 524, M.G. Rd. Back Side, Udaygiri Post, Mysore
206773	Shabanabegum Khaleel Ahmed.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25295 27.11.09	# 3-1-7, Diddkera Street, Koppal Tq &
206774	Shabasheeruddin Shamshuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29105 07.05.12	No 1370/1, 3rd Cross MuslimBlock Halagur Malavalli Mandya
206775	Shabbir Ahmed Gulam Dastageer	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27079 15.03.11	D.No.2115, 6th Cross, M.J.NagarHospet Tq, Bellary
206776	Shabeen Banu Mohammed Rizwan Mulla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25893 12.03.10	Plot.No. 6B, 7, 8, 2nd Cross, Belgaum
206777	Shafeeq Ahmed Abdul Mujeeb	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30243 02.05.13	Khadria Ric Mill, Muslim Block, K R Nagar Tq , Mysore
206778	Shah Akshay Pradeep Pradeep Girdharlal Shah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25003 19.06.09	# 3129, 3rd Block, Janapriya HeightsMallasandra, Bangalore
206779	Shah Niketa Navinitlal Navnitlal Kantilal Shah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23822 04.04.09	Plot.No. 7, Nipani Post, Chikkodi Tq, Belgaum
206780	Shahabanu Mujawar Goodasaheb Mujawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26555 13.04.10	C/o. A.M.Kalaraki Gajendragad, Ron Tq., Gadag
206781	Shahane Amol Manohar Sree Shahane Manohar Eknath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25551 05.03.10	Nr. Rangraj Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
206782	Shaheen Asma. Mohd. Hussain Hirevalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24391 05.05.09	# 527, A Type, BEML Nagar, Kolar
206783	Shahebani Zainuddin Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26954 29.10.10	Nr. PDJ High School Ground, Krishna Nagar, Bijapur
206784	Shahnawaz Diwan G.H. Diwan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25098 17.08.09	# 752, 5th Main, Raghavendra Block, Srinagar, Bangalore
206785	Shaika MahammedWasim Malvi Abdur Razzaq	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29336 18.05.12	Nr. jamia majid, Nagenahalli Hosepet Bellary



206786	Shaikh Abdulhai Shaikh Mohamed Bashir.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24654 22.05.09	# 79/A, Navaraspur Clny, Opp New Court, Bagalkot Rd. Bijapur
206787	Shaikh Ashif Bashir Ahamad Shaik Bashir Ahamad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24444 05.05.09	H.No. 4-601/34A, 4th Cross, M.B. Nagar, Gulbarga
206788	Shaikh Javed Abbasmiya Shikh Abbasmiya Yakub.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24679 28.05.09	Boy's Hostel, Mamadapur Bldg, CollegeRd Badami Post & Tq, Bagalkot
206789	Shaikh Naazyza Iqbal Shaikh Iqbal Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26733 28.06.10	Opposite Kaulekar Chawl, Flourmill, Hubli Tq., Dharwad
206790	Shaikh Nazia Farheen Shavkat Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29713 31.07.12	E-7-3639/1, K B N ENG College Rd.New Bank Clny, Bilalabad Gulbarga
206791	Shaikh Parvez Ramzan Ali Ramzan Ali Shaikh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24800 05.06.09	5th Cross, New House, Nr. Primary Beals Baby School, Shimoga
206792	Shaila Hiremath Ashok.S.Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25654 06.03.10	Vidya Nagar, Talikoti Post, Muddebihal Tq, Bijapur
206793	Shaila Shri Hadakar Siddappa Balappa Hadakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27517 28.03.11	Harugeri Cross, Harugeri, Raibag Tq, Belgaum
206794	Shaila. Shivaygi.S.Bhadre.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24972 11.06.09	Hanuman Temple, Aland Tq, Gulbarga
206795	Shaila.S.Huilgol Shanmukha.B.Huilgol.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23834 06.04.09	Gunnal (Via Bavoor), Yalaburga Tq, Koppal
206796	Shailaja Ganesh Reshmi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24623 18.05.09	Hitnal Post, Koppal Tq &
206797	Shailaja M Pujar Mallayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30100 18.04.13	A/p Budarakatti, Tal-Bailahongal, Belgaum, Budarakatti
206798	Shailaja Mantanavar. Y G Mantanavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29006 27.04.12	Kamala Dinni , At & Post, Gokak Taluk Belgaum
206799	Shailesh . Vittala Devadiga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25155 26.09.09	Municipal Councillor Girija Niwas, Vishal Nagar Kodangallu Post, Moodbidri
206800	Shailesh. D.S Shrishara Bhagavathi. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25948 17.03.10	# 1/87, Harihara, Pallathadka, Sullia Tq, Dakshina Kannada
206801	Shailesh. Y Yajnarayana. N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24168 24.04.09	# 6-84, Nejar, Nr Ashwath Katte, Santhekatte, Udupi
206802	Shailshree.G.Koppal Gundappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25471 03.03.10	Yankanchi Post, Sindgi Tq, Bijapur
206803	ShakeelahmedSunnakhan Abdul Majid Sunnakhan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28573 19.10.11	3rd Main, 6th Cross, Gourishankar Nagar, Ranibennur Tq, Haveri
206804	Shakti Mathad Basavaraj Mathad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24961 10.06.09	K.C.C Layout, Plot.No. 5, Navanagar, Hubli Tq, Dharwad
206805	Shakuntala HGadadavar Honakerappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30591 31.07.13	At Post-Gavarawad, Tq & Gadag
206806	Shakuntala b Babu Malipatil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29569 12.06.12	Beside Bhurle Hospital Main Rd.Basavakalyan Tq, Bidar
206807	Shakuntala.S. Pujeri Satyappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27067 15.03.11	Kurabar Oni, Arabhabi A/P, Gokak Tq, Belgaum

206808	Shalini . K.S. K. Shantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26911 27.09.10	#32/37, 6th Main, Gnanajyothi Nagar, Bangalore
206809	Shalini S Satheesha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29669 19.06.12	# 32, Type-III, CSR & TI Staff Quarters, Vidyananya Puram, JLB Road, Mysore
206810	Shalini. T.V T.L. Vijayanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24276 29.04.09	# 148/1, Gagana, Surveyor's Street, Gandhi Bazar, Bangalore
206811	Shalini.K. Aghanashinikar Kamalakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 1997	24294 29.04.09	Door.No. 7-3-198/9, Buloor Kuchikai, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
206812	Shama Afroz N Savanur Nur Ahamed B Savanur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26688 28.05.10	SNS, 22/3 A, Sagar Rd.Bhatkal Tq. Uttar Kannada
206813	Shambhavi. K Krishnegowda. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27384 25.03.11	# 212, Telecom Layout, Bagadhi 2nd Stage, Mysore
206814	Shambhu K Kuravinsheetti Basappa Kuravinsheetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25980 18.03.10	Yarebudihal Post, Kundagol Tq, Dharwad
206815	Shambhu Kumar Suman Ramesh Mukhiya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30620 28.08.13	Vill-Madhura, P.O. Chauhatta, Via- Tharbhitta, P.S. Kishanpur, Supaul, Bihar Supaul
206816	Shambhuling Hebballi Shivappa. J. Hebballi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26889 16.09.10	EWS-232, Karnataka Circle, Navanagar At & Post, Hubli Tq, Dharwad
206817	Shameera Am Astheer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25928 17.03.10	# 25, Kuvempunagar, Heriyur, Chitradurga
206818	Shamshad Begum Mehaboob Devadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25474 03.03.10	Type-6, H.No. 32, RTPS Clny, Shaktinagar, Raichur
206819	Shankar Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29110 07.05.12	Patalli Cloth MerchaniShree Ram Market Aland Gulbarga
206820	Shankar Matapathi Eshappa B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30124 19.04.13	# 39, Mehta Layout, Nr. Al-Ameen Urdu School, Old Jewargi Road, Gulbarga
206821	Shankar. B.R Rajashekar. B.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24860 06.06.09	Belagumba Post, Arsikere Tq, Hassan
206822	Shankara Charya Narayana Pattar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29421 23.05.12	Meshthi Peth Mudgal at post, Lingasugur Tq, Raichur
206823	Shankarling Ghooli Siddappa Ghooli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25457 02.03.10	Pandarapur Rd, KEB Chadchan Post, Indi Tq, Bijapur
206824	Shankranna Nadagoudra Hanamantraya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27177 18.03.11	Nadagoudra, Rakkasagi Post, Muddebihal Tq, Bijapur
206825	Shanmukha Raddy Mohan Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29779 29.09.12	Nr. Tulaja Bhavani Temple, Shree Ramanagar Attikolla Dharawad
206826	Shanmukhappa Irannanavar Veerabhadrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24695 02.06.09	Narayan Gurunagar, Chipagi Post, Sirsi Tq, Uttar Kannada
206827	Shantabai Ingale B.D. Ingale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30066 16.04.13	Shahapur Peth, K.K. Rd, Behind Police Ground, Bijapur
206828	Shantappa Havannavar Mantappa.R. Havannavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28641 21.11.11	KannurAt & Post, Bijapur
206829	Shantkumar Subhash Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26702 01.06.10	Ghodhipparga, Joladapka Post, Bhalki Tq., Bidar

206830	Shanu Nadaf Rajaksab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27530 28.03.11	Kamaldinni At& Post, Gokak Tq, Belgaum
206831	Sharad Hasikar Gangadhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24042 20.04.09	Ward No.6, Haradolli, Nr Durga Temple, Guledgudd, Bagalkot
206832	Sharad Kulkarni Prahladrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30343 20.05.13	#77, 4th Phase, Behind Chetan College, Akshay Clny, Vidyanagar, Hubli
206833	SharadKumarVishvakarma Gayaprasad Vishvakarma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27149 18.03.11	C/o. SVM Ay. Medical College, Ilkal Tq, Bagalkot
206834	Sharada Chandrasah Gatty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28514 08.08.11	# 8/92/A, Daya Nilaya, Ashoknagar, ShediguriMangalore Tq, Dakshina Kannada
206835	Sharada GurupadappaHotti Gurupadappa.B.Hotti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26072 19.03.10	# 24, Nr. Dyammavva Temple, Kamalapur, Dharwad
206836	Sharada Khanal Tikaram Sharma Khanal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30150 24.04.13	SDM College of Ay. & Hospital, Thanniruhalla, B.M. Rd. Hassan
206837	Sharada Madiwalar Kariappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30380 21.05.13	Ningapur Galli, Tq Khanapur,
206838	Sharada Yalavar Shivappa Yalavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28389 09.06.11	#266, K.K.ClnyB.Bagewadi Rd. Jananagar Bijapur
206839	Sharana Raju Vittal Waggi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29203 14.05.12	No 9-50/81, Behind Old Tahsil Office, Basaveshwar nagar Shahapur , Yadagir
206840	Sharanagouda Patil Shankaragouda V Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29491 25.05.12	Korawar At Post, Sindagi Tq, Bijapur
206841	Sharanesha.K.N. Nagappa.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26787 19.08.10	Kanamadugu PostKudligi Tq, Bellary
206842	Sharaschandra. P Ramachandra. C.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25785 12.03.10	# 3879, Behind GJC Laxmishanagar, Kadur Tq, Cickmagalore
206843	Sharat Meti Basavaraj.S.Meti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28520 08.08.11	Dhanvantri Clinic, Koppal Main Rd.Mundargi Tq, Gadag
206844	Sharath .S Sri Rangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28921 26.04.12	HosadurgaAt Post & Taluk , Chitradurga
206845	Sharath Kumar. B.R B. Ramakrishnappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26053 19.03.10	# 2, Saptagiri Nilaya, NMC Rd, Hosamane Bhadravathi, Shimoga
206846	Sharath. S.G Ganesh. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24568 14.05.09	Manjushri, 60ft Rd. 3rd Cross, Vinobanagara, Shimoga
206847	Sharda . Ramakrishnappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25475 03.03.10	Chowdeshwari Clny, Chintamani, Chikkaballapur
206848	Sharda Biradar Shiddanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30329 16.05.13	At Post Hulyal, Jamkhandi Tq, Bagalkot , Hulyal
206849	Sharika Menon S PG.Sathish Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29196 14.05.12	No 20/224, Saptami, Chembai puri, SunderIyer Rd, Ottapalm At & Post, Palakkad
206850	Sharika Rai. K Prabhakar Rai. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25680 12.03.10	1st Cross, Kankanady, Valancica, Mangalore, Dakshina Kannada
206851	Sharomy K. Sadashiv.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24836 06.06.09	# 4-57/1(3), Surathkal Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada

206852	Shashibindu Venugopal.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28424 20.06.11	D.No. L-91, Shreenivasa, 4th Cross, 2nd Stage Gangotri Layout, Mysore
206853	Shashidhar Hadimani Girimallappa Hadimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25790 12.03.10	Adhyapak Nagar, Naragund Tq, Gadag
206854	Shashidhar Tumbagi Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26525 08.04.10	AmingadPost Hungund Tq., Bagalkot
206855	Shashidhar. A Prabhulingum Gouda. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25477 03.03.10	# 8-1-656, Sundeep Clny, APMC Rd. Deodurga Tq, Raichur
206856	Shashidhara.N.K. Kaniyappa.N.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27088 16.03.11	#37, Kusuma Nilaya, Subbayapalya, M.S. Nagar Post, Bangalore
206857	Shashikala. K Suresh.S.Hadimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24393 05.05.09	# 999/8, Raibag Tq, Belgaum
206858	Shashikala. R Veeranna Gowda. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24708 03.06.09	Metri Post, Hospet Tq, Bellary
206859	Shashikala. V.D. Vijay Kalinga Dhaninamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26545 12.04.10	Plot.No.38, 4 Usha Clny, Baurate Rd. Belgaum.
206860	Shashikala.C.Gudageri C.G.Gudageri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24538 13.05.09	Plot.No. 28. Sainagar, Kelgeri Rd. Dharwad
206861	Shashikant Hanamantrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23925 09.04.09	# 2781/8, 3rd Main, VV Mohalla, Mysore
206862	Shashikant Nagnath.V.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25623 06.03.10	Plot.No. 45, GDA Clny, Gokul Nagar, Gulbarga
206863	Shashikantayya Virupaxshayya. D. Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26772 11.08.10	#4581/H, Plot No.23, Ashirwad BuildingBasav Clny, Belgaum
206864	Shashikanth Hiremath Doddabasavayya Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24045 20.04.09	# 1-12-45/2, Dody Clny, Raichur
206865	Shashikhara.R. Rudreshaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28122 25.04.11	#643, Adarshanagar, Arisinakunte, Nelamangala Tq, Bangalore Rural
206866	Shashirekha BagodiTyagaraj Tyagaraj B Bagodi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26621 27.04.10	#08, Manvichal, Gadag Tq. & ,
206867	Shashirekha. S.D Y. Dasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24252 28.04.09	# 1049, 29th Cross, SIT Extn, Tumkur
206868	Shayistabanu Lohar Nazir Ahamed L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28333 25.05.11	Gowri Shankar Nagar, 6th Cross, IIIMain, Ranebennur, Haveri
206869	Shazia Almas Sultana Afroz Pasha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28298 25.05.11	#838, 14th Cross, Chandralayout, 1st Stage, Bangalore
206870	Shazia Sayed Syed Makbool	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28941 26.04.12	No.3-428, B/H, Hiran Society, KukkundoorPost Jayanthinagar, Karkala Taluk Udupi
206871	Sheela Duganavar C B Duganavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29007 27.04.12	652/C , Shindi Kurbet Gokak Taluk Belgaum
206872	Sheela Halasi Laxman.M.Halasi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27823 08.04.11	Mudalagi A/P, Gokak Tq, Belgaum
206873	Sheela Hatti Balachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30488 13.06.13	At Post B.M. Hatti, Markandeya Nagar, Falls Rd. Gokak, Belgaum

206874	Sheela Hosallimath Shekharayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30104 18.04.13	G.R.G Arts & Y.A.P. Commerce College, Indi, Bijapur , Bijapur
206875	Sheelabai Hajeri Sitaramsing Hajeri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25247 24.10.09	Bistigalli, Talikote Post, Muddebihal Tq, Bijapur
206876	Sheetal B Arikera Bheemaraya M Arikera	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29453 24.05.12	# 70, LIG KHB Clny, Subash Nagar, Keshwapur, Hubli Tq, Dharwad
206877	Sheetal S T ShivKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30483 12.06.13	At Holsamudra, Tq Aurad (B), Bidar
206878	Sheetal Subhash Rodd Subhash Tatoba Rodd.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28439 20.06.11	Gandhi Chowk, BargaonAt & Post, Chikkodi Tq, Belgaum
206879	Sheetal VishwanathTanvashi Mallappa	BAMS Shivaji University, Kolhapur 1996	29728 09.08.12	Tanvashi Hospital, Yaragatti At & Post, Saundatti Tq, Belgaum
206880	Sheetal. V Pandurang. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27161 18.03.11	Plot.No. 127, NGO's Clny, Jewargi Rd. Gulbarga
206881	Sheetal.S.Khanaji Shrimant.N.Khanaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24696 02.06.09	# 20/B, Laxmi Galli, Dhamane (S), Belgaum
206882	Shekh Aijaj Shekh Iqbal Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28417 20.06.11	C/o AmruthaAMC, Chitradurga
206883	Shelar Tilottama Kisan Shelar Kisan Namdeo.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24134 22.04.09	Vidyanagar, 5th Cross, Bailhongal Tq, Belgaum
206884	Shenavi AbhijeetNarayan Shenavi N Dondiram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27198 19.03.11	MG Housing Socity, Dharwad Bypass Rd, Bailhongal Tq, Belgaum
206885	Shendage PratimaRamchandra R Vithoba Shendage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29273 16.05.12	Zare at post, at Padi TQ, Sangli
206886	Shendage Tushar Shivaji Shendage S Vitthal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24476 11.05.09	BVVSBoy's Hostel, Bagalkot
206887	Shendkar ShilpaRamdas Ramdas B Shendkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28313 25.05.11	C/o RGES AMC, Ron, Gadag
206888	Shengani Daksha Jagadish Jagadish Parbat Shengani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29508 26.05.12	Ashapura Tredras Biroba Nagar, Ond At Post Karad Tq, Satara
206889	Sheshagiri Sanga M Anappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24755 04.06.09	Ward.No. 5, Koulpet, Ilkal Post, Hungund Tq, Bagalkot
206890	Shetake DeepaliMadhukar Madhukar A Shetake.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28466 04.07.11	Guruwar Peth, Sangeeta Medicals, Nipani, Chikkodi Tq, Belgaum
206891	Shete Abhijeet Bhaskar Bhaskar D Shete.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25251 24.10.09	Nr. Old Parrwar Dhaba, Sindhnor, Manvi Tq, Raichur
206892	Shete Madhura Vijaykumar Shete VijayKr Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25085 04.08.09	Bhavani Nilay, Akki Clny, Ashram Rd. Bijapur
206893	Shete Mayuri Arunrao Arunrao V Shete	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28810 13.04.12	Vakil Clny, Gangakhed Darabhani
206894	Shete Swarupa Mahaling Mahaling Mahadev Shete	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29220 15.05.12	Sbi Clny, Vaibhav State Bank Clny No Solapur
206895	Shete Swati Maruti Shete Maruti Malhari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29854 05.11.12	Bavada At & Post, Indapur Tq, Pune

206896	Shettar Savitri Iranna Iranna C Shettar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24921 10.06.09	Kalidas Galli, Sindagi Tq, Bijapur
206897	Shetty Chaitali Vasudeva Vasudeva.V. Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23772 03.04.09	C/o. SDM College of Ayurveda, Thanirhalla, B.M. Rd. Hassan
206898	Shetty Mamatha Gopal Gopal Appanna Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29189 14.05.12	Plot No 34, Sector 9, Khanda Clny , Navi Mumbai , Rahhad
206899	Shewale Pradip Dileep Shewale Dilip Ananda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28644 30.11.11	Sujemalleshwara Nagar, Bellary Rd, Challakere Post & Tq, Chitradurga
206900	Shewtha Rai Sankappa Rai. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25954 17.03.10	No. II-375, Padil APMC Rd.Puttur Tq, Dakshina Kannada
206901	ShiddanagoudaBhishtanagouda . Karabasabagouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29272 16.05.12	Behind Govt High School, Kabbur at post Haveri TQ &
206902	Shifa B. Abdul Kasim.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26182 22.03.10	Kashibettu, Laila Post, Belthangady Tq, Dkashina Kannada
206903	Shifa Parveen Dawood Saheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24957 10.06.09	# 1-113, Brahmavar, Udupi
206904	Shikalgar AfsanaGausmohiddin Gausmohiddin S Shikalgar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30172 25.04.13	A/p Dudhgaon, Ta-Miraj, Sangli, Dudhgaon
206905	Shikh Aspak Ahmed Israr Israr Ahmed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29683 29.06.12	Opp Wadaga Police StationRamamatawadi Post, Wadala (E) Tq, Mumbai , Pin
206906	Shikotra Jayeshkumar Pravinbhai.M. Shikotra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	28120 25.04.11	#102, Bhardwaj, SBM Clny, Hassan Tq &
206907	Shiksha Thakur M.S. Thakur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27927 12.04.11	21st KM, Kanakapura Rd. Udayapura, B?lore
206908	Shilapashree K.H Kalappa. R. Hangaragi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28895 20.04.12	No 4-174/175 , Post & Taluk , Yadagiri
206909	Shilavant Indi Tippanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24466 11.05.09	Gyangbowdi, Nr. General Gostel, Bijapur
206910	Shilpa Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28754 02.04.12	# 8321, Priyanka Nilaya, Sarvodaya ClyBasavakalyan Tq, Bidar
206911	Shilpa Rudrappa Jalihal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29257 16.05.12	Adarsha Clinic, Subhash Chowk , Brahmhapur Gulbarga
206912	Shilpa Vishwanath Hegne	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30442 01.06.13	P.No. 9 and 10, SangameshwarNilaya, R.T. Nagar, Gulbarga
206913	Shilpa Povappa Banjan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30446 03.06.13	Kanchinagoli House, Badagulipadi Village, Tq Mangalore, Dakshina Kannada
206914	Shilpa Panduranga	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30555 16.07.13	# Plot No. 54, Ambanivas, BhagyavanthiNagar, New Jewargi Rd. Gulbarga,
206915	Shilpa Gunderaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23703 01.04.09	H.No. 9-587/94(A)/104, J.R. NagarNr. Khadri Chowk, Aland Road, Gulbarga
206916	Shilpa Shrinivas Hanchate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26039 19.03.10	# 1-8-27/3, Mahaveer Rd. Yadgir Tq &
206917	Shilpa Manohar Rao Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27127 17.03.11	Hulsoor ? A/P, Basava Kalyan Tq., Bidar

206918	Shilpa DhandiramShewale Manoj Haridas Shitole.	BAMS M.U.H.S., Nashik, 2006	28455 27.06.11	# S-003, 2nd Cross, ShivashankarPearls, Udayanagar, Bangalore
206919	Shilpa Dhavalagimath Amaresh. G Dhavalaginath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28766 05.04.12	# 61, Baglkotkar Layout, Ashram Rd. Bijapur
206920	Shilpa Ganti MS Ganti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29079 05.05.12	Deepa BuildingVikas Nagar, Koppal
206921	Shilpa H H H R Honneshaiiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30578 24.07.13	#6, Shree Honneshwara Nilaya, Devappa Coconut Garden Rd, Nagashethi Halli, Bangalore,
206922	Shilpa Halli Shankarappa.C.Halli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24224 28.04.09	Sahakar Nilaya, Narasapur Extn, Betageri Post, Gadag Tq &
206923	Shilpa Hariger Payappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25714 12.03.10	Hulloli Post, Hukkeri Tq, Belgaum
206924	Shilpa Hiremath Shanmukhayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27711 06.04.11	No-18, Adhyapak Nagar, Sub Jail, Hubli
206925	Shilpa Hiremath Parameshwarayya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29946 28.03.13	648/B, Puranikmath Chal, Bailhongal-Tq, Bailhongal
206926	Shilpa Hoolikatti Gurubasappa Hoolikatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24004 18.04.09	FS 12/310, High School Rd. Haveri Tq &
206927	Shilpa Hukkeri Shrishail.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28451 20.06.11	Vivekananda Nagar, 2nd Cross, Pl.No. 20, Gokak
206928	Shilpa Hullalli Shekarappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27362 24.03.11	Pavanashree (H), S.R. Clny, Jalanagar, Bijapur
206929	Shilpa J karaveeramath Jagadeeshwarayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28864 18.04.12	#44, Durga Rd. Ramanagar, Hagari Bommanahalli, Bellari
206930	Shilpa Joshi Raghavendracharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25097 17.08.09	Swamy Prabha, Indrakeela Nagar, Koppal Tq &
206931	Shilpa K Sadashiva	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30472 10.06.13	?Shivaraksha?Kudupu Post, Mangalore
206932	Shilpa KS Sharnappa Katti Mani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29149 11.05.12	Nr. Kalamma Temple, Kabadgera, Shorapur Post & TQ, Yadgiri
206933	Shilpa Karaddi Thimmareddy Karaddi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28211 04.05.11	No.55, Dombarahalli, Bisarahalli, Koppa Tq &
206934	Shilpa Katagi Andanappa Kotagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28716 30.03.12	TuravihalSindhanur, Raichur
206935	Shilpa M Madhu M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30254 03.05.13	Shilpa Nilaya, Nr. Muneshwara Temple, Goragunte Palya, Bangalore
206936	Shilpa MahdevappaBachalapur Mahadevappa Bachalapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23877 09.04.09	# 9-5-450/47, Kinnal Rd. Koppal Tq &
206937	Shilpa Nandennavar Veerappa N Nandennavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29197 14.05.12	No 25/F/2, Basavanagar 4th Cross, Bailhongal At & Post, Belgaum
206938	Shilpa Nimbhal Jayaprakash Nimbhal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28383 09.06.11	#10, Jalanagar, Basavana Bagevadi Rd. Bijapur
206939	Shilpa Pathak Srikant Pathak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25731 12.03.10	# 51, Ganesh Nagar, Kumbarwada CrossManhalli Rd. Bidar (K.S), Bidar

206940	Shilpa Patil Baburao Basvantrao Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27479 26.03.11	Teacher's Clny, # 58, Nr. Ashram, BLDE Rd. Bijapur
206941	Shilpa Patil Kalyan Rao N Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29528 28.05.12	#710/B, AnjaneyDevarhipparla At Post, Sindgi Tq, Bijapur
206942	Shilpa Pattanashetti Shankrappa Pattanashetti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23868 09.04.09	1st Main, 5th Cross, Jayanagar, Gangavathi Tq, Koppal
206943	Shilpa R. Ramachandrappa.H.C.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28360 30.05.11	Kiran Nilaya, Vedavathi Nagar, Hiriyur Tq, Chitradurga
206944	Shilpa Randev Khandoba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25417 25.02.10	Belur Post, Badami Tq, Bagalkot
206945	Shilpa Sannashettar Lingaraj Sannashettar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27480 26.03.11	# 6/5/458, Jawahar Rd.Tegginakeri Street, Koppal
206946	Shilpa Saunshimath B. C. Saunshimath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30074 17.04.13	F-2, Laxmi Complex, Neeligin Rd. Hubli
206947	Shilpa Sheelavantra Mahadevappa Sheelavantra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30070 16.04.13	At Post Surashettikoppa, Tal-Kalagatagi, Dharwad, Surashettikoppa Hubli
206948	Shilpa T Patil Tippanagouda B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28731 02.04.12	Talikati, Bijapur
206949	Shilpa Yadachi Parameshwarappa P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26966 11.11.10	Forester Range, Forest Office, Joida At Post & Tq, Uttar Kannada
206950	Shilpa. A Basavarajappa. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24250 28.04.09	Haluvagalu Post, Harapanahalli Tq, Davangere
206951	Shilpa. A Anil Kr. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25937 17.03.10	# 1-204/3, 4th Cross, Ranganath Nagar, Srirangapatna, Mandya
206952	Shilpa. B.V Venkatachalapathy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27387 25.03.11	# 378, 2nd B Cross, 4th Main Rd.Nagarbhavi, Bangalore
206953	Shilpa. L.S Lokeshappa.H.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27401 25.03.11	Rathna Nivasa, K.K. Hosur, Kudligigere, Bhadravathi, Shimoga
206954	Shilpa. M Mahesh. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24970 11.06.09	# 17, C.V. Rd, 3rd Cross, Bannimantap ExtnBannimantap, Mysore
206955	Shilpa. N Narayan Kampli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	25272 04.11.09	# 4-71/7, Shanti Nagar, Mangalore, Dakshina Kannada
206956	Shilpa. N.B Balakrishna Bhat. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24001 18.04.09	Shipa Farms, Moojurkatta, SunkadakattePost Puttur Tq, Dakshi Kannada
206957	Shilpa. S.N Nanjunde Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23927 09.04.09	# 628, 16th ?A? Cross, Kuvempu Nagar, Hassan
206958	Shilpa. V Vishnumurthy Hebbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24595 18.05.09	# 2894, Laxmipur, Arasikere Tq, Hassan
206959	Shilpa.K.Jambanoor K M. Jambanoor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26195 22.03.10	# 9-7-680/898, 3rd Cross, 2nd, Ward.No. 27 B.T. Patil Nagar, Koppal Tq &
206960	Shilpa.M.Patil Manohar Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25344 29.12.09	# 147, 1st Main, 5th Cross, Narayanpur, Dharwad
206961	Shilpadevi Vastrao Irayya D Vastrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29194 14.05.12	Vinayak nagar, Extension Area , Bagalkot



206962	Shilpasree. K Palakshi Reddy. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23881 09.04.09	Lakshmi Nivas, 7th Cross, Kappagal Rd. Bellary
206963	Shinde Ajit Ashok Shinde Ashok Dnyanu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24841 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
206964	Shinde Amar Ashok Ashok K Shinde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24153 22.04.09	Kanika Parmeshwari Nilaya Niwas, Ron Tq, Gadag
206965	Shinde Digvijay Shankrao Shinde S Hindurao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23850 06.04.09	# 07, EL-Bethel Bunglow, Ram Ngr, Nipani, Chikodi Tq, Belagum
206966	Shinde Jagadish Anil Anil Siddram Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30475 11.06.13	At Post Yeoti, Tq-Tuljapur, Osmanabad
206967	Shinde Mahesh Maruti. Shinde Maruti Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24317 29.04.09	7th Cross, Chalukya NAgar, Badami Tq, Bagalkot
206968	Shinde Minakshi Bhagwan Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30053 16.04.13	Bhaiyya Saheb Ambedkar Nagar, Dhamankar Naka, Thane, Bhiwandi
206969	Shinde Sagar Jagannath Shinde Jagannath Gunda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30101 18.04.13	At Post Morale, Tal-Khatav, Satara, Morale
206970	Shinde Sai Sanjeev Sanjeev M Shinde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24787 04.06.09	H.No.7, EL Bethel, Ramnagar Nipani PostChikodi Tq, Belgaum
206971	Shinde Santosh Dattatray Dattatray R Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23705 01.04.09	# 1920/28, Yadanwadi, MalikwadChikkodi Tq, Belgaum
206972	Shinde Sarika Ashok SAshok Ramchandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24106 22.04.09	Plot.No.7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
206973	Shinde Savita Abasaheb Abasaheb R Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30176 25.04.13	New Bajartal, Phatteshih Nagar, Akluj, Tal-Malshiras, Solapur, Akluj
206974	Shinde Suhas Popatrao Popatrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23851 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School, # 2, Mahadev Galli, Nipani Chikkodi Tq Belgaum
206975	Shinde Sumit Sudhakar S Sudhakar Hindurao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23800 04.04.09	Bapuji Ayurvedic Medical College, Boy's Hospet, Challakere Tq, Chitradurga
206976	Shinde Sunil Sarjerao Shinde Sarjerao Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23838 06.04.09	# 2, Vishwatej Nilay, Indrakil Nagar, Gadag Rd. Koppal
206977	Shinde Swapnil Haridas Shinde H Bhagwan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24658 22.05.09	# 10-2-310-13/A, Syndicate Bank ClyManvi Tq, Raichur
206978	Shindepatil Shyamrao Gangadhar Bhavsahab Shindepatil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24013 18.04.09	FS 12/310, High School Rd. Haveri
206979	Shipate Mandar Suresh Suresh Govind Shipate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25556 05.03.10	Jawale Post, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
206980	Shiraganvi Anil Bhimappa Shiraganvi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25195 08.10.09	Hal-Shiragur, Shiragr Post, Raibag Tq, Belgaum
206981	Shiraj Nandi Hally Rajesab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29179 14.05.12	ChikkalinadahalliAt & Post, Haveri TQ &
206982	Shiram V.Dixit V.L. Dixit.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25111 07.09.09	Fort Masur Post, Hirekerur Tq, Haveri
206983	Shirashyad Vidya Vishwanath Shirashyad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30042 16.04.13	Plot No. 40, Sahastrarjun Nagar, Jule Solapur, Solapur

206984	Shiravale SunitaPrabhakar Shiravale P Sambhaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26514 08.04.10	Padamnagar, Terdal , Jamkhandi Tq., Bagalkot
206985	Shireen Banu Jamadar Mahiboobsaheb	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30161 24.04.13	Kale Plot, Bijapur, Indi
206986	Shireen Sultana Mohd. Moinuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27767 07.04.11	#2-3-244, Raja Bagh, Opp Karnataka Commerce College, Bidar
206987	Shirodkar SuchetaSubhash Subhash S Shirodkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27671 02.04.11	C/o K.R.Hebbar MuniyalInstitute of Ay. Medical Sciences, Manipal
206988	Shirole VinaykumarRavasaheb Shirole R Bhausaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24914 09.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal, Chikodi Tq, Belgaum
206989	Shirolkar Rohit Namdev Shamrav Shirolkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30085 18.04.13	A/p Nigave Dumala, Tal-Karveer, Kolhapur
206990	Shirshad Parashram Shirshad S Gurningppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28968 26.04.12	At & Post, Indi Taluk , Bijapur
206991	Shirur Sachin Gurling Shirur Gurling Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23704 01.04.09	Dhupdal Rd. Ghataprabha, Gokak Tq, Belgaum
206992	Shirvale Prashant Shankar Shankar KShiravale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25037 03.07.09	H.No. Plot.No. 1793, Sector.No. 10Anjaneya Nagar, M.M. Extn, Belgaum
206993	Shital.V.Zingade. Vasantarao Zingade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25459 02.03.10	Anjaneya Extn, # 1828/A28, Opp LIC Clny, Davangere
206994	Shitole Priyadarshini Dilip Dilip B Shitole.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24913 09.06.09	Sankpal, Shamanewadi, Shantinagar, Chikodi Tq, Belgaum
206995	Shiudkar Ranjeet Shamrao Shivdkar S Dattatrya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24138 22.04.09	Totad Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
206996	Shiva Kumar Basavaraj Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27723 06.04.11	E/01, Darshanapur At, Likkinal PostShahapur Tq, Gulbarga
206997	Shiva Prasad Jagadevappa. S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28447 20.06.11	Matru Krupa Home, Nr. RSSBN, Maski, Lingasgur Tq, Raichur
206998	Shivachitralingappa . G.N Gonchi Ningappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26810 19.08.10	H.No.-1, Doddabadi Hally, Oblapura, Challakere, Chitradurga
206999	Shivaji Vithal Rao Dadge.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25738 12.03.10	# 8079, Shivajinagar Clny, Basava Kalyan Tq, Bidar
207000	Shivaji Gopalrao Kore.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27247 22.03.11	Soubhagya Building, Tharisandra Main Rd Thanisandra, Bangalore East
207001	Shivakka Uppar Yallappa T Uppar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29769 29.09.12	Nr. Basavanna Temple Rd. Puradoni, Havert Tq &
207002	Shivakumar Gurushantappa Kumbar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24768 04.06.09	TMC Rd.Kalghatgi Post & Tq, Dharwad
207003	Shivakumar Sanganna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27134 17.03.11	H.No 1795 Basaveswar Nagar, 3rd Cross, Hariberoor Tq, Haveri
207004	Shivakumar Laxmanrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28638 21.11.11	Togloor At & Post, Basava Kalyan Tq, Bidar
207005	Shivakumar Budhihal Ningappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30177 25.04.13	5th Cross, Vidyanagar, Bailhongal Tal, Belgaum, Bailhongal

207006	Shivakumar Chachadi Chandrashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24182 24.04.09	Bazar Rd. Ugargol Post, Soundatti Tq, Belgaum
207007	Shivakumar Ganiger Pundlik Ganiger	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29833 30.10.12	# 04, Ganiger Oni KenganurAt & Post Bailhongal-Tq, Belgaum
207008	Shivakumar Patil Shankar Gowda.R.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28579 19.10.11	Vinayaka Nagar, 1st Main, 2nd Cross Ranebennur Tq, Haveri
207009	Shivakumar Yaragal Shivaputrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30164 25.04.13	Plot No. 41, Gurupadeshwara Nagar, B.B. Rd. Bijapur
207010	Shivakumar.B.N. K.Nagaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26829 25.08.10	Sagarapete, Basavapattana, Channagiri Tq., Davangere
207011	Shivakumarswamy P Parashivaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29822 18.10.12	# 37, Kumbara Beedi, Dobbspet At Post, Nelamangala Tq, Bangalore Rural
207012	Shivaleela Ambaraya.B.Revoor	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27913 12.04.11	House No. 2-909/15/47, Om Nagar, Sedam Rd. Gulbarga.
207013	Shivaleela Mallappanavar Puttappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23880 09.04.09	Kelakar Chaal, Nr A.C. Office Nr Railway Station, Haveri
207014	Shivanagoud Patil Mallagoud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27135 17.03.11	# 236 A, Nr Devi Temple, Rajanade, Talikoti Muddebihal, Bijapur
207015	Shivanagoud.S.Hachadad S.A.Hachadad.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24706 03.06.09	Kudari Salawadagi Post, Basawan Bagewadi Tq, Bijapur
207016	Shivanand Biradar Viswanatha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29731 16.08.12	Teggihallui At Post, Indi Tq, Bijapur
207017	Shivanand Kalasannavar Babu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26031 19.03.10	# 257, Kelagina Oni, Kadaravalli Post, Bailhongal Tq, Belgaum
207018	Shivanand Patil Somaling	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30384 22.05.13	At Post Karaguppi, Tq-Hukkeri, Belgaum
207019	Shivanand Pujer Ashok.S.Pujer	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27872 11.04.11	Koujalagi A/P, Gokak Tq, Belgaum
207020	Shivanand Sajjan Sanganna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26896 17.09.10	#1547, Kurubara Oni, Shanivvar PethKalagaon Banahatti Post Jamkhandi Tq, Bagalkot
207021	Shivanand. C.N C. Nijaguniappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24381 05.05.09	Padma Kuteer, Plot. No. 4, Kuvempu Nagar, Gulbarga
207022	Shivankar VishnukantSantosh Santosh R Shivankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29879 14.12.12	At. Po Brahamangaon, Tq-Umarkhed Yavatmal
207023	Shivappa Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29112 07.05.12	Yagapur At & Post , Chittapur Taluk , Gulbarga
207024	Shivappa Biradar Rudrappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26487 05.04.10	Biradar, Bhantanur, Sidagi, Bijapur
207025	Shivappa Gangal Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26864 03.09.10	III Cross, Tippunagar, Badami Tq, Bagalkot
207026	Shivaprasad. R Rudrappa. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26032 19.03.10	# 141/1, Vidyanagara, Hosadurga Tq, Chitradurga
207027	Shivaprasad.S.E. Eramadaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28653 14.12.11	Seegekote Village, Shivanahalli Post, Kanakapura Tq, Ramnagar

207028	Shivaraj Mallayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28610 05.11.11	Halapur Post, Manvi Tq, Raichur
207029	Shivaraj Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28287 17.05.11	BinjalabhaviAt & Post, Sindagi Tq, Bijapur
207030	Shivaraj Kumar Ashok Rampur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30424 28.05.13	Door No 1/159/6, Nr. Ambedkar Circle, Bhagyanagar, Koppa
207031	Shivaram. N V. Narayanaswamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25595 06.03.10	Antharagange Rd.Keelukote, Kolar
207032	Shivaranjini Kambi Channayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29516 26.05.12	# 93, Channayya Krupa, K. C. Park, 2nd Main, 4th Cross, Sanmathi Nagar Dharwad
207033	Shivashakar PatilAnand Rao AnandRao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28889 20.04.12	Plot No 7 Gokak Rd. , Kanbargi Belagam
207034	Shivasharanappa Eranna Bhagodi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29088 05.05.12	Allolli, At Kalakbapost, Vijapur Rd Solapur
207035	Shivasharanraddy Veerabhadrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23693 01.04.09	# 7-451, Mizguri Rd.Vakkalgera, Gulbarga
207036	Shivkumar Vishwakarma. Rajnath Vishwakarma.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28449 20.06.11	# 19/2, 2ndMain, 5th Cross, Vijayanagar, Bangalore
207037	Shobha Baswanappa Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26869 07.09.10	#9-10-187, Ganesh Nagar, Bidar
207038	Shobha Mahesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29039 05.05.12	Puttur Bone Setters, Gandu Rao Circle, Upperhutta, Bhadrvathi Shimoga
207039	Shobha Mattur Jagadeesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29959 09.04.13	At. Post-MainahalliTq/ Koppal, Mainahalli
207040	Shobha Sannabilagi Chandrashekhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27591 30.03.11	# 3, 15th Cross, Lakshmi Sagar Layout Mahadevpur Post, Bangalore
207041	Shobha. C.M C.M. Manjunatha Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23769 03.04.09	C/o. SDM College of Ayurveda, Thannirahalla, B.M. Rd. Hassan
207042	Shobitha Madhur Krishna M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30134 22.04.13	P.O. Kadeshwalya, Bantwala-Tq, Dakshina Kannada , Puttur
207043	Shoma.V.Nayak. Vinod Kr Nayak. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25806 12.03.10	# 11-2-74E, Pragathi Nagar, Udupi
207044	Shradha Ananth S A S. Ananth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30493 13.06.13	V V-13, Rajashree Cement Works, Aditya Nagar, Malkhed
207045	Shravankumar Yatnal Maruti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28906 26.04.12	Suttatti At & Post , Athani, Taluk Belagam
207046	Shree Vidya. P Panduranga. B.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24245 28.04.09	# 13/11, 6th Cross, Mariyappana Palya, Bangalore
207047	Shree.B.Mudhol Baburao.B.Mudhol.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24395 05.05.09	# 1387/438, Vikrampur ClnyAthani Tq, Belgaum
207048	Shreedevi Hiremath Sangayya.C.Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24184 24.04.09	# 7357, Sector ? 100, Anjaneya Nagar, Belgaum
207049	Shreedevi Siddanna Siddanna.G. Bandaragoti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23727 02.04.09	C/o. Kashinat Dandu Bldg, Opp toPO, BB Rd.Shahapur Tq, Gulbarga

207050	Shreedhar Siddaram Sadlapure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29993 08.04.13	At Post Sarasamba, Tq-Aland, Gulbarga
207051	Shreedhara. B.T. Thimmarayappa. D.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26725 18.06.10	#522, Nr. Ganapathy Temple, At & Post, Turuvekere Tq., Tumkur
207052	Shreehari Kulkarni Chidamber r Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29861 08.11.12	#337/1, 45th Ward, Patel Nagar Hospet Tq, Bellary
207053	Shreenivas Kamble Kempanna Arjun Kamble.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26773 11.08.10	#798, Ambedkar Nagar, Kerur, Chikkodi Tq, Belgaum
207054	Shreesha. K Krishna Manja Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27366 24.03.11	# 928, 9th Main, 4th Cross, 4th Stage, T.K. Layout, Mysore
207055	Shreyas Bharadwaj Ramachandra Kedila.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25950 17.03.10	Kambha Farme Post, Balila, Sullia Tq, Dakshina Kannada
207056	Shreyas. U.K Udaya Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25781 12.03.10	# 1-55E, Surabhi, Gopadi, Koteswar, Kundapur Tq, Udupi
207057	Shridevi Chavan Gangaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26532 12.04.10	Behind Anjuman High School, Indi Tq., Bijapur
207058	Shridevi Gothe Shivabasappa T Gothe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28860 18.04.12	# 153, Mamate NilayaJamakhandi Tq, Bagalkot
207059	Shridevi Jyoti Siddanna.S.Jyoti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24714 03.06.09	# 12, M.G. Rd. Bijapur
207060	Shridevi Nemagoud Ramachandra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25161 01.10.09	Shivanaganga Niwas, # 84, 4th Cross, Bhagyanagar, Belgaum
207061	Shridevi Patil Basanagouda.D.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26279 23.03.10	Bassapur, Aralikatti Post, Belagavi Tq &
207062	Shridevi Reddi Mallappa.S. Reddi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27677 05.04.11	Khedagi A/P, Indi Tq, Bijapur
207063	Shridevi S Subbanna Vailaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29184 14.05.12	Muduvanahalli, Rd. KR Nagar Mysore
207064	Shridevi Sutar Baburao B Sutar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30002 09.04.13	Malapur Last Bus Stop Raj Nagar 2nd Cross, Gulganjikoppa, Dharwad
207065	Shridevi.P B.Shrinivas	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26626 27.04.10	Venkateshwara Clinic, Main Rd.Huvina Hadagali, Bellary
207066	Shridhar Savadatti Shivanappa.S.Savadatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26024 19.03.10	# 705B63, Nandemma Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
207067	Shridhar ShekharappaLakkundi Shekharappa.G.Lakkundi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24673 23.05.09	Type III, H.no. 9, KPC Clny, Shaktinagar, Raichur
207068	Shridhar Waddar Basappa Waddar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26931 06.10.10	Nr. Ashram School, Bijapur Rd.Indi Tq, Bijapur
207069	Shridhar. K Yogeeshappa. K.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24114 22.04.09	KAdurhalli Post, Kadur Tq, Chickmagalur
207070	Shrikanth Arjun Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25442 02.03.10	Nr. Kalyan Mantap, Basavakalyan Post & Tq, Bidar
207071	Shrilakshmi. K.C K.S. Chandrappa Naidu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26169 22.03.10	H.No. 135, 1st A Cross, 2nd Main, LGR Layout, Laggeri, Bangalore

207072	Shrilakshmi. K.S Satyanarayana. K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25984 18.03.10	Land Lord Lakya Rd. Kalasapura, Chikmagalore.
207073	Shrimant Chavan. Gangaram.G.Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24722 03.06.09	Behind Anjuman High School, Indi Tq, Bijapur
207074	Shrimanth Reddy Subhash Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28065 19.04.11	Kankatta At & Post, Humnabad Tq, Bidar
207075	Shrinivas Honwadkar Bihari DHonwadkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25410 25.02.10	# 236/D, Kokatnur Post, Athani Tq, Belgaum
207076	Shrinivas Rathod Dharamsingh P Rathod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28998 27.04.12	Plot no 50, K C Nagar Nr. New DCC Bank Bijapur
207077	Shripad Kulkarni Dattatreya.M. Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28491 26.07.11	Nandihal (P.U), Basavan Bagewadi Tq, Bijapur
207078	Shrishail Halli Channappa Halli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25935 17.03.10	Tadavalaga, Indi Tq, Bijapur
207079	Shrishail S Pujeri Satteppa A Pujeri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30427 29.05.13	# 338, Badiger Oni, Arabhavi, Tq Gokak, Belgaum
207080	Shrishil Amaresh Amaresh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25021 29.06.09	Hudco ? LIG-35, KHB Clny, (J.P. Nagar) Bidar
207081	Shrishma. B S. Balakrishna Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24596 18.05.09	Lasha-Sadan, Hilavana Village, BelviHuilavana Post, Udupi Tq &
207082	Shrividya T R T P Ramachadra Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30564 17.07.13	?Srinikethanam?, Pavanje, Haleyangadi Post, Mangalore, Dakshina Kannada,
207083	Shrti Galabi Hanamant V Galabi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25689 12.03.10	Govindpur Galli, Shivaji Circle, Mudhol, Bagalkot
207084	Shruthan K Mahabhala Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29808 12.10.12	?Bhramaramba? Nilaya Kolya Guttu House, S S Vihar, Bantwala Tq, D K
207085	Shruthi Jayarma Rao.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27721 06.04.11	H.No. 4/9(4), Hanuman Garage Rd76 BadagubettuChitpady, Udupi
207086	Shruthi C.S Shivashankar Bhat C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30023 10.04.13	Cheemullu House, Bellare Post, Sullia Taluk, Bellare, D.K
207087	Shruthi Hegde Prabhakar Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27907 11.04.11	Shree Rakshe Building, Dandeli Post, Haliyal Tq, U.K.
207088	Shruthi J Jagannatha S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30207 29.04.13	Kusuma Nilaya, Maruthi Circle, Channagiri Taluk, Davangere , Channagiri
207089	Shruthi J Jayaram S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28863 18.04.12	# 521, Hunsur Main Rd. Hootagalli, Belwadi Post, Mysore
207090	Shruthi Kala.B. Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27862 11.04.11	No.78, M.Basavanapura, N.M.Halli, Malavalli, Mandya
207091	Shruthi M.Prabhu. Mukunda Prabhu. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25112 09.09.09	?Sri Venkatesh? Behind Govt. Hospital, Municipal Rd Kundapur Tq Udupi
207092	Shruthi S Somanna M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30262 04.05.13	40 Feet Main Rd. 6th ?A? Cross, Maruthi Nagar, Tumkur Tq &
207093	Shruthi Shekar N. Chandra Shekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26581 19.04.10	#455/1, D.Subhaiah Rd.Lakshmpuram, Mysore

207094	Shruthi VM VV Mudlugiri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29216 14.05.12	B-16A, Shri Balaji, Banavara Rd, Somwarpet & Post, TQ, Kodagu
207095	Shruthi Yashavath Rai Yashvanth Kr Rai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24268 28.04.09	# 3-H-31-2655/28, Karangalpady Mangalore Tq, Dakshina Kannada
207096	Shruthi Yuvraj Yuvaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28125 25.04.11	#378, 1st Cross, Buddha Marg, Vidyanagar, Hassan
207097	Shruthi. G.K Kalappa. G.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25316 27.11.09	Sharada Complex, Bellary Rd.Hospet Tq, Bellary
207098	Shruthi. K Krishne Gowda. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26247 23.03.10	MIG-64, 1st A Main, E&F Block, Ramakrishna Nagara, Mysore
207099	Shruthi. K Krishna Kannanth. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27263 23.03.11	Kuderi House, Basriberu, Jakkal Post, Kundapur Tq, Udupi
207100	Shruthi. L.H Halappa. L.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25733 12.03.10	Veerabhadreshwara Nilaya, LingadahalliPost, Tarikere Tq, Chikkamagalur
207101	Shruthi. N Narayan Alevoor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28516 08.08.11	# 13D/2, 4th Main Rd. Behind Swimming Pool Saraswathipuram Mysore
207102	Shruthi. P Prakash Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25573 05.03.10	?Krishna?Lakshmeshanagar, Chickmagalur Tq &
207103	Shruthi. S V Suresh Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29527 28.05.12	# 177, Parijath 1st Stage, 2nd Cross, Brindavan Extension Mysore Tq &
207104	Shruthi. S Sheshachala. S.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24649 21.05.09	Gandhi Bazar, Shimoga Tq &
207105	Shruthi. S Suresh Hebbar. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24711 03.06.09	Ishna Rao, Pajimannu (H), Mundoor Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
207106	Shruthi. S Shankar. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24861 06.06.09	# 1654, 7th Cross, Anikethana Rd.Kuvempunagar, Mysore
207107	Shruthi. S Somashekar. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27308 23.03.11	# 296, Soorapura, Kunagalli, Kollegal Tq, Chamrajnagar
207108	Shruthi. S K. Shivaram Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27523 28.03.11	Liwer Hutta, B.H. Rd.Bhadravati Tq, Shimoga
207109	Shruthi.J.Rao Jagannivas Rao. N.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23926 09.04.09	Kaveri Nilaya, Gudde Angadi House, Hejamadi Post, Udupi
207110	Shruthi.K Kantharaj. H.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26963 03.11.10	#118, Anikethana Rd. II Cross (South), Kuvempu Nagar, Mysore
207111	Shruthi.M.Hegde. Manjunath.S.Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25549 05.03.10	# 34/15, 3rd Main Rd.Hanumanth Nagar, Bangalore
207112	Shruthy Shreepathy Shreepathy KY	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29064 05.05.12	No 350/1 New no 486 Between 10th & 11th Cross Sampige Rd Malleshwaram Bangalore
207113	Shruti Deshpande Ram.S.Kaulgud.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26250 23.03.10	C/o. V.M. Deshpande, Rayara, Hebballi Post, Dharwad
207114	Shruti Ghiwari Ravindra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30484 13.06.13	At Post Kalloli, Tq Gokak, Belgaum
207115	Shruti Joshi Vijay Vijay	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30126 19.04.13	Venkatadri Mansion, Ningaraj Nagar, Vidya Nagar, Dharwad , Hubli

207116	Shruti Kapadia Dinesh Kapadia	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30353 20.05.13	1, Tathastu, Priyanka Garden, Khutwad Nagar, Nashik, Maharashtra
207117	Shubha Lakshmi.J.R. Venugopal.T.P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28265 17.05.11	Talakalakoppa (vill), Nisarani Post, Sorab (Tq), Shimoga
207118	Shubha Madhavi Nagararaj. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25075 29.07.09	# 17-9-571/19, Mathais Rd.Mangalore, Dakshina Kannada
207119	Shubha P.U P.V.K. Udhaya Prakash	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30037 16.04.13	H.No. 20, Ashirwad, Kale Layout Bengeri, Hubli
207120	Shubha Pattar Ratan Pattar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30069 16.04.13	H.No. B 12/1, 2nd Cross, Heggeri Clny, Old Hubli, Hubli
207121	Shubha. H.N Nagappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24637 21.05.09	# 992, 16th A Cross, 12th A Main Rd, A Sec Yelhanka New Town, Bangalore North
207122	Shubha. M.N Narayana Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27374 24.03.11	Malalagadde Post, Soraba Tq, Shimoga
207123	Shubha.R.Shetty Rathnakara Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27707 06.04.11	Sri Krishna Nilaya, 1st Cross, Raghavendra Extn, Soppugudde Thirthahalli Shimoga
207124	Shubhada.I.Hegde Ishwar.L.Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24275 29.04.09	# 88A, 31st Cross, 2nd Block, Rajajinagar, Bangalore
207125	Shubhangi Ranoji Kakade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26705 03.06.10	Kaveri Nagar, Behind Langat Peer Darga, Shahbazar Rd. Gulbarga
207126	Shubharani. M Mayigaih. C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23904 09.04.09	# 260/5, 4th Cross, 9th MainPapaiah Garden, BSK 3rd Stage, Bangalore.
207127	Shugufta Shireen Md. Moinuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27769 07.04.11	#A-8-286, Multani Clny, Tsker Rd. Bidar Tq &
207128	Shukla AbhishekMangal Prasad Mangal P Shukla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23793 04.04.09	C/o. Doni Complex, GanjendragadPost, Ron Tq, Gadag
207129	Shukla AnjaliShankataprasad Shankataprasad Shukla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29616 14.06.12	Room No. 17, 1st Floor, Ravidarshan Appt.Behind Sursbi Hotel, Silvassa,
207130	Shweta Amrutappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30554 16.07.13	##64, Shakthi Nagar Sai Lay Out, Nr. New Bus Stand, Gulbarga,
207131	Shweta Bheemaraya Panibath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28706 30.03.12	SMCT Basaveshwa Chowk, Shahapur A/P, Yadagir
207132	Shweta Abrol Yashpal Bhola	BAMS University of Jammu 2010	29911 15.01.13	# 320, Cedar Block, The Greens Appt., #14, Doddenkundi, Outer Bing Rd, Bangalore
207133	Shweta Badiger Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27049 15.03.11	1471/1, Nr Vijaya Mahantesh Bank, Hungund Tq., Bagalkot
207134	Shweta Bankapure Ashok Bankapure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30357 20.05.13	At Post Borgaon, Tq-Chikkodi, Belgaum
207135	Shweta Chougala Ramanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29085 05.05.12	Khemalapur At & Post, Via Kudchi, Raibag Taluk, Belgaum
207136	Shweta Chouhan Parveen Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29741 10.09.12	Plot No 48, Ida Kattedan Behind Ramcharan Oil Mill, Hyderabad y
207137	Shweta Desai Annasaheb Desai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24178 24.04.09	# 209, Kadabi Galli, Bailhongal Tq, Belgaum



207138	Shweta Dodamani Shankar Dodamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29439 24.05.12	No 1543 Banagargalli, Gokak at post & Tq, Belgaum
207139	Shweta Donurmath Gurubassayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26080 19.03.10	# 302, 1st Main Rd. Hubli Tq, Dharwad
207140	Shweta H H Hanumanthappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29601 13.06.12	H No. 105, 1st Floor, Azad Nagar, Akila Sardvar Apartments, Raidur
207141	Shweta Honnugar Ashok.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23976 18.04.09	Chadchan, Indi Tq, Bijapur
207142	Shweta Hosamani Shankar.B. Hosamani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27816 08.04.11	Navi Street, Raibag A/P & Tq, Belgaum
207143	Shweta Koli Dharappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25941 17.03.10	Umashankar Nilay, Laxmi Exten, Sheshadripuram,
207144	Shweta Koutal Umesh V Koutal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29114 07.05.12	5th CrossPanchaxari Nagar, Gadag Taluk &
207145	Shweta Mashal Danappa S Mashal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29104 07.05.12	Bhavani Nilay, Gandhi NagarNr. ZP Ground Bilagi Bagalkot
207146	Shweta Murkhandi Panchaksharappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26724 18.06.10	LIG-204, 10th Cross, Navanagar, Hubli Tq., Dharwad
207147	Shweta Patil Sidagouda.B.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27465 26.03.11	Shivand College, KaguradAt & Post, Athani Tq, Belgaum
207148	Shweta Raikar Dasharath. D.Raikar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26930 05.10.10	Gavachari building, Sai Nagar, Badami Tq, Bagalkot
207149	Shweta S Shetty Sureshshekar Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29117 07.05.12	No 18-4-35, Old Adarsh Clny, Bidar Taluk &
207150	Shweta Shirabadagi Kashinath Shirabadagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29524 26.05.12	Mangalavar Pet, banahatti At Post, Jamakandi Tq, Bagalkot
207151	Shweta Sindagi Deepak.S. Mummigatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28354 30.05.11	Nr. Kanara Auto Services, Ambedkar Rd. Dharwad
207152	Shweta Zolgiker Laxmikant Zolgiker.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24195 24.04.09	# 15-3?133, Rampure Clny, Bidar
207153	Shweta.N. Amudapu Narayan Amudapu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26500 07.04.10	Plot No.17, Sanggolli Rayanna Nagar, Dharwad
207154	Shweta.R.Patil Rudragouda.B.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24022 20.04.09	R/o. Plot.No. 46, Gabre Layout, NrKHB Cly Old Jewargi Rd Gulbarga
207155	Shwetha D M Muniswamy M R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30222 30.04.13	Kodaganur Village & Post, Davangere Tq &
207156	Shwetha G Gurusidda Nayaka	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30250 03.05.13	No. 538, 3rd Cross, 2nd Stage, ?M? Block, Kuvempunagar, Mysore
207157	Shwetha G B Bheemanna G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30399 24.05.13	N.M.C Left Side, 4th Cross, Hosamane, Bhadravathi, Shimoga
207158	Shwetha H S H S Subramanya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28861 18.04.12	Cherala Srimangala Village, Chettalli Post, Somwarpet Tq, Kodagu
207159	Shwetha Hebbar Venkatraman Hebbar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27705 06.04.11	Nada ChungiguddeKundapur Tq, Udupi

207160	Shwetha K Keshava K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30575 22.07.13	Geethalayam, Kumaramangalam, Via Kumbla, Bela Post, Kasaragod,
207161	Shwetha Kumboje Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29634 14.06.12	Kothal At & Post, Chikodi Tq Belgaum
207162	Shwetha Mashal Ravindranath G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29726 09.08.12	#MII. 49, Adarsh Nagar, Bijapur Tq. &
207163	Shwetha. B.M Mohan. B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24217 28.04.09	# 645, 10th Cross3rd Main, Hassan
207164	Shwetha. G Govindaraju. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24482 11.05.09	D.No. 5, EWS Housing Board, Arsikere Tq, Hassan
207165	Shwetha. H.B. H.R. Basavarajappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26619 26.04.10	Hanumanthapura Village, Arahatholaly- Post, Bhadravathi, Shimoga.
207166	Shwetha. K Mahabaleshwara Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27375 24.03.11	Shri Nilaya, Kadava (H), Padnoor Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
207167	Shwetha. K.E Eshwarappa. K.A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28471 04.07.11	Kudlur Post, Tarikere Tq, Chikkamagalur
207168	Shwetha. K.S. K.S. Satyanarayana Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27022 07.02.11	Madhu Nilaya, Malebennur Post, Harihara Tq, Davangere
207169	Shwetha. M Manjunath. M.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28483 18.07.11	# 85, Vidyut Nagar, 1st Cross, Salgame Rd. Hassan
207170	Shwetha. M.S Siddalingaswamy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23923 09.04.09	Shivarathreshwara Badavane, T. Narasipura Tq, Mysore
207171	Shwetha. S Purandara Kotian	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24243 28.04.09	# 2-12-2, Manipura, Kotpady Post, Udupi
207172	Shwetha. S.G Govindswamy. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24385 05.05.09	House, Sadashivnagar, Siruguppa Tq, Bellary
207173	Shwetha. S.M Mahesh Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27255 22.03.11	# 30, 21st, Ittamadu Main Rd. Bangalore
207174	Shwetha. T T.P. Thimmappa Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25772 12.03.10	3rd Main Rd. Soppugude Post, Thirthahalli Tq, Shimoga
207175	Shwetha.M Manjunatha.V.Hebbar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27778 07.04.11	Induwani At & Post, Sagar Tq, Shimoga
207176	Shwetha.N. N.V. Rajashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27741 06.04.11	#1890, III Cross, II Main, K Block, Kuvempu Nagar, Mysore
207177	Shwetha.S. Karabasallavar. Shivanagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27376 24.03.11	Halageri Post, Ranebennur Tq, Haveri
207178	ShwethaRai. A.G Ganesh Rai. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	27513 28.03.11	Ishwaramangala Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada (South Canara)
207179	Shyalaja. M G. Muniyappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24485 11.05.09	# 462, Old UCO Bank Ltd, Vijinapura, Ramamurthynagar, Bangalore
207180	Shyam M M Manjappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29914 21.01.13	MIG- 352/707, 4th Phase, Yelahanka New town, Yelahanka Post, Bangalore
207181	Shyamala Padmanabha Bhat.A.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27712 06.04.11	Ganesh Kripa, C/o S.D. College of Ayurveda, Udupi

207182	Shyamasundaram. K Col. K. Gopala Krishnan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27540 28.03.11	# 491, Block 2nd, 3rd Phase, Banashankari 3rd Stage, Bangalore South
207183	Shyamsundar Ramachandra Upadhya B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29015 27.04.12	No.444, H Siddaih Rd.Wilson Garden, Bangalore
207184	Shylaja. B.J Jayanna. B.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25143 25.09.09	Somashetti Halli, Lingadahalli, Channagiri Tq, Davangere
207185	Siddalinggouda Patil Kallana Gouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25190 08.10.09	1st Main Rd. Loni (B.K) Post, Baradda, Indi Tq, Bijapur
207186	Siddamma Angadi Veerabasappa.S.Angadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25884 12.03.10	Mahantesh Nilaya, Joshi Galli, Ilkal Post, Hungund Tq, Bagalkot
207187	Siddappa.L.Kolur Lakkappa Kolur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25078 29.07.09	Shapur Peth, Gowli Galli, Jail Rd. Bijapur
207188	Siddesh. T.R Rajanna. T.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25860 12.03.10	?Lakshmi Nilaya? 1st Main, 5th Cross, Adarshanagar, Tumkur
207189	Siddeswara Housi Duddabasappa. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25754 12.03.10	Hyarada Post, Huvinahadagalli Tq, Bellary
207190	Siddhartha Debbarma Sonamani Debbarma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28688 01.03.12	C/o Damble, Vinobanagar, Shimoga Tq &
207191	Siddoqui ZebaKifayatullah K V Siddiqui	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29920 01.02.13	RCL-11, Flat No. 113-114, GIDC Clny, Umbergon, Ualsad Gujarat
207192	Sidheshware Sachin Anantrao Sidheshware	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30611 22.08.13	No. 875, Mahadev Mandir Javal, Vill. & Tq-Jalkot, Latur, Jalkot
207193	Sindgikar Anjumara Abdul Rouf A Sindgikar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24940 10.06.09	# 1438, Kalyan Nagar, Sindgi Tq, Bijapur
207194	Sindhu C.V. Venkatesh H.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30144 22.04.13	#216/65, Snehasadana, 6th cross, Manjunathnagar, Raghuvnahalli Gate, Bangalore
207195	Sindhu S Nair Sankaranarayanan Nair	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30514 20.06.13	No. 10, Kausthubham, Gangondanahalli, Madavara (p), Dasanapure, Bangalore North
207196	Sindhu Umesh B. Umesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24390 05.05.09	# 231, 2nd Cross, 1st Main, BEML IV StageRajeshwari Nagar, Bangalore
207197	Sindhu. A.V A.S. Vittala Raju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26129 20.03.10	# 48/1, b/w, 5th & 6th Cross, 1st Main, Nagarbhavi Maruthi Nagar, Bangalore
207198	Sindhu. M.M Muddappa. M.E	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27554 29.03.11	Mavinahalli (v), Kyamanahally Post, Sakleshpura Tq, Hassan
207199	Sindhurani. D.K Devadas Gowda. K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24244 28.04.09	?Rasaroopta? Nilaya, Maril, Darde, Kemminje Puttur Tq, Dakshina Kannada
207200	Sindhuri. K K Srinivas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25503 04.03.10	# 145, Main Bazar, Hospet Post & Tq, Bellary
207201	Sindura A S Sundara A S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30471 10.06.13	Shri Nityananda Vihara, Aranthodu Post and Vill. Sullia Taluk, Dakshina Kannada
207202	Singh Chandar Prem Prem Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24887 08.06.09	Ranganath Nilaya, Gandhi Nagar2nd Cross Badami Tq, Bagalkot
207203	Sinnur Yogiraj Shivasharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23733 02.04.09	# 11-65, Sedam Rd.Doctor's Clny, Gulbarga

207204	Sirajul Hasan Doni Mohammad Gouse Doni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28708 30.03.12	#1880/C, Zande Galli Talikot, Muddebihal Tq, Bijapur
207205	Smita Choudari Malleshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30098 18.04.13	W/o Siddalinga S Bagali, A/p Nagathan, Tal &
207206	Smita Jain Nemiraj Banga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26269 23.03.10	Padumarnadu Post, Jinashree, Mangalore
207207	Smita Jamadar Mahantappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30036 16.04.13	House No. 240, Viveknagar West, 1st Main, 2nd Cross, Bijapur
207208	Smita Jayi Shankar R Jayi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30438 31.05.13	#04, Satyanagar, Baiyappanahalli Main Rd. M.S. Nagar Post, Bangalore
207209	Smita Neelagund Rudrappa.S. Neelagund	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28307 25.05.11	S.A.Nagar, Naregal Post, Ron Tal, Gadag
207210	Smita Patil Bapugoud Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25707 12.03.10	Nr. Fire House, Jewargi Tq, Gulbarga
207211	Smita Patil Basanagoud	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27726 06.04.11	H.No.76/3B, Kaladgi Rd. Bagalkot
207212	Smitha N Nityananda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30229 30.04.13	#730, 10th A Cross, Vinaya Marga, Siddarthanagar, Mysore
207213	Smitha Patil Shankargouda. R. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26501 07.04.10	Behind KSRTC Quarters, Gokul Rd.Hubli Tq, Dharwad
207214	Smitha Raman R Ramanna K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30201 29.04.13	No.414, 2nd Cross, 3rd Main, Sharadha Nagar, Tiptur Tumkur , Tiptur
207215	Smitha. N.A N.R. Anantha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26457 30.03.10	# 197, Sai Nilaya, 4th Main Rd, 1st Stage, Kamalagar, Bangalore
207216	Smitha.S Srinivasa Aithal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27733 06.04.11	No.1-4-11 F, Opp. Dhoomavathi Daivastana Gudibail, Kunjibettu Post Udupi
207217	Smrathi Kamath Ananth Kamath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25800 12.03.10	# 3-3-106A, Ambalpady Post, Udupi
207218	Sneha Ramakrishna Noudy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29342 21.05.12	Shre Banashnkare Hp gas Agency, Gurmatkal at post, Yadgir tq &
207219	Sneha N.K. Jayananda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26607 23.04.10	Laxmi Ranganath Nilaya, Behind Lion's School Ext Area, Bagalkot.
207220	Sneha Ramachandra.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28297 25.05.11	No.22/708/12, Basava Nagar, Humnabad Tq, Bidar
207221	Sneha Hebballi Pundalik K Hebballi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29522 26.05.12	# 14, Gokal Rd.Hubli At Post & Tq, Dharwad
207222	Sneha Kulkarni Keshav.K.Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26285 23.03.10	# 1550/B, Marutigalli, Belgaum
207223	Sneha Nadakattin Dayanad Nadakattin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29256 16.05.12	No 4, Deena Bandhu Clny, Karwar Rd, Hubli post & TQ, Dharwad
207224	Sneha Pai Sadanand	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27708 06.04.11	Mahalasa Kripa Viveknagar, 1st Cross, Kumta Tq, U.K.
207225	Sneha Pramod Prabhu Pramod V Prabhu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28953 26.04.12	Laxmi Nivas, Prabhat Nagar, Honavar At Post & Taluk Uttara Kannada

207226	Sneha S B Balasubramanyam S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30402 27.05.13	#21/1, B/W 9th And 10th Cross, Margosa Rd. Malleshwaram, Bangalore
207227	Sneha. P.K K.T. Prakash.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24232 28.04.09	# 211, Shree Vittal, 1st Cross, 40ft RdRajajinagar, Bangalore
207228	Sneha. S.Y Yashwanthrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24171 24.04.09	# 27, North Of 1st Stage, ShilpiSrinivasachar Block, Gayatrupuram Udayagiri, Mysore
207229	Sneha.S.Kolamkar Shantaram.M. Komalkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25805 12.03.10	# 1250, Gothnibagh, Gabitwada, Majali, Karwar, Uttara Kannada
207230	Snehal Ambalgekar Sridhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28450 20.06.11	I-19, Dollar's Clny, Gokul Rd. Hubli Tq, Dahrwad
207231	Snehal RamchandraNarkhede Ramchandra D Narkhede	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30339 18.05.13	390, Vijaya Nager 1 Opp Brc Get, 60 Feet Rd. Udhana Surat
207232	Solankure Kadambari Anil Anil Shrikant Solankure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26915 27.09.10	#4859/52 B, 2nd Main, 2nd Cross, Sadashivnagar, Belgaum
207233	Somanath Maragur Shetleppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25895 15.03.10	Gubbewad Post, Indi Tq, Bijapur
207234	Somanath Pujari Shivalingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26779 16.08.10	Hort At Post, Indi Tq, Bijapur
207235	Somanath. S Umaphathappa. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25289 23.11.09	34th Ward, Ukkadakeri, GaradimaniHospet Tq, Bellary
207236	Somanayak Nayak Muttappa Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26134 20.03.10	Saidapur Post, Mudhol Tq, Bagalkot
207237	Sonar Laxman Vilas Sonar Vilas Sumanlal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24878 08.06.09	# 1973/1, 15th Cross, Anjaneya Badavane, Davangere
207238	Sonar Paresh Dinesh S Dinesh Kanhaiyalal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24947 10.06.09	# 1973/1, 15th Cross, Anjaneya Layout, Davangere
207239	Sonawane Manoj Gulabrao S Gulabrao Uttamrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23740 02.04.09	# 625, Shrinidi, Kirti Nagar, Nr. Sai Baba Temple, Bijapur
207240	Sonawane SarikaHarischandra Sonawane H Parshuram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29857 05.11.12	# 473, NazareAt & Post Sangola Tq, Solapur
207241	Sonawane Sonal. S Shantaram Sonawane.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24799 05.06.09	5th Cross, New House, Nr. Primary Beals Baby School, Shimoga
207242	Soni Hegde. P Sudhakar Hegde. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23905 09.04.09	# 3E/10/789/3, Narasimha ShettyKulshakar, Mangalore, Dakshina Kannada
207243	Soni Rupali Soni Kisangopal Harikisam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25560 05.03.10	C/o. BMJ Hostel, Double Rd, GajendragadRon Tq, Gadag
207244	Sonia Jaipal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24239 28.04.09	Q.No. A-118, Sector IV, HMT Clny, Vijaynagar, Bangalore
207245	Sonia Waman Rao Hanegave	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28718 30.03.12	#64, MahadevClny Shivnagar, Bidar
207246	Sonia S Suvama Sunder Suvama	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30420 28.05.13	H.No.2-177, (A), V/A Kunjibettu, Post Manchi Kodi, Kukkikatte, Udupi
207247	Sonia Setia Subhash Setia	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28206 02.05.11	Basavnilaya, 12th Cross, Plot No.712, Vidyagiri, Bagalkot

207248	Sonia.V.Gummadi Prof G.Venkatesh Kr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25650 06.03.10	# 733, 19th Cross, 10th Main, C Block, Vijaynagar 3rd Stage, Mysore
207249	Soniamith Madeppa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29568 12.06.12	# 5/115, Chritian Galli, Hudgi At Post, Humanabad Tq, Bidar
207250	Soniya Ali Rashid Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29286 17.05.12	Samdi, Pukhrayan TQ, Ramabai Nagar, Kanpur Dehat
207251	Sonkawde SwatiSuresh Sonkawde Suresh Niranjana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28358 30.05.11	H.No.6, LIG, Anand Nagar, KHB ClyRajapur Rd. Gulbarga
207252	Sonure Dipali Tulshidas Sonure Tkulshidas Laxman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30319 14.05.13	Vittal Krupa, 100 FT Rd.Pragathi Clny, Miraj (Tq), Sangli ( ), Mirja
207253	Soradge RajanirakshaGundappa G Prabhuaappa Soradge.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27359 24.03.11	Manali Rd.NKJ Girl's Hostel, Bidar
207254	Soubhagya BK Kunder	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29190 14.05.12	No 565/A, Nr. Mookambika DrivingSchool, NH 66, Kundapur Udupi
207255	Soubhagya Kadam Lokesh Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29902 31.12.12	Yellamma Devi Housing Society, Plot No. 77, Rajathgiri A/P, Dharawad
207256	Soudhabanu.J. J. Ebrahim	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27784 07.04.11	#25-27-2027/2, Masjid Rd, KankanadiPost Mangalore ? Tq, D.K
207257	Soujanya S Shivarudraiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30565 18.07.13	# 1/29, 8th cross Circle, VenkatapuraMain Rd. Kormangala, Bangalore,
207258	Soujanya. T.S T.B. Srinivasa Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25354 08.01.10	Raghavendra Clny, Fort, Kadur Tq, Chickmanglore
207259	Soumya A.M.S Sarphabhushana A.M.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29986 06.04.13	L B Extension Kottur, Tq-Kudlige, Dt- Bellary, Kottur
207260	Soumya Biradar Appasaheb.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26117 20.03.10	M II 131, Adarsh Nagar, Bijapur
207261	Soumya G.K G.K. Krishna Prasad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30268 06.05.13	#472, 13th Main, 1st Cross, Saraswathipuram, Mysore
207262	Soumya K Narasing Rao K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28831 16.04.12	# 8-11-181/850, I Floor, Vidyanagar, Raichur Tq &
207263	Soumya Kullolli Prabhu .A .K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29931 15.02.13	Javal Bazar, Mahalingpur Mudhol
207264	Soumya Mallya Ganesh. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25796 12.03.10	# 12-1-41-A, Alankar Back Rd. Udupi
207265	Soumya Patil Vishnukantsa Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24627 18.05.09	Jagadambha Medical Stores, Deshnur Rd, Siruguppa Tq, Bellary
207266	Soumya Priyadarshini.V P. Vasudeva Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28477 18.07.11	Gurukrupa, 1st Cross, Ashokanagar, Shimoga
207267	Soumya Shree Hiremath Ishwarachandra M Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29094 7.05.12	C/o.MA Hiremath , Kasageri Galli, Bijapur
207268	Soumya Shree. K.M K. M Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24065 21.04.09	Shree Nilaya, Kadamane, Uppinangady Ilanthila Post, Belthangady Tq Dkashina Kannada
207269	Soumya. P.B B. Prakash.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24251 28.04.09	# 23, 5th Cross, A Block, Devaraj Urs Badavane, Davangere

207270	Soumya.H.N H.V.Narayan Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	25364 19.01.10	#452, 16th Cross, I B Main Rd4th Phase J.P.Nagar, Bangalore
207271	Soumyashree SKadrallimath Sharana Basavaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30043 16.04.13	Devaraj Aras Clny, Behind Public Ground, Koppal
207272	Sourabh Deshmukh Gyan Ranjan Deshmukh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23770 03.04.09	D.No. 13 2nd Stage, Vijaya Nagar, Belur Rd. Kandali Hassan
207273	Sourabh.S.Rajgolkar Shivaji.L.Rajgolkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24777 04.06.09	APMC Rd. 1st Main, 4th Cross, Sadashivnagar, Belgaum
207274	Sourabha Kokatnur Sudheer Kokatnur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30005 08.04.13	#25 Revenue ClnyRaj Nagar Hubli
207275	Sowbhagya. B.M. Basavarajappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26823 24.08.10	Chikkachowti, Yennekoppa Post, Sorab Tq, Shimoga
207276	Sowbhagya.R. Ramappa Ramannavar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27514 28.03.11	Kasturba Nagar, Chipgi Post, Sirsi Tq, Karwar
207277	Sowfia H Rehaman A H Rehman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29548 29.05.12	# 8-87(B), Kemmenu At Post, Udupi tq &
207278	Sowjanya. A.V. Thandava Murthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24061 21.04.09	Kalasa Post, Mudigere Tq, Chickmagalur
207279	Sowjanya. B.S. Bhima Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26715 14.06.10	Nr. Swami Vivekananda Credit Society, Sankeshwar, Hukkeri Tq., Belgaum
207280	Sowjanya.P.Karkera Prakash.S.Karkera.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24563 14.05.09	# 2-143, Anugraha, Nr PaduHouse, Kulai Post Mangalore Tq, South Canara
207281	Sowmya Dharmana Shettigar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26283 23.03.10	# 3-61/1C, Kadimajal, Adyar, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
207282	Sowmya C Chandraiah M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28862 18.04.12	#114, Behind 3rd Main Karnataka BankVivekananda Nagar, Mysore
207283	Sowmya H K Hala Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29011 27.04.12	Anusha Nilaya, Katpay Udupi Taluk &
207284	Sowmya Kulkarni Guru Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27075 15.03.11	Gavisiddeshwar Nagar, Jambunath Rd, Hospet, Bellary
207285	Sowmya Kumari.D. Sandeep.C.Hegde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26699 31.05.10	Belal Rd. Ujire Post, Betthangadi Tq., Dakshina Kannada Post
207286	Sowmya N. Sogal S.R. Nagendran	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26898 17.09.10	#L66, 3rd Cross, 3rd Main, E&F Block, Ramakrishna Nagar, Mysore
207287	Sowmya Nayak. S Srinivas Nayak.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25967 18.03.10	A.T. Rd. Konandorr Post, Theerthahalli Tq, Shimoga
207288	Sowmya P Puttachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30428 29.05.13	#930, Muniswamappa Compound, Mudalapalya Bangalore
207289	Sowmya. C Channabasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23886 09.04.09	Malenahalli, Sollarura Post, Tarikere Tq, Chikkamagalore
207290	Sowmya. B.P Putte Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24000 18.04.09	# 59, Mathru Krupa, Rajkumar Layout, Mandya
207291	Sowmya. C C P Gowda. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24930 10.06.09	# 574, 4th Cross, Swarnasandra, Sugar Town, Mandya

207292	Sowmya. H.S Subbaiah. H.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25864 12.03.10	Hegalathi(V), Singanabidri Post, Thirthahalli Tq, Shimoga
207293	Sowmya. H.Y Yogendra. H.D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25841 12.03.10	# 199/1, KRS Main Rd, Metagalli Industrial Area Metagalli, Mysore
207294	Sowmya. M.N Nanjaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24467 11.05.09	# 40, VA Layout, KHB ClnyNanjangud, Mysore
207295	Sowmya. P Manjunath. B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25460 02.03.10	Badakana Halli, Madakkana Halli Post, Sira Tq, Tumkur
207296	Sowmya. S D/gao. A.G. Sadhananda Bhatt.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23859 06.04.09	14th Ward, Bagepalli Tq, Chickballapur
207297	Sowmya. S.N Narayanawamy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25728 12.03.10	# 515, Nr. Kaba Complex, Santhe Maidan, M.B. Rd. Kolar
207298	Sowmya. T.S Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24620 18.05.09	Jalagavadi Post, Malavalli Tq, Mandya
207299	Sowmya.C.Shetty Chandrasaha Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27606 30.03.11	Nr. Govt. High School, Guruvayanakere, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
207300	Sowmya.N.S. Veerasha.A.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26882 15.09.10	#4-47, Ujjini-Post, Kudligi Tq, Bellary
207301	Sowmya.S.Bhat Shantharam Bhat. H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24516 12.05.09	Gopinath House, Hemmady Post, Kundapura Tq, Udupi
207302	Sowmyashree Prabhu Panchal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24222 28.04.09	H.No. 102, 2nd Cross, Jayanagar, Cantonment, Bellary
207303	Sowmyashree Mashalkar Kishor Kr Mashalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24246 28.04.09	# 73, Old Jewargi Rd. Gulbarga
207304	Sowmyashree. B M. Ravi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26219 23.03.10	# 902/910, 9th Cross, SBM Clny, Bangalore
207305	Sowmyashree. U.P Prasad. U.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25788 12.03.10	# 3-3-112B, Ambalappady, Udupi
207306	Sowmyashree.D. Dasegowda.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27875 11.04.11	#2660/9A, 4th Cross, V.V.Mohalla, Mysore
207307	Sphurti Bheemasena Bheemasena Shridhara Upadhyaya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27380 24.03.11	Plot.No. 12A, Hunsur Rd.Belavadi Indi Area, Mysore
207308	Spoorthi T Thirthaiah M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30129 20.04.13	Kallihal At & Post, Bhadravathi-Tq, Shimoga, Kallihal
207309	Spoorthi T Ganapat Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30130 20.04.13	H.No. 4-937, Nr. Ganesh Nagar, Maktampur, Gulbarga
207310	Spoorti A Balol Ajit	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30382 22.05.13	A/p Kusanal, Tal-Athani, Belgaum, Kusanal
207311	Spurana. H.G Gangaraju. H.B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24035 20.04.09	Kote Mane, Honnamarana Halli, JamburuPost Channarayapatna Tq, Hassan
207312	Spurthi Mannikeri Chandrashekhar.T.Mannikere	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25759 12.03.10	# 29, Vayuputra Extn, Hubli Tq, Dharwad
207313	Sravani C H Narasimha Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28875 18.04.12	Sri Sita Rama Printers, Main Rd.Madhira Post & Tq, Khammam



207314	Sreekant Vishnu Joshi Vishnu Pandurang Joshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25218 13.10.09	1st Main, 4th Cross, Tulaji Building, Sadashiv Nagar, Belgaum
207315	Sreenidhi. G.S Sharanappa. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23994 18.04.09	Siddapura Post, Kudligi Tq, Bellary
207316	Sridevi Gadigappa Hiremath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25447 02.03.10	H. No. 34, New Adarsh Clny, Airforce Area, Bidar
207317	Sridevi. J.M Manjunath. J.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24765 04.06.09	# 298/A, Desai Mansion, Extension Area, Bagalkot
207318	Sridevi. K K. Kotrappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25960 18.03.10	Nr. Vidyanjali School, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
207319	Sridevi. T. Tavarya Naik.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27802 07.04.11	Begur Maradi, Begur Post, Shikaripura Tq, Shimoga
207320	Sridevi.P.Kulkarni P.K. Kulkarni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24346 29.04.09	# 4, 3rd Cross, Vidyanagar Post, Shimoga
207321	Sridhar Reddy P Shivanath Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29168 11.05.12	Kallur Rd.Chincholli Post & TQ, Gulbarga
207322	Sridhar. Saibaba Badgal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27404 25.03.11	Chittapur Rd.Behind HP Gas Gowdon, Yadgiri
207323	Srikanth. G Govinda Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27529 28.03.11	Pithru Smruthi, 7th Cross, Shankarapura Extn, Chamarajanagar
207324	Srikanth.D. Shivanna.D.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28156 26.04.11	Jalal Street, Shorapur At Post & Tq, Yadagiri
207325	Srilakshmi N C Nagarajegowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30038 16.04.13	H.No. 1017, 1st Floor, Subhash Nagar, Dt- Mandya, K R Pet
207326	Srilakshmi. G.V G. Venkatesh Aithal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25562 05.03.10	# 478, 64th Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore
207327	Srinath Bhat. Y Sridhar Bhat. Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25885 12.03.10	# 5/4, 3rd Main Rd, Mattadalli, R.T.Ngr Bangalore North, Bangalore
207328	Srinidhi hanya. B.S B.G. S Dhanya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24625 18.05.09	II-96, Kantheshwara Rd, GopadiVillage Koteshwara Post Kundapura Tq Udupi
207329	Srinidhi. M.S T. Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23813 04.04.09	Srinidhi Nivasa, Nr. PandurangaTemple, Hosadurga Post & Tq, Chitradurga
207330	Srinivas Prabhakar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27156 18.03.11	Teachers Clny, Humnabad Tq, Bidar
207331	Srinivas Murthy. T.G Gopal. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23962 13.04.09	# A1, 10th Main Rd.Srirampura 1st Stage, Mysore
207332	Srinivas Rajput Purappa Rajput.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25437 26.02.10	Plot.No. 66, UCB Nagar, Saptapur Last Cross, Dharwad
207333	Srinivasa. N Nagabhusana. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24256 28.04.09	Seetharamaiah Clny, Chellur, Bagepalli Tq, Chikkabalapur
207334	Srinivasulu. B B. Kurumanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28586 19.10.11	SPS Boy's Hostel, Ay. College CampusSiddapur Tq, Uttar Kannada
207335	Sripal Hirekerur Laxman Hirekerur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24021 20.04.09	Bhaire Devar Koppa, SadashivanandNagar, Navanagar, Hubli Tq,

				Dharwad
207336	Sripriya.H. Hanume Gowda.D.H.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28144 26.04.11	C/o Sanjeevini Ayurveda Bhandar, K.R. Extension, Tumkur
207337	Srirama H.M. Bhagavanth Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24387 05.05.09	# 2971, Srirama Nilaya, Behind TelephoneExchange, Lakshmipura, Arsikere Tq, Hassan
207338	Srushti Yaresheemi Ghanavanth.K. Yaresheemi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26216 23.03.10	10th Cross, A Block, Basaveshwarnagar, Haveri
207339	Sruthi. B.R B.N. Ramesh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25424 25.02.10	K-336, IB Cross, I ?A? Main, VIII Block, Koramangala V Ith Block, Bangalore
207340	Stuti Shankar Irali I.A. Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26824 25.08.10	No.26, Nr. Sri Sai Hall, Shahunagar, Belgaum
207341	Subhalakshmi Sampath Kr Belagavi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25362 19.01.10	#318, Vidyanagar, Bagalkot Rd. Bijapur
207342	Subhangini Suresh M Nagaralmath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25514 04.03.10	?Shree Gurudev?, # 66, Manjunath Nagar, Darga Jail, Bijapur
207343	Subhash Saunshi Shivanand.F.Saunshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25352 06.01.10	Basapur hiremarth, P.O. Kundgol, Tq. Dharward
207344	Subhashini. N.S Muralidhara Rao. N.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25572 05.03.10	# 1245, Nr Ambika Vidyalaya, Nellikatte, Puttur Tq, Dakshina Kannada
207345	Subodh Chaturvedi Yogesh Kr Chaturvedi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24321 29.04.09	HIG-17, 18th Cross, Kuvempu Nagar, Hassan
207346	Subrahmanya. K.Y Vishnumurthy. K.Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25936 17.03.10	# 8-2/4, 4th B Cross, KodikalKatte, Ashoka Nagar Mangalore Tq, Dakshina Kannada
207347	Subramanya. M.D Dharmappa.M.J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24228 28.04.09	Mallipatna Post, Arakalgud Tq, Hassan
207348	Subramanya. V Venkatesh Rao. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23924 09.04.09	# 1531/5, 2nd Main, 3rd Cross, Nagappa Block, Srirampuram, Bangalore
207349	Suchetha Devadiga Kanthu Devadiga	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27863 11.04.11	Polytechnic Qtrs, Vivekanand NagarKodibagKarwar, U.K.
207350	Suchetha Jayaram Jayaram.B.C.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28129 26.04.11	Jayaraghava Enterprises, Hombelaku Basavana Halli, Chickmaglur
207351	Suchitra Ramanna Marakala	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28890 20.04.12	Nr. Nadur Kamba Lagadde , Nadur Village & Post Udupi Taluk &
207352	Suchitra Anchan Shankar Anchan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24190 24.04.09	# 4-87, Santhekatte Post, Udupi
207353	Suchitra Chawan Rekhu Chawan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27162 18.03.11	T.D 1/1, UKP Camp, Bheemarayana Gudi, Shahapur Tq, Gulbarga
207354	Suchitra Raj MS Jayaraj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29254 15.05.12	Sri Devi Prasad, Bejai , Kuntikan , Mangalore Dakshina Kannada
207355	Suchitra.V. Jevoor Virupakshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27616 01.04.11	Madarmaddi, 6th Cross, Hosayellapur, Dharwad
207356	Sudarshana M. Soorya Narayana Vaidya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25438 26.02.10	# 1-160, Muddur, Nalkur Post, Udupi Tq &
207357	Sudarshana Reddy. G.N Ninga Reddy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25301 27.11.09	Channagana Hally, Valade Post, Challakere Tq,

		2008		Chitradurga
207358	Sudath.N.Annaji N.B. Annaji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24236 28.04.09	?Abhishek?, Bharath Mill CompHarihar Tq, Davangere
207359	Sudeep Kumar Sutar Gurunath Rao Sutar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24931 10.06.09	# 9-5-700, Mottee Layout, Adarsh Clny, Bidar
207360	Sudeep Kumar. B.K Kr. B.V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25651 06.03.10	# 484, 6th Cross, Kesare 3rd Stage, Mysore
207361	Sudeepa Sadananda. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24604 18.05.09	# 2-308, Shubhashaya, Nr Diana Theatre, Kukkikatte, Udupi Tq &
207362	Sudeesha. J Korgu Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25575 05.03.10	Revathi Nilaya, Jaddinabail, Siddapur, Kundapur Tq, Udupi
207363	Sudha Shanmukhappa Aili	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27051 15.03.11	14/120, Tavaragera, Kustagi Tq., Koppal
207364	Sudha Kanchi Vadiraj Kanchi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30571 18.07.13	H.No. 32c/7, 16th Main, Muneshwara block, Bangalore
207365	Sudha. P S. Puttasiddiaha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25616 06.03.10	# 864/1, 4th Cross, Manorayana Palya, Bangalore
207366	Sudharani Prabhu.S.Jan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	28693 08.03.12	Shiva Krupa Building, Jain Galli Aland Tq, Aland, Gulbarga
207367	Sudharani Gudaganatti Kodappa Gudaganatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27854 08.04.11	H.No.88, Raghavendra Clny, Khasbag P.O., Belgaum
207368	Sudheer Pujari Chidananda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24664 22.05.09	Hunawad Post, Bijapur Tq &
207369	Sudhendra. T T. Nagappayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24607 18.05.09	Sudhama, # 4/41, Thekkatte, Kundapura Tq, Udupi
207370	Sudhiraugoda Patil Honagouda. B.Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26903 21.09.10	Kesit At & Post, Hukkeri Tq, Belgaum
207371	Sudrik Deepti Umeschandra Umeschandra V Sudrik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23820 04.04.09	SSR AMC, Inchal Post, Soundatti Tq, Shikaripur Tq,
207372	Sufiya Humunabad Usmangani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30255 03.05.13	Nr. Basaveshwara Circle, Ilkal Tq, Bagalkot , Ilkal
207373	Sugandha Kumari.H Hoovaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2004	25361 18.01.10	5th Cross, New Street, Kollegal Tq, Mullur, Chamarajnagar
207374	Sugandhamala Shedbalkar Shreedhar.J. Shedbalkar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27818 08.04.11	No.631, Bhovi Clny, Ainapur A/P, Athani Tq, Belgaum
207375	Suguna. D.C Chikkalinge Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25890 12.03.10	Dodde Gowdanna Koppalu, Malavalli Tq, Mandya
207376	Suguresh Hiremath Basavaraja Swamy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27428 25.03.11	Basaveshwara Kirani Store, Lingasugur Tq, Raichur
207377	Suharini Sulgante Nagbhushan Sulgante.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24686 02.06.09	# 8-9-549, Udgir Rd. Opp. Old, Service Stand, Bidar
207378	Suhas Hari More Hari Ananda More	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30010 09.04.13	A/P- Chale, Tal-Pandharpur, Solapur, Pandharpur
207379	Suhasini Mallikarjun.Y.S.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	26590 21.04.10	H.No. F-2, George Fernandes Complex, Shivnagar,

		2009		Bidar
207380	Suhasini Deviprasad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28868 18.04.12	#4/73/68, Gowri sadan, Laxmi Nagar, Shahapur Yadgiri
207381	Suhasini Ashok Mote Ashok Sadashiv Mote.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26070 19.03.10	Shrinagar, 1st Cross, Dharwad
207382	Sujat Allipur Andanagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25379 02.02.10	Naregal Police Station, Naregal Post, Ron Tq, Gadag
207383	Sujata Basavaraj Sadanande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26034 19.03.10	Shahpur Clny, Basavakalyan Tq, Hanagal Tq,
207384	Sujata Basappa Karjagikar Basappa G K.	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1992	26662 12.05.10	Vijay Mahatesh Clinic, Shirol Tq, Naragund Tq, Gadag
207385	Sujata Biradar Vithal Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26696 29.05.10	Chandrabhaga Nivas Beerappa Nagar, Indi Tq., Bijapur
207386	Sujata Gajare Amrut Rao.R. Gajare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27780 07.04.11	C III 5/D, P.W.D Quarters, Vishweshwara nagar, Belgaum
207387	Sujata Madarakall Basanagouda Madarakall	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29735 03.09.12	Nr. PWD, Talikoti At Post, Muddebihal Tq, Bijapur
207388	Sujata Modi Siddanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24665 22.05.09	Veerabadreshwar Clny, B-Bagewadi, Bijapur
207389	Sujata Naikodi Hanumanta Naikodi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27906 11.04.11	#72, 1st Main Rd.Shantinagar (Keshwapur), Hubli Tq, Dharwad
207390	Sujatha Ramangouda Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26533 12.04.10	Plot No. 43, Sena Nagar, 2nd Phase Torvi Rd. Bijapur
207391	Sujatha Naganath Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27482 26.03.11	# 15-4-283, Behind KRE Hostel, Kumbarwada Cross, Bidar
207392	Sujatha Waddar Basappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26144 20.03.10	Indi Post, Bijapur
207393	Sujatha. R.G Gangadhar. R.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25583 05.03.10	Mulakalmuru, Rampura Tq, Chitradurga
207394	Sujeet Gyanoba Gaikwad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29827 30.10.12	Morkhandi AT & Post, Basavakalyan-Tq, Bidar
207395	Sujini. B.V. B.L.Narayana	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26720 17.06.10	#133/26, Nandini Rd. R.S.Palya, M.S.Nagar Post, Bangalore
207396	Sujith Nambiar Gopinath Nair.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26253 23.03.10	Sowparnika, Nr Mahalingeshwara TempleRd Uchila Post, Udipi
207397	Sujnana. V.S Sanjeeva Poojary. J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25678 12.03.10	# 9-1, Venoor Post, Belthangady Tq, Dakshina Kannada
207398	Sukashanth. Pandurang.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25646 06.03.10	Yengunda Post, Aurad(B) Tq, Bidar
207399	Sukeenthanoopa. M.C. VinodKr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25492 04.03.10	Hiriyangadi Post, Karkala Tq, Udipi
207400	Suketha Kumari Narayana Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25746 12.03.10	Kukkuje, Kadthala, Karkala Tq, Udipi
207401	Sukhin Aralalemath Rudramuni. S.Aralalemath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	26671 19.05.10	Nekar Oni, Bankapur, Shiggaon Tq., Haveri

2009				
207402	Sukumara. S Subanna Vailappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24772 04.06.09	Madhuvanahalli Rd.K.R. Nagar, Mysore
207403	Sulakshnadevi Shalivan Jojane	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29037 05.05.12	Santosh Nilay, H no 8-11-138-1/4, Venkateshwar cly Iaf Road Bidar
207404	Sulochana DeviChakrashali Basavantappa.C.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26755 16.07.10	Sri Ram Nagar Dharwad Tq.&
207405	Suma K S Ajith Kr K S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29660 18.06.12	#54/A, Koulannahalli, Haraduru Post, Periyapattana Tq, Mysore
207406	Suma Mathapati. Rudrayya Mathapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24338 29.04.09	# 3045/A3/1, Ramapur Site, Gurlahosur, Soundatti Tq, Belgaum
207407	Suma Patil Rayanagouda Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24882 08.06.09	Basavana Koppa, Nayekerur, Savanur Tq, Haveri
207408	Suma Patil Fakkeer Gouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29169 11.05.12	No 89 Alalikatti Oni, Hubli TQ, Dharwad
207409	Suma. K.J Jagannath. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23922 09.04.09	# 2/A, 4th Cross, ?F? Block, JP Nagar, Mysore.
207410	Suma. M Manikyam.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24597 18.05.09	# 93, 2nd Cross, 6th Main, ShankarnagarMahalaxmi Layout, Bangalore
207411	Suma.R.Dhangade R.L. Dhangade.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26157 20.03.10	H.No. J 7/7, Smure, Vyasapuri Clny, Hanumanahalli, Hospet, Bellary
207412	Sumalata Kadadevaru Veerabhadrayya V.Kadadevaru.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27485 26.03.11	New Secondary School, Bhoj, Chikkodi Post Nippani Tq, Belgaum
207413	Sumalata Nandikol Shivashankarayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28714 30.03.12	Quarter No.38/2, G.L.B.L.ClnyKuduchi Rd. Bangalore
207414	Sumalata. Y Kadeshappa. Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26709 10.06.10	#3728/A-1, 7th Cross, Kuvempu Nagar, MCC ?B? Block, Davangere
207415	Sumalini. P.M Manohara. P.E	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24220 28.04.09	Nr. Gandhi Circle, Chandragutti Post, Sorab Tq, Shimoga
207416	Suman Mahabaleshwar.N.Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24221 28.04.09	Vinayak Clny, Behind Samrat Hotel, Sirsi Tq, Karwar
207417	Suman Bhat N.V. Ramesh Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25854 12.03.10	# 39/40, Kattigenhalli, IAF Post, Yelhanka, Bangalore
207418	Suman Mural Kashinath.S. Mural	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28202 30.04.11	Anantapur Pete, Talikoti At & Post, Muddebihal Tq, Bijapur
207419	Suman S P Puttamadappa S N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30400 25.05.13	# 5479, 3rd Main 3rd Cross, Vijayanagar 2nd Stage, Mysore
207420	Suman.D.Pennekar Demappa.B.Pennekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23978 18.04.09	# 580, Puravant Galli, Beedi Post, Khanapur Tq,
207421	Sumana P S Sathishchandra Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28794 11.04.12	Mardolli, Narikombu Post, Panemangalore Bantwala Tq, D K
207422	Sumanta H Nagappa H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29801 12.10.12	#1106, Haluvegalu At Post, Harapanahalli Tq, Davangere
207423	Sumashri. T T. Kinniraiiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24312 29.04.09	# 6-2-73/21, Vijayalakshmi Layout, Raichur

2008				
207424	Sumayya Jamal Syed Kaleem Ur Rahman	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26762 27.07.10	#1-7-224, Singar Bagh, Bidar Tq &
207425	Sumayya Sheeren. K K. Sirajuddin Ansari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25049 08.07.09	Quazi Manzil, Kalyan Nagar, 1st Cross, Kinnal Rd. Koppal
207426	Sumayya.G.A. Abbas.G.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26589 20.04.10	Goonadka Post, Ya-Manzil House, Sampaje Village Sullia Tq., Dakshina Kannada
207427	Sumbe Deepak Tolaji Sumbe Tolaji Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25557 05.03.10	Nr. Rangraj Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
207428	Sumedha K A K S Ananthamurthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30559 17.07.13	Hiresara, Araga (p), Thirthahalli Tq, Shimoga,
207429	Sumedha Shinde. Shinde Bheem Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24835 06.06.09	# 8-11-561, KEB, Sharan Nagar, Nr. Sharan Udhyan, Bidar
207430	Sumithra.D.R. Rangadhamappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26786 19.08.10	T.R. Nagar, Challakere, Chitradurga
207431	Sumitra Ravindra Singh Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23786 04.04.09	Lohar Galli, H.No. 8-8-32, Gulbarga
207432	Summiya Javeed Javeed Khan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25751 12.03.10	# MIG-47, 3 A Main Cross, Subashnagar, Mysore
207433	Sunanda Subodh Kr Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29485 25.05.12	# 4-5-122, Mangalwar Pet, Raichulr Tq &
207434	Sunanda Sharnappa Lasone.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25456 02.03.10	Ratnagiri Nilya, Maheshnagar, # 17-4-230, Bidar Tq &
207435	Sunanda Math Veerayya R Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29734 03.09.12	Vijay HousingClny College Rd. Bijapur Tq &
207436	Sunanda Patil Siddalingappa B Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29264 16.05.12	Mahalinapur, Vidyanagar , BasaweswarCircle post Mudhot Bagalkot
207437	Sunayana. J Jayaramu. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27604 30.03.11	# 4156/6, old 10th Cross, 21st MainSubramanya Nagar, Bangalore
207438	Sundhu. M.A Ananda. M.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25808 12.03.10	# 1-15, Guthigaru Vill., Malkaje House, Kamila Post Sullia Tq, Dakshina Kannada
207439	Suneela Kumar Hebbi. Sangappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25148 26.09.09	Vidya Nagar, Ward.No. 23, Murankeri, Nr. Ayurved Medical College, Bijapur
207440	Suneeta Patil Ogeppa Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24864 06.06.09	C/o. O.G. Patil, Bijaragi Post, Bijapur
207441	Suneeta Tirakannavar Yallappa V Tirakannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29570 12.06.12	Basaveshwar Nagar C Block, Haveri Tq &
207442	Suneetha. R Ranganathappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25819 12.03.10	Nyayagere, Magodu Post, Sirsi Tq, Tumkur
207443	Sunil Ganapat Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29115 07.05.12	No 17-4-322, Mailoor Rd. Cmc ClnyGandhi Gunj Post , Bidar
207444	Sunil Halakurki Gudadappa Chinnappa Halakurki	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26968 16.11.10	Ranganath Nagar, Nr. APMC, Badami Tq, Bagalkot
207445	Sunil Kumar Kakhandaki Valsingh Kakhandaki.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25228 14.10.09	Korwar Post, Sindagi Tq, Bijapur

		2008			
207446	Sunil Kumar Vashistha Chatan S Vashistha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29906 04.01.13	Reddy Building 5th Cross, Maruthy Nilaya, Begur Rd. Honga Sanda Bangalore	
207447	Sunil Kumar. G Guruvayya. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24605 18.05.09	5th Cross, Brahma Baidar Kala Nagar, Kinnimulki Post, Udupi	
207448	Sunil Kumar. J.T J.R. Thimmarayappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25170 06.10.09	Sri. Ramapura, Hosadurga Tq, Chitradurga	
207449	Sunil Mallappa Kanti Mallappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2002	25338 21.12.09	Veena Nilaya, Girish Nagar Clny, Jamkhandi Tq, Bagalkot	
207450	Sunil Mundarwadi Manohar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27312 23.03.11	Shivabasau Nagar, Soundatti Tq, Belgaum	
207451	Sunil Prakash Martis E. B. Martis	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29587 12.06.12	Belman Post, Karkala Tq, Udupi , Pin	
207452	Sunil Y Badiger Yacharappa A Badiger	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29963 06.04.13	At Post- Kotumachagi, Taluk & Gadag, Kotumachagi	
207453	Sunil.K.R. Ramakrishne Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27719 06.04.11	CNS-101, Kamanahalli VillageK.R.Pet Tq, Mandya	
207454	Sunilkumar Sarangamath Prabhayya Sarangamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29981 06.04.13	PHC Quarters Hanamanal, Tq-Kustgi Dt. Koppal, Hanamanal	
207455	Sunilkumar Siddapur Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25758 12.03.10	Plot.No. 318, Nisarga Layout, KalyanNagarKarnataka Univ., Dharwad	
207456	Sunilkumar.N.Kotegar N B.Kotegar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24920 09.06.09	H.No. 304, 7th Cross, Gamanagatti Rd, Shivanand Nagar Hubli, Dharwad	
207457	Sunita Tukkareddy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24704 02.06.09	# 13-3-165, S.P. Bengala, Ladageri, Shivpur Clny, Bidar	
207458	Sunita Hiremath Chandrakanthswamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29637 14.06.12	Shivganga Building, Nr. Modern School, Saras Watpur Dharwad	
207459	Sunita.B.Hulloli Bhupal D Hulloli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23765 03.04.09	Ghataprabha Post, Gokak Tq, Belgaum	
207460	Sunitha Gotur Neelakantappa S Gotur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28728 02.04.12	Plot No.-11, Jashigalli, Hunagund,	
207461	Sunitha Kanchina Kote Parshwanath Kanchina Kote	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27935 13.04.11	Vijaynagar, Nr. APMC, Hoovinadagali Tq, Bellary	
207462	Sunitha. G.K Karrangappa. G.R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25734 12.03.10	S. Neralakere, Hosdurga Tq, Chitradurga	
207463	Sunke Rahul Baburao Sunke B Annappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29310 18.05.12	No 67/1, Mangeshwar Clny, UnchgaonKarveer TQ, Kolhapur	
207464	Suprabha Shetty Shashidhar Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25968 18.03.10	Shankarpura Rd. Sadadi Hosamane, Pangala Post, Udupi	
207465	Suprabha. K Sudhakar.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27725 06.04.11	Shiva Sadana CompoundKunjibettu, Udupi	
207466	Suprabha.M.S M. Sambayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28133 26.04.11	Prithvi House, No.883, 1st Cross, Koppal	
207467	Supreet Basavaraj Kadli Basavaraj V Kadli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30368 21.05.13	At Khannur PostShelwadi Tq Navalgund,	

2011				
207468	Supreeta Laxmanshetty.D. D.Laxman Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28717 30.03.12	Danapur Hospet Taluk, Bellary
207469	Supreeth S M Shivakanth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30470 07.06.13	No-4, 1st Cross, 4th Block, Nagadevanhalli, Jnana Bharathi Layout Bangalore
207470	Supreeth.M.J. D. Jayaramaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26623 27.04.10	#MIG-7, 18th Cross, Kuvempu Nagar, Hassan
207471	Supreetha. B B.C. Boralingaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24233 28.04.09	# 141, 4th Main, 9th Cross, T.R. MillCharajpet, Bangalore
207472	Supriya Harshavardhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29509 26.05.12	# 1-30/1-C, Nr. T A Patos Hospital Anand Nagar, Gulbarga
207473	Supriya Acharya Eshwar Achar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29083 05.05.12	Basweshwara Nilaya, Simppi Linganna Rd, Shanti Clny Koppal
207474	Supriya Bhat Ganapati Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27581 30.03.11	Nirmal Nagar, Dandeli, Haliyal Tq, Uttar Kannada
207475	Supriya Chauhan Swarna Chauhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28878 18.04.12	GMTD BSNL Bhawan, Bhota Chowk, Hamirpur
207476	Supriya Dappin Gurappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28400 09.06.11	#F-99, U.K.P. Alamatti, D.S.B.Bagewadi Tq, Bijapur
207477	Supriya KagaleShivalingappa Shivalingappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27825 08.04.11	Plot No.78, Sector No.09, M.M.Extension Anjineya Nagar, Belgaum
207478	Supriya MangalvedheShridhar Shridhar B. Mangalvedhe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27621 01.04.11	Plot No.7, 2nd Cross, Parijat Clny, Bhaghya Nagar, Belgaum
207479	Supriya Nambiar Gopinath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26252 23.03.10	Sowparnika, Nr Mahalingeshwara TempleRd Uchila Post, Udui
207480	Supriya Narasagoudar Shivagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26281 23.03.10	# 286, Basavangalli, Shedbal PostAthani Tq, Belgaum
207481	Supriya S Shetty K Seetaram Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2001	29945 13.03.13	?Shyamala? Uddalgudde, Barkur Post, Udupi
207482	Supriya Salalli D.B. Salalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24063 21.04.09	# 561 ?B? Type, 2nd Sector, Kudremukh Post, Mudigere Tq Chickmangalur
207483	Supriya Shaikh Lalasab Shaikh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28388 09.06.11	Qureshi Clny, Torvi Rd. Bijapur
207484	Supriya. P Puttaswamy. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27309 23.03.11	Y.K. Mole, Ambale Post, Yalandur Tq, Chamrajnagar
207485	Supriya. S Sudhakar. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25793 12.03.10	# 8-645, JLB Rd.Kundapur Post & Tq, Udupi
207486	Supriya. T.S Suresh Babu. T.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26668 17.05.10	# 116, 80ft Rd.SBM Clny, Bangalore
207487	Supriya. V V. Sadananda Holla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25969 18.03.10	Laxmi Kripa, Nana Saheb Rd.Voderhobli, Kundapur
207488	Supriya.S.Kallianpur Suresh.B.Kallianpur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24311 29.04.09	# 87/A, 3rd Cross, Achuthnagar, Parkala Post, Udupi
207489	Surawashi RahulRaosaheb Surawashi Raosaheb Bandu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25200 09.10.09	# 4824/54, Nr. Patted Hospital, Ayodhya Nagar,



		2008		Belgaum
207490	Surekha Biradar Bhimanagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25351 06.01.10	MIG-II, Bagalkot Rd. Jananagar, Bijapur
207491	Surekha Byali Anand B Nyamagood	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29897 24.12.12	Nr. Siddmutya Temple, Kosti Galli, Jamakhandi Bagalakot
207492	Surekha HanamantShevale Hanamant Vitthal Shevale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30615 26.08.13	At Post. Palashi, Tal-PandarpurSolapur, Maharashtra
207493	Surekha. B.A Anjaneya. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25901 15.03.10	Bagur Post, Hosdurga Tq, Chitradurga
207494	Surender Pal Diwan Chand Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26852 01.09.10	BapujiAy. Medical College, Shimoga
207495	Surendra Sugappa. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25303 27.11.09	Ballatgi Post, Indi Tq, Raichur
207496	Surendra Kumar. D Dakya Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24984 12.06.09	Thayakana Halli Post, Kudligi Tq, Bellary
207497	Surendra MohanShukla Prakash Narayan Shukla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28456 04.07.11	Sec.No. 09, M.M. Extension, Plot.No. 21111. Belgaum
207498	Suresh Biradar Sangappa Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26527 08.04.10	Nagardinni Post, B.Bagewadi Tq., Bijapur
207499	Suresh Hanjagi Bhimaraya.S.Hanjagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24964 10.06.09	Shivayogi Nagar, CMC 3162, Near BLDEAS Engineering.
207500	Suresh Kumar Inder Pal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28982 27.04.12	V.P. NagaramTeh & Una Chimchal
207501	Suresh Patil Savant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26524 08.04.10	Bastwad- Post, Raibag ?Tq, Belgaum
207502	Suresh Pujari Basappa Pujari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29964 06.04.13	Thaikar Oni House, 567 To 662 Telsangtaluk Athani Telsang
207503	Suresh Ram Patel Ram Nehore Patel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27013 07.01.11	Kodiyal Hospete, Kumara Patnam, Rane Bennur Tq, Haveri
207504	Suresh Rao. M. Vasudev Rao	BAMS Mangalore University 1988	26922 29.09.10	Ballal Sadan, V.B. Rd.#10-119, Malpe Post, Udupi
207505	Suresh Rathod. P Pulsing Rathod.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25765 12.03.10	Madabhavi, L.T-2, Bijapur Tq &
207506	Suresh. S Shivanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27392 25.03.11	Diggi Post, Shahapur Tq, Yadagiri
207507	Surfraj Gadekai Gulab Gadekai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25693 12.03.10	# 1567, Hebbal Post, Hukkeri Tq, Belgaum
207508	Survase Deepmala. B Survase B Krishnath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25280 06.11.09	BLDE Rd. Nr. Nagur Ay. Medical College Gate, Bijapur
207509	Survase Sandip Kalidas Survase Kailas Ranba.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24129 22.04.09	Nalatwad Post, Muddebihal Tq, Bijapur
207510	Suryavanshi AvinashAnandrao Suryavanshi A Shripati	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23779 03.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
207511	Suryavanshi Santosh Tanaji Tanaji A Suryawanshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	23953 13.04.09	Nr. Early Tree, Jogimatti Rd, 4th Cross, Chitradurga

2008				
207512	Suryawanshi AbhijeetAnand S Anand Shankar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29214 14.05.12	Flat No 403, D-Tower, Katrap , Badlapur (east) Ambarnath TQ, Thane
207513	Sushant Jayprakash.L.Sanga.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25626 06.03.10	# 1-2-6, Sultanpur Galli, Nr Syndicate BankAlalnd Tq, Gulbarga
207514	Susheel Kumar Shivappa Gghule.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25212 13.10.09	Plot.No. 42, Divya Nilaya, Mahadev ClyShivnagar (South), Bidar
207515	Susheela Mary.S. Shanthappa.R.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28141 26.04.11	No.133, Chowricoppalu, Melagodu, Hassan
207516	Sushma B S Baburao Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29894 24.12.12	H No. 30-192, Sahara Nivas, Sarvodaya Clny, tiprani, Basavakalyan, Bidar
207517	Sushma Barkar Chakar Borkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24270 28.04.09	Plot.No. 275, Hanuman Nagar CircleHanuman Nagar, Belgaum
207518	Sushma Channashetti Mahesh B Channashetti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29429 23.05.12	Vidya Nagar 4th cross, Badami post Tq, Bagalkot
207519	Sushma Huvin Shekhar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29853 05.11.12	Nataraja Layout Harihar Rd.Harapanahalli, Davangere
207520	Sushma Magadam Shrikant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26286 23.03.10	Plot.No. 51, Rukmini Nagar, Belgaum
207521	Sushma Marihal Balappa S Marihal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27607 01.04.11	No.1399/B, Nr. Rly Station, Ghataprabha, A/P Gokak Tq, Belgaum
207522	Sushma Pashupatimath Veresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28759 05.04.12	Almel At & Post, Sindagi Tq, Bijapur
207523	Sushma. P.K Prabhakar. V.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26038 19.03.10	Shahabad Rd.Rajapur, Gulbarga
207524	Sushrutha.C.K. Chandrashekar.R. Kammar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26747 03.07.10	#664/25, Mouneshwara Badavane, Nituvali, Davangere
207525	Susmitha. M.S M.K. Sreenivasan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24827 06.06.09	Flat No. BF001, B Block, 4th Cross, Padmanabhanagar, Bangalore
207526	Sutar Aniruddha Dattatraya Dattatraya M Sutar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24950 10.06.09	C/o. Shankarappa.K.Mallaraddi, Yalavatti Shirahatti Tq, Gadag
207527	Sutar Avinash Balkrishna Sutar Balkrishna Bhau.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24143 22.04.09	Mrutunjaya Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
207528	Sutar Avinash Prakash Sutar Prakash Bhauso.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24085 21.04.09	E1 Beethal Bunglow, Plot.No.7, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
207529	Sutar Dildar Babu Babu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28391 09.06.11	78, Akki Clny, Ashram Rd. Bijapur
207530	Sutar Mallikarjun Ramachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28949 26.04.12	Nr. ZP Kannada Primary School, Borgi Post Joth Taluk Sangli
207531	Sutar Pramod Shrikrishna Sutar S Sidramappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24520 12.05.09	Jorapurpeth, Bangar Galli, Bijapur
207532	Suvarna Basanna Kattimani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29208 14.05.12	Narakala Dinni, Navali post , Lingasuru TQ, Raichur
207533	Suvarna B Ramappa H B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30081 18.04.13	H. No. 15 Behind APMC Yard, Ilkal, Tq- Hungund,

		2011		IlkalBagalkot
207534	Suvarna K K Nagabasayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29248 15.05.12	Ews -141, 6th Cross, Navanagar Hubli
207535	Suvarna. C Chandrakant. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26043 19.03.10	Dhannura ( R ), Basavakalyan Tq, Bidar
207536	Suvarna. G.S P. Shivanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25077 29.07.09	# 65, Doddabettahalli Layout, Vidyaranyaपुरा Post, Bangalore
207537	Swami Ashvini Shankarrao S Vishwanath Swami	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23680 01.04.09	H.No. 12-2-71, Gandhi Gunj Post, Harugeri Tq, Bidar
207538	Swami Prashant Nijaguni Swami N Guralingayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23736 02.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
207539	Swami VijayashriShankar Shankar G Swami	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29514 26.05.12	Lingnoor At Post, Miraj Tq, Sangli
207540	Swamy Channamma Panchayya Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30604 19.08.13	#23 Padasavali, Tq-Aland, Gulbarga,
207541	Swapna Sidramappa. Y	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26166 22.03.10	# 9/5/726, Kasturi Nivas, Behind Airforce, Bidar
207542	Swapna Gunjal G. Nagaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24544 13.05.09	# 77, 2nd Ward, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
207543	Swapna Vilas Sabnis Vilas.G.Sabnis.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26284 23.03.10	H.No. 258/A, Township, DandeliHaliyal Tq, Karwar
207544	Swarnalatha S Narasimha Nayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29244 15.05.12	Laxmi Ravalnath Behind InspectionKarkala TQ, Udupi
207545	Swaroop. P P. Krishna Shastry	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24216 28.04.09	# 152, Prashanth Nagar 6th Main Rd. Bangalore
207546	Swarup Morey K. Ganeshrao Morey.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24500 11.05.09	Ghanshyam(H), Opp Ganapathy Temple, Kallianpur, Santhekatte, Udui
207547	Swathi Satish Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29935 07.03.13	D. No. 10-121-C, Pallavi, Vidya Nagar Kodangallu Post, Moodbidri
207548	Swathi .M.P M.J.Prasanna Kr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28904 20.04.12	No 6, 1st Cross , 20th Main, BTM Layout , 1st Stage , Tavarekere Post Bangalore
207549	Swathi A Ramulu A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29638 14.06.12	Plot No 74, HMT Sathavahana Nagar, Kelamandir Rd. KPHB Kukatpally Post Ranga Reddy
207550	Swathi BasavarajHurakadli Basavaraj.S. Hurakadli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28318 25.05.11	No.46, 1st Floor, 4th Cross, 4th MainGelayara Balaga Mahalakshmi -puram Bangalore
207551	Swathi C Parameshwara Shastry	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29372 21.05.12	Shri kripa, Hosmar post, Karkala Tq, Udupi
207552	Swathi C Chikkalingiaya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29722 04.08.12	DYSP DAP Police Qts, Sagar Rd. Shimoga
207553	Swathi Sharma S.M. Sharma	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30215 29.04.13	#341, ?Manaswini?, 1st Main, 1st Cross, , T Ramaiyah Garden, Bannergatta Rd Bangalore
207554	Swathi. M R. Mahabala Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25747 12.03.10	MIG-24, 100ft Rd, Vinobnagar, Shimoga
207555	Swathi. S S. Sreenivasa Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24934 10.06.09	# 66/A, Sreevatsa, 12th Cross, Virupakshapura Vidyananyapuram,

		2008		Bangalore
207556	Swathi. V Ajay. G.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28459 04.07.11	# 34, Nekkilady Uppinangady, Puttur Tq, Dakshina Kannada
207557	Swati ShivgondaChougule Shivagonda M Chougule	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30468 07.06.13	At Post Tardal, Tq Hatkanangale, Kolhapur
207558	Swati Somani Prahlad Prahlad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30217 29.04.13	167, Ward No. 8, Marwadi Galli, Bagalkot
207559	Sweta Ram Kr Vashishtha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30275 06.05.13	H.No. 222, Thubrahalli, Varthur Main Rd. Whitefield, Bangalore
207560	Sweta Gaikwad Shivaji Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28803 13.04.12	Amrut Nr Children Park Extension Area.Gokak Tq, Belgaum
207561	Sweta Guggare Tippanna Guggare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27363 24.03.11	Basava Nagar, Athani Tq, Belgaum
207562	Sweta Kakhandki Shrishail	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29880 17.12.12	EWS 143, Hudco Clny, Bagalkot Rd. Jalanagar, Bijapur
207563	Sweta Revankar Satish Revankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25353 07.01.10	Plot.No. 10, Datta Temple, Shantinagar, MG Rd. Tilakwadi, Belgaum
207564	Sweta Sherawat Jai Ram Sherawat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28783 11.04.12	Nr PN Bank, Nangal ChoudharyNarnaul, Mohinder Garh
207565	Sweta Shinde Suresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29606 14.06.12	Ankali At Post, Chikkodi Tq, Belgaum
207566	Sweta.C.Dindur Shandrashekar Dindur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26171 22.03.10	H.No. 20, 6th A BTM Layout 1st Stage, Anekal Tq, Bangalore
207567	Swetha Mallinath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30286 07.05.13	# 1-1178/1, Gunj Clny, Nr. Gunj Bus Stand, Gulbarga
207568	Swetha Manjegowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25661 08.03.10	# 805, 6th Cross, T.K. Layout, Janatha Nagar, Mysore
207569	Swetha Bhimasha Pujari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26951 29.10.10	#1-12-60/60, Daddy Clny, Raichur
207570	Swetha Hiremath Subhas Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28118 25.04.11	2nd Batch, Betageri At & Post, Gadag
207571	Swetha K S Shreedhar K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28867 18.04.12	#17/348, Maipady Rd. Uliyathadka, Madhur Post, Kasargod Tq &
207572	Swetha Maggoda Parameshwarappa.M.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28002 18.04.11	No.826 F, Vijayanagara Badavane, Huvina Hadagali, Bellary
207573	Swetha S Shamasunder	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30432 29.05.13	# 228, Muneshwara Block, Devinagar Nagashettahalli, Bangalore
207574	Swetha. Ashok.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25428 26.02.10	# 8-11-604, Venkatesh Clny, KEB Rd. Bidar
207575	Swetha. H.P H. Pranasha Setty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25589 05.03.10	# 555, 5th Main, Godavari Street, Pipeline, Srinagar, Bangalore
207576	Swetha. J Lakshmana Reddy. J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24066 21.04.09	# 1567, C/88, Kuvempu Nagar, Siruguppa Tq, Bellary
207577	Swetha. P P. Pampapathi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	23737 02.04.09	# 370/46, 5th Cross, 2nd MainRd. Harapanahalli,

		2008		Davangere
207578	Swetha. P.S Shivamurthy. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25915 15.03.10	T.N. Kote, Challakere Tq, Chitradurga
207579	Swetha. S R. Srinivasa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25540 05.03.10	B 49, KPWD Quarters, FA, Jeevanbhimanagar, Bangalore
207580	Swetha.R.Baratakke Rajashekar.R.Baratakke.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25975 18.03.10	Nr. Basaveshwara Temple, Doddapet, Ranebennur Tq, Haveri
207581	Swetharani. L Laxminarayana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28502 26.07.11	C/o. NKJ AMC, Women's Hostel, Siddharudh Math, Gumpa Tq, Bidar
207582	Syed Basheeruddin Syed Moinuddin	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23732 02.04.09	LIG ? 66, 1st Phase, Adarsh Nagar, Gulbarga
207583	Syed Ibrahim Syed Imam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26156 20.03.10	Karekatte, Chennageri Tq, Davangere
207584	Syed Imran Hashmi Syed Yousuf Hashmi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23729 02.04.09	# 2-5-56, Pansal Taleem Hara Tazia, Pansal Taleem, Bidar
207585	Syed Mushraf Syed Ashraf	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28288 25.05.11	No-18-4-95/16, Badruddin Clny, Chidri Rd. Bidar
207586	Syeda Amreen.B. K.Syed Allah Bakshi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27744 06.04.11	Vijayanagar Extension, 1st Main, 1st Cross Harihar Tq, Davangere
207587	Syeda Bushra Syed Abdul Salam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30109 19.04.13	2/254, Fish Building, Baba Garden Rd. Kurnool, Adoni
207588	Syeda Durre Sadaf Syed Shoukat Hussain	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29151 11.05.12	No 7-1-17/18, Talawadi At & Post , Bidar
207589	Syeda MuneezHashami Sajjad Ahamed	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29996 08.04.13	#19, 3rd Main, Wadi-E-Huda, Bypass Rd. Shimoga
207590	Syeda NishatMohammadi. Syeda Md A Pasha.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24999 18.06.09	# 7-851/2, Nayamohalla Darga Rd, Gulbarga
207591	Syeda Rubeeya Thabusum Syed S Hussaini	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30545 09.07.13	No-79, Masjid Mohalla, Narasimharajapura Chickamangalore,
207592	Syeda Sadiya Rukhsar Syed Rahamathullah S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24966 10.06.09	Armugan-E-Sharieff, 3rd Main, 15th Cross, Vinobhanagar, Davangere
207593	Syeda Seema Nishat Syed Jaffer Hussain	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29150 11.05.12	No 2-1-156, Siddi Talim, Opp Urdu Halli, Bidar
207594	Syeda Shaaz Anjum Syed Bandu Mian	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26983 26.11.10	#7-771, Gunj Rd.MIJ Goori, Gulbarga
207595	Syedjamal Khajamiyan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24571 14.05.09	Ferizabad Post, Gulbarga
207596	Syeea Ameena Madani Mohammed Umer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25750 12.03.10	LIG II 96, 2nd Cross, KHB ClyGopala, Shimoga
207597	T. Nandita T .Murugendra Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28884 20.04.12	Lig -298 chs 707, 1 St Floor 4th phase Yelehanka New Town Bangalore
207598	T.G. Kavya. T.M. Gurumurthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25985 18.03.10	Sree Sindhura, Vishweshwaraiah Rd, Vidyanagar, Hassan
207599	Tabassum Abdul Wajid.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25883 12.03.10	# 10, Irani Building, Nr P.O. Wadi (JN), Chittapur Tq,

		2009		Gulbarga
207600	Tadkase Sankirti Mohan T Mohan Chandrashekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29614 14.06.12	SV TorliGurukul Rd. Bijapur
207601	Tadmod Arif Sardar Sardar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23932 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr. Raghavendra Temple, Sindagi Tq, Bijapur
207602	Tafheem Sana K M D Sanaullah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28869 18.04.12	#1-8-53, Diggi Base Rd, Gandhi Chowk, Shahapur Tq, Yadgiri
207603	Taghavendra. M.S Sathyanarayana. A.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25290 27.11.09	# 74, Leelavathi Extn, 1st Cross, 1st Main Maddur Post & Tq, Mandya
207604	Taj Ahmed Noor Ahmed Noorahmed.I. Dongargaon.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25230 15.10.09	Kohalli Post, Athani Tq, Belgaum
207605	Takkalaki Mallinath Takkalaki Iragonda Chandram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28694 09.03.12	MIG-7, Opp. NCC Office, Solapur Rd, K.H.B. Clny, Bijapur
207606	Takmoge Pravara Dattatrya Dattatray Mahadeo Takmoge.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25509 04.03.10	# 32, Shreya Hospital, Bavasar Nagar, Opp Manas Residency, Bijapur
207607	Tale Pratibha Prabhakar Biradar VijayKr. R	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur 1999	28505 02.08.11	Ayush Nilaya, B/657, Kirti Nagar, Nr. Shyam School, Bijapur
207608	Tamboli Gajala Amin Babulal Tamboli	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30094 18.04.13	3/20 Shivajinagar, Saat rasta, Modi Solapur
207609	Tamboli Nadim Diladar Tamboli Diladar Makabul	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30617 27.08.13	A/P, Bambawade, Tal-Shahuwadi, Kolhapur,
207610	Tamboli Sameena Tamboli Samir Rajjak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30507 19.06.13	At Post Gondawale Bk, Tal-Man, Satara, Gondawale Bk
207611	Tanaji.S.Patil Patil Shamarao Dhoni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25059 17.07.09	Mrutunjaya Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
207612	Tanawade Shailesh Shivaji Tanawade S Mahadu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24472 11.05.09	BVVS Boy's Hostel, Bagalkot
207613	Tandale Chinmay Atmaram Krishnaji Tandale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28975 27.04.12	No.210 (A-B) 211, Krishna nagar, Golananji Hill Rd Sewari Mumbai
207614	Tanmaya.K.Acharya Acharya. N.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25105 26.08.09	# 377/5, 2nd Cross, Anekal Rd, Attibele, Anekal, Bangalore
207615	Tanuja Hosamath Somashekhkar B Hosamath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25566 05.03.10	New Ashok Stores, Gandhi Circle, Mudhol Tq, Bagalkot
207616	Tanwade Pooja Suresh T Suresh Panchappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29020 27.04.12	No 3 Yoginath Society, Shelgi North Solapur Taluk, Solapur
207617	Tanya Lall Avinash Chandra Lall	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27659 02.04.11	21st K.M., Kanakpura, Udaypura, Bangalore
207618	Tanzeen Ayesha S.A Abdul Wajid M.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30139 22.04.13	#2-15, Bye Pass Rd. Shanivarasanthe, Somwarapet (t), Kodagu (d), Madikeri
207619	Tapdiya Swati Nandkumar NadKr H Tapdha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28739 02.04.12	Taade Tea Enterprizes, Gawale Galli Barshi Tq, Solapur
207620	Tarange Prashant Sampatrao Sampatrao H Tarange.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24729 03.06.09	Ratnatray Bldg, S.T. Khot Cly, Shantinagar Shamanewadi Post Chikkodi Tq, Belgaum
207621	Tarangini Chandakavathe Chandragupta C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25528 04.03.10	# 8-10-65, Behind Akkamahadevi College, Road,

2009				
207622	Tarika S Bangera Subbayya A Bangera	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29198 14.05.12	No 10-194, Moodbidri, Kodangallu Post, Mangalore TQ, Dakshina Kannada
207623	Tarnal Vijay Mahantesh Basavaraj Tamal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24313 29.04.09	Adharsha Clny, Sindhanur Tq, Raichur
207624	Tarun Kumar Gupta Ramesh Chandra Gupta.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26160 20.03.10	H.No. 15/4/25, Kubarwada Rd.SBH Bank Clny, Bidar
207625	Tasele Vivek Liladhar Talele Liladhar Jagannath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25585 05.03.10	Radha Krishnan Nagar, Jaldarshini Layout, Dharwad
207626	Tashma Surkod Chamansab.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27136 17.03.11	H.No. 103, Mamata House, Aninagad, Hungund Tq, Bagalkot
207627	Tate Ashish Gajanan Tate Gajanan Nivrutti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24432 05.05.09	4th Cross, Chalukyanagar Nagar, Badami Tq, Bagalkot
207628	Tate Sandip Shivajirao Tate Shivajirao Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24745 03.06.09	2nd Cross, Pushpa Kunja, B.T.Nagar Hospet Rd. Koppal
207629	Tausif Ahmed Abid. M.F	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23921 09.04.09	# 5, 3rd Cros, SJH Rd. 6th Main, Vidyaranyaapuram, Mysore
207630	Tawadee Sharad Krishnat Tawade K Baburao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24995 17.06.09	M.B. Kalal Bldg, Nr Venkateshwara TheatreMundargi Tq, Gadag
207631	Tayaba Tabassum Syed Sadaq Ali	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30059 16.04.13	H.No. 25-158, TMC Garden, Kallur Rd. Tq-Humnabad, Bidar
207632	Tayabba Kulsum S A Taher	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29922 01.02.13	# 8, MDM Rd. Stephen's Rd. Cross, Frazertown, Bangalore
207633	Tazeen Fatima Ilkal Mehboob Saheb Itkal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29019 27.04.12	No 298/21, Rizwan Manzil Bijapur
207634	Teena Nargotra Inderjeet Nargotra.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26245 23.03.10	C/o. Adichunchungiri Girls Hostel, Hampinagar, Bangalore
207635	Tejashree Gopal Bhutada	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29967 06.04.13	Srikant Auto Center, O.S.B Rd. Gangavathi
207636	Tejashwini Gachchinamath Vivekananda M Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	29712 31.07.12	Basaveshwar Clinic, Doddabelavangala Doddaballapur Tq, Bangalore Rural
207637	Tejashwini Hiremath Basayya.C.Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28916 26.04.12	Asutj At & Post , Ron Taluk, Gadag
207638	Tejasvi Shetty. B B.S. Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27261 22.03.11	Eshwari Nursing Home, Jai Rd. Shimoga
207639	Tejaswani Mallimath Madiwalayya. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26175 22.03.10	Market Rd. Yadwad, Gokak Tq, Belgaum
207640	Tejaswi Kadam Pravin Kadam	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30609 22.08.13	H.No. 2443, Pragati Nagar, Nr. Prarthana Hotel, Nipani, Belgaum,
207641	Tejaswi Kiran Yaduchandra Bhat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30622 31.08.13	Mahalasa?, 9-2-15B, Vt Rd. Tenkepete, Udupi,
207642	Tejaswini .N N. Narasimha M Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29942 20.03.13	Shriranga Nilaya, Behind Ladies Hostel, Rajajinagar, Birur, Kadur Tq, Birur
207643	Tejaswini K.R Rajashekar K.C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30367 21.05.13	Kasmeer Nilay, 6th cross, Basavan Gudi, Shivamoga

2011				
207644	Tejaswini Malage Chandrashekhara Malage	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30285 07.05.13	105/79, Uma Nagari, Murarji Peth, Pune Rd. Solapur , Solapur
207645	Tejaswini Shinde Daulat Rao S Shinde	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29476 24.05.12	CTS 10720, ?Trupti? Nehru Nagar 1st Cross Kolapur Circle, Belgaum
207646	Tejaswini Vijay Gadege. V VijayKr Sudan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26041 19.03.10	# 20, Draupadi, 6th Cross, Srirampuram, Bangalore
207647	Tejaswini. B.K Kr Kaliveer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23909 09.04.09	Bhagya Nilaya, APMC Yard (Opp), B.M. Rd. Hassan
207648	Tejaswini. K Krishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24483 11.05.09	# 1116, 2nd Cross, 4th Main, Vijayanagar North, Bangalore
207649	Tejaswini. K.A A.B. Krishnamurthy Achar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26268 23.03.10	?Honnashri? 5th Main, A Block Sharavathi Nagar, Shimoga
207650	Tejaswini. S Devi Prasad. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25952 17.03.10	# 255, 3rd Cross, 1st Main, Sanjaynagar Post, Bangalore
207651	Tekale Parmeshwar Shivaji Tekale Shivaji Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24435 05.05.09	# 4-1062, Saraf Bazar, Gulbarga
207652	Teli Ashok Mallikarjun Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25488 04.03.10	Nivaragi Post, Indi Tq, Bijapur
207653	Terala Bhagyasree TeralaUma Maheswar Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27472 26.03.11	C/o. TMAES AMC, Sankalapur Tanda, Bellary Rd. Hospet
207654	Thakur Narendhar Ramchandram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30556 16.07.13	# No. 3-2-689, Reddy House, Chappal Bazar, Kachiguda, Hyderabad, AP
207655	Thamake Magesh Jagannath Thamake Jagannath Kalu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25100 19.08.09	# 777, Koppal Cross, Mundargi Tq, Gadag
207656	Thanuja. N J.T. Nagabushana.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25386 06.02.10	# 218, 3rd Main Rd Sharada Cly, Basaveshwaranagar, Bangalore
207657	Thasneem. K Usman. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24593 18.05.09	# 4-234, Milan (H), Kemminje Koornadka, Darbe, Puttur Tq, Dakshina Kannada
207658	Thejashwini L Lakshminarayan R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29534 28.05.12	# 17, 7th Cross, Azadnagar, Chamarajpet Post, Bangalore
207659	Thejaswi I Naik Ishwar H Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29040 05.05.12	RHS Quatero No-14, Doddanagudde, Kunjibettu Post Udupi
207660	Thejaswini Jathan Thejappa.K.Jathan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23753 03.04.09	?Suja Nilaya? Kaverigidda Kalliajpur Post, Udupi
207661	Thejaswini. B Basavaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27313 23.03.11	Mallianadoddi, Lallaghatta, Channapatna Tq, Ramanagaram
207662	Thejaswini. H.J H.K. Jayadeve Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25944 17.03.10	# 1422, 2nd Cross, Rajkumar Layout, Nr KSRTC Bus Depot, Mandya
207663	Thejukumar. S Shanmukhachar. G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24358 30.04.09	Amrutha Nilaya, 2nd Cross, Opp StMoss School Adarsh Nagar, Tumkur
207664	Thombare Pramod Pundlik Rao Pundalik Rao M Thombare	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28758 02.04.12	Singhad Clny, M-2 # 28/1, N-6, Cidco Aurangabad
207665	Thombare Priyanka Pratap	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24329 29.04.09	MIG II A, Hudco Clny, Akol Rd. Nippani Post, Chikkodi Tq.



		2008		Belgaum
207666	Thombre AjaykumarAshokrao Thombre Ashokrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30544 06.07.13	Geetanjali Nivas, Adarsh Clny, Tq- Ambajogai, Beed
207667	Thopte ShashikalaAshokrao Thopte Ashokrao Vittalrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24072 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
207668	Thorat Archana Vitthalrao Thorat V Anandrao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23778 03.04.09	SSR AMC, Inchal, Saundatti Tq, Belgaum
207669	Thorat Suhas Bajirao Thorat Bajirao Narayana..	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24842 06.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal PostChikodi Tq, Belgaum
207670	Thorwat Pratibha Ramrao Ramrao G Thorwat	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29323 18.05.12	No 5/19, Narayan Peth, Ichal Karanji atpost, Hatkanangale Tq, Kolhapur
207671	Tikole Rushikesh Vijaykumar VijayKr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24105 22.04.09	Plot.No.7, EL Bethel Bunglow, Ram Nagar, Nipani, Chikodi Tq, Belgaum
207672	Tingare Vinayak Vasant Vasant L Tingare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24643 21.05.09	KHB No. 4, 1B62, Behind Jamya Masjid, Bijapur
207673	Tiwari Manish Anil Tiwari Anil Ramnaresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29281 16.05.12	G8/B, Wing , Om Shraddha, Bhayendr (E) Thane TQ &
207674	Todkari SeemaManmathappa Manmathappa N Todkari	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29725 09.08.12	?Todkari Nivas?, Pandharpurkar Galli Tuljapur Tq, Osmanabad
207675	Tolmathi GirishHanumanth Hanumanth .D. Tolmatti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26602 23.04.10	MIG-148, Jalnagar Hudeo Post, Bijapur
207676	Tousif Mehboob	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28957 26.04.12	Nagarahalli Building , Nagur Layout, Buapur
207677	Tripathi Swetha Ishwarprasad Tripathi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30133 20.04.13	House No 913/1, Vaishnavi Dham, Koppinaka, Chandansar Rd. Virar (East),
207678	Triveni Alias Parshwanath G Kagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29032 05.05.12	No 3191/A/6, Payasagara Nagar , Gokak Taluk , Belgaum
207679	Trupthi Narasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28917 26.04.12	Plot No 58, 9-587/7, Santosh Clny, Nr. Multiplex, Gulbarga
207680	Trupti J Ainapure Jayappa Ainapure	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30111 19.04.13	H.No. 7-1101-33C, Gunj Clny, Gulbarga
207681	Trupti Mutalik Desai Abhay.T.Mutalik Desai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27853 08.04.11	H.No.203, Shukrawarpeth, Tilakwadi P.O., Belgaum
207682	Tukraram Umarani Bhirappa Bhimappa Umarani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29380 21.05.12	Kalloli at post, Gokak Tq, Belgaum
207683	Tulasi. K.P Arvind Chavan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28607 26.10.11	Kalagnur At, University Post, Gulbarga
207684	Tumbigere Mutt Vinaya . Manjunath. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23982 18.04.09	# 92, 3rd Cross, South AnnikethanaRd Kuvempunagar, Mysore
207685	Tushar Sangal Sureshrao. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24941 10.06.09	# 260, 3rd Cross, Rajaram Marg, Chidambar Nagar Angol Post, Belgaum
207686	U.V. Chaithanya Sharma Venkateshachar. U	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27253 22.03.11	# 15, 8th Cross, Bhovipalya, Mahalakshimpuram, Bangalore
207687	Ubale Prashant Pratap Padurang Ubale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30086 18.04.13	Plot No. 32, Tiranga Nagar, Tal- Pandharpur, .Solapur,

		2011		Pandharpur
207688	Udachan Anil Mallikarjun Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24656 22.05.09	Siddalinga Krupa, Blde Rd.Opp. Ganesh Temple, Bijapur
207689	Udaikumar Gurushantappa Holakar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28606 19.10.11	Bablas (IK), Vinoba Nagar, Gulbarga
207690	Udaya Kumar Shetty P. Sheenappa Shetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25012 24.06.09	Shushravya (H), 2nd CrossARB Clny S.K. Shetty Compound, Shimoga
207691	Udayakumar .S.R Srinivas Roopner	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29969 06.04.13	Javahar Navodaya Vidyalaya Narayanpur , Bidar Narayanpur, Basava Kalyan , Bidar
207692	Udaykumar Sudi Kalakappa Shivappa Sudi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29511 26.05.12	Plot No 7, # 812, Shriramnagar, Shindoli Rd. Mutaga, Belgaum
207693	Ujjvala Uadaya Kr R Acharya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29378 21.05.12	No 338, Mahakali Rd.Ambalpady at post , Udupi
207694	Uma Kirana. K Ramachandra Bhat. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24263 28.04.09	# 3-223, Nadukatta House, Panaje PostPuttur Tq, Dkashni Kannada
207695	Uma Mahantesh Yalagi Mahantesh Yalagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25520 04.03.10	Plot.No. 106, Shri Harsha Nilaya, Yadagiri Post & Tq, Yadagiri
207696	Uma Maheshwari.T.C Chandrashekara Swamygalu	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28488 18.07.11	# 568, 4th Cross, Hebbal 2nd Stage, Hinkal Post, Mysore
207697	Uma. N R. Nagaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23981 18.04.09	Aaral Rd. Waddarahatti Camp, Gangavathi Tq, Koppal
207698	Uma. R Ramaiah.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24231 28.04.09	# 797, Byraweshwara Nilaya, 2nd CrossT.Dasarahalli Post, Bangalore
207699	Uma.M.Naik Manjappa.D.Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24027 20.04.09	Kalakaradi, Andagi Post, Sirsi Tq, North Canara
207700	Umaima Thashmeera K.H. Mohideen	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28303 25.05.11	No.64/2A, 6th Block, Bright HouseKrishnapura Surathkal, Mangalore South Kanara
207701	Umakant Ravan Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27085 15.03.11	Morkhandi A/P, Basavkalyan Tq, Bidar
207702	Umar Farooq Ismail Saheb Karnool	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30592 02.08.13	At Post Pattadakallu, Tq-Badami, Bagalkot,
207703	Umashree Kembhavi Cholappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28958 26.04.12	Behind Ambedkar Circle, Nagur Layout, Sindagi Bijapur
207704	Umashri Dubale Babasab	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30018 10.04.13	A/P-Kusanal, Tal-Athani, Belgaum
207705	Umeera Banu MD Nabi Saheb P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29200 14.05.12	Mehboob Manjil, Devanna Thota, Rehmathnagar , Manvi TQ, Raichur
207706	Umesh Chandrashekhar.I.Pattar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25441 01.03.10	Shri Kalika Nilay, Nr. APMC, Kalaghatagi Post & Tq, Dharwad
207707	Umesh Angadi Shrishankar.A. Angadi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28414 20.06.11	Hunshal (P.G) ? A/P, Gokak Tq, Belgaum
207708	Umesh Holenavar Sundaresh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28290 25.05.11	No.94-189, Krishna Temple, Bagarnal At, Karaguppi Post Hukkeri Tq, Belgaum
207709	Umesh Hundekar Ramanna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	29749 29.09.12	Bennur At Post, Bagalkot

2011				
207710	Umesh Mathapati Chidanand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25420 25.02.10	(Nadi), Ingalagaon Post, Athani Tq, Belgaum
207711	Umesh. J.D. T. Devenarappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26948 20.10.10	Pragati Gramina Bank, Vijya Nagar Ext, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
207712	Umesh.C. Sajjan Chandrashekar.S. Sajjan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28325 25.05.11	T-C.87, RTPS Clny, Shaktinagar, Raichur
207713	Umme Arshiya. Syed Hasham.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27370 24.03.11	Pension Mohalla, New Rd. Hassan
207714	Umme Hani Nisar Ahmed Khan. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23767 03.04.09	# 3260/3, 2nd Cross, Anegundi, TilakNagar, Bannimantap, Mysaore
207715	Umme Salma M.A. ef Dandoti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27548 28.03.11	# 14-442, Laxmi Gunj, Shahabad, Chittapur Tq, Gulbarga
207716	Ummesalma Mulla Sayed Hussain Mulla	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28832 16.04.12	# 43, M N Manzil 21st Cross, 16thMain, BTM Layout, 2nd Stage, Bengalur
207717	Umme Salma Azeez Ahmed Beig	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29217 14.05.12	No 2-10-1A, Old Rd. Pangala, Kaup Post, Udupi
207718	Upadhyia Priyanka Ashok Ashok Shripal Upadhye	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27917 12.04.11	H.No.1037, Kognoli-A/P, Chikkodi Tal, Belgaum
207719	Upase Dinar Prabhakar P Bhimashankar Upase.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25178 07.10.09	Nr. Gadag Rd. Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
207720	Urmila Loveleen Lobo JayeshKr P. Shikotra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2007	28121 25.04.11	#102, Bhardwaj, SBM Clny, Hassan Tq &
207721	Usha Balehallimata Thippeswamy. B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27175 18.03.11	Jangama Jyothi, Nayakanahally Post, Challakere Tq, Chitradurga
207722	Usha H Hucha Hanumaiah	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29374 21.05.12	No 24 1st Main , Sanjeevini nagar, Hegganahalli Cross, Bangalore
207723	Usha Kiran. S Shadakshari. B.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27589 30.03.11	# 5550 (Upstairs), 1st Main Cross, Hassan
207724	Usha Kumari. K Ramanna Gowda. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27515 28.03.11	Peramagru Post, Bantwal Tq, Dakshina Kannada
207725	Usha M Nagaraja M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27176 18.03.11	Hagaribommanahalli, Bellary
207726	Usha Naik Narayan.R.Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28628 15.11.11	Bunder Rd. Bela, Ankola Tq, Uttar Kannada
207727	Usha. C Chandrashekhara. S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27406 25.03.11	# 14, 2nd Main, Vinobhanagar, Davangere
207728	Usha. H.N Nagaraj. U.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26222 23.03.10	Uppar Street, Holehonnur, Bhadravathi Tq. Shimoga
207729	Usha. M.V. M. Venkatesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26712 10.06.10	#43, 1st Main, 1st Cross, HUDCO Clny, Gadag Tq. &
207730	Ushakiran S B Hanumath Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29358 21.05.12	No 10-5-196/3/1, Thukaram Gate, Maredpally Tq, Hyderabad
207731	Usharani JE Eshwarappa JE	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	29249 15.05.12	Jamballi Heddaripurapost Hosanagara Shimoga

2011				
207732	Usharani ShyamSundar Sanu S S Narayan Sanu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26055 19.03.10	Akshay Park, MIG 3, Flat No. 103, Gokul Rd. Hubli Tq, Dharwad
207733	Usharani. L.R L.S. Reddy Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24049 20.04.09	Rajendra Prasad Rd. Ramanagar, Hagari bommanahalli, Bellary
207734	Utnal AmeetkumarHanamantaraya Hanamantaraya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23941 13.04.09	Kalyan Nagar, Nr RaghavendraTemple Sindagi Tq, Bijapur
207735	Uttam Sikkdar Haridas Sikkadar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30060 16.04.13	R.H. No. 3, Jawallgera (P), Raichur (), Sindhanur
207736	Utture Veerkumar Vidyadhar Jivendra Utture.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25550 05.03.10	Bhoj Post, Chikkodi Tq, Belgaum
207737	Vader Hemanth Kumar V Nagaraju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29487 25.05.12	# 40 ?A? Block, Tirumala Nagar, AtturLayout Yelehanka New town, Bangalore
207738	Vadingekar NitaPramod Pramod P Vadingekar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30509 19.06.13	At Post Khebavade, Tal-Karveer, Kolhapur, Khebavade
207739	Vaheeda Choudhry. H Hassan Choudhry.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28533 25.08.11	KAMC, K.E.C.T Towers, Hoigebail, Ashok Nagar, Mangalore
207740	Vaijayantimala Wadiyar Parashuram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25377 02.02.10	BEO Office, Kagwad, Athani Tq, Belgaum
207741	Vaishali Vajinath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24541 13.05.09	# 11-1400/33, Ghatge Layout, Gulbarga Tq &
207742	Vaishali M Mallikarjun Y S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30391 23.05.13	H.No.-136 (MIG), KHB Clny Opp.Sarkari Naukar Sangh Building, Naubad Bidar
207743	Vajrika C R Raghavendra C K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30235 30.04.13	# LIG 51, 1st Floor, 2nd Stage, Kuvempunagar, Mysore
207744	Valse Preeti Gunderao Gunderao N Valse.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24951 10.06.09	H.No. 12-2-71, Gandhi Ganj Post, Harugeri, Bidar
207745	Vanaja R Rangappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30142 22.04.13	Sri Ranga Nilaya, Nr. Ring Rd.Vijaynagar 2nd Stage, Hassan
207746	Vanaja Rani S ShivaKr B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29041 05.05.12	5th Cross Shivananda Nagar, Nagarabhavi Main Rd. Bangalore
207747	Vanajakshi Basavanthappa Savakkanawar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27717 06.04.11	Ammanna Compound, Car Street, Brahmavar Chantarr, Udupi
207748	Vandana Kumari Singh Uday Naayan Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24960 10.06.09	4th Main, 4th Cross, Vinayakalayout, Boopsendra, Bangalore
207749	Vandana P Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29107 07.05.12	No 2011/11, SiddaveerappaBadavane 9th Cross Davanagere Taluk &
207750	Vandana PL Lokesh Reddy PA	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29227 15.05.12	No 12, 4th Main 5th Cross, Ananda Giri Extension Rt nagar Bangalore
207751	Vandana R Pai K Ranhuveera Pai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29653 18.06.12	#1/67, Charmady Rd.Kakkinje At Post, Belthangady Tq, Udupi
207752	Vanditha D Kamath Dayanand Kamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29591 12.06.12	H No. 2-92, Nr. Diana Theatre, Kukikatte, Udupi
207753	Vani A. Subramanya Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24261 28.04.09	Arooru Post, Udupi Tq &

2008				
207754	Vani S Devappa Shivaraj M Devappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30577 24.07.13	Plot No 32, Jewargi Clny, New Makalayout, Shreeshail Nagar, Gulbarga
207755	Vani. B Koraga. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24496 11.05.09	# 1-166, Belapu Post, Udupi
207756	Vani. C.M Munivenkatappa. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24594 18.05.09	# 3903/2, Bangarpet Tq, Kolar
207757	Vanishree Revanasiddappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28907 26.04.12	No. 22/709, Humnabad At Post & Taluk , Bidar
207758	Vanishree Kulkarni Shanthaverrayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30011 09.04.13	K C Nagar, Nr. DCC Bank, Bijapur
207759	Vanishree Lingadahalli Shivanand Lingadahalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24574 14.05.09	Banashankari Nilaya, Melagiri Post, Byadgi Tq, Haveri
207760	Vanishree. G Bellam. G.L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27256 22.03.11	# C-35, G-2, Rd.Jeevanbhimmagar, Bangalore
207761	Vanishree. S.K S. Krishnamurthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25802 12.03.10	# 4-6-624, C.G. Kamath Rd, KarangalpadyMangalore, Dakshina Kannada
207762	Vanita Havinal Tukaram Havinal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28768 05.04.12	M.I.G 1st B-45, K.H.B. Clny Nr Indiranagar Bijapur
207763	Vanita Patil Rudragouda.B.Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27510 28.03.11	G-202, Akshay Garden, Vidyanagar, Hubli Tq, Dahrwad
207764	Vanitha V Jadadelli VijayaKr	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30131 20.04.13	Totad House, Navnagar, Gajendragad-Tq, Gadag, Gajendragad
207765	Vanitha.V.Kamath. P Vasudeva.V.Kamath. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25684 12.03.10	# 2-3-10E, Adi Udupi, Ambalpady, Udupi
207766	Varalaxmi. C S. Sreekanth Babu.	BAMS Gulbarga University 2001	28550 17.09.11	# 25/69, Ramanjineya Nagar, Contonment, Bellary
207767	Varaprada Narasimhacharya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25755 12.03.10	# 10/2, Mallayyakatta, Gurumatakal Post & Tq, Yadgir
207768	Varma PrashantKumar Prahlad Varma Prahlad. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28585 19.10.11	# 501, 2nd Cross, Vinobanagar, Shimoga
207769	Varsha Prabala PVS Sastry	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29293 17.05.12	No 3-597/12, Unadavalli Centre, Congres Office Guntur
207770	Varsha Vithal Parvatikar Vithal N Parvatikar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30365 21.05.13	H.No. 1298, Ramlingkhind Galli, Behind Bhakti Mahila Society, Belgaum
207771	Varsha. K.N N. Ninge Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25981 18.03.10	D.No. 786, 3rd Cross, Shankrappa Layout, Tiptur Tq, Tumkur
207772	Varun Subramanya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24963 10.06.09	Vijay Nivas, Nr. Bus Stand, Ilkal, Hungund Tq, Bagalkot
207773	Varun Joshi Venkatesh Joshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26068 19.03.10	# 210/2B, Kalpauruksha, NrBombay Chal Gokak Tq, Belgaum
207774	Varun. D S. Dorai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24694 02.06.09	Sangam Nivas, Venkatesh Nagar, 2nd Cross Jail Rd. Shimoga
207775	Varun. N Narashima Murthy. T.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25250 24.10.09	Nallur (AMP), Channagiri Tq, Davangere

2008				
207776	Varun.G. Suratkal Gopal Suratkal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28251 12.05.11	#19/72, Thadambail, Suratkal, Mangalore, Dakshina Kannada
207777	Varuni Savoy Vijendra Rao Savoy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24310 29.04.09	Vasista, 3rd Cross, 1st Main, Ravindranagar, Shimoga
207778	Varwate Sonali Shrimani Shrimani K Varwate	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28988 27.04.12	No.153 , Shri KrishnaClny MIDC Kodali Satara
207779	Vasanth Kumar V. S.Venkataramanappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26785 19.08.10	#118, 10th ?F? Cross, NagavarapalyaC.V.Raman Nagar, Bangalore
207780	Vasavi. M M. Nagaraja Holla.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26013 19.03.10	# 1-145, Narayaneeyam, Yedabettu PostSasthan Kundapur Tq, Udupi
207781	Vasudevane AmrutaMahesh Maheshrao Vasudevane	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28805 13.04.12	Sanjeev Reddy Clny, Degloor Rd, Udgir, Latur
207782	Vasundara. S Shatna Raju.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23903 09.04.09	# 44, Prashanthi Ramachandra Shetty Layout, Kanakapur Main Rd, Kaggalipura, Bangalore.
207783	Vatsala. H.S G.S. Somashekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25072 23.07.09	# 21/1, 2nd Cross, 12th Main, , Agrahara Dasarahalli, Bangalore
207784	Vechlekar Kamlesh Krishnaji. V Krishnaji Atmaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24415 05.05.09	Shri Channappani dasagi, Warkargalli, Koppal
207785	Veda Gireppa Nander G S Nander	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28151 26.04.11	#3, B-Block, Forensic ScienceLaboratory Quarters Madivala, Bangalore
207786	Vedapriya V Venkatesh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30430 29.05.13	# 224, 1st Main Rd.2nd cross, Kamalanagar Bangalore
207787	Vedpathak Vallabh Ashok V Ashok Shrikrishna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25257 27.10.09	Vidyanagar, Bailhongal Post & Tq, Belgaum
207788	Veena J Sangana Gowda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29572 12.06.12	APMC, Om Shiva Nilaya, Manvi Post & Tq, Raichur
207789	Veena Shivaraj Patil.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25683 12.03.10	A 34/1, # 8-9-270, Gurunanak Clny, Bidar
207790	Veena Babali Tammanna O Babali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24883 08.06.09	Dharmatti Post, Gokak Tq, Belgaum
207791	Veena G M Chetan C M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29706 12.07.12	HanumanahaliHospet Tq, Bellary
207792	Veena Hiremth Mallikarjunayya S Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28782 11.04.12	Mamadapur At & Post, Bijapur
207793	Veena Kupati Babu Basetti Kupati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27519 28.03.11	Muragundi At & Post, Athani Tq, Belgaum
207794	Veena Megeri Chandra Shekar Rao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29640 14.06.12	Plot No. 20, Annapurna Nilaya, ManjunathClny Shivagiri Last Bus Stop, Dharwad
207795	Veena Nagaraj N.C. Nagaraja.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25093 14.08.09	# 23, Jyoti Nivas, 2nd Main, 3rd CrossSapthagiri Layout Vidya ranyapura, Bangalore
207796	Veena Naik Vankataraman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24507 12.05.09	Behind KHB Clny, Sadashiva Nagar, Solapur Rd. Bijapur
207797	Veena Padnad Ramrao B Padnad	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	27819 08.04.11	Sankonatti A/P, Athani Tq, Belgaum

2009				
207798	Veena S Kulkarni Suryakant Kulkarni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30048 16.04.13	H.No. 18, R/o Itga, Tq Humnabad, .
207799	Veena Sajjan Pavadeppa Sajjan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23824 04.04.09	Corpaoration Rd. Banhatti Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
207800	Veena Salian. L T. Laxman Salian.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24770 04.06.09	# 6-156, Someshwar Uchila, Someshwara Post Mangalore Tq, Dakshina Kannada
207801	Veena Veerappa Yaragatti Veerappa. Y. Yaragatti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25074 24.07.09	H.No. 1701, Sector No. 8, Anjaneya Nagar, Belgaum
207802	Veena Vinod E E R Vinod	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29550 29.05.12	Erathetu House, Thalachira (Eram) Pust, Ranni Tq, Pathanamthitta
207803	Veenakumari. K C. Krishna Murthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24699 02.06.09	Manjunatha Nagar, Gokul Extn, Kyatasandra Post, Tumkur
207804	Veer Nilesh Laxman Laxman D Veer.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25535 04.03.10	C/o. Javli Plot, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
207805	Veerabasappa Badiger Shankarappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25284 18.11.09	Joisaraharalahalli Post, Ranebennur Tq, Haveri
207806	Veerabhadra Gowda P B Basavana Gowda P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29997 08.04.13	Gangavathi-Tq, Koppal , Gangavathi
207807	Veerabhadrapura Purad Chandrashekarappa P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26691 29.05.10	Bannikoppa Post, Shirahatti Tq., Gadag
207808	Veeraj Praveen B. Praveen Kr Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24612 18.05.09	Satya Sadana, Heggunde Post, Udupi
207809	Veeramma. S.V Shivaraj. V. Patne.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25008 23.06.09	Narayanpur Post, Basavakalyan Tq, Bidar
207810	Veeranna Haveri Gurulingappa Haveri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25631 06.03.10	Behind Police Station, Holalu Post, Huvina Hadagalli Tq, Bellary
207811	Veeranna Melagiri Nagappa Melagiri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25220 13.10.09	Kolhar Police Station, Kolhar, Basavana Bagewadi Tq, Bijapur
207812	Veerendra Kolluramath Basavaraj. S. Kolluramath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27461 26.03.11	H.No. 1198, BAngara Galli, Gokak Tq, Belgaum
207813	Veerendra Yalaganti Danappa Yalaganti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23804 04.04.09	Yanam Peth, Ramdurg Tq, Belgaum
207814	Veeresh Pavadamurti Annaswami	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29933 07.03.13	Rudrapur, Lakkalakatti Tq-Ron, Gadag
207815	Veeresh Sajjan Suresh Sajjan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27468 26.03.11	Ganesh Nagar, SBI Rd. Muddebihal Tq, Bijapur
207816	Veeresh Sattigeri Basavaraj. V. Sattigeri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27399 25.03.11	# 321 to 476, Mallapur, Ron Tq, Gadag
207817	Veeresh. S. Bandegol Siddayaswami. S. B Math.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25853 12.03.10	D/13, Bheemarayana Gudi, Shahapur Tq, Gulbarga
207818	Veerasha. B. Gatate Basavaraj. A. Gatate.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23698 01.04.09	Nr. Dhanashree House, Almel Post, Sindagi Tq, Bijapur
207819	Venaganti Dattu Chandram Venaganti Chandram. R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24019 20.04.09	Plot.No. 43, 2nd Cross, 1st Main Rd. Pratibha Chny,

		2008		Dharwad
207820	Venkat Reddy B.A.Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28685 23.02.12	#18-3-84/1, Sangmeshwar ClyBehind K.E.B, Chidri Rd. Bidar
207821	Venkata SureshKrishna.T. Subbarao Tummisetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28340 27.05.11	C/o SDM College, Thaneeruhalla, B.M. Rd. Hassan
207822	Venkatesh Narsing	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29811 12.10.12	Borbanda At, Budoor Post, Yadgir
207823	Venkatesh Burud Nagappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28697 15.03.12	#2254, Jawali Bazar, Nr Yallamma TempleMahalingpur, Mudhol Tq, Bagalkot
207824	Venkatesh Lachapet Ravinder L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30287 07.05.13	House No. 3-10-175, Nyalkal Rd. Nizamabad
207825	Venkatreddy Narsareddy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25894 15.03.10	Nr. Bus Stand, Aurad(B), Bidar
207826	Vernekar Vishal Anil Anil Krishna Vernekar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24942 10.06.09	# 200/6, Anjeneya, 6th Cross, R.K. MArg, Hindwadi, Belgaum
207827	Vhamane NileshAnnasaheb V Annasaheb Shankar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24911 09.06.09	# 1515, Shahunagar, Bedkihal, Chikodi Tq, Belgaum
207828	Vhanmane Mahesh Tatyasaheb C Vhanmane	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28615 05.11.11	C/o. Shree V.P. AMC, Boy's Hostel, College Rd. Badami Tq, Bagalkot
207829	Vibby Balakrishnan D.Balakrishnan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2005	28679 07.02.12	Ayurveda Academy, 229/1, 4th Main2nd Cross, Chamarajpet, Bangalore
207830	Vibha Basavaraj Babaleshwar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27137 17.03.11	Rajakolur Main Rd. Bazar, Shorapur Tq, Yadagiri
207831	Vibha Balachandra Hegde. Balachandra Hegde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24703 02.06.09	Sri Kanchikamba Prasad Nilaya, KagalPost, Kumba Tq, Uttar Kannada
207832	Vibha Phadake Srikanth Phadake	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29334 18.05.12	B-10, Btm 6th Stage, Avani Srigeri nagar, Belur Bangalore
207833	Vibhute Asmita Ashok Ashok Mahadeo Vibhute.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25404 24.02.10	Tangadi Post, Athani Tq, Belgaum
207834	Vidhya.D Devappa M.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25321 04.12.09	Opp Sister Residence House, AnithaConvent Rd Malavalli, Mandya
207835	Vidhyashree. S Somanna.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23931 09.04.09	# 2115, 3rd Cross, Ashokapuram, Mysore
207836	Vidya Amogi S Kheadagi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30012 09.04.13	ATD 9/2 Bhimrayan Gudi, Tal-Shahapur, Yadgir
207837	Vidya Krishna Thanthy. M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25787 12.03.10	# 2-107/3(2), Mangalore, Kavoor, Dakshina Kannada
207838	Vidya Arali Channabasappa N. Arali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26012 19.03.10	Ghataprabha Post, Gokak Tq, Belgaum
207839	Vidya Bhairaji Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29462 24.05.12	Sadashiva Nagar, Sindagi Rd.Indi Post & Tq, Bijapur
207840	Vidya Gangall Mallikarjun.K.Gangal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24748 04.06.09	Vidyagiri, 11th Cross, Bagalkot
207841	Vidya Hudedavar Basappa.F.Hudedavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	23836 06.04.09	# 117, 3rd Cross, Shivabasava Nagar, Haveri



		2008		
207842	Vidya Indi Shrikanth D. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2006	27010 28.12.10	SharanagarLingada Rd. Bijapur
207843	Vidya Kannur Suresh Kannur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26494 06.04.10	Rukhmini Shankar Niwas, Kakkayya Cly, Gyana Bowdi, Bijapur
207844	Vidya Kittur Shivappa.V.Kittur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25756 12.03.10	6th Cross, Murugarajendra Nagar Post, Dharwad
207845	Vidya Kodli Shivanand.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24775 04.06.09	Banashankari Nagar, Sai Mandir Rd.Channamallikarjun Krupa, Dharwad
207846	Vidya Naik S S Krishna Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28944 26.04.12	No.31/32, Anand Garden Appt. 5th Main10th Cross R.k.Layout, Padmanabha Ngr Khanapur Taluk,
207847	Vidya Narayan Jayaprakash Narayan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26764 31.07.10	#93, 3rd Cross, 1st Stage, Dollarscheme, Bangalore
207848	Vidya Patil Mallanagouda.B. Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27824 08.04.11	Police Station Kulgada, Gokak Tq, Belgaum
207849	Vidya Rai.T. T. Ganesh Rai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26729 28.06.10	I-10/A, Apoorva Layout, Mukrampadi, Artapu, Puttur Tq., D.K.
207850	Vidya Rani. N Nagaraj. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24218 28.04.09	# 1363, 2nd Cross, MannarayanapalyaR.T. Nagar, Bangalore
207851	Vidya Rani.M. Muniraju.B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28150 26.04.11	#8, A2 Block, Austin Town, Nr. Old Cement Lane, Bangalore
207852	Vidya Sharanappa. B.Nandapur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24566 14.05.09	Madinoor Post, Koppal
207853	Vidya Shree Basabagouda Malipatil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29340 21.05.12	BB Nagar, Koppal Rd.Kushtagi at post & Tq, Koppal
207854	Vidya Upadhye SheetalKr S Upadhye	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29175 11.05.12	Plot No. 37, Anant Shanti Building , Adarsh nagar, Hindwadi, Belgaum
207855	Vidya.K. Holebasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28349 30.05.11	Bhanuvalli A/P, Harihara Tq, Davangere
207856	Vidyadhar Balikai Shanmukhappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28948 26.04.12	No.33, Baralikatti At & Post Hubli Taluk Dharwad
207857	Vidyalaxmi Aparaj Vijay.J.Aparaj	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26528 09.04.10	Ainapur Post, Atani ? Tq., Belgaum
207858	Vidyarani Rayanagoudar Virupaxagoudar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26535 12.04.10	H.No.63, Ganga Nilaya, Jawali Plot, Gajendragad, Ron, Gadag
207859	Vidyarani. A.S Appasaheb.G.Sajjan.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24369 30.04.09	# 11-3-66, Deshmukh Clny, Aland Tq, Gulbarga
207860	Vidyasagar Reddy Panduranga Reddy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28683 15.02.12	#2-907/118, Plot No.36, Sedam Rd, Sainagar Badepur, Gulbarga
207861	Vignesh Hoblidar Rathnakar Hoblidar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24560 13.05.09	# 322/E/VIII, Wooderhobli, Kundapur Tq, Udupi
207862	Vijay Kamble Atmaram D Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29763 29.09.12	Badachi At Post, Athani Tq, Belgaum
207863	Vijay Kapattanavar Mallappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	26599 23.04.10	H.No.27/188, 1st Cross, Shivanand Nagar, Gadag.

2009				
207864	Vijay Kumar Veerashetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25620 06.03.10	# 71, R/o. Bapur, Meenakhera, Bidar
207865	Vijay Laxmi Laxman.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23697 01.04.09	29/B, Opp Jiwan Prakash School, PWD Qtrs, Old Jewergi Rd. Gulbarga
207866	Vijay Prakash Vijay S. Hippargi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26905 21.09.10	#643, 2nd Cross, Nr Nayak HospitalKiritnagar, Bijapur
207867	Vijay. P Malhar Rao. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23826 06.04.09	STRT 6/11, 16th Cross, AlstomClny, Shahabad, Chitapur Tq, Gulbarga
207868	Vijaya Naganna	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26969 16.11.10	Sagar Post, Shahapur Tq, Gulbarga
207869	Vijaya Gavali Kashinath Gavali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24340 29.04.09	\$ 3, Plot.No. 217/A, Behind Mahaveir Bhavan, Hindwadi Post, Belgaum
207870	Vijaya Kalligudd Neelappa M. Kalligudd	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28264 17.05.11	Behind TMC Guledgudd, Badami Tq, Bagalkot
207871	Vijaya Mahanthesh. M M.R. Madiwala.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25370 25.01.10	Opp. Ganesh Gudi, Sadashivanagar, Hospet Tq, Bellary
207872	Vijaya Raj. M R. Maheshwarappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24537 13.05.09	# 6, 12th Cross, S.P. Extn, Sudheendra Nagar, Malleshwaram, Bangalore
207873	Vijayakumar Badakundri Dundappa SBadakundri.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25914 15.03.10	# 70, Ghataprabha, Gokak Tq, Belgaum
207874	Vijayakumar Mayer. Lokappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25820 12.03.10	Nehru Nagar, Byadagi Tq, Haveri
207875	Vijayakumar Mulimani Shankrappa.C.Mulimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24225 28.04.09	Belur Post, Nr Durgamma TempleBadami Tq, Bagalkot
207876	Vijayakumar Shinde Shivaji	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27775 07.04.11	Chatrapati Shivaji, Bailur At & Post, Bailhongal Tq, Belgaum
207877	Vijayakumar. P.S Siddappa. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23796 04.04.09	Nalkudure (P), Channagiri Tq, Davangere
207878	Vijayakumar. C Chickathayappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24971 11.06.09	# 101, B Block, 1st Main, 16th E Cross, Keerthi Rendezuous Pai Layout, Bangalore
207879	Vijayakumara. K.M Chidanandaiah. K.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23710 02.04.09	# 1/112, TMC Rd. Kottur, Kudligi Tq, Bellary
207880	Vijayakumari Haveri Mallikarjun	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30278 07.05.13	At & Po Asundi, Tq Ranebennur, Dst Haveri, Banebennur
207881	Vijyalakshmi Elagi Vittal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28657 17.12.11	Opp. Sankalpa School, CPI, K.C.Nagar, Sidrameshwar Nilaya, Bijapur
207882	Vijyalakshmi Hadimani Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25670 12.03.10	# 3604, EWS-33, Jalanagar, Bijapur
207883	Vijyalakshmi Karimani Mahantesh Karimani	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2012	29835 30.10.12	Flat No. 102, Kumar Homes Appt. 4thCross, Bhagya Nagar, Angol, tilakwadi Belgaum
207884	Vijyalakshmi. P Chowdappa. P	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25999 19.03.10	# 79/42, 2nd Cross, Yeshwanthpur, Bangalore
207885	Vijyalakshmi. S A. Suresh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24628 18.05.09	# 79, Nagashetty Hally, Sanjay Nagar, Bangalore

		2008		
207886	Vijayalaxmi Basavantraya Basvantaraya.S. Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27781 07.04.11	BSNL Main Telephone Exchange, Bagalkot Tq &
207887	Vijayalaxmi Bhagoji Basavanni.G. Bhagoji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23726 02.04.09	LIG-48, 3rd Cross, 1st Main Rd. Belgaum
207888	Vijayalaxmi Diwan Vithal Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25265 02.11.09	# 79/A, Navaraspur Clny, , Bagalkot Rd. Bijapur
207889	Vijayalaxmi K Hiredinni Kariyappa V Hiredinni	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29417 23.05.12	Plot No 60, 61, Nr. horgis Appartment, Santosh Clny, Gulbarga
207890	Vijayalaxmi Loni Malasiddappa Metri	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26771 10.08.10	VidyanagarIndi Tq, Bijapur
207891	Vijayanand Shapur Gangadhar B Shapur.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24808 05.06.09	Shapeti Galli, Bijapur
207892	Vijayapani Rajasekar C.T. Ere Gowda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26082 19.03.10	# 15, 4th Main Rd, ChamundeshwariLayout, Doddabommasandra Vidyaanyapura Bangalore
207893	Vijayaraddy Basavaraj.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25603 06.03.10	# 57, Singanahalli, Gogi Post, Shahapur Tq, Yadgir
207894	Vijayashree Ashok Kr Bidimani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25717 12.03.10	# 3-1005/1, Gajilpur, Gulbarga
207895	Vijayashree. B.L Linga Thimma Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24211 24.04.09	C 4/1, KPC Clny, Kargal Post, Sagar Tq, Shimoga
207896	Vijayendra Mahadevappa Shahapur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26601 23.04.10	Kukanoor Nagar, Yelburga Tq., Koppal
207897	Vijaykumar Yamanappa Udunoor.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24247 28.04.09	Plot.No. 231, GDA Layout, Ring RdKotnoor(D), Hiliyana Post,
207898	Vijaykumar Asangi Bhimappa B Asangi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29625 14.06.12	Harugeru At Post, Raibag Tq, Belgaum
207899	Vijaykumar Joshi Appajirao.N.Joshi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28444 20.06.11	Joshi Dispensary, Main Rd.Almel, Sindagi Tq, Bijapur
207900	Vijaykumar Kapse H H Kapse	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29541 28.05.12	Behind Bus Depo, Shivaji Chowk, Latur Tq &
207901	Vijaykumar Patil Shankaragouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28484 18.07.11	Melagiri Plot, Agasanahalli Rd. Byadgi Tq, Haveri
207902	Vijaykumar. K.M Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24557 13.05.09	# 2081, 4th Cross, 1st Main, JudicialLayout, GKVK Post, Yelhanka, Bangalore
207903	Vijaykumar. M Mallikarjun.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27155 18.03.11	Dhannura (K), Wadi Post, Basavakalyan Tq, Bidar
207904	Vijaylakshmi. B Vaijinath Bhange.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27593 30.03.11	Plot.No. 20, H.No. 19-5-353, Mahadevcly Shivvnagar South, Bidar
207905	Vijaylaxmi Kangal Siddappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24709 03.06.09	# 270, Talikoti Rd. Nalawad Post, Muddebihal Tq, Bijapur
207906	Vijaylaxmi Kori Sadanand.C.Kori.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25848 12.03.10	# 101, Emmikeri, Bhavani Appts, Malmaddi, Dharwad
207907	Vijaylaxmi.M.Umachigi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	24987	H.No. 206, Basveshwar nagar, Hosa Oni, Mundgod Post & Tq,

	Mahesh.J.Umachigi.	2008	15.06.09	Karwar
207908	Vijayranga Malamande K Allappa B Malamande.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25248 24.10.09	Plot.No. 835, 2nd Stage, Vasant ViharCly Ranni Channamma Nagar, Belgaum
207909	Vijayshanker Bakkappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26860 02.09.10	Sule Beernalli, Chincholi Tq, Gulbarga
207910	Vijayshri Metri Prakash	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28267 17.05.11	New Pdnur Post, Indi Tq, Bijapur
207911	Vijesh A Vijayan A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30265 06.05.13	Adoor House, Morazha (p), Taliparamba (t), Kannur (d)
207912	Vijeta Bhuyar VijayKr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24325 29.04.09	Basav Nagar, 2nd Cross, Rabkavi Post, Jamkhandi Tq, Bagalkot
207913	Vikas G.N G Narasimhamurthy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30422 28.05.13	No. 10, 7th Main Devegowda Layout, Behind Police Station, Sadashivanagara, Tumkur
207914	Vikas Hiremath RajKr Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26780 16.08.10	Salotogi- A/P.Indi Tq, Bijapur
207915	Vikas. Laxmanrao Ghagare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25372 25.01.10	Indiranagar, Kamalnagar Post, Aurad(B), Bidar
207916	Vikash Kumar RamKr Bangaliya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30067 16.04.13	Vill-Kairu, The-Tosham, Bhiwani, Kairu
207917	Vikash Singh Ramsharam Singh Chavhan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26493 06.04.10	C/o SVP RuralAy. Medical College, Badami, Bagalkot
207918	Vikram Balu K. Balu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27602 30.03.11	# 47/1, 2nd Cross, Nagappa Block, Srirampuram, Bangalore Urban
207919	Vikram GajananDeshbhandari Gajanan.G.Deshbhandari.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25592 05.03.10	# 66 A, Hulekal Rd. Manjhalli, Sirsi Tq, Karwar
207920	Vikrant Tanaji Ingale Tanaji Ganapati Ingale.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24452 05.05.09	Pushp Kunja, Behind SUCO Bank, 2nd Cross, BT Patil Nagar, Koppal
207921	Vilma Benedicta Aranha Lawrence Aranha	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	29561 12.06.12	Kacharkanahally, C/o Provincial House, Thomas Town Post, Bangalore
207922	Vimal Kumar Lakhpat Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30027 15.04.13	Vill-Raphatpur, Nr. Police Station, Dhanaura, JH.P. Nagar, Raphatpur
207923	Vimala B Veeraswamy H	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28776 11.04.12	# C-18, Central ExciseC-Block, Davangere
207924	Vimala Bellary Sharanbasavarai. V. Bellary	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26742 02.07.10	Uday Building, Sarswathpur, Nr Modern School Kalagatagi Rd Dharwad
207925	Vinanthi. S K. Srinivas.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25988 18.03.10	Ossoor Estates, P.B. No. 18, Sakleshpur Tq, Hassan
207926	Vinay Gundagavi Veerabhadrapa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26839 25.08.10	Kamleshwar Nilaya, P.B. Rd. Haveri
207927	Vinay Kumar R.P. Seth	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28661 05.01.12	#3394/D, 6th Main, 3rd Cross, R.P.C. Layout, Bangalore
207928	Vinay Kumar Singh Lakshman Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	30596 05.08.13	# 410, 17th Cross, BEML Layout, Baareshwar Nagar Bangalore,
207929	Vinay Kumar. D Panduranga Daroji.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	25896 15.03.10	# 2/3/291, Behind Laxmi Medical L.G. Rd, Gangavathi,

		2009		Koppal
207930	Vinay Kumar.B.E. Eshwarappa. B.V.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27082 15.03.11	#17, MIG II, Vijayanagar Extn, K.R.Nagar, Mysore
207931	Vinay Padaganur Shivappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29268 16.05.12	Azad nagar , Telgi Rd.m Basavana Bijapur
207932	Vinay S Shivaji S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30476 11.06.13	At Thoravandha, Post-Agasanahalli, Tq- Soraba, Shimoga
207933	Vinaya Shankara Vishweshha Bharadwaj. B.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27483 26.03.11	# 4-116, Sullia, Aramboor Post, Sullia Tq, Dakshina Kannada
207934	Vinayak Hanmant Rao.S.Tati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25627 06.03.10	# 7-4-13, New Bus Stand Main Rd.AlaInD Tq, Gulbarga
207935	Vinayak Vaijinath Konde.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26276 23.03.10	H.No. 8-3-26, Kranthi GaneshShahagunji, Bidar
207936	Vinayak Shekharappa.K.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27803 08.04.11	Begur Maradi, Begur Post, Shikaripura Tq, Shimoga
207937	Vinayak Almalkar Ashok Almalkar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23937 13.04.09	15th Cross, Nr. 15 No School, Kenchamma Temple, Vidyagiri, Bagalkot
207938	Vinayak Angadi Fakeerappa.S. Angadi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27557 29.03.11	Tarlaghatta Post, Kundgol Tq, Dharwad
207939	Vinayak D Hajje Dattatraya M Hajje	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29785 12.10.12	Bazar Rd. Pachhapur At Post, Hukkeri Tq, Belgaum
207940	Vinayak Kinnal Shivappa.B.Kinnal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25821 12.03.10	?Smruthi? 3rd Cross, B Block, Vidyanagar, Haveri
207941	Vinayak Singh Rajput Ashok Singh Rajput.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25913 15.03.10	Hukkeri Circle, Hukkeri Tq, Belgaum
207942	Vinayaka Basavanni Varadannavara Basavanni.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27157 18.03.11	Ullagaddi Khanapur, Hukkeri Tq, Belgaum
207943	Vinayaka.S.Holechi Sangamesh.B. Holechi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27601 30.03.11	Soladevanahalli, Hesaragatta Rd.Chikkabanavara Post, Bangalore
207944	Vinayashree. K.S Subraya. K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24459 05.05.09	# 43, Shree Annapoorneshwari KrupaGadikoppa, Police Layout, Laggan Mandir Road Shimoga
207945	Vinaykumar Hiremath Revansiddayya.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24707 03.06.09	# 304, 7th Main, Shivananda Nagar, Navanagar, Hubli Tq, Dharwad
207946	Vinaykumar. H.K Krswwamy. H.M	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25094 17.08.09	Mathapitha, Jannakavi Rd. KuvempuNagara Channarya patna Tq, Hassan
207947	Vinayraj. B.G B.G. Basavaraja.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24855 06.06.09	# 1870/67, 7th Main, 3rd Cross, Swamy, Vivekananda Layout, Davangere
207948	Vineet Kumar Vikram Singh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25023 29.06.09	Shikh Clny, Radhakrishna Nagar,
207949	Vineetha S Kidiyoor Sundar A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29415 21.05.12	No 24-43B, Madhwanagara, Moodubettu, kodavoor post Udupi
207950	Vinita Shivabasappa Hirebeel Shivabasappa Y Hirebeel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30374 21.05.13	Plot No 45, ?Shivam House?Teachers Clny Vinayak Nagar, Hindalga, Belgaum
207951	Vinoda Kattennanavar Virupakshappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	29173 11.05.12	NegalurAt & Post, TQ Haveri

2011				
207952	Vinoda.M.Badiger Mallappa.B.Badiger.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26042 19.03.10	C/1/136, Dandeli, Haliyal Tq, Karwar
207953	Vinodkumar Keerti Jeevandhar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24181 24.04.09	Panchamruta Bldg, Vidyagiri II Cross, Dharwad
207954	Vinuta Koradur Basavaraj Koradur	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28965 26.04.12	Basavarj Building , GourishankarNgr 3rd Main3rd Cross, Ranebennur Taluk Haveri
207955	Vinuta Mutalikdesai Anil.A. Mutalikdesai	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28208 04.05.11	No.65/36 A, Shinire Clny, Nipani, Chikodi Tal, Belgaum
207956	Vinutha Acharya Vishwanath Acharya. U	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25222 13.10.09	Vishwa Kuteera Udyavara Bolaragudde, Udupi Tq, Dakshina Kannada
207957	Vinutha Holla. N.S Subramanya. N.K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24588 15.05.09	# 2522, 7th Cross, HAL 3rd StageKonene Agrahara, Vimanapura, Bangalore
207958	Vinutha R Ranganna L R	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28841 16.04.12	Srinidhi Layout, Behind Nalanda Convent Tumkur
207959	Vinutha. H.T Thammappa. H.S	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25006 20.06.09	# 607, 7th Main, 3rd BlockBasaveshwara Nagar, Bangalore
207960	Vinutha. M VKrishna Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26016 19.03.10	# 2-55/2, Vasudha, Padil Post, Mangalore Tq, Dakshina Kannada
207961	Vinutha. M.G S. Govindaraju.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24060 21.04.09	# 21, 17th Block, BEML Layout, Srirampura 2nd Stage, Mysore
207962	Vinutha. M.K S. Krishnamurthy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27547 28.03.11	Tulasi Nilaya, # 66/8, Vijayanagar Extn, Hosdurga Tq, Chitradurga
207963	Vinutha. T Veeranna. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23900 09.04.09	Renuka Extn, Kottur Post, Kudligi Tq, Bellary
207964	Vinyasa. T.E Eranna. V	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24388 05.05.09	Shivananda Clny, APMC Yard, 3rd CrossArsikere Tq, Hassan
207965	Viraganti JayprakashMadiwalappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28648 09.12.11	M.P. Jalihal, Badami Tq, Bagalkot
207966	Virendra Pratap Singh Kanhaha Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27657 01.04.11	Basav Nilaya, 12th Cross, Plot No.7/2, Vidyagiri, Bagalkot
207967	Viresha Ulligeri Somaling	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26796 19.08.10	Bhartinagar, Hangal Rd. Haveri Tq &
207968	Viroja K Mallikarjun K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30298 08.05.13	H.No. 2-50, Jajapur (Village), Tq-Makthal, Narayanpet (Mandal), Mahaboobnagar, Jajapur
207969	Virupxayya Swami Somashekarayya Swamy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29078 05.05.12	Bellurki At , Madashiravara Post, Sindhaur Taluk, Raichur
207970	Vishal Talikotti H Talikotti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24157 24.04.09	Panchamruta Bld, 2nd Cross, Vidyagiri, Dharwad
207971	Vishalakshi DevendraKr.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24814 05.06.09	Saradgi (B), Post, Gulbarga Tq &
207972	Vishalaxi Nadagoudar Ashok.V.Bannikoppa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28489 26.07.11	# 1047, Dodda Oni, Hambal Post, Gadag
207973	Vishavanthareddi Biradar Bapugouda	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	26748 03.07.10	Malahalli, Parasanahalli, Sonapur Tq., Yadgir

2009				
207974	Vishnu Kamble Mahadev.R.Kamble	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26672 19.05.10	Horti Rd. Inchargeri At & Post, Indi Tq., Bijapur
207975	Vishnu Keerthi. N Venkappa Bhat. N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25861 12.03.10	# 1-25, ?Kottekai?(H), Peruvaje Post.
207976	Vishvanath Chikkanayak	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28705 30.03.12	Hire Kuruvatti Post, Huvina Hadagali Tq, Bellary
207977	Vishvas.P.S. Sathyanarayan.S.T.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28712 30.03.12	Elumakkalamma, Temple Street, Chitradurga
207978	Vishwadeep Tukaram Savant	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28311 25.05.11	Nr Bus Stand, Aurad Tal, Bidar
207979	Vishwajeet RoyBidhanchand Bidhan Chandra Roy	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29661 18.06.12	#06, Ward No. 24, Malviva Nagar, Navtanwa Village & Post, Maharajgan,
207980	Vishwakarma SanjaykumarMahavir Mahavir	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27181 18.03.11	C/o SVM Ay.Medical Coll. Hungund Tq., Bagalkot Udupi,
207981	Vishwanath Nagendra Rao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27199 19.03.11	Soubhagya Ratna Sadana, Kumbara Galli, Shahapur, Yadgiri
207982	Vishwanath Charanthimath Padadayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26499 07.04.10	#2200, Siddheshwar Rd.Bilagi Post & Tq, Bagalkot
207983	Vishwanath Kotagi Mahadev B Kotagi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24726 03.06.09	Kardshi Post, Chikodi Tq, Belgaum
207984	Vishwanath Monappa Monappa Telegbal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27182 18.03.11	Bhgya Jyothi Stone Polishing, Shahabad, Chittapur, Gulbarga
207985	Vishwanath Patil Malagouda.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25858 12.03.10	Om Chaitanya Building, SBI Clny, Chikkodi Tq, Belgaum
207986	Vishwanath Shebannavar Ningappa Shebannavar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26884 15.09.10	Nr. Govt CBSE School, Sikkri Cross, Bagalkot Tq &
207987	Vishwaradhya Hiremath Panditaradhya Hiremath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28885 20.04.12	Ward No 1/3, H1 Revankalakunta At & Post Yelaburga Taluk Koppal
207988	Vishwas. T.V Venkatagiri. T	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25835 12.03.10	Talagere Guddekeri Post, Thirthahalli Tq, Shimoga
207989	Vishweshwarayya Math Rachayya	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29748 29.09.12	# 12/139, Behind Bus Stop, Hunasagi At & Post Shorapur Tq, Yadgir
207990	Vittal Prasad. P Balachandra Bhat.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24636 21.05.09	# 726, 23rd Cross, K.R. Rd, Banashankari 2nd Stage, Bangalore
207991	Vivek Pratap Singh Dharmendra B Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30539 03.07.13	# 27/146, 1st Main Vinayaka Nagar, Bagalur Cross, Yelahanka, Bangalore
207992	Vivek.S.Balikai Shivappa.U.Balikai.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26014 19.03.10	Mattigatti Post, Kundagod Tq, Dharwad
207993	Vivekanand Patil Sanganagouda A Patil	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29921 01.02.13	CTS No. 2394 Nr. Datta Mandir, Kolhapur VEs, Athani , Belgaum
207994	Vivekananda Venkatrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25444 02.03.10	Plot.No. 38, Infront of Laxmi Temple, Ramnagar Kapnoor Post, Gulbarga
207995	Vrinda Gururaja Bhat K	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30283 07.05.13	No. 328, ?SFS? 407, Fourth Phase, Yelahanka Newtown,

		2011		Bangalore
207996	Vruddhula VenkataSandhya V.L.N. Sastry	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28407 18.06.11	Flat No.113, Spectrum Ambara Appt Prasanth Layout Extension ITPL Road Bangalore
207997	Vyshnavi. B Badrinatha. B	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24492 11.05.09	# 5/126, Krishnadevaraya Rd.Hagari Bommana Halli, Bellary
207998	Wade Sagar Dilip Wade Dilip Dattatray.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25667 08.03.10	Nr. Rangarej Hospital, Gajendragad, Ron Tq, Gadag
207999	Wagh Bhupendra Vasantao Vasantao	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23957 13.04.09	Nilaya, Uday Housing Clny, Vidya Nagar (West), Haveri
208000	Wagh Prashant Pralhad Wagh Pralhad Ramrao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25207 09.10.09	# 19-04-622, MES Clny, Humnabad Rd, Naubad, Bidar
208001	Wagh Vijay Shivaji Shivaji Marutrao Wagh.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24528 12.05.09	# 10-2-310-13/A, Syndicate Bank Clny, Manvi Tq, Raichur
208002	Waghe Near Dipak Dipak Ganapat Waghe	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29474 24.05.12	Flat No 202, Shivaji Rd. Raje Complex, Nr. Panvel Tq, Raigad
208003	Waghmare Archana Jagannathrao Rafugar	BAMS University of Poona, Pune 1999	26971 16.11.10	#47, 15th Main, Munneshwara Block, Bangalore
208004	Waghmare KirankrLalappa W Lalappa Bhimarao.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2010	28542 07.09.11	C-39, Teachers Clny, Nr. Nalanda College, Aurad (B), Bidar
208005	Waghmare Vikas Digambar Digambar.V.Waghmare.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23709 02.04.09	Jail Clny, H.No. 8-9-72, Beside Walli Press, Bidar
208006	Waghmode Shweta Mayappa Baburao Waghmore	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29017 27.04.12	No 33, Adarsh Clny, Shahupuri, Satara
208007	Wahengbam Dibita Devi Wahengbam M Singh	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26743 02.07.10	C/o. Shushrusha Nursing Home, B.B. Rd, Yelahanka, Bangalore
208008	Wale Omkar Avinash Avinash Wale	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30531 26.06.13	?Om? Plot No-76, Phase No -2, Rama Udyan Miraj, Tal-Miraj, Sangli, Miraj
208009	Wali Amruta Ashok. Ashok Gurulingappa Wali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26263 23.03.10	Bedkihal Post, Chikkodi Tq, Belgaum
208010	Wali Vijaylaxmi Anil Kr.S.Shettar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24813 05.06.09	Belur Post, Badami Tq, Bagalkot
208011	Walke Priya Prabhakar Walke Prabhakar Tukaram	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28103 25.04.11	#83/1, Nr Virbhadeshwar Temple, Yaddur Post Chikkodi Tq, Belgaum
208012	Wandare Sagar Vithoba Wandare V Ganapati.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25062 18.07.09	Plot.No. 6544, Sec.No. 10, Naveen Building, Anjaneya Nagar M.M. Extn, Belgaum
208013	Wani Dipak Malgonda Malgonda Dattu Wani.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25158 30.09.09	M.B. Kalal Building, Nr Venkatesh TheaterMundargi Tq, Gadag
208014	Wankhade Prashant Jaedevrao Wankhade	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30552 15.07.13	Bhowate Layout, Behind Benoda School, Mahadev Khori Rd. Yeshoda Nagar, Amaravati,
208015	Wankhede Ashish Dnyaneshwar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	25134 25.09.09	Sanmeshwar Niwas, Housing Board clyLIG-24, Bidar
208016	Wasima Jagirdar Afsar Pasha Jagirdar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27303 23.03.11	KHB Clny, Nr. Indra Nagar, HIG 14, Bijapur
208017	Watharkar ShraddhaDnyaneshwar Dnyaneshwar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30041 16.04.13	Nalabanda Chowk, Kirana Bazar, Bijapur



		2011		
208018	Yadav AshokKumar Mangal Mangal Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26529 09.04.10	M.G. Housing Clny, Bailhongal Tq., Belgaum
208019				
208020	Yadav Ashok KumarHarinath Harinath.B.Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27132 17.03.11	C/o. SVM Ay. Medical College, Ilkal Tq, Bagalkot
208021	Yadav Gaurishankar Harikesh R Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30020 10.04.13	Chandrabali Yadav Chawal, Pumphouse, Room No. 13, Andheri East, Mumbai
208022	Yadav Gyanendrakumar Avadhinarayan Avadhinarayan B Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29542 28.05.12	Krishna Co-op Housing Society, Plot No. A-23, Ganesh Nagar, Mumbai Tq &
208023	Yadav Harikant Bharatnath Bharat Nath.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26226 23.03.10	KPTCL Clny, PB Rd, Ranebnnur Tq, Haveri
208024	Yadav KishoriAnand Rao Yadav A Rao Nivrutti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28990 27.04.12	Plot No.8, Chastali Clny, Degaon Pana Behind Janata Bank , Mide Satara At Post Taluk &
208025	Yadav Mithun Laxman Y L Maruti.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24142 22.04.09	Mruthunjaya Nagar, Bailhongal Tq, Belgaum
208026	Yadav Rahul Bajirao Yadav Bajirao Parshuram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24723 03.06.09	Plot.No.7, EL Bethel, Ramnagar, Nipani Post, Chikodi Tq, Belgaum
208027	Yadav Rajeshkumar Jainath C. Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28750 02.04.12	Jairam Mukadam Kee Chawal, SP Rd, Dharkhadi Dahisar East, Mumbai
208028	Yadav Ravi Ashok Ashok	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29578 12.06.12	Takari At Post, Walwa (Tq), Sangli
208029	Yadav Sapna Achhelal Achhelal D Yadav	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30171 25.04.13	A/4 604, Vedant Complex, Vartak Nagar, Thane (West)
208030	Yadav Vrishali Rajaram Yadav RTukaram.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24410 05.05.09	R.S. Hiremath Bldg, M.B. Datar Clny, Hospet Rd. Koppal
208031	Yadlapure Vijaylaxmi Y Nagshetty Veershetty.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25432 26.02.10	# 9-10-76, Rampure Clny, Mannali Rd. Bidar
208032	Yallappa Arjappa Mudgal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29891 20.12.12	At Chikka yaradihal, Post Amadihal, Tq Lingasur, Raichur
208033	Yallareddera Harish Reddy Y. Ranga Reddy.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25663 08.03.10	Arasanalu Post, Harapanahalli Tq, Davangere
208034	Yamuna Sanjeeva Shetty	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30587 30.07.13	Kallu Koppa, Maleshankara-SF, Shiregere Post, Shimoga Tq & ,
208035	Yamuna. G Girigowda. D.G	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28470 04.07.11	NGO's quarters, Hassan Rd.Arasikere Tq, Hassan
208036	Yashashree S Madhava Kamath	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30518 21.06.13	?Yashashree? H.No. 9-35-A, Mahalakshmi Nagar, Ambagilu, Tq &Udupi
208037	Yashashvini Ramachandra	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30419 28.05.13	Chandra Chaya, Surathkal, Mangalore, Dakshina Kannada
208038	Yashasvini. Y.C Y.K. Channabasappa.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24051 20.04.09	Srinagar Nilaya, 12th Ward, Hudagali Rd, Harapanahalli Tq, Davangere
208039	Yashaswini G Gopal Gopalakrishna G C	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	30294 08.05.13	Sri Ranga Vilasa, Guddethota (P), Koppa (T), Chikmagalur

		2011		(D), Koppa
208040	Yashaswini H R Raju	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30136 20.04.13	?Shri Gauri Nilaya?, D/No. 5555/B, 2nd Cross, Rakshnapuram, Tq &
208041	Yashaswini J Basavaraja J	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28777 11.04.12	# 1540, W No 6, Ujjini Rd, Kotturu Post Kudligi Tq, Bellary
208042	Yashaswini K.S Shivanna L	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30324 14.05.13	LIG 1st/16, Vijayanagara Extn., Krishnarajanagar (Tal) , Mysor ,
208043	Yashaswini. G Gundappa. D	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24829 06.06.09	Mylnayakana Hosahalli, Mylnakana HalliPost, Channapatna Tq, Ramnagar
208044	Yashawanth. B.N Nanjundaiah. B.N	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23977 18.04.09	# 9, PWD Quatres, Maranagere, Tiptur Tq, Tumkur
208045	Yashoda. L.G L.G. Mango Naik.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23712 02.04.09	# 509, Hebballi, Badami Tq, Bagalkot
208046	Yashodha BabaliDundappa Dundappa Yallappa Babali.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27518 28.03.11	Dharmatti At & Post, Gokak Tq, Belgaum
208047	Yashodha Yadahalli Hanumanth.R.Yadahalli.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24271 29.04.09	Hosaritti Post, # 555, Guttal Rd. Haveri
208048	Yashwanth Naik Shivappa.M. Naik	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26618 26.04.10	Telephone Exchange Office, Bagalkot
208049	Yashwitha Ramesh Ramesha Anchan	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30434 31.05.13	D.No. 2-83 (1), Dejjamma Compound, Bollur Koikude (Via), Haleangady Mangalore
208050	Yasmeen Jamkhandi Rafiq	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30166 25.04.13	Nr. Bus Stand, Saw Mill, Athani Rd. A/p Tikota, Tq &
208051	Yedage Yuvraj Vitthal Vitthal.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	23849 06.04.09	2199, Pognisbol, Nr Marathi School# 2, Mahadev Galli, Nipani Chikkodi Tq, Belgaum
208052	Yernalle RajshekharPrabhu Prabhu.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26471 31.03.10	Chalukya Nagar, Bijapur
208053	Yernalli Sandhya Sharanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29988 07.04.13	11th Cross, Nr. Bhavani Rice Mill, Vidyanagar Clny, Bidar
208054	Yeshwant Bhosale Vijay Bhosle.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24183 24.04.09	# 965, Neelgar Galli, Bailhongal Tq, Belgaum
208055	Yeswanth.U Umapathi	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26596 22.04.10	#9, 2nd Main Rd. R.K. Layout, Padmanabnagar, Bangalore South
208056	Yogesh Kundekar Megho.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26289 23.03.10	# 500, Ramdev Galli M.Vadagaon, Belgaum
208057	Yogeshwari Nagshetty Biradar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29960 06.04.13	Teachers Clny, Aurad B, H.No. 34, Tq- Aurad, Bidar, Aurad
208058	Yogish C B Channabasappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	30202 29.04.13	Chilukavadi (V) & (P), Kollegal (T), Chamarajnagar (D), Kollegal
208059	Yojna Naravi Shekhar Naravi.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24589 15.05.09	Purnachandra Nagar, Harady Post, Puttur Tq, Dakshina Kannada
208060	Yuvaraj Rajamane Namdev	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29397 21.05.12	Kempwad at post, Athani Tq, Belgaum
208061	Zafira Ummar.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore	26083 19.03.10	Kambalabettu House, Bantwal Tq, Dakshina Kannada

2009				
208062	Zaheerajamat A Nadaf Abdulsahab I Nadaf.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26001 19.03.10	# 6713/1, Kulkarni Plot, Indiranagar, Chikkodi Tq, Belgaum
208063	Zainuddeen MahammedUllal Pandith Mahammed Ullal	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29426 23.05.12	No 12-47-1, Nr. Alrkala Juma Majid, Ullal post Mangalore
208064	Zambare Smita Annasaheb Zambare A Jayvant.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24090 21.04.09	Tayikrupa Complex, Nr. Danamma Temple, Rabkavi
208065	Zange Prashant Sidramappa Z Sidramappa Basvanappa	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24242 28.04.09	Gouli Galli, Gajendragad Post, Ron Tq, Gadag
208066	Zanwar Sital Dattprasad Dattaprasad R Zanwar	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	28822 13.04.12	Main Rd Nr Bus Stand, Mantha Post, Jalna
208067	Zareena Banu. A Abdul Rahiman. A	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	25876 12.03.10	Khalander Nagar, Javagal Post, Arsikere Tq, Hassan
208068	Zeenat Kausar Raje Saheb Nadaf	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	26719 17.06.10	Plot No. 2, Ahamed Clny, Nr Ramnagar Bus Stop, Bijapur Tq. &
208069	Zingade ArchanaPrabhakar Lokhande Shivaji Shankar.	BAMS Univ. of Poona., Pune 1997	25120 14.09.09	Afzalpur, Nr Shantiniketan SchoolAfzalpur, Gulbarga
208070	Zinsel Carol Hermann Zinsel	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2011	29743 10.09.12	# 23, Avenue De La Gare, Vouvry, Switzerland Kvalais
208071	Zope Rakesh Anil Zopel Anil Nivrutti	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	27928 12.04.11	21st KM, Kanakapura Rd. Udaypura, B?lore
208072	Zulfi Rubiya. FI Mohammed Ismail	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2009	28319 25.05.11	#36, 4th Cross, 1st M.D. Block, Chamrajpet, Bangalore
208073	Zure Pritesh Bhalchandra Bhalchandra D Zure.	BAMS RGUH.Sciences, Bangalore 2008	24886 08.06.09	Rural Ayurvedic Medical CollegeBadami Tq, Bagalkot

**CENTRAL REGISTER OF  
INDIAN MEDICINE  
KARNATAKA  
PART-II-UNANI**

C.R. No.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN.NO & DATE	ADDRESS
29600	A. Shakeela Banu D. P. Azeezur Rahman	BUMS M.G.R. Med. Univ., Chennai 1994	1624 08-03-13	C/o City Clinic, No-1611, Hubli Road, Siri, Karwar
29601	Aansa Gayyoom Mazhar Oayyoom	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1411 30-04-10	R No.03, KCT Girl's Hostel, Islamabad Colony, Gulbarga Dist
29602	Aasiyaasmat Imamqasim Hulikatti	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1319 07-10-09	MIG-14-25, KHB Colony, J.M. Road, Bijapur Dist
29603	Abdu Subhan Ahamad Irshad Ahamad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1468 07-04-11	Marlur Adresiding Armanmanzil, 8thcross, Sadashiva Nagar, Melekote Road, Tumkur
29604	Abdul Gadir Masihur Rehman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1344 15-03-10	Maneen Suresh Layout 10th Cross Melelot Road Sadashiv Nagar Tumkur
29605	Abdul Hafiz Abdul Wahab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1253 15-05-09	Nr Ring Rd, Sadastin Nagar 6th Main, 4th Cross, Marlur, Tumkur-Dist
29606	Abdul Khader Khan Share Ali Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1651 06-06-13	#-962, 1st Main Rd, Chinnanna Layout, L.R. Bande Road, Kavalbyrasandra, R.T.Nagar, Bangalore

29607	Abdul Majeed Abdul Rasheed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1527 16-04-12	#5, 2nd Floor 5 <sup>th</sup> cross N G Palya, Bangalore
29608	Abdul Mazid Ansari Aliraza Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1386 30-03-10	Gulam Hussain Street Bagalkot Guest House Bijapur Dist
29609	Abdul Qader Jeelani S Chand Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1610 04-08-12	H No. 7-902/1, Naya Mohalla, Darga Road, Gulbarga Dist
29610	Abdul Raheem Khan Riyazuddin Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1492 02-06-11	C/o M.A. Hungund, Ataula Chauk J.M Road, Bijapur Tq & Dist
29611	Abdulsamad Salotagi Abdul Gani	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1615 - -	# 1086, Hameed Nagar, Navabag-12, Bijapur Dist
29612	Abida M M D Murtuza	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1383 29-03-10	# 70/2 A Nr Muthappa Compound Hali Main, Bannerghatta Road, Bangalore
29613	Abrar Hussain Abdul Gaffoor	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1465 07-04-11	# 176, 8th Cross, Gangondana Halli, Chandra Layout, Bangalore
29614	Abubakar Mulla Meerasab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1296 08-06-09	C/o M.A. Khatib Abu gas agencies, Bijapur Road, Sindagi Bijapur
29615	Adeeba Sagheer Sagheer Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1279 08-06-09	# 12/1, 5th Cross, Rahmat Nagar, Bangalore
29616	Afareen Tambe Maheboob	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1596 14-06-12	Nagur Colony, 3rd Cross, Behind Court, Sindagi-Tq, Bijapur Dist
29617	Afifah Ubair Abdul Waheed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1663 11-06-13	6-42/1 Muslim Chowk, Mominpura, Gulbarga Karnataka
29618	Afreen Fathima S K Faiazuddin Quadri	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1601 14-06-12	# 5-470/106/9 Islamabad Cly, Behind Al- Farooq Masjid, Gulbarga
29619	Afroz Fathima Fayaz Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1538 19-04-12	Husnashut, No-5/33, H Cross 3rd Main Bismillahwagar, Bannerghatta Road, Bangalore
29620	Afshan Anjum Shaik Abid	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1635 29-04-13	H.No. 14/581, Rajmohammed Complex, Main Rd, Shahabad, Gulbarga,
29621	Afshan Farheen Mirza Imam Baig	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1589 21-05-12	H No. 7-1202/10/B/1, Bilalabad, Bamboo Bazaar Gulbarga Dist
29622	Aftab Alam Nizamul Haq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1407 21-04-10	C/o A.M. Bagalkot(Advocate), Gulam House, Bijapur
29623	Afzal Pasha Abdul Rahim	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1549 19-04-12	1st Floor, # J-107, 4th Cross, T C M Rogan Road, Chalunadi Palya, Bangalore
29624	Ahamadi Firdose Sibgathulla Allias	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1380 29-03-10	# 29, 1st Floor 8th A Main Road BTM I Stage Guruppanpalya Bangalore
29625	Ahmed Urooj MudassirMd Ibrahim Khan Mohd Ibrahim Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1360 19-03-10	Tipu Sultan Unani Medical College Ring Road Milat Nagar Gulbarga Dist
29626	Aliya Firdous Abdul Razaq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1552 19-04-12	# 14-3-12, Near Makka Massid, Timmapur Shoralpur Yadgir Dist
29627	Almas Zakir Zakir Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1457 07-04-11	#21, 4th KHB Road, Bhuvaneshwari Nagar, R.T. Nagar Post, Bangalore
29628	Altaf Hussain Thokar Gh Mohd Thoker	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1387 30-03-10	Pathan Hameed Nagar Green Park, Navabag, Bijapur Dist

29629	Amat-ul Zainab Mohd. Yaseen Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 1981	1625 02-04-13	# 220, 4th Cross, Abdul Rahman road, Udayagiri, Mysore
29630	Ameen Baig Ismail Baig	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1568 19-04-12	# 37, 9th A Cross, Someshwaranagar, Jayanagar, 1st Block, Bangalore
29631	Amina Bi S.A. Afzal Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1291 08-06-09	No. 02, J. No. 1st StLubar Masjid Street, Shivajinagar, Bangalore
29632	Amina Thazin Ayaz Ahmed Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1551 19-04-12	#1750, 1st Main, 1st Cross, Beside Mosque, Shahid Nagar, Kolar Dist
29633	Amreen Saquib Mohammed Yousuff	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1654 10-06-13	# 457/B 1st B Cross Pipe Line Rd, Ilyasagar JP Nagar Post, Bangalore, Karnataka
29634	Amthul Azeeta M.K Inayath Ulla Shariff	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1456 07-04-11	# 63, 3rd KHB Road, Kakanagar, R. T Nagar Post, Bangalore
29635	Amtul Asma Mohdmoinuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1295 08-06-09	Nagar Baodi Garden, Kaman Khan Bodi Kaman, J.M. Road, Bijapur
29636	Angel Charles J. Charles Raja	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1373 29-03-10	# 292, 6th Main 12thCross, MSR Nagar, Mathikere Bangalore
29637	Ansari Mohd Ayub Mohdyaqub Mohdyaqub	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1614 06-11-12	Canck Company, Akbarlala Comp, Azad Nagar Chiragnagar, ghat koppa (w), Mumbai
29638	Ansari Zunaira VaquarAhmed Ansari Vaquar Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1266 15-05-09	7th Cross, 4th Main, Sadashivnagar, Tumkur-Dist
29639	Anwar Ahmed Khan Mansoor Ahmad Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1348 18-03-10	Gulam Hussain Street, Bagalkot Guest House, Bijapur Dist
29640	Aqueela Nausheen J Mohboobul Hasan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1305 08-06-09	No.5-408/4A/4, K.C.T Road, Khaja Colony, Gulbarga-Dist
29641	Arshiya Begum Nawab Jan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1260 15-05-09	# 12/4, Ittigge Anjinappa Lane, Pension Mohalla, Mysore Road, Bangalore
29642	Asfaque Ahmed Mustaque Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1575 21-05-12	Building No. 1 R. N. 11, 2nd Floor, E S Palanwala Rd, Byculla East Mumbai: 27, Maharastra
29643	Asha.S.B. Bhojaraj	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1394 01-04-10	#112, Bld No.12, Kengeri Satellite Town, Shirke Appt, K.S. Town,
29644	Ashfaque Ahmed Khan Abdul Rab Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1513 17-10-11	Nagarbowdi Plots, Near Hakim Chowk, J.M Road, Bijapur Dist
29645	Asiya Yasmeen Abdul Hai	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2012	1623 05-03-13	7-1202/56/KA, Near Ali Masjid Bagdad Colony, Gulbarga
29646	Asma Afreen Fatima Md K Ashrafuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1646 27-05-13	H.No. 19-2-11/34/93 Kalapather, Bilal Nagar, Hyderabad Andhra Pradesh
29647	Asma Anjum Mohd. Abdul Azeem	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1297 08-06-09	1st Floor, Premkiran Plaza, 5th Main Raod, R. T. Nagar, Bangalore
29648	Asma Anjum Mohammed Rafi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1627 10-04-13	H.No. 5-993/105, Mahboob Nagar Colony, Gulbarga
29649	Asma Begum Md Gulam A khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1522 16-04-12	H No 17-6-655 Bagh-E-Lashker Jung, Near Police Quarters, Oabeerpur, Hyderabad A P State
29650	Asma Parveen Late H Abdul Subhan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1545 19-04-12	#6, 6th Cross, Kempiah Block, J C Nagar, Bangalore

29651	Atiqurrahman Fazlurrahman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1583 21-05-12	74, Aishabai Chambers SofiyaZubair Road, 2nd Floor, R.No.57, Nagpur, Mumbai
29652	Avinash. R Ramaiah. D	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1247 05-05-09	# L 40, 9th Cross, L.N. Puram, Devayapark, Bangalore
29653	Ayesha Amreen Baig Mirza A R Baig	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1590 21-05-12	# 5-993/207/2B Hagarga 1stCross, Zubair Colony, Gulbarga Dist
29654	Ayesha Firdous Abdul Lateef	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	1325 27-11-09	# 16-105, Chand Bada, Shahabad At & Post, Chitapur Tq, Gulbarga Dist
29655	Ayesha Siddiqua Mohammed Ghouse	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1469 07-04-11	# J137, 5th Cross, Cheluwadi Palya, TCM Royan Road, Mysore Rd, Bangalore
29656	Ayesha Tahseen Abdul Nabi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1307 11-06-09	No. 6-1-1165, Noorahi Masjid Rd, Mehboobiya Sindhanoor-Raichur-
29657	Ayesha Taranum Abdul Jaleel	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1466 07-04-11	#40, 2nd main, 2nd cross, S.R.K. arden, Jayanagar, Bangalore
29658	Ayesha Tasleem Mohammed Akram	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1566 19-04-12	# 19-5-482/A/162/B/1, Najam Nagar Kishan Bagh, Hyoerabad Dist Andra Pradesh
29659	Ayesha Zeenath Syed Habeeb	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1473 07-04-11	#31/12, 1st floor, 7th B Main, BTM Layout, 1st Stage, Bangalore
29660	Azeem Bin Abdul Rub Hafeez Abdul Rub	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1643 22-05-13	12-2-417/c/10, Shenaz Enclave LIC Colony, Mehdiptnam Hyderabad Andhra Pradesh
29661	Badar Jahan Firdos H Hameed Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1580 21-05-12	# 34, Opp Vinay Kalyan Mantap, Shahinsha Nagar, Kolar Dist
29662	Badre Alam Nisar Ahmed Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1559 19-04-12	#111, Rahmatpur Shantnagar, NrMohammadiya Bhiwandi Thane
29663	Basavaraj Shinde Shrishail.S. Shindhe	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1430 28-12-10	Near D.C.C. Bank, Chadachan At & Post, Indi Tq, Bijapur Dist
29664	Bi Bi Javeriya Amjad Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1250 15-05-09	# 19, 3rd Cross, Nalbandwadi Mohalla, Ramanagaram
29665	Bi Bi Razeekha Amjad Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1661 11-06-13	# 19, 3rd Cross, Nalbandwadi Mohalla, Amanagaram Karnataka
29666	Bilal Ahmad Khan Aziz Ahmad Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1562 19-04-12	M Ahmed Zaid Saad MensionSuresh Layout, 10th Cross, Sadashiva Nagar, Dist
29667	Bushra Begum Md Iqbal	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1608 12-07-12	# 15-393/49 Millat Nagar Shahabad, Chitapur, Gulbarga Dist
29668	Bushra Islam Shamsh-Ul-Islam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1591 21-05-12	# 1-1456, Noor-Ul-Islam Camp, M S K Mill, Gulbarga Dist
29669	Bushra Sultana Syed S A Darvesh	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1586 21-05-12	# 13/1, 3rd Cross, Andanappa Block, Rahmath Nagar, RT Nagar, Bangalore
29670	Chelakala SrinviaseReddy Kesava Reddy	BUMS Bangalore Univ., Bangalore 2001	1666 15-07-13	# 209, 1st cross, Vidya Nagar Bommasandra Post, Anekal Bangalore Karnataka
29671	Chitra Priya M. H Hindaiah M	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1384 29-03-10	# 28, 7th Main 15 <sup>th</sup> Cross Subbaraju Layout Lakkasandra Bangalore
29672	Danish Omar Mohammed Ishaq	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	1426 25-10-10	#12, Davis Road, Arabic College Post, Office, Bangalore

29673	Dayananda Kabadi Ramachandra H. Kabadi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1429 25-11-10	#3021, Magadi, Janapriya Bharat Enclave, Appartments, Sunkadkatte, B?lore
29674	Divya S Selvaraj D	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1369 29-03-10	# 16, 4th Main Rd, Nanjarasappa Layout Nr. Canara Bank Colony Bangalore
29675	Fahad Unnisa Abdul Raheem	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1290 08-06-09	Zamde Galli Talikote, Bijapur-Dist
29676	Fahmina Nishath S. Liyakhat Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1320 14-10-09	Urammana Bailu, Bellary Road, 21st Ward Hospet Bellary-Dist,
29677	Faiz Juwariya Jaffar Faiz Jaffar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1631 22-04-13	1/408 White House, S.G. Barve Marg, Opp L-Ward, Kurla (West), Maharashtra Mumbai
29678	Faiz Saliha Jaffar Faiz Jaffar Abdullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1630 22-04-13	1/408 White House, S.G. Barve Marg, Opp L-Ward, Kurla (West), Maharashtra Mumbai-
29679	Fareeda Begum Chittargi Dawalsab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1553 19-04-12	# 557, Smig B Block-35, Yelahanka 4th Phase, Bangalore
29680	Farha Deeba Syed Shafiulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1594 21-05-12	# «, 1st Main, 1st Cross, Chinnappa Garden, Benson Town Bangalore
29681	Farhathjan .S Azeed Ahmed S.A	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1462 07-04-11	# 06, 12th cross, Munishwara Nagar Shampur Main Rd, R T Nagar, Bangalore
29682	Farheen Fatima Mahefuz bin sayeed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1567 19-04-12	H.No. 17-1-375/27/A/4/4. 1st Floor, Khalender Nagar, Hydrabad Andra Pradesh
29683	Farheen Taj Mohammed Mumtaz	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1542 19-04-12	# 2686, 5th cross, Nalbandwadi Mohalla Ramanagaram Dist
29684	Fariyadunnisa M A Raheem	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1585 21-05-12	# 3-213, Gowtham Nagar Colony, Patadieru, Hyderabad, Medal: 502319 Andhrapradesh State
29685	Fazeelath Mehdi Faqeer Syed Khundmtr	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1377 29-03-10	No-358, S-MStreet Channapatna Ramnagar-Dist
29686	Fazlul Mohsin Khan Abdul Subhan Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1523 16-04-12	# 9. 4-59 Hakeempet, Polichowki, Hydrabad, Andrapradesh
29687	Fazlur Rahim Mandewal Abdurrahim	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1626 10-04-13	Habib Manzil, R/o Tippu Nagar, Talikoti Village, Tq-Muddebihal, Dist-Bijapur, Talikoti Karnataka
29688	Firdous Begum Abdul Rasheed Mouzan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1461 07-04-11	# 146, Near Jammia Masjid, Manhalli, Bidar Tq & Dist
29689	Fouzia Begum Khaleelur Rahman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1452 06-04-11	L-139, Niglingappa Colony, 2nd Main Road, Rakhur Tq & Dist
29690	Fouziya Parveen Lahori Murtuliza	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1335 05-03-10	# 60, J.M.Road, Bijapur-Dist
29691	Furqan Ahmad Sami Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1574 21-05-12	Building No. 1 R. N. 11, 2nd Floor, E S Palanwala Rd, Byculla East Mumbai: 27, Maharastra
29692	Gadwal Laaliya Md Shafi Gadwal	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1564 19-04-12	F.No-2, Grale Residency S.No. 5015, Bhagyoday Nagar Kondhwa Pune Maharastra
29693	Gazala Firdose Moinuddin Riyaz	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1298 08-06-09	# 3393, 2nd Main Road, Kumandan Mohalla, Ramanagaram
29694	Geetha B.N Narasimhamurth R	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1372 29-03-10	# 28/1 1st Floor 3 <sup>rd</sup> Cross 13th Main Road, Vijayanagar Bangalore

29695	Gousia Begum K Basheer Ahmed K	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1314 20-08-09	2E/1, 24th Ward Near Urdu D.I.E.T Cowl Bazaar Bellary
29696	Hajira Shaheen K. Syed Kaleemulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1252 15-05-09	No. 3993, Kurubpet, Mulbagal- Tq, Kolar-Dist
29697	Heena Kausar.S. Syed Ashraf	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1397 01-04-10	#82, Court Road, Vinayaka Nagar, Doddaballapur Tq, Bangalore
29698	Hifsa Aman Amanulla Baig	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1382 29-03-10	# 13, 2nd Cross, 22nd Main J.P Nagar V th Phase, Vinayakanagar, Bangalore
29699	Huma Kausar Md. Merajuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1423 25-08-10	#3-10-4, Madwadi Math, Raichur Tq & Dist
29700	Husna Khanum burhan Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1544 19-04-12	14/15, 8th ?c? Main, New Guruppana Palya, Bangalore
29701	I M Anjum Anwarullah Khan Anwarullah Khan I	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1532 16-04-12	Nr Alfalah Urdu Primary School, New Nanded Naka, Latur Maharashtra
29702	I M Tabassum Anwarullah Khan Anwarullah Khan I	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1529 16-04-12	Nr Alfalah Urdu Paimary School. New Nanded Naka Sanath Nagar Latur Dist M H
29703	Ikhlas Ahmad Akhlaq Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1410 30-04-10	Near Ouba Madarsa, Islamabad Colony, Gulbarga Dist.
29704	Imamuddin Mulla Abdul Rouf Mulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1524 16-04-12	Main Road, Aimel Post, Sindagi-Tq, Bijapur-Dist
29705	Intesar Khan Abdul Waheed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1371 29-03-10	# 2265, 10th Cross, AMC Road KG Hallu Bangalore
29706	Iqbal Patel Khanawale Usman Patel	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1525 16-04-12	E.W.S 3 Bagalkot Road, Bijapur-Dist
29707	Irfana Jabeen Mahmood Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1362 19-03-10	H.No. 8-1305/201/103, Millaih Nagar B. Colony Ring Road, Gulbarga-Dist
29708	J.K. Sunitha J. K. Kalaiah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1374 29-03-10	# 2265, 10th cross, AMC Road K.G. Hally, Bangalore
29709	Jahan Ara A M.K. Khizar Mahmood	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1280 08-06-09	No. 284, 6th Cross, Siddiq Nagar, Mysore
29710	Javeriya Noorein Mohammed Ashfaq Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1543 19-04-12	# 85, Ward No.14, gaffer Khan Mohalla, Srinivasapur, Kolar
29711	Jayalakshmi. M Mudalagiri	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1268 15-05-09	# 125/11, 16th Main Road, I & C Layout, Vijayanagar, Bangalore
29712	Jeelan Pasha Abdul Faheem	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1656 10-06-13	#10, 30th ?B? Cross, 23rd Main Rd Tilaknagar, Jayanagar, Bangalore Karnataka
29713	K. M. Nagma Tabassum Md. Kamran	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1639 10-05-13	Village-Hussainpur Musalman, Post- Sahijna Hamzapur, Ambedkar Nagar UP
29714	K.M Sayara Bano Rais Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1496 02-06-11	C/o C.H. Bajantri, Gheverchand Nagar, Torui road, Bijapur Dist
29715	Kaisari Begum Barkat Ullah Ansari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1403 13-04-10	Shanth Building, #001, 10th Cross, Abigere Road, Near Post Office, Jalahalli (W), B?lore.
29716	Kaneeen Fatima Abdul Saleem Idga	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1361 19-03-10	H.No. 6-94, Khari Bowli Mominpure, Khuni Lawa Gulbarga Dist



29717	Kausar Unnisa Syed Azmath Ullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	1311 06-07-09	C/o AM Pathan, Jorapur Pet, Kumbar Galli, Bijapur
29718	Kazi Asma LotafAt Husain Latafat Husain Kazi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1255 15-05-09	4th Main, 7th Cross, Sada Shivnagar, Tumkur-Dist
29719	Khadija Zaheer Md Zaheeruddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1418 02-07-10	#12, DVIS Road, Bangalore
29720	Khan Anwarus AbdusSalam Khan Abdus Salam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1275 15-05-09	HMS UMC, Sadashiv Nagar, Marlur-Tq, Tumkur-Dist
29721	Khan Arif Md AbdulAziz Abdul Aziz Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1306 08-06-09	4th Cross, 6th Main, Sadashiv Nagar, Marlur P.O, Tumkur-Dist.
29722	Khan Md IrfanAyub Mohammed Ayub	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1254 15-05-09	Nr Ring Rd, Sadastin Nagar6th Main, 4th Cross, Marlur, Tumkur-Dist
29723	Khursheed Ali Md. Mustafa	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1401 09-04-10	Yaqubpura, Partapur Road, Basvakalyan Post & Tq, Bidar Dist
29724	Kolhar Tazeen Asharf Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1605 28-06-12	Hakeem Chowk, Nagar Boudi Plots, Bijapur Dist
29725	Kumudhavathi. M Munirajappa P	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1249 11-05-09	No. 27/1, 1st Cross, Lakkasandra, Bangalore
29726	Leena C.S G.T.Chandrashekharayya	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1256 15-05-09	# 179/A, Officers Model Colony, T. Dasarahalli, Bangalore
29727	Lubaba Tabassum Basheer Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1659 10-06-13	# 167 Begum Masjid, Mohalla Sira Taluk, Tumkur Dist Karnataka
29728	MD Yousuf Ul Islam MD Maheboob Miyan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1312 08-07-09	# 5-11, Near Base Opp.Khadi Bhandar Post, Chitguppa Tq-Humnabad, Dist-Bidar
29729	Mahammadhanif Nidoni Gulabsab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1258 15-05-09	# LAD, 3rd Floor, 9th Cross, Chowdeshwari Nagar, L.N. Puram, Bangalore
29730	Mahfuzu Rahman Fazlurrahman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	1309 26-06-09	Tippusultan Unani Medical College Millath Nagar Ring Road Gulbarga
29731	Mahmooda Zaheer Ahmad Belgami	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1526 16-04-12	# 5, 2nd Floor 8thCross, N G Palya, Bangalore
29732	Malik Asad Muhammed Aslam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1632 22-04-13	107, Manas Apartment, Boudhwada, Raigad, Distt. Maharashtra
29733	Mallikarium Hiremath Basavaraj Hiremath	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1261 15-05-09	# 1-97/A, Maski-Post, Lingasugur-Tq, Raichur-Dist
29734	Mamadapur Saba A Razzaq Abdul R Mamdapur	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1288 08-06-09	C/o Yasin Abbas mamdapurZamde Galli , Talikote, Bijapur-Dist
29735	Manihar Sadiya Makdum Md Ahmed Md Ahmed Manihar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1516 21-11-11	C/o Luqman Unani Medical College Behind Bus Stand, Naubagh, Bijapur Dist
29736	Manju.K. Krishnappa	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1419 12-07-10	#663, 7th Cross, 7th A Main Rd, Nagarbhavi 2nd Stage 9th Block, Bangalore Urban
29737	Manjunath B T R Thipperudraiah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1617 03-12-12	# 25/5, 14th Cross, Vijayanagar PipeLine, Near Tejas Nursing Home Bangalore
29738	Mansoor Ahmed Khaleel Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1274 15-05-09	# 447, Nr Taslimsha Darga, Shatinsha Nagar, Kolar Dist

29739	Manzoor Ahmed Basheer Ahamed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1294 08-06-09	D.P. Road, Molakal Muru, Chitradurga Dist
29740	Mariyam Jameela Madni Mehboob Ur Rehman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1572 21-05-12	Hussain Colony Shanti Nagar, Hakeem Chowk, J M Road, Bijapur
29741	Masarath Sultana Khaja Qamroddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1565 19-04-12	# 18-2-36/1/102, Ghazi Millat, Colony, Chandrayan Gutta
29742	Md Aqueel Ahmed Md Akmal	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1416 02-07-10	#36-216, Despande Street, Basavan Kalyan At Bidar
29743	Md Ashraf Khatib Mohammed Yusuf	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1470 07-04-11	C/o M.A. Khatib, Lecturer, Behind I.B, Sindagi Tq, Bijapur Dist
29744	Md Asif Naveed Md. Maslehuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1356 19-03-10	# 15/ 373/1/1, Millat Nagar, Old Shahabad Road Shahabad Chitapur-Tq, Gulbarga-Dist
29745	Md Imran Ansari Nizamuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1315 21-08-09	4th main 7th cross, Sadashivnagar, Tumkur
29746	Md Mueed Khan Md Moeen Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1537 16-04-12	Chhawani (Amodha), Chaqwari Village, Harraiya Tq, Basti Uttar Pradesh
29747	Md Rizwanuddin Farooqui Md Rafiuddin Farooqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1357 19-03-10	Shop No.-5-192/3, Nr Noor Bagh Roza Gulbarga Dist
29748	Md Shahid Khan Yar M Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1408 21-04-10	C/o A M Bagalkot(Advocate) Gulam House, Bijapur Dist
29749	Md Shareef Mohamed Nasmeer Mohamed Shareef	BUMS Univ. of Colombo, Sri Lanka 1999	1420 26-07-10	C/o Boys Hostel, National Institute of Unani Medicine, Magadi Road, Kottigepalya, Bangalore
29750	Md Shoeb Abdullah Md Abdul Sattar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1579 21-05-12	H.No. 5-993-244-A6, Makkah Colony, Ring Rd, Nr Water Tank, Gulbarga
29751	Md Vasi Tippu Anwar .A.B	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1285 08-06-09	# 36, 3rd main, 4th Cross Chinappalayout, K.B. Sandra, R.T. Nagar, Bangalore
29752	Md Waseem Khan Md Anees Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1324 27-11-09	D.P. Road, Kalgod Mohalla, Molakalmur Tq, Chitradurga Dist
29753	Md. Nawajoddin Md. Kareemuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1404 13-04-10	#29/101, Weaver's Colony, Tripuranth Basavakalyan, Bidar Dist.
29754	Md. Yunus Ahamad Hosildar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1607 12-07-12	# 7-37, Suncity, Prashant Nagar, Jagir Rajendra Nagar, Rangareddy Dist Andrapradesh
29755	Md. Zakiyoddin Md Kareemuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1402 09-04-10	#29/101, Weavers Colony, Basavakalyan Post & Tq, Bidar Dist
29756	Meharadiba Mohammed Ghouse	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1282 08-06-09	J-137, 5th Cross, Chewwadipalya, J.C.M Royan Road, Bangalore
29757	Mirza Tabish Beg Mirza Shakeel Beg	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1495 02-06-11	Suresh Layout, 10th Cross, Melekote Road, Sadashiv Nagar, Tumkur Dist
29758	Mishra Ajeetkumar Dinesh Kumar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1323 03-11-09	I.B. Behind Near Noorani Masjid, Sindagi Tq, Bijapur Dist
29759	Moazzam Irshad Irshad Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1530 16-04-12	Tirnai Khijipur-village, Pallia Khas Post, Khandwa, belthra Road, Ballia Uttarpradesh
29760	Mohammad Qasim Badruddin Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1634 29-04-13	# 308, ?A? Wing Lok Seva Co-operative Housing Society, 90ft Road, Dharavision, Mumbai

29761	Mohammad SadiqGalagali Chandpasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1349 18-03-10	# 1232/2, Shankar Nagar, Athani Tq, Belgaum Dist
29762	Mohammed Fazle Karim Ata Karim	BUMS BBA. Bihar Univ., Muzaffarpur 2000	1432 15-02-11	#60, 1st Cross, 1st Stage Kesere, Usmania Block, Main Road, N.R. Mohalla, Mysore
29763	Mohammed Hafeez Ali Mohammed Tahir Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1399 09-04-10	#1-4-407, Karnataka Clinic, Patel Wadi Street, Sindhanur PO & Tq. Raichur Dist
29764	Mohammed Salavddin Mohammed Imtiazuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1597 14-06-12	# 3-10-4, Jain Temple Road, Head Post Office, Beroon Quilla, Raichur
29765	Mohd Faisal Shakeel Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1647 28-05-13	Room 303, B-Wing, 3rd floor, Vsantrao Apt, Shadi Mahal Hall Rd, Amrut Nagar Mumbra Thane
29766	Mohd Farooque Mohd Idris	BUMS Delhi Univ., Delhi 2003	1308 20-06-09	H.No. A, Karnataka Educatin Trust Building, 2nd Cross 2nd Stage, Kurubarahalli, Bangalore
29767	Mohd Nadim Mohd Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1405 17-04-10	C/o Popullar Nurshing Home, Jain Temple Road, Shivaji Nagar, Bangalore.
29768	Mohd Shahbaz Alam Nizamuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1629 22-04-13	Sasta General Stores, Sarai Chowk, Dist-Ambekar Nagar, Up Jalapur
29769	Mohd Zakeer Ali Mohd Tavfeeq Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1598 14-06-12	# 18-2-43/3/A/72, G M Colony, Chamdrayan Gutta, Keshavgiri, Bandlaguda, Hyderabad
29770	Mohmadismajl Angadi Lalesab L Angadi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1612 29-09-12	C/o S A Nagar boudiBehind Naghan Teacher House Near Bidkema Bijapur
29771	Mohmmad Asad Akhtar Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1588 21-05-12	Renuka Hospital, Behind KSRTC Bus Stand, Koratagere Tq, Tumkur
29772	Mohmmad Shariq Ansari Sharafat Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1582 21-05-12	Moh Pasban, Past Jalalabad, Tehsil Najibabad, Bijhar-Dist Uttar Pradesh
29773	Mohsina Firdose .Y Mohammed Yunus	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1251 15-05-09	# 56/8, 5th Cross, 4th Main, Muneshwara Block, Pipe Line Rd, T- Dasarahalli, Bangalore
29774	Mubarkullah Abdul Mabood	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1301 08-06-09	C/o Yasin Mamdapur, Zande Galli, Talikote-Tq, Bijapur-Dist,
29775	Mufthaghir Ahmed S. Naseem Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1248 05-05-09	# L 40, 9th Cross, L.N. Puram, Devayapark, Bangalore
29776	Mujeebuddin Shaik Ladlay	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1313 08-07-09	# 4-601, Opp Govt PU College, M B Nagar, Bulbarga
29777	Munazza Firdose M.A Md Aslam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1460 07-04-11	#735, 1st cross, 1st Stage, Rajivnagar, Mysore Dist
29778	Muthyala VenkateswaraRao Ramaiah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1660 10-06-13	# 94/2, Begur Main Road, Hongasandra Bus Stop, Bangalore Karnataka
29779	Nadira Irfan Shaik Fathahulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1379 29-03-10	Old #13, 1st Main, 1st Cross, Appanna Block, R.T Nagar Bangalore
29780	Nafeesa Begam P P. Rafiq Basha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1570 19-04-12	# 12, 2nd Fl, 4th Cross, 5th A MainBhuwaneshwari Nagar, Sultanpalya, R T Nagar, Bangalore
29781	Nagma Nikhath Mehboob Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1474 07-04-11	# 45, Ambedkar Medical College,l Main Road, 3rd Cross, Basavanagar, Bangalore

29782	Nalima Begum. A. Syed Sunnu	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1406 17-04-10	#172, Anwar Layout, Lottee Board Colony 2nd Stage P.O. Kadagarahalli, Bangalore
29783	Namreen Nikhath Syed Anwar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1463 07-04-11	# 177/1, 9th Cross, 3rd Main, Benson Town Post, Williams Town, Bangalore
29784	Naseema AkhtarMaradagi Abdul Rauf Maradagi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1602 14-06-12	Nagarboudy Area, J M Road, Bijapur Dist
29785	Navya K M.M. Kaveriappa	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1455 07-04-11	# 56, 16th Main, Maruthi Housing Co-operative society, Vijayanagar, Bangalore
29786	Nazia Sultana Syed Nasir	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1595 21-05-12	# 603, 1st Cross, 1st Main, R K Hegde Nagar, A C Post, Bangalore
29787	Nazia Usmoni Md Usmon Zakir	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1569 19-04-12	?Usmoni Ghar?Dargha Shahi, Mohalla, Kolar Dist
29788	Naziya Sultana.A. Ameer Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1396 01-04-10	E 61/1, CMC Office Road, Viratnagar, Bommanahalli, Bangalore
29789	Naziya Tarannum KhanMuzaffer Ali Khan Muzaffer Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1515 28-10-11	C/o Ziya Ur Rahman Sir, Malakote Post Nadvi, Dananagar, Tumkur Dist
29790	Neetanjali Mahadevappa	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1367 22-03-10	# 4-601/8A, M.B.Colony Gulbarga Dist
29791	Nikhath Fathima Kaleemullah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1267 15-05-09	# 3/1-1, Central Street, South Cross, Neelasandra, Bangalore
29792	Noor Amina Md Ghouse	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1662 11-06-13	#J 137, 5th Cross T C M Royan RdCheluvadipalya Mysore Rd Cross, Bangalore Karnataka
29793	Noorain S.Aleem Ulla Sharief	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1395 01-04-10	#15, 1st Main, 1st Cross, Krishna Nagar, Tumkur Dist
29794	Nusrath Ara Khanum I.K Imam Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1284 08-06-09	# C-17, 2nd Main, 3rd Cross, T-Dasarhalli, . Bangalore
29795	Nusrath Begum Abdul Razak	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1400 09-04-10	#6, MIG 1st Phase, KHB Colony, Vakalgi, Gulbarga Dist
29796	Osmani Sabahat FatemaMir Asef Ali Mir Asef Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1573 21-05-12	Medical College Rd MohammadiyaColony Followers Quarters Ambajogal, Beed, Dist. Maharashtra
29797	Patil Shaesta BegumSikander Taj Patil Sikandar Taj	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1428 03-11-10	C/o A.S. Patel, Patel Building, Opp Ibrahim Roza, Bijapur.
29798	Rafiya Souran K.R. Sanaulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1259 15-05-09	# 12/17, MuttonMarket Road, Hoskote, Bangalore
29799	Rahath Afza Quraishia Sajjad Ali Qurashi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1453 07-04-11	# 88/B, Opp Massid-E-Kausar, 2nd Cross, 2nd Main, Kausarnagar, R T Nagar, Bangalore
29800	Rahima Banu Mohd Safi Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1587 21-05-12	# 7-2-49/5/45 D N M Colony, Sanathnagar, Hydrabad Andra Pradesh
29801	Rais Ahmad Samiulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1355 18-03-10	#55, LangarBazar Galli, Bijapur Dist
29802	Raliya Sulthana .M W/o Abdul Rasheed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2005	1490 19-05-11	Old Masjid Street, Sirigeri-Post, Siruguppa-Tq, Bellary-Dist
29803	Rasool Dudekula Siddaiah dudekula	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1555 19-04-12	# 9-34-35, Erukala Colony, Bestavari Peta Prakasam Dist AP

29804	Rehmani Irfan Ahmed Gaffar Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1286 08-06-09	Zamde Galli Talikote, Bijapur
29805	Reshma Sultana Md Fiyaz Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1425 06-10-10	#24/1, 7th Main Road, 16th Cross, Padrayanpura, B?lore
29806	Rizwanullah Nizamuddin Nizamuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1273 15-05-09	4th Main, 7th Cross, Sadashivnagar, Tumkur-Dist
29807	Rukhsana Sayed Tasawar Hussain	BUMS Delhi Univ., Delhi 1996	1622 26-02-13	H. No.-4-601/70E, Bandanawaz Colony Beside Baquer's Function Hall, Ring Road, Gulbarga
29808	Sabiha Naaz Md. Saleem Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1649 04-06-13	H.No. 18-3-244/1, Ibrahim Manzil, Bilal Colony, Chidri Rd, Bidar Dist Karnataka
29809	Sadeeya Taskeen Abdul-Mujeeb	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1278 08-06-09	# 324, 3rd Cross, Indira Nagar, Anwar clny Bhadravati, Shimoga-Dist
29810	Sadia Tazeez Moinuddin Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1368 29-03-10	# 282 Groun & Floor 13th Anwar layout venkateshpuram Bangalore
29811	Sadiya Noor Ul Basar Abdul Wajid	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1392 01-04-10	#5, 20th Main Road, J.P.Nagar, 5th Phase, Bangalore
29812	Sadiya Siddiqui Abdul Malik Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1539 19-04-12	# 3-12-83 Beroonquila Raichur
29813	Sajida Begum.S. Late. Ysmaail Shariff	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2002	1431 10-01-11	#M-26, 4TH Cross, II Stage, Anwar Layout, Shampur Main Road, Bangalore
29814	Sakeena Nishath Shafi-ullah-khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1541 19-04-12	Sira Road, Gandhi Nagar, Pavagada Post office, Tumkur Dist
29815	Salma Chaush Ahmeddin Chaush	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1336 05-03-10	E/30, UKP Colony, Narayanpur-Post Surpor Tq. Gulbarga-Dist
29816	Salma Habib Shakir Habid Shakir	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1293 08-06-09	H. No. -2, solapur Road, KHB Colony, Ghatage Layout, Bijapur
29817	Salma Khanum I K. R. Ismail Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1653 07-06-13	#887, Opp. Elahi Masjid Noor Nagar, Kolar, Karnataka
29818	Sameena Anjum.S.M. Md. Ghouse	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1415 02-06-10	#1-7-55, Goal Market, Station Area, Raichur Dist
29819	Sameena Bano Abdul Rawoof	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1281 08-06-09	# 12/3, 10th Cross, 2nd Main Rd Valmiki Nagar, Mysore Rd Kasturba Nagar- P.O., Bangalore
29820	Sameena Parveen Hakeem Kama L S Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1467 07-04-11	# 244, 5th Cross, R.K.Hegde Nagar, Bangalore
29821	Sameena Taj. A	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1547 19-04-12	# M-37, 1st Floor, E-Street, 3rd Cross, Arokiyamma Layout, Bangalore
29822	Samreen Fatima S K Faiazuddin Quadri	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1599 14-06-12	H No. 5-470/106/9, Islamabad Colony, Gulbarga Dist
29823	Samreen Sulthana R Nizamuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1657 10-06-13	# B21/376 Sunni Chowk Bastigudi Back Rd Arsikere Hassan,
29824	Sana Afreen Shahajan Galagali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1637 28-03-13	House No. 26/70, Guttipet Mohalla, Shahapur-Tq, Yadgiri-Dist, Karnataka, Shahapur
29825	Sana Tazeen Fatima Md N Javeed Maniyar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1317 02-09-09	H.No. 2-5-46/4/1, Kot Tallar Raichur At/Post Raichur

29826	Sandeep Yadav R Rajpal Yadav	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1271 15-05-09	# 237, 8th A Cross, 3rd Block, HBR Layout, Bangalore
29827	Savanur Saleha Basheer Ahmed	BUMS M.U.H.S., Nashik. 2008	1621 26-02-13	Diddi Oni, Near HSF Dargah Indi Pump, Old Hubli, Dharwad
29828	Sayedasaba Begum Qureshi Sayed M A Quershi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1556 19-04-12	# 1931/1, Hastimpeer Dargah, Station Road, Bijapur Dist
29829	Shaba Zahera P.J Mir Javed Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1650 06-06-13	# 131/A, Junigeeri Street, Periyapatna, Dist: Mysore, Karnataka
29830	Shabana Zamrud Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1370 29-03-10	#19, 2nd Main 4th Cross Valmiki Nagar, Bangalore
29831	Shabana Awati Nazeer Ahmed Awati	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1593 21-05-12	A B Mujawar Nr Bus Stand, Karajagi(Nilgar) At and Post, Akkalkot Tq, Solapur Dist, Maharashtra
29832	Shabana Kovser Rasheed Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1581 21-05-12	# No. 65A, 3rd Cross, Haji Nagar, Ramanagaram Dist
29833	Shabana Rohi Md Liaquat Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1330 22-01-10	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulbarga
29834	Shabhantaj K K. Khaleel Basha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1310 29-06-09	D.No. 31, K Cross, Bismillah Nagar, Bangalore
29835	Shagutta Yasmeen Fiyaz Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1546 19-04-12	# 705, (2)opp Ablikatte, 3rd Cross, Labour colony, Mandya
29836	Shah Abrar Ahmed Nazir Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1263 15-05-09	Sadashivanagar Ring Rd, Near HMS College, Mallur-Post, Tumkur-Dist
29837	Shahana Parveen Shaik A Bin Ibrahim	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1648 04-06-13	H.No. 7-4-57, Rohellea Galli, Nr Dargapura, Fort Rd Bidar Dist, Karnataka
29838	Shaheen Banu Inamdar Mohd. Hameeduddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1276 08-06-09	No. 6-353, Batli-Alawa, Mominpura, Gulbarga-Tq & Dist
29839	Shaheen Fatima Md Ismail	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1485 26-04-11	# 7-964/1/70 M, Gesudaraz Colony Behind jawahar-E-Hind School, Gulbarga Dist
29840	Shaheen K M. D. Khadeer	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1287 08-06-09	Mount Carmel Convent Hing School Alstom Colony, Shahabad, Chittapur, Gulbarga
29841	Shaik Abdul Nayeem Shaik Abdul Azeez	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1655 10-06-13	#25/3, 9th main, 3rd cross, M;uneshwara Block, Matadahalli, R.T. Nagar, Bangalore
29842	Shaik Aslam M Sab Shaik Mahmad Sab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1512 17-10-11	Nagarbowdi Plots, Near Hakim Chowk, J.M Road, Bijapur Dist
29843	Shaik Asma Zahara Zulfikar Zulfikar Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1303 08-06-09	C/o Late B.J Chattarki, Advocate Kaji Colony, Near Badi Kaman, Bijappur
29844	Shaik Bintul Islam Dastagee & B Mujawar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1528 16-04-12	#84, Nagwarpalya, C V Raman Nagar, Bangalore
29845	Shaikh Ajj Ahmed Makbul Makbul Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1300 08-06-09	C/o Basheer Ahmed, D.P. Road, Malakalmuru-Tq, Chitradurga-Dist
29846	Shaikh Raafe Rafiahamad Rafiahamad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1628 22-04-13	1st Floor, Room No. 2 Near Railway Station, Tarapur Road, Boisar (West), Maharashtra, Boisar
29847	Shaikh Taskeen Mujeeuddin Shaikh Mujeebuddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1322 23-10-09	#6/777, Rangeen Masjid, Gulbarga

29848	Shaikh Yasmin A Karim Abdul K N Md Shaikh	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1272 15-05-09	4th Main, 7th Cross, Sadashivanagar, Tumkur-Dist 572105
29849	Shakila Banu Alla Bakash	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1458 07-04-11	S.N. Manzil, 38/2, 1st cross, ITI Layout, Vijinapura, Bangalore
29850	Shama Khaiser Shaik Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1540 19-04-12	# 841, Amvarpetet 1st Cross, Nr D C C Bank Rd Pakirwad Kolar
29851	Shamshad Ahmad Mr. Khurshed Ahmad	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1366 20-03-10	Tipu Sultan Unani Medical College Ring Road Millat Nagar Gulbarga
29852	Shazia Niaz Niyaz Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1459 07-04-11	# 4339, Janapriya Height Appt.4th Block, 4th Fl, Malasandra Hessergatta Bangalore
29853	Shazia Sulthana Abdul Gaffar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1381 29-03-10	# 2842/7, Vitoba Temple St. K.L.NGowda House Bestnerpet Doddaballapur
29854	Shushma Yadav Rajpal Yadav	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1424 15-09-10	#237, 8th A Main, HBR Layout, III Block, Bangalore
29855	Siddiqua Begum ShamsalIslam Shamsul Islam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1511 29-09-11	C/o HMS Unani Medical College 2nd Stage, Ring Road, Sadashivnagar, Tumkur
29856	Siddique Ejazur Rehman Abdur Rehman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1299 08-06-09	C/o Yasmin Mamdapur, Zande Galli, Talikota Tq, Bijapur-Dist
29857	Siddiqui Fazla Zainab Md Taiyab Mohd Taiyab Siddiqui	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1584 21-05-12	# 303/A, Minar Complex, Insha Nagar, Shadi Mahal Hall Road, Amrut Nagar, Thane
29858	Siddiqui Irfan Ahmed Abdul Kalam	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1613 09-10-12	E-3 301, Lokudyan Kalyan (W), Thane Dist, Maharashtra
29859	Siddiqui Md Irfan Shahid Ali Siddiqui Shahid Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1652 07-06-13	1048/11, Shanti Nagar, Tal: Bhiwandi, Dist: Thane, Bhiwandi Maharashtra
29860	Sidiq Ur Rahman Khan I.R. Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1391 01-04-10	#117/2, 6th Cross, Vidyaranya Nagar, Magadi Road, Bangalore
29861	Sumayya Khanam Md Sadiq Uddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1534 16-04-12	# 7-7-7, Adilabad(Ap) Bhoktapur, Adilabad Andra Pradesh
29862	Sumayya Kouser Abdul K Timmapuri	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1378 29-03-10	# 33, Poultry Form compound, Devasandra Road, K.R Puram, Bangalore
29863	Sumera Anjum Mohammed Rafi	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1619 28-12-12	5-993/105, Mahboobnagar Colony, Gulbarga (AT) Bulbarga (Tq & Dist)
29864	Suveba Taranum Mohammed Hyath	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1464 07-04-11	# 109, 3rd cross, karisandra, kadrinahalli cross, bana shankari, Bangalore
29865	Syed Abdul Salam Syed Nazeer Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1554 19-04-12	#460, Ward-16, Nr Ansari Masjid, Dr Zakeer Hussain Mohalla Srinivasapura Tq, Kolar Dist
29866	Syed Arfat Ali Syed Ahmed Ali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1509 29-09-11	# 8-31, Near Old TMC Office, Chitguppa Humnabad- Tq, Bidar Dist
29867	Syed Juned Ahmed Ali S smail Syed Ismail	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1327 04-01-10	Tipu Sultan Unani Medical College Gulbarga Dist
29868	Syed Waheed Ur Rahman Late Syed Meer	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1550 19-04-12	Sonnavadi (v), Mulbaual Tq, Lolar Dist
29869	Syeda Amreen Fathima Patel R Sayed Ismail	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1558 19-04-12	FS-03-30, Azad Road, Opp Charminar Massid, Srinivasapur Kolar Andra Pradesh

29870	Syeda Anjum Farah S.M. Baba	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1269 15-05-09	# 40, 2nd Floor, Pillana Garden 3rd Stage, Opp. To KEB P&T Colony Bangalore
29871	Syeda Asma Firdose Syed Jaffer Saheb	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1265 15-05-09	# 190, 7th Cross, Ilyasnagar, Saralli Gate, Bangalore
29872	Syeda Atiya Nuzhat Syed Abubaker Jalal	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1636 30-04-13	Home # 5-993/253, Mecca Colony, Ring Road, Gulbarga-Tq & Dist, Gulbarga Karnataka
29873	Syeda Azher Fatima Syed Nooruddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1517 16-12-11	# 5-992/26/C/6A, Yadullah Colony, Gulbarga Tq & Dist
29874	Syeda Hadiya Bano Syed Ashraff	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1571 21-05-12	# 487, Madina Chowk Cross, Daira, Channapatna, Ramnagaram
29875	Syeda Hajiya Banu Syed Ajmal	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1472 07-04-11	# 5, 1st Cross, Jayanagar 1st Block, Someswarannagar, Bangalore-560011
29876	Syeda Humera Banu Syed Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1304 08-06-09	5-408/7, Khaja Colony, Gulbarga-Dist
29877	Syeda Jameela Begum Syed Khaja Hussain	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1326 10-12-09	#5-408/2B, Bibi Roza Degree College, Gulbarga Tq & Dist
29878	Syeda Kashifa Banu Syed Khundmir	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1376 29-03-10	# 373, Kirgaval Malvalli Taluk Mandya Dist
29879	Syeda Nazneen Quadri Syed Nawab Quadri	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1514 28-10-11	# FS 483 Shant Nagar, Jewrgi At Post & Tq, Gulbarga Dist
29880	Syeda Raheem Unnisa Syed Ahmedali	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1557 19-04-12	# 19-3-659, Kumarwadi, Misrigunj, Hydrabad Dist-500005 Andhra Pradesh
29881	Syeda Sameena Kouser Syed Mujeeb Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1375 29-03-10	# 310, At harem Exth Gopala, Dist Shimoga
29882	Syeda Sana Syed H Bakhtiyari	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1417 02-07-10	#192, 7th Ward, Kamalapur At & Post, Hospet Bellary
29883	Syeda Tahseen Farah S.M. Baba	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1454 07-04-11	# 487/18 B, Yadgar Mohalla School, Bawasaheb, Channapatna Post & Tq, Bangalore Dist
29884	Tabasum makandar Husain B Makandar	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2006	1521 16-02-12	# 740/c ward no. 5, Bihind Nalband Masjid Mangoli Cross, Bijapur
29885	Tahameena S G Azhar Ahmed A	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1548 19-04-12	# 104, 3rd Cross Chowdeshwari Nagar Laggera, Bangalore
29886	Tahera Banu B Chattarki Bandgisab	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1328 16-01-10	Nagar Boudi Garden Badi Kaman Road Bijapur
29887	Tajunisa Jabeen Sharf-Ur-Rahman	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1427 29-10-10	C/o Luqman Unani Medical College, #12, Naubag, Bijapur Dist
29888	Tanveer Fatima Md Zaheeruddin Ahmed	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1609 12-07-12	# 7-5-113, Station Road, Tandur Post, Ranga Reddy- Dist Andhrapradesh
29889	Tanzeem S S. Server Basha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1668 03-08-13	6-137, G. Jaffar, Hussain Gundlur Street, Madanapalli Chittoor Andhra Pradesh
29890	Tashreef Alam Abdul Majeed Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1592 21-05-12	# 146, Parsauni, Rudrpur Sivnath(Laxmipur) Parsavni, Maharajanj U P
29891	Tasneem Anwer Anwer Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1491 02-06-11	Fathima Manzil, 60 Feet Road, Upparahalli, Tumkur Dist



29892	Thasmiya Tabassum Sadiq Pasha	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1658 10-06-13	# 6, 2nd Cross Pemme Gowda Rd J.C. Nagar, Bangalore Karnataka
29893	Touseef Ashrafi Syed Shafiulla	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1270 15-05-09	# 2/3, 1st Cross, 1st Main, Chinnappa Garden, Benson Town Post, Bangalore
29894	Umme Nuzhat Gulam Mustafa	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2010	1600 14-06-12	H No. 5-408/5C/1/A, Madina Colony, Roza ?B? Gulbarga Dist
29895	Umme Sadiya Rais Ahmed Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1262 15-05-09	# 12, 2nd Cross, 1st Main, J.C. Nagar, Bangalore
29896	Umme Salma Abdul Inayath	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1277 08-06-09	No. 128, 5th Ward, Yelahanka, Bangalore
29897	Venugopal Nallabothula N. Venkataiah	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2007	1321 20-10-09	Venu Health Care Centre, 10th cross, bommanahalli post, Bangalore
29898	Vijayashree. M.H. Manjunath.G.H.	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1413 14-05-10	Mirza Bajavanc, Mutton Market, Hiriya, Chitradurga Dist
29899	Wbna Parveen N K.M. Nooruddin	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1283 08-06-09	# 29, 2nd Main Rd, 1st Phase Manjunath nagar, Rajajinagar, Bangalore
29900	Yasmin Lingasur Mehboob Lingasur	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2008	1318 06-10-09	Shaikh Colony, Allapur Gate Road, Bijapur Tq & Dist
29901	Zubair Shafi Mohd Shafi Deen	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2009	1471 07-04-11	C/o M.A. Hungund, Attaullah Chouk, J.M. Rd Bijapur Dist: 586101
29902	Zubeda Anood Ahmed Ali Khan	BUMS RGUH Sciences, Bangalore 2011	1664 12-06-13	47/1, 2nd Floor, 3rd Main, 4th Cross S.R.K. Garden, B.G.T Main Road, Bangalore